

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

४५२७

क्रम संख्या

काल न०

खण्ड

२०.३० २१/११/२०२१

३

**MUNI ŚRĪCANDRA'S
KAHA-KOSU**
(An Apabhraṃs'a Text of the 11th Century)

Edited by

Dr. H. L. Jain, M.A., LL.B., D.Litt.
Professor & Head of the Department
of Sanskrit, Pali & Prakrit,
University of Jabalpur.

General Editors :

Dr. P. L. Vaidya
Dr. A. N. Upadhye
Dr. H. C. Bhayani

PRAKRIT TEXT SOCIETY
AHMEDABAD-9.

Published by :
Dalsukh Malvania
Secretary,
Prakrit Text Society
Ahmedabad

Price Rs. 30/-

Available from :

1. **Motilal Banarasidas,**
Nepali Khapra, Post Box 75, Varanasi.
2. **Chaukhamba Vidya Bhavan**
Chawk, Varanasi.
3. **Gurjar Grantharatna Karyalay**
Gandhi Road, Ahmedabad-1
4. **Saraswati Pustak Bhandar**
Ratanpole, Hatkhana, Ahmedabad-1.
5. **Munshiram Manoharlal**
Nai Sarak, Delhi.

Printed by :
Amritlal Parwar
Singhai Printing Press
Jabalpur, M.P.

प्राकृत ग्रंथ परिषद् ग्रन्थाङ्क-१३

मुनि-सिरिचंद-विरहयुत

कहकोसु

सम्पादक

डॉ. हीरालाल जैन, M.A., LL.B., D Litt.,

संस्कृत-पालि-प्राकृत आचार्य व विभागाध्यक्ष, जबलपुर विश्वविद्यालय

जबलपुर, म. प्र.

प्राकृत ग्रन्थ परिषद्

अहमदाबाद

विक्रम संवत् २०२५]

[ई. सन् १९६९

प्रबंधक—

दलसुख मालवणिया,
सचिव, प्राकृत ग्रंथ परिषद्
अहमदाबाद

मूल्य रु. ३०

—: प्राप्तिस्थान :-

१. मोतीलाल बनारसीदास
नेपाली खपरा, पो. बा. ७५, वाराणसी.
२. चौखम्बा विद्याभवन
चौक, वाराणसी.
३. गुजर ग्रंथरत्न कार्यालय
गांधी रोड, अहमदाबाद-१
४. सरस्वती पुस्तक भण्डार
रतनपोल, हाथीखाना, अहमदाबाद-१
५. मुंशीराम मनोहरलाल
नई सड़क, वील्ली

मुद्रक—

अमृतलाल परमार
सिचई प्रिन्टिंग प्रेस,
मढ़ाताल, जबलपुर, म. प्र.

**मुनिश्रीचन्द्र विरचित कथाकोश की
अनुक्रमणिका**

पृष्ठ

१. आदर्श प्रति के प्रथम पृष्ठ का छायाचित्र	1-12
2. General Editorial	1-12
३. प्रस्तावना	१-११४
(१) कथाकोश की आदर्श प्रति	१
(२) कथाकोश के कडवकों की संख्या	२
(३) कथाकोश के कर्ता	३
(४) कथाकोश का रचना-काल	४
(५) कथाकोशकार के आश्रयदाता	५
(६) 'न' ओर 'ण' के प्रयोग का विवेचन	६
(७) कथाकोशके विषय का आधार	९
(८) कथाकोश में उद्धृत भगवती आराधना (मूलरालना) की गाथायें पाठान्तरो सहित	११
(९) कथाकोश में उद्धृत अन्य प्राकृत गाथायें	१४
(१०) कथाकोश में उद्धृत संस्कृत पद्य	१६
(११) कथाओं की भग० आराधना के गाथांकों सहित, हरिषेण कृत कथाकोशसे तुलनात्मक सारिणी	१९
(१२) कथा-सूची-५३ संधियों में वर्णित कथाओं का कडवकों के क्रमानुसार संक्षिप्त परिचय	२७-११४
४. कथाकोश का मूल अपभ्रंश पाठ	१-५३७
५. ग्रंथकर्तुः प्रशस्तिः	५३८



General Editorial

The text of the *Kathākosa*¹ (in Apabhraṃśa) by Śrīcandra is edited here, for the first time, by Professor Dr. H. L. Jain from a single Ms., the only one known to us so far. It is a paper Ms. measuring 37 by 14.5 cms. and containing 178 folios written on both the sides, the first page of the first folio being blank. There are some 15 lines on a page and each line contains about 55 to 60 letters. It is written in uniform Devanāgarī hand with black ink. The number of Kaṭavakas on a few opening pages are rubbed with ink chalk. The paper has fatally absorbed the ink, and the written portion of most of the folios (excepting the last 40 or so which are intact) is brittle and broken too here and there. Dr. H. L. JAIN has now got this Ms. duly repaired with transparent cloth pasted on both sides of the folios in the National Archives, Delhi. Prior to this repair, the MS. had to be very carefully used lest its folios might crumble, while they were being handled.

According to the concluding *lekhaka-prāśasti* in prose, this Ms. was copied at Surat in Samvat 1783 (=A.D.1726). It was prepared at the instance of Devendrakīrti, the successor of Dharmacandradeva, the Bhaṭṭāraka of Karanja (*Āryaramjaka-pura-vāsi-bhaṭṭāraka*), of Kundakundānvaya Balātkāragana, Sarasvatī-gaccha and Mūlasamgha. The cost of transcription was defrayed indirectly by the nun Pāsamatī (*āryikā-śrī-Pāsamatī-datta-vittena*). It is interesting to note that the Bhaṭṭārakas of Karanja called themselves Malayakheda-simhāsanādhisvara indicating thereby that they had some connection with the line of monks at Mānykheta, modern Malakheta,² near Gulbarga, Mysore State.

This Ms. came in the hand of Dr. H. L. JAIN as early as 1923, through the kindness of Śrī Virasena Bhaṭṭāraka of Karanja, while he was engaged, during that summer vacation, in preparing a catalogue of Sanskrit and Prākṛit Mss. in the collections at Karanja (Dt. Akola, Maharashtra). Details about it were published in the *Catalogue of Sanskrit and Prākṛit Manuscripts in the Central Provinces and Berar*, by R.B. HIRALAL, Nagpur 1926. The entry (p.630) stands thus: 'No. 7063. Kathākosa. Author.-Śrīcandra. Subject-Dharma. A collection of moral stories in Apabhraṃśa language. Owner.-Balātkāragan Jain mandir at Karanja (Akola district)'. In the Introduction (pp 49-51), some observations on its contents, some extracts illustrating the author's use of Bāṃśastha, Samānikā and Duhadau metres and the geneology of the author (based on his *prāśasti* extracted on pp.725-27) were given. Śrīcandra having been a contemporary of Mūlarāja, and there being two kings of this name, it was conjectured that he lived at the time of one of these, 'very probably of the first' who reigned from A.D. 941-996.

Whatever information about Śrīcandra and his *Kāthakośa* is subsequently published during the last forty years or so by various scholars is derived directly or indirectly only from this Ms.³ No other Ms. has come to light so far.

Lately another Apabhramśa work of Śrīcandra, namely, what is called *Ratnakaraṇḍa-śāstra*,⁴ but really the title being *Damaṣaṇa - kaha - rayana - karaṇḍaya* (*Dkrk*) (=Darśana - kathā-ratna-karaṇḍaka), has come to light; and it is not published as yet. Five Mss. of it are reported to be in the Āmera Bhamdāra, Jaipur; and we get in that Granthasūci (pp. 164-5) the concluding *praśasti*. Śrīcandra's *praśasti* is in Sanskrit in the *Kāthakośa* (*Kk*), but is in Apabhramśa in *Dkrk*; both of these clearly show that it is the same Śrīcandra that is the author of both the works. The details are complementary; and when they are put together, we learn a good deal about the monastic ancestry and contemporaries of Śrīcandra.

In the first part of the *Prāśasti*, verses 1-10, Śrīcandra gives some details about the family with which the composition or ceremonious reading of his *Kk* was connected. In the country of Sūrastha (perhaps a back formation of Soratha, Sk. Saurāstra), in the town of Anahillapura (mod. Anvad, 3 miles from Pattan in Gujrat), there was one Sajjana, of the Prāgvāta family, who was a legal advisor (*dharmā-sthānasya goṣṭhīnak*) of king Mūlarāja. He had a virtuous and generous son Kṛṣṇa by name whose sister was Jayanti and whose wife was Rānū. By his wife Rānū, Kṛṣṇa had three sons, Bijā(-pāla), Sabana-pāla and Sādhadeva; and four daughters; Sirī, Śrīgaradevi, Sundū and Sokhū.⁵ Sundakā (i.e., Sundū) was very much devoted to Jinadharmā. It is by the sons and daughters (*santānena*) of Kṛṣṇa this *Kk* was got (read and) explained for their spiritual benefit.

It has been pointed out by Dr. H. L. JAIN in his Hindi Introduction that the reading *nīdrānvaya*, in the pearly garland of which Kṛṣṇa was like a prominent jewel, is obscure and possibly stands for Nīnānvaya or Nīnyānvaya. Nīnā (originally from Śrīmālā or Bhīnna-mālā) was a great ancestor of Vimāla who established the Vimāla-vaṣaṭi at Ābu. He was a contemporary of Vanārāja who, in admiration of the valour and intellectual gifts of his son Lahara, invited them both to Anahillavāda Pāṭana, on founding it in 745 A.D.;⁶ 'He was a Śrāvaka of Prāgvāta family. His portrait, along with those of seven others, is carved on a slab at Ābu. Vastupāla and Tejapāla too belonged to the Prāgvāta Anvaya. From the *Prāśasti* it is clear that Sajjana also belonged to the Pṛāgvāta-vaṃśa and his family stayed in Pattan; so it is natural that Nīnā was a common ancestor for all of them. It is interesting to note that one branch of Nīnā's successors were of the Śvetā-

mbara sect and another of the Digambara sect. Obviously these sects had congenial relations: and the members of the same family were free to follow one Saṃpradāya or the other. Both of them worship the same Tirthaṅkaras and utter the same Namaskāra mantra: the only difference was which contemporary Teacher they held in reverence.

Śrīcandār's monastic ancestors, as well as their contemporaries, can be worked out, with the help of both the Praśastis (that of *Kk* in Sanskrit, verses II f.) and that of *Dkrk* in Apabhraṃśa which are quite supplementary in their details. In the Kundakundānvaya and Deśigāṇa, there was a great monk Śrīkīrti who was an embodiment of religion itself. His successor was Śrutakīrti, a famous supporter of the Saṃgha, who was honoured by (Śrī-)Gāṅgeya. After him came Sahasrakīrti who was well-known for his merits, austerity and learning and who was honoured by various kings such as Gāṅgeya(ḍeva), Bhojadeva etc.⁷ He had five pupils: Devakīrti, Vāsavamuni, Viracandra, Udayakīrti and Suḥacandra.⁸ The first or the prominent pupil of this Vir(y)acandra is Śrīcandra, the author of *Dkrk* and *Kk*.

Gāṅgeya and Bhojadeva are obviously the kings of those names from the Kalachuri dynasty of Dāhala and the Paramāra dynasty of Malwa. According to the evidence available, they were not only contemporaries for some years but had also come into conflict with each other. Probable period, namely, c. 1019-1038 and c. 1000-1055 are assigned respectively to Gāṅgeya and Bhoja;⁹ so roughly speaking Sahasrakīrti must have been alive between A. D. 1020-40. Our Śrīcandra is a grandpupil of Sahasrakīrti. Sajjana was a contemporary of Mūlaṛāja of Aṇahillapura who is to be identified with Mūlaṛāja I (A. D. 942-994) of the Chaulukya dynasty of Gujarat.¹⁰ Śrīcandra refers not only to Sajjana's son Kṛṣṇa but also to his grand sons and grand daughters who are sufficiently grown up: it is at their request that he composed the *Kk* after grasping the work of a *pūrvācārya*, i. e., some earlier saint-author.

Śrīcandra wrote his *Dkrk* in the town of Śrīmāla when king Karṇa was ruling, in the year 1123 of the Vikrama Saṃvat, i. e., A. D. 1066. Śrīmāla is the same as Bhīnamāla, mod. Bhīnmāl¹¹ in Jodhpur. Two contemporary rulers of the name Karṇa are known: 1) One the son of Gāṅgeyadeva Kalachuri¹² who made alliance with Chaulukya Bhīma I of Gujarat against Bhoja, the learned king of Malwa, about A. D. 1055. This Karṇa came to the throne some time between A. D. 1034 and 1042 and reigned upto 1073. 2) Bhīma of the Chaulukya family of Gujarat annexed Bhīnmāl and threw its ruler, the Paramāra Kṛṣṇarāja into prison some time c. 1060 A. D. He handed the sovereignty to Karṇa in c. A. D. 1064.¹³ Karṇa was succeeded by Jayasīṃha Siddharāja in c. A. D. 1094. Possibly Karṇa's rule extended over Bhīnmāl, annexed

by his father, for some years. It is to this second Karṇa, the son of Bhīma, that Śricandra is referring. This Karṇa is mentioned by Devendra in his commentary on the *Uttarādhyayana* in Samvat 1141, i.e., c. A.D. 1084¹⁴ and it is during his reign that a palm-leaf Ms. of the *Yogaśṭisamuccaya* was prepared at Pattan in Samvat 1146, i. e. A.D. 1089.¹⁵

The monastic ancestors of Śricandra and Śricandra himself had certain rulers and dignitaries as their contemporaries, and they can be shown in a tabular form :

1. Śrīkīrti	Mūlārāja (c. 942-994)	Sajjana
2. Śrutakīrti	Honoured by Gāṅgeya (c. 1019-38)	
3. Sabasrakīrti (c. 1020-40)	Honoured by Gāṅgeya (c. 1019-38) and Bhojadeva (c. 1000-1055)	
4. Viryacandra		Kṛṣṇa
5. Śricandra	contemporary of Karṇa (c. 1064-94)	Three sons and four daughters of Kṛṣṇa

In the colophons of *Dkrk* Śricandra prefixes his name with Paṇḍita upto 16 Saṁdhis, but from 17 to 22 Saṁdhis he has a suffix Muni or Munindra. In the *Prasāsti* he describes himself as Budha or Paṇḍita. At the very beginning of *Kk*, however, he speaks of himself as Muni; and throughout the work he calls himself a Muni and Sūri (in the *Prasāsti*). That means he accepted *mūni-dīkṣā* or renunciation after he wrote a major portion of *Dkrk*.

The *Dkrk* was completed at Śrīmāla or Bhīmal in 1066 A.D. when Karṇa was ruling; and then, after Śricandra became a monk, he undertook and completed the *Kk*, a few years latter, for the family of Sajjana (especially his sons and daughters, among the latter Sundū being highly devoted to Jinadharmā). The Prāgvāta family to which Sajjana belonged had close ties with both Śrīmāla and Pattan; so as a monk Śricandra came to Pattan. The date of the composition of *Kk* can be assigned to the beginning of the last quarter of the 11th century A.D., say roughly about or a little after 1070 A.D. as Dr. H.L. JAIN puts it. This suits very well with other dates known and recorded above.

Among the two works of Śricandra we do not know much about the contents of the *Dkrk*. It has got 21 Saṁdhis, and it seems that it contains tales connected with *Samyag-darśana*, something like the fore-runner of the *Samyaktvakaumudī*. The details from its *Prasāsti* are already discussed above.

The next work of Śrīcandra is the *Kāhakośa* or the *Kāthākośa* edited here. It has in all 53 Saṁdhis, and the total number of Kaṭavakas comes to 1025. The number of Kaṭavakas in different Saṁdhis varies from 10 (in Saṁdhi 31) to 32 (in Saṁdhi 41). It is written in Apabhramśa with different metres and interspersed with quotations in Sanskrit and Prākṛit. The number of Saṁdhis does not correspond to the number of stories and the latter are often vivisected by the Saṁdhi division, for instance the 12th Saṁdhi is completed just in the middle of the story that is being narrated.

In the opening Kaṭavakas Śrīcandra broods over the fleeting character of worldly life and its attractions. He modestly says that he does not know much, but it is his deep devotion towards religion that induced him to undertake the difficult task of composing *Kāthākośa* on which saint-poets of yore had tried their hand. He announces, almost in the manner of Purāṇas, that the *Kāthākośa* has descended from Jinendra, i.e. Mahāvīra to Gaṇadhara, and through Gaṇadhara to Sreṇika; Śivakoti-munindra narrated it in the present age, the *pañcama-kāla*; and from Teacher to Teacher (*guru-kramaṇa*) it has reached the author who is narrating it here.

The Gāthās of Mūlārādhana, the study of which paves the path of heaven and liberation, contains so many nice and interesting stories. Śrīcandra, as he puts it, would first interpret the Gāthās and then give the stories connected with them. Without the proper context nothing would be intelligible: it is necessary, therefore, that the stories should be given only after the Gāthās are explained. A painting presupposes a wall; so also the narration of a story must be preceded by an understanding of the Gāthā on which the story is based. Taking that line (*Sivakoṭi-muṇim* etc) literally, one would be tempted to suggest that some *Kāthākośa* was composed by Śivakoṭi; but after reading the whole Kaṭavaka together, one would not be justified in attributing any work like that to Śivakoṭi. The knowledge of a fund of tales was possessed by Śivakoṭi who consequently has referred to many stories in the Gāthās of *Mūlārādhana*, or as it is popularly called, the *Bhagavatu Ārādhana*.¹⁶ To begin with Śrīcandra explains its first two Gāthās; and on the second he gives the tales of Bharata etc. in Apabhramśa. He picks up only those Gāthās on which the stories are to be illustrated, explains their literal meaning in Sanskrit, and then gives short and long tales in Apabhramśa. Possibly he complains against his predecessor/s that he/they did not give these Gāthās, but narrated only the stories: in a way his is a commendable procedure, but he has not stuck to it upto the end of his work. As far as Saṁdhis 43, the Gāthās of *Mūlārādhana* are given and explained at the beginning of every story, but in the remain-

ing 10 Samdhis they are not quoted. This will be clear from the Table given by Dr. H. L. JAIN in his Hindi Introduction.

Śricandra tells us, at the beginning of his work, that the *Kathakośa* was composed by many gifted saint poets in the past. Then in one of the verses in his Praśastī (No. 19) he tells us that at the request of the pious (*bhavya*) he studied (lit. understood) a work of an earlier Ācārya, and then composed neatly (*samyak*) this fine *Kathakośa*. This clearly indicates that he had a specific *Kathakośa* of an earlier Ācārya before him. This is no other than the *Kathakośa* (which later on came to be labelled as (*Bṛhat-Kathakośa*) of Harisena who is called an ācārya in the concluding colophon. Further, Śricandra's veiled protest against some predecessor/s of his who gave the tales without specifying the Gāthās of the *Mūlārādhana* suits very well in the case of Harisena and his *Kathakośa*.¹⁷ Lastly, Harisena composed his *Kathakośa* in Saka 853/ Samvat 989, i.e., A.D 931-2, that is, nearly 140 years before Śricandra wrote his *Kk*. A comparative study of both these *Kathakośas* shows that Śricandra is writing with Harisena's work before him. There is a remarkable agreement in the sequence of stories adopted by both of them.¹⁸ Whenever the stories are common—and their number is pretty large—the basic contents are identical in both, even with common words and expressions. Harisena is more exhaustive in giving details about pre-births and after-births and sub-stories. Almost in every case Śricandra's tales look like summaries of those given by Harisena. Śricandra omits, at times silently and at times with specific remarks, some of the stories found, according to the corresponding sequence in the *Kathakośa* of Harisena. Śricandra's *Kk* does not show stories Nos 73, 79, 83-4, 102-9, 123, 125 and 149 of Harisena.¹⁹ With regard to No. 73, Śricandra plainly says that Yaśodhara's tale is too well-known to be given (*atrāthe Yaśodhar ākhyānam kathate, suprasiddhatvāt na likhitam*); and with regard to Nos. 83-4, he says that the stories of *Bharata* and *Ramayana* are endless. Thus these stories were present in his source, otherwise such remarks become meaningless. These tales are actually present in the *Kathakośa* of Harisena.

There are a few other considerations which indicate that Śricandra might have used, in addition to the *Kk* of Harisena, some more sources including perhaps some commentaries on the *Bhagavati Ārādhana*. From the *Kk*s of Prabhācandra and Nemidatta,²⁰ it appears that some tales were connected with Gāthā No. 2 of the *Bha. -Ārādhana*, but that Gāthā is passed over by Harisena. Śricandra, however, illustrates *uddhotana* (both *laukika* and *lokottara*) referred to in that Gāthā by the tales of Bharata and Jitāśtru for which Harisena has no counterparts. Obviously Śricandra has some additional, earlier sources before him for these. Śricandra's

Kathakośa (ŚKk) and Harisena's *Kathakośa* (HKk) show important phonetic differences in some of the proper names; and these are impossible if ŚKk was solely indebted to HKk. For instance: ŚKk has Jasahara, Viśaṃbhara, Donimamta, and Kuccavāra for which HKk has Yaśoratha, Viśamdhara (No. 5), Tonimam (No. 54) and Kūpakāra (No. 95.) respectively. Then we may compare some of the quotations found in HKk and ŚKk in different contexts. Namely, HKk 54. 17--18 and ŚKk 11. 17; HKk 57. 518--9 and ŚKk 20. 20; and HKk 143 37 (39); and ŚKk: śakyam eka-sahasrena etc. Some of these readings show wide differences which cannot be explained if Śricandra followed only Harisena. Some of them are major differences. With Śricandra all these are quotations, because they occur in the body of an Apabhramśa text; and if Śricandra took them from Harisena, he would not change them, because he is quoting them. Some of the verses are not correctly presented and till the original sources are detected, it is difficult to say who is correctly quoting them. The divergences may be explained thus. Both Śricandra and Harisena are indebted to a common source, so far as some quotations are concerned. Perhaps Śricandra quotes them as they are. Harisena, however, may have been required to retouch them, because some of them are to form a part of his running Sanskrit text and are not necessarily quotations. It is seen elsewhere²¹ that Amitagatī also rewrites in this manner some of the Sanskrit verses which stood as quotations in the Prākṛit *Dhammaparikkhā* used by him. There is at least one instance where Śricandra's quotation is nearer the original than that of Harisena: for instance, HKk 57. 531 and ŚKk 20 21. This quotation comes from the *Bha. Āradhanā* (No. 682, Sholapur ed.) where the reading is *jo mado jīvo* and not *kuṇat jo kalam*. It is a good indication, though not a conclusive evidence, because it is a Prākṛit quotation. To conclude, it is sufficiently clear that Śricandra has used HKk; and further, he appears to have used some additional sources, some of them possibly common with those of Harisena, in composing his Apabhramśa *Kk*.

Though the Ms. of ŚKk was known since 1923, no other Ms. has been discovered in the last 40 years during which many new Apabhramśa works have come to light. Some years back, this Ms. was kindly lent to me by Dr. HIRA LAL JAIN; and he allowed me to keep it with me as long as I wanted it. I wrote a paper on it.²² Further it proved of great value to me in my study of the *Bṛhat-Kathakośa* and its relation with the *Bha. Āradhanā*. The folios of this Ms were so brittle that I felt that this work should be published at an early date. There was no point in waiting for some other Ms. any more. I urged, therefore, Dr. HIRALALJI to edit this from a single Ms. Any other younger scholar would not have had the confidence of editing it from only one Ms. Today though many

scholars are coming forth to discuss about Apabhramśa, very few are inclined to edit Apabhramśa texts many of which are still lying in Mss. The text presented by this Ms. is quite good for all practical purposes. The *Āk* of *Hariseṇa* is already printed, and it is quite helpful in understanding *ŚĀk*. Lastly, there could not have been a better choice than Dr. H. L. JAIN to edit this text in view of his vast experience of having edited a number of Apabhramśa works of different authors. We are grateful to him for giving us an excellent edition of the *ŚĀk* despite limited Mss material at his disposal. The students of Apabhramśa literature, Jaina Kathās in particular and Indian folklore in general will ever remain indebted to him in this context.

As the text of *ŚĀk* is edited from a single Ms., dated Samvat 1783, or A.D. 1726 and written in Surat (Gujarat), the editor had to face the problem²³ about *n* or *ṇ*, initial, medial and duplicate while presenting this text. This Ms. obviously follows the orthographical tradition about *n* or *ṇ* prevalent in Western India and laid down in the Pākṛit Grammar of Hemacandra. Dr. HIRALAJI's observations²⁴, in this regard, may, be broadly summarised here.

The works in Apabhramśa and those in Prakrit, in general, show a good deal of irregularity in the use of *n* or *ṇ*. Expert opinion holds that cerebral sounds are not found in any other languages of the Indo-European family. In the earlier phases of Vedic language, its use is scarce but goes on increasing later. It is inferred, therefore, that it is due to the influence of languages of Nisāda, Drāviḍa people of India. Even the change of *ta*-class to *ta*-class in Sanskrit is restricted to some cases. But the cerebral sounds are more prevalent in MIA languages like Pālī and Prakrits. It has not been possible to formulate precise rules about the use of *n* or *ṇ* in these languages. The old Mss. of the Ardhamaṅgadhī canon show this uncertainty about *n* or *ṇ*²⁵ but the editors have followed the rules of Hemacandra in fixing their text. These very rules are generally followed in editing Jaina Prakrit works.²⁶ In other Prakrit poems like the *Gāhāsattasāi*, *Setubandha*, *Gauḍavaho*, *Lilāvāi*, *Kaṁsavaho* etc. the rule of the *Prākṛta-prakāśa* of Vararuci is followed and *ṇ* is used for *n* in all the positions.

It is rather lately that some Apabhramśa works have been critically edited and published; but for most of those editions more than one Ms. is used. Almost every editor has noted the irregularity in the use of *n* or *ṇ* in the Mss. Dr. H. JACOBI edited for the first time the *Bhavisattakāhā* (Muncheu 1918) and *Sanatkumāracaritam* (Muncheu 1921). He formulated a rule for using *nn* or *ṇṇ* depending on the dental or cerebral nasal in the basic Sanskrit word: for instance, *kanyā* = *kannā* *kanyā* = *kannā*. In the Glossary of the latter, there are nearly 168 words with initial *n*, but it is only *ṇu* (= *nanu*), having *ṇ* initial, that occurs thrice or four times.

In the Glossary of the *Kumārapāla-pratibodha* (Hamburg 1928) edited by Dr. L. ALSDORF there are nearly 150 words with initial *n*, but only two words with initial *n* namely, *naī* and *nāṅa*. On the other hand, the situation is almost otherwise in his edition of the *Harivaṃsapurāṇu* (Hamburg 1936) : its glossary records only *nr* and *nrā* with initial *n*, and all other words have initial *n̄*.

In the Introduction to the *Bhavisayattakāḥ* (Baroda 1923), Dr. GUNE observes that the use of initial *n* and double *nn* is an Ardhamāgadhī speciality and Apabhraṃśa has nothing different about it. He holds the view that in Apabhraṃśa the use of *n* or *n̄* (in different positions) is irregular and optional, and it is futile to find a rule from the illustrations noted.

In the editions of the *Jasaharacarū* (Karanja 1931) and *Mahāpurāṇu* (Bombay 1937 f) of Puṣpadanta brought out by Dr. P. L. VAIDYA *n̄* is used every where without any exception. The same pattern is followed in the editions of the *Paramātma-prakāśa & Yogasāra* (ed. A.N. UPADHYE Bombay 1937) and the *Poumacarū* of Svayambhū Parts I-III (ed. H. C. BHAYANI, Bombay 1933 ff.) as well as in Dr. H. L. JAIN'S edition of *Nāya-kumāracarū* (Karanja 1933), *Saraya-dhamma-dohā* (Karanja 1932), *Pāhuḍadohā* (Karanja 1933), *Karakamācarū* (Karanja 1934, Varanasi 1954), *Sudāmsanacarū* (in Press), *Mayanaparājaya-carū* (Varanasi 1962), *Sugandha-dāśamī-kathā* (Varanasi 1966).

It has to be noted in this connection that in the Glossary of the *Prākṛta-vyākaraṇa* of Hemacandra edited by Dr. P. L. VAIDYA (Poona 1928, & 1936) there are nearly 200 words with initial *n* of which more than 50 are Apabhraṃśa words and nearly 100 words with initial *n̄* of which only five Apabhraṃśa words with initial *n̄* could be detected, namely, *nam*, *nari*, *nih*, *nānu* and *nīlāhi*. Dr. VAIDYA has observed thus: '..... Prākṛit grammarians of the so-called Western School are not unanimous with regard to the change of *n* to *n̄*. This has resulted in a state of chaos and confusions in Mss., and also in Modern editions. I would suggest the following course in this respect. If the Prākṛit work to be edited is a Jaina work, keep initial *na* if the word can be traced to Sanskrit, and change medial *na* to *na*. Monosyllabic words like *nam* for *nanu* should be regarded as Deśī words, but *nūnam* for *nūnam* may have initial *n̄*. In the case of non-Jaina Prākṛit works, have *na* for *na* everywhere. (*Prākṛit Grammar of Trivikrama*, p. xxi Intro., Sholapur 1954). The reasons for differences of opinion among the grammarians, as stated by Dr. P. L. VAIDYA, are like these. According to Bharata (*MŚ.* 18. 12) *n̄*, initial, medial and conjunct in Sanskrit words, is changed to *n* except in some local dialects (e.g., Paiśāci). Likewise Vararuci (*Prākṛta-prakāśa*, II. 42) lays down that *n̄* is changed to *n* everywhere. But as against this Hemacandra allows that initial *n̄* may be optionally changed to *n̄*. The same is the prescription of Trivikrama (I. 3. 52-3). Caṇḍa is perhaps an

earlier grammarian ; and he has to say only this much: *ta vargosya ca- $\{a-$ vargau* (16) along with some illustrations. Thus we have two opinions of grammarians: one, that everywhere n is necessary changed to η ; and the other, that intervocalic n is changed to n but in the initial and in the duplicate, it remains unchanged.

In this connection another opinion of Hemacandra deserves our attention. In his *Deśi Nāmamālā* (BSS ed. p. 208), he states that a Deśi word with initial n is impossible or does not exist; that his Sūtra *vādau* (i. 229) refers only to such Prākṛit words as are derived from Sanskrit, and hence it does not refer to Deśi words at all. This clarification of Hemacandra indicates that the non-Aryan languages which influenced the Aryan languages had a preponderance of cerebral sounds; and this confirms the view of modern philologists that the Indo-Aryan owes its cerebral elements to non-Aryan languages and dialects.

The substance of the various view may be put in this way: 1) The intervocalic n is necessarily changed to η , there is no difference of opinion on this. 2) The presence of n or η , in a conjunct group, should be decided from its Sanskrit counterpart. 3) Nothing can be definitely stated about initial n or η . This has to be decided on the strength of older Mss. In Western India the tendency to retain initial n is stronger, and Hemacandra and other grammarians have accepted it optionally.²⁷

There is only one Ms of *Śākā*; the author lived in Pattan in Gujarat and the Ms., which is later than Hemacandra, is copied in Surat. So it was thought proper to retain initial n and duplicate nn .

Dr. HIRAIAL JAIN is one of our leading text critics for Prākṛit and Apabhraṃśa. He has really saved the *Kathākōśa* of Śrīcandra from oblivion by editing it so ably from a single and dilapidated Ms. He has not only enriched the published Apabhraṃśa literature, but also obliged the students of folklore. On behalf of the Editorial Board of the Prākṛit Text Society I record my sincere thanks to him for allowing us to include this edition in the Series of the Prākṛit Text Society.

Kolhapur

26-1-69

A. N. Upadhye

1. It is also spelt *Kathākōśa*.
2. For details about Mānysakheṭa, see the Intro pp. 21 f. of *Mahāpurāṇu* of Puspadanta, Vol. III (Bombay 1941) by Dr. P.L. VAIDYA; also *Kannada Sāhitya Parishatpatrike*, 26. 2, December 1941.
3. H.L. JAIN: Apabhraṃśa Literature, *Allahabad University Journal*, Vol. I, pp. 157-85, Allahabad 1925; Apabhraṃśa bhāṣā aurā sāhitya, *Nagari Pracārini patrikā*, Vol. IVX, 1-4. M. WINTERNITZ: *A History of Indian Lit.*, II, p. 543, Calcutta 1933. A.N. UPADHYE: *Bṛhatkathākōśa* (Bombay 1943 Intro. 59 f.; Śrīcandra and his Apabhraṃśa Kathākōśa,

Bhārata Kaumudī Vol. II, pp. 1005-1016 Allahabad 1947. H. KOCHHADA *Apabhraṃśa Sahitya* (Delhi 1957), p.p 348 f. PARAMANANDA JAINA : *Jainagrantha-prāśasti-saṅgraha* (Delhi 1963), pp Intro. 61 f. R.S. TOMAR : *Prākṛta aura Apabhraṃśa Sahitya* (Allahabad 1964), p.p 132-3.

4. *Āmera- Śāstra- bhaṅḍāra- Grantha- Kī sūctī*, ed. K. KASLIWAL, Jaipur 1948. Five Mss. are reported on p. 121. Then the *prāśastis* are given on pp. 164 f, possibly based on two Mss. One of them is said to be copied in Samvat 1640, but none of the five Mss. gives this date. It is not clear whether this is an additional Ms. The extracts are not carefully presented. Then a Ms. called *Ratnakaraṇḍa-śrāvākācāra* is reported in the Bhaṭṭārakīya Śāstra-bhaṅḍāra, Nagaur (See *Anekānta*, V., pp. 399 In the *Jaina Grantha-prāśasti saṅgraha*, part II (Delhi 1963), Pt. PARMANANDA gives some extracts (pp. 7-9) from the two works of Śrīcandra. It is not stated from what Mss. these are copied. The title of the second work is given *Rayaṇakaraṇḍa-sāvayāra* (*Ratnakaraṇḍa-Śrāvākācāra*), but it is not found in the extracts given. The passages are very indifferently printed; and they differ in crucial readings from the extracts given by the *Āmera Granthasūctī*, noted above.
- 5 It is interesting to note that some of the names are Prākṛitic.
6. JAYANTAVIJAYAJI : *Holy Ābu* (Translated into English by Dr U. P. SHAH) Bhavnagar 1953, pp 22f., 42, 81.
7. If Śrīcandra is self-consistent, he states first how certain king or kings honoured some Teacher and then gives the name of the latter, in that case Śrutakīrti was honoured by Gāṅgeya (as in the *prāśasti* of *Dkrk*) and Sahasrakīrti was respected by both Gāṅgeya and Bhoja (as stated in the *prāśasti* of *Kk*).
8. The readings in both the sources are so badly presented that one should treat these names as tentative. Dr. HIRALALAJI reads Surendra for Śubhacandra.
9. *The History and Culture of Indian People*, Vol. V. (Bombay 1957), pp. 61 f., 66 f. Most of the dates are taken from this source. Minor differences are noticed in other sources;
10. *Ibidem* Vol. IV (Bombay 195), pp. 103 f.
11. On this town and its connection with Jainas and Jainism, see my Intro. of the *Kuvalayamālā*, p. 1.
12. *History and Culture* etc, noted above, Vol. V. p. 63
13. *Ibidem* p. 74.
14. L. B. GANDHI *Aitihāsika Lekhasaṅgraha* (Gujarati), p. 118, Baroda 1963.
15. M.D DESAI. *Jaina Sūhityano Itihāsa* (Bombay 1633), P. 219.
16. About *Mūla-* or *Bhagavati Ārādhanā* and its relation with various *Kathakośas*, see my Intro, *Bṛhat-Kathakośa* (Bombay 143), Intro. pp. 47 ff. 72 ff.

17. *Bṛhat Kathākośa* Singh: J. Granthamā'ā, No. 17, Bombay 1943.
18. See the Table given in the *Bṛhat-Kathākośa*, noted above, Intro. pp. 72 ff.
19. See the Table given in the Intro. of the *Bṛhat-Kathākośa*, and that given by Dr. H. I. JAIN in the Hindi Intro. here.
20. See *Bhārata-Kaumudī*, Intro. pp. 60 ff. and the details given in the Table there.
21. Hariṣeṇaś Dharmaparikṣā, *Annals of the B.O.R.* 9, XXII, pp. 592-608.
22. Śricandra and his Apabhrāmśa Kathākeśa *Bhārata Kaumudī*, Vo. II. pp. 1005-1016., Allahabad 1947.
23. The problem does not exist so seriously for those editors who are mainly guided by Hemacandra's Prākṛit Grammar, who are editing post-Hemacandra works in Prākṛit or Apabhrāmśa and who are dealing with their Mss. copied in Gujarat and belonging to a later than Hemacandra Pre-Hemacandra Mss. have posed this problem which is often ignored by most of the editors but taken into account by a few. For instance L. B. GANDHI. *Apabhrāmśa Kāvya-trayī* (Baroda) 1927); M.C. MODI & H.C. BHAYANI *Paumāsāricarīu of Dhāhīla* (Bombay 1648). their text shows forms like *nam vithunna, nakka, nikkaliya* In the second word basic Sanskrit word has n, and the last two words are obviously Deśī.
24. For earlier discussions in this connection See. PISCHEL: *Grammatik* sections 224-28 (Strassburg 1900), A.N. UPADHYE *Lilāvati* (Bombay 1949), Intro pp. 8 f.; P.L. VAIDYA *Prakrit Grammar of Trivikrama* (Sholapur 1954), Intro p.p. xx. f. A.N. UPADHYE. *Kuvalayamālā* (Bombay 1959), Intro (separately issued), p 15
25. It is already noted by JACOBI and PISCHEL that in the older palm-leaf Mss. of the Ardha-māgadhī canon ṅ is written in general.
26. PISCHEL'S observation or generalisation about the use of ṅ in Jaina Śauraseni was based on a few passages which had reached his hands in those days, but subsequent studies have shown that the Jaina works in the so-called Jaina Sauraseni use ṅ everywhere, vagaries of individual Mss. Apart.
27. Dr. B.P. JAIN (ed. *Jambūsāmi carīu* Varanasi 1968), I am afraid, is wrong track, when he ignores an independent Ms. which uniformly uses n everywhere and quotes as his examples Śricandra's *Kathākośa* (which is edited from a single Ms.) and *Apabhrāmśa Kāvya-trayī* (the Mss. of which obviously belong to Gujarat). He accepts forms *nam, dīṅṅāsani, mannu, anumanniu* etc.; but rigorously retains initial ṅ, as in even *niru* which is a Deśī word. It has to be remembered that Hemacandra has not ruled out initial ṅ, it is only optional, possibly because he might have found vagaries in this respect in the Mss. in his days.

कथाकोश की आदर्श प्रति

श्रीचन्द्र कृत अपभ्रंश कथाकोश का प्रस्तुत संस्करण केवल एक मात्र प्रति के आधार से तैयार किया गया है। यह प्रति कारंजा (जिला झाकोला, महाराष्ट्र राज्य) के सेनगण भण्डार की है। यह प्रति मेरे हाथ में उक्त भण्डार के स्वामी श्री वीरसेन भट्टारक की कृपा से उस समय आयी थी जब मैं सन् १९२३ के प्रीठन अग्रकाश में बर्हा संस्कृत-प्राकृत हस्तलिखित ग्रंथों की सूची तैयार करने गया था। यह सूची 'कंटेलाग अफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मैनुस्क्रिप्ट्स इन सी० पी० एण्ड बरार' नाम से मध्यप्रदेश शासन द्वारा सन् १९२६ में प्रकाशित की गयी। उस सूची में मेने इस ग्रंथ का कुछ परिचय और परिशिष्ट में कुछ अवतरण भी दिये। तब से इस रचना का जो भी परिचय कहीं भी अब तक प्रकाशित हुआ है, वह केवल उसी एक सूची के आधार से अथवा उक्त प्रति के अवलोकन से।*

तबसे बहुत प्रयास करने पर भी इस रचना की कोई अन्य प्राचीन प्रति प्राप्त न हो सकी। ग्रंथ का कागज जीर्ण होकर फटने लगा था। इसलिये उसका जीर्णोद्धार नेशनल आरकाइव्स, दिल्ली में कराना पड़ा। मेरी अभी भी इच्छा नहीं थी कि इस विशाल ग्रंथ का सम्पादन केवल एक मात्र प्रति पर से किया जाय। किन्तु प्रिय सुहृद् डा० आ० ने० उपाध्ये ने अब और अधिक किसी अन्य प्रति के प्रकाश में आने की बात जोहना उचित नहीं समझा और मुझे इस कार्य को तत्काल हाथ में लेने के लिये प्रेरित किया। सौभाग्य से उपलब्ध प्रति बहुत कुछ शुद्ध है और उसकी कृपायें प्रायः वे ही हैं जो उपाध्ये द्वारा संपादित संस्कृत बृहत्कथाकोश में आ चुकी हैं। अनेक अपभ्रंश प्रयोगों के सम्पादन से इस भाषा की प्रकृति, शब्दावली और काव्यशैली का जो अनुभव प्राप्त हो चुका है उसके आधार से पाठ-संशोधन और कहीं-कहीं स्वल्पित अंशों के पाठपूरण में मुझे विशेष कठिनाई नहीं हुई।

इस प्रति की एक विशेषता ने प्रस्तुत संस्करण को तो प्रभावित किया ही है, किन्तु साथ ही अपभ्रंश ग्रंथों के सम्पादन को एक नया मोड़ भी दिया है। अपभ्रंश रचनाओं की प्राचीन प्रतियों में न और न का प्रयोग प्रायः अनियमित रूप से पाया जाता है। इस कारण अभी तक के प्रकाशित अपभ्रंश ग्रंथों के सम्पादकों ने प्राकृत बंधाकरण षडक्ष के उस नियम का पूर्ण रीति से परिपालन किया है जिसके अनुसार संस्कृत न का प्राकृत में सर्वत्र न आवेश होता है (नो णः सर्वत्र २, ४२)। मेने भी अपने समस्त पूर्व सम्पादित ग्रंथों में इसी नियम का अनुसरण किया है। तबनुसार प्रस्तुत ग्रंथ की प्रेस कापी में भी मेने कोई ८-१० संघियों में निरपवाद रूप से न के

- * (१) अपभ्रंश लिटरेचर ही० ला० जैन (अलाहाबाद यूनिवर्सिटी जर्नल, प्रथम भाग, १९२५)।
 (२) अपभ्रंश भाषा और साहित्य ही० ला० जैन (नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भा. १४, अं. १-४)।
 (३) अपभ्रंश साहित्य : हरिवंश कोच्छड।
 (४) हरिवंश कृत कथाकोश की प्रस्तावना : आ० ने० उपाध्ये।

स्थान पर न कर दिया। किन्तु मुझे प्रतीत हुआ कि इस प्रति में न और न का प्रयोग अनियमित नहीं, कुछ व्यवस्था को लिये हुए हैं। सूक्ष्मता से जाँच पड़ताल करने पर मैं इस निर्णय पर पहुँचा कि यहाँ न और न दोनों ही अपने-अपने स्थान पर प्रायः हेमचन्द्र कृत प्राकृत-व्याकरण के नियमानुसार आये है। इस सम्बन्ध में मैंने अपने सहयोगी विद्वान् मित्रों डा० उपाध्ये और डा० वैद्य से भी परामर्श किया। उनको सम्मति भी मुझे यही मिली कि प्रस्तुत संस्करण में जहाँ तक प्रति साथ होती है 'न' और 'ण' दोनों का यथास्थान प्रयोग करना उचित है। 'न' और 'ण' के प्रयोग के सम्बन्ध में विशेष विवेचन आगे किया गया है।

प्रस्तुत कथाकोश को एक मात्र आवर्ष प्रति का विशेष परिचय निम्न प्रकार है—

पत्रों की लम्बाई १४^३/_४ इंच, चौड़ाई ६ इंच, ऊपर हाँसिया ३ इंच, नीचे हाँसिया ३ इंच, दोनों बाजुओं में हाँसिया १ इंच, पत्र संख्या १७३, पंक्तियाँ प्रति पृष्ठ १५, प्रति पंक्ति में औसत अक्षर ५७।

लिपिकार की प्रशस्ति

संवत् १७८३ वर्ष भाद्रवा सुबि ५ शुके। थीरस्तु। श्री सुरति-बंदिरे वासुपूज्य-चेत्यालये लिखापितमिदं पुस्तकं। श्री मूल-संघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे श्रीकुम्बकुम्बान्वये भलयल्लेङ्ग-सिंहासनाधीश्वर-कार्यरंजकपुरवासि-भट्टारक श्री धर्मचन्द्रदेवास्तपट्टे भट्टारक श्रीवेवेन्द्रकीर्तयस्तेलि-खापितम् आर्यिका-धीयासमतिपरोक्षवत्सवित्तेन ॥

इस आवर्ष प्रति की लिपि आवि सम्बन्धी अन्य विशेषताएँ प्रदर्शित करने के लिये प्रति के प्रथम पृष्ठ का यांत्रिक प्रतिबिम्ब भी प्रकाशित किया जा रहा है।

कथाकोश में कडवकों की संख्या

संघि, कडवक संख्या

१—२१	१५—१४	२९—१४	४३—२६
२—२०	१६—२८	३०—२१	४४—२०
३—२६	१७—२५	३१—१०	४५—२२
४—२१	१८—१५	३२—२६	४६—२६
५—१९	१९—२२	३३—१६	४७—१९
६—२५	२०—२४	३४—१६	४८—२२
७—१८	२१—१६	३५—२१	४९—२३
८—२३	२२—१६	३६—१४	५०—१९
९—१७	२३—२१	३७—१३	५१—१६
१०—१९	२४—१६	३८—१५	५२—१३
११—२३	२५—२१	३९—१६	५३—१४
१२—२५	२६—१३	४०—२२	
१३—१८	२७—१३	४१—३२	१०२५
१४—१६	२८—१४	४२—२३	

इस प्रकार कथाकोश में कुल कडवकों की संख्या १०२५ है। सबसे कम कडवक इकतीसवीं संघि में १० हैं, और सबसे अधिक इकतालीसवीं संघि में ३२।

कथाकोश के कर्ता

अपभ्रंश कथाकोश के कर्ता ने अपना नामोल्लेख ग्रंथ के ध्रावि में तथा प्रत्येक संधि के अन्त में किया है। प्रारम्भ में उन्होंने कहा है—पणवेप्पिणु जिणु सुविसुद्धमइ। चित्तइ मणि मुणि सिरिचंदु कइ (१,१,३) तथा प्रत्येक संधि के अन्त की पद्यात्मक पुण्यिका में कहा गया है—‘मुणि-सिरिचंबपउत्तो’ इससे स्पष्ट है कि ग्रंथकर्ता का नाम श्रीचन्द्र था, वे मुनि थे और ग्रंथ-रचना के समय वे कवि की उपाधि से भी अलंकृत थे। उन्होंने अपना कुछ और अधिक परिचय ग्रंथ के अन्त की प्रशस्ति में दिया है और वहाँ उन्होंने अपनी गुरु-परम्परा निम्न प्रकार बतलाई है :—

कुन्वकुन्दान्वय
|
श्रीकीर्ति
|
श्रुतकीर्ति
|
सहस्रकीर्ति
|
वीरचन्द्र
|
श्रीचन्द्र

इसी प्रशस्ति में उन्होंने अपने ग्रन्थ की रचना हेतु आवक प्रेरकों का भी वंश-परिचय कुछ विस्तार से दिया है जो संक्षेप में इस प्रकार है—सौराष्ट्र देश के अणहिल्लपुर (पाटन) नामक नगर में प्राग्वटवंशीय सञ्जन नाम के एक सञ्जन हुए जो मूलराज नरेश के धर्म-स्थान के गोष्ठी-कार अर्थात् धार्मिक कथा-वार्ता सुनाने वाले थे। उनके पुत्र हुए कृष्ण, जिनकी भगिनी का नाम जयंतो और पत्नी का नाम राणू था। उनके तीन पुत्र हुए बीजा, साहनपाल और साढेव तथा चार कन्याएँ, श्री, शृंगारदेवी, सुंदू और सोखू। इनमें सुन्दू या सुन्दुका विशेषरूप से जैनधर्म के उद्धार और प्रचार में दक्षि रक्षती थी। कृष्ण की इस सन्तान ने अपने कर्मक्षय के हेतु कथाकोश की व्याख्या कराई। ध्रागे चलकर यह भी कहा गया है कि कर्ता ने भव्यों की प्रार्थना से पूर्व ध्राचार्य की कृति को जानकर इस सुन्दर कथाकोश की रचना की। इस पर से अनुमान होता है कि इस विषय पर कोई पूर्वाचार्य की रचना श्रीचन्द्रमुनि के सम्मुख थी। प्रथम उन्होंने उसी पूर्व रचना का व्याख्यान आचकों को सुनाया होगा जो उन्हें बहुत रोचक प्रतीत हुआ। इसी से उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि ध्राय स्वतंत्र रूप से कथाकोश की रचना कीजिये। फलस्वरूप प्रस्तुत ग्रंथ का निर्माण हुआ। प्रशस्ति में ग्रंथकार के व्याख्यातृत्व और कवित्वादि गुणों का विशेष रूप से निर्देश भी किया गया है। यह पूर्वाचार्यकृत कृति कौनसी थी, इसका विचार ध्रागे किया जायगा।

यह रचना कहाँ पर की गई, इसका प्रशस्ति में स्पष्ट उल्लेख है। सूरस्थ (सौराष्ट्र) देश में अणहिल्लपुर (पाटन) में ही कृष्ण आवक और उनकी सन्तान का निवास था, अतः वहाँ पर उन्होंने धार्मिक कथा का व्याख्यान व इस कथाकोश की रचना की होगी।

कथाकोश का रचना-काल

इस रचना के काल की कोई स्पष्ट सूचना ग्रंथ में नहीं पायी जाती। किन्तु ग्रंथ की भावार्थ प्रति में उसका लेखन-काल संवत् १७८३ निविष्ट है। यह ग्रंथ-रचना की उत्तर सीमा मानना चाहिये। पूर्व सीमा के लिये प्रशस्ति का यह उल्लेख महत्वपूर्ण है कि जिन महाभाषक कृष्ण की सन्तान ने कथाकोश का व्याख्यान कराया था, उनके पिता सज्जन भूलराज नरेश के धर्मस्थान के गोष्ठीकार थे। ये भूलराज निश्चयतः वे ही नरेश हैं जिन्होंने गुजरात में वनराज द्वारा स्थापित चावड़ा वंश को च्युत करके सन् ९४१ में सोलंकी (चातुर्व्य) वंश की स्थापना की थी। प्रशस्ति में यह भी उल्लेख है कि ग्रंथकार के परदादा गुरु श्रुतकीर्ति के चरणों की पूजा गांगेय, भोजदेव आदि बड़े बड़े राजाओं ने की थी। गांगेय निश्चयतः डाल (जबलपुर के आसपास का प्रदेश) के वे ही कलचुरि नरेश गांगेयदेव होना चाहिये जो कोकल (डि०) के पश्चात् सन् १०१९ के लगभग सिंहासनालङ्घित होकर सन् १०३८ के लगभग तक राज्य करते रहे। भोजदेव धारा के वे ही परमार वंशी राजा हैं जिन्होंने सन् १००० से १०५५ ई० तक मालवा का राज्य किया तथा जिनका गुजरात के सोलंकी राजाओं से अनेक बार संघर्ष हुआ। इन राजाओं के उल्लेख से स्पष्ट है कि श्रीचन्द्र का रचनाकाल सन् १०५५ के अनेक वर्षों पश्चात् होना चाहिये।

ग्रंथरचना काल के सम्बन्ध में इससे अधिक प्रकाश इसी कवि श्रीचन्द्र की दूसरी रचना "वंसनकहुरयणकरंड" से पड़ता है। यह ग्रंथ भी अभी तक प्रकाश में नहीं आया। किन्तु इसकी संवत् १५४७ भाद्रपद शुक्ल १ चन्द्रवार की लिखी एक प्रति मुझे प्राप्त हुई है। इसमें २१ संघियाँ हैं और अंत में ग्रंथकार की प्रशस्ति भी है। इस प्रशस्ति में श्रीचन्द्र की गुरु-परम्परा बही बी गयी है जो कथाकोश में। इस प्रशस्ति की विशेषता यह है कि यह संस्कृत में नहीं अमरांश में ही रची गयी है तथा यहाँ उन आचार्यों के कुन्वकुन्वान्वय के अतिरिक्त देशी गण का भी उल्लेख है तथा सहस्त्रकीर्ति के शिष्य बीरचन्द्र के अतिरिक्त चार और शिष्यों के नाम अंकित हैं, देवकीर्ति, वासव, उदयकीर्ति और सुरेन्द्र या देवचन्द्र। बड़े महत्व की बात यह है कि इस प्रशस्ति के अन्त में दो माथाओं द्वारा उस रचना का काल, उस समय के नरेश तथा स्थान का भी स्पष्ट निर्देश कर दिया गया है यथा—

एयारहन्तेवीसा वाससया विक्कमस्स णरवइणो ।

जइया गया णु तइया समाणियं सुंवरं कच्चं ॥१॥

कण्ण-णरिबहो रज्जेसहो सिरिसिरिवालपुरम्मि ।

बुह-सिरिचंभे एउ किउ णंवउ कच्चु जयम्मि ॥२॥

अर्थात् विक्रम संवत् ११२३ अतीत होने पर कर्ण नरेन्द्र के राज्य में श्रीमालपुर में विद्वान् श्रीचन्द्र ने इस वंसनकहुरयणकरंड नामक काव्य की रचना की। इस प्रकार इसका रचना-काल ११२३-५७ = १०६६ ईसवी सिद्ध होता है। कर्ण सोलंकी नरेश भीमदेव प्रथम के उत्तराधिकारी थे और उन्होंने सन् १०६४ से १०९४ तक राज्य किया।

भीमाल अपरनाथ भीममाल इजिण मारवाड़ की राजधानी थी। सोलंकीनरेश भीमदेव ने सन् १०६० ई. में बहाँ के परमारवंशी राजा कृष्णराज को पराजित कर बन्धीगृह में डाल दिया

श्रीर भीनमाल पर अपना अधिकार जमा लिया जो उनके उत्तराधिकारी कर्ण तक स्थिर रहा प्रतीत होता है ।

बंसजकहरयणकरंड में हमें एक श्रीर महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त होता है । इस ग्रंथ की कथाकोश के समान संप्यन्त की पद्यात्मक पुष्पिकाओं में कर्ता का निर्वेश पंडित श्रीचन्द्रकृत (पंडिय-सिरिचंद-कए) रूप से किया गया है । किन्तु यह क्रम सोलहवीं संधि तक ही पाया जाता है । सत्तरहवीं से बाईसवीं संधि तक की पुष्पिकाओं में "इय सिरिचंद-मुणिवकए" (श्रीचन्द्रमुनिकृत) ऐसा निर्वेश हुआ है । प्रशस्ति में भी कर्ता का निर्वेश पंडित या बुध उपाधि सहित ही किया गया है । मुनि उपाधि सहित नहीं ।

यथा— सिरिचंदणामु सोहणमणीसु ।
संजायउ पंडिउ पडमसीसु ॥
× × × ×
बुहसिरिचबे एउ किउ ।
णंदउ कण्वु जयम्मि ॥

जान पड़ता है कि दर्शनकथारत्नकरंड की १६ हवीं संधि की रचना तक श्रीचन्द्र जी श्रावक (गृहस्थ या क्षुल्लक) ही थे । तत्पश्चात् उन्होंने मुनि-वीक्षा ग्रहण की । कथाकोश में श्रादि से ही कर्ता के साथ मुनि उपाधि का प्रयोग पाया जाता है । चित्तइ मणि मुणिसिरिचन्वु कई । पुष्पिकाओं में भी श्रादि से श्रन्त तक मुनि शब्द आया है, श्रीर प्रशस्ति में तो उन्हें 'सूरि' भी कहा गया है । अतएव निश्चयतः कथाकोश की रचना दर्शन-कथा-रत्न-करंड की रचना के पश्चात् सन् १०७० के लगभग हुई होगी ।

कथाकोशकार के श्राश्रय-दाता

कथाकोश की ग्रंथकार-प्रशस्ति का एक श्रीर संकेत ध्यान देने योग्य है । जिन प्राग्घाट वंशी सज्जन के उल्लेख में वह प्रशस्ति प्रारम्भ हुई है, उनके पुत्र कृष्ण को 'निद्रान्वयमहामुक्तामालार्या नायकोपम' अर्थात् निद्रावंश के महापुरुषों रूपी मोतियों की माला के प्रमुख रत्न कहा गया है । यहाँ निद्रान्वय पाठ को शुद्धि में सन्वेह उत्पन्न होना स्वाभाविक था, क्योंकि निद्रा वंश अभी देखने सुनने में नहीं आया था । अतएव मैंने प्राग्घाट वंश सम्बन्धी प्राचीन उल्लेखों को देखना प्रारम्भ किया । इस खोज में मेरा ध्यान सर्वप्रथम राजशेखर कृत प्रबन्ध-कोष के वस्तुपाल-प्रबन्ध की ओर गया जहाँ उनके वंश को 'श्रीमत्पत्तनवास्तव्यप्राग्घाटान्वय' कहा गया है । वस्तुपाल तेजपाल के प्रसंग से जब उनके बनबाये ब्राह्म के मन्विरों के शिलालेखों श्रादि की ओर ध्यान गया तो ज्ञात हुआ कि ब्राह्म के विमलवसही नामक मंदिर में जो हस्तिशाला है उसमें हाथियों की मूर्तियों पर विमलशाह के पूर्वज सवार हुए दिखाये गये हैं और उनके नाम भी वहाँ अंकित हैं । इनमें विमलशाह के सर्व-प्रथम पूर्वज महामंत्री नीना कहे गये हैं । उनके पश्चात् क्रमशः म० मं० लहर, वीर, नेड़, धवल श्रादि वंश नाम पाये जाते हैं, जिनमें प्रथम सात महामंत्री पृथ्वीपाल द्वारा वि० सं० १२०४ में तथा शेष तीन महामंत्री धनपाल द्वारा वि० सं० १२७७ में प्रतिष्ठित सिद्ध होते हैं । मन्दिर की क्रमांक १० वी० कुलिका में एक शिलापट्ट है, जिस पर भी घाट श्रावकों के चित्र लुके हुए हैं और प्रत्येक के नीचे क्रमशः महामं० श्री नीनामूर्तिः, महामं० श्रीलहरमूर्तिः, महामं० श्री वीरमूर्तिः,

धावि नाम अंकित हैं। अंबिर में अग्र्यत्र जी विमलशाह की प्रशस्ति उत्कीर्ण है उसमें तथा नेमिणाह-चरिउ की प्रशस्ति में इस वंश का क्रमशः विधिबत् वर्णन पाया जाता है। यह वंशावली नीना या निन्या के नाम से ही प्रारम्भ होती है और इसमें उसे चावड़ा राजवंश के संस्थापक बनराज का सम-सामयिक कहा गया है। उसके तथा उसके पुत्र लहर की वीरता और बुद्धि से प्रभावित होकर बनराज ने नीना के परिवार को अपनी राजधानी अणहिलवाड़पत्तन (पाठन) में बुलवा लिया था। अर्थात्: यह कुटुम्ब गुजरात की प्राचीन राजधानी श्रीमाल (भीनमाल) का निवासी था। उक्त जानकारी पर से मुझे प्रतीत हुआ कि यथार्थतः निदान्वय के स्थान पर शुद्ध पाठ नीनान्वय या निन्यान्वय रहा होगा। किन्तु उत्तरकालीन लिपिकार ने उसका अर्थ न समझकर उसे अशुद्ध समझा होगा और उसके स्थान पर उससे मिलता जुलता शुद्ध संस्कृत शब्द 'निदान्वय' लिख दिया होगा।

वंशावलि में नीना व उसके पुत्र लहर को बनराज (वि० सं० ८०२) के मंत्री तथा लहर के पुत्र वीर को मूलराज (वि० सं० ९९९) का मंत्री एवं वीर के एक पुत्र नेड्ड को भीम (वि० सं० १०७९) का अमात्य व दूसरे पुत्र विमल को भीम का बंदाधिप कहा गया है। किन्तु बनराज और मूलराज के बीच लगभग दो सौ वर्षों के अन्तर को देखते हुए विद्वानों ने उक्त कथन पर सन्देह किया है और यह कल्पना की है कि या तो वीर लहर का पुत्र न होकर उनका वंशज था, अथवा नीना और लहर बनराज के समय न होकर मूलराज के ही काल में हुए। जो हो, किन्तु प्रस्तुत कथाकोश की प्रशस्ति से स्पष्ट है कि मूलराज के समय नीना वंश के सज्जन नामक सत्पुरुष विद्यमान थे और उन्हीं की तीसरी पीढ़ी के वंशजों द्वारा वि० सं० १०७० के लगभग इस कथाकोश की रचना कराई गयी। (Holy Abu P 22,42 & 81)।

यहां एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह सम्मुख आता है कि नीना के वंश की एक शाखा द्वारा श्वेताम्बर सम्प्रदाय तथा दूसरी शाखा द्वारा विगम्बर सम्प्रदाय का अनुसरण किया गया था। इससे प्रतीत होता है कि दोनों सम्प्रदायों में मेलजोल था व एक ही परिवार के व्यक्ति अपनी-अपनी रुचि अनुसार एक या दूसरे सम्प्रदाय को ग्रहण कर लेते थे।

‘न’ और ‘ण’ के प्रयोग का विवेचन

अपभ्रंश भाषा और सामान्यतः अन्य प्राकृत भाषाओं में वन्त्य और मूर्धन्य अनुनासिक वर्णों अर्थात् ‘न’ और ‘ण’ के प्रयोग में बड़ी अनियमितता और अनिश्चय पाया जाता है। भाषा-विज्ञान के विशारदों का अनुमान है कि ट वर्ग की ध्वनियां भारोपीय परिवार की किसी भी अन्य भाषा में नहीं पाई जातीं। बँविक भाषा में इनका प्रयोग प्रारम्भ में बहुत कम और पीछे क्रमशः बढ़ता हुआ पाया जाता है। अनुमानतः यह प्रवृत्ति भारत में बँविक काल में प्रचलित निघाव, इविड़ आदि भाषाओं के प्रभाव से आई है। संस्कृत में ट वर्ग के स्थान में ट वर्ग की ध्वनियों के आदेश को नियमित कर दिया गया है। किन्तु म० भा० आ० भाषाओं अर्थात् पालि, प्राकृत और अपभ्रंशों में इनका विशेष प्रयोग पाया जाता है। इन भाषाओं के साहित्य में जहाँ कहीं ‘न’ और ‘ण’ का प्रयोग हुआ है, उसके आधार से कोई नियम बनाना अभी तक सम्भव नहीं हो सका है। अर्द्ध-सागथी अग्रगम की प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों में भी यह अनियमितता है, किन्तु उनके सम्पादन में हेमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण के नियमानुसार पाठ रखे गये हैं। अन्य जैन प्राकृत ग्रन्थों के

सम्पादन में भी प्रायः इसी नियम का पालन किया गया है। प्राकृत के अन्य काव्यों, जैसे गाहा-सत्सई सेतुबंध या गडडबहो, लीलावई, कंसबहो आदि में वररुचि के 'प्राकृत-प्रकाश' के नियमानुसार सभी स्थितियों में 'न' के स्थान पर 'ण' का प्रयोग किया गया है।

अपभ्रंश भाषा के ग्रन्थों का सम्पादन अपेक्षा कृत बहुत आधुनिक है, और प्रायः इस भाषा के जितने ग्रन्थ अभी तक सुसम्पादित होकर प्रकाशित हुए हैं उनमें एकाधिक हस्तलिखित प्रतियों का उपयोग किया गया है। उन प्रतियों में 'न' और 'ण' ध्वनियों के प्रयोग में जो अनियमितता दृष्टिगोचर हुई है, उसका उल्लेख प्रायः सभी सम्पादकों ने किया है। सर्व प्रथम डा० हरभन याकोबी ने भविसयत्त-कहा तथा सणकुमार-चरिउ का सम्पादन किया था। उन्होंने अपने लिए यह नियम बनाया कि जब 'न्न' शब्द के मध्य में आये, तब यदि मूल संस्कृत शब्द में 'ण' नहीं है तो उसे वन्त्य ही रहने दिया जावे। किन्तु यदि संस्कृत में 'ण' हो तो उसके स्थान पर मूर्द्धन्य अनुनासिक ही रखा जावे, जैसे कन्या-कन्या तथा कर्ण-कर्ण। उनके द्वारा सम्पादित 'सणकुमार चरिउ' (मुन्वेन, जर्मनी १९२१) की शब्द-सूची में लगभग १६८ शब्द 'नावि' हैं और 'णावि' केवल एक 'णु' (ननु) ही तीन-चार बार आया है।

डा० ग्रात्सडॉफ़े द्वारा सम्पादित कुमारपाल प्रतिबोध (हम्बुर्ग सन् १९२८ ई०) की शब्दानुक्रमणिका में लगभग डेढ़ सौ शब्द 'नावि' हैं तथा 'णावि' केवल दो शब्द मेरी दृष्टि में आये, णइ और णाण। यह स्थिति उनके द्वारा सम्पादित हरिबंस पुराणु (हम्बुर्ग सन् १९३६) में उलट गयी, क्योंकि इसकी शब्द-सूची में केवल नृ व नृब शब्द ही 'नावि' हैं; शेष सभी शब्द 'णावि' पाये जाते हैं।

डा० गुणे ने 'भविसयत्तकहा' का प्रकाशन १९२३ ई० में कराया। उसकी प्रस्तावना में उन्होंने शब्द के प्रारम्भ में तथा मध्य में द्वित्व रूप से 'न' ध्वनि को सुरक्षित रखने की प्रणाली को अर्द्ध-मागधी प्रवृत्ति कहा है, अपभ्रंश भाषा की कोई विशेषता नहीं। उनका मत है कि अपभ्रंश ग्रन्थों में 'न' और 'ण' का प्रयोग अनियमित विकल्प रूप से आता है, जैसे 'न' आदि नयर, नराहं, नेउर, अन्न, मन्नइ इत्यादि; तथा णिहणु, णउ, आणत्तहि, णिज्जावय, समण्णण, णिम्भणइ इत्यादि। अतिएव इनमें मिसी नियम की कल्पना करना व्यर्थ है।

डा० प० ल० वंछ ने पुष्पवन्त कृत 'जसहर-चरिउ (कारजा जैन ग्रन्थमाला १९३१ ई०) तथा महापुराण (मा० दि० जैन ग्रन्थ. १९३७ ई० आदि) में निरपवाद रूप से सर्वत्र केवल 'ण' का ही प्रयोग किया है। और इसी प्रवृत्ति का पालन डा० आ० ने० उपाध्ये ने योगीन्द्रदेव कृत परमात्मप्रकाश एवं योगसार (रा० जैन शास्त्र० बम्बई १९३७ ई०) में तथा डा० ह० व० भयाणी ने स्वयम्भू कृत पउमचरिउ (भाग १-३, सिधी जैन ग्रन्थ० भा० वि० भ० बम्बई सन् १९५३ ई० आदि) के सम्पादन में किया है। प्रस्तुत सम्पादक ने भी णायकुमारचरिउ साव्य-धम्मबोहा, पाहुडबोहा, करकंइचरिउ, सुवंसणचरिउ, मयणपराजयचरिउ एवं सुगंधवशमी-क्या इन ग्रन्थों के सम्पादन में इसी नियम को निरपवाद रूप से स्वीकार किया है। किन्तु यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि डा० वंछ ने अपने हेमचन्द्र प्राकृत व्याकरण के संस्करणों (पूना १९२८ ई० तथा १९३६ ई०) की शब्द-सूची में 'नावि' लगभग २०० शब्दों को दिया है जिनमें ५० से अधिक अपभ्रंश शब्द हैं, एवं 'णावि' शब्दों की संख्या लगभग १०० हैं जिनमें अपभ्रंश के केवल णं, णधि,

निहित, गृहानु, गृहानुसहित, ये पाँच शब्द ही अब तक मेरे दृष्टिगोचर हुए हैं। इस सम्बन्ध में डा० बेंच ने अपने त्रिविक्रम कृत 'प्राकृत शब्दानुशासन' (जीब० जैन ग्रंथ० शोलापुर सन् १९५४ ई०) की प्रस्तावना में अपना यह अभिमत व्यक्त किया है कि 'न' को 'ण' में परिवर्तित करने के विषय पर प्राकृत व्याकरणों में मतभेद है। और इसका परिणाम यह हुआ है कि अपभ्रंश की हस्तलिखित प्रतियों में तथा आधुनिक संस्करणों में बड़ी अनियमितता घा गयी है। अतएव नियमितता लाने के हेतु उन्होंने यह सुझाव दिया है कि यदि सम्भावनीय प्राकृत रचना जैन परम्परा की है तो शब्द के प्रावि का 'न' यदि वह उसके मूल संस्कृत रूप में है तो उसे सुरक्षित रखा जाय, तथा मध्यवर्ती 'न' को 'ण' में परिवर्तित किया जाय। णं (ननु) जैसे एकाक्षर शब्द देशी समझे जावें। किन्तु नूनं के स्थान पर नूनं रखा जावे। तथापि जैनतर प्राकृत रचनाओं में सर्वत्र 'न' के स्थान पर 'ण' का प्रादेश किया जावे।

डा० ए० ल० बेंच ने जो प्राकृत व्याकरणों के मतभेदों के कारण उपर्युक्त अनिश्चित स्थिति उत्पन्न हुई, ऐसा कहा है, वह इस प्रकार है—भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में प्राकृत भाषा की विशेषताओं का भी उल्लेख किया है। वहाँ उन्होंने कहा है—'सर्वत्र च प्रयोगे भवति नकारो ऽपि च णकारः' (भ० ना० शा० १८-१२)। इसी प्रकार बरद्वि कृत 'प्राकृत-प्रकाश' में सूत्र पाया जाता है—'नो णः सर्वत्र' (प्रा० प्र० २-४२), जिसकी भावना कृत टीका है 'प्रादेरिति निवृत्तम्'। सर्वत्र नकारस्म णकारो भवति। णई, कणभं, वध्रणं, माणुसो। इस प्रकार उक्त दोनों प्राचार्यों के मत से प्राकृत में शब्द के प्रावि, मध्य एवं द्वित्व इन सभी स्थितियों में 'न' के स्थान पर 'ण' का प्रादेश अनिवार्य है।

इसके विपरीत हेमचन्द्र कृत प्राकृत-व्याकरण के सूत्र हैं नो णः। वाढी (८१२२८-२९)। और इन सूत्रों पर उनकी स्वोपक्ष टीका है—स्वरात् परस्यासंयुक्तस्यानादेनस्य णो भवति-कणभं, मयणं वयणं मयणं माणइ। प्रायं आरनालं, अनिलो, अनलो इत्याद्यपि। असंयुक्तस्यादौ वर्तमानस्य नस्य णो वा भवति, णरो-नरो; णई-नई; णइ-नेइ। असंयुक्तस्येव न्यायः-नाघो।

इसी प्रकार त्रिविक्रम कृत प्राकृत शब्दानुशासन का सूत्र है नः। प्रादेस्तु (१.३.५२-५३)। इसकी टीका है—अस्तोरस्वरवः परस्य नकारस्य णकारो भवति। कनकं-कणभं। घनं-घणं। माणइ मानयति। न इत्यनुवर्तते। शब्दानामादेनंकारस्य णत्वं भवति तु। नदी-णई-नई। मयति-णइ-नेइ ॥ अस्तोरित्येव। न्यायः-नाघो। (अस्तोः=असंयुक्तस्य; अस्तोः=अनादेः)।

उक्त सभी प्राकृत व्याकरणों से सम्भवतः पूर्ववर्ती चण्ड ने अपने प्राकृत-लक्षण में केवल इतना कहा है—तवर्गस्य च-टवर्गो (१६) यथा निरयं-निचवं; नृत्यं-नट्टं; धायं-धाणं।

इस प्रकार हमारे सम्युक्त व्याकरणों के प्रमुखता से दो मत उपस्थित होते हैं। एक तो यह कि प्राकृत में सर्वत्र ही 'न' के स्थान पर 'ण' प्रादेश अनिवार्यतः किया जाना चाहिये। और दूसरा यह कि जब शब्द में 'न' दो स्वरों के बीच में आवे तभी उसके स्थान पर 'ण' का प्रादेश किया जावे, अन्यथा अर्थात् शब्द के प्रावि में तथा संयुक्त वर्ण में 'न' को अपरिवर्तित रखा जावे।

इस सम्बन्ध में हेमचन्द्र का एक और मत ध्यान देने योग्य है। उन्होंने अपने 'देशीनाममाला' नामक कोश में कहा है—नकारावयस्तु देश्यामसम्भविन एवेति न निबद्धाः। यच्च "वाढी" इति सूत्रितमस्माभिः तत्संस्कृतभवप्राकृतशब्दापेक्षया न देश्यपेक्षयेति सर्वभववातम्। इसका तात्पर्य यह है

‘नावि’ बेशी शब्द होना असम्भव है, इसलिए ऐसे कोई शब्द इस कोश में निबद्ध नहीं किये गये । तथा जो उन्होंने अपने प्राकृत व्याकरण में “बावौ” सूत्र द्वारा शब्द के ध्रावि में विकल्प से ‘न’ के स्थान पर ‘ण’ के ध्रादेश का विधान किया है, वह केवल संस्कृत से उत्पन्न प्राकृत शब्दों ध्रावात्— तद्भव शब्दों की अपेक्षा से है, बेशी की अपेक्षा से नहीं, यह स्पष्टता से समझ लेना चाहिये ।

हेमचन्द्र के इस स्पष्टीकरण से हमें यह संकेत मिलता है कि जिन धनार्य भाषाओं ने धार्य भाषाओं को प्रभावित किया उनमें ‘ण’ का प्रयोग प्रबलता और बहुलता से होता था और इससे भाषा-विज्ञान की उस भाग्यता को भी बल मिलता है कि भारतीय धार्य भाषाओं में मूढन्य ध्वनियों का प्रवेश उक्त धनार्य-बेशी भाषाओं के प्रभाव से हुआ है ।

पूर्वोक्त समस्त मत-मतान्तरों का मथितार्थ हमारे मतानुसार निम्न प्रकार है—

(१) स्वर-मध्यवर्ती असंयुक्त ‘न’ के स्थान पर ‘ण’ का ध्रादेश ध्रनिवायं रूप से किया जावे । इसमें किसी का कोई मतभेद नहीं है ।

(२) संयुक्त ‘न’ के स्थान पर निर्णायक उसका संस्कृत रूप होना चाहिये । यदि संस्कृत में ‘न’ है तो ‘न’ ही रखा जावे, जैसे ध्रन्य-ध्रनं मन्यते-मन्द्र, न्यायः—नाश्रो; और यदि ‘ण’ हो तो ‘ण’ जैसे कर्ण—कण्ण ।

(३) ध्रावि ‘न’ के सम्बन्ध में कोई निश्चयात्मक नियम बनाना कठिन है । इसे प्राचीनतम हस्तलिखित प्रति के ध्राधार से ही निश्चित करना चाहिये । कुछ क्षेत्र का विचार भी किया जा सकता है । पश्चिम की ओर ‘न’ को सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति प्रबल पाई जाती है, तथा हेमचन्द्रादि व्याकरणों ने इसमें विकल्प की छूट भी दे रखी है ।

जहाँ तक प्रस्तुत धीचन्द्रकृत कथाकोष का प्रश्न है, सम्पादक के समुख केवल एक मात्र ध्रावश प्रति होने से पाठान्तरों व विकल्पों की समस्या ही उपस्थित नहीं हुई । सौभाग्य से उपलब्ध प्रति बहुत कुछ शुद्ध है और सावधानी से लिखी गयी है । उसमें बहुलता से ध्रावि ‘न’ एवं मध्यवर्ती संयुक्त ‘न’ को सुरक्षित रखा गया है । अतएव इस स्थिति में परिवर्तन करने का कोई कारण नहीं था, विशेषतः जब कि प्रयकार और लिपिकार पश्चिम देशीय थे ।

कथाकोश के विषय का ध्राधार

धीचन्द्र ने प्रस्तुत कृति के ध्रावि में ही अपने विनय तथा ध्रावाचार्यों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा है कि “धर्म में मेरी बड़ी भक्ति है, किन्तु ज्ञान कुछ भी नहीं है । ऐसी वशा में जो कथाकोष समुद्र के समान कभी सूखने वाला नहीं है उसे मैं कैसे सम्पन्न कर सकूँगा । जिसकी रचना अनेक महामति महर्षि सत्कवियों ने की है उसे मैं मन्दमति कैसे रच सकूँगा ? जिनपति (महावीर) ने जैसा गणधर (गौतम) को सुनाया था, और गणधर ने राजा धेणिक को कहा था, तथा जैसा इस पंचम काल में शिवकोटि मुनीन्द्र ने कथाकोश को कहा था उसी प्रकार गुरु-परम्परा-क्रम से मैं भी कहता हूँ । भूलाराधना ग्रंथ के बीच-बीच में बहुत सी ऐसी गाथायें हैं जिनमें सुन्दर और मनोरंजक तथा धर्म, धर्म, काम और मोक्ष पुरुषार्थों संबंधी कथाओं के उल्लेख हैं । मैं उन्हीं गाथाओं

का पहले अर्थ कह कर पश्चात् आवरणपूर्वक उन कथाओं को कहता हूँ, क्योंकि सन्दर्भ रहित बात कहने से गुणवानों को उसके रसकी अनुभूति नहीं होती ।”

इस पर से सिद्ध होता है कि धार्मिक कथाओं की परम्परा जैन धर्म में तीर्थंकर महावीर के ही काल से प्रारम्भ हुई और वह पुरुष-परम्परा से निरन्तर चलती हुई प्रस्तुत ग्रन्थकार के समय तक चली आई । इन कथाओं में से अनेक का उल्लेख सन्दर्भानुसार मुनि शिवकोटि या शिवार्थ द्वारा अपनी भूलाराधना अर्थात् भगवती आराधना में भी किया गया है । उसीको सम्भवतः श्रीचन्द्र ने पंचमकाल में शिवकोटि द्वारा कथित कथाकोष कहाँ है, क्योंकि ऐसा तो अन्य कोई ग्रन्थ या ग्रन्थो-ल्लेख नहीं पाया जाता जिससे शिवकोटि द्वारा रचित कथाकोष ग्रन्थ का अस्तित्व सिद्ध हो । प्रस्तुत रचना में श्रीचन्द्र ने अपनी इस प्रतिज्ञा का निर्वाह किया है कि वे अपने कथा सम्बन्धी भूलाराधना की गाथा को उद्धृत कर तथा उसका संस्कृत में अर्थ समझाकर पश्चात् अपना कथानक प्रारम्भ करेंगे । यह बात बिरल रूप से तैत्तलीसर्वी सन्धि तक पाई जाती है, किन्तु उससे आगे की दस सन्धियों में कवि ने भूलाराधना की कोई गाथा उद्धृत नहीं की । उक्त प्रकार से भूलाराधना की जितनी गाथाएँ प्रस्तुत रचना में उद्धृत पायी जाती हैं, उनको सुविधा के लिए यहाँ एकत्र संकलित कर दिया गया है ।

अपने ग्रन्थ की रचना में श्रीचन्द्र ने ग्रन्थ की अन्तिम प्रशस्ति के उग्निसर्वे श्लोक में एक और महत्व की बात कही है, कि उन्होंने भव्यों की प्रार्थना पर एक पूर्वाचार्य द्वारा विरचित कृति का ज्ञान प्राप्त करके भले प्रकार इस अति सुन्दर कथाकोष की रचना की । इससे प्रतीत होता है कि उनके सन्मुख कथाकोष सम्बन्धी एक रचना विशिष्ट रूप से प्रस्तुत थी, जिसे उन्होंने अपनी रचना का आधार बनाया । यह रचना अन्य कोई नहीं, वही बृहत्कथाकोष है जिसकी रचना संस्कृत भाषा में हरियेणाचार्य द्वारा विक्रम संवत् ९८९ एवं शक संवत् ८४३, अर्थात् ई० सन् ९३१-३२ में वर्द्धमानपुर में पूर्ण की गयी थी । यह ग्रन्थ डॉ. आ० ने० उपाध्ये द्वारा सुसम्पादित होकर प्रकाशित हो चुका है (सिषी ज० ग्रन्थ० १७, भा० वि० भ० बम्बई १९४३) । इस संस्करण की प्रस्तावना में विद्वान् सम्पादक ने इस संस्कृत कथाकोष का प्रस्तुत अपभ्रंश कथाकोष से विस्तारपूर्वक मिलान किया है, और निष्कर्ष निकाला है कि इन दोनों ग्रन्थों में कथाओं का क्रम, विषय तथा नामों व शब्दों का ऐसा साम्य है जिससे उनका परस्पर सम्बन्ध निर्विवाद सिद्ध होता है । और क्योंकि हरिविण का रचनाकाल श्रीचन्द्र से लगभग एक सौ चालीस वर्ष पहले सिद्ध होता है, अतः इस बात में सन्देह का कोई कारण नहीं कि श्रीचन्द्र ने अपने अपभ्रंश कथाकोष की रचना हरिविण कृत संस्कृत कथाकोष को सामने रखकर की है । इस सम्बन्ध में डॉक्टर उपाध्ये ने अपने जो विचार उक्त प्रस्तावना में प्रकट किये हैं वे महत्वपूर्ण हैं । उक्त दोनों ग्रन्थों की कथाओं के साम्य व भेद को प्रस्तुत करने के लिए हम उनकी तुलनात्मक सूची यहाँ दे रहे हैं ।

कथाकोश में उद्धृत भगवती आराधना की आधार गाथायें पाठान्तरों सहित ।
सूचना—क=भ० आ० अनन्तकीर्ति जैन ग्रं० मा० ८ बम्बई वि० सं० १९८९ । गाथाओं के
क्रमांक भी इसी संस्करण के अनुसार दिये गये हैं ।

ख=भ० आ० शोलापुर १९३५, हरिधेय क० को० की प्रस्तावना में उद्धृत

कहकोसु

संघि कडवक क्र० सं०

भ० आ०

- | | | | |
|---|----|--|-----|
| १ | ९ | (१) सिद्धे जयप्पसिद्धे चर्त्तव्वहाराहणाफलं पत्ते ।
वदित्ता अरहते वोच्छ ^१ आराहण ^२ कमसो ॥ | १ |
| | | (२) उज्जोवणमुज्जवण निव्वहण ^३ सिद्धि साहण ^३ चनित्थरणं ।
दसणणाणचरित्ते तवाणमाराहणा भणिया ॥ | २ |
| २ | १ | (३) सम्मत्तादीचारा संका कंखा तहेव विदिगिच्छा ।
परदिट्ठीण पससा अणायदणसेवणा चैव ॥ | ४४ |
| ३ | १ | (४) उवगूहण ठिदिकरण वच्छल्लपहावणा ^४ गुणा भणिदा ।
सम्मत्तविसोहीए ^५ उवगूहणकारया चदुरो ^६ ॥ | ४५ |
| ५ | १ | (५) सद्दहया पत्तियया रोचयफासतया पवयणस्स ।
सयलस्स ^७ जे णरा ते ^७ सम्मताराहया होति ॥ | ४८ |
| ५ | ३ | (६) अववादियल्लिगकडो ^८ वि सगसत्तिमगूहमाणो ^९ हु ^{१०} ।
णिदण-गरहणजुत्तो सुज्झदि उर्वाध परिहरतो ॥ | ८९ |
| ५ | १२ | (७) आणक्खिदा य लोचेण अप्पणो होदि घम्मसड्ढा ^{११} य ।
उग्गो तवो य लोचो तहेव दुक्खस्स सहण च ॥ | ९४ |
| ५ | १७ | (८) काले विणए उवहाणे ^{१२} बहुमाणे ^{१३} तहेव निण्हवणे ^{१४} ।
वजण ^{१४} अत्थ तदुभय ^{१४} विणओ नाणम्मि अट्ठविहो ॥ | ११४ |
| ७ | १ | (९) भणिणीए ^{१५} वि विहम्मिज्जतीए ^{१६} एयत्तभावणाइ ^{१७} जभा ।
जिणक्कप्पिओ ^{१९} न मूढो खवगो ^{२०} वि न मुज्झदि ^{२१} तधेव ^{२२} ॥ | २०६ |

१. क वुच्छं । २. क 'हणा । ३. क साहण । ४. ख 'पभावणा । ५. ख घीए ।
६. ख चउरो । ७. ख जेण एदे । ८. क 'गदो; ख 'कदो । ९. क सय सत्तिं अगूह'; ख
विसयासत्तिं अगूह' । १०. क ख य । ११. क 'सद्धा । १२. क उववाणे । १३. ख तह
अणिण्हवणे । १४. क अत्थतदुभयो; ख अत्थ तदुभये । १५. ख 'भय । १६. क ख 'विध ।
१७. क ख 'णाए । १८. क ख जहा । १९. क 'दो । २०. क ख 'ओ । २१. क ख 'इ । २२. क तहेव ।

कहकोसु

सन्धि कडवक क्र० सं०।

भ० आ०

- ७ ७ (१०) तं बत्थु मोत्तव्वं जं पदि^{२३} उप्पज्जए^{२४} कसायग्गी ।
त^{२५} वत्थुं अल्लिएज्जो^{२५} जत्थोवसमो^{२६} हवे तेसिं ॥ २६७
- ७ ११ (११) गुणपरिणामादीहिं^{२७} य वेज्जावच्चुज्जुदो^{२८} समज्जेदि ।
तित्थयरनामगोत्त^{२९} तिहुयणसंखोहण^{३०} पुण्णं ॥ ३३३
- ७ १४ (१२) सुयणो^{३१} वि हवे^{३२} लहुओ दुज्जणसम्मेलणाय^{३३} दोसेण ।
माला वि मोल्ललहुई^{३४} होदि^{३५} हु^{३६} मडयस्स संसिट्ठा^{३६} ॥ ३५०
- ७ १५ (१३) दुज्जणसंसग्गीए संकिज्जदि संजदो वि दोसम्मि^{३७} ।
पाणागारे दुद्ध पिबंतओ^{३८} बंभणो चव ॥ ३५१
- ७ १७ (१४) अवि संजदो वि दुज्जणकदेण दोसेण पाउणदि दोसं ।
जघ घूयकदे दोसे हसो वहिओ अपावो वि ॥ ३५३
- ८ १ (१५) आसयवसेण एवं पुरिसा दोसं गुणं च पावंती ।
तम्हा पसत्थगुणमेव आसय अल्लिएज्जाह ॥ ३६१
- ९ १ (१६) अप्पो वि परस्स गुणो सप्पुरिस पप्प बहुदरो होदि ।
उदए व तेल्लबिदू कह^{३९} सो जैपिहिदि परदोसं ॥ ३७८
- ९ १६ (१७) जह बालो जंपंतो कज्जमकज्जं च उज्जुय^{४०} भणदि ।
तह आलोचेदव्वं माया-मोसं च मोत्तूण ॥ ५५३
- १० १ (१८) अच्छीणि संघसिरिणो मिच्छत्तनिकाचिदेण^{४१} पडिदाइ^{४२} ।
कालगदो वि य सतो जादो सो दीहसंसारी^{४३} ॥ ७३६
- ११ १ (१९) भावाणुराय^{४४}-पेम्माणुराय^{४४}-मज्जाणुराय^{४४}-रत्तो य^{४५} ।
धम्माणुराय^{४४} रत्तो य होहि जिणसासणे निच्च ॥ ७४१
- ११ १० (२०) दंसणभट्ठो भट्ठो न दु भट्ठोहो दि^{४६} चरणभट्ठो दु^{४७} ।
दंसणममुयंतस्स हु परिवडण नत्थि ससारे ॥ ७४३

२३. क ख पडि । २४ ख "दे । २५. क वत्थुमज्जि"; ख वत्थुमल्लि" । २६. क ख कसायाण । २७. क "दीहि । २८. ख "ज्जुदो । २९. क ख "कम्म । ३०. क तिलोयसंखोभयं; ख तिलोयसंखोभयं । ३१ क ख सुजणी । ३२. क ख होइ । ३३. क "संमिल; ख "संमेलणाए । ३४. क "गहया; ख "गहया । ३५ ख होइ । ३६. क ख लहु मडय" । ३७. क ख दोसेण । ३८. क ख पिय । ३९. क किहि; ख किह । ४०. क अ; ख ग । ४१. क ख णिकाचणेण । ४२. ख "णि । ४३. क ख "संसारे । ४४. क ख "राग । ४५ क व्व; ख वा । ४६. क होइ । ४७ ख हु ।

कहकोसु

सन्धि कडवक क्र० सं०

भ० आ०

- १२ १ (२१) सुद्धे सम्मत्ते अविरदो वि अज्जेदि तित्थयरनामं ।
जादो ह्नु^{४८} सेणिघो^{४९} आगमेसि भद्वो^{५०} अविरदो वि ॥ ७४४
- १६ १ (२२) एक्का^{५१} वि सा समत्था जिणभत्तो दुगदि^{५२} निवारेदुं ।
पुण्णाणि य पूरेदुं आसिद्धि परंपरसुहाणं ॥ ७५०
- २१ १ (२३) विज्जा वि भत्तिमंतस्स^{५३} सिद्धिमुवयादि होदि सफला य ।
कह^{५४} पुणु निव्वुदिविज्जा^{५५} सिज्झहिदि^{५६} अभत्तिवतस्स^{५७} ॥ ७५२
- २२ १ (२४) अन्नाणी वि य गोवो आराधित्ता मदो नमोक्कारं ।
चंपाए सेट्टिकुले जादो पत्तो य सामन्नं ॥ ७६२
- २३ १ (२५) जइदा खडसिल्लोगेहि^{५८} यमो^{५९} मरणादु फेडिदो^{६०} राया ।
पत्तो य सुसामन्नं कि पुण जिणवुत्तमुत्तेण^{६१} ॥ ७७५
- ७ (२६) दढमुप्पो सूलहदो पंचनमोक्कारमेत्तमुदनाणो^{६२} ।
उवउत्तो कालगदो देवो जादो महड्ढीघो^{६३} ॥ ७७६
- २९ १ (२७) जीववघो^{६४} अप्पवघो^{६४} जीवदया होदि^{६५} अप्पणो हु दया ।
विसकंठघो व्व हिसा परिहरिदव्वा^{६६} तदो होदि ॥ ७९६
- ३० १ (२८) मारेदि एगमवि^{६७} जो जीवं सो बहुसु जम्मकोडीसु ।
अवसो मारिज्जंतो मरदि विघाणेहि बहुएहि^{६८} ॥ ८०२
- २९ (२९) पाणो वि पाडिहेरं पत्तो छूढो वि सुसुमारदहे ।
एणेण एगदिवसक्कदेण^{६९} हिसावदगुणेण^{७०} ॥ ८२१
- ८ (३०) सच्चं भणंति^{७१} रिसघो रिसीहि विहियाउ^{७२} सव्वविज्जाउ^{७३} ।
मेच्छस्स वि सिज्झंति य विज्जाघो सच्चवाइस्स^{७४} ॥ ८३६
- ९ (३१) पावस्सासवदार^{७५} असच्चवयणं भणंति हु जिणिदा ।
हियएण^{७६} अपावो वि हु मोसेण वसू^{७७} गदो^{७७} निरयं ॥ ८४८

४८ क दु, ख लु । ४९ क ख 'गो । ५० क ख भरुहो । ५१ क ख एया । ५२ क ख 'इं ।
५३ क ख 'वतस्स ५४ क किह; ख किध । ५५ क ख 'बीज । ५६ क 'हदि । ५७ क ख 'मतस्स ।
५८ क ख 'गेण । ५९ क ख जमो । ६० क 'घो । ६१ क ख जिणउत्त' । ६२ क ख 'णाणे ।
६३ क महड्ढीघो । ६४ क ख व्हो । ६५ क होइ । ६६ ख 'यव्वा । ६७ क 'एय । ६८ ख गेहि ।
६९ ख 'अप्पकाल । ७० ख अहिंसा ७१ क ख वदंति । ७२ क ख विहिदाउ । ७३ क सच्च' ।
७४ क ख 'वाविस्स । ७५ क पाप । ७६ क हिदयेण; ख हिदएण । ७७ क ख गदो वसू ।

कहकोसु

सन्धि कडवक क्र० सं०

अ० भा०

- ३२ २ (३२) परदव्वहरणबुद्धी सिरिभूदी नयरमज्झयारम्मि ।
होदूण हदो पहदो पत्तो⁷⁸ दीहं च संसारं⁷⁸ ॥ ८७३
- ३३ १ (३३) निच्चं⁷⁹ पि कुणदि कम्मं कुलउत्तदुगुच्छिदं⁸⁰ विगदमाणो ।
वारत्तमो⁸¹ वि कम्मं⁸¹ अकासि जह लंखियाहेदु⁸² ॥ ९०८
- ॥ ६ (३४) भारसवरिसाणि⁸³ वि सवसित्तु कामादुरो न नासीय⁸⁴ ।
पादगुट्टमसंतं गणियाए गोरसंदीवो ॥ ९१४
- ३४ १ (३५) इहलोए वि महल्लं दोसं कामस्स वसंगमो⁸⁵ पत्तो ।
कालगदो वि य पच्छा कडारपिगो गदो निरयं ॥ ९३४
- ३५ १ (३६) ओघेण⁸⁶ न वूढामो जलंतघोरग्गिणा न दड्ढामो⁸⁷ ।
सप्पेहि सावएहि⁸⁸ य⁸⁹ परिहरिदाओ वि⁸⁹ काओ⁹⁰ वि ॥ ९९८
- ॥ ५ (३७) साहुं⁹¹ पडिलाहेदु गदस्स सुरदस्स⁹² अगमहिसीए ।
नट्टं सदीए अंग कोढेण मुहुत्तमेत्तेण⁹³ ॥ १०६१
- ॥ ९ (३८) जादो हुं⁹⁴ चारुदत्तो गोट्ठीदोसेण तह विणीदो वि ।
गणियासत्तो मज्जे⁹⁵ सत्तो कुलयनासओ⁹⁶ य तथा ॥ १०८२
- ४३ ४ (३९) सभूदो वि निदाणेण देवसोक्खाइं⁹⁷ चक्किसोक्खाइं⁹⁸ ।
पत्तो तत्तो य चुदो उववओ नरयवासम्मि⁹⁹ ॥ १२८२

'कहकोसु' में उद्धृत अन्य प्राकृत गाथाएँ

- १ ९ (१) जिह कुडुंण विहूणं अलेक्खं नत्थि जीवलोयम्मि ।
तिह पवयेण विहूणं पावंति कहं न सोयारा ॥
- ५ १५ (२) धम्मो जयवसियरणं धम्मो चिंतामणि अणघेउ ।
धम्मो सुहवसुधारा धम्मो कामदुहा घेणू ॥

७८ क ख सो दीहसंसारं । ७९ क ख णीचं । ८० क ख 'पुत्तदुगुच्छियं' । ८१ क 'तमो वि कुकम्मं; ख वारित्तगो वि० । ८२ क ख लंघिया । ८३ क ख 'वासणि । ८४ क याणीय । ८५ क ख वसगदो । ८६ ख उग्घेण । ८७ क वग्घामो । ८८ क 'देहि; ख 'ज्जेहि' । ८९ ख वि हरिदा खट्ठा ण । ९० क 'दाओ य काओ । ९१ क ख साधु । ९३ 'यस्स । ९३ क ख जहा मुहुत्तेण । ९४ क ख खु । ९५ क ख मज्जा । ९६ क ख कुलदूतमो । ९७ क 'सुक्खं च, ख 'सोक्खं च । ९८ क खकहरसुक्ख; ख खकधरसोक्खं । ९९ क ख निरयं' ।

- ” ” (३) किं जंपिदेण बहुणा जं जं दीसेइ जीवलोयम्मि ।
इंदियमणोहिरामं तं तं धम्मफलं सब्बं ॥
- ५ १६ (४) धणसंचयादो वर पुण्णसंचओ एस पंडिदा बेंति ।
धम्मो मदमणुगच्छदि धण पि अन्ने विलुपंति ॥
थोवं थोवं धम्मं करेह जइवि हु बहु न पारेह ।
विरला वि रुक्खछाया नं होदि दुक्खावहा नूणं ॥
- ६ ९ (५) पलियंक-निसेज्ज-गदो पडिलिहिय कयंजली कदपणामो ।
सुत्तत्थजोगजुत्तो पडिदब्बो आदसत्तीए ॥ (मूलाचार २८१)
- ” ” (६) विणएण सुदमधीदं जदि वि पमादेण कह व वीसरिदं ।
तं उवठादि परभवे केवलनाणं च आवहदि ॥ (मूलाचार २८६)
- ६ १० (७) आयविल निव्वियडी अन्नं वा जस्स होदि जं जोगं ।
त तस्स करेमाणो उवघाणपरो हवदि एसो ॥ (मूलाचार २८२)
- ६ १३ (८) सुत्तत्थं जंपतो वायंतो चावि निज्जराहेदु ।
आसादणं न कुज्जा तेण कद होदि बहुमाण ॥ (मूलाचार २८३)
- ९ ४ (९) चोल्लय पासय धन्ने जूद रयण सिविण चक्कं च ।
कुम्मं जुग परमाणू दस दिट्ठंता मणुयलभे ॥
- ११ ७ (१०) एक्का वि जिणे भत्ती निदिट्ठा दुक्खलक्खनासयरी ।
सोक्खाणमणताणं होदि हु सा कारणं परम ॥
- २० २१ (११) एक्कम्मि भवग्गहणे समाहिमरणेण जो मदो जीवो ।
न हु सो हिडदि बहुसो सत्तट्ठभबे पमोत्तूणं ॥
- २३ १६ (१२) दीहकालं वयं वुत्था पादवे निरुवह्वे ।
मूलादो उट्ठिदा वल्ली जादं सरणदो भयं ॥
- २३ १८ (१३) जेण भिक्ख बलि देमि जेण पोसेमि अण्णयं ।
तेण मे पट्टिया भग्गा जादं सरणदो भयं ॥
- २४ १ (१४) सब्ब विसं जंहि सलिलं सब्बारन्नं च कूडसंछन्नं ।
राया य सयं वाहो तत्थ मयाणं कुदो वासो ॥
- २४ २ (१५) जेण बीया परोहति जेण सिप्पति पादवा ।
तस्स मज्झि मरिस्सामि जाद सरणदो भयं ॥
- ३३ १० (१६) सवणवरगघहत्थी गिहबंधणनेहनियलउम्मुक्को ।
महिलागणियारिरओ पेच्छह किह बंधणं पत्तो ॥

- ” १७ (१७) पञ्चयपुहृद्वपन्नोनिहिसमसारो सखरयणसारेसु ।
पेच्छह तिणतुसतुल्लो जाओ सो जुवइसगेण ॥
- ३४ १२ (१८) दरियारिदप्पभंजण परमेसर जणिजयणमणाणंद ।
दुत्थियकप्पमहीरूह जसघवल चिरं तुमं जीय ॥

‘कहकोसु’ में उद्धृत संस्कृत पद्य

- ५ १२ (१) भालोचनैनिन्दनगर्हणैश्च व्रतोपवासैः स्तुतिसंकथाभिः ।
शुद्धैश्च योगैः क्षपण करोति विषप्रतीघातमिवाप्रमत्तः ॥
- ५ १५ (२) सर्वे वेदा न तत् कुर्युः सर्वयज्ञाश्च भारत ।
सर्वतीर्थाभिषकश्च यत्कुर्यात्प्राणिनां दया ॥
एवमादि धर्मशास्त्रकारैः धर्मफलं वर्णितमिति ।
- ७ १५ (३) शूद्राश्च शूद्रसुश्रूषा शूद्रप्रेषणकारिता ।
शूद्रदत्ता च या वृत्तिः पर्याप्त नरकाय तत् ॥
- ” (४) न शूद्राय मतिं दद्यान्नोच्छिष्टं न हविष्कृतम् ।
न चास्योपदिशेद् धर्मं न चास्य व्रतमादिशेत् ॥
- ७ १७ (५) न स्थातव्यं न गन्तव्यं दुष्टेन सहकर्मणा ।
शौण्डैः सह पयः पीत वारुणी मन्यते जनः ॥
- ७ १८ (६) विकालचर्या विपमां च गोष्ठीं कुमिन्नसेवा न कदापि कुर्यात् ।
पश्याण्डज पञ्चवने प्रसूत धनुर्विमुक्तेन शरेण ताडितम् ॥
- ८ ४ (७) माताप्येका पिताप्येको मम तस्य च पक्षिणः ।
अहं मुनिभिरानीतः स तु नीतो गवाशनैः ॥
- ” (८) शृणोति वाक्यं स गवाशनानामहं च राजन्मुनिपुङ्गवानाम् ।
प्रत्यक्षमेतद् भवता हि दृष्टं संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति ॥
- ११ १७ (९) भवविच्छेदिनी दीक्षा निरवद्या मुनिर्मला ।
नृपसूनां हितार्थाय महादेवेन भाषिता ॥
- ” (१०) न चानुर्यशतेनापि शार्वा सा हन्यते सती ।
गुह्रोहादृते पुसामित्याह परमेश्वरः ॥
- १२ १३ (११) किं न दद्यात् किं न कुर्यात् स्त्रीभिरभ्यर्षितो नरः ।
अनश्वोऽप्यश्वतां याति अपर्वणि मुण्डितं शिरः ॥

- १८ १५ (१२) पूजितव्यो जिनो नित्यं त्रैलोक्येश्वरपूजितः ।
जिनपूजासमं पुण्यं न भूतं न भविष्यति ॥
- २० ६ (१३) भारते मुरारिणा—त्वमारोह रथं पार्थ गाण्डीवं चापि धारय ।
निजितां मेदिनीं मन्ये निर्ग्रन्थो मुनिरग्रतः ॥
- ” (१४) शकुनशास्त्रे च—श्रवणस्तुरगो राजा मयूरः कुञ्जरो वृषः ।
प्रस्थाने वा प्रवेशे वा सर्वे सिद्धिकराः स्मृताः ॥
- ” (१५) ज्योतिषाङ्गे च—पद्मिनी राजहंसाश्च [निर्ग्रन्थाश्च] तपोधनाः ।
यद्देशमुपसर्पन्ति तद्देशे शुभमादिशेत् ॥
- ” (१६) घर्मशास्त्रे च—यागी च याज्ञी च तपोधनश्च
सूरोऽथ राजाथ सहस्रदश्च ।
ध्यानी च योगी च तथा शतायुः
सदर्शनादेव हरन्ति पापम् ॥
- २० २० (१७) उदकागमे यथा रुद्धे सरः शोषति भास्करः ।
तथोपवासयोगेन प्राणी पाप विशोषयेत् ॥
- ” (१८) श्रूयते सर्वशास्त्रेषु तपो नानशनात्परम् ।
पापानां क्षयहेतुत्वात्सर्वसौख्यप्रदायकम् ॥
- ” (१९) देवा गन्धर्वयक्षा वा पिशाचोरगराक्षसाः ।
व्रतोपवासयोगेन वश गच्छन्ति तत्क्षणात् ॥
- ” (२०) विद्यामन्त्रास्तथौषध्यो योगाश्च वशकारकाः ।
सिध्यन्ति ह्यपवासेन क्षीयन्ते च जरादयः ॥
- २२ १६ (२१) साव्येनापि [स्वार्थेनापि] नमस्कार यः करोति जितेश्वरे ।
स निस्तरति संसारं किं पुन परमार्थतः ॥
- २३ ५ (२२) उपकारक्षतेनापि गृह्यते न परः क्वचित् ।
सुगृहीतः सुमान्यो वा यः परः पर एव सः ॥
- ” (२३) अफत्रस्यापि वृक्षस्य छाया भवति क्षीतला ।
निर्गुणोऽपि वरं बंधुर्यः परः पर एव सः ॥
- २३ १७ (२४) बृद्धवाक्यं सदाकृत्यं ये च बृद्धाः बहुश्रुताः ।
पश्य हंसा वने बद्धा बृद्धवाक्येन मोचिताः ॥
- २६ ७ (२५) यो दद्यात्काञ्चनं मेरुं कृत्स्नां चापि वसुन्धराम् ।
एकस्य जीवितं दद्यात् फलेन न समं भवेत् ॥

- " (२६) हिरण्यदानं गोदानं भूमिदानं तथैव च ।
 एकस्य जीवित दद्यात् फलेन न समं भवेत् ॥
- ३१ १० (२७) नभश्चरः सर्वजनप्रधानो वसुर्महात्मा वसुधातलेऽस्मिन् ।
 एकेन मिथ्यावचनेन राजा रसातलं सप्तममाससाद ॥
- " (२८) साकेतपुर्यां सुलसानिमित्तं कृतं निदानं मधुपिङ्गलेन ।
 परोपराभ्यागमनं च तस्याः को नाशृणोत् भारतजातमत्यैः ॥
- ३६ ११ (२९) अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकाम इति ।
- ३६ १२ (३०) नाहं स्वर्गफलोपभोगतृषितो नाभ्यर्थितस्त्व मया ।
 सन्तुष्टस्तृणभक्षणेन च गुरुस्त्व मे न चाह सुतः ॥
 स्वर्गं नेतुमभीप्ससे यदि भवेद् वेदे च तथ्या श्रुतिः ।
 यज्ञं किं न करोषि मातृपितृभिः पुत्रैस्तथा बान्धवैः ॥
- " (३१) यूथादीनां तमेकं सरसकिसलयप्रासमात्रोपभोज्यं ।
 मुग्धं यूपे निबद्धं भयतरलदृशं कम्पमानं वराकम् ॥
 बे बे ति व्याहरन्त पशुमिति विवशं निघ्नतां याज्ञिकानाम् ।
 मन्ये वज्रातिरेक न दलति हृदयं तत्क्षणादेव सद्यः ॥
- ३९ १६ (३२) उर्वशी ब्रह्मणो भार्या वेश्या विख्यातसुन्दरी ।
 तस्याः पुत्रो वसिष्ठाख्यो वेदे विप्रगणेऽदितः ॥
- ५२ ३ (३३) यत्र यत्रोपपद्यन्ते जीवाः कर्मवशानुगाः ।
 तत्र तत्र रति यान्ति कर्मणा तेन रञ्जिताः ॥
- ५३ ७ (३४) नन्दस्य राज्ये मदविह्वलाया हस्ताच्च्युतः स्वर्णघटोऽम्बुरिक्तः ।
 सोपानमासाद्य करोति शब्दं रण रण टटण टटणेति ॥
- " (३५) उत्पलनालकृताभरणा सा त्व न गतः स्थित सा पि निराशा ।
 अद्य कृतं कमलं कमलादयाः कर्कशनालमकर्कशनालम् ॥
- ५३ १२ (३६) उत्तिष्ठोत्तिष्ठ दुर्बुद्धे न त्वं किमपि बुद्धयसे ।
 स्मर रिक्षं तथा व्याघ्र न्यग्रोधे यत्त्वया कृतम् ॥
- " (३७) नेतासौ सर्वहत्याना यो मित्रं हन्ति दुर्मतिः ।
 मित्रधुक् नरकं याति न जातु सुखमेघते ॥
- " (३८) बालहन्याबलाहत्या वृद्धहत्या वरं कृता ।
 न पापा मित्रहत्या सावनतासुखदायिनी ॥

- ॥ (३९) तेन त्वं पाप पापेन दुस्सहेन नराधम ।
दहधसे हृदयस्थेन शुष्कवृक्षो यथाग्निना ॥
- ॥ (४०) हन्ति जातौ विजातौ च ह्युभौ पक्षौ नराधमः ।
यो मित्रं सुखमासीनं छद्मनैव प्रयच्छति ॥
- ॥ (४१) किं त्वदीयं कृत तेन मित्रेणाभयदायिना ।
येन निद्रावशीभूतं तं त्वं हन्तुं समुद्यतः ॥
- ॥ (४२) चित्ताह्लादकृतं मित्रं विश्वस्तं च हिनस्ति यः ।
पापावपि स पापीयान्यथा त्वमसि दुर्मते ॥
- ॥ (४३) दुष्टात्मानं न जानासि यथा शास्त्रेषु पठ्यते ।
मित्रद्रोहात्परं पापं न भूतं न भविष्यति ॥
- ॥ (४४) सेतु यातु समुद्रं वा गङ्गाद्याः सरितोऽथवा ।
ब्रह्महा मुच्यते तत्र मित्रधुग् नैव मुच्यते ॥
- ॥ (४५) मित्रबन्धुपरित्यक्तः सुहृद्भृत्यविवर्जितः ।
लोकानलभमानस्तु नरके निपतिष्यति ॥
- ॥ (४६) ग्रामवासी मनुष्यस्त्वमटव्या त्वत्प्रयोजनम् ।
पशूनां नरशार्दूल कथं जानासि भाषितम् ॥
- ॥ (४७) हृदये मम सावित्री जिह्वाग्रे च सरस्वती ।
तेनाहं नृप जानामि भारुका [गुह्यान्ते ?] तिलकं यथा ॥

कथाओं की, भगवती आराधना की आधार गाथाओं सहित, हरिषेण कृत कथाकोश से तुलनात्मक सारिणी ।

१	२	३	४	५	६	७
क्रमांक	स्थान	कथा-नायक	विषय	भ. आ. गाथांक	ह. क. क्रमांक	विशेष
१	१,६	भरत चक्री	लौकिक उद्योतन	१,३		
२	१,१०	साधु	लौकीतर उद्योतन	॥		
३	१,११	जितशत्रु	लौ. उद्यमन	॥		
४	१,१२	मुनि	लोको. उद्यमन	॥		
५	॥	सुखी नर	लौ. निर्बह्न	॥		
६	१,१३	संयमी	लोको. निर्बह्न	॥		

१	२	३	४	५	६	७
७	"	आहारादि सुख	ली. सिद्धि	"		
८	"	मोक्ष सुख	लोको. सिद्धि	"		
९	"	रावण	ली. साधन	"		
१०	१,१४	रत्नत्रय	लोको. साधन	"		
११	"	शुषभदत्त वणिक	ली. निस्तरण	"		
१२	"	मुनि	लोको. निस्तरण	"		
१३	१,१५	जिनदत्त रा. कु.	परिकर्म हीनता	१६,२२	१	
१४	१,१६	सूरदत्त रा. कु.	परि साधना			
१५	१,१८	सोमधर्मा	स्थाणु-निधि-लाभ	२४	२	
१६	१,२०	विष्णुदत्त	" (लौकिक)	"	३	
१७	२,१	सोमदत्त	सम्यक्त्व का अतिचार शका	४४	४	
१८	२,३	अंजन चोर	सम्यक्त्व का धर्म-अशका	"	"	
१९	२,६	विश्वभर रा कु	कासा	"	५	
२०	"	यशोधर रा. कु.	निष्काशा	"	"	
२१	२,१०	जय राजकुमार	विचिकित्सा	"	६	
२२	"	विजय राजकुमार	निविचिकित्सा	"	"	
२३	२,१२	भवसेन	मूढदृष्टिता	"	७	
२४	"	रेवती	अमूढदृष्टिता	"	"	
२५	३,१	चेलना रानी	उपगूहन	४५	८	
२६	३,५	श्रेणिक राजा	"	"	९	
२७	३,८	वारियेण	स्थितिकरण	"	१०	
२८	३,१२	विष्णुकुमार	वात्सल्य	"	११	
२९	४,१	बच्चकुमार	प्रभावना	"	१२	ह. क. मे वैरकुमार नाम है।
३०	५,१	धनपाल नृप	श्रद्धान	४८	१३	ह क मे राजा का नाम विनयघर है।
३१	५,३	बुद्धिमती	आत्मनिन्दा	८९	१४	
३२	५,१२	सोमदत्त मुनि	लोच (उग्रतप)	९४	१६	ह क. कोश मे १५ वी कथा 'प्रिय- वी रा-महागहस्थान नामक है।
३३	५,१७	वीरभद्र मुनि	काल-विनय	११५	१७	
३४	५,१९	शिवनन्द ' मुनि	"	"	१८	ह. क. मे मुनि-नाम अभिनन्दन है।

१	२	३	४	५	६	७
३५	६,१	धनसेन	श्रुत विनय	"	१६	
३६	६,६	वसुपाल नृप	उपधान वि.		२०	
३७	६,१०	नन्दा भ्वाली	बहुमान वि.	११५	२१	
३८	६,१३	कृष्णसंदीप	गुरुनिह्व	११५	२२	
३९	६,१८	वीरसेन नृप	व्यजन हीन	"	२३	
४०	६,२०	वसुपाल नृप	अर्थ हीन	"	२४	
४१	६,२२	पद्म नृप	उभय हीन	"	२५	
४२	६,२४	धरसेन मुनि	उभयशुद्धि	"	२६	
४३	७,१	नागदत्त मुनि	एकत्व भावना	२०६	२७	
४४	७,७	शूरमित्र-शूरचन्द्र	सल्लेखन	२६७	२८	
४४	७,११	वासुदेव	वैयावृत्य	३३३	२९	
४५	७,१४	धनदत्त	सघृत्व	३५०	३०	
४६	७,१५	शिवभूति	दुर्जन संसर्ग	३५१	३१	
४७	७,१७	धृक्-हंस	कुमित्र-संसर्ग	३५३	३२	
४८	८,१	हरिषेण चक्री	सज्जन संसर्ग	३६१	३३	
४९	९,१	वासुदेव	सज्जन स्वभाव	३७८	३४	
५०	९,४	ब्रह्मदत्त चक्री	मनुष्य जन्म की दुर्लभता पर चोत्सुक १० दृष्टान्त		३५	
५१	९,६	द्यूतकार	पाषाक २		३६	
५२	९,१०	भीमकायनर	धान्य ३		३७	
५३	९,१०	प्रजापाल नृप	धान्य "		३८	
५४	९,११	द्यूतकार	द्यूत ४		३९	
५५	९,११,९	निर्लक्षण	द्यूत "		४०	
५६	९,१३	भरतादि चक्री	रत्न ५		४१	
५७	९,१३,७	सागर दत्त	रत्न "		४२	
५८	९,१३,१२	कवाडी	स्वप्न ६		"	
५९	९,१४	अर्जुन	चक्र ७		४३	
६०	९,१५	कच्छप	कूर्म ८		४४	
६१	९,१५,१०	शमिला	युग्म ९		"	
६२	९,१५,१२	सव चक्रियों का दण्डरत्न	परमाणु १०		"	
६३	९,१६	सागरदत्त	सत्यालोचन	५५३	४५	
६४	१०,१	सघन्धी	मिथ्या भाषण	७३६	४६	
६५	११,१	सागरदत्त	भावानुराग	७४१	४७	ह. क. मे नायक नागदत्त

१	२	३	४	५	६
६६	११,१	द्रव्यदत्त	प्रेमानुराग	"	४८ " " वसुमित्र
६७	११,४	जिनदत्त धादि	मञ्जानुराग	"	४९
६८	११,५	लकुच कुमार	धर्मनुराग	"	५०
६९	११,७	पद्यरथ नृप	जिनभक्ति	"	५१
७०	११,१०	ब्रह्मदत्त षष्ठी	दर्शनभ्रष्ट	७४३	५२
७१	११,१३	जिनदास	दर्शन दृढ़ता	"	५३
७२	११,१६	जिनमती	"	"	५४ ह. क. मे नाम 'रुद्रदत्त 'प्रिया-प्रबोध कथा ।
७३	१२,१	श्रेणिक नृप	सम्यक्त्व शुद्धि	७४४	५५
७४	१६,१	करकण्ठ नृप	जिनभक्ति	७५०	५६
७५	१६,१	रोहिणी	" फल	"	५७
७६	२१,१	क्षीरकदम्ब भील	गुहभक्ति	७५२	५८
७७	२१,७	धन्वन्तरि चोर	"	"	५९
७८	२१,१३	जिनदास सेठ	"	"	(श्लोक ९९)
७९	२१,१५,६	पद्यरथ नृप	"	"	(श्लोक ११२)
८०	२२,१	सुभग गोपाल सुदर्शन सेठ	नमोकार मंत्र	७६२	६०
८१	२३,१	यम मुनि	शास्त्र भक्ति	७७५	६१
८२	२३,७	दृढसूर्प चोर	"	७७६	६२ ह. क. मे दृढसूर्प
८३	२३,१०	उदितोदित नृप	मर्यादा पालन	"	६३
८४	२३,१३,५	सुयोधन नृप व तलवर	मर्यादापालन की ७ कथाये	"	" श्लोक २१
८५	२३,६,८	हम	कथा १	"	"
८६	२३,१८	कुलाल	२ मृत्तिका से हानि		
८७	२३,१८,८	वरधर्म नृप	३ नरबलि		
८८	२४,१	मृग	४ सर्वत्र विप धौर पाश		
८९	२४,१,५	चित्रकवि	५ जीवनदायी जल से हानि		
९०	२४,१,१४	सुभद्र नृप	६ भक्षक ही रक्षक		
९०	२४,२	यशोधर वणिक्	७ माता का वस्त्र		६३ (श्लोक १३३)
९१	२४,४	ग्रहंदास सेठ व भ्रजन चोर	सम्यक्त्व प्राप्ति		" (श्लोक १६६)
९२	२५,१	मित्रश्री	"		६४
९३	२५,११	खंडश्री	"		६५

१	२	३	४	५	६	७
६४	२६,१	विष्णुश्री	"			६६
६५	२६,१२	नागश्री	"			६७
६६	२७,१	पद्मलता	"			६८
६७	२७,६	कनकलता	"			६९
६८	२८,१	विद्युल्लता	"			७०
६९	२८,१३	कुन्दलता	"			" (श्लोक १४०)
१००	२९,१	सुदाम व छेलक	जीवहिंसा के कुफल	७९६		७१
१०१	२९,५	मृगसेन धीवर	जीवदया	"		७२
१०२	३०,१	यशोधर	हिंसा के कुफल	८०२		७३ इस कथा की यहाँ सूचना मात्र है कि 'सुप्रसिद्धत्वात् न लिखितम्, ह क मे पूरी है।
१०३	३०,१	यमपाश चाडाल	जीवदया	८२१		७४
१०४	३०,८	मातंग	सत्यव्रत	८३६		७५
१०५	३०,९	वसुराज व नारद-पर्वत	असत्य का कुफल	८४८		७६
१०६	३१,१	सगर	"	"		" (श्लोक १५६)
		मधुपिगल व सुलमा				
१०७	३२,१	समुद्रदत्त	धन-लोभ			७७
१०८	३२,२	श्रीभूति	परद्रव्य-हरण	८७३		७८
१०९	३३,१	वारत्रक-लत्विका	नीचकर्म	९०८		८० ह. क. की ७९ वीं इन्द्रादिमुनिदत्ताविकृति कथा यहाँ नहीं है।
११०	३३,६	श्रीपायन (गौरसदीप) व तनुसुन्दरी	कामासक्ति	९१४		८१
१११	३४,१	कडारपिंग	"	९३४		८२
११२	३४,५	महाभारत	मान व नारी			८३ } इन दोनों कथाओं की यहाँ सूचना मात्र है।
११३	"	रामायण	" "			८४ } ह. क. मे वे विस्तार से वर्णित है।
११४	३४,८	देवरति नृप मित्रमती	नारी दोष	"		८५
११५	३४,१३	सिंहबल नृप गोमती	"	"		८६

१	२	३	४	५	६	७
११६	३४, १५	बीरवती	पतिघात	"	८७	
११७	३५, १	रोहिणी	नारी-गुण	६६८	८८	
११८	३५, ४	सीता	"	"	८६	निर्देश मात्र । ह. क. में संक्षेप ।
११९	"	सोमा	"	"	×	निर्देश मात्र । ह. क. में नहीं ।
१२०	"	जिनदासी	"	"	६०	
१२१	३५, ५	सती (महादेवी)	मुनि घनादर	१०६१	६१	
१२२	३५, ७	त्रिविक्रम	मधुबिन्दु दृष्टान्त	"	६२	
१२३	३५, ६	चारुदत्त सेठ	वेषयागमन	१०८२	६३	
१२४	३७, १	शकट मुनि	नारी संसर्ग	"	६४	
१२५	३७, ४	कूर्चवार मुनि	"	"	६५	ह. क. में नाम कूपकार
१२६	३७, ७	पराशर	"	"	६६	
१२७	३८, ८	सात्यकि रुद्र (नील लोहित)	"	"	६७	
१२८	३९, १	नमि, दुर्मुख, करकड्ड व नगई (राजमुनि)	"	"	६८	
१२९	३९, ११	ब्रह्मा उर्वशी	"	"	६९	
१३०	४०, १	घतमित्र	रत्न से कुबुद्धि	"	१००	यहाँ मकेत मात्र क्योंकि पूर्वोक्त.
१३१	"	"	धन निमित्त नाथ	"	१०१	
१३२	"	मणिचन्द्र मुनि जिनदत्त सेठ व अच्युकारिका	धननिमित्त मुनिशोभ	"	१०२	
१३३	४०, १२	कपिला-नकुल	अविवेक	"	१०२.२	
१३४	४०, १४	वैद्य-अ्याद्य	"	"	१०२.३	
१३५	४०, १६	भद्रसाह	"	"	१०२.४	
१३६	४०, १७	तापस-गंधहस्ती	"	"	१०२.५	
१३७	४०, १८	विश्वसेन आभ्रवन	"	"	१०२.६	
१३८	४०, १९	वसुधार्मा-मीमांता वृक्ष	"	"	१०२.७	
१३९	४०, २०	शशिभद्र डिडिभ	"	"	१०२.८	
१४०	४०, २१, ६	मेदार्य-कौब (मपूर)	"	"	१०२.१०	ह. क. की १०२.९ वीं कथा यहाँ नहीं है ।

१	२	३	४	५	६	७
१४१	४१,१	पिप्लकगंध वणिक्	घन लोभ से मृत्यु	"	१०४	ह. क. मे १०३ वीं कथा भ्रुकुकारिका की सूची मात्र है, क्योंकि वह पहले प्रा चुकी है।
१४२	४१,५	फडहस्तक सेठ मेदार्य मुनि	घनलोभ	"	१०५	
१४३	४२,१	उग्रसेन-वसिष्ठ	निदान से अनिष्ट	"	१०६	
१४४	४३,१	लक्ष्मीमती	मान के कुफल	"	१०८	ह. क. मे १०७ वें क्रमांक पर सागर-दत्त कथा है जो यहां नहीं है।
१४५	४३,४	चित्र-संभूत	निदान का कुफल	१२८२	१०९	
१४६	४३,६	पुष्पदन्ता रानी	मायाचारी का कुफल	"	११०	
१४७	४३,८	मरीचि	मिथ्यात्व	"	१११	
१४८	४३,१०	गादिक अगन्धन सर्प (कुलजात)	मर्मादा का अमंग	"	११२	
१४९	४३,१४	गधमित्र	घ्राणेन्द्रिय दोष	"	११३	
१५०	४३,१६	पाचाल-गंधर्वदत्ता	कर्णेन्द्रिय दोष	"	११४	
१५१	४३,२०	भोम नृप	जिह्वेन्द्रिय दोष	"	११५	
१५२	४३,२२	भद्रमित्र	नयनेन्द्रिय दोष	"	११६	
१५३	४४,१	नागदत्ता	स्पर्शेन्द्रिय दोष	"	११७	
१५४	४४,४	द्वीपायन	क्रोधकषाय दोष	"	११८	
१५५	४४,८	सगरपुत्र	मान "	"	११९	
१५६	४४,१०	कुम्भकार	माया "	"	१२०	
१५७	४४,१२	मृगध्वज	लोभ "	"	१२१	
१५८	४४,१७	कातंवीर्य	" "	"	१२२	
१५९	४५,१	शीलसेन्द्र नृप (नीलसिंह)	क्षुधा परीषह जय	"	१२४	ह. क. मे १२३ क्रमांक की सिंह-केसर कथा यहां नहीं है।
१६०	४५,३	अवन्ति सुकुमाल मुनि	परीषह जय	"	१२६	ह. क. में १२५ क्र. की शिवभूति कथा यहां नहीं है।



5920

१	२	३	४	५	६	७
१६१	४६,१	सुकुशल मुनि	"	"	१२७	
१६२	४७,१	गजकुमार मुनि	"	"	१२८	
१६३	४६,२	सनत्कुमार चक्री	"	"	१२९	
१६४	४७,६	एणिकापुत्र	"	"	१३०	
१६५	४७,७	भद्रबाहु	"	"	१३१	
१६६	४७,१९	द्वन्द्वदत्तादि वणिक् (समुद्रदत्तादि)	"	"	१३२	
१६७	४८,१	धर्मघोष मुनि	"	"	१३३	
१६८	४८,२९	श्रीदत्त मुनि (श्रीधर)	परीषद्-जय		१३४	
१६९	४८,९	वृषभसेन मुनि	"		१३५	
१७०	४८,१५	स्वामि कार्तिकेय	"		१३६	
१७१	४८,२२	अभयघोष मुनि	"		१३७	
१७२	४९,१	विद्युच्चर मुनि	"		१३८	
१७३	४९,९	गजकुमार मुनि	"		१३९	
१७४	५०,१	चिलातपुत्र	"		१४०	
१७५	५०,६	धन्यकुमार	"		१४१	
१७६	५०,१०	अभिनन्दनादि मुनि	"		१४२	
१७७	५०,११	चाणक्य मुनि	"		१४३	
१७८	५०,१९	वृषभसेन मुनि	"		१४४	
१७९	५१,१	श्रीपाल कुमार	"		१४५	
१८०	५१,५	नामवादि वणिक्- पति क्षुधातं पुरुष	उच्छिष्ट भक्षण		१४६	
१८१	५१,७	शालिसिक्व	आहार गृद्धि		१४७	
१८२	५१,८	सुभौम चक्री	फलरस गृद्धि		१४८	
१८३	५१,९	धनदेवादि	कामासक्ति		१५०	ह. क. मे क्र. १४९ की सुप्तपुरुष राज्य दर्शन कथा यहाँ नहीं है।
१८४	५२,१	सुभोग नृप	कर्मफल प्राबल्य		१५१	
१८५	५२,३	सुकुशल स्वामी	"		१५२	
१८६	५२,४	सुदृष्टि मुनि	"		१५३	
१८७	५२,६	धर्मसिंह मुनि	व्रतभंग		१५४	
१८८	५२,८	ऋषभदत्त मुनि	"		१५५	
१८९	५२,१०	जयसेन नृप	आत्मघात द्वारा संघ-रक्षा		१५६	
१९०	५३,१	शकटाल मुनि	शस्त्र-भरण		१५७	

कथा-सूची

संघि—१

कथक	पृष्ठ
१. जिनेन्द्र को नमस्कार करके श्रीचन्द्र कवि का संसार की क्षणभंगुरता संबंधी चिन्तन ।	१
२. धन की सार्थकता—पात्रदान ।	१
३. मनुष्य भव की तथा शुद्ध देश, वंश, निरोगत्व, सत्संग व संबोधन की दुर्लभता ।	२
४. पूर्वोक्त गुणों को पाकर तप, ध्यान व अध्ययन द्वारा मोक्ष के चिन्तन का उपदेश ।	२
५. स्वाध्याय से लाभ व चित्त के बशीकरण द्वारा श्रेष्ठ वाणी से देव, शास्त्र, गुरु व धर्म विषयक काव्य-रचना का उपदेश ।	३
६. ग्रंथकार का साधन-विहीनता सबधी विनय-प्रकाशन व धर्म में दृढ़ भक्ति होते हुए भी कथाकोश-रचना की शक्ति में संशय ।	३
७. तथापि पूर्वं महर्षियों व सत्कवियों की रचनाओं के आधार से कथाकोश रचना का संकल्प ।	३
८. कथाकोश की पूर्वपरम्परा में मूलाराधना का स्थान व उसी की गाथाओं के आधार में प्रस्तुत रचना की सूचना ।	४
९. भगवती धाराधना की प्रथम और द्वितीय गाथाओं का उद्धरण, उनकी व्याख्या, उद्योतनादि भेद तथा लौकिक उद्योतन का दृष्टान्त-भरत चक्रवर्ती की विभूति ।	४
१०. लोकोत्तर उद्योतन का दृष्टान्त-मोक्षगामी साधु ।	५
११. लौकिक उद्यमन का दृष्टान्त-जितशत्रु का उद्यम ।	६
१२. लोकोत्तर उद्यमन का दृष्टान्त-मुनिचर्या द्वारा सिद्धि, लौकिक निर्वहन का दृष्टान्त-सुखी नर ।	६
१३. लोकोत्तर निर्वहन का दृष्टान्त-सयमी मुनि द्वारा प्राप्त सिद्धि का सुख । लौकिक सिद्धि का दृष्टान्त-ग्राहारादि सामग्री का सुख-भोग । लोकोत्तर सिद्धि-दर्शन ज्ञानादि द्वारा मोक्षसुख । लौकिक साधन-रावण का विद्या-सिद्धि साधन का सुख ।	६
१४. लोकोत्तर साधन-रत्नत्रय रूपी विद्यासाधन द्वारा मोक्ष-सुख । लौकिक निस्तरण-ऋषभदत्त द्वारा वाणिज्य से अर्जित धन का सुख । लोकोत्तर निस्तरण सम्यक्त्व रूपी रत्न द्वारा मोक्षसुख ।	७
१५. धाराधना कार्य में परिक्रम की आवश्यकता । उदाहरण, शस्त्राम्यास-हीन जिन-दत्त का पराभव ।	७
१६. शस्त्राम्यास-सम्पन्न सूरदत्त की विजय ।	८
१७. सूरदत्त की विजय से लक्ष्मी और प्रशंसा की तथा मुनिदीक्षा द्वारा मोक्ष की प्राप्ति ।	८
१८. योग के अनम्यासी का मरणकाल में धाराधक होना स्थाणु-निधि के लाभ के समान है-कथानक-मूर्ख साधु सोमधर्मा ने ज्ञान-सम्पादन से निराश हो समाधि मरण का विचार किया ।	९

१९. वह पांच दिन समाधि की साधना कर स्वर्गवासी भ्रूषधिज्ञानी देव हुआ । १०
२०. स्थाणु निधि लाभ का लौकिक दृष्टान्त—भ्रंषा विष्णुदत्त पत्नी की भर्त्सना से आत्मघात का विचार कर घर से निकल पड़ा और एक गिरे हुए वृक्ष से टकरा गया । भाल मे से रक्त-प्रवाह निकला जिससे उसे दृष्टि प्राप्त हो गई और वहीं उसे एक धन की निधि मिल गई । ११
२१. यह पुण्य का आकस्मिक फल है । इसे देख दूसरे भ्रंषों ने भी वैसे ही धन-प्राप्त करना चाहा, किन्तु केवल क्लेश ही हाथ लगा । ११

कथाकोश

संधि—२

कडवक

पृष्ठ

१. सम्यवत्व के अतिचार शंकादिक के उदाहरण । सेठ को आकाश मार्ग से तीर्थवन्दना को जाते देख उनके पुरोहित सोमदत्त ने नभोगामिनी विद्या सीखने की इच्छा प्रगट की । १२
२. सेठ ने मन्त्र-साधन की विधि बतलाई—वृक्ष के नीचे उर्ध्वमुख शस्त्र रखकर ऊपर सीके में बैठकर मन्त्रोच्चारण सहित सीके के तनों को काट डाली । नीचे गिरने से पूर्व मंत्र सिद्ध हो जायगा । १३
३. ब्राह्मण ने व्यवस्था तो वैसी ही की । किन्तु संशय वश वह वृक्ष पर चढ़ता और उतरता । कार्य की असिद्धि । उसी समय एक चोर वहाँ से निकला । उसने विधि पाकर नि शंक भाव से सीके में बैठकर तनों को काट डाला और नभोगामिनी विद्या सिद्ध कर ली । १३
४. विद्या देवी ने उसे सब तीर्थों की वन्दना कराकर सेठ के समीप पहुंचा दिया । १३
५. सेठ की प्रदक्षिणा के पश्चात् उनके पूछने पर उसका आत्म-परिचय । अपने दुष्ट स्वभाव के कारण घर से निर्वासित होकर चोरी करने लगा व अपनी प्रेयसी की संतुष्टि के लिये रानी का हार चुरा कर भागा । रक्षकों ने हार की चमक देखकर उसे घेर लिया । १४
६. तब वह हार छोड़कर अदृश्य हो गया । श्मशान में पहुंचने पर उस ब्राह्मण को वृक्षपर चढ़ते उतरते देख कारण पूछा । १४
७. ब्राह्मण ने अपनी पूर्वोक्त वृत्तान्त सुनाया । १५
८. पादुक वन आदि तीर्थों की वन्दना करके आने का सेठ को गुरु मानने का सवाद और फिर मुनि-दीक्षा । संशयवश भट्ट कही का न रहा । १५
९. कांसा और निष्कांसा के उदाहरण—दो राजपुत्र अपने गोकुल को गये । गौप ने स्वीर का भोजन कराया । छोटा राजपुत्र विश्वभर अधिक खा गया और विषूचिका से मरण को प्राप्त हुआ । बड़ा राजपुत्र यशोधर राजा हुआ और फिर उसने प्रवज्या धारण की । १६

१०. विचिकित्सा और निर्विकित्सा के उदाहरण । अपने मित्र गगनमित्र नरेश के मरण पर गगनचन्द्र नरेश ने बहुत शोक किया व मित्र के पुत्रों को विद्याभ्र (श्रेष्ठ भोजन) कराने का रसोदये को आदेश दिया । १६
११. उन्हें बैसा ही उत्तम भोजन कराया गया । किन्तु ज्येष्ठ भ्राता को सन्देह होने से उसे विकार उत्पन्न हुआ व आतंघ्यान सहित उसकी मृत्यु हुई । निःशंक भाव से जीवित रहकर सधुभ्राता सर्वार्थसिद्धि को गया । १७
१२. विद्याधर श्रावक ने दक्षिण मथुरा जाकर मुनि-वन्दना की । लौटते समय मुनि ने रेवती को आशीर्वाद कहा, जिससे उसे बड़ा विस्मय हुआ । १७
१३. विस्मय का कारण यह था कि उत्तर मथुरा में भवसेन नामक ज्ञानी और दुर्धर समयी को आशीर्वाद न कहकर एक श्राविका को क्यों आशीर्वाद भेजा । समवत. मुनियों के भी राग-द्वेष होता ही, विद्याधर ने इसकी परीक्षा के लिये विक्रिया की और ब्रह्मा आदि देवों का रूप धारण किया । १८
१४. लोगो ने भक्ति दिखाई । दूसरे दिन अरहंत का वेष बनाया । भवसेन संघ सहित वन्दना को आया । किन्तु रेवती ने उसकी माया समझ ली; अतः वह नहीं आई । १८
१५. तब वह रोगग्रस्त साधु बनकर रेवती के घर के समीप मूर्च्छित हो पड़ रहा । रेवती ने उसकी सेवा की, खूब भोजन कराया व उसका वमन भी अपने हाथों में भेला । १९
१६. रेवती का शुद्धभाव देखकर विद्याधर अपने रूप में प्रकट हुआ । फिर वह भवसेन मुनि की परीक्षा के लिये बटु बनकर उसके पास गया । १९
१७. उसने भवसेन मुनि की शौचक्रिया के सबध में परीक्षा की । मुनि ने हरित धंकुरो पर गमन किया । १९
१८. जल के अभाव से अशौच अवस्था में मुनि का मौन-भंग । २०
१९. अप्राप्तुक मृत्तिका व नदी के जल से मुनि का अशौच-निवारण । विद्याधर का काचीपुर जाकर मुनिगुप्त से परीक्षा का निवेदन । २०
२०. विद्याधर का तथा रेवती श्राविका का दीक्षा-धारण । २१

संधि—३

कडवक

पृष्ठ

१. उपगूहन आदि सम्यक्त्व के चार गुण । उपगूहन का दृष्टान्त । पुष्पपुर के राजकुमार विशाख के विवाहानन्तर मुनि का आगमन । २२
२. मुनि के साथ जाकर राजकुमार का गुरु से दीक्षा-ग्रहण । पत्नी का रोष व विष खाकर मरण । राक्षस योनि में उत्पत्ति । २२
३. राक्षसी का जातिस्मरण व विशाखमुनि के लिंग-विकार द्वारा आहार का अन्तराय, दीर्घत्व व एक दिन राजगृह में आहारनिमित्त प्रवेश । २३
४. महारानी चेलना द्वारा पडगाहना । मुनि का लिंग-विकार । रानी द्वारा पटाच्छादन व आहारदान । मुनि का वन-प्रवेश । शुक्लध्यान व अन्तराय के

- कारण का बोध, उपदेश व सबका सम्यक्त्व-ग्रहण । २३
५. उपग्रहण का दूसरा आख्यान । इन्द्र की सभा में राजा श्रेणिक के सम्यक्त्व की प्रशंसा । परीक्षा निमित्त एक देव का आगमन व राजा को आते देख मछली मारते हुए मुनि का रूप धारण । २४
६. राजा और मुनि का वार्तालाप । लोगों का दिग्भ्रम धर्म पर आक्षेप तथा राजा का निदर्शन द्वारा उस आक्षेप का निराकरण । २४
७. देव का मतोष व राजा की प्रशंसा तथा धर्म-प्रभावना । २५
८. स्थितिकरण की कथा । श्रेणिकपुत्र वारिषेण का समान में प्रतिमायोग । २५
९. विच्छिन्न चोर का गणिका सुन्दरी को आश्वासन । २५
१०. विच्छिन्न चोर द्वारा रानी चलना के हार का अपहरण व वारिषेण के समीप क्षेपण । राजपुरुषों द्वारा वारिषेण पर उपसर्ग । २६
१०. वारिषेण के उपसर्ग का धर्म-प्रभाव से निवारण । २६
११. वारिषेण द्वारा मित्र को दीक्षित कराना व उसके चलायमान होने पर स्थिति-करण । २७
१२. वात्सल्य के दृष्टान्त रूप विष्णुकुमार मुनि की कथा । उज्जयिनी के राजा श्रीधर्म के बलि आदि चार मंत्री । भ्रकपन मुनि का सात सौ मुनियों सहित आगमन । मौनोपवास का आदेश, किन्तु पीछे आये हुए श्रुतसागर मुनि द्वारा नगर-प्रवेश । उधर राजा ने महल पर से लोगों को यात्रा पर जाते देख बलि मंत्री से पूछा । २७
१३. मंत्री ने कहा कि लोग श्रमण संघ के दर्शन को जाते हैं । राजा ने भी जाने की इच्छा प्रकट की । बलि ने वचन ले लिया कि वहा राजा मौन रहें और वार्तालाप बही करे । २८
१४. वहा जाकर बलि ने प्रश्न किया कि श्रमण धर्म का उपदेश कीजिये । किन्तु किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया । तब वे सब वापिस आये । नगरद्वार पर श्रुतसागर मुनि मिले । २८
१५. मुनि ने बलि आदि चारों मंत्रियों को बाद में पराजित किया । २९
१६. राजा ने प्रसन्न हो श्रावक-व्रत लिये । उधर मुनि के विजय की बात सुनकर गुरु ने आशंका से उस मुनि को पुनः वही जाकर प्रतिमा-योग का आदेश दिया । २९
१७. उधर चारों मंत्री भ्रममान से क्रुध ही शस्त्र से सुसज्जित होकर मुनियों को मारने निकले । श्रुतसागर मुनि को देखकर उन्होंने उन पर प्रहार किये । किन्तु देव ने उन्हें कीलित कर दिया । यह देख लोगों ने उनकी निन्दा की और राजा ने उन्हें राज्य से निकाल दिया । क्रुजागल देश के हस्तिनापुर नगर के राजा महापद्म । २९
१८. उनके दो पुत्र पद्म और विष्णु । पद्म का राज्य देकर महापद्म ने दूसरे पुत्र सहिस दीक्षा ले ली । बलि आदि चार मंत्री वहीं आये । उनकी बुद्धि देख राजा ने उन्हें मंत्री बना लिया । बलि ने सिंहरथ पर विजय पायी । अतः राजा ने उससे वर मांगने को कहा । ३०

१९. बलि ने यथावसर वर मांगने की अनुज्ञा प्राप्त की। भ्रकम्पनादि मुनियों का वहाँ प्रागमन। यह जानकर उन मंत्रियों को चिंता हुई। ३०
२०. बलि ने पद्म राजा से सात दिन का राज्य मांग लिया और पशु-यज्ञ के मिथ मुनियों का उपसर्ग प्रारंभ किया। ३१
२१. पशु-यज्ञ की विकरालता। ३१
२२. महापद्म मुनि को मिथिला में उक्त मुनि-उपसर्ग का ज्ञान हुआ। उन्होंने भ्रायं पुष्पदन्त को सब वृत्तान्त कहा व विष्णु मुनि द्वारा उपसर्ग निवारण का उपाय भी बतलाया। विष्णु मुनि ने अपनी विक्रिया ऋद्धि की परीक्षा की और फिर वे गुरु के पास आये। ३२
२३. गुरु का आदेश पाकर विष्णु मुनि का गजप्रद प्रागमन व ज्येष्ठ भ्राता पद्म से उपसर्ग-निवारण का आग्रह। पद्म द्वारा वरदान की बात कहकर अपनी लाचारी का निवेदन। ३३
२४. विष्णु ने वामन-वेष धारण किया व बलि से मठिका (मडिया) के लिये तीन पद भूमि की याचना की। वर पाकर विष्णु ने विक्रिया ऋद्धि द्वारा अपना शरीर त्रिभुवन प्रमाण विशाल बना लिया। ३३
२५. विष्णु ने अपना एक पैर सुमेरु पर्वत पर तथा दूसरा मानुषोत्तर पर स्थापित किया। तृतीय पद को आकाश में रखा जिससे देवों में क्षोभ हुआ। उन्होंने आकर यज्ञ की समाप्ति की और मुनि की स्तुति। विष्णु अर्कपन मुनि के पास आये। ३३
२६. राजा व मंत्रियों का वैराग्य। विष्णुकुमार अपने गुरु के पास वापिस आये। ३४

संधि—४

कडवक

पृष्ठ

१. प्रभावना विषयक वज्रकुमार की कथा। भरत क्षेत्र कुरुजांगल जनपद, हस्तिना-पुर के राजा महाबल, रानी बालश्री, पुरोहित रुद्रदत्त, ब्राह्मणी सोमिल्ला, पुत्र सोमदत्त। अहिच्छत्रपुर के राजा दुर्मुख, रानी दुर्मुखा, पुरोहित सुभूति, ब्राह्मणी काश्यपी, पुत्र सोमभूति, पुत्री यज्ञदत्ता। सोमदत्त का अपने मामा सुभूति के पास प्रागमन व राजा से भेंट करने की इच्छा। मामा की उदासीनता से स्वयं घर से बाहर जा बहुरुपिया बनकर शिवमंदिर में प्रदर्शन। ३६
२. एक बार राजा से उसकी भेंट व राजा को उसका आशीर्वाद। ३६
३. सोमदत्त की बुद्धिमत्ता देखकर राजा का आश्चर्य व परिचय संबंधी प्रश्न। ३७
४. सोमदत्त का आत्म-परिचय। ३७
५. परिचय से राजा की प्रसन्नता। ३८
६. सोमदत्त को राजा ने अपना मंत्री बनाया व मामा ने उसे अपनी पुत्री विवाह दी। पत्नी का दोहला डाल के पके आम खाने की इच्छा। ३८
७. सेवकों द्वारा आम्रफल प्राप्त न होने पर सोमदत्त का स्वयं ससैन्य स्रोज में जाना व वन में एक मुनि के प्रभाव से फले आम्रवृक्ष को देखकर चकित होना। ३९

८. मुनि का धर्मोपदेश । सोमदत्त को वैराग्य । फल घर भेजकर उसका दीक्षा लेना । प्रसव के पश्चात् पत्नी का अपने भ्राता के साथ उसके पास भ्राना व पुत्र को उसके भागे फेंक कर रोष से घर लौटना । ३६
९. सूर्यदेव विद्याधर का भ्रागमन, पुत्र-ग्रहण व वज्रदेव नामकरण । पुत्र को विद्या एव यौवन प्राप्ति । ४०
१०. कुमार का ह्रीमन्त पर्वत पर क्रीडार्थं गमन और वहाँ भलकापुरी के राजा पवन वेग की पुत्री मदनवेगा से भेंट । मदनवेगा की भ्रात्र में काटा चुभ जाने से प्रज्ञप्ति विद्या की सिद्धि में विघ्न । कुमार ने वह काटा निकाल कर उसे विद्या की सिद्धि करा दी । ४१
११. कन्या द्वारा वरदान । सात दिन के लिये प्रज्ञप्ति विद्या की मांग । विद्या पाकर कुमार द्वारा भ्रमरावती जाकर अपने पिता के शत्रु अपने चाचा को जीतकर अपने पिता को राजा बनाना व ख्याति प्राप्त करना । ४१
१२. मदनवेगा आदि द्वारा वज्रकुमार का अपहरण व पांचवे दिन पांच सौ विद्याधरियों को विवाह कर पुनरागमन । सूर्यदेव को पुत्रोत्पत्ति । उस पुत्र द्वारा वज्रकुमार का उपहास व सूर्यदेव द्वारा यथार्थ कथन । ४२
१३. वज्रकुमार ने उत्तर मथुरा की क्षान्तिगुफा में जाकर सोमदत्त की बन्दा करके दीक्षा ग्रहण की । वहाँ के राजा पृथ्वीमुख और रानी भोविला । ४२
१४. वहाँ के सेठ सागरदत्त और सेठानी सागरदत्ता । सेठ की मृत्यु व मेठानी का दारिद्र्य । उनकी पुत्री को मार्ग में उच्छिष्ट खाते हुए दो मुनियो ने देखा । उसके लक्षण देखकर उसके रानी होने की भविष्यवाणी । ४३
१५. उक्त कन्या के पूर्व-जन्म की कथा । मुनि के गले में मृत सर्प डालने से नाना कुयोनियो में जन्म । ब्रत धारण । शेष पार के कारण दारिद्र्य । पापक्षय होने पर नरेन्द्र-पत्नी । ४३
१६. यह भविष्यवाणी सुनकर बुद्धधर्मं भिक्षु द्वारा उसकी माता से मिलकर उसे ले जाना व विहार में उसका संवर्धन । राजा का उस पर मोहित होना । ४५
१७. मन्त्री द्वारा राजा को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न । बौद्धधर्म स्वीकार करने की शपथ पर उक्त कन्या से विवाह । ४६
१८. नन्दीश्वर पर्व पर बौद्ध रथ पहले चलाने की प्रार्थना । भोविला रानी द्वारा मुनि सोमदत्त से जैनधर्म की प्रभावना की प्रार्थना व मुनि द्वारा वज्रकुमार को आदेश । ४६
१९. सूर्यदेव विद्याधर की सहायता, राजा की सैन्य का स्तम्भन व बौद्ध रथ का विनाश । ४७
२०. जैन रथ का महोत्सव के साथ परिभ्रमण व धर्म-प्रभावना । ४८
२१. वज्रकुमार का निर्वाण । कथा का माहात्म्य । ४८

- १ श्रद्धान आदि के फल की कथा । हस्तिनापुर के राजा धनपाल व सेठ जिनदास । राजा के शरीर में व्याधि । सेठ ने आकर खबर दी कि एक महामुनि आये हैं, जिनके चरणोदक से लांगो के दुःख दूर होते हैं । ५६
- २ मुनि के चरणोदक से व्याधि का तथा उपदेश से मानसिक दोषों का अपहरण, धर्म-रसायन का फल जन्म-जरा-मरण से मुक्ति । ५०
- ३ ध्यात्म-निन्दा का आख्यान बुद्धिमती कथा । वाराणसी पुरी, राजा विशाखदत्त । गौड़ नरेश पर आक्रमण और विजय । वहा के प्रासाद का चित्र अपने नव-निमित्त चित्तविभ्रमकर प्रासाद में लिखाने की आकाक्षा । चित्रकारों का असमर्थता । ५१
- ४ उज्जैनी से एक सुयोग्य चित्रकार का आगमन व जिन मन्दिर में उपदेश करते हुए श्रीचन्द्र मुनि के चित्र का लेखन । ५१
- ५ उम चित्र की महिमा सुनकर राजा का आगमन व चित्रकार का राज प्रासाद में प्रवेश । ५१
- ६ चित्रकार द्वारा चित्र-लेखन । चित्रकार की कन्या बुद्धिमती द्वारा मयूरपक्ष का चित्रण । राजा का आगमन । ५२
- ७ बुद्धिमती की चतुराई देख राजा ने उसे अपनी महादेवी बनाया । ५२
- ८ अन्य रानियों द्वारा बुद्धिकती की भवजा तथा बुद्धिमती की आत्मनिन्दा । ५३
- ९ राजा द्वारा बुद्धिमती की स्तुति व अन्य रानियों को दण्ड । ५३
- १० बुद्धिमती का दुश्चरित्र व राजा का घात । श्मशान में त्याग व देवता द्वारा स्तभन । ५४
- ११ देवता के उपदेश से बुद्धिमती द्वारा अपने पाप की घोषणा । ५४
- १२ आलोचना का आख्यान । बरेली देश, देवीकोट्ट पट्टन, सोमदत्त द्विज, सोमिल्ला पत्नी, अग्निभूति पुत्र । उमी नगर में हरिदत्त विप्र, हरिदत्ता पत्नी । सोमदत्त उन्ही के आश्रित । सोमदत्त का मुनिव्रत धारण । विहार करते हुए उसी नगर में आने पर हरिदत्त द्वारा ऋण-शोध की माग व सोमदत्त द्वारा पुत्रों की आर निर्देश । ५५
१३. हरिदत्त और सोमदत्त का विवाद व ऋण-शोध के लिये धर्मधन को बेचने का प्रस्ताव । गुरु वीरभद्र द्वारा इसी का अनुमोदन । रात्रि में श्मशान में जाकर सोमदत्त द्वारा उद्घोषणा । ५५
१४. इंद्र, अग्नि यम आदि देवताओं से धर्म खरीदने का प्रस्ताव । वन देवता के पूछने पर अष्टाडस मूल गुणों का निर्देश । ५६
- १५ धर्म की प्रशंसा व दशविध धर्मों का निर्देश तथा मूल्यांकन । ५६
१६. वनदेवी द्वारा धर्म का मूल्य असख्य रत्नादि प्रस्तुत । सोमदत्त द्वारा वह धन हरिदत्त को समर्पित । हरिदत्त का वैराग्य एव दीक्षा-ग्रहण । ५७
१७. ज्ञान-साधना में काल आदि अष्ट प्रकार के विनय का निर्देश । कालविनय का आख्यान । वीरभद्र मुनि का निर्जन वन की गुफा में रात्रि में अकाल शास्त्र-

- पठन । श्रुतदेवी का ग्वालिनी के वेष में तत्र बेचने आना व साधु द्वारा तत्र बेचने के अनुचित समय का निर्देश करने पर श्रुतदेवी द्वारा मुनि का संबोधन । ५८
१८. वीरभद्र द्वारा अकाल शास्त्राभ्यास का संकेत पाकर प्रायश्चित्त-ग्रहण । ५९
१९. अकाल-शास्त्र-पठन के दुष्परिणाम का दूसरा उदाहरण । शिवनन्दन नामक श्रमण सर्वकाल स्वाध्याय के पाप से मरकर गंगा के कुड में पाड़ीन हुए । वहाँ तट पर मुनि को शास्त्र पाठ करते सुनकर जाति-स्मरण व प्रायश्चित्त । ५९

संघ-६

गुह्यक

पृष्ठ

१. श्रुत-विनय का आस्थान । वत्स जनपद, कौशाम्बीपुरी, धनसेन नरेन्द्र, धनश्री रानी । रानी जिनधर्मी और राजा भागवत जिनके गुरु भागवत । जल-स्तम्भन मंत्रवादी । इसी प्रकार विजयाश्रम की दक्षिण श्रेणी के रथनूपुर नगर के विद्याधर राजा विद्युत्प्रभ सम्पद्दृष्टि श्रावक और उसकी पत्नी विद्युत्प्रभा विष्णुभक्त । वन्दना हेतु भ्रमण करते हुए उनका जमुना के जल पर जाप करते हुए भागवत का दर्शन । ६१
२. विद्याधरी द्वारा उसके ध्यानयोग की प्रशंसा । विद्याधर द्वारा अश्रद्धा-प्रदशन । ६२
३. परीक्षार्थ उनका मातंग-मातंगी वेष धारण व जमुना के ऊपर को और मास-प्रक्षालन । भागवत का उनके ऊपर की ओर गमन व मातंगी का पुन उसके भी ऊपर गमन । अनेक बार ऐसा करने पर भागवत का रोष व स्नान-त्याग । मातंगी द्वारा सुन्दर माया-उद्यान का निर्माण । भागवत का विस्मय । ६२
४. भागवत को उनकी इस विद्या की प्राप्ति का लोभ । मातंग का कथन । गुरु-विनय के बिना मंत्र-सिद्धि संभव नहीं । ६३
५. भागवत द्वारा उनकी विनय स्वीकृत व चिन्तामणि विद्या की प्राप्ति । राजा का सूचना । ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वरराशि देवों द्वारा उसे यह विद्या-प्राप्ति । धनसेन की अश्रद्धा । ६३
६. भागवत द्वारा अपनी विद्या के प्रदर्शनार्थ कुटी पर राजा का निमंत्रण व मायापुरी का निर्माण । राजा का आतिथ्य । राजा का विस्मय । ६४
७. उन मातंगों का आगमन । भागवत द्वारा निरादर । विद्या का नाश । राजा के पूछने पर भागवत की स्वीकृति कि मातंग गुरु को नमस्कार न करने का यह परिणाम हुआ । ६४
८. राजा द्वारा मातंग का विनय व चिन्तामणि विद्या की प्राप्ति । राजमभा में भी मातंग के पहुँचने पर राजा की गुरु-विनय । मातंग का स्वरूप-दर्शन व सबकी श्रावक-धर्म-स्वीकृति । ६५
९. उपधान कथा । अहिच्छत्रपुर राजा वसुपाल रानी वसुमती । राजा द्वारा सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण । यथाचित्त श्रवणहृ के अभाव में पार्श्व प्रतिमा के घटन में विघ्न । यथोचित पूजा अर्चा किये जाने पर कार्य सिद्धि । ६६

- १० ज्ञान बहुमान कथा । काशी विषय, वा राणसी नगरी, वसुभद्र राजा, वसुमती रानी । समीप ही गया तट पर पलासखेड़ी ग्राम में अशोक गोपाल जी प्रतिवर्ष राजा को एक सहस्र घृत देता था उसकी स्त्री नन्दा बन्ध्या थी । दूसरी पत्नी मुनन्दा । ६६
- ११ नन्दा गौश्री गोपालो को सब प्रकार से चिन्ता करती और खूब घृत इकट्ठा करती । ६७
- १२ मुनन्दा अपने यौवन के उन्माद में बड़ी असावधान रहती । यथा समय राजा के भंडसाली घृत वसूल करने आये । ज्येष्ठ भायों ने अपने हिस्से के पाँच मी घड़े दे दिये, किन्तु मुनन्दा कुछ भी नहीं दे सकी । अतः पति ने मारकर उसे निकाल दिया । नन्दा ने उसके हिस्से के घड़े भी दिये, जिसमें पति उन पर बहुत प्रमत्त हुआ । ६८
- १३ गुरुनिःहृव कथा । उज्जयिनी का राजा वृत्तिसेन । रानी मलयवती । पुत्र चन्द्रप्रद्योत । दक्षिण देश की वेष्णातट पुरी में प्रसिद्ध ब्राह्मण सोमशर्मा, पत्नी सोमिल्ला, पुत्र विद्वान् कालसदीप समस्त शास्त्रों का पारगामी । वह आकर चन्द्रप्रद्योत का गुरु बना । उमने उसे समस्त कलायें और विद्याएँ पढ़ाईं । किन्तु यह यवन देश की भाया और लिपि किसी प्रकार भी न सीख सका । रुष्ट होकर राजपुत्र ने राजा होने पर उसका पैर कटवा डालने को प्रतिज्ञा की । ६९
- १४ गुरु ने भविष्य का विचार कर कहा तूरे राज्य में मेरे पैर का पट्टबधन (पूजन) होगा । राजपुत्र की शिक्षा पूरी कर कालसदीप दक्षिण देश में जाकर मुनी हो गया । चद्रप्रद्योत राजा हुआ यवन देश से उसे एक पत्र मिला । जिसे अन्य कोई न पढ़ सका । स्वयं उसे पढ़ा । गुरु की याद आयी और उनकी खोज कराई । वे काचीपुर में मिले । ६६
- १५ मत्रियों ने कालसदीप से कहा कि चद्रप्रद्योत तरेश उनका किस प्रकार स्मरण कर रहा है । ६६
- १६ वे कालसदीप को मनाकर उज्जयिनी ले आये । राजा द्वारा सम्मान व चरण का पट्टबध । राजा की गौर सदीप नाम से मुनि-वीक्षा । दोनों का राजगृह आगमन । राजा श्रेणिक की गौर सदीप मुनि से भेट व गुरु सम्बन्धी प्रश्न । ७०
- १७ गौर सदीप ने अपने गुरु का नाम वीतराग महावीर बतलाया, कालसदीप नहीं । इस प्रकार गुरु का नाम छिपाने से उसका धारी काला और रोग-ग्रस्त हो गया । श्रेणिक के पूछने पर गौतम मुनि ने यह कारण बतलाया, श्रेणिक ने उस मुनि को भी इसकी सूचना दे दी । ७०
- १८ व्यजन हीन कथा । मगध मडल, राजगृह नगर, वीरसेन राजा, सिंह राजपुत्र । पोदनपुर के राजा सिंहरेय पर आक्रमण । विजय में विलम्ब । राजकुमार के शिक्षण की चिन्ता । ७१
- १९ मूर्खता के दोषों का विचार कर राजा ने पत्र लिखवाया कि सिंह का अध्यापन कराओ (अध्यापय) । किन्तु इधर वाचक ने पढ़ा सिंह को अध्यापन करा दो (अध्यापय) रानी ने पुत्र को छिपाकर रखा । पढ़ाया नहीं । राजा के लौटकर आने पर भेद खुला और उस दुष्ट वाचक को दंड दिया गया । ७१

२०. अर्धहीन कथा । कौशल नरेश वसुपाल का उज्जयिनी नरेश वीरदत्त पर आक्रमण । वसुपाल का रानी को पत्र जो इस प्रकार पढा गया कि राजपुत्र के उपाध्याय को शालि-भात, घृत और ममि (काजल) खिलाया जाय । वँसा ही किया गया । ७२
२१. राजा के लौटने पर उपाध्याय की शिकायत । वाचक ने मधि का अर्ध दाल न करके कज्जल किया इस कारण उसे दण्ड । ७३
२२. ध्वंजन-अर्धहीन कथा । हस्तिनापुर के राजा पद्म का पोदनपुर के राजा हरिनाग पर आक्रमण । सहस्त्र स्तभ मंदिर देखकर वँसा ही अपनी राजधानी में बनवाने की इच्छा से वहाँ के नागरिकों को स्तभ संग्रह करने के लिये पत्र प्रेषित । वाचक ने स्तभ का अर्ध बकरा (स्तभ) बतलाया व तदनुसार सहस्त्रों बकरे एकत्र किये गये । ७३
२३. राजा के लौटने पर वाचक को दण्ड । ७४
२४. ध्वंजन-अर्ध उभय शुद्धि कथा । सोरठ देश, गिरिनगर पट्टन, धर्मसेन नरेश, धरसेन महामुनि चन्द्रगुफा-निवासी । दो वृषभो का स्वप्न । दक्षिण देश से दो साधुओं का आगमन-भूतबली और पुष्पदन्त । ७४
२५. आगत साधुओं द्वारा मित्रात की वाचना की प्रार्थना । मुनि द्वारा हीनाक्षर अधिकाक्षर मंत्रों द्वारा परीक्षा । छंदयोजना द्वारा शुद्ध किये गये मंत्रों से सिद्धि । ७५

संधि-७

कडवक

पृष्ठ

१. एकत्व क्षायना पर नागवत्त मुनि कथा । उज्जयिनी के राजा प्रजापाल । दो पुत्र प्रियधर्म और प्रियशर्म । दमवर मुनि से दोनों की मुनि दीक्षा, स्वर्गवास, भ्रगले जन्म में परस्पर सम्बोधन की प्रतिज्ञा । लघुभ्राता का उज्जयिनी के राजा अभिधर्म की पत्नी नागदत्ता के उदर से जन्म । नाम नागदत्त । ७७
२. नागदत्त की बहिन नागश्री का वत्म देश में कौशाम्बी नगर के राजा जिनदत्त से विवाह । ज्येष्ठ भ्राता द्वारा नागदत्त की अधार्मिक प्रवृत्ति जानकर संबो-धनार्थ सपेरे के छद्मवेश में आगमन । नागदत्त द्वारा मर्षों से खेलने की स्वीकृति । ७८
३. राजा के समक्ष सभा में मर्ष का खेल । नागदत्त की सर्पविष से मूर्च्छा व मरण । ७८
४. जिनदीक्षा के शपथ-बध पर सपेरे द्वारा नागदत्त का पुनर्जीवन और तपग्रहण । ज्येष्ठ भ्राता द्वारा पूर्व-स्मरण व जिनकल्प ग्रहण । ७९
५. नागवत्त का बिहार । पूर्व से आते हुए सीमावर्ती सूरदत्त राजा द्वारा विरोध व भिल्लराज द्वारा मुक्ति । दूसरी ओर से माता और यहिन का कौशाम्बी की ओर आगमन । मुनि ने भय की बात न कही । चोरो द्वारा उनका पकड़ा जाना । रात्रि में सूरदत्त की अपने मुसटों में गोष्ठी । ८०
६. नागदत्त मुनि ने भय की बात जानते हुए उसे कुछ न बतलाया और लुटवा व बन्दी बनवा दिया । इस पर माता का रोष व उदर-विदारण की तत्परता ।

- सूरदत्त द्वारा सब वृत्तान्त जानकर उसका सम्मान सहित कौशाम्बी प्रेषण ।
सूरदत्त का नाभदत्त से दीक्षा-ग्रहण व स्वर्ग गमन ८०
७. कषायोपशमन पर सूरमित्र कथा । पूर्व मालव में तलिया राष्ट्र विषय, प्रवरकच्छ
नगर. सूरसेन नरेश, सूरदत्त सेठ व दो पुत्र सूरमित्र और सूरचन्द्र । दोनों भाइयों
का सिंहलद्वीप गमन । ८१
- ८ महारत्न की प्राप्ति । घर की और गमन । प्रत्येक की दूसरे भाई को मारकर
रत्न लेने की इच्छा । घर के समीप वेत्रवती नदी के तीर पर दोनों भाइयों
का रत्न के विषय में परस्पर स्पष्टीकरण । ८२
- ९ कुत्सित रत्न बान्धर नदी में फेंकना । मत्स्य द्वारा रत्न का भक्षण । माता
का हर्ष व हाट से मत्स्य की खरीद । उसके पेट से रत्न-प्राप्ति । ८२
- १० उस रत्न से माता के हृदय में पुत्रों को मारने की भावना । माता द्वारा पुत्री
को दिये जाने पर उसकी भाइयों को मारने की इच्छा । पुत्रों द्वारा भी रत्न
की कहानी । सर्व सम्मति से रत्न का त्याग व व्रत-ग्रहण । ८३
- ११ ब्यावृत्य पर वामुदेव कथा । सोरठ राष्ट्र, द्वारवती नगरी, विष्णु नरेश,
भ्राता बनराम । विष्णु का एक व्रती साधु को व्याधिग्रस्त देखकर वैद्य
में परामर्श । ८४
- १२ रोग निवारण की व्यवस्था । अच्छा होने पर व व्यक्त रूप से उपकार न मानने
पर वैद्य का रोष व मरकर रेवा-तट के वन में मर्कट का जन्म । मुनि-आचमन
तथा वृक्ष की शाखा के पतन से क्षति । ८५
- १३ वानरो द्वारा शाखा को दूरकर मुनि का उपचार । वानर मरकर देव हुआ
और मुनि को केवलज्ञान । वानरदेव द्वारा आकर मुनि की वन्दना । ८५
- १४ वसुदेव को ब्यावृत्य के फलस्वरूप भावी तीर्थकरत्व ।
तद्युत्व का आस्थान । टक्क देश, बलदेवपुर, बलभद्र राजा, धनदत्त सेठ, व
धनवती पुत्री, जिसकी पूर्णभद्र वणिक् द्वारा अपने पुत्र पूर्णचन्द्र हेतु याचना ।
धन लेकर कन्या-दान । विवाह के पश्चात् ही कन्या की मृत्यु । समस्त धन से
सुवर्णमाल बनवाकर धनदत्त द्वारा मृतक को अर्पण । पूर्णभद्र द्वारा उसकी
याचना । ८६
१५. मृतक के संसर्ग दोष के कारण किसी ने उस माला को मूल्य देकर नहीं खरीदा ।
दुर्जन संसर्ग से सुजन भी अपूज्य । ८७
- दुर्जन संसर्ग पर कल्लालमित्र कथा । वत्स जनपद, कौशाम्बी पुरी, धनपाल राजा ।
पूर्णभद्र रसवणिक् (मदिरा व्यापारी) की पुत्री वसुमित्रा का विवाह । अपने
मित्र राजपुरोहित शिवभूति का निमंत्रण, किन्तु शूद्राभ्र-निषेध के कारण
अस्वीकृति । ८७
१६. पूर्णभद्र द्वारा वनगोष्ठी में दुग्ध-शर्करा पान का प्रस्ताव । पुरोहित द्वारा
स्वीकृति । लोक द्वारा शंका व मद्यपान का आरोप । वमन कराने पर
दूध-शक्कर में भी मद्य की गंध व राजा द्वारा दंड । दुर्जन-संसर्ग का दोष । ८८

१७. बुज्जन संसर्गबोध पर धूक संगत हंस की कथा । मगध मडल, पाटलिपुर नगर प्रजापाल राजा । गोपुर निवासी उल्लू की राजहंस से मैत्री । राजा व सामंत उन्नी के वशीभूत होने की भूठी घ्रात्म-प्रशंसा व हम के घ्रातिष्य का ग्रहण । ८६
१८. उल्लू का हम को अपने घर निमंत्रण । प्रभाव दिखलाने के लिये राजा का विजय यात्रा में अपशकुन द्वारा बारबार विघ्न होने पर शब्द-वेधी बाण द्वारा निर्दोष हंस की मृत्यु । ९०

संधि—८

कह्यक

पृष्ठ

१. सज्जन-संसर्ग के गुणों पर हरिषेण चक्री की कथा । जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, भ्रगदेश, काम्पित्यपुर, हरिकेतु नरेंद्र, बप्पा रानी, हरिषेण पुत्र । दूमरी रानी लक्ष्मीमती । बप्पारानी द्वारा फाल्गुण में नन्दीश्वर पर्व मवधी रथयात्रा-महोत्सव की योजना । लक्ष्मीमती द्वारा उसका राजाज्ञा से निषेध । ९१
२. बप्पा रानी द्वारा वेणुबध तथा रथयात्रा निकलने तक अन्नजल का त्याग । राजपुत्र को उसकी जानकारी । ९२
३. माता को धैर्य वधाकर राजपुत्र हरिषेण का निर्गमन व वन में विद्युच्चक्र चोर की पत्नी में प्रवेश । शुक का कथन—शीघ्र पकड़ो और द्वारो । ९२
४. शुक का कथन सुनकर हरिषेण का बहिर्गमन व तापसी के आश्रम में प्रवेश । वहाँ शुक का कथन—आश्रमगुरु आये है, सम्मान करो । पृच्छने पर शुक ने बतलाया कि वे दोनों शुक एक ही माता-पिता की मलान हैं । किन्तु मुनियों व चाण्डालों द्वारा पाले जाने में संस्कारानुसार वह वचन-भेद । कथान्तर । जनमेज्ज तापस की पत्नी नागवती का पुत्र चम्पापुरी का राजा । ९३
५. उसकी बहिन मदनावलि के विषय में ज्योतिषियों का आदेश कि वह चक्रवर्ती की पत्नी होगी । उनके लिये छोड़ के राजा काल द्वारा चम्पापुरी का अवरोध । शत्रु को असाध्य जान सुरग द्वारा मदनावलि का निस्माग्न । उसका माता सहित पिता के आश्रम में आगमन य हरिषेण को देखकर कामामक्ति । शतमन्यु तापस द्वारा हरिषेण का निष्कासन । ९४
६. सिधुनद के तीर सिधुनद पट्टण के सिधु नरेश की मिधुदेवी कन्या सरोवर में स्नान को गई । हाथी का भय । हरिषेण ने पङ्कजकर गज का निरोध किया । ९४
७. गज का वशीकरण व देवों द्वारा पुष्टवृष्टि । सिधुदेवी से विवाह । विद्याधरी द्वारा हरिषेण का अपहरण । पृच्छने पर वृत्तान्त-कथन । जम्बूद्वीप, भरतक्षेत्र, विजयार्ध की उत्तर श्रेणी में सूरोधय नगरी, सुरधनु नरेश, बुद्धिमती रानी, जयवन्दा पुत्री । ९५
८. वह चित्रपट देखकर मोहित । इसीलिये यह अपहरण । विवाह । विद्याधरों के अधिपति गंगाधर का रोध व आक्रमण । ९६
९. सुरधनु को सूचना । हरिषेण द्वारा धैर्य व शत्रु का सामना करने निष्क्रमण । ९६

१०.	सुरधनु और गगाधर की सेनाओं का संघर्ष ।	६७
११.	युद्ध वर्णन ।	६८
१२.	सुरधनु की सेना का पलायन, किन्तु सिंहकेतु सेनापति द्वारा पुन संघटन व शत्रु सैन्य का अपसरण	६८
१३.	दोनों सेनापतियों का क्रमशः जय-पराजय ।	६९
१४.	सुरधनु के सेनापति द्वारा भ्रमोद्योग शक्ति का प्रयोग ।	६९
१५.	गगाधर का पराक्रम और सुरधनु को लसहार व विद्याधरो और भूगोचरो के बीच अयोग्य विवाह का आरोप ।	१००
१६.	सुरधनु द्वारा प्रत्युत्तर व चक्र विवाह का औचित्य उदाहरणों द्वारा प्रमाणित ।	१०१
१७.	सुरधनु और गगाधर का बराबरी का युद्ध । गगाधर द्वारा सुरधनु का घात । किन्तु एक के दो सुरधनु होकर युद्ध करने लगे ।	१०१
१८.	दो के मारे जाने पर चार व चार के घात, सोलह, बत्तीस, चौसठ आदि क्रम से अनन्त सुरधनु युद्धरत । गगाधर द्वारा अमित-शक्ति नामक विद्या का प्रयोग, जिससे विक्रिया विनष्ट होकर एकमात्र सुरधनु शेष । हरिषेण का युद्ध में प्रवेश ।	१०२
१९.	हरिषेण और गगाधर के बीच युद्ध । हरिषेण द्वारा शत्रु के समस्त शस्त्रों का प्रतिघात ।	१०३
२०.	गगाधर द्वारा प्रज्ञप्ति आदि विद्याओं को आवाहन । उनका चक्रवर्ती के विरुद्ध असामर्थ्य प्रकाशन । रोषपूर्वक गगाधर द्वारा उनका निराकरण ।	१०३
२१.	गगाधर और हरिषेण का रथ त्याग कर शस्त्र-युद्ध व गगाधर का शिरच्छेद ।	१०४
२२.	हरिषेण का सम्मान व विद्याधरो द्वारा सेवा-स्वीकृति । मदनारवि का परिणय । अपनी नगरी में पुनरागमन । माता की प्रसन्नता व रथयात्रा ।	१०५
२३.	हरिषेण का राज्याभिषेक, मन्दिर-निर्माण, तप और स्वर्गवास ।	१०६

संधि—९

कडवक		पृष्ठ
१.	सृजन-स्वभाव पर विष्णु-प्रणमन कथा । भारतवर्ष, समुद्र के बीच द्वारवती नगरी, नेमिनाथ-भ्रवतार, वामुदेव नरेन्द्र, इन्द्र की सभा में उत्तम पुरुष के गुणों संबंधी प्रश्न । परदोष उपगूहन व परगुण-विस्तार उत्तम पुरुष का लक्षण ।	१०७
२.	इन्द्र द्वारा सत्पुरुष के गुणों का वर्णन व दृष्टान्त स्वरूप वामुदेव का उल्लेख । परीक्षा हेतु देव का व्याधि-रीडित व कीट-युक्त श्वान के रूप में वामुदेव के मार्ग में आ गइना ।	१०७
३.	लोगों का उसे देखकर भागना । एक चाण्डाल का नाक भोंहूँ सिकोड़ कर उसकी निन्दा करना । किन्तु विष्णु ने धार्त जीव के प्रति दुर्भाव का निवारण किया । देव उनकी स्तुति कर अपने घर गया ।	१०८
४.	मनुष्य जन्म की दुर्लभता संबंधी दश दृष्टान्त जिनमें प्रथम चोल्लक । साकेतपुरी, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, विद्वान् सहस्रभट्ट का पुत्र वसुमित्र दुष्यंसी । पिता की मृत्यु	

- पर मूर्खता के कारण राजा द्वारा निष्कासित। माता महित जीर्ण गृह में निवास। धुडदौड के मैदान में वसुमित्र उत्तम घोड़े के ममान दौडना सीखकर राजा के पास गया। १०८
५. वसुमित्र राजा का परिवारक। दुष्ट अश्व द्वारा राजा का अपहरण। भीषण वन में एकमात्र वसुमित्र राजा के साथ। सरोवर में राजा की अश्व से मुक्ति वसुमित्र द्वारा राजा की स्नान भोजन व्यवस्था। लौटने पर राजा द्वारा हाथ ककण का पारितोषिक। १०९
६. कंकण बेचते हुए वसुमित्र का राजपुरुष द्वारा पकड़ा जाना। राजा का वरदान। माता द्वारा चोल्सक भोजन की माग। ११०
७. अपने रसोईघर में भोजन कराकर अपने राज्य के समस्त नगरी, ग्रामो आदि के प्रत्येक घर में उनके भोजन की व्यवस्था। ११०
८. चक्रवर्ती की महाविभूति। सबके घर भोजन करके जिम प्रकार पुन चक्रवर्ती के रसोईघर में भोजन की बारी भ्राना नितान्त दुर्लभ है, उमी प्रकार पुन नरजन्म दुर्लभ। अतएव प्राप्त हुए मनुष्य जन्म को धर्म में लगाने का उपदेश। १११
९. नर जन्म की दुर्लभता का दूसरा दृष्टान्त—पाशक। मगध देश, शतद्वारपुर नगर, शतद्वार नृप द्वारा मणिमय तोरणो से युक्त सौ द्वारों का निर्माण, एक एक द्वार में ग्यारह सौ स्तंभ, एक एक स्तंभ में छयात्रवे कोने, एक एक कोने में एक एक जुवाडियो का अट्टा। द्विज की माग कि यदि समस्त जुवाडियो का कभी एक सा दाव पड जाय तो उम दाव का सब द्रव्य उसे दिया जाय। एक बार ऐसा ही हुआ। इसी प्रकार मनुष्य जन्म दुर्लभ। १११
१०. नरजन्म की दुर्लभता का तीसरा दृष्टान्त—धान्य का। ब्रह्मद्वीप को एक पत्थ बनाकर नाना धान्यो से उसे भरा और एक देव ने एक एक वर्ष में एक एक कण निकाला और सब धान्य कभी समाप्त हो गया। ऐसा ही मनुष्य जन्म दुर्लभ। १११

अथवा

- अयोध्या नगर में प्रजापाल राजा के कोषागार में ममस्त प्रजा का धान्य सुरक्षा के लिये संचित किया गया। सकट निकल जाने पर अपने अपने धान्य की माग। उसे छाटना जैसा दुर्लभ, वैसा ही मनुष्य जन्म। ११२
११. नरजन्म की दुर्लभता का चौथा दृष्टान्त—छूत। शतद्वारपुरी के प्रत्येक द्वार पर पाच सौ खल व प्रत्येक खल में पाच पाच सौ छूतकार। एक धनी छूतकार को धन दे देकर छूत खिलवाना। एक दिन समस्त जुवाडियो का समस्त धन, कत्ता व कबड्डा लेकर इधर उधर भाग जाना व सब वस्तुओ को बेच खाना। उन वस्तुओ का पुनः मेल जितना दुर्लभ, उससे अधिक दुर्लभ नरजन्म। अथवा ११२
१२. उक्त नगर में निर्लक्षण नामक जुवाडी। वह छूत खेलना सदैव, किन्तु जीतता कभी नहीं। एक बार उसने सब जुवाडियो के कत्ता कबड्डा तक जीतकर नाना देशों से आये दीन दुखियो को बाँट दिये और वे अपने अपने देशो को चले गये। अब जुवाडी धन बेकर निर्लक्षण से अपने अपने कत्ता कबड्डा मांगने

- लगे । वे कदाचित् पुनः एकत्र किये जा सकें, किन्तु नरजन्म उससे भी दुर्लभ । ११२
१३. नरजन्म की दुर्लभता का पंचवाँ दृष्टान्त—रत्नकथा । भरत म्हादि चक्रवर्तियों को देवी द्वारा एक एक चूडामणि रत्न दिया गया । उन देवीं चक्रवर्तियों व रत्नों का एकत्रीकरण जितना दुर्लभ उससे अधिक दुर्लभ नरजन्म । अथवा सागरदत्त वणिक् का सिंहलद्वीप गमन, माणिक्य प्राप्ति, जलयान से श्राते समय समुद्र में रत्न-पात । उस रत्न की पुनः प्राप्ति सदृश नर-भव की दुर्लभता । नरजन्म की दुर्लभता का छठा दृष्टान्त—स्वप्न । दरिद्री ने स्वप्न में राज्य विलास पाया । किन्तु यथार्थ राज्य प्राप्ति के समान नर-जन्म दुर्लभ ११३
१४. नरजन्म की दुर्लभता का सातवाँ दृष्टान्त—चन्द्रकवेष । मार्कण्डेयपुरी, द्रौपदी का स्वयंवर । चन्द्रकवेष द्वारा अर्जुन का द्रौपदी परिणय । उसी समान मनुष्य-भव दुर्लभ । अथवा—सुभौम चक्रवर्ती के समय के जीव, यक्षदेव, व समस्त वस्तुस्थिति का पुनः मेलापन जितना दुर्लभ, उससे अधिक दुर्लभ मनुष्य-जन्म । नरजन्म की दुर्लभता का आठवाँ उदाहरण—कूर्म कथा । स्वयंभूरमण समुद्र, चक्रवर्ती के चर्म-रत्न से प्राच्छादित । काने कच्छप ने एक छिद्र में से सूर्य की रश्मि देखी । उसे दिखाने वह अपने परिवार को लाया । वही छिद्र पुनः मिलना जितना कठिन उससे अधिक दुर्लभ नर-भव । ११३
- नरजन्म की दुर्लभता का नववाँ दृष्टान्त—युग्म । बैलगाड़ी के युग्म (जुग्मा) का एक ममिला (नैला) पूर्व समुद्र में गिरा और दूसरा पश्चिम समुद्र में । उनका पुनः सगम कितना दुर्लभ उससे अधिक दुर्लभ नर-जन्म । ११४
- नरजन्म की दुर्लभता का दशावाँ दृष्टान्त—परमाणु । चक्रवर्ती के चार हाथ लम्बे दण्ड-रत्न का चूर्ण करके उसके परमाणु सर्वत्र बिखर गये । उनका पुनः दण्डाकार संयोग जितना दुर्लभ, उससे अधिक दुर्लभ नरजन्म । अतः ऐसे दुर्लभ नरजन्म को पाकर व्यर्थ न खोने तथा दर्शन-ज्ञान और चरित्र के ग्रन्थास का उपदेश । ११४
१६. बालक समान माया-मृषा को त्याग कर आलोचना का उपदेश । प्राक्यान-कोशाम्बी पुरी, जयपाल राजा, जयमती रानी, यमदंड कोटपाल, सागरदत्त सेठ सागर दत्ता सेठानी, समुद्रदत्त पुत्र । दूसरा वणिक् वामन, सोमा गृहिणी, सोम पुत्र । सोम और समुद्रदत्त की मित्रता । एक दिन वामन द्वारा समुद्रदत्त को मारकर आभूषण लेकर घर में गड्ढा खोदकर गाड़ देना । माता पिता की आकुलता । वामन के पुत्र सोम का उनके घर आना । ११४
१७. सेठानी द्वारा प्यार पूर्वक सोम से प्रश्न व सोम द्वारा वास्तविकता का प्रकटन । आरक्षक द्वारा शोध व राजा द्वारा प्राणदण्ड । बालक के समान सत्य प्रकट करना आलोचन का गुण । ११५

संधि—१०

कहवक

पृष्ठ

१. मिथ्या भाषण का दुष्परिणाम । संघश्री की कथा । आन्ध्र देश, श्रीपर्वत के पश्चिम में बल्लूरपुर, यक्षोधर राजा, वसुधरी रानी, तीन पुत्र । धन की अस्ति-

- रता देव राजा का बैराग्य । अनन्तवीर और श्रीधर नामक पुत्रों द्वारा राज्य
 अस्वीकार, तृतीय पुत्र प्रियचन्द्र को राज्य । ११७
२. यशोधर का तथा श्रीर निर्वाण । अनन्तवीर का स्वर्गवास । श्रीधर का विहार
 करते-करते श्रीपर्वत पर आगमन । प्रियचन्द्र राजा की उद्यान में नाटक देखते
 संपंदस से मृत्यु । मंत्री की चिन्ता । प्रियचन्द्र के पिता व भ्राताओं की खोज
 में दूत-प्रेषण । ११७
३. दूतों का लौटकर गमाचार देना । मंत्री द्वारा श्रीपर्वत पर श्रीधर मुनि के दर्शन
 व वृत्तान्त-कथन । मनाकर श्रीधर को घर लाना । ११९
- ४ श्रीधर का राज्याभिषेक व मुहूर्त नरेश्वर नाम में प्रसिद्धि । श्रीधर की तपस्या
 के कारण ही श्रीपर्वत नाम की तथा राजवश की मुडिय नाम से प्रसिद्धि । उसी
 वश में आन्ध्र देश के धान्यकटकपुर के राजा धनसेन परम श्रावक । ११९
- ५ बौद्ध भिक्षु बुद्धश्री का आगमन । राजा का मंत्री संघश्री उसका परम उपासक,
 पत्नी कमलश्री, पुत्री बुद्धिमती राजा को महादेवी हुई और श्राविका बन गई ।
 मंत्री का दुर्भाव, एक दिन मुनि का आगमन व राजा द्वारा सम्मान । ११९
- ६ राजा का मुनि से धर्म सबधी प्रश्न । चारण मुनियों का आकाश से आगमन ।
 मुनि की धर्म कथा से सघश्री भी श्रावक हुआ । दूसरे दिन सभा में सघश्री
 द्वारा धर्मश्रद्धान का भाषण करने के लिये राजा का प्रस्ताव । ११९
- ७ मंत्री द्वारा अपना जैन धर्म के प्रति श्रद्धान प्रकट करने की प्रतिज्ञा । बुद्ध-विहार
 में जाकर बुद्धश्री की भर्त्सना । १२०
८. बुद्धश्री द्वारा मंत्री को सबोधन व इन्द्रजाल प्रदर्शन । १२१
९. बुद्धश्री द्वारा कथा वर्णन । वाराणसी पुरी के राजा उग्रसेन का पुणोहित सोम-
 शर्मा, पत्नी पद्मावती, पुत्री लोमश्री । सोमशर्मा के घर पांच सौ वैष्णवों का
 नित्य भोजन । सुवर्णखर नामक युवक वैष्णव का सोमशर्मा के मठाश्रम में
 आगमन । १२१
- १० लोमश्री की वैष्णव भक्ति । दोनों में परस्पर प्रेम वृद्धि व पलायन । सोमशर्मा
 का शोक व राजा से निवेदन । १२२
११. राजा का तलवर को आदेश कि अपराधी को ढूँढकर व बाधकर लाओ । दोनों
 का आनयन । धर्माधिकारी में प्रश्न । कन्या-साहस करने वाले को मृत्युदंड का
 विधान । तदनुसार दंड । १२२
१२. कन्या का शोक । मृतक से मिलन व विलाप । देह के भस्मीभूत किये जाने पर
 भी भस्म की पूजा । भस्म के जल-प्रवाह किये जाने पर उस जल का सम्मान ।
 उसी प्रकार बौद्धमत को त्यागकर अन्य मत का भावर निष्फल । १२३
१३. इसी प्रकार निरन्तर उपदेश से मंत्री का पुनः मत-परिवर्तन । प्रातः सभा में पूछे
 जाने वाले प्रश्न के उत्तर में मौन रखने का आदेश । १२३
१४. प्रातः सभा में चारण मुनियों के आगमन का वृत्तान्त व मंत्री का साध्य । किन्तु
 बुलवाने पर मंत्री का न माना व अस्त्रें दुखने का बहाना करना । १२४

१५. मंत्री का बलपूर्वक सभा में ध्यानयन व राजा द्वारा गत दिवस की घटनाओं को स्मरण करना । मंत्री द्वारा सत्य को छिपाना व कहना कि मैंने कुछ नहीं देखा । इस असत्य भाषण से मंत्री की आँखों के मणियों का भूमि पर पड़ना व व आसन से नीचे गिरना । १२४
१६. पुनः पूछे जाने पर भी असत्य का त्याग न करने से पृथ्वी फट गई और मंत्री मरकर महानरक को गया । उसके वशजों का अब तक भी जात्यघ होना । इस आश्चर्य से लोगों की घमंरुचि । राजा का वैराग्य व तप । १२५

संधि-११

कडवक

पृष्ठ

- १ धर्म में अनुराग के चार भेद, भावानुराग, प्रेमानुराग, मज्जानुराग और धर्मानुराग । भावानुराग पर सागरदत्त की कथा । उज्जयिनी पुरी, सागरदत्त सेठ प्रियगुप्ती पत्नी, जिसका पहले नागसेन में वाग्दान हो चुका था । सागरदत्त का जिनालय में उपवास । नागसेन का प्रागमन, रोष, बदला लेने हेतु अपना हार उसे पहनाकर चोरी-चोरी की पुकार, अधिकारी से निवेदन और हार देखकर राजा में निवेदन । १२६
२. राजा द्वारा प्राणदंड का आदेश । तलवार का प्रहार मणिहार बना । देवी द्वारा पुष्पवृष्टि । यह आश्चर्य देख लोगों में धर्मानुराग की उत्पत्ति । १२६
- ३ प्रेमानुराग पर द्रव्यवत्त का आख्यान । विनीता जनपद, अयोध्यापुर, सुवर्णधर्म राजा, सुवर्णनक्षत्री रानी, द्रव्यदान कणिक का चतुर्दशी उपवास में ध्यान योग । पूर्व वैगनुबन्धी देव द्वारा उपसर्ग । सेठ की निष्कपता से सतुष्ट देव द्वारा पूजा व नभोगामिनी विद्या का दान । यह आश्चर्य देख राजा का वैराग्य । १२७
४. मज्जानुराग पर जिनवत्त-वसुवत्त का आख्यान । उज्जयिनी नगरी, जिनदत्त और वसुदत्त भ्राता, सार्थ म मिलकर व्यापार निमित्त उत्तरापथ गमन । वन में म्लेच्छों द्वारा सार्थ की लूट । दोनों भ्राता लुटकर समार से विरक्त व जिन-शासन में अस्थि-मज्जानुराग से रक्त । सोमशर्मा द्विज भी लुटकर सन्यास में स्थिर होकर पिपीलिकाभ्रों का उपसर्ग सह, मरकर ब्रह्मलोक गया । १२७
- ५ धर्मानुराग पर लकुचकुमार का आख्यान । उज्जयिनी नगरी, धनवर्मा नरेश, लकुच राजकुमार, सीमावर्ती कालमेल म्लेच्छ द्वारा आक्रमण । लकुच कुमार द्वारा पराजित और बन्दी । राजा द्वारा कुमार का अभिनन्दन । १२८
- ६ कुमार को पंगुल सेठ की पत्नी नागवर्मा पर आसक्ति । एक दिन मुनि दर्शन । धर्मश्रवण और मुनिचारित्र ग्रहण । विहार व पुनः नगरागमन । महाकाल उद्यान में प्रतिमा योग । पंगुल सेठ द्वारा पूर्व बैर स्मरण कर लकुच मुनि को लोहशलाकाभ्रों द्वारा बाधा । धर्मानुराग सहित उपसर्ग सहकर स्वर्ग-गमन । १२८
७. जिनभक्ति पर पद्मरथ नृपाख्यान । मिथिला नगर का पद्मरथ राजा शत्रु का दमन करने सूर्यप्रभ-वट्टन गया । वहाँ सुधर्म मुनीन्द्र के उपदेश से श्रावक

- हुआ। कोई अन्य भी ऐसा धर्मोपदेशक है, ऐसा पूछने पर साधु ने कहा, चम्पापुर में वासुपूज्य तीर्थंकर है, जिनकी वाणी त्रिभुवन पूज्य है। पश्चरथ ससैन्य वासुपूज्य तीर्थंकर की वन्दना को चला। उसकी परीक्षा निमित्त अमितप्रभ और विशुत्प्रभ देवों का आगमन। पहले उन्होंने यमदग्नि को अपने समय से चलायमान किया। फिर जैनधर्मानुराग की परीक्षा करनी चाही। १२६
- ६ विशुत्प्रभ ने मिथिला नगर का दाह व घरदारों का ध्वस आदि मायाजाल दिखलाया। फिर भी पद्मरथ नहीं लौटा। देव द्वारा प्रशसा। राजा द्वारा तीर्थंकर की वन्दना। मुनि-दीक्षा, गणधर पद व मोक्ष प्राप्ति। ११०
१०. दर्शनभ्रंश पर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का आस्थान : अरिष्ट नेमि का तीर्थ, काम्पिल्यपुरी, राजा ब्रह्मरथ, महादेवी सोमिल्ला, पुत्र ब्रह्मदत्त बारहूवा चक्रवर्ती, चक्रवर्ती विभूति। तप्त खीर से दग्ध। रसोदये पर रोष। उबलती खीर से उसका स्नान। मरकर लवण समुद्र में राक्षस। १३०
११. पूर्व वैर स्मरण। वैष्णव के वेष में फल लेकर आगमन। राजा का फल भक्षण और प्रश्न। अपने आश्रम में उनके प्राचुर्य का कथन। राजा का समुद्र के बीच आश्रम को गमन। उपसर्ग व पूर्व वैर को स्मरण कराना। राजा मत्री, व सामन्त आहार-त्याग कर सन्यास में स्थित।
१२. नवकारमंत्र स्मरण के कारण राक्षस राजा को मारने में असमर्थ। राक्षस का प्रस्ताव—यदि जैन धर्म त्याग कर पचाक्षर मंत्र को पैर से पीछे दे तो अभयदान। भयभीत होकर राजा के बंसा करने पर राक्षस द्वारा घात व रसातल के बडवानल में प्रक्षेप व सप्तम नरक गमन।
१३. दर्शन में वृक्षता पर जिनवास का आस्थान। पाटलिपुर, जिनदास वणिक् जिनभक्त। वाणिज्य निमित्त भाड़ लेकर कचनद्वीप गमन। द्रव्योपाजन कर लौटते समय पूर्व वैरी कालियदेह द्वारा प्रचंड वायु एवं सघन बादल निर्माण व यह कथन कि जीवन चाही तो जैनधर्म छोड़ो। जिनदास की निश्चलता। १३२
१४. जिनदास की धर्मनिष्ठा से अणुवि यक्ष का आसन कपायमान। यक्ष के द्वारा शत्रु के मिर पर प्रहार व वडवामुख में क्षेपण। वरुण देव द्वारा वणिक् के पोत की रक्षा। लक्ष्मी का कलश लेकर आगमन। देवों द्वारा सम्मान। घर आकर सेठ का मुनिराज से उपसर्गकारी के विषय में प्रश्न। १३२
१५. मुनि का कथन। हस्तिनापुर में अग्निभूति विप्र। उसका बाद में तुम्हारे द्वारा पराजय। राजा द्वारा निष्कासन। अपमान का रोष। कालियदेह राक्षस के रूप में जन्म। पूर्व वैर स्मरण कर उपसर्ग। मुनि का यह कथन सुनकर सबकी धर्म में रुचि। जिनदास की प्रव्रज्या। १३३
१६. दर्शन का पालन न करने का शत्रुवत्त का आस्थान। लाट देश, द्रोणिमान पर्वत के समीप गोद्रहपुरी, जिनदत्त वणिक्, पत्नी जिनदत्ता, पुत्री जिनमती। दूसरा वणिक् नागदत्त परम माहेस्वर, पुत्र रुद्रदत्त। उसके विवाह हेतु जिनमती की माग। धर्म भेद होने के कारण जिनदत्त द्वारा प्रस्ताव अस्वीकार। १३३

१७. नागदत्त का जैन धर्म स्वीकार करना । रुद्रदत्त का जिनमती में विवाह । रुद्रदत्त द्वारा शैव धर्म ग्रहण करने का प्रस्ताव । जिनमती की अस्वीकृति । १३३
१८. रुद्रदत्त का आग्रह । जिनमती का प्रस्ताव कि दोनों अपना-अपना धर्म पालन करे । रुद्रदत्त का पुनः वही हठ । जिनमती की दृढ़ता । १३४
१९. प्रति-पत्नी का इसी विषय पर विवाद और कलह एवं परस्पर धमकी व अपने-अपने प्रस्ताव । भिल्लो द्वारा नगर पर आक्रमण । १३५
२०. पुर में अग्नि-प्रकोप व रुद्रदत्त के घर तक अग्नि का प्रवेश । जिनमती का पति से प्रस्ताव कि जो देव इस उपसर्ग से रक्षा करे उसी को पूज्य माना जाय । १३५
२१. प्रथम रुद्रदत्त द्वारा अपने इष्ट देव की आराधना व त्राण की प्रार्थना । किन्तु अग्नि की वृद्धि व निर्गमन मार्ग भी भग्न । १३५
२२. रुद्रदत्त द्वारा हरि, कमलामन, इन्द्र, चन्द्र आदि देवों का स्मरण व अर्घ्याजलि । तो भी अग्नि प्रकोप की निरन्तर वृद्धि । नागदत्त द्वारा जिनमती से अपने देव को अर्घ्य देने का आग्रह । १३७
२३. जिनमती द्वारा अरहत देव का आराधन । शामन देवी द्वारा अग्नि का उप-शमन । सबका जैनधर्म स्वीकरण । १३६

संधि-१२

कडवक

पृष्ठ

१. शुद्ध सम्यक्त्व से तीर्थंकरत्व की प्राप्ति पर श्रेणिक चरित्र । जवूद्वीप, भरत क्षत्र, मगध देश, राजगृह पुर, उपश्रेणिक राजा, सुप्रभा रानी, श्रेणिक राजकुमार, पूर्व-वैरी सीमान्त नरेश अभिवर्धमं द्वारा प्रेषित दुष्ट अश्व । राजा को सवारी । भीषण वन में अपहरण । किर्गतराज द्वारा सम्मान व अपनी पुत्री तिलकावती का परिणयन इस प्रतिज्ञा सहित कि उसी का पुत्र राजा होगा । नगरागमन । १३८
२. कुमार चिलातपुत्र की उत्पत्ति । राजा का नैमित्तिक से प्रश्न—कौन उसका उत्तराधिकारी होगा ? उत्तर—जो सिंहासन पर बैठकर भेरी बजाता हुआ, कुत्ते को चातुरी से सम्हालता हुआ पायस का भोजन करेगा, वही उत्तराधिकारी होगा । राजा द्वारा पाच मी राजकुमारों की परीक्षा । नाना प्रकार के वरदान । १३९
३. श्रेणिक की मांग । सिंहासन पर बैठकर भेरी बजाना । पायस भोजन । श्वानों का छोड़ा जाना । राजकुमारों का पलायन । श्रेणिक उन्हें भी थोड़ा खिलाता हुआ स्थिर । भूपाल के मन में निश्चय । किन्तु दायदो के भय से कुत्ते के साथ भोजन के बिटाल का दोष लगाकर नगर से निष्कासन । राजकुमार का नन्द ग्राम में प्रवेश । १३९
४. नन्दग्राम के विप्रों द्वारा भी निष्कासन और परिव्राजकों के मठ में प्रवेश । बौद्ध-धर्म में दीक्षित । वहाँ से दक्षिण देश गमन । गगास्तान से लौटते हुए काञ्चीपुर के राजमंथ्री इन्द्रदत्त से मेल । राजपुत्र का कंधे पर बैठने अथवा बिठलाने का प्रस्ताव । इन्द्रदत्त को भ्रति । १४०

५. मार्ग में हरा भरा खेत देखकर प्रश्न—खेत खा लिया गया, खाया जा रहा है या खाया जायगा। इस बेर के वृक्ष में कितने काटे हैं? यह भैंसों को क्यों पीटता है? यह वधू जो पीटी जा रही है, वह बद्ध है कि मुक्त? राजकुमार का वृक्ष के नीचे छात्र धारण, पानी में चलने पर पनही धारण। राजकुमार के इन प्रश्नों व ऐसी क्रियाश्रो से विप्र की हैरानी। राजकुमार को काचीपुर के बाहर छोड़ विप्र का अपने घर गमन। पुत्री अन्नयमती का साथी के विषय में प्रश्न। १४०
६. भट्ट द्वारा राजपुत्र को पागल बतलाते हुए उससे प्रश्नो व क्रियाश्रो का वृत्तान्त। कन्या द्वारा उनका युक्तियुक्त समाधान। १४१
७. कन्या का उस बुद्धिमान युवक को घर लाने का प्रस्ताव। युवक कीचड़ के मार्ग से लाया गया व कटोरे भर मात्र जल पैर धोने के लिए दिया गया। उससे भी कम जल में राजकुमार का पाद-प्रक्षालन। कन्या की उसे वरण करने की इच्छा। १४१
८. दोनों का विवाह। अभयकुमार पुत्र की उत्पत्ति। परदेश से वसुपाल नरेश का मंत्री को एक स्तम्भ प्रसाद बनवाने का आदेश। विज्ञानियों का सम्मेलन। १४२
९. चित्रपट देखकर भी एक स्तम्भ प्रसाद बनवाने में अपने असाध्यर्था का स्वीकार। सोमशर्मा की चिन्ता। जामाला द्वारा निर्माण। राजा का पुनरागमन व प्रसाद देखकर सन्तोष। १४२
१०. श्रेणिक से राजपुत्री वसुमित्रा का विवाह। उधर उपश्रेणिक द्वारा चिलात पुत्र को राज्य समर्पण। उसकी अनौत्ति। मंत्रियों द्वारा श्रेणिक की खोज व पत्र-प्रेषण व राज्य निमित्त आमंत्रण। १४३
११. श्रेणिक का राजगृह आगमन व चिलातपुत्र को च्युत कर राज्य ग्रहण। इधर काचीपुर में अभयकुमार का माता से पिता के विषय में प्रश्न व वृत्तान्त जानकर प्रस्थान तथा नन्दिग्राम में आगमन। वहां सब द्विजों को उदाम चित्त देख प्रश्न। १४४
१२. द्विजों द्वारा अपना परिचय—श्रेणिक नरेश के अग्निहोत्री। राजा का अकारण रोष व आदेश कि तुम्हारे ग्राम का कूप बहुत अच्छा है। उसे हमारे पास भेजो। अभयकुमार का सैयदान। १४४
१३. अभयकुमार द्वारा राजा को समुचित उत्तर प्रेषण। कूप से जाने को कहा, किन्तु नहीं जाता। उसके आकर्षण के लिये किसी सुन्दरी को भेजा जाय, क्योंकि नारी से पुरुष का वशीकरण है। इस सन्देश से राजा निन्तर। १४५
१४. राजा का दूसरा आदेश—हाथी को कैसे तीला जाय। कुमार ने हाथी का नौका में चढ़ाया व जिनती नौका पानी में डूबी उतने पत्थर भरकर उन्हें तीलाकर हाथी की तीला बतला दी। राजा का तीसरा आदेश—प्रचुर जलयुक्त कूप को ग्राम के पूर्व में पश्चिम दिशा में करो। १४५
१५. कुमार ने ग्राम को कूप की पूर्व दिशा में बसा दिया। राजा का आश्चर्य। कोई नया विद्वान् ग्राम में भेजा है, जानकर आदेश—परदेशी को जब दिन हो न रात्रि, न भूमि न आकाश मार्ग से तुरंत हमारे पास भेजा जाय। १४६

१६. कुमार संध्या के समय रथ से लटकता हुआ राजगृह पहुँचा। पुत्र को पहचान कर राजा का हर्ष। उसे पुनः काचीपुर भेजकर दोनों पत्नियों का आनयन। दूसरा प्रसंग। सिंधुदेश, वैशाली पुरी, कौशिक राजा व यशोमती रानी का पुत्र चेटक राजा व सुभद्रा रानी, सात पुत्रियाँ—प्रियकारिणी, सुप्रभा, प्रभावती, मृगावती, ज्येष्ठा, चन्दना और चेलना। १४६
१७. राजा की वासगृह में चित्र लिखाने की इच्छा। कलाकार कोकास द्वारा स्त्री का चित्रलेखन। चित्रभूति चित्रकार का आगमन व कोकाम से मेल। अपने क आश्चर्य, राजा का आमंत्रण। १४६
१८. राजादेश से चित्रभूति द्वारा महादेवी व कन्याधो के चित्रलेखन। चेलना के गुह्यस्थान पर मसि-बिन्दु। राजा का रोष। चित्रकार का पलायन व राजगृह आगमन, श्रणिक को चेलना का चित्र प्रदर्शन। कन्या का परिचय। १४७
१९. अपने पलायन का कारण वर्णन। कन्या के रूप की प्रशंसा। १४८
२०. राजा का अनुराग व मंत्रणा। किसी बुद्धिमान को भेजकर राजकन्या को भुलाकर ले आने की सम्मति। १४८
२१. राजा का चित्रपट लेकर, व्यापारी के वेप में वैशाली गमन। चेटक राजा द्वारा सम्मान व निवाम दान। बोट वणिक् के नाम में क्रय-विक्रय। १४९
२२. प्रसिद्धि। चेलना का चित्रपट का समाचार। कौतुक वग आगमन व चित्र देखकर अनुराग। प्रिय के पास ले चलने का आग्रह। १४९
२३. कुमार द्वारा राजकुमारी के भवन तक मुरग निर्माण। रात्रि में ज्येष्ठा और चेलना का बहिर्गमन। भूली हुई जिन-प्रतिमा व रत्न पट्टिका लाने के बहाने ज्येष्ठा को लौटाना। १५०
२४. अभयकुमार का चेलना को लेकर पलायन। ज्येष्ठा का नैराश्य व तप-ग्रहण। १५०
२५. श्रणिक की प्रसन्नता व चेलना से विवाह। १५०

संधि-१३

- कहवक पृष्ठ
१. चेलना के बारिमेन नामक व महादेवी के कूषिक नामक पुत्र का जन्म। राजा राजा द्वारा अपने वैष्णव गुरुधो (भगवो) को आमंत्रण। १५२
२. चेलना द्वारा माधुधो का स्वागत व तपाये हुए पट्टो पर आसन। साधुधो का पलायन। राजा को रोष। १५२
३. चेलना द्वारा उदाहरण। कौशाम्बी पुरी, प्रभापाल राज्य, यशोमती महादेवी, मागरदत्त वणिक् वसुमति गृहिणी, दूसरा वणिक् समुद्रदत्त, पत्नी समुद्रदत्ता। दोनों वणिकों की मैत्री। १५३
४. मागरदत्त का प्रस्ताव—यदि उनके पुत्र-पुत्री का जन्म हो तो परस्पर विवाह। मागरदत्त के भुजंग का जन्म। समुद्रदत्त की नागदत्ता कन्या। परस्पर विवाह नागदत्ता का माता से कथन कि उसका पति रात्रि को पुत्र वेप में रहता है, किन्तु दिन में सर्प बनकर पिटारी में बन्द रहता है। माता का आश्वासन। १५३

५. समुद्रदत्ता का पुत्री के घर गमन । पुरुष बनकर प्रिया के पास जाने पर उसकी पिटारी का दमन व भुजंग का सर्वकाल पुरुष रूप रह जाना । तदनुसार भगवो के मिथ्या रूप का दहन कर उनके सत्स्वरूप के प्रकटन के लिये उसका वह प्रयास । १५३
६. यह उत्तर पाकर राजा का मौन । एक दिन राजा का आश्लेष गमन । यशोधर मुनि का प्रतिमायोग मे दर्शन । इसे अपशकुन समझना । १५४
७. राजा का मुनि पर पाँच सौ कुत्ते छोडना । मुनि-माहात्म्य से उनका उपशमन । राजा की बाण-वृष्टि । उसका भी पुष्पवृष्टि मे परिवर्तन । फिर मुनि के गले मे मृत सर्प का डालना व सप्तम नरक की आयु बाँधना । उपयुक्त आश्चर्य देखकर राजा का विनय व मुनि का आशीर्वाद । १५४
८. श्रेणिक की जैन शासन मे श्रद्धावृद्धि । सभा मे वनमाली द्वारा महावीर तीर्थंकर भागमन का समाचार । १५५
९. राजा का विनय व वन्दना के लिए प्रस्थान । १५५
१०. विपुलगिरि की शोभा व उस पर समवसरण का दर्शन । १५५
११. समवसरण के विस्तार, तौरण, प्राकार, मानस्तम्भ, सोपान, उपवन आदि का वर्णन । १५६
१२. समवसरण के द्वारो, प्रतिहारो, नृत्यो, धूपधरो कर्णलगूहो, नन्दनवनी अशोकवृक्ष का वर्णन । १५६
१३. चार गोपुरो, वन वेदिका, ध्वजाश्रो व प्राकार का वर्णन । १५७
१४. प्रतिहारो, नृत्यगूहो, कलनवृक्षो, प्रासादो, तारणो, मभाश्रो व द्वारपालो का वर्णन । १५७
१५. सोलह भित्तियो, मणिमडप, सोलह सोपानयुक्त पीठ, धर्मचक्रो युवन यक्षो, सुवर्ण पीठ, चक्रध्वज आदि का वर्णन । १५७
१६. अरुहत के ऊपर देवो द्वारा पुष्पवृष्टि, चौसठ यज्ञो द्वारा चमर चालन, उनकी दिव्यवाणी, सर्वजीव मैत्री आदि का वर्णन । १५८
१७. पीठत्रय, भद्रासन व उस पर विराजमान तीर्थंकर का वर्णन । १५८
१८. स्तंभो, स्तूपो, वेदियो का प्रमाण, बारह कोठो एव जयध्वनि का वर्णन व राजा का वहाँ पहुँचकर जिनेंद्र दर्शन । १५९

संधि--१४

कडवक	पृष्ठ
१. श्रेणिक द्वारा तीर्थंकर महावीर की स्तुति ।	१६०
२. राजा की मुनिवन्दना व तीर्थंकर के धर्मोपदेश का श्रवण । दो प्रकार के जीव, तीन काल, शल्य, रत्न, गति, गारव, गुण, गुप्ति, जगत, योग, वेद, मरुत् व मूढता, चार सज्ञा, बन्ध, कषाय, आराधना आदि क्रम से, आठ कर्म, भय और मद तक ।	१६०
३. नव ब्रह्मचर्य, पदार्थ, ग्रह, नय और पदार्थ से लेकर सोलह स्वर्ग, कषाय व भावना तक ।	१६१

४. सत्तरह सयम से लेकर तेतीस आसादन दोष तक । धर्म श्रवण कर श्रेणिक नरेश का गौतम स्वामी से अपने भवान्तर सबधी प्रश्न । १६१
५. गौतम स्वामी का उत्तर । विन्ध्य पर्वत पर खदिरसार नामक पुलिन्द । १६२
६. उस पुलिन्द द्वारा समाधिगुप्त मुनिका दर्शन व विनय । धर्मवृद्धि का आशीर्वाद । धर्म के स्वरूप का प्रश्न । हिंसा, मांस भोजन व मद्यपान का त्याग ही धर्म । १६२
७. पुनः असत्य, चोरी, परस्त्री, रात्रि भोजन, पैशुन्य व परवचन का त्याग ही धर्म । पुलिन्द का प्रश्न - समस्त धर्म पालन में अशक्त हो तो क्या करे ? मुनि का उत्तर—देव-गुरु पर श्रद्धा रखकर शक्यनुसार धर्म पालन का भी महाफल । पुलिन्द का वायसमास के त्याग का व्रत ग्रहण । १६२
८. पुलिन्द को व्याधि । वैद्य द्वारा काक-मांस खाने का विधान, पुलिन्द को प्रस्वीकार । पत्नी द्वारा अपने भ्राता सूरवीर का सारसपुर से आनयन । वन में रोती हुई यक्षिणी से भेट । १६३
९. वट-यक्षिणी द्वारा आत्म-निवेदन । भगिनीपति काकमास त्याग के फल से उसका भावी पति, किन्तु उसके व्रतभग के फल से देवयौनि की अप्राप्ति की आशका से रुदन । व्रत भग न करने का वचन देकर सूरवीर का भगिनीपति के समीप गमन । १६३
१०. काकमांस खाकर व्याधि दूर करने का आग्रह, किन्तु पुलिन्द द्वारा निषेध । सूरवीर द्वारा यक्षिणी-वृत्तान्त सुनकर पुलिन्द का सब जीवों के मांस का त्याग व मरकर प्रथम स्वर्ग में दिवाकर नामक देव होना । १६४
११. लौटते हुए सूरवीर द्वारा पुनः यक्षिणी से भेट । यक्षिणी का पुनः रुदन, क्योंकि उसी की बात सुनकर सर्वजीवमांस के त्याग से पुलिन्द को उत्तम देव यौनि मिली । सूरवीर का श्रावक धर्म ग्रहण । १६४
१२. उमौ खदिरसार पुलिन्द का श्रेणिक के रूप में जन्म । श्रेणिक का संक्षेप में जीवन चरित्र । १६४
१३. शेष जीवन चरित्र अभयकुमार के जन्म से लेकर काचीपुर में निकलने तक । १६५
१४. पुनः अभयकुमार के नन्दिग्राम में पहुँचने से चेलना के लाये जाने तक का संक्षेप वृत्तान्त । १६५
१५. चेलना के विवाह से लेकर मुमि की महिमा देखकर श्रेणिक के उपशम भाव तक का वृत्तान्त । १६६
१६. श्रेणिक का गौतम गणधर को प्रणाम, स्तवन, धर्मश्रवण, क्षायिक सम्पत्त्व उत्पादन, सप्तम नरक से काटकर प्रथम नरक का आयुबध, प्रबल सवेग से भावी तीर्थकरत्व लाभ व महावीर का निर्वाण हो जाने पर तथा चतुर्थ काल के तीन वर्ष आठ मास व पन्द्रह दिन शेष रहने पर मृत्यु की भविष्यवाणी । १६७

संधि-१५

कहवक

पृष्ठ

१. राजा श्रेणिक का गौतम गणधर से कालक्रम सबधी प्रश्न । उत्तर—तुम्हारी (श्रेणिक की) मृत्यु के तीन वर्ष आठ माह पन्द्रह दिन पश्चात् आषाढ़ पूर्णिमा समाप्त होने पर श्रावण प्रतिपदा से पंचम काल प्रारंभ । तब उत्कृष्ट आयु १२० वर्ष व शरीर प्रमाण ७ हाथ । एक सहस्र वर्ष पश्चात् पाटलिपुर में दुर्मुखकल्कि की उत्पत्ति । १६८
२. साधुओं पर सकट । कल्कि का मारा जाना । १६८
३. पंचमकाल में नीति व गुणों का ह्रास और अनौति की वृद्धि ।
४. स्त्री पुरुषों में दोष वृद्धि । प्रकृति में परिवर्तन । अंतिम कल्कि कोशलपुर का दुर्दशन । १६९
५. कल्कि का उनकी वृत्ति के संबंध में प्रश्न । मंत्री का उत्तर—भिक्षाहार । उसे भी ग्रहण करने पुरुष-प्रेषण । उस समय सागरचन्द्र नामक एक मात्र मुनि शेष । १७०
६. आज्ञा न मानने वालों के संबंध में प्रश्न । उत्तर में निर्ग्रंथ साधुओं के गुण-धर्मों का उल्लेख । १६९
७. और एक मात्र श्रावक सागरदत्त । आहार का भी कर देकर मुनि और श्रावक का स्वर्गवास । निर्ग्रंथ साधुओं का अभाव । वज्रपात से राजा की मृत्यु । कार्तिक की अमावस्या को सूर्योदय में सागरचन्द्र का स्वर्गवास, पूर्वाह्न में धर्म-नाश, मध्याह्न में राजकुल क्षय, अपराह्न में अग्नि का नाश तत्पश्चात् सबका कच्चा भोजन । आषाढ़ पूर्णिमा के पश्चात् कल्कि की समाप्ति । १७०
८. श्रावण प्रतिपदा से अंति कलिकाल का प्रारंभ । उत्कृष्ट आयु बीस वर्ष व शरीराकृति एक हाथ प्रमाण । फिर प्रलय काल । जल का सूखा, पृथ्वी का फटना । सप्त रात्रि वज्रिग्निपात, सप्त रात्रि प्रचण्ड वायु, सप्त रात्रि विषयुक्त जलवृष्टि, सप्त रात्रि खारी जलवृष्टि फिर कषाय, कटु, तीक्ष्ण व काजी सदृश व तत्पश्चात् अमृतोपम जलवृष्टि । फिर पृथ्वी पर बीजाकुरादि की उत्पत्ति व मानव वृद्धि पुनः राजा का गणधर से प्रश्न । १७१
९. क्या विव्रयार्थ पर्वत पर वज्रानल नहीं उड़ता ? उत्तर—नहीं । प्रायैखंड के मध्य में ही प्रलय होता है, पंच म्लेच्छलडों में नहीं । वहां सर्वत्र दुपम और सुपम काल मात्र की प्रवृत्ति । वहां आयु आदि का प्रमाण । १७२
१०. अतिदुपम काल के पश्चात्, दुपमकाल व आयु शरीर प्रमाण आदि । सहस्र वर्ष शेष रहने पर चौदह कुलकरो की उत्पत्ति । उनके नाम । १७२
११. तत्पश्चात् चौबीस तीर्थंकर । उनमें प्रथम पद्म नामक तुम (श्रेणिक) । अन्य भावी तीर्थंकरों के नाम । १७३
१२. भरत आदि बारह भावी चक्रवर्तियों के नाम । तथा नव बलदेव नारायण और उनके प्रतिशत्रु । नव नारद, चौबीस कामदेव व अन्य प्रकार के राजा । उत्कृष्ट आयु व शरीर प्रमाण । दुपम-सुपम काल में दश प्रकार के कल्प वृक्ष । १७३

- १३ क्रमशः सुधम-दुधम सुधम व सुधम-सुधम काल की प्रवृत्तियाँ । १७३
- १४ फिर सुधम, सुधम-दुधम, दुधम-सुधम, दुधम व अतिदुधम कालो का क्रम । यह सब सुनकर राजा को संतोष । गृह आगमन । आयु पूर्ण कर मरण । कृष्णिक कुमार का राज्याभिषेक । अभयकुमार व बारिषेण । राजकुमारो का तपग्रहण । १७४

संधि—१६

- कडवक १७४
१. धर्म में भक्ति के प्रभाव पर करकडु चरित्र । भारतवर्ष, अग देश चम्पापुर, धाडीवाहन राजा, वसुदत्ता महादेवी । समीप ही कुसुमपुर । १७५
- २ एक दिन धाडीवाहन का कुसुमपुर आगमन । चौगहे पर पद्मावती सुन्दरी का दर्शन । १७६
- ३ राजा का पद्मावती के प्रति अनुराग । उसके पिता कुसुमदत्त माली में सम्पर्क व राजा से पद्मावती का वियाह । १७६
- ४ पद्मावती का शील देखकर राजा का उसके कुल के सबध में सन्देह । कुसुमदत्त ने ज्ञात हुआ कि उसे एक दिन सध्या समय गंगा में बहती हुई पेटिका दिखाी । १७६
- ५ पेटिका को घर लाकर देखने पर उसमें यह कन्या मिली । पद्म महाद्रह म मिलने से नाम पद्मावती रखा । १७७
- ६ राजा ने वह पेटिका मगवाई जिसमें एक पत्र मिला । उसमें लिखा था कि यह कौशाम्बी के राजा वसुपाल और रानी वसुमती की पुत्री है । इसके गर्भवास में माना को अनेक कष्ट हुए । अत अशुभ जान गंगा में छोड दी गई । १७७
७. पद्मावती महादेवी हुई । चम्पापुर में स्वागत । १७८
- ८ अन्तःपुर में प्रवाद फैला कि राजा ने माली की नीच कुल की कन्या से विवाह किया । सुनकर देवी को वेद व पिहितान्यव मुनि के समीप गमन । १७८
- ९ रानी ने दीक्षा मागी । उसी समय अन्त पुर से उसे मनाने महादेवी आर्द । १७९
१०. वसुदत्ता महादेवी ने मनाकर पद्मावती को घर लौटा दिया और स्वय तप ग्रहण कर लिया । १७९
- ११ वसुदत्ता तप कर स्वर्गलोक गई । इधर पद्मावती को एक रात्रि स्वप्न में हाथी, श्वेन अश्व, वृषभ, श्रीभवन व कस्पवृक्ष दिखाई दिये । प्रात राजा से निवेदन । १८०
- १२ राजा ने स्वप्न का फल प्रतापी पुत्र की उत्पत्ति बतलाया । १८०
- १३ स्वप्नफल सुनकर पद्मावती का संतोष । गर्भोत्पत्ति । दोहला कि पुरुषवेश करके राजा के साथ हाथी पर बैठकर सपरिवार, क्षीतल मद पवन और वृष्टि होते समय नगर की प्रदक्षिणा करूँ । नगर में उत्सव और श्रेष्ठ हाथी का शृगार । १८१
१४. विद्यावेग विद्याधर द्वारा पवन, मेघ और वृष्टि की सृष्टि । सज्जधज के साथ यात्रा प्रारम्भ । हाथी मदीन्मत्त होकर नगर से बाहर भाग उठा । १८१
- १५ हाथी कलिंग देश के वंतीपुर के समीप जा पहुँचा । रानी ने मनाकर राजा को वृक्ष की शाखा पकड़ कर उतरने व घर लौटने पर राजी कर लिया । १८२

१६. हाथी का दंतीपुर के पपसरोबर मे प्रवेश, रानी का उतरकर बटवृक्ष के नीचे ठहरना, माली का जल भरने घाना व बहिन कहके पद्मावती को घर ले जाना । चार मास मुख से व्यतीत । माली की अनुपस्थिति मे मालिन द्वारा घर से निस्सारण । १८२
१७. पद्मावती का दमशान मे पुत्रजन्म । मातंगवेषी पुरुष का आगमन व आत्म-निवेदन । भारत देश विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी मे विद्युत्प्रभपुर, विद्युत्प्रभ राजा, विद्युल्लेखा महादेवी । उनका पुत्र मे बालदेव, पत्नी हेममाला । एक दिन मलयाचल की ओर बिहार । १८२
१८. लौटते समय मथुरा के ऊपर विमान स्थगित । नीचे योग मे लीन ऋषि । उन्हे विमान के निरोध का कारण जान अपमान । विद्या विच्छेद का शाप और क्षमा याचना । १८३
१९. शाप का अन्त तब जब दंतीपुर के दमशान मे पद्मावती द्वारा प्रसूत पुत्र का तू चाण्डालवेष मे पालन करेगा और युवक होने पर उसका राज्याभिषेक होगा । तभी से मे (मातंगवेषी विद्याधर) यहाँ प्रतीक्षा मे । १८३
२०. मातंग ने बालक की याचना की । उसे लेकर घर आया और पत्नी को दिया । पद्मावती जिनमन्दिर मे गयी और अजिका के पास रहकर निरोग हुई । अजिकाओ के साथ समाधिगुप्त मुनि की वन्दना को गई । १८४
२१. पद्मावती ने मुनि से अपने पति-वियोग का कारण पूछा । मुनि का उत्तर—श्रावस्तीपुरी, वणिक् नागदत्त, पत्नी नागदत्ता व्यभिचारिणी, उमे छोडकर पति की मुनि-दीक्षा, स्वर्ग-गमन । वहा से चम्पापुर मे धाडीवाहन नरेश । १८४
२२. नागदत्ता का जार दतीपुर के वन मे हाथी होकर धाडीवाहन का रेवातिलक हाथी हुआ । नागदत्ता ताम्रलिप्ति नगर मे वसुदत्त वणिक् की पत्नी नागदत्ता हुई । उसकी दो पुत्रियाँ धनवती और धनश्री । धनवती का विवाह नालदा के धनपाल से । उसने बौद्धधर्म ग्रहण किया । धनश्री का विवाह कौशाम्बी के वणिक् वसुमित्र से । वह हुई श्राविका । माता विधवा व निर्धन होकर लघु पुत्री के पास कौशाम्बी आई । १८५
२४. नागदत्ता का मुनि के पास रात्रिभोजन त्याग का व्रत ग्रहण । नालंदा जाने पर व्रत खंडित । इसी प्रकार आते जाते तीन बार व्रत-ग्रहण और खंडन । अन्त मे धनश्री के पास व्रत लेकर मरण व वसुपाल नरेश की देवी वसुमती के गर्भ मे जन्म । माता की पीडा । १८५
२५. जन्म से गंगा हृद से पेटिका मे पायी जाकर माली द्वारा पाली जाने का वृत्तान्त । १८५
२६. माली द्वारा पत्नी को सीपने से लेकर राजा को अपना दोहला प्रकट करने तक का वृत्तान्त । १८६
२७. नगर की प्रदक्षिणा को निकलने से लेकर दतीपुर के सरोवर मे हाथी से मुक्ति तक का वृत्तान्त । १८६
२८. माली के घर पहुँचने से लेकर मातंग द्वारा पुत्र ग्रहण तक का वृत्तान्त । तीन

बार व्रतभग का फल क्रमशः जन्मते ही जलप्रवाह, हाथी द्वारा भ्रपहरण और माली के घर से निस्सारण ।

१८७

संधि—१७

कडवक

पृष्ठ

१. बलदेव खेचर के घर बालक का संवर्धन । एक दिन पद्मावती उसे देखने आयी और उसे हाथ खुजलाते देखकर करकंडु नाम दिया । बिद्याधर द्वारा नामा शास्त्रो की शिक्षा । १८८
२. वीरभद्र जयभद्र मुनियों का आगमन । वहाँ नर-कपाल से निकले तीन बासों को देखकर मुनि की भविष्यवाणी कि वे राजा के अंकुश, छत्र और ध्वजा के दंड होंगे । १८८
३. इस भविष्यवाणी को सुन एक विप्र का उन्हें काटना । करकंडु का उससे छीनना । उसके राज-लक्षण देख विप्र का विनय । १८९
४. करकंडु के पृच्छने पर विप्र का आत्मनिवेदन । घाटलिपुर का सुमति नामक सकलकला प्रवीण किन्तु निर्धन पंडित । अर्धोपाजन निमित्त सब कुछ किया और सर्वत्र गया । किन्तु कार्य-सिद्ध नहीं । भ्रमण करते करते आना व मुनि वचन सुनकर बास काटना । १८९
५. करकंडु से विप्र की याचना कि राजा होने पर उसे मंत्रिपद दिया जाय । १८९
६. करकंडु की स्वोक्ति । वृक्ष के नीचे निद्रा । दंतीपुर के राजा बलवाहन का पुत्रहीन मरण । मंत्री की चिन्ता । पट्टहस्ती का श्रृंगार कर, सूड मे कलश दे राजा की खोज का निर्देश । १९०
७. हाथी का दमसान मे जाकर करकंडु का कलश से स्नान । सबका जयघोष । करकंडु का हस्ति आरोहण । कुछ लोगों की मातंग के राज्याभिषेक पर आपत्ति । द्विज का आगमन । १९०
८. द्विज का विनय व आशीर्वाद । लोगों का संशय-निवारण । करकंडु का नगर प्रवेश व राज्याभिषेक । १९१
९. बलदेव विद्याधर का आकाश मे विमान से अपना व करकंडु का परिचय देकर सबको आश्चर्य कराना । १९१
१०. उन बासों के अंकुश छत्र व ध्वज-दंड निर्माण । द्विज को मंत्रिपद प्रदान । पद्मावती का आगमन व आशीर्वाद और शिक्षण देकर निर्गमन । १९१
११. चम्पापुर नरेश के दूत का आगमन व सेवा की मांग, अन्वया आक्रमण का भय । १९२
१२. करकंडु का अस्वीकार । १९२
१३. दूत का पुन. आग्रह व भय प्रदर्शन । १९३
१४. करकंडु की सभा के सभी सामन्तों व मंत्रियों का रोष, दूत की भर्त्सना व स्वामी को बीरतापूर्ण संदेश । १९३
१५. दूत का लौटकर स्वामी को आश्चर्य । चम्पा नरेश का सैन्य सहित आक्रमण । १९४

१६.	गुप्तचरो द्वारा करकंडु को प्रचंड आक्रमण की सूचना ।	१६४
१७.	करकंडु की समर घोषणा । मुभटो की तैयारी ।	१६४
१८.	भटों की अपनी पत्नियों से सर्पंक्तियाँ ।	१६५
१९.	भट-परिनयो द्वारा विदाई । सबल मैन्य सहित राजा का निर्गमन ।	१६५
२०.	दोनो सेनाओं का संघर्ष । पद्मावती का आकर पिता-पुत्र की पहिचान कराना ।	१६६
२१.	पिता-पुत्र का आलिंगन । सबके द्वारा पद्मावती की स्तुति ।	१६६
२२.	करकंडु का चम्पापुर गमन व राज्याभिषेक का उत्सव । पिता की मुनि दीक्षा ।	१६७
२३.	कैलास पर्वत पर योग साधना और मुक्ति । करकंडु की सभा में गुप्तचर का आगमन ।	१६७
२४.	गुप्तचर का सन्देश । दक्षिणापथ के चोल चेर और पाण्ड्य नरेशो द्वारा करकंडु की प्रभुता अस्वीकार । दूत-प्रेषण । उक्त नरेशो की जिनेन्द्र को छोड़ अन्य किसी को प्रणाम न करने की प्रतिज्ञा । करकंडु का प्रकोप व द्रविण देश पर आक्रमण ।	१६८
२५.	करकंडु का द्रविण नरेशो में संधान । तीनों द्रविण राजाओं का बन्दीकरण ।	१६८
२६.	हुंकार सहित वामपाद में सिर पर प्रहार करते समय सिर पर जिनमूर्ति का दर्शन । करकंडु का पञ्चाताप व राजाओं की मुक्ति । उनका पुत्रो को राज्य देकर तप ग्रहण ।	१६९

सन्धि १८

कडवक		पृष्ठ
१.	दक्षिण विजय में लौटकर तेरापुर में आवागमन ।	२००
२.	तेरापुर के भिन्न नरेश शिव का आकर करकंडु को नमन व सहस्र-स्तनभ जिनालय व उनके ऊपर एक वामी का श्वेत हाथी द्वारा पूजन का आश्चर्य कथन ।	२००
३.	करकंडु का गमन, जिनालय-वदन, वामी के हाथी द्वारा पूजन का चमत्कार दर्शन, स्वयं वामी का पूजन व वामी के रहस्योद्घाटन पर्यंत उपवास ग्रहण ।	
४.	रात्रि के पश्चिम याम में नागदेव का आगमन व वृत्तान्त कथन । दशानन वशो सूर्य देव विद्याधर द्वारा पूदि नामक गिरि पर चौबीसो तीर्थंकरो की प्रतिष्ठा । अमितवेग-मुवेग विद्याधरो का आगमन व प्रतिमा-दर्शन ।	२०१
५.	अमितवेग का पार्श्व प्रतिमा को लेकर वहा (तेरापुर) तक आना व पर्वत पर प्रतिमा रखकर जिनालय की वदना करना । पुन उठाने पर प्रतिमा का न उठाना । निराग होकर वही मजूषा में रखकर तेरापुर के सहस्र-कूट मंदिर में यशोधर मुनि का दर्शन । मुनि द्वारा वही विशाल जिनालय बनने की भविष्यवाणी सुन दोनो भ्राताओं की मुनि दीक्षा ।	२०२
६.	सुवेग का मिथ्यात्व । भरकर श्वेत हाथी की पर्याय । अमितवेग का देव होना व आकर हाथी को जाति-स्मरण कराना तथा जब तक कोई प्रतिमा का उद्धार न करे तब तक पूजन करने का उपदेश ।	२०२

- ७ नागदेव का आगमन । विजयार्ध से नील महानील विद्याधरो का निर्वासित होकर यहाँ आगमन । उनका सागर मुनि से प्रश्न । २०३
- ८ सागर मुनि की भविष्यवाणी । जब तुम दक्षिण देश के आमीर विषयवर्ती तेरापुर में बारह वर्ष रह चुकोगे तथा धाराशिव पत्नी के समीप गिरितल पर सहस्र स्तंभ जिनभवन बनवाकर अष्टाह्निक महोत्सव व आठ दिन का उपवास पूर्वक मन्त्राराधन करोगे तब तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी । उन्हीं का यहाँ आकर राज्यस्थापन । जिनालय निर्माण व पुन. विद्याधर पद प्राप्ति । नागदेव द्वारा करकडु की भी प्रशंसा । २०३
९. नागदेव का गमन । प्रात. करकण्डु द्वारा वामी का लयन व जिनप्रतिमाकर्पण एवं लयन में आनयन । २०३
- १० लयन की मूल प्रतिमा में पाषाण-ग्रथि अबलोकन । ग्रथि का स्फाटन । जलवाहिनी निर्गमन । नैमित्तिक के वचनानुसार पाषाण-चयन व बधान । २०४
- ११ करकडु का पश्चात्ताप । नागदेव का पुनरागमन व संबोधन । एक और लयन के निर्माण का उपदेश । २०४
- १२ दूसरा एक और छोटा लयन महादेवी के नाम का बनवाया गया । तीनों लयनों में प्रतिष्ठा एक साथ करायी गयी । चम्पापुर आगमन । मुनि सप्त का आगमन । वन्दना । पद्मनाभ मुनि से पूर्वभव संबंधी प्रश्न । मुनि का उत्तर—तेरापुर में नील-महानील के राज्यकाल में धनमित्र वणिक् । २०५
- १३ उनके धनदत्त गोपाल का कमल तोड़ना, नागदेव द्वारा निरोध व सबसे श्रेष्ठ और पूज्य की उस कमल से पूजा का आदेश । धनमित्र की पूजा का प्रयत्न । २०५
- १४ वणिक् द्वारा नील राजा को, राजा द्वारा यशोधर मुनि को व मुनि द्वारा अरहत देव को पूजने का निर्देश । २०५
- १५ उस पूजा के फल से चम्पानरेश पद की प्राप्ति । करकडु का तपग्रहण व स्वर्ग-प्राप्ति ।

सन्धि १९

- कडवक पृष्ठ
१. भक्ति के फल पर रोहिणीचरित्र । श्रेणिक का गौतम मुनि से प्रश्न । गौतम का उत्तर—भारतवर्ष, चम्पापुरी, राजा मधवत । २०७
- २ रानी श्रीमती के श्रीपाल आदि आठ पुत्र व उनसे छोटी पुत्री रोहिणी । कार्तिक में नन्दीस्वर-पर्व के दिन रोहिणी का उपवास व पिता को शेष अर्पण । राजा की पुत्री के विवाह की चिन्ता । चारों मंत्रियों के साथ मंत्रणा । २०७
- ३ मुबुद्धि मन्त्री द्वारा स्वयंवर का प्रस्ताव । स्वयंवर घोषणा । २०८
४. राजकुमारी के मंडप में आने पर राजाओं की चेष्टाएँ । २०८
- ५ नेपाल आदि देशों के राजाओं को व्यया पहुंचाती हुई राजकुमारी का अशोक कुमार के पास आगमन । २०८

६. धात्री द्वारा परिचय—हस्तिनापुर के राजा वीतशोव का पुत्र अशोक । कुमारी द्वारा वरमाला प्रर्पण । २०६
७. अन्य राजाओं का नैराश्य और रोष । २०६
८. अशोक का राजाओं से युद्ध । २१०
९. अशोक से पराजित हो नरेशों का पलायन । २१०
१०. (अशोक-रोहिणी विवाहोत्सव) ।
११. (हस्तिनापुर आगमन । स्नेह । पुत्र जन्म) विलाप करती हुई महिला को देखकर रोहिणी का धात्री से प्रश्न ।
१२. धात्री का उत्तर—विलाप का कारण शोक । रोहिणी का प्रश्न—शोक क्या और कैसा होता है ? इस पर धात्री का रोष । २११
१३. रोहिणी की क्षमायाचना, किन्तु शोक नाम की वस्तु का अज्ञान प्रदर्शन । पति का रोष व लोकपाल पुत्र का प्रसाद में क्षेपण । देवों द्वारा बालक की रक्षा । २११
१४. बालक को खेलते देख व रोहिणी के पुण्य प्रभाव को जानकर सबका विस्मय तथा धर्मरुचि । रूप्यकुम्भ और सुवर्णकुम्भ मुनियों का आगमन । राजा द्वारा वन्दना व पूर्वजन्म सबधी प्रश्न । २११
१५. मुनि का उत्तर । उत्तर दिशा में बारह योजन पर नील पर्वत । मृगमारी व्याध । यशोधर मुनि का आगमन । उस दिन व्याध को कोई गिकार न मिला । मुनि को कारण जान उनके भिक्षा को जाने पर आसनगिला को तपाना । २१२
१६. मुनि का शिला पर बैठने ही मरण व मुक्ति । व्याध को कुण्ड-व्याधि व मरकर नरक नमन । पुन पुनः पशु व नरक योनि में जन्म । फिर इसी नगर में खाला वृषभमेन । दुर्गन्धयुक्त देह । नीलगिरी में दावाग्नि से मरण । अतएव उसकी माता का शोक । २१२
१७. रोहिणी की भवावलि । उसी नगर में वसुपाल का राज्य । धनमित्र मेठ, धनमित्रा पत्नी । पुत्री दुर्गन्धा । वही सागरसेन की श्रीमती भार्या का पुत्र श्रीषेण, खल स्वभाव के कारण मृत्युदंड को प्राप्त । २१३
१८. उसे धनमित्र का प्रस्ताव कि यदि पुत्री को विवाह तो मृत्युदंड से मुक्त कराया जाय । स्वीकृति । राजा को प्रमत्त कर मुक्ति । दुर्गन्धा में विवाह । उमका स्पर्श असह्य पाकर पलायन । मुनि आगमन । दुर्गन्धा का प्रश्न । मुनि का उत्तर—सौरठ देश । गिरिनगर । भूपाल राजा । गगदत्त वणिक् । मदनोत्सव की यात्रा । मुनिदर्शन । सिधुमती भार्या से आग्रह— २१३
१९. घर जाकर मुनि को भोजन करा आओ । रोषपूर्वक लौटकर कड़वी तूबी का आहारदान । मुनि की मृत्यु । विमान द्वारा शव यात्रा । लौटते हुए राजा ने देखा और प्रश्न किया । २१४
२०. वृत्तान्त जानकर राजा का शोक व रोष । सिधुमती का खरारोहण व निस्सारण कुण्डव्याधि से मरण । कुत्ती, शूकरी, श्रगाली, उंदुरी, जलका, मातंगी, गदंभी व गाय योनियों में भ्रमण कर तू दुर्गन्धा हुई । सुनकर दुर्गन्धा का पश्चाताप । २१४

२१. पाप से मुक्ति का उपाय बतलाया गया रोहिणी उपवास । उसकी विधि । २१५
 २२. उपवास की उद्यमन विधि । फल—उत्तम कुल में जन्म ।

संधि-२०

कडवक

पृष्ठ

- १—साधु द्वारा रोहिणीव्रत माहात्म्य की कथा । भारतवर्ष, सकटविषय, सिंहपुर नरेश जयसेन । कनक प्रभादेवी का पुत्र दुर्गन्ध । नभ में असुरकुमार को देखकर पूर्वभवस्मरण व मूर्च्छा । सचेत होने पर पिता द्वारा मूर्च्छा के कारण का प्रश्न । २१७
२. कारण न बतलाने पर केवली के ममोपगमन । पूर्वभ्रम में मुनिवध के कारण दुःख परम्परा । कलिग देश, विन्ध्यपर्वत का महाशोक वन । २१७
३. बड़ा ताम्रकृति और प्वेतकृति नामक दो गजेन्द्र । परस्पर युद्ध में दोनों मृत । पश्चात् परस्पर वैरयुक्त मूषक-मार्जार, अहि-नुकल, काक-श्वेन आदि रूपों में जन्म । फिर दोनों का कनकपुर के पुरोहित सोमभूति के सोमशर्मा और सोमदत्त नामक पुत्र होना । उनकी क्रमशः सुकाता और लक्ष्मीमती नामक पत्नियाँ । पिता की मृत्यु पर लघु भ्राता का राजपुरोहित होना । २१८
४. एक दिन भावज ने सोमशर्मा के दुराचार की बात कही । सोमदत्त का छिपकर स्वयं देखना व विरक्ति से मुनि-दीक्षा लेना । सोमशर्मा को पुरोहित पद । २१८
५. शकट देश के राजा द्वारा त्रैलोक्य सुन्दर हाथी की मांग । न देने पर प्राक्रमण । सोमदत्त मुनि का वही बिहार । सोमशर्मा की इसे अपशकुन बनाकर मुनि को मरवा डालने की राजा को मलाह । विश्वदेव विप्र द्वारा विरोध । २१९
६. मुनिदर्शन शुभ शकुन के पक्ष में शास्त्रप्रमाण । प्रातः मगध नरेश द्वारा हस्ति-समर्पण । रात्रि में सोमशर्मा द्वारा सोमदत्त मुनि का वध । राजा द्वारा वधक को पिटवाकर निर्वासन । कुष्ठ-व्याधि । मरकर नरक गमन । २१९
७. सोमशर्मा नरक में निकल कर समुद्र में तिमिगिल मत्स्य हुआ । फिर सिंह सर्प, भेरुंड व बक पक्षी होकर अन्त में यह तेरा पुत्र दुर्गन्ध हुआ है । रोहिणी उपवास के पुण्य से दुर्गन्ध सुगन्ध हो गयी । २२०
८. राज्य किया । फिर अपने पुत्र श्री विजय को राज्य देकर तप और स्वर्ग गमन । फिर पूर्वविदेह क्षेत्र की पुडरीक नगरी के राजा विमलकीर्ति का दिवाकर कीर्ति नामक पुत्र । मित्र मेघसेन । उत्तर मथुरा के सेठ सागरदत्त का पुत्र सुमन्दिर । २२०
९. दक्षिणमथुरा के नन्दिमित्र वणिक् की दो कन्याओं का सुमन्दिर से विवाह । रविकीर्ति (दिवाकरकीर्ति) का पट्टचना व नवोद्धार का अपहरण । नागरिकों द्वारा मनाकर पुनरावर्तन । रविकीर्ति के पिता ने सुना । रविकीर्ति का मित्र सहित निर्वासन । वीतशोक नगर जाना । बहा के राजा विमलवाहन की जयमती आदि आठ पुत्रियाँ । २२१
१०. नैमित्तिक की भविष्यवाणी, जो चन्द्रकवेष करेगा वही जयमती का पति होगा । चन्द्रकवेष की स्थापना । २२१

११. अन्य किसी के न वेध मकने पर अर्ककीर्ति को आदेश व उसके द्वारा वेधन तथा जयमती आदि कन्याओं का वरण । सोते हुए चित्रलेखा विद्याधरी द्वारा अपहरण । विजयाद्वै के शिखर पर मिदकूट मन्दिर में छोड़कर विकट-दन्त विद्याधर को समाचार २२२
१२. इधर कुमार की उठकर बदना । वज्रकपाटी का खुलना । विकटदत्त का आगमन व वृत्तान्त कथन । अन्नपुर में पवनवेग विद्याधर की वीतशोका पुत्री । मुनि का वचन जिसके आने पर मन्दिर के वज्रकपाट स्वयं खुलेंगे, वही उसका पति होगा । कुमार को लेकर विद्याधर का गमन । २२३
१३. उत्सव पूर्वक कुमार का नगर-प्रवेश । वीतशोका व अन्य इकतीस कन्याओं का विवाह । पाच वर्ष रहकर गृह की ओर प्रस्थान । अजनागिरि नगर, प्रभजन, भूपति, नीलाजना देवी, मदना, कनका आदि आठ पुत्रियां । उद्यान गमन । नीलगिरि हाथी का रतभ भगकर भागना । जन कोलाहल । २२३
१४. कुमार द्वारा हाथी का वशीकरण व कन्याओं का परिणय । पुडरीकनीपुर गमन व अनेक आश्चर्य प्रदर्शन और बल-मचय । राजा से सशाम । नामांकित बाण का प्रेषण । पिना-पुत्र की पहिचान व आलिगन । २२४
१५. उत्सव सहित पुत्र-प्रवेश । उल्कापतन देखकर दीक्षा-ग्रहण व निर्वाण प्राप्ति । इन्द्रधनुष की अनित्यता देखकर अर्ककीर्ति को वैराग्य । पुत्र विमलकीर्ति को राज्य देकर दीक्षा व स्वर्गगमन । वह वणिक्पुत्री दुर्गन्धा रोहिणी उपवास के फल से तुम्हारी (अर्ककीर्तिकी) महादेवी हुई । २२४
१६. तुम्ही अर्ककीर्ति वीतशोक नरेश की पत्नी विद्युत्प्रभा से उत्पन्न अशोक नामक राजपुत्र हुए । महादेवी अगदेश में चपापुरी के राजा मधवत की कन्या रोहिणी । पुत्री के जन्म वृत्तान्त । मथुरापुरी, श्रीधर राजा, अग्निशर्मा पुरोहित व उसके सात पुत्र । पाटलिपुत्र आगमन । सुप्रतिष्ठ राजा का पुत्र सिहरय । २२५
१७. विगतशोक (वीतशोक) नरेश द्वारा राजपुत्री कमला का सिहरय को दान । विप्रसुतो को वैराग्य व मुनि-दीक्षा । स्वर्गवास व तुम्हारे (अशोक के) पुत्री के के रूप में जन्म । पूर्वकाल का भल्लावक नामक विद्याधर पिहितालव मुनि के समीप ब्रह्मचारी हो गया । २२५
१८. वही मरकर तुम्हारा (अशोक का) लोकपाल नामक पुत्र हुआ । चारों पुत्रियों के पूर्वजन्म । पूर्ववैदेह, विजयाद्वै की दक्षिण श्रेणी अलकापुरी । गरुणवेग प्रभु, कमलादेवी की कमलश्री आदि चार पुत्रियाँ । ऋडा हेतु उपवन-गमन । सुव्रतसूरि के दर्शन । २२६
१९. मुनि से प्रश्न—उपवास का स्वरूप व फल । पारमार्थिक और व्यावहारिक इन दो प्रकारों के उपवास । अन्य धर्मों में उपवास का प्रमाण । २२६
२०. उपवास का फल—पाप का शोधन व सुरासुर आदि का वशीकरण तथा मंत्रसिद्धि । पंचमी उपवास का स्वरूप और फल । २२७
२१. कुमारियों का पंचमी उपवास व्रत । स्वर्गवास व तुम्हारी (अशोक की) पुत्रियों

- के रूप में जन्म । वसुधरी का मौनव्रत के फल संबंधी प्रश्न । मुनि का उत्तर । २२८
२२. मौनव्रत के उत्तम फल । २२८
२३. मौनव्रत का उद्यापन । वसुधरी का मौनव्रत धारण । सिर के श्वेत केस देखकर राजा को वैराग्य । बामुपूज्य तीर्थंकर का उद्यान में भ्रमण । २०६
२४. राजा की वदनयात्रा, धर्म श्रवण, दीक्षा, गणधरपद प्राप्ति, मुक्ति । महादेवी का भी तप व स्वर्गगमन ।

संधि--२१

- कडवक पृष्ठ
१. भक्तिफल पर क्षीरकदम्ब की कथा । हस्तिनापुर में पाण्डव राज्य । द्रोण ब्राह्मण का भ्रमण । कृपाचार्य द्वारा शान्तनुपुत्र से मेल । पाण्डवों का द्रोण द्वारा प्रशिक्षण व प्रमिद्धि । ममीपवर्ती वन में क्षीरकदम्ब भिल्ल । २३१
२. क्षीरकदम्ब द्वारा लेप्य पिडमय द्रोण की पूजा व धनुर्विद्याम्याम । शब्दवेध व राधाचन्द्रवेध का ज्ञान । अर्जुनादि पाण्डव कुमारों का उम वन में भ्रमण । क्षीरकदम्ब द्वारा उनके श्वान के मुख में बाण विसर्जन । अर्जुन का विस्मय । २३१
३. भिल्ल से भेट । गुरु का नाम द्रोण तथा अपनी शस्त्रविद्या का प्रकाशन । अर्जुन ने उसे अपने में भी अधिक विद्यावान् समझा । २३२
४. अर्जुन ने इसे गुरु का अपने प्रति द्रोह समझा । गुरुयमीप गमन । द्रोण का अस्वीकार । क्षीरकदम्ब के पास भ्रमण व प्रश्न । २३२
५. भिल्ल द्वारा गुरु की लेप्य प्रतिमा का प्रदर्शन । २३१
६. द्रोण भक्ति की प्रशंसा । गुरु जानकर क्षीरकदम्ब का प्रणाम । गुरुदक्षिणा की माँग व दाहिने हाथ के अग्रठे का दान । धनजय की तुष्टि । वितय द्वारा चाप-विद्या की सिद्धि । भक्ति का माहात्म्य । २३३
७. भक्ति के माहात्म्य पर पद्यरथ की कथा । भारतवर्ष, विजय देश, पृथिवीतिलकपुर, प्रजापाल नरेश, सूरदन सेठ के मात पुत्र । सबसे छोटा पुत्र धन्वन्तरि, उसका प्रिय मित्र ब्राह्मण । दोनों दुर्व्यसनी चोर । कुटुंब द्वारा त्यक्त । हस्तिनापुर भ्रमण । यमदंड आरक्षक के घर निवास । २३५
८. चौरवृत्ति । वणिक् पुत्र द्वारा जीववध के त्याग व पचनमनस्कार मंत्र का ग्रहण । चोरी हेतु गमन । अपशकुन निवारणार्थ नाटक प्रेक्षण । गृहागमन । माता को वधू के साथ मोती देख सन्देह । मारने के लिये कृपाण-कर्षण । गुरुवचन का स्मरण । सीके पर प्रहार । १३४
९. 'भाङ्ग-पतन, माता की निद्रा भंग । व्रत का प्रभाव जानकर दोनों मित्रों की धर्म-रक्षि । दीक्षा का विचार । २३४
१०. माता और पत्नी का मित्र के माथ गृह-श्रेणण । इधर धन्वन्तरि का तप-ग्रहण व शास्त्राम्याम । विष्वानुलोम द्विज का भ्रमण । मित्र को मौन पाकर सहस्रजटी तपस्वी का शिष्यत्व ग्रहण । २३५

११. एक का अच्युत स्वर्गगमन व दूसरे का विद्युत्प्रभ देव के वाहन हस्ति का पर्याय ।
प्रथम की नन्दीस्वर यात्रा व द्वितीय से भेट । २३५
१२. अपने-अपने धर्म का समर्थन । दोनो का यमदग्नि के समीप यमन । २३६
१३. पक्षि-प्रपंच द्वारा यमदग्नि को क्षुब्ध करना । पुत्र बिना सद्गति नहीं, इस
विश्वास से यमदग्नि का कान्यकुब्ज जाकर रेणुका से विवाह व परशुराम
पुत्र की उत्पत्ति । राजगृह के रमशान में जिनदास श्रावक का अटल प्रतिमायोग । २३६
१४. जिनदास का योग भंग करने हेतु नाना उपसर्ग, किन्तु उसका चित्त अचल । २३७
१५. अच्युत देव द्वारा प्रसन्न होकर जिनदास को आकाशगामिनी विद्या का दान ।
मिथिला नगर में पद्मरथ राजा वामुपूज्य तीर्थकर की वन्दना हेतु प्रस्थित ।
नगरदाह आदि तपसर्गों से भी बहू अडिग रहा । २३७
१६. विश्वानुलोमचर को सन्तोष व योजनघोषाभेरी का पारितोषिक । अमितप्रभ
देव द्वारा सर्वव्याधिहर-हार का दान । पद्मरथ नरेश द्वारा तप ग्रहण व
गणधरपद प्राप्ति तथा मोक्षगमन । विश्वानल देव द्वारा सभ्यकत्व ग्रहण । २३७

संधि--२२

कडवक

पृष्ठ

१. नमोकार मंत्र की धाराधना के फल पर सुदर्शन चरित्र । अग जनपद, चपापुरी,
धाडीबाहन राजा, अभयमती रानी । ऋषभदास वणिक्, अरुहदासी सेठानी,
सुभग गोपाल का गाय लेकर वन-गमन । माघमास की शीत में योगस्थित मुनि
का दर्शन । चिन्तावश रात्रि में निद्रा भंग । प्रातः भूनिदर्शन । २३६
२. नमोकार मन्त्रोच्चारण के साथ मुनि का आकाश-गमन उस मन्त्र को ही
आकाश-गमन का कारण जान गोपाल द्वारा उसी का सर्वकाल उच्चारण
वणिक् द्वारा निवारण । गोपाल का आग्रह देख अनुमति । २३६
३. एक दिन महिषियो का नदी पार पर-क्षेत्र में गमन । उन्हें लौटाने जाते समय
नदी में एक पत्ते शूल से गोपाल का छेदन व मृत्यु व उसी सेठ के यहाँ सुदर्शन
नामक पुत्र के रूप में जन्म । कलाभ्यास यौवन । २४०
४. यही सागरदत्त की मनोरमा नामक कन्या से विवाह । सुकान्त नामक पुत्र की
उत्पत्ति । ऋषभदास का तप व स्वर्गवास । सुदर्शन प्रसिद्ध सेठ हुआ । उसका
मित्र कपिल । उसकी पत्नी कपिला सुदर्शन पर आसक्त । दूती सम्प्रेषण । २४०
५. मित्र-मिलन हेतु सुदर्शन का आगमन । कपिला का एकान्त में ले जाकर प्रेम-
प्रदर्शन । सुदर्शन द्वारा नपुंसक होने का बहाना । २४१
६. वसतायमन । राजा का वनक्रीड़ा हेतु गमन । मनोरमा को देखकर अभया रानी
का विस्मय । कपिला द्वारा उसका परिचय पाने की इच्छा । रानी द्वारा परिचय । २४१
७. कपिला का उसके पुत्र के विषय में संशय व वृत्तान्त-कथन । रानी ने उसे
सुदर्शन का बहाना बताया । २४२
८. कपिला की रानी को चुनौती । रानी की प्रतिज्ञा—यदि सुदर्शन से रमण न करे

- तो सदा के लिये ब्रह्मचारिणी । पंडिता धात्री को रानी का आत्मनिवेदन व उमके द्वारा संबोधन । २४२
६. रानी का हठ व अभिलाषा पूर्ण न होने पर अग्नि-प्रवेश की प्रतिज्ञा । पंडिता का आश्रवामन । कृभकार को सात पुरुषाकार प्रतिमाये बनाने का आदेश । प्रतिपदा के दिन एक प्रतिमा लेकर रात्रि मे राजाद्वार में प्रवेश । २४३
१०. द्वारपाल द्वारा निषेध । पंडिता का रोष । प्रतिमा को फेंककर फोड़ डालना । रानी के पुरुष-व्रत भंग का भय दिखलाना । द्वारपाल की क्षमा याचना । २४३
११. इसी प्रकार सात दिनों मे सातों द्वारपालों को सिद्ध कर लेना । अष्टमी के दिन उपवास युक्त श्मशान मे ध्यानस्थ सुदर्शन सेठ का आनयन । रानी द्वारा चलायमान करने का प्रयत्न । सुदर्शन की निश्चलता । २४४
१२. कल के दिन सकुटुम्ब शूली दिलाने की धमकी । सुदर्शन की धैर्यपूर्वक प्रतिज्ञा कि इस उपसर्ग से बचने पर तप-ग्रहण । रात्रि का भ्रमसान । रानी का प्रपच । सेठ पर शीलहरण का दोषारोपण । राजा द्वारा मृत्युदंड । २४५
१३. श्मशान मे ले जाकर शिरच्छेद का आदेश । नागरिकों का खेद और आश्चर्य । श्मशान मे पहुँचकर शीवा पर प्रहार । २४५
१४. कृपाण पुष्पमाला हो गयी । देवों द्वारा पुष्पवृष्टि । राजा की मनवार, तथापि सेठ की मुनिदीक्षा । रानी द्वारा फाँसी से आत्मघात व राक्षसी जन्म-ग्रहण । धात्री पाटलिपुत्र भाग गयी व देवदत्ता गणिका के घर रही । ६४५
१५. सुदर्शन साधु का पाटलिपुत्र मे विहार । पंडिता द्वारा दर्शन व गणिका को परिचय । देवदत्ता की उसे वशीभूत करने की प्रतिज्ञा । मुनि को गृहप्रवेश कराकर द्वार मुद्रण । तीन दिन तक मुनि को क्षुब्ध करने का प्रयत्न । पश्चात् श्मशान मे मोचन । मुनि का प्रतिमा-योग । २४६
१६. श्मशान मे उस व्यतरी द्वारा सात दिन उपसर्ग । केवलज्ञान की उत्पत्ति । देवों द्वारा स्तुति । उपदेश । गणिका, पंडिता तथा व्यन्तरी द्वारा सम्यक्त्व-ग्रहण । २४७

संधि—२३

- कडवक १. जानोपयोग के फल पर यमराज मुनीन्द्र की कथा—घोड़ विषय, धर्म नगर, यम नरेन्द्र, धनवती रानी, खर नामक दुर्मति पुत्र, कोणिका पुत्री, भविष्य वाणी—कोणिका का पति चक्रवर्ती होगा । भय से राजा द्वारा भूमिग्रह मे निविष्ट । सुधर्म मुनि का आगमन । लोगों की वन्दन यात्रा । मंत्री द्वारा जानकर वाद-निमित्त राजा का भी गमन । २४८
२. मुनि के माहात्म्य से राजा मूढ़ होकर मौन । खर नामक पुत्र को राज देकर राजा का तप-ग्रहण । प्रयत्न करने पर भी शास्त्र के एक अक्षर का भी ज्ञान दुर्लभ । पूर्वदेश की तीर्थयात्रा हेतु गमन । खरयुक्त रथ का दर्शन । २४८
३. खड श्लोक की रचना । आगे नगर मे बालको का खेल व घड़डी का लोप ।

- इस पर पुनः श्लोक रचना । संघ्या समय में डूक को निकला देख तीसरे श्लोक की रचना । ग्राम के समीप कुएँ की शिला पर गड़बड़े देखकर पहिहारिनो से कारण पूछा और जानकर चौथी गाथा की रचना । मन में विचार उठा क्या मेरा मन पाषाण से भी निष्ठुर है ? २४६
४. पुनः गुरु समीप आगमन । अपने नगर के नन्दन वन में वास । मन्त्री की आशंका व राजा को दुर्मंत्रणा । तलवारें लेकर मारने के लिये आना । मुनि का प्रथम श्लोक सुनकर राजा को आशंका । २५०
५. मुनि का दूसरा श्लोक सुनकर राजा को राजपुत्री कोणिका का स्मरण । तीसरे श्लोक से मन्त्री की पाप बुद्धि की आशंका । राजा द्वारा क्षमा-याचना व श्रावक व्रत-ग्रहण । दुष्ट मन्त्री का निस्तारण । २५०
६. मुनि की गुरु से भेंट । तपवृद्धि, बुद्धि का विकास, ऋद्धि-सिद्धि । केवलज्ञान । मोक्ष । २५१
७. पंचनभोकार मंत्र के प्रभाव पर दृढसूर्य की कथा—उज्जयिनी, धनपाल राजा, दृढसूर्य चोर को अजन-विद्या सिद्ध । उसकी प्रिया वनगतसेना की रानी का हार पाने की इच्छा । दृढसूर्य द्वारा आशवासन व महादेवी के हार का अपहरण । बधन व राजाज्ञा से शूली आरोपण । २५१
८. जिनभक्त धनदत्त सेठ का आगमन । उनसे जल प्रार्थना । पंचनभोकार मंत्र देकर सेठ का पानी लेने जाना । चोर का मनोचचारण करते हुए स्वर्गवास । २१२
९. धनदत्त के चोर से सबध की आशंका से उमका धन अपहरण करने की राजाज्ञा । दृढसूर्य देव द्वारा रक्षा । राजा का भागकर जिनेन्द्र भवन में सेठ की शरण में जाना । वृत्तान्त जानकर सेठ व वणिक् की मुनिदीक्षा । शूली के स्थान पर शूलेस्वर की आज्ञा भी पूजा । २५२
१०. शूली द्वारा आहत की एक और कथा—उत्तर मथुरापुरी, उदिनादिन राजा, सुदितोदय पुत्र, सुबुद्धि मन्त्री, ग्रहेंद्रास वणिक् और उसकी मित्रश्री आदि सात परिवार । सुवर्णखुर नामक चोर । कार्तिक शुक्ला अष्टमी को कौमुदी महोत्सव । २५३
११. सात दिन धर्मोत्सव । पूणिमा को युवतियों की वनकोटा व पुरुषों के नगर में निवास की राजाज्ञा । सूर्यस्त वर्णन । २५३
१२. चन्द्रोदय वर्णन । नरेश द्वारा प्रिया का स्मरण तथा मन्त्री से वन में चलकर युवति-क्रीडा देखने का प्रस्ताव । २५४
१३. मन्त्री द्वारा विरोध व ग्रहणा । हस्तापुर में सुयोधन राजा । विजय-यात्रा । लौटने पर प्रजा का अभिनन्दन व राजा का कुशल प्रश्न । २५४
१४. प्रजा द्वारा आरक्षक के शासन की प्रशंसा । ईर्ष्या से राजा का रोप व आरक्षक पर सन्देह । मन्त्री व पुरोहित से मंत्रणा व भाण्डागार में खात लगाकर द्रव्याप-हरण व उस यमपाश आरक्षक को खोज लगाने का आदेश । २५४
१५. आरक्षक का निरीक्षण व उसी स्थान पर मणिमय पादुका, यज्ञोपवीत और कटारी की प्राप्ति । सात दिन में चोर का पता लगाने का राजा का आदेश । आरक्षक की नागरिकों को सूचना । २५५

- १६ पता लगा या नहीं, ऐसे राजा के प्रश्न पर आरक्षक का अपनी सुनी हुई सुभाषित व हंसो की कथा सुनाना । मूल से बल्ली उत्पन्न हुई । शरण से ही भयो-त्पत्ति । सरोवर तट पर एक ऊँचा वृक्ष । २५५
१७. उम पर हंसो का निवास । मूल मे लता की उत्पत्ति । वृद्ध द्वारा उसे खड्डित कर डालने का उपदेश । बालको का उपहास । बेल बड़ी । उसी से चढकर व्याध द्वारा सब हंसो को जाल मे फँसाना । वृद्ध के उपाय से रक्षा । २५६
१८. दूसरे दिन राजा के प्रश्न पर कुलाल की बात, जिससे पोषण उसी से पीठ टूटी । मिट्टी के पिंड से जीवन, उसी से पीठ टूटना । तीसरे दिन की बात । वरशक्ति नगरी के नरेश वरधर्म की विजय-यात्रा, किन्तु प्रतोली के पतन का अपशकुन । २५६
१९. प्रतिदिन प्रतोली का निर्माण व रात्रि को षडस । मन्त्री द्वारा नरबलि का सुझाव । राजा का निषेध, किन्तु प्रजा द्वारा एक लाख दीनार मे नरबलि खरीदने की घोषणा । २५७
२०. वरदान ब्राह्मण द्वारा सात पुत्रो मे से सबलघु का विक्रय । प्रतोली की शोर बालक का हसते हुए आगमन । २५७
- २१ पूछे जाने पर बालक का उत्तर । बाप से डरकर शिशु माता की शरण जाता है, माता से डरकर पिता को । पिता से डरकर राजा को व राजा से डरकर नागरिको की । किन्तु सभी के विरुद्ध होने पर धैर्य के सिवाय क्या शरण ? यह सुनकर राजा द्वारा बालक की मुक्ति । देवो द्वारा साधुकार, राजा की पूजा व गोपुर का पुन अचल होना । २५७

संधि—२४

कडवक

पृष्ठ

- १ आरक्षक द्वारा चौथे दिन ग्रहाना । जहाँ मर्बजल विषमय, वन कूटच्छादित और राजा स्वयं व्याध हो, वहाँ मृगो का वास कहाँ ? पाँचवे दिन का कथानक । पाटलिपुत्र, वसुपाल राजा, चित्रकवि मन्त्री । कवित्व मे मात्सर्य । राजा को कोप । बाधकर गगाद्रह मे प्रक्षेप । डूबते हुए सुभाषित । सुनकर राजा को मतोप व बधन से मुक्ति । छठे दिन की कथा । कुसुमपुर के राजा सुभद्र । नातवे दिन की कथा— २५६
- २ उज्जयिनी नगर । यशोभद्र सारथवाह । वाणिज्यार्थ गमन । मायकाल लौटने व माता का वस्त्र देखकर पत्नियो को सबोधन । इस प्रकार छह दिन बीतने पर राजा का रोष । आरक्षक का मणिपादुकादि लाकर प्रदर्शन । २५६
- ३ राजा स्वयं चोर सिद्ध । राजा का परिवार द्वारा निष्कासन व राजपुत्र का अभिषेक । मर्यादा भंग का दुष्परिणाम । २६०
- ४ मथुराधीश द्वारा मन्त्री की प्रशंसा । नगर परिभ्रमण का प्रस्ताव । भ्रजन विद्या सिद्ध काचनखुर चोर का दर्शन । उसके पीछे-पीछे अहंदास के महल तक गमन । महल के समीप वटवृक्ष पर चोर चढ़ा और राजा व मन्त्री वृक्ष के नीचे ठहरे । उसी समय सेठ का अपनी पत्नियो से प्रस्ताव । २६०

५. जिनालय मे जागरण किया जाय । मंदिर गमन सेठ का पत्नियो से प्रश्न—
तुम्हारा सम्यक्त्व कैसे दृढ हुआ ? पत्नियो की पहले सेठ का ही वृत्तान्त सुनने
की इच्छा । २६१
६. सेठ का आत्म-वृत्तान्त । उदितोदित राजा, बुद्धिमान मंत्री, सुप्रभा रानी, सुबुद्धि
पुत्र, रूप्यखुर चोर का पुत्र सुवर्णखुर । जिनदत्त सेठ, जिनमती सेठानी । २६१
७. उन्ही का पुत्र मैं अर्हंदास । रूप्यखुर द्वारा चोरी व दान । भजन लगाकर राजा
के साथ प्रतिदिन भोजन । राजा दुर्बल । मन्त्रियो द्वारा कारण का प्रदन । २६२
८. राजा का उत्तर—बौगुता जीमने पर भी अघाता नही । मन्त्री द्वारः भजन चोर
का सन्देह व पकडने की योजना । भोजनशाला मे धुएँ से भरे घटो की स्थापना
व प्रच्छन्न भटो की नियुक्ति । १६२
९. अर्क कलियों के फूटने से भजन चोर के आगमन की सूचना । द्वार बंद । धुआँ
छोड़ा गया । चोर की आँखो से घासू भाये । भजन नष्ट । देखकर भटो द्वारा
बधन । राजा द्वारा शूली का दड । जिससे वह बोले, जान लो उसी के पास
सब चोरी का द्रव्य । रक्षकों की नियुक्ति । जिनदत्त का आगमन व पूर्वोक्त पानी
पिलाने की चोर की प्रार्थना । २६३
१०. जिनदत्त द्वारा नमोकारमन्त्र-दान आदि का पूर्वोक्त वृत्तान्त चोर के मरण पर्यन्त । २६३
११. चोर के देव होने मे लेकर राजा के किकरों के मार भगाने तक का पूर्वोक्त वृत्तान्त । २६३
१२. राजा के स्वयं आने से लेकर उसके भागने व देव द्वारा पीछा किये जाने
का वृत्तान्त । २६४
१३. राजा द्वारा जिनदत्त की शरण लेना । जिनदत्त द्वारा राजा की मुक्ति । देव का
माया छोड़ स्वस्वरूप प्रदर्शन । २६४
१४. देव का आत्मनिवेदन व राजा व सेठ आदि का तपग्रहण । २६५
१५. अर्हंदास का पत्नियो से कथन कि नमोकार मन्त्र के इसी प्रभाव को देखकर
उसका सम्यक्त्व दृढ हुआ । अन्य पत्नियो द्वारा समर्थन, किन्तु कुन्दलता की
अश्रुती । २६५
१६. इस कथानक की तथा कुन्दलता के अविश्वास की राजा और चोर के मन
पर प्रतिक्रिया । २६६

सधि—२५

- कहवक पृष्ठ
१. जिनदत्त की प्रथम पत्नी मित्रश्री का आत्मनिवेदन । राजगृह पुरी, राजा
सप्रामसूर, रानी कनकमाला, वणिक् ऋषभदास, भार्या जिनदत्ता बध्या ।
२. भार्या का आग्रह व अपनी छोटी बहिन कनकश्री से विवाह । माता बंधुश्री का
आगमन, सुख संबन्धी प्रश्न । कनकश्री का उत्तर—सौत के होते हुए सुख कहाँ । २६७
३. दोनो के जिनमंदिर म रहकर रति सुख भोगने का तथा अपने प्रति पति की
उपेक्षा का दोषारोपण । माता का रोष व विवाह प्रसंग पर ली गयी शपथ भग
का दोषारोपण । २६८

४. माता द्वारा उपाय की प्रतिज्ञा व पुत्री को भाषवासन । कापालिक का आगमन ।
विषवास उत्पन्न कर बन्धुश्री से कथन । २६८
५. बंधुश्री द्वारा जिनदत्ता को मार डालने का प्रस्ताव कापालिक की स्वीकृति । २६९
६. षतुर्दशी की रात्रि को कापालिक द्वारा श्मशान में चंडमारी देवी की पूजा व
शव का जागरण । २६९
७. जिनदत्ता को मारने का आदेश, किन्तु देवी जिनमंदिर-प्रवेश में असमर्थ ।
तीन बार गमनागमन । चौथी बार दो में से जो भी दुर्भाव युक्त हो उसे मारने
का आदेश । २७०
८. देवी द्वारा काचनश्री का हनन । प्रातःकाल माता द्वारा काचनश्री को देखकर
राजा से प्रार्थना । सेठ-सेठानी को बांधकर लाने की राजाज्ञा । गृहद्वार पर
पुरदेवी द्वारा किकरो का स्तभन । २७०
९. वृत्तान्त सुनकर जिनदत्ता का अन्नशन व ध्यान । कापालिक द्वारा यथार्थ
वृत्तान्त की घोषणा । देवी द्वारा जिनदत्ता के निर्दोष होने की घोषणा । २७१
१०. इस आश्चर्य दर्शन से राजा को वैराग्य, सब लोगों में धर्मरुचि । ऋषभदास
और जिनदत्ता की प्रव्रज्या । इसी आश्चर्य से मित्रश्री की सम्पत्त्व में
दृढ़ता । कुन्दलता का अविश्वास । २७१
११. खड्गश्री का कथानक । कुरुजागल देश, हस्तिनापुर, सोमदत्त द्विज, गुणी, किन्तु
निर्धन । सोमिल्ला पत्नी की मृत्यु । शोक । मुनि उपदेश से शान्ति व श्रावक-
व्रत ग्रहण । ऋषभदास वाणिक के घर निवास । २७२
१२. मरण समय पुत्री सोमा को श्रावक से विवाहने की सेठ से प्रेरणा । यौवन ।
धूर्त रुद्रदत्त । २७२
१३. जुवाडियो द्वारा सोमा का परिचय । उसे विवाहने की रुद्रदत्त की प्रतिज्ञा । २७३
१४. जुवाडियो ने कठिनाई बतलाई । रुद्रदत्त ने प्रतिज्ञा की यदि उसे न विवाहूं तो
सबके समक्ष अग्नि-प्रवेश करूँ । रुद्रदत्त का देशान्तर गमन । मुनि के समीप
ब्रह्मचारी बना व आकर ऋषभदास के मंदिर में ठहरा । २७३
१५. सेठ का प्रश्न । अपनी तीर्थ वन्दना का विवरण । अपने पूर्वाश्रम तथा व्रत-
ग्रहण का परिचय । २७४
१६. यह जानकर कि उसने आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लिया, सेठ द्वारा सोमा से
विवाह का प्रस्ताव । रुद्रदत्त का संसार से विरक्ति का प्रदर्शन । २७४
१७. सेठ के अनुरोध से विवाह सम्पन्न । दूसरे ही दिन रुद्रदत्त का द्यूतशाला-प्रवेश
व प्रतिज्ञा-पूर्ति का अभिमान । कुट्टिनी-पुत्री कामलता से पूर्ववत् प्रेम । सोमा
का दुःख । देवभवन निर्माण । बिम्बप्रतिष्ठा । उद्यापन । रुद्रदत्त, कुट्टिनी आदि
को भी निमंत्रण । सोमा का सौन्दर्य देख कुट्टिनी की ईर्ष्या । २७५
१८. सोमा को मारने का उपाय—कलश में सर्पारोपण । सोमा के निकालने पर वह
पुष्पमाला ह्वारा । बिदा के समय सोमा द्वारा कामलता को पुष्पमाला अर्पण । २७६
१९. पुष्पमाला ने सर्प बनकर कामलता को डंसा । कुट्टिनी-द्वारा सोमा पर बोधा-
रोपण । राजसभा में विवाद । सोमा का यथार्थ निवेदन । २७६

२०. कुट्टिनी द्वारा कलधा मे सपं प्रदर्शन । सोमा के ग्रहण से पुनः पुष्पमाला । २७७
२१. सोमा के स्पर्श से कामलता का पुनर्जीवन । राजा के प्रश्न पर वसुमित्रा कुट्टिनी द्वारा सत्य कथन । पृथ्वी और आकाश मे सोमा की प्रशंसा व पुष्टि । राजा का वैराग्य व तपग्रहण । सबका धर्म-ग्रहण । सोमा की दीक्षा । रुद्रदत्त, कुट्टिनी व कामलता द्वारा श्रावक-व्रत ग्रहण । खड्गश्री की सम्यक्त्व मे दृढता । २७७

संधि—२६

- कडवक** पृष्ठ
१. बिष्णुश्री का कथानक—वन्मदेश, कोशाम्बीपुर, विष्णुश्री राजा, अजितान, सोमश्री महन्त, समाधिगुप्त साधु का आगमन । आहारदान, रत्न-वृष्टि आदि पचासचर्य । २७६
२. मन्त्री का कौतुक व चिन्ता । मुनि से प्रश्न । उत्तर-मुपात्रदान से ही प्रावचर्यं सम्भव । २७६
३. मन्त्री के प्रश्न पर मुनि द्वारा पूर्वं उदाहरण । वेगनाट नगर, सोमप्रभ नरेश । सुवर्णदान । विश्वभूति द्विज का कपोतवृत्त से यव-सचय, सन्तु के चार पिंड । एक से अग्नि-आहुति, दूसरे के लिये अतिथि की प्रतीक्षा । मुनि आगमन । २८०
४. अतिथि पिंड के अतिरिक्त अपने व पत्नी के पिंड का भी दान । पचासचर्यं । अन्य द्विजो ने उसे राजा के सुवर्णदान का फल माना । राजा सहित आगमन । २८०
५. रत्नों को ग्रहण करने पर वे कोयला हो गये । नकुल द्विज द्वारा निवारण । राजा का आधा यज्ञफल देकर, भिक्षार्थ-फल लेने का प्रस्ताव । विश्वभूति का अस्वीकार । दोनों मे मुमेरु और सर्प का अन्तर । २८१
६. श्रीयध्वान का माहात्म्य—द्वारावती मे वामुदेव गोविन्द ने मुनि को श्रीयधदान देकर देवों द्वारा पूजा व भावी तीर्थकरत्व प्राप्त किया । २८१
७. अभयदान का माहात्म्य—मेरु प्रमाण सुवर्णदान व समस्त पृथ्वी के दान से भी अधिक फलदायी एक जीव की प्राण रक्षा । वाराणसी का दृढचिन्त सुसुमार हृद मे बाधकर डाला गया । किन्तु देवो ने रक्षा और पूजा की । उज्जयिनी के भवदेव धीवर ने मुनि उपदेश से एक मछली को चार बार छोडा, जिससे वह चार आपत्तियो से बचा व मरकर राजपुत्र हुआ । २८१
८. शास्त्रवान का माहात्म्य—खंडलोक के फल से गरुड द्वारा सर्प की मुक्ति व गुरु मानकर जयकार । एकाक्षर दाता को भी गुरु मानने वाले की दुर्मति । २८२
९. मुनि के उपदेश से मन्त्री का श्रावक-व्रत-ग्रहण । मन्त्री के विरुद्ध राजा से शिकायत । राजा का छल से अपने व सभी सामन्तो के कृपाणो का निरीक्षण । २८२
१०. मन्त्री द्वारा परमात्मा का स्मरण कर अपने काष्ठमय कृपाण को देना व उसका सूरहास खड्ग मे परिवर्तित हो जाना । राजा द्वारा पिशुनो की और तीक्ष्ण दृष्टि । सोमश्री द्वारा उनकी बात का समर्थन व अपनी अहिंसात्मक प्रतिज्ञा का निवेदन । २८३
११. सबकी प्रशंसा । देवो द्वारा साधुकार व पुष्पवृष्टि । राजा द्वारा पुत्र को राज्य देकर दीक्षा ग्रहण । सबकी धार्मिक श्रद्धा विष्णुश्री के दृढ़ सम्यक्त्व का यही कारण । २८३

१२. नागश्री की कथा—काशी देश, वाराणसी पुर, जितारि नरेश की मुडिका पुत्री । ऋषभश्री आदिका द्वारा सबोधन से मृतिका खाने का त्याग । अपूर्व सौन्दर्य की प्राप्ति । औडनरेश भवदत्त द्वारा पुरनिरोध । राजा की पलायन की इच्छा, किन्तु मुडिका का अस्वीकार । २८४
१३. पुरोहित द्वारा प्रातिहार्य की भविष्यवाणी । राजा का पलायन । शत्रु का पुर प्रवेश । कन्या का गगाद्रह मे प्रवेश । व्रत-माहात्म्य से रत्नमयी गृह । प्रवेश करते हुए शत्रु का पुरदेवी द्वारा स्तभन । क्षमायाचना । देवी द्वारा पूजा । सबकी धर्मरुचि । मूडिका की दीक्षा । नागश्री की दृढ़ता का यही कारण । २८४

संधि—२७

कडवक

पृष्ठ

- १ पद्मलता की कथा—अग जनपद, चपापुरी, घाडीवाहन राजा, ऋषभदास वणिक्, पद्मश्री पुत्री । दूसरा वणिक् बुद्धदास, पुत्र बुद्धसध । उसके द्वारा पद्मश्री का दर्शन व मोह । माता का प्रश्न । २८६
- २ पद्मश्री से विवाह की आकांक्षा । पिता की चिन्ता । अन्य उपाय न देख श्रावक बनने का प्रपञ्च । २८६
- ३ सहधर्मो होने से दोनो वणिको मे स्नेह । ऋषभदास द्वारा भोजन का निमंत्रण । विवाह का प्रस्ताव । ऋषभदास की स्वीकृति । २८७
- ४ बुद्धसध का पद्मश्री से विवाह । पुन धर्मपरिचर्तन और विवाद । ऋषभदास की मृत्यु । २८७
- ५ बुद्धगुरु का कथन कि ऋषभदास मरकर हरिण हुआ । पद्मश्री द्वारा बौद्ध गुरुओं को निमंत्रण व उनके श्रद्धय ज्ञान की परीक्षा । २८७
- ६ बौद्ध गुरुओं का पराजय । सेठ से शिकायत । पुत्र व पुत्रवधु का निर्वासन । सार्थो से मेल । सविपनिशि भोजन कर सार्थ व बुद्धसध की मृत्यु । २८८
७. प्रात पिता का आगमन व पद्मश्री पर दोषारोपण । बुद्धसध का पुनर्जीवन । २८८
८. सबके द्वारा धर्म की प्रशंसा व श्रावक-व्रत-ग्रहण । पद्मलता के दृढ़ सम्यक्त्व का यही कारण । २८९
९. कनकनता की कथा—अवन्ती देश, उज्जयिनी नगरी, समुद्रदत्त वणिक्, पुत्र उमक । वह व्यसनी । राजा की शिकायत । माता पिता द्वारा निर्वासन । २८९
- १० सार्थवाह पुत्र के साथ कोशाम्बी गमन । भगिनी द्वारा उपेक्षा । मुनि के समीप श्रावक-व्रत तथा अज्ञात फल न खाने का व्रत-ग्रहण । भगिनी द्वारा सम्मान । सार्थ के साथ स्वदेश गमन । वन मे मार्ग अष्ट । २८९
- ११ क्षुधावश सार्थ द्वारा किपाक फल भक्षण व मरण । उमक का अज्ञात फल जानकर निषेध । वनदेवी द्वारा परीक्षा । २९०
१२. देवी द्वारा उमक को फल खाने का प्रलोभन । उमक को निष्ठा से प्रसन्न होकर वरदान । २९०

१३. देवी द्वारा सार्थ का पुनर्जीवन व भागदर्शन । सबका गृहागमन । देवी द्वारा पूजा-सम्मान । राजा सहित उमक का तप-ग्रहण । कनकलता की इसी से सम्यक्त्व-दृढ़ता । २६१

सन्धि २८

कडवक

पृष्ठ

१. बिद्युल्लता की कथा—तरपू जनपद, सूर्य-कौशाम्बी नगरी, सुगंड राजा, विजयारानी । सुरदेव वणिक्पुत्र । वाणिज्य हेतु भगलिदेश गमन व एक विशेष तुरग लाकर राजा को उपहार । मासोपवासी मुनि का आगमन । आहारदान । उसी नगर के सागरदत्त सेठ का पुत्र समुद्रदत्त । २६२
२. अश्व प्राप्ति के लिये दो मित्रों सहित भगलिदेश गमन । तीन वर्ष परचात् पलाशघाम में मिलने की सम्मति । अशोक नामक गृहस्थ के घोड़ों की रक्षा के लिये सेवा स्वीकार । अशोक की पुत्री कमलश्री । २६२
३. कमलश्री का सागरदत्त से स्नेह । सेवावधि की समाप्ति पर सागरदत्त के गमन का विचार । कमलश्री की साथ जाने की इच्छा । वणिक् द्वारा निवारण । २६३
४. दोनों में विवाद । कन्या का अप्रह । वणिक् द्वारा स्वीकृति । कन्या द्वारा जलगामी व आकाशगामी दो दुर्बल तुरंगों की याचना का संकेत । २६३
५. दोनों अश्वों के लक्षण । गमन के समय सागरदत्त द्वारा उन्हीं का चुनाव । अश्वस्वामी की चिन्ता । अन्य अश्व चुनने की सलाह । २६३
६. स्वामी द्वारा भेद खोलने वाले की खोज । किसी ने कन्या को दोषी बतला दिया । अन्तत दोनों का विवाह व अश्वदान । २६४
७. नाव द्वारा गमन । नाविक द्वारा एक तुरग की माग । अस्वीकार । पुन उसी तीर पर अश्वतरण । आकाशगामी अश्व द्वारा आगमन । जलगामी अश्व का भी ध्यान । २६४
८. राजा को आकाशगामी अश्व की भेंट । बदले में आषा राज्य तथा राजकुमारी अनश्वेना की प्राप्ति । राजा द्वारा सेठ ऋषभसेन को उसका भेंट किया हुआ अश्व पालनार्थ अर्पण । उस पर बैठकर सेठ की तीर्थ वदना । प्रत्यन्त निवासी जितशत्रु । छली चरत । २६५
९. उसकी उस अश्व को पाने की इच्छा । कोडु नामक सहस्रभट द्वारा ब्रह्मचारी-वेष में जाकर अश्व का अपहरण । २६५
१०. अश्व द्वारा चौर का पात । चौर की मृत्यु । अश्व का सिद्धकूट जिनभवन को गमन । चित्तगतित व मनोगति चारण मुनियों द्वारा विद्याधर को अश्व का वृत्तान्त वर्णन । विद्याधर द्वारा तीन थपकी देने से अश्व का सूर्य-कौशाम्बी प्रत्यागमन । इधर सेठ का अनशन । २६६
११. अश्व के लोप से राजा का कोप । सेठ को प्राणदंड । पुरदेवी द्वारा रक्षण । अश्व की आकर प्रदक्षिणा । देवों द्वारा पुष्पवृष्टि आदि । राजा व सेठ आदि का तपग्रहण । इसी से बिद्युल्लता की दृढ़ता । २६६

१२. अर्हदास वणिक् व भार्याओं का संतोष । किन्तु कुन्दलता की अप्रतीति । राजा द्वारा कल उसका निग्रह करने का विचार । गृहगमन व प्रातः वणिक् के घर पुनरागमन, रात्रि वृत्तान्त कथन तथा कुन्दलता के श्रविषवास के विषय में प्रश्न । २६७
१३. कुन्दलता का स्पष्टीकरण । धर्म का ऐसा माहात्म्य देख सुनकर भी इन्होंने तप क्यों नहीं ग्रहण किया । इसी से उसकी अश्रद्धा स्वयं जिनधर्मों न होने पर भी उनका वृत्तान्त सुनकर जैनदीक्षा लेने की प्रतिज्ञा । राजा व समस्त सभा की अनुमति व प्रशंसा । २६७
१४. उदितोदित राजा, सुबुद्धि मंत्री, सुवर्णखुर चोर व अन्य अनेकों की जिन-दीक्षा । मित्रश्री आदि सेठानियों आर्थिकाये हुई । सबका धर्म प्रचार व स्वर्गरोहण । २६७

संधि-२९

कडवक

पृष्ठ

१. जीव हिंसा के दुष्परिणाम पर खेलक-कथा । नासिक नगर की पश्चिम दिशा में कोकण देश, पलाश ग्राम । ग्राम प्रमुख सुदाम, पुत्र वसुदाम । विशाल तालाब व तट पर उद्यान व उसके बीच दुर्गादेवी के मंदिर का निर्माण । वार्षिक उत्सव, रथयात्रा, सुदाम को क्षयव्याधिज्वर । मरणामन्न पुत्र को भोजन व देवी की छमाही रथयात्रा का आदेश । २६६
२. सुदाम की मृत्यु व खेलक के रूप में पुनर्जन्म । देवी को उसका बलिदान सात बार । आठवीं बार मुनि दर्शन से बकरे को जाति स्मरण । मुनि का वसुदाम को यथार्थ कथन । २६६
३. मुनि कथन में वसुदाम का सशय । मुनि द्वारा जीवहिंसा से अघर्म और उसके दुष्परिणाम का कथन । ३००
४. वसुदाम द्वारा सत्य की कसौटी—यदि वह अपना गुप्त धन बता सके । बकरे ने वैसा ही किया । वसुदाम का विश्वास और पश्चात्ताप तथा दीक्षा-ग्रहण । लोगो ने भी महाव्रत या अणुव्रत लिये । खेलक ने भी श्रावक-व्रत लेकर स्वर्ग प्राप्त किया । ३०१
५. जीवदया आत्मदया का रूप । मृगसेन धीवर की कथा । अश्वंती देश, शिष्य ग्राम, शिप्रानदी पर मृगसेन धीवर । यशोधर मुनि का आगमन । धीवर की वन्दना व व्रत-याचना । मुनि की अनिच्छा । ३०१
६. धीवर द्वारा प्रथम जाल में फली मछली को छोड़ने की प्रतिज्ञा । शिप्रा में एक ही मछली पाच बार पकड़ी और छोड़ी । रिक्त लोटने पर गृहिणी से प्रश्नोत्तर । ३०१
७. गृहिणी का रोष व गृह से निर्वासन । एक सून्य गृह में रात्रि निवास । भुजंग दश से मृत्यु । उज्जयिनी में गुणपाल सेठ की धनकीर्ति कन्या । ३०२
८. राजा द्वारा कन्या की याचना । सेठ का अस्वीकार । धन श्रद्धित वणिक् के पास रख, कन्या को ले विदेश गमन । इधर श्रद्धित के यहाँ गुणपाल के पुत्र का जन्म । उसी के गृह स्वामी बनने की मुनि द्वारा भविष्यवाणी । ३०२

६. श्रीदत्त की चिन्ता । मारने के लिये चांडाल को अर्पण । उसके द्वारा रक्षण । दूसरी बार मरवाने का प्रयत्न । गोविन्द गोपाल द्वारा पालन । यौवन । ३०३
१०. श्रीदत्त की शंका । गोपाल द्वारा यथायं कथन । सेठ द्वारा लेख सहित प्रेषण । पुर के समीप नन्दन वन में सोने पर वसन्तसेना गणिका द्वारा पत्र में विस (विष) के स्थान पर विसा (विषवा-वर्णिककन्या) सशोधन । ३०३
११. सेठ के पुत्र ने पत्र पढ़कर अपनी बहिन विषवा से विवाह किया । सेठ की लौटाने पर निराशा । सध्या समय नागदेव के देवालय में पूजानिमित्त प्रेषण व मरवाने का उपाय । ३०३
१२. पुत्र का उसका अपरिचित नगर में अकेला जाना उचित न समझ स्वयं पूजा सामग्री लेकर गमन व नियोजित चांडाल द्वारा वध । सेठ का दुख व पुन. मारने के लिए गृहिणी से आग्रह । ३०४
१३. गृहिणी द्वारा विष मोदक पृथी को देकर जामाता को खिलाने का आदेश । सेठ के क्षुधातुर आने पर उसे ही विष के लड्डुओं का आहार । सेठ का मरण । सेठानी का भी विष खाकर पति का अनुगमन । जामाता की श्रेष्ठा-पद-प्राप्ति । ३०४
१४. वसुदत्त नरेन्द्र द्वारा सद्गुणी जानकर आधाराज्य व राजकन्या का दान । जयकेतु ऋषि का आगमन । आहारदान । पूर्वभव श्रवण । धीवर का पर्याय न पाँच बार मछली की रक्षा करने से उसका पाच बार द्वापत्ति से बचकर वह वैभव । सोमदत्त का वैराग्य, तप व स्वर्गप्राप्ति । ३०५

सधि--३०

[एक जीव के मारने से अनेक बार वध पर यशोधर के कथानक की सूचना सुप्रसिद्ध होने से अलिखित ।]

- कडवक पृष्ठ
१. जीवदया का फल । यमपाश चांडाल की कथा । काशीदश, चाराणसी पुरी, पाकशासन नरेन्द्र, जयदड कोट्टपाल, जमपाश चांडाल, नगर में घ्याधियो उपद्रव । शान्ति कर्म । आठ दिन हिंसा का निषेध । नियम भंग करने से प्राणदंड । ३०६
२. नगर में घर-घर पर धर्मोत्सव । धर्मनामक वर्णिक द्वारा नियम भंग जानकर राजा का क्रोध । आठ दिन पश्चात् वध का आदेश । अमृताश्रव मुनि का आगमन । ३०७
३. मुनि के महात्म्य से व्यंतर की बाधा समाप्त । यमपाश ने भी चतुर्दशी को अहिंसा व्रत किया । उस दिन छिपकर रहा । भट का उसकी खोज में आगमन । गृहिणी द्वारा अन्य ग्राम जाने का बहाना । ३०७
४. भट ने आज मारे जाने वाले के अनेक आभूषण चांडाल को मिलने का प्रलोभन दिया । पत्नी द्वारा उसके घर में होने का संकत । चांडाल द्वारा चतुर्दशी व्रत का निवेदन । ३०७

५. राजा का रोष । बांधकर सुसुमार द्रह मे डालने का आदेश । चांडाल की व्रत में दृढ़ता । ३०८
६. द्रह मे फेंके जाने पर धर्म की सहायता । सिंहासन व देवों द्वारा पूजा । व्रत छुड़ाने वाले राजा की भूत पिशाचों द्वारा पिटाई व नगर भ्रमण । राजा द्वारा बाहि-बाहि की पुकार । ३०८
७. चांडाल द्वारा कुल-स्वामी कहकर राजा की मुक्ति । राजा द्वारा उसका राज-कुमारी से विवाह व अर्ध राज्य का दान । सबकी धर्म मे श्रद्धा । ३०९
८. सत्यव्रत का फल—मातंग कथा । भरत क्षेत्र, दक्षिणापथ, मलयखंड मातंग दुर्ग, शबर देश । वहां विवाहकाल मे छह मास ब्रह्मचर्य रचकर विद्यासाधन की व्यवस्था । सत्यता से व्रतपालन का महात्म्य । ३०९
९. असत्य का दुष्परिणाम । वासुराजकी कथा । विनीता देश अशोष्या नगर, विश्वावसु राजा, वसु राजपुत्र, क्षीरकदम्ब गुरु । पुत्र पर्वत, अन्य शिष्य नारद । तीनों का विद्याध्ययन । ३१०
१०. पर्वता की जडता । गुरु और गुरुपत्नी मे विवाद । ३१०
११. गुरु द्वारा तीनों की परीक्षा । कीडियों के चने लेकर खाओ और कीडिया वापिस लाओ । पर्वत चने खाकर भ्रा गया । वसु और नारद कुछ चने खाकर, उन्हें बुरे कह कौड़ी वापिस ले आये । पत्नी का व्यानाकर्षण । ३११
१२. दूसरी परीक्षा । कौड़ी भी वापिस लाओ और बड़े भी घी से भर लाओ । पर्वत की असफलता व वसु-नारद की सफलता । तीसरी परीक्षा । जहा कोई न देखे, वहा बकरे के कान काटकर लाओ । पर्वत कान काटकर ले आया । वसु और नारद ने ऐसा नहीं किया । ३११
१३. उन्होंने गुरु को कहा ऐसा कोई स्थान उन्हे न मिला जहा सूर्य, चन्द्र आदि कोई भी देव न रहे हो । गुरु द्वारा प्रशंसा । गुरुपत्नी को भी भरोसा हुआ । बृहदारण्यक का अध्यापन । दौ चारण मुनियों का आगमन । ३११
१४. शिवभद्र और वीरभद्र का अपने अपने धर्म का समर्थन । वीरभद्र की भविष्य-वाणी कि उनमें से एक नरक जायगा । ३१२
१५. गुरु की उक्त वाणी सुनकर तपग्रहण । गुरुपत्नी द्वारा शिष्यों को खोज मे प्रेषण । पर्वत द्वारा गुरु का निर्ग्रन्थ रूप मे दर्शन । ३१३
१६. गुरु का परिधान, पनही व यज्ञोपवीत लाकर माता को प्रदर्शन । पर्वत को आचार्य पद प्राप्ति । विश्वावसु राजा का भी तप-ग्रहण वसु का राज्याभिषेक । ३१३
१७. वसु का गुरुपत्नी को वरदान । पुलिंद द्वारा स्फटिक शिला की प्राप्ति व राजा को भेंट । वसु द्वारा उसकी राज सिंहासन के नीचे स्थापना । सिंहासन अन्तरिक्ष मे स्थापित समान । ३१३
१८. वसु की 'उपरिचर' उपाधि । नारद का पर्वत से अज्ञ के अर्थ पर विवाद—खेलक या यवब्रीहि ? नारद द्वारा गुरुपदेश से दूसरे अर्थ की पुष्टि । ३१४
१९. दोनों मे कलह । असत्य होने पर अपनी अपनी जीभ कटा डालने की प्रतिज्ञा । वसु मध्यस्थ । पर्वत की चिन्ता । माता द्वारा नारद के मत की पुष्टि । ३१४

२०. माता का वसु के पास गमन, वरदान याचना और पर्वत के पक्ष में निर्णय का वचन लेना । ३१५
२१. वसु का असत्य जानते हुए भी पर्वत के पक्ष में निर्णय । सिंहासन से वसु का पतन । पुनः असत्य का समर्थन व भूमि प्रवेश । तीसरी बार असत्य भाषण से मरण और नरक-प्रवेश । ३१५

संधि—३१

कडवक

पृष्ठ

१. पर्वत का निर्वासन । हस्तिनापुर के राजा सुयोधन वा रानी अतिथि की पुत्री सुलसा का बाग्दान पोदन के सुपिंग नरेश के राजपुत्र मधुपिंगल को । ३१७
२. भयोध्या के राजा वसुराय के पुत्र सागर का सुलसा पर मोहित होना व इसके लिये मंत्री द्वारा जाली सामुद्रिक शास्त्र रचकर परित्नाजिका द्वारा सुलसा के प्रागे पढ़ा जाना । ३१७
३. पुरुष के शुभ लक्षण-सगर सद्श । ३१८
४. पुरुष के अशुभ लक्षण-मधुपिंगल सद्श । ३१८
५. परित्नाजिका द्वारा सगर की प्रशसा, सुलसा का मोह और स्वयवर का सुभाव । ३१९
६. सुलसा का स्वयवर और सगर के गले में वरमाला । ३१९
७. सुलसा का विवाह और मधुपिंगल का वैराग्य । एक बार पारणा के लिये भयोध्या में सागरदत्त श्रेष्ठी के महा भ्राना, विप्र द्वारा उनके लक्षण देखकर अपने सामुद्रिक शास्त्र को जला डालने का विचार, तथा सेठानी द्वारा पूर्व वृत्तान्त निवेदन । ३२०
८. वृत्तान्त सुनकर मधुपिंगल मुनि का क्रोध व निदानवश असुर जन्म तथा ब्रह्मा का रूप धारण कर पर्वत से मेल । ३२०
९. ब्रह्मरूप धारी असुर का अजयन्त से छाग-बलि के अर्थ का समर्थन व सगर के समीप आगमन । ३२०
१०. यज्ञविधान और सगर सहित सबकी अपनी अपनी आहूति । इस प्रकार बदला लेकर असुर का गमन । ३२१

संधि—३२

कडवक

पृष्ठ

१. घनहानि से व्याकुल और घन के मेल से स्वस्थ होने वाले समुद्रवत् बणिक् का दृष्टांत । ३२३
२. परद्रभ्यहारी श्रीभूति का आख्यान । जम्बूदीप, पश्चिम विदेह, गंधमाल विषय, बौतशोक नगर का राजा वैजयन्त और रानी सत्यवती । पुत्र संजयन्त और जयन्त । स्वयंभू तीर्थंकर का आगमन और वैजयन्त नरेश की पुत्रों सहित दीक्षा । वैजयन्त के केवली होने पर धरणेन्द्र का आगमन और उसके रूप से मोहित होकर जयन्त का निदान-बंध और मरकर धरणेन्द्र उत्पत्ति । ३२३

३. मनोहरपुर के श्मशान में संजयन्त मुनि पर उनके पूर्व बैरी विद्युद्भट्ट विद्याधर द्वारा उपसर्ग । ३२३
४. रक्षा-निमित्त पूर्वभव के भ्राता जयन्त धरणेन्द्र का आगम और विद्याधर का दमन, तथा सूरप्रभ देव द्वारा समाधान व पूर्वभव वर्णन । सिंहपुर के राजा सिंहसेन, रानी रामदत्ता, पुरोहित श्रीभूति जो सत्य के लिये प्रसिद्ध था । उसकी श्रीदत्ता पत्नी । पद्मिनीपुर के वणिक् भद्रमित्र का आगमन । ३२४
५. भद्रमित्र द्वारा पांच रत्नों की श्रीभूति के पास धरोहर । किन्तु मांगने पर अस्वीकार । राजा के भी न्याय में विमुख होने पर वणिक् पागल हो गया । ३२४
६. उसकी राजप्रासाद के समीप वृक्ष पर चढ़कर श्रीभूति द्वारा रत्नों के हड़प जाने की पुकार । रानी रामदत्ता का उस और राजा का ध्यान आकर्षण । ३२४
७. रानी द्वारा श्रीभूति के साथ द्यूतक्रीड़ा व उसके घर धर्मज्ञान भेजकर, उन रत्नों की प्राप्ति । ३२५
८. अन्य रत्नों में मिलाकर भद्रमित्र द्वारा रत्नों की पहिचान व श्रीभूति को दण्ड । ३२५
९. श्रीभूति का सर्वस्वहरण व मरण । राजा के भाण्डागार में अगंधन नाग का जन्म । राजा द्वारा भद्रमित्र की राजश्रेष्ठि-पद पर तथा धम्मिल्ल की पुरोहित पद पर प्रतिष्ठा । वरधर्म मुनि का आगमन व राजा द्वारा श्रावक व्रतो का ग्रहण । ३२५
१०. वरधर्म मुनि का अपनी ही पूर्वजन्म की माता व्याघ्री द्वारा भक्षण व रामदत्ता रानी के सिंहचन्द्र पुत्र के रूप में जन्म । दूसरा पुत्र पूर्णचन्द्र । राजा सिंहसेन का भाण्डागार में उस नाग के द्वारा दर्शन । गार्हिक का मंत्र प्रयोग । ३२६
११. मंत्र के प्रभाव से व विष खींचने की अस्वीकृति के कारण अगंधन नाग का अग्नि में विनाश व कालवन में चमर भृगु का जन्म । राजा का हाथी का जन्म व धम्मिल्ल पुरोहित का बन्दर का जन्म । सिंहचन्द्र राजा व पूर्णचन्द्र युवराज । पोदनपुर का राजा पूर्णचन्द्र । ३२६
१२. भद्रबाहु मुनि से पूर्णचन्द्र व रानी हिरण्यवती की दीक्षा । दत्तवती गार्हिका सहित महामुनि पूर्णचन्द्र का दर्शन व रामदत्ता के विषय में प्रश्न । उसके विधवा होने का समाचार । जाकर रामदत्ता को संबोधन । ३२७
१३. रानी रामदत्ता की दीक्षा । भद्रबाहु मुनि का आगमन व सिंहसेन के पुत्र सिंहचन्द्र का तप-ग्रहण । पूर्णचन्द्र राजा । सिंहचन्द्र दिव्यज्ञानी चारण मुनि । पूर्णचन्द्र राजा का मिथ्यात्व । जननी रामदत्ता को सिंहचन्द्रमुनि का दर्शन व प्रशसन । भवान्तर कहने की प्रार्थना । ३२७
१४. कौशल विषय, वर्षकी भ्राम, मृगायन भट्ट । मृत्यु पश्चात् अयोध्या के राजा अतिबल की व रानी श्रीमती की पुत्री हिरण्यमती, जिसका पोदनपुर के राजा पूर्णचन्द्र से विवाह व पूर्वजन्म की मधुरा का रामदत्ता के रूप में जन्म । रामदत्ता से पूर्वजन्म की मृगायन की पुत्री बाहणी का पूर्णचन्द्र रूप में जन्म । उक्त रत्नों के स्वामी भद्रमित्र का स्वयं मुनि सिंहचन्द्र के रूप में जन्म । राजा का हस्ती के रूप में जन्म व उपदेश से श्रावक-व्रत ग्रहण । ३२७

१५. राजा सिंहेन को श्रीभूति ने नाग होकर डसा और स्वयं तिर्यंच योनि में चमर मृग हुआ। हस्ती को कुक्कुट सर्प ने मारा और वह श्रीधर देव हुआ। धर्मिल्ल पुरोहित मरकर वानर हुआ और उसने कुक्कुट सर्प को मारा जो नरक गया। शृगाल भिल्ल ने उक्त हाथी के दांत और मोती वणिक् को और उसने पूर्णचन्द्र राजा को दिये, जिसने उनका मंच और हार बनवाये। ३२८
१६. यह वृत्तान्त सुनकर रामदत्ता सिंहपुर गई और पुत्र को सबोधन किया। उसने श्रावकव्रत लिये। यथासमय मरण को प्राप्त हो सहस्रार स्वर्ग में सुन्दरदत्त नामक देव हुआ। रामदत्ता वही सूर्यप्रभ नामक देव हुई एवं सिंहचन्द्र उपरिम प्रवेयक में ग्रहमेन्द्र हुआ।
जवूदीप, भरतक्षेत्र, बैताद्वयगिरि की दक्षिण क्षेपी में तिलक नगर। ३२९
१७. वहाँ के विद्याधरेन्द्र अतिबल, पत्नी सुलक्षणा के वह सूर्यप्रभ देव श्रीधर तनया के रूप में उत्पन्न हुआ। उसका विवाह अलकापुर नरेश सुदर्शन से हुआ। सुन्दर-दत्त देव उसकी यशोधरा पुत्री हुई जिसका विवाह प्रभासपुर के सूर्यावर्त विद्याधर से हुआ। उसके गर्भ से श्रीधर नामक देव रश्मिवेग नामक पुत्र हुआ। उसे राज्य दे सूर्यावर्त मुनिचन्द्र से दीक्षित हुआ। ३२९
१८. श्रीधरा और यशोधरा द्वारा तप-ग्रहण (रश्मिवेग की सिद्धकृत में हरिश्चन्द्रमुनि का दर्शन और प्रब्रज्या। उक्त आर्याभो का उसकी वन्दना के लिए काचन गुफा गमन। वहाँ उस कुक्कुट, सर्प, अजगर द्वारा उन तीनों का दर्शन, मरण व कापिष्ठ स्वर्ग आरोहण। अजगर पकप्रभ नरक गया और सिंहचन्द्र ग्रहमेन्द्र हुआ। ३२९
१९. चक्रवृती के राजा अर्पराजित, रानी सुन्दरी, पुत्र चक्रायुध, पत्नी चित्रमाला। सिंहसेन का जीव जो हाथी, फिर श्रीधर देव फिर, रश्मिवेग और फिर सूर्य-प्रभदेव हुआ था, यह आकर चक्रायुध और चित्रमाला का पुत्र वज्रायुध हुआ। तथा जो श्रीधरा कापिष्ठ स्वर्ग गई थी, वह पृथ्वीतिसक के प्रतिवेग राजा और प्रियंकर रानी की पुत्री रत्नमाला हुई। उसका विवाह वज्रायुध से हुआ। ३२९
२०. यशोधरा का जीव स्वर्ग से आकर वज्रायुध और रत्नमाला का पुत्र रत्नायुध हुआ। वज्रायुध को राज्य देकर चक्रायुध मुनि हों मोक्ष गया। रत्नायुध को राज्य दे वज्रायुध भी मुनि हुआ। रत्नायुध का राजहस्ती जाति-स्मरण कर खानपान छोड़ बैठा। राजा ने चितित हो वज्रदन्त मुनि से कारण पूछा। मुनि द्वारा पूर्वभवकथन-चित्रकार पुरी का राजा प्रीतिभद्र, रानी सुन्दरी, पुत्र प्रीतिकर जो मन्त्रिसूत चित्रमति सहित मुनि हुआ। ३३०
२१. दोनों मुनि विहार करते साकेत आये। वहाँ बुद्धिसेना गणिका पर मोहित हो चित्रमति रसोद्भवा हो गया। उसने मांस रस खिलाकर राजा को प्रसन्न किया तथा उस वैश्या से और धन पाया। वह मरकर तमःतम नरक गया व संसार में भ्रमण कर तेरा हाथी हुआ। हमको देख उसे जाति स्मरण हो आया व उससे पापों का का परित्याग किया। सुनकर रत्नायुध श्रावक हुआ। जो अजगर पकप्रभ नरक गया था, वह 'अतिदारुण' नामक सबर हुआ। ३३०

- २२ उस व्याघ्र ने वज्रायुध मुनि को प्रतिमायोग में देख बाण से वध किया। मुनि सर्वाशंसिद्धि गये। व्याघ्र तम.तम नरक गया। रत्नायुध और मणिमाला श्रावक-व्रत के फल से अच्युत कल्प में देव हुए और फिर घातकी खंड द्वीप के पूर्व मेरु, अपरविदेह, गधिल विषय, अयोध्यापुरी में अरुहदास राजा और सुव्रता और जिनदत्त रानियाँ हुईं। उनके पुत्र वीतभय और विभीषण हुए, जो क्रमशः बलदेव और नारायण हुए। ३३०
२३. उनका चिरकाल राज्य, फिर स्वर्ग और नरक गमन। विभीषण का जन्म जम्बूद्वीप, पश्चिम विदेह, गंधमालिनि देश, वैतादध पर्वत, श्रीपुरी में श्रीधर विद्याधर और श्रीदत्ता देवी के पुत्र के रूप में, नाम श्रीदाम। विद्या साधते हुए भ्राता बलदेव ने देखा, सबोधन किया, जैनधर्म में स्थापित, पंचम स्वर्ग में देव। इसी बीच वह मर्पं तम तमा नरक से निकल पुनः सर्प, पुनः नागकी हुआ। ३३१
- २४ पुन पुनः तिर्यक और नरक गतियों में भ्रमण कर वह भरतक्षेत्र, हेरावती नदी के तट पर भूताटवी में खडमालि तापस और कनककेशी का पुत्र मृगश्रग (मृगाशन) मिथ्यात्वी पचाग्नि तपस्वी हुआ। चन्दाभ विमान को देख उसने निदान किया और मरकर नभवल्लभ नगर में वज्रदाड और विद्युत्प्रभा का पुत्र विद्युदाड हुआ। वह विमान द्वारा क्रीडा को निकला। इसी समय वज्रायुध का जीव सर्वाशंसिद्धि से च्युत होकर— ३३१
२५. वीतशोक नगर में सजयन्त हुआ। उसे प्रतिमायोग में स्थित देख विद्युदाड कुपित हो उपसर्ग करने लगा। उसे सहकर सजयन्त मोक्ष गया। यही वह सिंहपुर का राजा सजयन्त है, और यह है वह श्रीभूति। वही पुराना बैरी श्रीदाम जयन्त हुआ और तू वह भुजंगराज व पूर्णचन्द्र और मैं हूँ वह रामदत्ता का जीव सातवेन्द्र। यह सुन धरणेन्द्र शान्त हुआ। ३३२
- २६ श्रीमत पर्वत पर जो सजयन्त की प्रतिमा है। उसके सम्मुख विद्याओं की सिद्धि। धरणेन्द्र यह कहकर अपने स्थान को गया। मथुरा के राजा अनन्तवीर्य और रानी धनमाला देवी के वे पूर्व जन्म के दोनो भाई पुन. भ्राता राजकुमार हुए और विमलनाथ गणधर के समीप केवली होकर मोक्ष गये। ३३२
- परद्रव्यापहरण के पाप से श्रीभूति अब भी ससार के नाना दुःख भोग रहा है। ३३२

संधि-३३

कडवक

पृष्ठ

१. विषयासक्ति का दुष्परिणाम—शिव शर्मा (वारत्रक) का अस्थान। अहिच्छत्र-पुर। शिवभूति विप्र। सोमशर्मा और शिवशर्मा पुत्र। पढने में मन न लगाने से पिता द्वारा वरत्रा (कोड़े) से पीटे जाने के कारण लघु पुत्र का प्रसिद्ध नाम वारत्रक। उसका पांडित्य व उक्त नाम से अर्द्धि। निर्णय होना। जल

- मे स्वप्रतिबिम्ब भ्रवलोकन से गुरु की भविष्यवाणी । महिला के निमित्त से मृत्यु । स्त्री रहित स्थान में तप करने का विचार । ३३३
२. निर्जन वन में तपस्या । वनदेवियों द्वारा आहारदान । साथी के साथ गंगदेव नट व उसकी पुत्री मदनवेगा का प्रागमन । देखकर मुनि का अनुराग । ३३३
३. नदी से मुनि का विवाह । अहिच्छत्रपुर प्रागमन । गुरु की शिष्यों द्वारा निन्दा व सुधारने का प्रयत्न । मुनि का आग्रह । राजगृह गमन । राजा श्रेणिक के सम्मुख नाट्य प्रदर्शन । ३३४
४. विद्याधर युगल का दर्शन व पूर्वभव-स्मरण । विद्याधर के रूप में लक्ष्म्या विद्याधरी पर आसक्ति । विद्या-सिद्धि की मर्यादा । ३३४
५. मर्यादा पूर्ति पर विवाह । तपग्रहण । स्वर्गगमन व शिवभूति-पुत्र के रूप में जन्म । लक्ष्म्या का पुनर्जन्म मदनवेगा के रूप में । नाट्य का त्याग । विद्याभों की पुन. प्राप्ति । सबका विस्मय । तप । बराड विषय की वेत्नातटपुरी में जाकर मोक्ष । ३३५
६. महिलासक्ति के दोष पर गौरसंदीप मुनि की कथा । भरत क्षेत्र, कुसाल जनपद श्रीवस्तीपुरी, द्वीपायन राजा । वसत ऋतु । वनक्रीडा । राजा द्वारा भ्रात्रवृक्ष की मजरी का कर्णवितस । सभी का अनुकरण । वृक्ष का आमूल विनाश । ३३५
७. राजा द्वारा क्षणभंगुरता का बोध । पुत्र को राज्य देकर तप-ग्रहण । गुरुसंघ सहित उज्जयिनी गमन । मुनिगिरि के शिखर पर गुफा में एकांतवास । सध में आचार्य की उस दिन नगर में जाने वाले के महाव्रत भंग की भविष्यवाणी । ३३६
८. गुरु वाणी को न जानने हुए द्वीपायन मुनि का भिक्षार्थ नगर-प्रवेश । अन्त.पुर में तनुसुन्दरी विलासिनी की ईर्ष्या से रानी द्वारा अगुण्ट छेदन । धाव में पीव । राजा की उससे विरक्ति । ३३६
९. तनुसुन्दरी का निष्कामन व अगुण्ट पर मुवर्णखोल चढाकर वेश्यावाटक में निवास । राजा द्वारा परिखा निर्माण का कार्य । द्वीपायन मुनि का श्रमदान निमित्त भ्रवरोध । तनुसुन्दरी के घर आहार । जलवाहिनी विद्या के बल से परिखा में अथाह जल । मुनि द्वारा अपने निवास में शिलातल पर तनुसुन्दरी का चित्र लेखन । ३३७
१०. परिखा के जल से नगर में पूर । राजा की मुनि से प्रार्थना । तनुसुन्दरी का वचन मुनि को मान्य । राजा द्वारा उसका अर्पण । द्वीपायन के पुत्र द्वारा नगर निरोध । मुनि द्वारा निवारण । ३३७
११. तनुसुन्दरी को मुनि को प्रसन्न रखने का राजादेश । राजा द्वारा रत्न जटित उपानहों की भेट । तनुसुन्दरी को पहनाते समय पके अंगुठे को देख मुनि की विरक्ति । ३३८
१२. मुनि का पश्चाताप । विमलचन्द्र मुनि से पुनः तपग्रहण । किन्तु तनुसुन्दरी का पुनः संस्मरण । गुरु का संबोधन । तथापि मोह का प्रभाव । उधर तनुसुन्दरी द्वारा राजा के रोष के भय से आत्मघात । ३३८

१३. उस सुन्दरी के रूप का मुनि द्वारा नख-शिख संस्मरण । ३३६
१४. नखशिख संस्मरण चावू । ३३६
१५. संस्मरण से पुनः दर्शन की इच्छा । उसका मन जानकर गुरु द्वारा श्मशान में आनयन । दुर्गन्ध से व्याकुलता । गुरु से असह्य दुर्गन्ध का निवेदन । ३४०
१६. गुरु द्वारा सुन्दरी के मृत घृणित शरीर का साक्षात् दर्शन । देखकर विरक्ति व चरित्र में दृढ़ता । गौरसंदीप नाम का भ्रजन । केवल ज्ञानोत्पत्ति । मोक्ष । ३४०

संधि—३४

कडवक

पृष्ठ

१. काम के वशीभूत होने से आपत्ति पर कडारपिग की कथा । काम्पित्य नगर । नरसिंह राजा, सुमति मंत्री का कडारपिग पुत्र । राजा का प्रिय । व्यभिचारी । धनदत्त वणिक् की भार्या प्रियंगुश्री पर कुदृष्टि । ३४२
२. पिता से निवेदन । पिता का राजा से । धनदत्त सेठ को प्रजा सुख हेतु किजल्क पक्षी लाने सुवर्णद्वीप भेजने की योजना । राजादेश । ३४९
३. सेठ की भार्या से मंत्रणा । भार्या ने कारण समझ सेठ को बतलाया । सेठ का सार्ध सहित प्रस्थान व कुछ दूर जाकर गुप्त रूप से गृहागमन । रात्रि में कडारपिग का आगमन । ३४३
४. सेठानी द्वारा स्वागत व गृहकूप में पात । सेठ का पुनरागमन । कडारपिग को निकालकर चचू, पक्ष व पूछ लगाकर राजसभा में प्रदर्शन । स्वर से राजा द्वारा पहिचान । सेठ द्वारा वृत्तान्त कथन । राजा द्वारा निर्वासन । मरकर नरक गमन । ३४३
५. युवतियों के निमित्त अनेक युद्धों के लिये महाभारत धीर रामायण का उल्लेख । स्त्री के दुर्गुण । ३४३
६. नारी के दोष । भामा, रामा, वधू, वनिता, नारी, रमणी और प्रमदा सजाओ की साधकता । ३४४
७. दयिता, योषा, दारा, कुमारी, अबला, वधूटी, कामिनी, विलया, भार्या, कान्ता, बाला, बल्लभा, स्त्री, प्रियाली धीर महेली शब्दों की दोष सूचक व्युत्पत्ति । ३४४
८. नारी दोष पर देवरति की कथा । विनीता देश, भयोध्यानगरी, देवरति राजा । मित्रमती में अनुरक्त । शत्रु का आक्रमण । मंत्री के वचन की उपेक्षा । प्रजा द्वारा निस्सारण व पुत्र का राज्यारोहण । मित्रमती सहित वनगमन । जल के अभाव में प्रिया की वृषा-शान्ति हेतु शरीर से शोणित का औषधि द्वारा जल में परिवर्तन । ३४५
९. देवरति का श्रीपुर-गमन । लोगो द्वारा सम्मान व निवास । समीप ही वापीगृह में किन्नररति नामक लगड़े गायक का निवास । मित्रमती की उस पर आसक्ति । वर्षगाठ उत्सव के बहाने पति को बाधकर यमुनाद्रह में पात । पगुल के साथ निवास । ३४५
१०. मछलियों द्वारा देवरति के बन्धनों का कर्तन । मंगलपुर में वृक्ष तले विश्राम । राजा श्रीवर्धन की मृत्यु । पुत्र के अभाव में हाथी का विसर्जन । देवरति का

- अभिषेक । स्त्रियों से अरुचि । जयसेन नाम से उसके दान की ख्याति मित्रमती के कानो पहुँची । ३४५
११. धन प्राप्ति निमित्त मित्रमती का पंगुल को कंधे पर बिठाकर गमन । पति-भक्ति देख सभी की श्रद्धा । ३४५
१२. नगर में उनकी गायनकला की ख्याति । राजसभा में गमन । राजा का आशीर्वाद के स्वर से मित्रमती को पहिचानकर पुरानी बातों के स्मरण सहित उसको साधुवाद । उसे धन देकर राजा की प्रश्रय्या । ३४६
१३. नारी के कपट पर सिंहबल नृप की कथा । पृथ्वीपुर का राजा गोविन्द, महाबल पाइक । गोमती पुत्री पलासकूट के पटेल सिंहबल को विवाहित । दोनों में कलह । सिंहबल का ग्रामान्तर गमन व हरिषेण की पुत्री सुभद्रा से विवाह । गोमती सुनकर रात्रि को सौत का सिर काट लायी । ३४६
१४. मार्ग में विघ्न भय से बट वृक्षारोहण । चोरो को डराकर धन प्राप्ति । घर आकर तेल में सिर को तलकर रखना । विशोभ सहित पति का आगमन । भोजन घाल में सिर को परोसना । पति का भय । भाले से पति का वध ।
१५. पतिघात पर वीरवती की कथा । राजगृह, धनमित्र सेठ का पुत्र दत्त । निकटवर्ती ग्राम के वणिक् की पुत्री वीरवती से विवाह । वधू पति से विरक्त, अमारक चोर से अनुरक्त । चोर को झूली । वीरवती का उसके ममीप गमन । दत्त के मित्र सुषेण द्वारा छिपकर दशन ।
१६. चोर की इच्छानुसार पत्थरो के ढेर पर चढ़कर आलिंगन । चोर द्वारा श्रोष्ठकतन । पत्थरो के विघटन से वीरवती का पतन । घर आकर कोलाहल व पति पर दोषारोपण । राजा द्वारा प्राणदण्ड । सुषेण के साक्ष्य से रक्षा । खडित श्रोष्ठ का चोर के मुख में प्रदर्शन ।

संधि—३५

कडवक

पृष्ठ

१. अन्नसनीय महिलाओं के उदाहरण । रोहिणीकथा । सूरसेन जनपद, सीरोपुर, राजा वसुदेव, महादेवी रोहिणी, रोहिण्येय पुत्र । मदा माता के समीप रहने से जनापवाद । पनिहारिनो में चर्चा ।
२. गोपी द्वारा रोहिणी को समाचार । यमुना के पूर में दिव्य परीक्षा ।
३. सतीत्व के प्रभाव से यमुनाजल का स्तनन, किन्तु नगर का प्लावन । लोगों की पुकार । सती के वचन से उत्तर की ओर प्रवाह आज तक ।
४. सीता के सतीत्व की अग्नि परीक्षा का उल्लेख मात्र । सर्प का माला में परिवर्तन, पर सोमा की कथा का उल्लेख मात्र । चम्पापुरी, जिनदास सेठ । भार्या सहित श्रावस्ती गमन । वन में भार्या पर सन्देह । जिनदासी द्वारा सिंह को देह समर्पण । महासती कह कर सिंह का परावर्तन ।
५. सती का आस्थान । अयोध्या का राजा सुरत, रानी सती । धर्म श्रवण । मुनि

- भागमन की सूचना का आदेश । साधुओं का आगमन । राजा प्रिया के शृंगार में आसक्त ।
६. द्वारपाल का निवेदन । साधुओं का पडगाहन व रसोई घर में आसन । राजा का गमन व आहारदान । पंचातिशय । मुनि निन्दा के कारण रानी को कुष्ठ व्याधि ।
७. त्रिविक्रम का आस्थान, मधुबिन्दु वृष्टान्त — त्रिविक्रम नामक पुरुष वन में व्याघ्र से पीड़ित । जीर्ण कूप में शरस्तम्ब पकड़ कर लटका । चारों कोनों पर सर्प व नीचे भ्रजगर तथा श्वेत व काले दो चूहे शरों को काटते दिखे । व्याघ्र भी उसे पकड़ने के प्रयत्न में लगा । उसे न पाकर तट वृक्ष पर पजों का प्रहार । मधुकरियोंकी बाधा । शाखाओं से मधुबिन्दु का क्षरण ।
८. मूख में मधुबिन्दु पतन और उसका मिठास । जगत्स्वभाव । ससार घटवी, मरण महाव्याघ्र, शरीर कूप, चार कपाय सर्प, व्याधिया मधुकरी, विषयमुख मधुबिन्दु, प्रायु शरस्तम्ब, दो पक्ष मूषक, नरक भ्रजगर । इस प्रकार संसार में सुख एक मधुबिन्दु प्रमाण और दुःख मेरु समान ।
९. दुर्जन संग के दोष—चारदत्त कथा । चम्पापुरी । भानु वणिक्, सुभद्रा गृहिणी । पुत्र का अभाव । मुनि आगमन । पुत्रोत्पत्ति व वृद्धत्व में तपग्रहण की भविष्य वाणी । पुत्रनाम चारुदत्त ।
१०. कला प्रवीण । वनक्रीडार्थ गमन । कीलित विद्याधर का दर्शन । उसका मोचन व तीन औपधियों को बाटकर लगाने से क्षतपूति । कृपाण लेकर गगन में दौड़ व प्रिया को छुड़ाकर पुनरागमन ।
११. विद्याधर का आत्मवृत्तान्त । दक्षिण श्रेणी, शिवपुर के कैशिक नामक बिराधर का पुत्र अमित वेग । धूमशिल्ह और गौरमूड नामक मित्रों सहित हिरण्यरोम तपस्वी की सुकुमालिका नामक सुन्दर कन्या का दर्शन । कामवेदना । विवाह । धूमशिल्ह का द्वेष व मुझे खिलकर प्रिया का अपहरण ।
१२. अमितवेग की कृतज्ञता । चारुदत्त का गृहागमन । सर्वार्थ वणिक् की पुत्री सुमित्रमती से विवाह । पत्नी के प्रति उपेक्षा । माता द्वारा चेटको के साथ चारुदत्त को वेश्यावाट में प्रेषण । वसन्तसेना से प्रेम ।
१३. चारुदत्त की वेश्यासक्ति व सुरापान । समाचार पाकर माता-पिता का तप-ग्रहण । बारह वर्ष में छत्तीस कोटि धन का नाश । भार्या द्वारा अपने आभूषणों का प्रेषण । निर्धन जान कलिंग सेना कुट्टिनी द्वारा त्याग का उपदेश । पुत्री द्वारा त्याग का निषेध । कुट्टिनी द्वारा नशा कराकर चारुदत्त का घर के बाहर प्रक्षेप ।
१४. लज्जित होकर चारुदत्त का गृहागमन । घर की दुर्दशा देख पश्चात्ताप । मामा के साथ धाणिज्यार्थ निर्गमन । उषीरावर्त नगर में कपास खरीदकर ताम्र-लिप्ति को जाते समय वन में अग्नि से कपास का नाश । मामा को त्यागकर त्रियनगर गमन । पिता के मित्र सुन्दर द्वारा सम्मान । निषेध करने पर भी नीका द्वारा यवन द्वीप गमन ।

१५. नगर और द्वीप के बीच जाते आते सात बार नौका भंग । आठवीं बार नौका भंग । फलक पर चढ़कर सैन्धव देश प्राप्ति । गोविन्द नामक भागवत द्वारा सिद्धरस का प्रलोभन व पहाड के बिल मे प्रवेश ।
१६. रस भरते समय शब्द-ध्वनि । वहा पडे हुए पुरुष द्वारा वंचना का संकेत व आत्मनिवेदन । उज्जयिनी से वाणिज्यार्थ कांचनद्वीप गमन । लौटते समय नौका भंग ।
१७. भटकता फिरता इधर आया । भागवत द्वारा सिद्धरस हेतु इधर प्रवेश । तूबी भर सिद्धरस लेकर व सींका काटकर यहां पात । ऐसी ही अन्य सैकड़ों की दुर्दशा । अब तुम्हारी (चारुदत्त की) बारी । रस देने न देने से दोनों ओर विपत्ति की शंका । ३५७
१८. रस लेकर व रस्सी काटकर भागवत का गमन । चारुदत्त द्वारा सर्वज्ञ को नमस्कार, सन्यास ग्रहण व मित्र को धर्मोपदेश । ३५८
१९. नरक की वेदनाओं का वर्णन । ३५८
२०. तिर्यंच गति की पीड़ाये । ३५८
२१. मनुष्य गति के दुख । धर्म द्वारा शाश्वत सुख की प्राप्ति । ३५९

सन्धि ३६

कडक

पृष्ठ

१. श्रावक धर्म व पचाक्षर मंत्र का उपदेश । रस कूप से निकलने का उपाय प्रश्न ? गोहू की पूछ पकडकर निर्गमन । गोहू के बिल मे प्रवेश कर जाने पर वृक्ष की जड का ग्रहण और फिर अज के पैर का । ३६०
२. अजपाल का अजगर की आशका से खनन । मनुष्य की पुकार व निस्सारण । वन भैसे का आक्रमण । भैसे और अजगर का युद्ध । पलायन । मामा के मित्र रुद्रदत्त से भेट व टकन देश गमन । ३६०
३. महानदी उत्तरण, वेत्राटवी प्रवेश, टकनगिरि लघन कर टकन देश प्राप्ति । दो प्रौढ़ मैडे लेकर पर्वतारोहण । रुद्रदत्त द्वारा मैडे का वध । चारुदत्त द्वारा कर्णजाप । खालो मे दोनों का प्रवेश । भेरुडपक्षियों द्वारा मासपिंड जानकर अपहरण । मणिद्वीप की ओर उड़ान । अन्य पक्षी से भिडन्त व रुद्रदत्त के पिंड का पतन व मरण । ३६१
४. पर्वत पर चारुदत्त का श्रवतारण । खाल फाड़कर निर्गमन । मुनि-दर्शन । मुनि का आत्म परिचय । कीलित विद्याधर का जन्मान्तर । ३६१
५. प्रिया को छुड़ाकर गृहगमन । पिता द्वारा राज्याभिषेक । एक पत्नी जयसेना से गधवंसेना कन्या का व दूसरी पत्नी मनोहरा से सिंहयश और बराहवीच पुत्रों का जन्म । ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देकर तप ग्रहण । ३६१
६. सातों ऋद्धियों की प्राप्ति । द्वीप का नाम कंडक व पर्वत का ककडक । सिंहयश का सैन्य आगमन । मुनि द्वारा चारुदत्त का भ्राता के रूप मे परिचय । परस्पर मिलन । एक देव का आगमन । ३६२

७. देव द्वारा पहले चारुदत्त को और फिर मुनि को प्रणाम । मुनि से पूर्व गृहस्थ की तिनय का कारण—गुरुपद । ३६२
८. देव का आत्म परिचय । वाराणसी में सोमशर्मा ब्राह्मण । दो पुत्रियां भद्रा और सुलसा । सुलसा अत्यन्त विदुषी एव वाद में प्रजेय । सुलसा की वाद में जीतने वाले से विवाह की प्रतिज्ञा । ३६३
९. याज्ञवल्क्य द्वारा पराजित होकर सुलसा का विवाह । ऋषि आश्रम में पुत्रोत्पत्ति । पिप्पल तले शिशु का त्याग । भद्रा द्वारा रक्षा व पिप्पलाद नामकरण और वाराणसी भ्रानयन । पालन व षड्भाग वेदाध्यापन । माता-पिता के सम्बन्ध में प्रश्न । भद्रा द्वारा यथार्थ सूचना । ३६३
१०. सुनकर पिप्पलाद का रोष । जाकर याज्ञवल्क्य से वाद व विजय । भद्रा द्वारा मेल । माता-पिता का वध व पितृमेघ यज्ञ । ३६३
११. मैं (देव) ऋषीन्द्र का वार्दलि नामक शिष्य । स्वर्ग हेतु नाना पशुयज्ञों का विधान । छेलक का जन्म । ३६४
१२. वेद की ऋचाएं पढ़कर छह बार बलिदान । सातवीं बार छाल हेतु रुद्रदत्त द्वारा मारे जाते समय चारुदत्त द्वारा सम्यक्त्व व पंचाक्षर मंत्र के दान से देवत्व प्राप्ति । यही चारुदत्त के गुरु होने का वृत्तान्त । इसी से उसे प्रथम प्रणाम । ३६५
१३. देव द्वारा चारुदत्त को रत्न-सुवर्ण देकर घर पहुँचाने का प्रस्ताव । चारुदत्त का निषेध । देव का गमन । विद्याधर द्वारा चारुदत्त का अपने घर भ्रानयन । बहिन गधर्वसेना का परिचय व गधर्व (गान) विद्या में जीतने वाले से विवाह की भविष्यवाणी की सूचना । ३६५
१४. गधर्वसेना सहित चारुदत्त को विमान द्वारा उसके घर पहुँचाना । वसुदेव का आगमन । गधर्व विद्या में विजय प्राप्ति व गधर्वसेना से विवाह । यह ससर्ग-दोष से चारुदत्त वणिक् की विपत्ति का कथानक । ३६६

संधि—३७

कठवक

पृष्ठ

१. संसर्गदोष से चारित्र्यभ्रष्ट होने की शकटमुनि कथा—शकटमुनि का कौशाम्बी में आगमन व जयिनी के गृह में प्रवेश । आहार ग्रहण । गोष्ठी । वृद्धा द्वारा तप के कारण का प्रश्न । मुनि का आत्म परिचय । उसी नगर में सोमशर्मा द्विज व वीणा ब्राह्मणी । ३६७
२. पुत्र शकट । रोहिणी से विवाह । रोहिणी की मृत्यु । उसी के शोक में दिगम्बरी दीक्षा । जयिनी का स्व परिचय । शिवशर्मा भट्ट की पुत्री । शकर विप्र से विवाह । पति की मृत्यु ।
३. मुनि द्वारा पूर्व परिचय । बालकपन में एक ही उपाध्याय के पास दोनों का अध्ययन । पूर्व स्मरण से दोनों का परस्पर अनुराग, कुसुमपुर गमन व कवाच (कवाड़ी व्यापार) द्वारा निर्वाह ।

४. कूर्चवार मुनि की कथा—पाटलिपुत्र में मौर्यवंशी अशोक राजा, अशोकश्री महा-
देवी, कूर्चवार पुत्र । वरधर्म मुनि का आगमन । धर्म श्रवण और मुनिव्रत
ग्रहण । जल में अपनी छाया देखने पर मुनि की महिला द्वारा व्रतभंग की
भविष्यवाणी ।
५. जहा स्त्री न दिखे ऐसे स्थान पर तप करने का निश्चय । गिरिशिखर गमन ।
उधर पाटलिपुत्र पर शत्रु का आक्रमण । कूर्चवार को मनाकर लाने के लिये
धीरमति वेण्या का प्रेषण ।
६. वेण्या का आश्रयिक वेश धारण । पर्वत तल में प्रौढ वेण्या को रखकर शेष सहित
पर्वतारोहण । मुनि की वन्दना । एक बृद्ध आश्रयिक पर्वत पर चढ़ने में अशक्त,
किन्तु वन्दना की इच्छुक होने का निवेदन । मुनि का पर्वत तले आगमन व
महिला द्वारा प्रलोभन से व्रतभंग । गृह आगमन । शत्रु का पराजय । ३६६
७. पाराशर का कथानक । गजपुर का राजा संवर । जयतीपुर के राजा विश्वसेन
की पुत्री तपकी से विवाह, इस प्रतिबंध सहित कि उसके ऋतुमती होने पर
पति कहीं न जाय व जाय तो शीघ्र आ जाय । उधर इन्द्र की सभा में ब्रह्मा,
विष्णु, महेश सहित सब देवों की सभा । ३७०
८. संवर का इन्द्र की सभा में गमन । उसी समय रानी का ऋतु-स्नान । सदेश ।
राजा का प्रति-सदेश—कार्य गुरुतावश अशक्यता । ३७०
९. रानी द्वारा शुक के गले में पत्र बाधकर प्रेषण । राजा का पुटिका में शुक
प्रेषण । लौटते समय शुक की श्येन से झड़प वा गगाद्रह में पुटिका पतन ।
शुक का मत्स्य मुख में प्रवेश व गर्भ । मछुए द्वारा मत्स्य बंधन व उसके
उदर से बालिका की प्राप्ति । ३७०
१०. बालिका का यौवन । मत्स्यगंधा नाम । ऋषि पाराशर का आगमन । मत्स्यगंधा
द्वारा नौका आनयन । नदी के मध्य ऋषि की कामवेदना । मत्स्यगंधा
का विरोध । ३७१
११. ऋषि का आग्रह । तप के माहात्म्य से बालिका का दि यवेष्ट, योजनव्यापी
सुगंध । ३७१
१२. गगन धूम से प्रच्छादित व नदी के मध्य पुलिन का आविष्कार । समागम ।
व्यास की उत्पत्ति । पुत्र का पिता के माथ गमन । योजनगंधा की प्राप्ति । ३७१
१३. व्यास की स्मरण मात्र से माता के पास आने की प्रतिज्ञा । शान्तनु का अनु-
राग । पुत्र (भीष्म) द्वारा व्यवस्था से विवाह । तीन पुत्रों का जन्म । चित्र,
विचित्रवीर्य और चित्रागद । उनका भ्रम्बा, भ्रम्बिका और भ्रम्बालिका से
विवाह । योजनगंधा द्वारा व्यास का स्मरण व पुत्रोत्पादन । उनमें से धृतराष्ट्र
से कौरवों और पाण्डु से पाण्डवों की उत्पत्ति ३७२

कडवक

पृष्ठ

१. सात्यकी रत्न कथा—विजयार्ध की दक्षिण श्रेणी, किन्नरगीत नगर। रत्नमाली विद्याधर राजा, पुत्र रुद्रमाली। विद्या सिद्धि में संलम्न। विद्याधर कुमारी का वधन। मोह। भ्रमर बनकर मुख पर स्थिति। कुमारी द्वारा विद्यासिद्धि की की भ्रवधि। भ्रपना परिचय, उत्तर श्रेणी में गंधर्वपुर के राजा महाबल की पुत्री। ३७३
२. माता का नाम प्रभाकरी व स्वनाम भ्रर्चामालिनी। भ्रवधि की समाप्ति पर विवाह। मनोजय और चित्तवेग विद्याधर महाज्वालिनी विद्या द्वारा रुद्रमाली को बंध कर ले गये। रुद्रमाली का उन्हें जीतकर लौटना। परती सहित दीक्षा ग्रहण। ३७३
३. दोनों का सन्यासपूर्वक स्वर्गवास। महेश्वरपुर के गांधार नरेश की भार्या सत्यमती के पुत्र सात्यकी के रूप में रुद्रमाली का जन्म तथा भ्रर्चामालिनी वैद्यालीपुरी के राजा चेटक की पुत्री ज्येष्ठा के रूप में जन्म। सात्यकी की वाग्दान, किन्तु विवाह से पूर्व श्रेणिक राजा के पुत्र अभयकुमार का भागमन। ज्येष्ठा को वंचना व चेलना का भ्रपहरण। ३७४
४. ज्येष्ठा की प्रव्रज्या। सात्यकी का भी तपग्रहण। उत्तर गोकर्ण पर्वत से आकर राजगृह के उच्चभ्रिव पर्वत पर निवास। वंदनार्थ आयिकाभो का भागमन। दृष्टि। ज्येष्ठा का सात्यकी की गुफा में प्रवेश। ३७४
५. समागम। सात्यकी का आलोचना पूर्वक पुन. व्रत। ज्येष्ठा की गर्भ। आयिका द्वारा चेलना को समर्पण। पुत्र-जन्म। अभयकुमार द्वारा स्वयंभू गुफा में क्षेपण। चेलना द्वारा भ्रानयन व स्वयंभू नामकरण। ज्येष्ठा की पुन. प्रव्रज्या। स्वयंभू के रुद्रस्वभाव से चेलना का रोष व यथार्थ कथन। ३७५
६. स्वयंभू का उत्तर गोकर्ण में जाकर पिता से दिगम्बर दीक्षा लेना। रोहिणी आदि विद्याओं की सिद्धि। सिंह बनकर सबको भयोत्पादन। महिला के निमित्त से मरण की शुरु द्वारा भविष्यवाणी। कैलासवास। विजयार्द्ध की दक्षिण श्रेणी के मेघनिबद्धपुर के विद्याधर नरेश कनकरथ के दो पुत्र देवदारु और विद्युज्जिह्व। ३७५
७. देवदारु राजा व विद्याजिह्व युवराज। देवदारु का युवराज द्वारा निर्वासन। कैलाश पर विद्यापुर बनाकर निवास व योजनगधादि चार महादेवियाँ। योजनगधा की गंधेत्ल और गंधमालिनी व धन्य देवियों की कुल आठ पुत्रियाँ। जलक्रीडार्थ गमन। ३७६
८. कुमारियों को देखकर रुद्र का मोह। मदन का बाणवेधन। स्नान के समय कुमारियों के वस्त्रों का भ्रपहरण। माता-पिता की अनुमति लेकर वरण की प्रतिज्ञा पर वस्त्र प्रदान। ३७६
९. पिता का स्वयंभू को सदेश कि यदि मेघनिबद्धपुर का राज्य दिला सको तो कुमारियों से विवाह। स्वयंभू की स्वीकृति। देवदारु द्वारा गृहानयन व वृत्तान्त कथन। स्वयंभू की प्रतिज्ञा। ३७७

१०. देवदारु का मेघनिबद्धपुर पर आक्रमण । वैरी का पुर से निष्कासन । आठों कुमारियों का स्वयंभू से विवाह । उनकी मृत्यु । पुनः अनेक कुमारियों से विवाह व उनकी भी क्रमशः मृत्यु । स्वयंभू का शोक । गौरी से विवाह का वृत्तान्त । एक भ्रायिका को घीवर ने नदी पार उतारा । ३७७
११. घीवर के शीतल देहस्पर्श के सुख से उसी को झगले भव मे पति पाने का भ्रायिका का निदान । केवट झगले भव मे ज्येष्ठा का पुत्र तथा वह भ्रायिका विद्युद्दृष्ट की पुत्री । बलेश के कारण श्रावस्ती की गुफा मे प्रक्षेप । चार द्विजपुत्रों द्वारा उमा-उमा ध्वनि सुनकर उसका अपने घर ले जाना व उमा नामकरण । ३७८
१२. उमा का रानी को समर्पण, उसके द्वारा पालनार्थ घात्री को । पश्चात् इन्द्रसेन विद्याधर की पत्नी गिरिकणिका को समर्पित । यौवन तडिद्वय (विद्युद्वेग) विद्याधर से विवाह । वैधव्य । रुद्र से विवाह । ३७८
१३. रुद्र का प्रेम । ईश्वरत्व प्राप्ति । शैवशास्त्र का प्रकाशन । शैवाचार्यों की दीक्षा । विद्याधरो की आशका । ३७८
१४. मारने के उपाय । गांधार देश के दुरड नगर मे शिरच्छेद । देश मे उपसर्ग । ३७९
१५. लिंग पूजा द्वारा शान्ति-स्थापना का विधान । ३७९

संधि-३९

कडवक

पृष्ठ

१. राजमुनि की कथा । भरत क्षेत्र, विदेह देश, मिथिलापुरी, मेरक राजा । दो पुत्र पद्मरथ और नमि । राजा और नमि की प्रव्रज्या । पद्मरथ राजा । वन मे अपनी छाया देखते हुए नमि को गुरु-स्त्री के प्रसंग से तपभंग की भविष्यवाणी । निर्जन वन गमन । गोविन्द नामक नट का आगमन । ३८१
२. नटपुत्री काचनमाला से नमि का प्रेम व विवाह । गर्भ । पूर्व समुद्र तटवर्ती मुडीरस्वामीपुर गमन । नाट्य । राजकुमारी का प्रेमी सहित नाट्य प्रेक्षण । ३८१
३. नट द्वारा सुभाषित के प्रथम चरण को सुनकर राजकुमारी का मन परिवर्तन व नट को धनदान । एक युवती परिव्राजिका मठ का द्रव्य लेकर किसी के साथ भाग रही थी । नट के श्लोक के द्वितीय चरण से उनका भी शील भंग न करने का निश्चय । धन की पोटली नट को समर्पित । अन्य दो राजपुत्रों का दलोक के अन्य दो चरणों को सुनकर उन्मार्ग का त्याग व नट को धनदान । ३८२
४. धन से प्रिया को सन्तुष्ट कर तथा पुत्र उत्पन्न होने पर उसे दमनान में छोड़ देने का उपदेश देकर नमि का पुनः गुरु समीप गमन व मुनिव्रत ग्रहण । इधर नटी को पुत्रोत्पत्ति, व पुत्रको मृदग मे रखकर दमनान मे क्षेपण । नगर के राजा का मरण । भाई-भतीजा न होने से राजगज द्वारा राजा का चुनाव । हाथी द्वारा दमनान मे जाकर उसी बालक का स्वारोहण । ६८२

५. बालक का राज्याभिषेक । दुर्मुख नामकरण । नमि का आगमन । कुम्भकार कन्या विश्वादेवी पर मोह व प्रेम के बदले उसके कच्चे भांडों की वृष्टि से रक्षा का आश्वासन । ३८२
६. मंत्रित दण्डद्वारा भाओं का शीघ्र गृहप्रवेश । कुम्भकार का आगमन । विवाह । गर्भ । धनार्जन हेतु स्त्री की भर्त्सना । कापालिका निर्माण व गोविंद ब्राह्मण को शर्पण । प्रथम दिन की भिक्षा उसे देने का प्रतिवध । ३८३
७. रानी के शीघ्रत के प्रसंग में गोविन्द को भोजन व कापालिका को रत्नों का दान । उसके द्वारा मुनि को व मुनि के द्वारा पत्नी को दान । पुत्र उत्पन्न होने पर श्मशान में डाल देने का उपदेश देकर मुनि का गुह्र समीप आगमन व पुनः व्रतग्रहण । नगर के राजा का निस्संतान मरण । ३८३
८. मंत्रियों द्वारा राजगज का प्रयोग व उसी करकडुनामक बालक का राज्याभिषेक । नमि का मरुदेश के मूलस्थान (मुलतान) गमन । राजकन्या दर्शन । गुप्तप्रेम । ३८४
९. राजकुमारी का गर्भ । धात्री द्वारा पूछताछ । यथार्थ निवेदन । दिन में पहचान के लिये पीठ पर कुकुम के हृत्ये मार देने का उपदेश । राजकिकरो द्वारा राजा को निवेदन । गुणी जान कर उसी में राजकन्या का विवाह । ३८४
१०. नम्यइ नामक पुत्र का जन्म । नमि की पुनः दीक्षा । आज भी लोगों की मुडीर नगर में सूर्य के उद्गमन, कालप्रिय (उज्जैन) में मध्याह्न व मूलस्थान में प्रस्त-गमन की मान्यता । तीनों की नमि के पास प्रव्रज्या । चारों का उसी प्रजापति के ग्राम में विहार । रात्रि में ध्यानस्थ । ऊपर आवा लगा देने से चारों का मोक्षगमन । ३८५
११. नारी मोह के दोष पर ब्रह्मा का आस्थान । ब्रह्मलोक में ब्रह्मा की चिन्ता—कोई समीप न आने जाने से अकेलापन । मर्त्यलोक में आगमन । अन्य देवताओं की भक्ति व अपनी उपेक्षा देखकर रोष । ३८५
१२. ब्रह्मा की वन में साढ़े तीन सहस्र दिव्य वर्षों तक तपस्या । पचविध कालप्रमाण । देवों की सभा । ३८६
१३. सभा में सभी देवों व मनुष्य वर्गों का आगमन किन्तु ब्रह्मा अनुपस्थित । गवेषणा । वायु देवता द्वारा प्राप्ति । ३८६
१४. हर की चिन्ता व हरि से विचार-विमर्श । स्त्री द्वारा तपभंग का उपाय । तिलोत्तमा की सृष्टि व वसत सहित प्रेषण । ३८७
१५. ब्रह्मा का मोह । तिलोत्तमा के आकाश नृत्य-दर्शनार्थ चारों दिशाओं में व ऊपर की ओर पांचवें मुख की उत्पत्ति । ३८७
१६. तिलोत्तमा का लोप । पुनः उर्वशी का समीपगमन । वसिष्ठ की उत्पत्ति । ३८७

कडवक

पृष्ठ

१. अर्थ की अनर्थमूलता पर धनमित्रादि बनियों की कथा । कौशाम्बी के धन-मित्रादि बलीश धनिकों की वाणिज्य यात्रा । राजगृह के मार्ग में चोरों द्वारा लूट । चोरों की भी परस्पर द्वेष बुद्धि से विषमिश्रित मिष्टान्न खाकर मृत्यु । अर्थ के निमित्त धावक द्वारा मुनि को क्षोभ की कथा । मणिवत पुरी के राजा मणिपति का मणिचन्द्र पुत्र । पिता की दीक्षा । मणिचन्द्र का राज्याभिषेक । मुनि का उज्जयिनी आगमन । ३८६
२. मुनि का श्मशान में बास । रात्रि में विद्यासिद्धि हेतु कापालिक का आगमन व मुनि को मृतक जान उसके सिर पर अग्नि जलाकर खीर पाक । काय के चलायमान होने से कापालिक का भय से पलायन । प्रातः जिनदत्त सेठ द्वारा मुनि को लाकर वैद्य से परामर्श । सर्वरोग हर तैल का विधान । ३८६
३. सोमशर्मा की पत्नी चुकारी से तैल की प्रार्थना । घड़े से तैल लेने में तीन बार घड़ों का फूटना । सेठ का चुकारी के धर्म पर आश्चर्य । ३९०
४. चुकारी को श्लोष न भ्राने के कारण का वृत्तान्त । मोड़ देश में भ्रानद नगर । शिवशर्मा ब्राह्मण की कमला भार्या व शिवभूति आदि श्राठ पुत्र व भद्रा नामक एक पुत्री में (चुकारी) । नगर में डिढोरा कि मुभसे कोई चू भी न करे । अतः नाम पडा भ्रचुकारी । ३९०
५. सोमशर्मा से इसी शर्त पर विवाह कि उससे वह कभी अप्रिय न बोले । एक दिन पति के रात्रि में बहुत देर से भ्राने के रोष में द्वार बंद । पति के दुर्वचन । ३९०
६. द्वार खोल बहिर्यमन । चोरो द्वारा लूटकर भिल्ल पत्नीपति को अप्रित । वनदेवी द्वारा शील-रक्षा । व्यापारी के हाथ विक्रय । उसके हाथ पारसकुल में विक्रय । उसके द्वारा क्रिमिराम कम्बल हेतु रक्त-शोषण । दुखी जीवन । ३९१
७. उज्जयिनी नरेश द्वारा राजकार्य हेतु प्रेषित भेरे भ्राता धनदेव का आगमन व भेरा यहा भ्रानयन । पति द्वारा वैद्य से पूछकर लक्षपाक मन्त्रन की मालिश से स्वास्थ्य लाभ । मुनि से श्रावकव्रत ग्रहण । रोप का परित्याग । तबसे परम शान्ति । जिनदत्त वणिक् द्वारा प्रशसा व तैल लेकर गमन । ३९२
८. उस तैल के द्वारा मणिपति मुनि को स्वास्थ्य लाभ । वर्षागमन का श्रासंकारिक वर्णन । जिनदत्त के जिनमंदिर में मुनि की योग-साधना । ३९२
९. अपने पुत्र कुबेरदत्त के भय से जिनदत्त द्वारा रत्न-सुवर्ण से भरे घट को मुनि के समक्ष भूमि में गड़ाना । पुत्र द्वारा उसे निकालकर अन्वय्य स्थापना । योग समाप्ति पर मुनि का प्रस्थान । जिनदत्त को घट की अप्राप्ति व मुनि पर अपहरण का सन्देश । ३९२
१०. मुनि को मनाकर लौटा लाना । कहानी कहने का प्रस्ताव । प्रथम जिनदत्त द्वारा कथा । ३९३

११. बराह देश, पचपुर, वसुपाल नरेन्द्र । कौशल नरेश के दूत की वन में तृष्णा से मूर्च्छा । कपि द्वारा जलदान । दूत द्वारा उठकर कपि का वध, चर्म-ग्रहण व जल भरकर गमन । दूत के अपने उपकर्ता के प्रति अयोग्य आचरण की मुनि द्वारा भी निन्दा । ३६३
१२. मुनि द्वारा ब्रूसरी कथा । कौशाम्बी नगरी । शिवशर्मा ब्राह्मण । पुत्रहीन । नकुल का पालन । पुत्रोत्पत्ति । ब्राह्मणी का जल लेने जाना । सर्प द्वारा पुत्र का घात । नकुल द्वारा सर्प-घात । ब्राह्मणी का मृत-पुत्र दर्शन । ३६४
१३. नकुल पर सदेह कर बिना परीक्षा वध । इस अनौचित्य का वणिक् द्वारा समर्थन । ३६४
१४. जिनदत्त द्वारा तीसरी कथा । वाराणसी के जितशत्रु राजा का धनदत्त वैद्य । दो पुत्र धनमित्र और धनभद्र । दोनों मूर्ख । धनदत्त की मृत्यु । पुत्रों का चन्द्र-पुरी गमन व शिवभूति के समीप वैद्यविद्या का अध्ययन । घर लौटते समय वन में अश्वे व्याघ्र का दर्शन । कनिष्ठ भ्राता द्वारा व्याघ्र के उपचार का प्रस्ताव । ३६५
१५. धनदत्त द्वारा अनिष्ट की आशंका व वृक्षारोहण । धनभद्र द्वारा व्याघ्र को दृष्टिदान । व्याघ्र द्वारा उसका घात । मुनि द्वारा अनौचित्य का समर्थन । मुनि द्वारा चौथी कथा । चम्पापुर में शिवशर्मा विप्र । ३६५
१६. भार्या सोमिल्ला सपुत्रा । उसकी सौत सोमशर्मा ईर्ष्यालु । सौत के पुत्र को मार कर नगर साँड के सींग में छेदन । सबके द्वारा साँड की निन्दा । साँड द्वारा तप्त लोह मुख में लेकर अपनी दिव्य परीक्षा । बिना परीक्षा लोक द्वारा साँड की निन्दा के अनौचित्य का जिनदास द्वारा समर्थन व पाँचवी कथा । गगनदी-गह्वे में पड़े हाथी को लाकर आश्रम में पालना । उस भद्रजाति के गध-हस्ति की ख्याति सुनकर श्रेणिक नरेश द्वारा प्राप्ति । बधन लोडकर तीन बार पुनरागमन । तपस्वी द्वारा वापिस किये जाने पर हस्ति द्वारा रोष से तपस्वी का घात । मुनि द्वारा हस्ति की कृतघ्नता की निन्दा । ३६६
१८. मुनि द्वारा छठी कथा । गजपुर के राजा विश्वसेन का आश्रमन आरोपण । प्रथम फल में सर्प के विष का प्रवेश । राजा द्वारा महादेवी को अर्पण । खाकर प्राणान्त । रुष्ट नरेश द्वारा समस्त आश्रमवृक्षों का छेदन । वणिक् द्वारा भी राजा के अविवेक की निन्दा । ३६६
१९. जिनदत्त की सातवीं कथा । महेश्वरपुर का वसुशर्मा विप्र वन में सिंह को देखकर वृक्ष पर चढ़ा । सिंह के चले जाने पर विप्र वृक्ष से उतरा । उसी समय वहा राजा के कहार पटों के योग्य काष्ठ की खोज में पहुँचे । विप्र ने उन्हें वही वृक्ष बतला कर उसे कटवा डाला । मुनि ने भी विप्र की निन्दा की । मुनि की आठवीं कथा । अयोध्या का राजा शशिभद्र । ३६७
२०. चन्द्रमती रानी । जलक्रीड़ा निमित्त सुन्दर वापी का निर्माण । रानियों की क्रीड़ा । वापी में सर्प का प्रवेश । वृद्धा द्वारा मार डालने का उपदेश । किन्तु युवतियों द्वारा उपेक्षा । ३६७

२१. सर्पदंष्ट से महादेवी की मृत्यु । राजा द्वारा रोष से निर्विष बुडुमों का भी सत्या-
नाश । इसी प्रकार कौशाम्बी के मेदार्यं मुनि ने माणिक्य के निमित्त दुःख सहा,
तो भी चोर क्रीच की बात न कही । इसी प्रकार दूसरे के द्वारा ग्रहण की गयी
वस्तु की बात हमें कहना उचित नहीं । वणिक् का निरुत्तर होकर मौन । ३६८
२२. पुत्र द्वारा भ्रमहरण स्वीकार व धन-प्रदर्शन । वणिक् का परचात्ताप । प्रव्रज्या ।
स्वर्गारोहण । ३६८

संधि—४१

कडवक

पृष्ठ

१. धन के निमित्त दुःख प्राप्ति पर पिन्नाकगंध की कथा । पाचाल देश, काम्पित्यपुर,
रत्नप्रभ राजा, विद्युत्प्रभा रानी । जिनदत्त सेठ । पिन्नाकगंध वणिक्, विष्णुदत्त
पुत्र । राजा का तालाब खुदवाना । लाखों कुदाली चमाने वालों में से एक को
लोहे से मड़ी सौ सुवर्ण शलाकाओं की प्राप्ति । जिनदत्त द्वारा एक का क्रय व
उससे जिन-प्रतिमा का निर्माण । ३३६
२. दूसरी बार कुशी लाने पर जिनदत्त द्वारा भस्वीकार । पिन्नाकगंध द्वारा क्रय व
अन्य सभी पाने की इच्छा । एक-एक दो-दो प्रतिदिन लेकर निग्यान्ववे का
ग्रहण । भानजी के विवाह में वणिक् का गमन । ३३१
३. पुत्र द्वारा रोष । एक कुशी का भस्वीकार । राजपुरुष द्वारा राजनामांकित देख
कर राजा से निवेदन । खनक से पूछताछ । एक जिनदत्त को व अट्टानवे
पिन्नाकगंध को देने का वृत्तान्त । जिनदत्त द्वारा प्रतिमा प्रस्तुत । ४००
४. जिनदत्त को क्षमा-प्रदान । पिन्नाकगंध का बत्तीस कोटि धन ग्रहण व पुत्र को
सकुटुम्ब कारावास । वृत्तान्त सुनकर वणिक् का आत्मघात व नरक गमन । ४००
५. धन लोभ पर फडहृत्य वणिक् की कथा । चम्पापुर, अभयनरेश, पृडरीका रानी,
मूढ़ वणिक्, दो पुत्र गड्डदत्त और नागदत्त । सब जीवों के रत्नमय जोड़ों
का सेठ द्वारा निर्माण । वृषभ के लिये उपयुक्त काष्ठ की खोज में मेघाच्छादित
शंभकार में गंगा के पूर से काष्ठ ग्रहण करते हुए रानी द्वारा देखा गया । ४००
६. अपने नगर में ऐसे दरिद्री को देख देवी का राजा से निवेदन । सेठ का भ्रामगमन
व अपने एक वृषभ का जोड़ पाने की इच्छा का निवेदन । राजा की गोकुल से
लेने की अनुज्ञा । अपने वृषभ समान वहाँ न पाने का निवेदन । ४०१
७. उसके अद्भुत वृषभ को देखने राजा का सेठ के घर गमन व यज्ञ, भुजंग,
विहग आदि सभी प्राणियों की मूर्तियाँ देखकर राजा का विस्मय । राजा को
रत्नों का धाल अर्पित करते समय उसके हाथ की खिल्ल अंगुलियों को देखकर
वणिक् को 'फटे हाथ' की उपाधि प्रदान । ४०१
८. फडहस्त सेठ का लोभ । वाणिज्य हेतु ताम्रलिप्ति, सुवर्ण भूमि, कलशपुर,
सिंहलद्वीप आदि द्वीपों का बारह वर्ष भ्रमण । बहुधन अर्जित कर सिंध देश
जाते समय नौका नाश से मृत्यु । सर्प का जन्म पाकर ब्रह्म के समीप संचार ।
पुत्र द्वारा वध । लघु पुत्र और सेठानी का धर्मविधि से स्वर्गवास । ४०२

- ६ भगले जन्म में फडहस्त महाहस्ती हुभा और उसका गरुडदत्त पुत्र कंकजंघ नाम का बनचर । ४०२
१०. कंकजंघ द्वारा दातों के लिये हाथी का वध । हाथी मरकर कीचक पक्षी हुभा और कंकजंघ द्वारा लगाईं दावाग्नि में जलकर सिंहल द्वीप के समीप द्रविड देश की बेन्ना नदी के सागर संगम में कंकड़ा हुभा, जो कंकजंघ के जीव मछुए द्वारा मारा गया । भगले जन्म में फडहस्त का जीव भगलिदेश के कसवल ग्राम में करभ नामक कृषक हुभा और गरुडदत्त का जीव भश्व । दोनों एक दूसरे को मारते पीटते । चारण मुनियों का आगमन । ४०३
११. करभ द्वारा सायार-व्रत ग्रहण व सोते हुए खल तुरण द्वारा मारे जाकर स्वर्ग प्राप्ति । वहाँ से च्युत हो चम्पापुर में भवदत्त वणिक् का पुत्र भवदेव । वही जिनदत्त के पुत्र जिनदेव के रूप में नागदत्त का जन्म । पूर्व संस्कार वश दोनों की मैत्री । जिनदेव की दीक्षा । ४०४
१२. उसी से भवदेव का दीक्षा-ग्रहण । विहार करते कलिग देश में नदिग्राम के समीप ऐरावती नदी के तट पर तप । नदी के पूर से तट पात व रत्नों से भरे घट का प्रकटन । पुराने लोभ संस्कार वश उसे आसन के नीचे गडाकर योग । वनदेवी द्वारा प्रलोभन व उपदेश । ४०४
१३. पूर्वभव स्मारण । आत्मनिन्दा । गुरुसमीप आलोचना । अचलपुर में सुभद्र सेठ के पुत्र भद्रबाहु का लोक सम्मान देखकर निदान पूर्वक स्वर्गवास । उज्जयिनी के सेठ सबधु की भार्या धनश्री के गर्भ में अवतरण । धननाश । पिता की मृत्यु । ४०५
१४. धनश्री का क्षिप्रा तट पर रुदन । मेदार्य पत्नी के महत्तर पर्वत द्वारा वृत्तान्त जानकर व बहिन मानकर गृह-आनयन । पुत्र जन्म । मेदार्य नाम । बही धनश्री के भ्राता भवश्रीसेन की पुत्री तिलकासुन्दरी के रूप में फडहस्त की पत्नी नाग-वसु का जन्म । पढ़ाने के निमित्त पाठक को समर्पण । ४०५
१५. मेदार्य और तिलकासुन्दरी का साथ साथ विद्यार्जन । परस्पर स्नेह । एक दिन भवश्रीसेन ने दोनों को साथ झूले पर झूलते देखा और लात मारकर मेदार्य को उतार दिया । म्लेच्छो से विटाला हुभा तू पुत्री को क्यों छूता है ? कहकर निकाल दिया । सुनकर माता का शोक । ४०६
१६. माता द्वारा अपने कटु अनुभवों का वर्णन व प्रतिमा योग्य सुवर्ण पाने की असंभवता । मेदार्य का वन में जाकर आत्म-घात का प्रयत्न । ऋषिवेष में अच्युतेन्द्र का आकर व वृत्तान्त सुनकर बारह वर्ष पश्चात् तप करने की शर्त पर सुवर्ण प्रतिमा देने का वचन व मेदार्य की स्वीकृति । ४०६
१७. घर जाकर देवी की पूजा करने पर सुवर्ण प्रतिमा प्राप्ति की विधि का कथन । तदनुसार प्रतिमा प्राप्ति व कन्या की माग । कन्या के पिता द्वारा आगन में क्षीरोदधि लाने की दूसरी शर्त । माता द्वारा पुनः निवारण । ४०७
१८. मेदार्य का आग्रह व श्मशान जाकर पुनः मरण का प्रयत्न । सुरपति का पुन-

- रागमन । विषय कषायों को छोड़ने का उपदेश । इच्छा पूरी कर कंकण-हस्त ही प्रव्रज्या ग्रहण की प्रतिज्ञा । ४०७
१९. सुरपति द्वारा चिन्तामणि रत्न का दान । उसके प्रभाव से क्षीरोदधि का प्रवाह । सब लोगो की त्राहि त्राहि पुकार । प्रवाह का नियंत्रण ४०८
२०. राजकन्या तिकलामुन्दरी तथा अन्य बत्तीस कन्याओं का परिणय व सुख भोग । साधु द्वारा प्रतिज्ञा का स्मरण । बारह वर्ष सुख भोगने की याचना । ४०८
२१. सुरपति की स्वीकृति । बारह वर्ष पश्चात् पुनः स्मरण कराने पर अन्य बारह वर्षों की याचना । स्वीकृति । तीसरी बार स्मरण कराने पर मेदार्य का कोप । देवमुनि की चिन्ता । ४०८
२२. अन्य दिन मेदार्य का रूप धारण कर सुरपति का गृह-प्रवेश । मेदार्य का राजकुल से भ्रामन । दोनो मे विवाद । राजा से न्याय की याचना । राजसभा मे दोनो उपस्थित । ४०९
२३. माया मेदार्य द्वारा उपाय प्रस्तुत—जो कोई राजा व मेदार्य दोनो की कुल पर-म्परा जाने बड़ी सच्च । सच्चे मेदार्य का अज्ञान । सुर द्वारा अरिजय से लगा कर वर्तमान हरिवाहन नरेश तक की सतति का व्याख्यान । ४०९
२४. अपने कुल का मनु से लगाकर स्वयं तक का विवरण । राजा की प्रतीति व मेदार्य की लज्जा । प्राणदंड । श्मशान मे शूली के समय उसी देव का भ्रामन । ४१०
२५. देव द्वारा पुनः बारह वर्ष के सुख का प्रस्ताव, मेदार्य की अनिच्छा व तत्काल दीक्षा की माग । देव द्वारा जाकर राजा से मेदार्य की मुक्ति की प्रार्थना व वृत्तान्त निवेदन । ४१०
२६. मेदार्य का श्मशान से भ्रानयन, सम्मान, तथा सुर द्वारा फडहस्त से लेकर अब तक का विवरण । सबकी धर्मरुचि । मेदार्य, उसकी पत्नियो तथा राजा और सामन्तों का तप-ग्रहण । ४११
२७. मेदार्य का एक विहारी होकर कौशाम्बी भ्रामन । राजा गन्धर्वसेन, सुनार भ्रंगारवेग द्वारा मुनि की पडिगाहना व घर के भीतर गमन । इसी बीच राजा के मुकुट के एक रत्न का श्रौच पक्षी द्वारा मांस पिड जानकर निगला जाना । ४११
२८. सुनार के पृच्छने पर मुनि का मौन । सुनार द्वारा मुनि की मारपीट । एक प्रहार उस पक्षी को लगने से मणि का मुख से पतन । मुनि का पर्वत पर जाकर प्रतिमा योग । ४१२
२९. मुनि को गुणस्थान-क्रम से केवलज्ञान प्राप्ति । देवो द्वारा बदना उज्जयिनी नरेश का प्रव्रज्याग्रहण । ४१२
३०. कौशाम्बी नरेश द्वारा उपसर्ग के कारण की पृच्छा । मुनि द्वारा फडहस्त और गड्ढदत्त के जन्म-जन्मान्तर द्वेष का सक्षिप्त वर्णन । प्रथम के नाग, हस्ती और श्रौच तथा दूसरे का ककजष । ४१३
३१. कीचक के भागे कँकड़े करभ, भवदेव और मेदार्य का तथा द्वितीय के धीवर, सुरग और भ्रंगारदेव सुनार का जन्म । ४१३

३२. नागदत्त का षष्ठ्युत्तेन्द्र देव होकर संबोधन तथा नागवसु का भेदार्य की पत्नी होकर भार्यिका व्रत । कौशाम्बी नरेश का मुनिव्रत व भेदार्य का मोक्ष । ४१४

संधि—४२

कडवक

पृष्ठ

१. निदान का कुफल—उग्रसेन-वसिष्ठ कथा । मूरसेन जनपद, मथुरा नगरी, उग्रसेन नरेश, रेवती रानी, सेठ जिनदत्त, दासी प्रियगुश्री, कार्लिदीतट पर वसिष्ठ तपस्वी । एक पैर पर ऊर्ध्वबाहु, तथा ग्रीष्म मे पंचाग्नि तप । जटाजाल । जन-पूजा । ४१५
२. पनिहारियो की प्रियगुश्री के ऋषि की बन्दना न करने पर भ्रापत्ति और उसका कामकाज की व्यवस्था का बहाना । एक दिन सब का उससे आग्रह । ४१५
३. दासी का अस्वीकार । ऋषि की जिनदत्त के विरुद्ध राजा से शिकायत व दासी से राजा की पूछताछ । ४१६
४. प्रियगुश्री द्वारा तथ्य निवेदन । ४१३
५. वसिष्ठ द्वारा ब्रह्मा का पुत्र व पंडित व तपस्वी होने पर भी मछुए होने का दासी का अनुचित आरोपण । दासी द्वारा पंचाग्नि द्वारा जीवघात व जटाओं द्वारा मत्स्य घात का निवेदन । ४१७
६. जटाओं को भड़ाने से मत्स्यघात द्वारा प्रियगुश्री की बात का प्रमाणीकरण । राजा का धार्मिक श्रद्धान । वसिष्ठ मुनि का वाराणसी के समीप गधवती और गंगासगम के तीर्थ पर तप । दिव्यज्ञानी वीरभद्र का पाच सौ मुनियो सहित आगमन । ४१७
७. एक मुनि द्वारा वसिष्ठ के तप की प्रशंसा तथा संघपति का तप मे दोषारोपण व जलते काष्ठ मे सर्प का सद्भाव-प्रदर्शन । वसिष्ठ का अहिंसा धर्म मे श्रद्धान । ४१७
८. वसिष्ठ का व्रत-पालन किन्तु भिक्षा की दुष्प्राप्ति । ४१७
९. वसिष्ठ मुनि का एक विहारी होकर मथुरागमन । गोवर्धन पर्वत पर उग्रतप से देवताओं का प्रकम्पन व प्रेषण की याचना । मुनि की निस्पृहता । सर्वजन प्रसिद्धि । मासान्तर से भोजन । राजा द्वारा स्वयं भोजन कराने की इच्छा से दूसरों द्वारा आहारदान का निषेध । ४१९
१०. मास मास के अन्तर से आहार की भिक्षार्थ भ्रमण । राजा के निवारण से प्रजा द्वारा आहारदान का अभाव व स्वयं राजा का अन्य राज्य कार्य मे व्याकुलता के कारण अनवधान । ऐसा तीन बार हुआ । गोवर्धन पर आकर देवियो का चिन्तन व राजा के वध का आदेश । देवियों द्वारा अस्वीकार । ४१९
११. मुनि का निदान । उग्रसेन की रानी पद्मावती के गर्भ मे जन्म । राजा के हृदय का रुधिर पीने की इच्छा रूप रानी का दोहला । किसी प्रकार दोहले की पुति । पुत्र जन्म । रुद्ररूप । ४१९

१२. भय की भासंका से कांस्य की मंजूषा में रखकर कालिंदी में प्रवाहित । कौशाम्बी की कलारिन द्वारा प्राप्ति । कांस्य मंजूषा में मिलने से कस नामकरण । उपद्रवी जानकर घर से निष्कासन । गौरीपुर जाकर वसुदेव का शिष्यत्व, शिक्षा व गुरु से वरदान प्राप्ति । उधर जरासंध का प्रभुत्व व पौदनाधीश से विरोध । ४२०
१३. शत्रु को पराजित करने वाले को इच्छित राज्य व राज्यकन्या जीवयशा के दान की घोषणा । वसुदेव का जाना व कस द्वारा पौदनाधीश पर विजय प्राप्ति । ४२०
१४. शत्रु को बाधकर जरासंध के सम्मुख प्रस्तुत । वसुदेव का सच्चे विजेता कस को कन्या देने का प्रस्ताव । कुल पूछने पर कस का आत्म निवेदन—कौशाम्बी से माता व मंजूषा का भ्रानयन तथा परीक्षण । ४२१
१५. राजपुत्र जानकर कन्या से विवाह व इच्छित देश मांगने का वरदान । मधुरपुरी मागकर कस का आक्रमण व उपसेन और पद्मावती का कारावास । कस के लघु भ्राता अतिमुक्तक की व्रज्या व अष्टांग-निमित्त ज्ञान की प्राप्ति । गुरु वसुदेव का सम्मान व देवकी नामक भगिनी से विवाह । ४२१
१६. देवकी के गर्भाधान का महोत्सव । अतिमुक्तक साधु से जीवयशा का विनोद । साधु द्वारा रोषपूर्वक पुत्र से पति के मारे जाने की भविष्यवाणी । ४२१
१७. साधु की पुत्र द्वारा देवकी के पिता के मारे जाने की भविष्यवाणी । देवकी की कंस को सूचना और उसका वसुदेव से वर मांगना कि देवकी का जो पुत्र हो वह वैरी होने से मार डाला जाय । ४२२
१८. देवकी का दुःख । वसुदेव द्वारा सान्त्वना । साधु से मधुरेश को दिया वरदान मिथ्या करने के उपाय का प्रश्न । देवकी के हाथ से वृक्ष की शाखा छूटने से एक आभ्रगुच्छ्र आकाश को गया व एक नीचे गिरा । निमित्त विचार कर साधु ने बतलाया कि देवकी के तीन युगल (छह) पुत्रों का नैगम अघहरण करेगा । भद्रिलपुर में उनका पालन होगा और वे तपकर मोक्षगामी होंगे । ४२२
१९. सातवां पुत्र गोकुल में पाला जायगा तथा वह कस और जरासंध का वध कर राज्य पावेगा । तदनुसार वृत्तान्त । सातवे पुत्र लक्ष्मीपति नारायण का जन्म । ४२३
२०. भादो कृष्ण अष्टमी को पिता द्वारा अघहरण, बलदेव द्वारा छत्र धारण, देव द्वारा धवल वृषभ के रूप में यमुनाप्रवाह में मार्ग-निर्माण, पार होकर दुर्गा के मंदिर में निवास । वहाँ नन्द की पुत्री लेकर अगमन व उसे छोड़ वासुदेव को लेकर निर्गमन : वसुदेव और बलदेव का लौटना । प्रातः कस को सूचना । ४२३
२१. पुत्री देख, नाक चपटी व कुबड़ी करके भूमिगृह में रक्षण । युवती होकर तप-ग्रहण । विन्ध्याचल गमन व प्रतिमायोग । भिल्लों द्वारा लूट में सिद्धि होने पर पूजा की प्रतिज्ञा । व्याघ्र द्वारा भक्षण । भिल्लों का लूट में सफल होकर बची हुई हाथ पैर की अंगुलियों और रुधिर का दर्शन । ४२४
२२. भिल्लों द्वारा पूजा । बहा काष्ठ की प्रतिमा विन्ध्यवासिनी दुर्गा के नाम से स्थापना । उधर गोकुल में कृष्ण की वृद्धि व कंस के अघशकुन । नैमित्तिकों द्वारा नंद की गोशाला में वैरी होने का संकेत । देवियों द्वारा कृष्ण के वध का प्रयत्न । ४२४

२३. पूतना, रिष्ट, यमलार्जुन, स्यंदन, वृषभ व घोडो तथा कालिय नाग का मर्दन । गोवर्धन का उद्धरण, चाणूर का विदारण, कंस का वध, उग्रसेन का राज्याभिषेक व जरासंध का वध करके कृष्ण का रत्ननिधि व अर्ध-चक्रवर्तित्व प्राप्ति । ४२५

संधि-४३

- कडवक** पृष्ठ
१. अभिमान के दुष्परिणाम पर लक्ष्मीमती की कथा—मगधदेश, लक्ष्मीग्राम, सोमदेव द्विज, लक्ष्मीमति पत्नी । पक्षोपवासी समाधिगुप्त मुनि का गोपुर प्रवेश । द्विज द्वारा पडिगाहन । लक्ष्मीमती द्वारा अपना शृंगार करते समय मुनि की निन्दा । मुनि का गमन । लक्ष्मीमती को कुष्ठव्याधि । निर्वासन । ४२६
२. जन्मान्तर क्रमश खरी, शूकरी, श्वान । तत्पश्चात्, लाटदेश मे रेवातट पर, भरुकच्छ के समीप, अधलक ग्राम मे तीव्रमद धीवर की मंडूकी नामक भार्या से दुर्गंधिनी, कुरूप, कनिया नामक कन्या । दुर्गंध से त्रस्त कुटुम्बीजनो द्वारा अलग कुटी मे बास । नौका द्वारा नदी पार उतारने का व्यवसाय । समाधिगुप्त मुनि का आगमन । शीतकाल मे मुनि के वैयावृत्य से पाप का शोधन । मुनि द्वारा उसे पूर्वकाल मे कही देखने की सूचना । ४२६
३. मुनि से पूर्ववृत्तान्त सुनकर आर्याका त्रत ग्रहण । सोपारकपुर को विहार । एकान्तर उपवास ग्रहण व बारह वर्ष तक कंजिका आहार । मरकर अच्युतेन्द्र की देवी हुई । पुन कुडिनपुर के रूप्यरथ राजा की रुक्मणी नामक पुत्री हुई । शिशुपाल को मार कर गोविन्द द्वारा परिणय । प्रद्युम्न का जन्म ४२७
४. निदान के कारण पतन पर चित्त-संभूत कथा—वाराणसी का सुषेण नामक किसान, गांधारी पत्नी । चित्त श्रीर सभूत नामक दो विद्वान् । देशभाषाभो मे प्रवीण पुत्र । नर्तक होकर राजगृह आगमन । सभूत का स्त्रीवेश मे नृत्य । वसु-शर्मा पुरोहित की कामासक्ति । पुरुष जानकर भगिनी श्रीमती का विवाह । नटों का कुसुमपुर गमन । धर्म श्रवण । दिगम्बर मुनि-त्रत ग्रहण । पुनः राजगृह आगमन । वसुशर्मा को देखकर सभूत का पलायन वसुशर्मा का अनुधावन । मुनि के कोप से नगर मे अग्निप्रकोप । वृत्तान्त जानकर चित्त का आगमन व भ्राता तथा अग्नि का उपशामन । ४२७
५. मुनियो की वनदेवी द्वारा चक्रेश्वर के रूप मे सेवा । सभूत का निदान । स्वर्ग-वास के पश्चात् पाचाल देश के काम्पिल्य नगर मे ब्रह्मदत्त नामक बारहवें चक्रवर्ती के रूप मे जन्म वसुशर्मा का उसके रसोद्भये के रूप मे जन्म । भोजन के प्रसंग से सूपकार का वध । व्यंतर योनि । प्रपंच रचकर चक्रवर्ती का अपनयन व वध । ये निदान के दुष्परिणाम । ४२८
६. माया शल्य के कुफल पर पुष्पवन्ता की कथा—भारतवर्ष, आर्यावर्त, पुष्पदन्तचूड़ राजा, पुष्पदन्ता रानी । देवगुरु नामक कृषि का आगमन । राजा का धर्म श्रवण व प्रव्रज्या । रानी की भी प्रव्रज्या । राजा का मोक्षगमन । रानी का अभिमान व विनय मे मायाचारी, आत्म प्रशसा व शरीर सस्कार । ४२८

७. महत्तरी का सबोधन, रानी का मायाभाव, स्वर्गवास । पश्चात् चम्पापुर के सागर-दत्त सेठ की दासी घनदत्ता की पुत्री । सुन्दर किन्तु दुर्गन्धा । वज्रिक् द्वारा नैमित्तिक से पृच्छा । उत्तर—दुकान के सम्मुख जिस व्यक्ति के ठहरने से तुम्हें एक लाख दम्भ का लाभ हो व पुत्री की दुर्गन्ध सुगन्ध में बदल जाय वही घनमित्रा का पति होगा । वसुदेव के आगमन पर पूर्वोक्त घटनायै व कन्या का उससे विवाह । ४२६
८. मिथ्यात्व शल्य के कुफल पर मरीचि कथा । प्रथम द्वीप, पूर्व विदेह, पुष्कलावती देश, मथुरा बन, पुरुख भिल्ल, सागरसेन मुनि का दर्शन व मार्ग प्रदर्शन । मुनि द्वारा मद्य मास मधु व पचोदम्बर एवं निशिभोजन त्याग का उपदेश । ४२६
९. श्रावक व्रत पालकर शबर का स्वर्गवास व भरत के पुत्र मरीचि के रूप में जन्म । पितामह (ऋषभ) के साथ प्रव्रज्या । परोपहो का असहन व व्रत भंग । मिथ्यात्व के कारण नाना दुःख, ससार भ्रमण, चार लब्धिया प्राप्त कर सन्मति तीर्थंकर का पद प्राप्त । ४३०
१०. कुल मर्यादा के रक्षण पर भ्रगन्धन सर्प की कथा । उज्जयिनी के राजा सूरसेन । पुत्र सूरवीर की सर्पदश से मूर्च्छा । वैद्यो को राजादेश । ४३०
११. सोमशर्मा वैद्य का गरुड शास्त्रानुसार कुमार का जीवन असम्भव बतलाना । राजा का आग्रह । वैद्य द्वारा मन्त्र-प्रभाव प्रदर्शनार्थ नागर्षाष्ट में समस्त सर्पों का आह्वान । ४३१
१२. कुमार को काटने वाले को छोड़ अन्य सर्पों का विसर्जन । गरुडिक का व्याख्यात बिरहैले सर्पों के दो कुल गधन और भ्रगंधन । गधन कुल द्वारा विष का अपहरण भ्रगंधन द्वारा कदापि नहीं । इस भ्रगंधन को छोड़ देने की सलाह । राजा का विषापहरण का आग्रह ।
१३. गार्डिक का ध्यान कर भ्रगंधन सर्पों को विषापहरण प्रथवा अग्निप्रवेश का आदेश । सर्प द्वारा कुल परम्परा का रक्षण व अग्निप्रवेश । इसी प्रकार मुनि द्वारा इन्द्रिय कथायों का वमन कर पुनः ग्रहण अयोग्य । ४३१
१४. प्राणैन्द्रिय के वशीभूत होने के बोध पर गंधमित्र कथा—कौशलपुर का राजा विजयसेन । राजपुत्र जयमित्र और गंधमित्र । राजा की दोहा । जयमित्र की राज्य-प्राप्ति । युवराज गंधमित्र द्वारा राज्यापहरण व ज्येष्ठ भ्राता का निस्तारण । नगर के समीप गिरिबन में जयमित्र का निवास । ४३२
१५. पुन राज्यप्राप्ति को चिन्ता व छिद्रान्वेषण हेतु गुप्तचर प्रेषण । गंधमित्र की विषयासक्ति । अन्त पुर सहित सरयू नदी में जलक्रीडा । जलमित्र द्वारा ऊपर प्रवाह से विषमय सुगंधी पुष्पो का विसर्जन, गंधमित्र द्वारा ग्रहण, बंधन और मरण । ४३२
१६. कर्षेन्द्रिय की विषयासक्ति पर पांचाल-गंधर्वदत्ता कथा । पाटलिपुत्र की बँध्या गंधर्वदत्ता की गायन कला से धीतनेवाले से विवाह की प्रतिज्ञा । वरों का गमनागमन । पीदनपुर का प्रसिद्ध गवैया पांचाल । ४३३

१७. पांचाल का आकर नन्दनवन में वास । शिष्य को सचेतकर वृक्षतले सुप्त । शिष्य की भ्रसावधानी व अन्य शिष्यों का पुर दर्शनार्थ गमन । गंधर्वदत्ता का स्वागतार्थ भ्रागमन व लार बहाते घुरकते सोता देख विरक्षित । ४३३
१८. प्रशोक की पूजा कर व सरस्वती की निन्दा कर गंधर्वदत्ता का गृह गमन । पांचाल का जागरण व शिष्य का जागरण । वृत्तात जानकर शिष्य पर रोष । ४३४
१९. पांचाल का राजसभा में गमन । राजा का मनोरजन । निवास । रात्रि में वीणावाद्य । सुन कर गंधर्वदत्ता की विह्वलता, प्रासाद से पठन व मृत्यु । ४३४
२०. जिह्मेन्द्रिय के दोष पर भीम नृपति कथा । जंबूद्वीप, भरत क्षेत्र, कार्मप्ल्यनगर राजा भीम मांसप्रेमी । नन्दीश्वर पर्व में मांस का निषेध । राजा की मांस लोलुपता । सूपकार द्वारा श्मशान से शव लाकर नरमास का पाक । स्वाद से राजा की असभ्रता व सूपकार से पूछताछ । ४३४
२१. सूपकार का यथार्थ निवेदन । नित्य उसी भोजन का आदेश । सूरकार का बालको को लड्डू आदि द्वारा प्रलीभन व मारकर मांस-पाक । बात खुलने पर प्रजा द्वारा राजा का निस्तारण व शसोद्ध्ये का पलायन । ४३५
२२. नेत्रेन्द्रिय दोष पर भद्रमित्र कथा । भद्रिलपुर, धनपति सेठ, भद्रमित्र पुत्र का देवदत्ता से विवाह । मित्र वसन्तसेन व गृहिणी वसन्तमाला । दोनों मित्रों की सपत्नीक उपवन-क्रीडा । ४३५
२३. वसन्तसेन द्वारा पडे-पडे ही आस्र मंजरी गिराकर प्रिया की वही याचना । धनुर्विद्या न जानने से लज्जा । प्रिया को सोती छोड़ धनुर्विद्या सीखने गमन । ४३६
२४. मेघपुर के राजा मेघसेन के अध्यापक से धनुर्विद्या शिक्षण । ४३६
२५. राजा का कन्या मेघमाला का स्वयंवर चद्रक-वेध द्वारा । भद्रमित्र की सफलता व विवाह । स्वजनो का गृहागमनार्थ आग्रह । श्वसुर द्वारा निरोध । ४३७
२६. रथ द्वारा कान्ता सहित चूपचाप गमन । सुवेग भिल्ल द्वारा स्त्री हेतु प्रतिरोध । युद्ध । अस्त्रो की समाप्ति । धनुर्बाण लेकर रथ से उतरना । भिल्ल की स्त्रीमुख प्रेक्षण में आसक्ति । श्वसुर पाकर उसकी आस्र में बाण-प्रवेश । कुशल पूर्वक गृहगमन । ४३७

संधि-४४

कडवक

१. स्पशेन्द्रिय के दोष पर नागवत्ता कथा । दक्षिण देश, नासिक नगर, सागरदत्त गृहपति, गृहिणी नागदत्ता, पुत्र श्रीकुमार, पुत्री श्रीसेना बालविधवा, गोपाल नन्दिमित्र का गृहिणी नागदत्ता से प्रेम व प्रपंच कर स्वामी का वध । पुत्र का शोक । माता द्वारा उसे भी मारने का सुभाष । ४३८
२. पुत्र को गायें चराने भेजने का प्रपंच । भगिनी द्वारा सतर्कता का सकेत । गोपाल का उसे मारने का प्रयत्न । किन्तु सावधानी के कारण उसके द्वारा स्वयं का वध । घर आने पर माता का प्रश्न । माता द्वारा मुसल प्रहार से घात तथा भगिनी द्वारा माता का घात । ४३८

३. क्रीडादि कथायों के दोष । क्रोध कथाय पर द्वीपायन मुनि की कथा । सोरठ देश में समुद्र के बीच द्वारावती पुरी । ४३६
४. नगर की लम्बाई चौड़ाई, गोपुर लिहकियां, कुट्टिम व प्राकार की शोभा । दश दशार व पाडवो का वास । वासुदेव नभमे नारायण चक्रेश्वर की विभूति । नेमि तीर्थकर का आगमन ऊर्जयत पर्वत पर । सबका वन्दनार्थ गमन । ४३६
५. बलदेव का तीर्थकर से प्रश्न ? केशव की संपदा कितने काल तक रहेगी ? उत्तर-बारह वर्ष पदचात् विनाश । प्रश्न : कारण ? हिरण्यनाभ का पुत्र व रोहणी का भ्राता द्वीपायन शम्भुकुमार द्वारा रुष्ट होकर, मरण कर अग्नि कुमार देव होकर द्वारावती को जला देया, तथा जरत्कुमार के हाथ से छुरी द्वारा कृष्ण की मृत्यु होगी । ४४०
६. मद्यपान से विकल यादवो का परस्पर प्रहार द्वारा मरण होगा । सुनकर सबका विषाद । मद्यभाण्डों का क्षेपण । जरत्कुमार का विध्यगिरि बाम । छुरी को तोड़ फोड़कर समुद्र में विसर्जन । मत्स्य द्वारा छुरी के एक टुकड़े का भक्षण । जरत्कुमार के हाथ पहुँच कर बाणास्र निर्माण । द्वीपायन का पूर्व देश गमन व बारह वर्ष पदचात् सध सहित पुनरागमन, ऊटगिरि के समीप निवास । वहाँ यादवो का वनक्रीडाथं गमन । ४४०
७. यादवो द्वारा मुनि का क्षोभ । शम्भुकुमार द्वारा कंडों से मुनि का सर्वांग आच्छादन । हरि द्वारा क्षमापन । यादवो का फूटे भाडो से मद्यपान, परस्पर युद्ध और विनाश । द्वीपायन का मरकर अग्नि कुमार जन्म व पुरी प्रज्वालन । बलदेव-वासुदेव का निर्गमन । वृक्षतले वासुदेव की निद्रा व बलदेव का जल की खोज में गमन । जरत्कुमार द्वारा विचित्र पशु जान हरि का बाणवेधन । बलदेव द्वारा छहमास तक हरि के शव का धारण व मुनि के उपदेश से उपशान्ति । ४४१
८. दक्षिणदेश के तुगी पर्वत पर तप कर बलदेव का ब्रह्मलोक गमन । ४४१
९. मान कथाय पर सगर पुत्रों की कथा । भारत क्षेत्र, विनीता नगर, सगर राजा साठ हजार पुत्र । पुत्रो का अभिमान । कैलाश के मंदिरो की रक्षाथं खाई खोदने का पितृ-आदेश । देव द्वारा निवारण । न मानने पर भस्मराशि । सगर का वैराग्य व तप । पुत्रों महित निर्वाण ।
१०. माया कथाय पर कुंभकार कथा । चम्पा के समीप वटग्राम, प्रजापति (कुंभकार) प्रत्यन्त अभिमानी । बँल पर भाड लादकर विक्रयार्थ गमन । भारतग्राम में संध्या । ४४२
११. देउल में निवास । महिलाओ द्वारा कल मूल्य चुकाने के बहाने भांड ग्रहण । युवकों द्वारा कुंभकार को नाच गान में फंसाकर बँल का अपहरण । प्रातः मूल्य पागने पर उल्टी भत्सना । ४४३
१२. कुंभकार द्वारा ग्राम का दहन । लोभ कथाय पर मृगध्वज की कथा । भयोध्या नगरी सीमधर राजा, मृगध्वज राजपुत्र, ऋषभसेन वणिक् व उसकी बहुत सी भैसे । ४४३

१३. सुभद्रा नाम की प्रधान भैस । सात बार भैस के पाडो का जन्म होते ही गोविन्द गोपाल द्वारा भक्षण । आठवीं बार पाडे का जन्म । भैस का उसको चाटना । गोपाल द्वारा अभयदान । पाडे का नकुल नामकरण । लोगों का विनोदकारी । ४४४
१४. पाडे का सेठ को नमस्कार । सेठ की प्रसन्नता । राजा को प्रदर्शन । राजा द्वारा हाट हाट में उसके लिये साख व्यवस्था । वणिक पुत्र द्वारा चोरी । नकुल भैसे पर दोषारोपण । तप्त लोह की दिव्य परीक्षा द्वारा भैसे की निर्दोषता सिद्ध । भद्रक नामकरण । अशोक वन की पुष्पकरिणी में क्रीडा । ४४४
१५. मांसलोत्सुपी मृगध्वज राजपुत्र द्वारा एक पैर काटकर भक्षण । राजा के समीप भैसे की पुकार । नवकार मंत्र पाकर स्वर्गवास । राजा का मृगध्वज को प्राणदंड । मंत्री द्वारा रक्षण । तपग्रहण । केवलज्ञानोत्पत्ति व मंत्रिपुत्र मतःपर्यय ज्ञानी । राजा का वन्दनार्थ गमन । ४४५
१६. महिष-देव का आगमन, सीमधर राजा की स्तुति व आत्मपरिचय । केवली से वैर के कारण की वृच्छा । अश्वसेन-सेनापति की परम्परा का कथन । राजा की प्रव्रज्या । ४४५
१७. लोभकषाय पर कार्तवीर्य की कथा—कौशलपुरी, सहस्त्रबाहु नृप, चित्रमती रानी, कार्तवीर्य पुत्र । पिता-पुत्र का हाथी पकड़ने वन-गमन । विध्यवन में यमदग्नि तापस, रेणुका पत्नी, सीताराम और महेंद्रराम पुत्र । अरिजय मुनि द्वारा कामधेनु और परशुविद्या का वरदान । राजा का यमदग्नि के आश्रम में आगमन । ४४६
१८. कामधेनु की कृपा से ऋषि द्वारा राजा की ससैन्य अभ्यागत विधि । राजा द्वारा यमदग्नि का वध करके कामधेनु का अपहरण । माता से परशुविद्या लेकर सीताराम द्वारा अनुधावन । राजा व राज पुत्र का सकुटुम्ब सपरिजन वध व दोनो का बाताल गमन । ४४६
१९. कार्तवीर्य की गर्भिणी भार्या पद्यावती का वन-गमन । क्षाण्डिल्य के आश्रम में पुत्र जन्म । सर्वं गुप्त मुनि की भविष्यवाणी कि पुत्र सर्वभ्रम चक्रवर्ती होगा । नामकरण सुभीम । तापस द्वारा परिपालन । उधर परशुराम द्वारा इक्ष्कीस बार क्षत्रियों को मारकर ब्राह्मणों को राज्यदान । जिसके देखने मात्र से दात भात बन जाय उसके द्वारा परशुराम की मृत्यु की भविष्यवाणी । दानशाला की स्थापना व दातों का पात्र दिखला कर ब्राह्मणों को भात देने की व्यवस्था । उधर सुभीम का माता से प्रह्न । ४४७
२०. माता का रोकर यथार्थ कथन । सुनकर सुभीम का कौशलपुर गमन । उसके देखने मात्र से दात भात बन गये । परशुराम के भटों द्वारा आक्रमण । किन्तु अकुटि मात्र से पलायन । उसके द्वारा परशुराम का वध । ४४८

संघि ४५

कडवक	पृष्ठ
१. परीषह विजय पर शीलसेन्द्र की कथा—दक्षिण देश, कल्पपुर, शीलसेन्द्र राजा श्रावक । श्रीपंचमी का उपवास ।	४४६
२. शत्रु का ससैन्य आक्रमण । कल्पपुराधीश के भाल में बाण प्रवेश । उस अवस्था में भी युद्ध कर शत्रु का पराजय । पुर-प्रवेश, बाण का निराकरण । मूर्च्छा । सचेत होने पर पीष्टिक आहार की प्रेरणा । उपवास के कारण निषेध । भूख प्यास परीषह सहकर दूसरे दिन आहार-ग्रहण ।	४४६
३. परीषह विजय पर अश्वत्थि सुकुमाल की कथा—कौशाम्बी पुरी, अतिबल राजा, सोमशर्मा पुरोहित, दो दुर्बद्ध पुत्र अग्निभूति और वायुभूति । पिता की मृत्यु । पौरोहित्य से निष्कासित होकर पुत्रों का राजगृह गमन । सूर्यमित्र मामा द्वारा सम्मान ।	४५०
४. अहनिश अश्वत्थिपन द्वारा चौदह विद्याएँ प्राप्त । पुन गृहागमन व राजसभा में पैतृक स्थान प्राप्त । सूर्यमित्र को प्रत्रय्या व कौशाम्बी आगमन । अग्निभूति द्वारा आहार दान । वायुभूति की अश्रद्धा ।	४५०
५. वायुभूति द्वारा भ्रातृ पत्नी के सिर पर पाद-प्रहार व गृह से निर्वासन । उसका निदान कि अगले जन्म में पैर व शरीर की हड्डिया चबा-चबाकर खाऊगी । वायुभूति का कुष्ठ व्याधि से मरण ।	४५१
६. ज्येष्ठ भ्राता द्वारा संबोधन, तथापि लघु भ्राता का दुराग्रह । ज्येष्ठ भ्राता का तप-ग्रहण । उसकी पत्नी द्वारा देवर की भर्त्सना ।	४५१
७. वायुभूति के खरी, शूकरी, कुक्कुरी, अधी, कुरूप मातंगी रूप जन्मातर । अग्निभूति के द्वारा दर्शन । सूर्यमित्र द्वारा पूर्वभव कथन । अग्निभूति द्वारा संबोधन । मातंगी को पूर्वभव स्मरण, श्रावक-व्रत ग्रहण व मरकर राजपुरोहित की पुत्री रूप में जन्म ।	४५१
८. नागश्रीनाम । नागपूजार्थ नागवन गमन । वहा अग्निभूति का दर्शन व सूर्यमित्र द्वारा पूर्वभव कथन । नागश्री व श्रावक-व्रत ग्रहण व सूर्यमित्र द्वारा यह वचन कि यदि पिता व्रत त्याग करावे तो आकर उन्हें ही अर्पण किये जाय ।	४५२
९. नागश्री की प्रतिज्ञा । गृह-गमन । पिता द्वारा क्षणिक धर्म त्यागने का आदेश । मुनि को व्रत लौटाने दोनों का उद्यान गमन । मार्ग में एक हत्यारे जुवाड़ी की दुर्दशा व प्राणदंभ का दृश्य ।	४५२
१०. कुमारी द्वारा अहिंसा व्रत की प्रशंसा । पिता द्वारा उस व्रत को रत्नकर शेष को त्यागने का आग्रह । महाभारत में व्यास द्वारा जीव दया के उपदेश का प्रमाण । अन्य एक बद्ध पुरुष का दर्शन व परिचय, धान्य के विक्रेताओं का पास के ग्राम में आगमन ।	४५३
११. राष्ट्रकूट को धान्य की बिक्री । माप करते समय चित्र का दर्शन व एक वणिक् को घोखा देकर धान्यापहरण की कथा ।	४५३

१२. बोरी के अपराध में हाथ पैर काट डालने का राजादेश । सुनकर नागश्री द्वारा भ्रूचौर्य व्रत की प्रशंसा । पिता द्वारा उस व्रत को भी रलकर शेष त्यागने का आग्रह । तीसरे बद्ध पुरुष का वृत्तान्त । मामा द्वारा कन्या का वाग्दान । वर का वाणिज्यार्थ गमन व बारह वर्ष तक न लौटने पर अन्य वर से विवाह की अनुमति । ४५४
१३. वाग्दान की भ्रवधि-समाप्ति व पूर्व वर के लघुभ्राता को वाग्दान । पूर्व वर का आगमन । दोनों वरों द्वारा पाणिग्रहण भस्वीकार । उसी कन्या पर बद्ध पुरुष की आसक्ति व न्याय में तप्त लौह प्रतिमा के भ्रालिगन का दण्ड । सुनकर नागश्री द्वारा परस्त्री त्याग व्रत की प्रशंसा व पिता द्वारा उसे छोड़ शेष व्रत-त्याग का आग्रह । ४५४
१४. पुनः बद्ध पुरुष का दर्शन, जिसने राजा के वरदान का दुरुपयोग कर बहुत गायों का संहार किया था और उस अपराध में जिसे शूली का दण्ड मिला था । नागश्री द्वारा पाचों व्रतों की सार्थकता सिद्ध की जाना । पिता ने भी वेदपुराणों से उनका समर्थन किया । ४५५
१५. तथापि पुरोहित ने मुनि के पास जाकर उसे ध्रागे ऐसा करने से रोकना उचित समझा । मुनि को दूर से पुरोहित का उपालम्भ । मुनि का उस कन्या को अपनी पुत्री कहना व नागश्री का उसके समीप जा बैठना । पुरोहित का रोष । राजा ने पुत्रीहरण की सिकायत । ४५५
१६. राजा का आगमन । मुनि द्वारा अपनी पुत्री को वेद-वेदांग पढ़ाने का दावा तथा पूर्वभव वृत्तान्त । राजा तथा पुरोहित की प्रव्रज्या । ४५६
१७. अग्निमित्र और सूर्यमित्र का मोक्षगमन । नागशर्मा आदि का स्वर्गवास तथा पुनर्जन्म । नागशर्मा का जीव उज्जयिनी के सेठ इन्द्रदत्त का पुत्र सुरेन्द्रदत्त । नागशर्मा की पत्नी सुभद्रा सेठ की पुत्री सुभद्रा । सुरेन्द्रदत्त से विवाह तथा नागश्री का उनके पुत्र रूप में जन्म । ४५६
१८. सुरेन्द्रदत्त और सुभद्रा के पुत्र का नाम अवन्ति सुकुमाल । यौवन । बत्तीस कन्याओं से विवाह । बत्तीस प्रासाद निर्माण । पिता की प्रव्रज्या । पुत्र के सम्बन्ध में साधुदर्शन होने पर प्रव्रज्या-ग्रहण की भविष्यवाणी । माता द्वारा पुत्र का घर से बाहर जाना तथा मुनि का गृह-प्रवेश निषिद्ध । कमल से वासित तदुलो का आहार । ४५७
१९. दक्षिणापथ से रत्नकंबलो के व्यापारियों का आगमन । बहुमूल्य होने से राजा का भी उनके ऋय का असामर्थ्य । सुभद्रा सेठानी द्वारा खरीदकर बहुओं के के पाहने बनवाना । सुनकर राजा का आश्चर्य व आगमन । सुकुमाल सहित वापी में स्नान एवं मणिलिखित सुवर्ण के हार व भ्रौंशुठियों की प्राप्ति । ४५७
२०. अन्य भी आभूषणों की वापी में प्राप्ति । राजा का आश्चर्य । भोजन के समय सुकुमाल के नेत्रों से ध्रश्रु तथा धूक । माता द्वारा स्पष्टीकरण—कुमार को रत्नोद्योत तथा कमलवासित धोदन का अभ्यास । सुकुमालस्वामी की उपाधि देकर राजा का गृहगमन । ४५७

२१. गणधरादि मुनियों का आगमन । सुभद्रा की प्रार्थना कि वे मौन रहे । क्षमापना क्रिया में जोर से पाठ । सुनकर सुकुमाल का पूर्वभ्रम स्मरण व मुनिव्रत की याचना । आयु प्रमाण तीन दिन । स्वयंबुद्ध होकर तपग्रहण । श्मशान में मे श्मशानस्थ । पूर्वभ्रम के संस्कारवश भल्लुकी द्वारा भक्षण । अभ्युत स्वर्ग गमन ।
२१. माता का पुत्रपत्नियो सहित रुदन, अग्निस्कार, आयिकाव्रत ग्रहण । सुकुमाल के मृत्युस्थल की आज भी कापालिकों द्वारा रक्षा । वहाँ अग्निस्कार से उत्तमगति की मान्यता । वहाँ महाकाल की स्थापना । भार्याओं के कलकल होने से कलकलेश्वर तीर्थ की ख्याति । आकाश से जहाँ गधोदक बरसा था, उसी का नाम अब भी गधवत श्मशान ।

४५८

संधि-४६

कडवक

पृष्ठ

१. परोक्ष सहन पर सुकौशल मुनि की कथा । भरत क्षेत्र, साकेत पुरी, प्रजापाल राजा, सुप्रभा रानी, बत्तीस कोटि का धनी सेठ सिद्धार्थ, बत्तीस पत्निया । प्रधान पत्नी जयवती । सभी पुत्रहीन । राजा के सिर में श्वेतकेश । जयवती द्वारा मुट्ठी में लेकर कथन—तुम्हारा दूत आ गया ।
२. राजा का कौतुक । महादेवी द्वारा स्पष्टीकरण—राजदूत नहीं, धर्मदूत । श्वेतकेश तथा आकाश में विद्याधर युगल देखकर राजा का वैराग्य । मतिवर मित्र की प्रेरणा से पुत्रोत्पत्ति तक पुन गृहनिवास ।
३. लौकिक धर्म त्याग कर सत्य धर्म धारण का मुनि द्वारा उपदेश । स्वर्ग से पुत्र पुत्र के गर्भ में आगमन का कथन । पुत्र जन्म । किन्तु पिता के गृहत्याग के भय से उत्सव का निषेध ।
४. सेविका द्वारा सोमशर्मा को सूचना और उसकी सेठ को बधाई । सेठ का दान, पुत्रमुख दर्शन, धनदेव नामकरण, सबको आनंद दायक होने से सुकौशल उपाधि । सेठ की प्रव्रज्या ।
५. शेष पत्नियाँ भी आयिकाये हुई । जयवती का पति पर रोष । पुत्र पालनार्थ पांच धात्रियों की नियुक्ति । बत्तीस कन्याओं से विवाह । मुनि दर्शन से वैराग्य की भविष्यवाणी । साधु के गृहप्रवेश का निषेध ।
६. गवाक्ष से नगर की शोभा देखते हुए मुनि का दर्शन । माता से प्रश्न । उत्तर— कोई दरिद्री भिक्षमगा ।
७. सुकौशल की मुनि के लक्षणों को देखते हुए उसके भिक्षमंगा होने की अप्रतीति । धात्री का सत्य संकेत । माता द्वारा निवारण व उसके दीन-दरिद्री होने की पुष्टि ।
८. माता द्वारा अपने वचन की पुष्टि में पुराणों के उदाहरण तथा नगर के भिक्षाधियों का परिचय ।
९. सुकौशल का फिर भी भविष्यवासी और चिन्तन । सूपकार का भोजनार्थ भ्रमंभण व स्नान पूजन की प्रार्थना ।

४६०

४६०

४६१

४६१

४६२

४६२

४६२

४६३

४६३

१०. माता और पत्नियों की भी स्नान, पूजन और भोजन हेतु प्रेरणा । सुकौशल को प्रागन्तुक का सच्चा परिचय पाने का आग्रह । धानी द्वारा पिता होने का कथन । ४६४
११. पिता का पूर्ण परिचय । सुकौशल की उन्ही सद्दश मुनि होकर आहार-ग्रहण की प्रतिज्ञा व निर्गमन, मुनि दर्शन और पूर्वभव-स्मरण । ४६४
१२. पूर्वभव—मलय पर्वत पर गजपत्नी पद्मावती और मलया । रुष्ट होकर मलया का शृगुपात से मरण व चम्पापुर में श्रीदत्त सेठ की पुत्री सुकेशी के रूप में पुनर्जन्म । उस नगर में पद्मावती जितरग वणिक् का पुत्र बरांग हुआ । गंधमादन नृप द्वारा सुकेशी का दर्शन व आसक्ति । सुकेशी का मंदिर से लौट कर पिता को शेष अर्पण । ४६४
१३. माता पिता का सुकेशी का विवाह धनबंधु के पुत्र धनमित्र से करने का विचार । राजा का स्वयं आकर सुकेशी से विवाह । वनहस्ती को पकड़वाने का उपाय । ४६५
१४. हाथी को देखकर व मलय हाथी का स्मरण कर सुकेशी का पूर्वजन्म स्मरण, मूर्च्छा, पूर्वजन्म चित्रण, हाथी के पकड़े जाने पर राजा की बघाई की उपेक्षा, मलय को पकड़ने का संकेत । राजा का उसे पकड़ने का प्रयास, किन्तु असफलता । ४६५
१५. मलय हाथी का मारा जाना व रानी को मोती और दांत अर्पण । देखकर रानी का मरण व माता पिता का वैराग्य । क्लैवल्यप्राप्ति । पुन नगरागमन, सुकेशी के भवान्तर कथन । कांचीपुर, गांधार नृप, सुदर्शन सेठ, प्रियदर्शन पुत्र, नदी सेठ की पुत्री कीर्ति से विवाह । ४६६
१६. सुन्दर हाथी का दर्शन । उसी प्रकार जन्म पाने का निदान । मरकर हाथी का जन्म । कीर्ति मरकर मलया हस्तिनी हुई व मलय हाथी की दक्षिण देह भागिनी । पद्मावती वाम-देह-भागिनी । ४६६
१७. एक दिन पद्मावती को पहले कुवलय देने मात्र से अपमानित होकर मलया का अपने को पर्वत से गिराकर आत्मघात व सुकेशी के रूप में पुनर्जन्म । हाथी देखकर पूर्वभव स्मरण । ४६७
१८. शेष वृत्तान्त । मलयसुन्दर हाथी को पकड़कर बुलवाने की इच्छा आदि । ४६७
१९. राजा का बनावटी उत्तर । राजा का हाथी को जीता पकड़वाना असंभव, अतएव घात व सुकेशी का शोक व मृत्यु । ४६८
२०. सुकेशी के पुनर्जन्म के सम्बन्ध में राजा का प्रश्न । मुनि का उत्तर—सोरठ देश, गिरिनगर, अतिबल राजा की पुत्री मनोहरी के रूप में । वही विजय पुरोहित के पुत्र कुबेरकांत के रूप में चम्पानरेश का जन्म, तथा धनवंत वणिक् के पुत्र श्रीधर के रूप में पद्मावती का । दोनों में मैत्री । श्रीधर का मुख-मालिन्य देखकर कुबेरकांत का प्रश्न । ४६८
२१. श्रीधर का उत्तर—तुम्हारी प्रिया का मणिक्बल देखकर मेरी प्रिया ईर्ष्यावश प्रासाद से गिरकर मरी । अपनी मित्राणी की मृत्यु के शोक से कुबेरकांत का भी मरण । कुबेरकांत का जाति-स्मरण । निर्गमन । ऊर्जयन्त पर्वत पर विद्या-धर से विप्रिया विद्या की प्राप्ति । ४६९

२२. राजप्रांगण में जाकर भलया नाम से नाच गान । देखकर मनोहरी का जाति-स्मरण । पूर्वजन्म का चित्रपट-दर्शन । पुरोहित व राजा को जानकारी । कुबेरकान्त और मनोहरी का विवाह । स्वयंवर में ध्राये अन्य नरेशों पर विद्याबल से विजय । ४६६
२३. विद्याबल से सोपारकपुर में राज्य । पत्नी सहित वज्रपात से मरण । भलकापुर के राजा चंडवेग के पुत्र विद्युन्माली रूप में जन्म । मनोहरी का जन्म मेघमाली विद्याधर की कन्या विरलवेगा के रूप में । ऊर्जयन्तशिखर को देख विद्युन्माली का जाति-स्मरण । प्रशान्ति विद्या की साधना । ४७०
२४. पवनवेगा विद्या को भेजकर विरलवेगा को जाति-स्मरण कराना । विवाह । हिमवत पर्वत पर विहार करते समय पूर्ववैरी द्वारा दोनों का बध । ४७०
२५. कौशल देश भयोध्यापुरी, सागरसेन वणिक्, धनश्री सेठानी, पुत्र सिद्धार्थ के रूप में विद्युन्माली का जन्म । राजगृह के सेठ समुद्रसेन की पुत्री श्रीकान्ता के रूप में विरलवेगा का जन्म । सिद्धार्थ और श्रीकान्ता का विवाह । विद्याधर युगल को देखकर जाति-स्मरण व प्रव्रज्या । शेष पूर्वोक्त जयवती के व्याघ्री होने पर्यन्त । ४७१
२६. सिद्धार्थ और सुकौशल का विहार करते उसी वन में आगमन व व्याघ्री द्वारा भक्षण । दोनों का सर्वाधिपति स्वर्ग में गमन । व्याघ्री का सुकौशल के हाथ के लक्षण देख जाति-स्मरण, आत्मनिन्दा, स्वर्गगमन । सुकौशल की पत्नियों का स्वर्गवास । गधमादन नरेश का पुत्र धाडीवाहन को राज्य दान व स्वयं जिन-दीक्षा ग्रहण, कैवल्य व पांडुक पर्वत पर निर्वाण । ४७२

संधि-४७

कडवक

- पृष्ठ
१. परीषह सहन पर गजकुमार कथा । भरतक्षेत्र, सोरठ देश, द्वारावतीपुरी, वसुदेव और गंधर्वदत्ता का पुत्र गजकुमार । पोदनपुर का वशीकरण । स्वच्छव विहार का वरदान । पंगुल सेठ की पत्नी मनोहरी पर आसक्ति । सेठ का आन्तरिक रोष । नमि तीर्थकर का आगमन । गजकुमार की दीक्षा । ऊर्जयन्त पर्वत पर ध्यान । पंगुले सेठ द्वारा भूमि पर सर्वांग फैलाकर लोहे के खिलो से कीलना । मुनि का वेदना सहकर स्वर्गवास । ४७३
२. परीषह-सहन पर सनत्कुमार चक्री-कथा । सोधर्म स्वर्ग । सुरेन्द्र सभा में संगम नामक देव का आगमन । असाधारण देहप्रभा के सम्बन्ध में देवों द्वारा प्रश्न । इन्द्र का उत्तर—पूर्वजन्म के तप का प्रभाव । प्रश्न—क्या नरलोक में अभी भी कोई ऐसा है ? उत्तर—हाँ, सनत्कुमार । जय और जयन्त देवों का अश्रुदान व ब्राह्मण वेष में परीक्षार्थ हस्तिनापुर आगमन । ४७३
३. उक्त देवों द्वारा चक्रवर्ती का दर्शन, अभिनन्दन व संतुष्ट होकर गमन की इच्छा । चक्री का स्नान-भूषण सहित आत्मप्रदर्शन का अभिमान । ४७४

५. देवों द्वारा इस रूप में तेजहीनता दर्शन । चक्री का वैराग्य व प्रव्रज्या । व्याधियों की उत्पत्ति । सर्वौषधि श्रद्धि होने पर भी उपचार की उपेक्षा । देव सभा में इन्द्र द्वारा परीषद्-सहन की स्तुति । ४७४
५. देवों का परीक्षाबंध वैद्यों के वेप में आगमन । व्याधिहरण का प्रस्ताव । मुनि द्वारा वैहिक व्याधियाँ नहीं किन्तु संसार रूप व्याधि के अपहरण की इच्छा । देवों द्वारा अपना असामर्थ्य प्रकट कर गमन । सनत्कुमार का कर्मक्षय व निर्वाण ४७५
६. परीषद् सहन पर एणिकापुत्र कथा । आनन्द नगर, आनन्द वणिक्, नन्दा सेठानी पद्यावती आदि सात सात पुत्रियाँ । सातवी पुत्री एणिका । सागरदत्त से विवाह । पुत्र एणिकापुत्र । वीरजिनेन्द्र का आगमन । अत्पायु कथन । मुनिदोषा । बिहार । गंगापार जाने हेतु नावारोहण । नौका डूबी । जल समाधि । मोक्ष । ४७५
७. भूज-प्यास परीषद् सहन पर भद्रबाहु कथा । पुण्ड्रवर्धन देश, देवीकोट्ट पुर, सोम-शर्मा ब्राह्मण । पुत्र भद्रबाहु । गोली क्रीडा । गोवर्धन मुनि का आगमन व भद्रबाहु द्वारा चौदह गोलियों को एक पर एक पक्तिबद्ध खड़ा करने के आश्चर्य का दर्शन । ४७६
८. मुनि द्वारा चतुर्दश पूर्व जाता अन्तिम श्रुत केवली होने का निमित्त ज्ञान । माता-पिता से अध्यापनार्थ माग । पढाकर गृह-प्रेषण । आकर मुनि दीक्षा । श्रुतरूपी समुद्र का पारगामी । ४७६
९. गोवर्धन गुरु का स्वर्गवास । भद्रबाहु संघपति । बिहार । उज्जैनी आगमन, शिप्रातट बास । राजा चन्द्रगुप्त द्वारा वन्दना । भिक्षा भ्रमण । पालना भूलते बालक द्वारा जाइये, जाइये, वाणी । बारह वर्ष दुभिक्ष का निमित्त ज्ञान व संघ को घोषणा । ४७६
१०. पूर्णायु होने से स्वयं न जाने का निर्णय व सघ को समुद्र के समीप-देश को जाने का आदेश । चन्द्रगुप्त नृप की दीक्षा । दशपूर्वी विशाखद्वीप का गण सहित द्रविड देश गमन । रामिल्ल, स्थूलभद्र, व स्थविर आचार्यों का अपने-अपने मुनि-सघो सहित सिन्धुदेश गमन । स्थविर समन्तभद्र का वृद्धत्व के कारण वन में निवास । केवल नवदीक्षित भद्रबाहु उनकी सेवा में । ४७७
११. लघु मुनि का भिक्षार्थ भ्रमण । वनदेवता द्वारा पङ्गाहन । आहार न लेकर गुरु से निर्वचन । ४७८
१२. गुरु द्वारा प्रशंसा । वनदेवी द्वारा माया नगर रचना । एक भवन में आहार । गुरु द्वारा अनुमोदन । गुरु का स्वर्गवास । लघुमुनि का निषद्या सेवन । ४७८
१३. सिंधु देश में दुभिक्ष । लोक-त्रास के कारण रात्रि में भिक्षा लेकर अपनी वसति में भोजन की श्रावको द्वारा मुनियों से प्रार्थना । आपत्कालीन स्वीकृति । ४७९
१४. एक मुनि का रात्रि में भिक्षार्थ भ्रमण । देखकर भयभीत श्राविका का गर्भपात । श्रावकों की निर्द्वन्द्व रूप त्यागकर वामस्कंध पर आधारित अर्धकालिक वस्त्र से शरीर व भिक्षापत्र ढककर दाहिने हाथ में दंड रखकर चर्चा की प्रार्थना । मुनियों की स्वीकृति । ४७९

१५. दुर्भिक्ष की समाप्ति पर अर्धफालिक त्याग का आदेश साधुओं द्वारा प्रमान्य । इस प्रकार जिनकल्प से दो भेद (जिन धीर स्वविर) । रामिल्ल ध्रावि ध्राचार्यों जिनकल्पियों सहित लौटना व लघु भद्रबाहु के समीप पहुँचना । पूर्व-वृत्तान्त कथन । समीपनगर की बात । ४७६
१६. संघ का मिसार्य नगर को गमन । भद्रबाहु पीछे होने से नगर लुप्त । ध्राये होने पर नगर प्रकट । आहार ग्रहण । लौटने पर मुनियों के पर कीचड़ से लिप्त, किन्तु भद्रबाहु को चतुरंगुल-शुद्धि प्राप्त । एक मुनि ध्रावक के घर कमंडल भूल आया । जाकर देखने पर कमंडल मिला, किन्तु नगर लुप्त । सबने लघु भद्रबाहु को शुद्धिसम्पन्न माना । ४८०
१७. लघु होने पर भी गुणों के कारण सब मुनियों द्वारा भद्रबाहु की प्रदक्षिणा । उज्जैनी में भी दुर्भिक्ष का अन्त व विशाख मुनि का पुनरागमन । नगर को मायापुरी जान लघु भद्रबाहु सहित सबका उज्जैनी गमन व भद्रबाहु श्रुतकेवली की निषथा की वन्दना । कुछ दिन रहकर सबका अन्यत्र प्रस्थान । ४८०
१८. उधर अर्धफालिक साधु सीराप्ट के बलभी नगर में पहुँचे । बधराय की रानी द्वारा सत्कार । राजा द्वारा न पूरे नग्न, न पूरे परिधान युक्त साधुओं की निन्दा । सबने श्वेत वस्त्र धारण किया । श्यामलौ पुत्र द्वारा जणुलिय (यापनीय) संघ की स्थापना । ४८१
१९. परीषह सहन पर इन्द्रवत्सावि बणिकों की कथा । कौशाम्बीपुर में इन्द्रवत्सादि बत्तीस बणिक । केवल ज्ञानी से ध्रायु का प्रश्न । सात दिन की ध्रायु जानकर वैराग्य, यमुना तट पर स्वाध्याय व प्रायोग्यमरण में रत । प्रतिवृष्टि । पूरे में सबका बहना । द्रह में पडकर भी अविचलित व स्वर्गवास । ४८१

सन्धि ४८

कबवक

पृष्ठ

१. तृषा परीषह सहन पर अर्धघोष मुनि की कथा । चम्पापुर में भट्टारक अर्धघोष । मात्स्यवास पश्चात् गिरिगुफा से आहारार्य निर्गमन । वन में मार्गभ्रष्ट । हरिततृण पर गमन निषिद्ध । गंगातट पर वृक्ष के नीचे आसन । गंगादेवी द्वारा सुवर्ण पात्र में जल अर्पण । मुनि द्वारा निषेध । देवी का पूर्वविवेह गमन व शंका निवारण । ४८२
२. प्रातिहार्य दर्शन । क्षीतल वायु धीर जलवृष्टि । साधु का शुक्ल ध्यान, केवल-ज्ञान । इन्द्रादि देवों का आगमन । साधु का मोक्षगमन । ४८३
३. परीषह सहन पर श्वित भट्टारक कथा । इलावर्धन नगर, जितशत्रु राजा, इलारानी, विनयवती धात्री, विकराल रूप । रानी की फाल्गुन अष्टाह्निक पूजा निमित्त गमन । धात्री का अमंगल रूप के कारण गमन निषिद्ध । उसकी आत्मनिन्दा व अष्टाह्निक उपवास । राजा का वापिस आगमन । दुर्बलता का कारण जानकर धात्री को वरदान । धात्री की अन्य आठ दिन जिन-पूजा की मांग । ४८४

४. राजावेश से पुनः अष्टाह्निक पूजा का उत्सव । धात्री का पुनः अष्टाह्निक उपवास । पारणा के दिन हिमवन्त पद्मद्रह निवासिनी श्रीदेवी का आकर धात्री की पूजा व पंचाशचर्यं । धात्री का निदान पूर्वक मरण व श्रीदेवी रूप में जन्म । लोगों को स्वप्न में दर्शन । ४८४
५. उद्यान में प्रतिमा स्थापित कर पूजा करने से सब इच्छाओं की पूर्ति का वरदान । श्रीदेवी के मंदिर की स्थापना व प्रतिमा की प्रतिष्ठा । सिद्धि दात्री की ख्याति । इलारानी की पुत्रोत्पत्ति की याचना । देवी द्वारा पूर्वविदेह गमन । ४८४
६. स्वयंभू तीर्थंकर से प्रश्न—इलादेवी के पुत्र होगा या नहीं ? उत्तर—होगा । श्री देवी द्वारा इलादेवी को स्वप्न में पुत्रोत्पत्ति की सूचना । गर्भ । पुत्रोत्पत्ति व श्रीदत्त नामकरण । नगर व माता तथा पृथिवी के नाम से इलावर्धन भी कहलाया । ४८५
७. साकेत नरेश की पुत्री अशुमती से विवाह । वधु के साथ एक विद्वान् शुक का आगमन । द्यूतक्रीड़ा में शुक द्वारा रानी का पक्षपात—रानी के जीतने पर दो और राजा के जीतने पर एक रेखा का भ्रंजन । राजा का कोप व प्रहार । राजा पर क्रोध सहित शुक की मृत्यु । वनदेवता के रूप में पुनर्जन्म । ४८५
८. मेघ विलय देखकर श्रीदत्त राजा का वैराग्य व मुनि-दीक्षा । एक विहारी होकर उनी नगर में आगमन । रात्रि में प्रतिमा योग । व्यन्तर का प्रचंड पवन द्वारा उपसर्ग । मुनि की निश्चलता । कैवल्य व मोक्ष प्राप्ति । ४८६
९. उष्ण परोषह सहन पर वृषभसेन मुनि कथा । उज्जैनी के राजा प्रद्योत का गज पकड़ने हेतु वनगमन । सवारी के हाथी का उन्मत्त हो राजा को लेकर पलायन । वृक्ष पकड़कर राजा का उद्धार व ग्राम में प्रवेश । कूप तट में वास । जिनदत्ता पनिहारी से पानी की याचना । ४८६
१०. पानी पिलाकर घर जाकर पिता को सूचना । पिता का जाकर राजा को घर लाना व आतिथ्य सत्कार । सेना का राजा की खोज में आगमन । राजा द्वारा जिनदत्ता की याचना । विवाह । महादेवी पद प्राप्ति । ४८७
११. राजा का हाथी पकड़ने बहिर्गमन । जिनदत्ता की वियोग-पीडा । अन्य रानियों द्वारा द्वेषपूर्वक भर्त्सना । ४८७
१२. क्रुद्ध होकर जिनदत्ता का एकान्तवास । राजा का आगमन । जिनदत्ता के कोप व ब्रह्मचर्यं व्रत की सूचना से राजा का खेद व उसका श्मशान में परित्याग । पुत्रोत्पत्ति । राजा का स्वप्न में दहाडते हुए श्वेत वृषभ का दर्शन व मंत्री से प्रश्न । ४८७
१३. स्वप्न का फल—पुत्रोत्पत्ति । अन्य रानियों का पुत्र-जनन अस्वीकार । जिनदत्ता की सम्भावना व गवेषणा । पुत्रोत्पत्ति जानकर माँ-बेटे का आनयन । उत्सव । वृषभसेन नामकरण । उल्कापात से राजा का वैराग्य व अष्टवर्षीय पुत्र के अभिषेक की इच्छा । ४८८
१४. मनुष्यों पर राज्य करने की पुत्र की अनिच्छा व स्वर्ग-मोक्ष राज्य की इच्छा । पिता सहित दीक्षा । एक विहारी होकर कौशाम्बी आगमन । दयावर्त गिरि पर

- भ्रातापन योग । भिक्षार्थं नगर मे जाने पर बुद्धदास वणिक् द्वारा भासन शिला को तपाना । मुनि का उस पर बैठकर ध्यान, कौबल्य-प्राप्ति और मोक्ष । ४८८
१५. परीषह सहन पर अग्निपुत्र कथा । कार्तिकपुर । राजा अग्नि । वीरमती रानी । बंधुमती भादि छह पुत्रिया । छहों का नदीश्वर उपवास । भाशीर्वादि लेने पिता के सम्मुख गमन । राजा की कनिष्ठ-पुत्री कृत्तिका पर भासक्ति । ४८९
१६. राजा का मंत्री-सामन्तों से प्रश्नोत्तर और कृत्तिका से विवाह । गर्भ । दोहला । पुत्र जन्म । नाम कार्तिकेय । दूसरी सन्तान पुत्री वीरश्री । रोहतक के राजा क्रीच से विवाह । ४८९
१७. कुमार की आयु चौदह वर्ष । वसन्तोत्सव मे कुमारो के मातामहो के उपहार । कार्तिकेय का अपने मातामह के सम्बन्ध मे माता से प्रश्न । पिता ही मातामह भी है, जानकर लज्जा । निर्गमन । क्रीच गिरि पर योग-साधन । वृष्टि से शरीर के मल का प्रक्षालन । द्रह् निर्माण, जिसमे स्नान से व्याधि-शान्ति की मान्यता । पुत्र वियोग के शोक मे कृत्तिका की मृत्यु । श्री पर्वत पर व्यन्तरी का जन्म । ४९०
१८. व्यन्तरी द्वारा कार्तिकेय की रक्षा । रोहतक भागमन । भगिनी द्वारा पहिचान व आहारदान । राजा से किसी की शिकायत । राजा का प्रहार व मुनि की मूर्च्छा । व्यन्तरी का आकर मूर्च्छित पुत्र का दर्शन । ४९०
१९. व्यन्तरी का रुदन । मुनि की चेतना तथा माता को द्वेष त्याग का सबोधन व शीतल स्थान मे ले जाने की याचना । ४९१
२०. व्यन्तरी द्वारा मोर बनकर व ऊपर बिठलाकर कपिल धारा पर ले जाना । वही मुनि का स्वर्गवास । उधर भगिनी का भ्राता के लिये शोक व स्नान-भोजन त्याग । ४९१
२१. राजा का पश्चात्ताप व रानी को प्रसन्न करने का प्रयत्न । बहुरूपिये द्वारा भ्राता का वेष धारण कर रानी को सात्वना । उसी दिन से भाउबीज (भाईदूज) की मान्यता । ४९१
२२. परीषह सहन पर अभयघोष मुनि कथा । चतुद्वारपुरी काकन्वी । अभयघोष राजा । क्रीडार्थ गमन । चारो पैरो से लटकते हुए कच्छप को लिये धीवर का दर्शन । चक्र द्वारा कच्छप के चारो पैरो का कर्तन । कच्छप का राजकुमार चंडवेग के रूप मे पुनर्जन्म । चन्द्रग्रहण देखकर राजा की मुनिदीक्षा । बिहार कर उसी नगर मे भागमन । सस्कार-बश पुत्र द्वारा मुनि के हाथ-पैरों का छेदन । वेदना सहन कर मुनि का मोक्ष । ४९२

संधि—४९

कहवक

पृष्ठ

१. बंशमशक परीषह पर विद्युच्चर मुनि कथा । मिथिलापुर पपरथ के वंश मे राजा वामरथ । रानी बंधुमती, यमदंड तलवर । विद्युच्चर चोर । दिन मे कोढ़ी के रूप मे । राजभवन से हार की चोरी । ४९३

२. आरक्षक द्वारा खोज । विद्युच्चर का बंधन । किन्तु उसका अपने को निरपराध बतलाना । ४६३
३. आरक्षक द्वारा घर ले जाकर नाना प्रकार से दंडित तथापि चोर का अपने को निरपराध ही घोषित करना । राजा द्वारा अभयदान दिये जाने पर अपराध स्वीकृत । ४६३
४. यमदंड की बतीस यातनाओं का सहने का कारण । पूछे जाने पर चोर ने कहा, वे मुनि के षचनानुसार नरक की यातनाओं से हीन हैं । राजा द्वारा एक वरदान । चोर द्वारा अपने मित्र तलवर के अपराध की क्षमा याचना । तलवर मित्र कैसे हुआ ? उत्तर । आभीरदेश में वेनातट नगर । ४६४
५. राजा जितशत्रु, रानी जिनमती । उन्ही का पुत्र मैं विद्युच्चर । वही यमपाश तलवर का पुत्र यही यमदंड मेरा मित्र । साथ अध्ययन—मेरा विषय चौरशास्त्र, यमदंड का तलवर शास्त्र । परस्पर एक दूसरे के समीप रहने की प्रतिज्ञा । राजा की मृत्यु । ४६४
६. मैं राजा और यह कोटपाल । चोर और रक्षक के कर्तव्य में वैषम्य देख यमदंड का इधर आगमन । मेरा भी इसकी खोज में यहा आगमन व इसकी बुद्धि की परीक्षा । चोरी के घन की वापिसी । भगिनीपुत्र जानकर राजकन्या महालक्ष्मी से विवाह का प्रस्ताव । विद्युच्चर की भस्वीकृति । ४६५
७. विद्युच्चर की राजधानी से राजपुरुष का आगमन । वापिस चलने का प्रस्ताव । वामरथ नरेश की आज्ञा व कोटपाल को लेकर स्वतन्त्र आगमन । पुत्र को राज्य दान । दीक्षा ग्रहण । विहार । ताप्रलिप्ति आगमन । ४६५
८. दुर्गादेवी द्वारा दुर्गात्सव के समय संघ के पुर प्रवेश का निवारण । उपेक्षा । पुर प्रवेश । निशाचर भूत योगिनियों आदि द्वारा घोर उपसर्ग । दशमशको द्वारा शरीर-भक्षण । अन्य मुनियों का पलायन । विद्युच्चर का परीषह सहन व मोक्ष । ४६५
९. परीषह सहन पर गजकुमार कथा । भरतक्षेत्र, श्रावस्तीपुर इक्ष्वाकुवंशी उपरिचर नरेश । पद्मावती रानी, अनन्तवीर्यादि पांच सौ पुत्र । वसतोत्सव, उद्यान गमन । रानियों सहित जलक्रीड़ा । ४६६
१०. विद्युच्छ्रु खेचर का आगमन । विद्याधरी द्वारा राजा की प्रशंसा । खेचर की ईर्ष्या । विद्याधरी को घर पहुँचाकर पुनरागमन तथा बड़ी शिला से वापी का ऋषन । राजा मरकर सर्प हुआ । रानियों का स्वर्गवास । उसी वन में सारस्वत साधु का आगमन । ४६६
११. अनन्तवीर नरेश की साधुवन्दना व पिता के सम्बन्ध में प्रश्न । गुरु का यथार्थ कथन । पुत्र का मुनिवचनानुसार सर्प को सबोधन, मुनि समीप आगमन, जाति-स्मरण । ४६७
१२. श्लपाधु जान सर्प का सन्यास-ग्रहण । नागकुमार के रूप में पुनर्जन्म व घाकर मुनि-वन्दन । अनन्तवीर्य का तपग्रहण व मोक्ष । नागकुमार का वन्दनार्थ

- भेरगिरि गमन व विद्युदंष्ट्र का वध । विद्युदंष्ट्र नगर से निकलकर तोणिमंत पर्वत पर व्याघ्र हुआ । सर्प मरकर कुरुवंशी विजयदत्त नरेश का पुत्र गुरुदत्त हुआ । ४६७
१३. राजा की दीक्षा, गजकुमार का राज्य । लाटदेश के तोणिमंत पर्वत की पूर्वोत्तर चन्द्रपुरी का राजा यादववंशी चन्द्रकीर्ति, रानी चन्द्रलेखा, सात पुत्रियाँ । सर्व लघु अभयमती । उसके निमित्त गुरुदत्त का धाक्रमण । ४६८
१४. भीषण युद्ध । चक्र से छिन्न एक सामन्त का हस्त पत्नी द्वारा अपहृत व प्रासाद पर अभयमती राज्यकन्या के समक्ष पतित । धात्री द्वारा उसी के निमित्त धीर संग्राम की सूचना । ४६८
१५. अभयमती का पिता को सन्देश कि उसके के निमित्त यह भट-संहार करना उचित नहीं । गुरुदत्त से विवाह । तोणिमंत पर्वत पर व्याघ्र के उपद्रवों की सूचना । गुरुदत्त द्वारा व्याघ्र को घेरना । ४६९
१६. जनसमूह को देख व्याघ्र का गुफा प्रवेश । तृण काष्ठ एकत्र कर अग्नि द्वारा व्याघ्र का नाश । विश्वदेवद्विज के पुत्र कपिल के रूप में व्याघ्र का पुनर्जन्म । गुरुदत्त का स्वनगर गमन । सुवर्णभद्र पुत्र की उत्पत्ति । धर्मताम्र मुनि का आगमन । राजा का वन्दनार्थ गमन । धर्मोपदेश व पूर्वजन्म कथन—उपरिचर, सर्प, नागकुमार और गुरुदत्त । ४६९
१७. अभयमती के पूर्वजन्म । चन्द्रपुरी के प्रधान पारधी ग-उवेग की पत्नी गोमती । हिंसा व मधु-मांस त्याग का व्रत । पति का तीतरी पकड़कर लाना, पत्नी द्वारा मोचन । पति का रोष । पत्नी का निदान पूर्वक वापी में डूबकर आत्मघात । चन्द्रलेखा रानी की पुत्री अभयमती के रूप में पुनर्जन्म । ४६९
१८. अभयमती और गुरुदत्त की दीक्षा । मुनि का चन्द्रपुरी आगमन व कपिल के श्वेत के समीप निवास । कपिल का मुनि को श्वेत सम्बन्धी सन्देश । मुनि की उपेक्षा । भोजन लेकर आयी पत्नी के प्रश्न पर मौन । पत्नी का वापिस जाना । कपिल का घर आकर रोष । ४७०
१९. मुनि द्वारा पता न देने पर कपिल का मुनि के शरीर व सिर पर अग्निदाह । मुनि को वेदना सहकर कैवल्य प्राप्ति । कपिल का पूर्वभव सुनकर तप-ग्रहण । ४७०
२०. कौकिल देश के वन में अग्नि से दाह व अच्युत स्वर्गवास । आग लगाने वाले तुंगभट का पश्चात्ताप व अग्नि प्रवेश, देव व श्वेतहस्ती का जन्म । अच्युत देव द्वारा संबोधन, पूर्वभव स्मरण, दावानल में दहन । ४७१
२१. राजगृह में श्रेणिकराजा की पत्नी घनश्री के गर्भ में भ्रवतरण । नाग का स्वप्न । गजपर बैठकर वनक्रीडार्थ गमन का दोहला । अभयकुमार द्वारा दोहला पूर्ति । पुत्र गजकुमार की उत्पत्ति । यौवन । धर्मसेवन । ४७२
२२. महावीर तीर्थकर का आगमन । धर्मश्रवण व कुमार का दीक्षा-ग्रहण । कर्लिग देश में बन्तीपुर गमन । भव्यों का वन्दन । बुद्धदास मंत्री द्वारा राजा को द्वेष-पूर्ण सूचना । ४७२

२३. मुनि के वातरोग का निवारण कैसे हो ? ऐसा राजा के पृच्छने पर आसन शिला को तपाने का मुभाव । भिक्षा के पश्चात् शिला पर मुनि का आसन, वेदना सहन व मोक्ष । देवागमन । बुद्धदास की जिनभक्ति । राजा की प्रव्रज्या । ५०२

संधि-५०

कहवक

पृष्ठ

१. परीषह सहन पर चिलातपुत्र कथा । मगध विषय के गुणहिल वणिक् ने वन मे मुनि को तिलगुड का आहार दिया । फलस्वरूप हेमवत द्वीप की भोगभूमि मे, स्वर्ग मे श्रीर फिर मगध देश, राजगृह नगर के राजा श्रेणिक के चिलातपुत्र नामक पुत्र के रूप मे जन्म । राजा का उज्जैन के प्रद्योत नरेश को बांधकर लाने हेतु उदयन कुमार को प्रेषण । ५०४
२. गौर उरगपुर के राजा अदायन का रण मे प्रद्योत द्वारा बधन । विजय नामक राजपुत्र द्वारा छल से मोचन । प्रद्योत का आक्रमण । श्रेणिक की प्रद्योत को पकड़कर लाने वाले को यथेच्छ वरदान की घोषणा । चिलातपुत्र द्वारा बांधकर आनयन । नगर मे स्वच्छद विहार का वरदान प्राप्त । राजा का तप व चिलातपुत्र का राज्य । ५०४
३. अन्ध्या से प्रजा का प्रास । मंत्रियों द्वारा काचीपुर से श्रेणिक का आनयन व चिलातपुत्र का निष्कासन । राज्यभ्रष्ट होकर वन मे कोट बनाकर निवास व चौरवृत्ति । भद्रामित्र की सहायता से मामा की सुभद्रा नामक पुत्री का बलपूर्वक अपहरण । ५०५
४. वार्ता सुनकर श्रेणिक का असैन्य अनुधावन । चिलातपुत्र का पराजय । उसके द्वारा कुमारी का घात । उसी वन मे अन्तरी के रूप मे पुनर्जन्म । चिलातपुत्र का वैभार पर्वत पर मुनि-दर्शन । ५०५
५. मुनि का उपदेश । तप-ग्रहण । श्रेणिक द्वारा आकर दर्शन व पूजा-अर्चा । अन्तरी का काकी के रूप मे आकर सिर पर बैठकर नेत्र अपकर्षण व सर्व-शरीर-छेदन । वेदना सहकर सर्वार्थसिद्धि स्वर्गगमन । ५०५
६. परीषह सहन पर धन्यकुमार कथा । पूर्वविदेह, वीतशोक नगर, अशोक राजा । कृषि कार्य । धान्य की मडाई के बैलो के मुख पर बधन । रसोई करने वाली नारियों के स्तन बधन, जिससे बालको को दूध पिलाने मे कालहरण न हो । राजा को मुख का रोग । वैद्य की औषधि । मुनि आगमन, राजा का आहार दान । ५०६
७. राजा के रोग का विनाश । पुनर्जन्म आमलकठ के नृप अरिष्टनेत्र के पुत्र धन्यकुमार के रूप में । गुणानुसार अन्ध नाम दमदत्त, जितशत्रु, बहुवीर्य व अपराजित । सुबुद्धि मंत्री केवल धन्यकुमार नाम से पुकारता । कुमार का प्रश्न । मंत्री का समुचित उत्तर । ५०६
८. दमदत्तादि नाम मुनियों को उचित, राजकुमार को नहीं । मुनि होने का निश्चय । मंत्री की सम्मति नेमीश्वर का आगमन । ५०७

६. मुनि-दीक्षा । आहार की अप्राप्ति अथवा वमन । सौतेली माता द्वारा भ्रूषधि-उपचार से रोग-निवारण । शौरीपुर आगमन व यमुनातट निवास । यमुनावक्त्र राजा का शिकार को गमन व मुनि दर्शन का अपसकुन मानकर बाण-वेधन । वेदना सहकर मुनि का मोक्ष । उस स्थान पर अब भी सिद्धक्षेत्र रूप तीर्थ । ५०७
१०. परीषह सहन पर अभिनन्दनादि पाँच सौ मुनियों की कथा । दक्षिण देश, कुम्भकारक पट्टन, दडक राजा, सुव्रता रानी, पालक मंत्री । अभिनन्दनादि पाँच सौ मुनियों का आगमन । एक मुनि द्वारा वाद में मंत्री का पराजय । मंत्री ने रानी के सम्बन्ध से राजा को रुष्ट कर समस्त मुनियों को यत्र में पिलवाया । समाधि से मरकर मुनियों का स्वर्गवास तथा मंत्री और राजा का नरकवास । ५०८
११. परीषह सहन पर आरण्य मुनि कथा । कुमुमपुर, नन्दराजा, सुव्रता रानी, कावि, सुबधु, शकटाल और कपिलसुत चाणक्य मंत्री । सीमावर्ती राजाओं का क्षोभ । कावि मंत्री द्वारा एक लाख सुवर्ण के वार्षिक दान पर संधि । राजकोष का क्षय । ५०८
१२. राजा द्वारा काविमंत्री का सकुटुम्ब अधकूप में क्षेपण व एक शराव अन्न का प्रतिदिन दान । केवल कावि द्वारा प्रतिशोधनिमित्त भक्षण व जीवनधारण । विशेष ज्ञानी मंत्री से रहित जान राज्य पर दस्यु दल का आक्रमण । ५०९
१३. मनाकर कावि का कूप से उद्धार । वरदान । दर्ममूल खोदते हुए चाणक्य से भेट । ५०९
१४. चाणक्य को पैर में चभने वाले दर्भों को निर्मूल नष्ट करने में दुर्घ-सकल्प देख, उसके द्वारा नन्दराजा के कुलक्षय की समावना से कावि की मैत्री । परीक्षा निमंत्रण । रात्रि में सहस्र द्रम्म का दान । ५०९
१५. कावि का नन्द को इन्द्रपद प्राप्ति हेतु एक लाख गौधों के दान का उपदेश । ब्राह्मणों का सम्मेलन । चाणक्य का प्रधानासन ग्रहण व उपकरणों से अग्न्य आसनो का अवरोधन । राजा द्वारा आसन से ज्युत कराया जाना । ५१०
१६. रोष । निष्कासन । नन्दवश के उच्छेद की प्रतिज्ञा । चन्द्रगुप्त से मेल । जलधि मध्य निवास । वनराज सिंह को सूचना व आनयन । मन्त्रणा, भट संचय व नन्द के किकरो का भेद । ५११
१७. नन्द का वध व चन्द्रगुप्त का अभिषेक । चाणक्य मंत्री । मतिवर मुनि से दीक्षा । सघाधिपतित्व । पाँच सौ शिष्यों सहित दक्षिण देश में वनवास गमन । क्रौंचपुर के पश्चिम में निवास । राजा व सुमित्र की वन्दना । ५११
१८. नन्द का मंत्री सुबधु भी राजा के साथ । चाणक्य को देख द्वेष । मारने का निश्चय । प्रत्यागमन । संध्या को सब ऋषियों को करीष से पूर कर अग्नि प्रज्वालन । समाधिपूर्वक मरण । आज भी वहाँ निषद्या की पूजा । ५११
१९. परीषह सहन पर ऋषभसेन मुनि कथा—दक्षिणापथ, आंध्रदेश, कुणालपट्टन, वैश्रवण राजा, ऋद्धिमिथ्यात्व मंत्री । ऋषभसेन मुनि का आगमन । राजा की वन्दना । मंत्री द्वारा द्वेष से वाद । मुनि द्वारा पराजय । रात्रि में वसही का अग्निदाह । मुनियों का स्वर्गवास । ५१२

संघि-५१

कहवक

पृष्ठ

१. प्रत्याख्यान के प्रसङ्ग पालन पर श्रीपाल कथा—बिन्नाट देश, तलाटबी पुर, शिवारि राजा, श्रीमती रानी, शल्यपति मन्त्री, पत्नी श्रीदेवी । श्रीपाल कुमार । भ्राषाड शुक्ला चतुर्थी के अपरान्ह मे गुरु समीप पंचमी व्रत-ग्रहण हेतु गमन । गुरु वन्दना । ५१३
२. माता द्वारा व्रत-ग्रहण देख श्रीपाल का भी व्रत-ग्रहण । माता की हास्य पूर्वक स्वीकृति । बालक का भोजन निषेध । ५१३
३. सायकाल कुमार की तुषा वेदना । गवाक्षजाल से प्रकाश दिखला कर सूर्योदय भ्रान्ति का प्रयत्न । किन्तु कुमार की दृढ़ता । ५१४
४. गणी को बुलाकर सूर्योदय का साक्ष्य । तथापि कुमार की व्रत-निष्ठा । दुस्सह शरीरदाह । मरण । स्वर्गवास । ५१४
५. उच्छिष्ट भक्षण व प्रायश्चित्त पर राजपुत्र कथानक—दक्षिण देश, किशुकपत्तन पुर, विजयादित्य राजा, नर्मवादी वणीन्द्र । दुर्भिक्ष । भोजन के समय एक क्षत्रिय युवक का आगमन व उच्छिष्ट भक्षण । मेठ द्वारा विधिवत् भोजन का आग्रहण । ५१५
६. यथेच्छ भोजन, ताम्बूल ग्रहण, बहिर्गमन । उच्छिष्ट भोजन पर घृणा व छुरी से उदर विदारण । श्रावक का आगमन व सबोधन । समाधि पूर्वक मरण व स्वर्ग-गमन । ५१५
७. आहारगृष्टि पर शालिसिन्धु कथा—स्वयभूरमण समुद्र, तिमिगिल महामत्स्य, धम्मास-भक्षी, धम्मासशायी । मुख मे कच्छप मत्स्य आदि जीवो का आवागमन । उसके मल से उत्पन्न कर्णगोचर शालिसिन्धु मत्स्य का दुश्चिन्तन—यह महामत्स्य मूर्ख है । यदि मेरा इतना बडा मुख होता तो एक भी जीव बचकर न जाता । ५१५
८. इस दुर्भाव के कारण शालिसिन्धु सप्तम नरक गया व तिमिगिल भी । भोजन की लोचुपता से दुर्गति पर सुभौम चक्रवर्ती की कथा । भोजन प्रसंग से सूषकार का वध । उसका समुद्र पर राक्षस रूप मे जन्म । जाति-स्मरण । फलो द्वारा राजा का प्रलोभन व समुद्र मे लाकर वध । ५१६
९. संसार की अनिष्टकारिता पर धनदेव कथा । उज्जैनी की वेदया वसन्त-तिलका । सुदत्त सेठ से प्रेम । गर्भिणी और व्याधिग्रस्त । प्रेमी द्वारा त्याग । शिशु-युगल का जन्म । भोगविघ्नकारी सन्तान पर माता का रोष । ५१६
१०. शिशुभो का त्याग । पुत्री का दक्षिण दिशा मे । मुकेतु सार्धवाह द्वारा ग्रहण व कमला नामकरण । पुत्र उत्तर दिशा मे । साकेत के सुभद्र सार्धवाह द्वारा ग्रहण । ५१७
११. पुत्र का नामकरण धनदेव । कमला और धनदेव का विवाह । धनदेव का वाणिज्यार्थ उज्जैनी आगमन । वसन्ततिलका से भोग विलास । साकेत मे कमला की वियोग-पीड़ा । ५१७
१२. मुनि का आगमन । कमला की वन्दना व पति के विषय मे प्रश्न । मुनि द्वारा वास्तविकता का कथन । ५१८

१३. मुनि द्वारा वसन्ततिलका का पूर्व जन्म मे बाप व इस जन्म मे माता होने का वृत्तान्त । उज्जैनी के सोमशर्मा और काश्यपी पति-पत्नी । अग्निभूति और सोमभूति पुत्रो सहित दो मुनियों का दर्शन । आर्यिकाओं के प्रणाम पर उपहास । ५१८
१४. सोमशर्मा का वसतसेना की पुत्री वसन्ततिलका के रूप मे पुनर्जन्म व दोनो पुत्रों का उसके युगल पुत्र-पुत्री के रूप मे जन्म । पूर्ववत् वृत्तान्त । धनदेव से वसन्त-तिलका को पुत्र जन्म । ५१८
१५. कमला का क्षुत्सिका-व्रत-ग्रहण व उज्जैनी गमन । वसन्ततिलका के पुत्र का पति भ्राता, भ्रातृ-पुत्र, सौत पुत्र व भ्राता कहकर संबोधन । वसन्तसेना ने सुनकर मर्म पूछा । ५१९
१६. कमला द्वारा वृत्तान्त कथन । सुनकर वसन्ततिलका का जाति-स्मरण व आत्म-निन्दा और धनदेव सहित तप-ग्रहण । ५१९

संधि—५२

कहवक

पृष्ठ

१. कर्मफल की प्रबलता पर सुभोग नृप कथा—विदेह देश, मिथिला नगर, सुभोग नृप, मनोरमा रानी, देवरति पुत्र, मुनि आगमन । लोक-वन्दना । मिथिलेश के आगामी भव का प्रश्न व उत्तर । आज से सातवे दिन आघात से मरण और घर के पीछे काले सिर-कीट के रूप मे पुनर्जन्म । ५२१
२. तथा आज पुर-प्रवेश के समय मुल्ल मे मलपात व श्वान दर्शन तथा घोड़ी के किञ्चोर का जन्म होना । राजा का मुनि-वचन मे अविश्वास । यथादिष्ट घटनायें । पुत्र को कीटक का जन्म होने पर मार डालने का आदेश । भयपूर्वक जलगृह मे प्रवेश । सातवें दिन अशनिपात से मरण व कीटोत्पत्ति । पुत्र द्वारा मारने का प्रयत्न करने पर बिल-प्रवेश । ५२१
३. जीव जिस गति मे जाता है, उसी मे रति करने लगता है । यह विचार कर देवरति का वैराग्य । संसार के झूठे नातों पर सुकौशल स्वामी के चरित्र का संकेत । ५२१
४. नातों के विपरिवर्तन पर सुदृष्टि अलसकुमार कथा—उज्जैनी, प्रजापाल नृप, सुदृष्टि सुनार । विमला पत्नी का शिष्य से कुत्सित संबंध । पति द्वारा निन्दा । पत्नी का रोष । शयन के समय वक्र नामक शिष्य द्वारा बध । पति द्रोहिणी पत्नी के गर्भ मे दास । जन्म । अलसकुमार द्वारा हार की सन्हाल । राजा के पूछने पर अपने पूर्वजन्म का वृत्तान्त । सुनकर राजा का वैराग्य । अलसकुमार की प्रब्रज्या । शौरीपुर बिहार । उत्तर दिशा मे यमुना तट पर निर्वाण । जाति-विपरिवर्तन पर अग्निभूति-मरुभूति कथा की सूचना । ५२३
६. व्रतभंग पर धर्मसिंह मुनि की कथा—कौशलपुर, धर्मसिंह राजा दक्षिणदेश, कोल्लगिरि, वीरसेन राजा, चन्द्र राजपुत्र व चन्द्रश्री राजकन्या । धर्मसिंह से विवाह । धर्मश्रवण व दमवर मुनि से दीक्षा । चन्द्रश्री की वियोग-पीड़ा । ५२३
७. चन्द्रश्री की अवस्था देखकर उससे पिता द्वारा धर्मसेन को तप छुड़ाकर, पुनः गृह मे आनयन । पुनः दीक्षा, पुनः आनयन, अनेक बार । अन्तिम बार मुनि का घर

- से पलायन व बंड का अनुधावन । मुनि का मृत हस्ती के शरीर में प्रवेश व रत्नत्रय स्मरण सहित स्वर्गवास । ५२५
८. वतभंग पर ऋषभसेन मुनि कथा—कुसुमपुर, ऋषभदत्त वशीन्द्र ऋषभसेन पुत्र, धनपति वणिक् की पुत्री धनश्री के विवाह । तप-ग्रहण । धनश्री का दुःख । पिता द्वारा बलपूर्वक मुनि का गृह में आनयन । ५२५
९. ऋषभसेन की पुत्र प्रव्रज्या, पुत्र आनयन, बारंबार । आलोचना पूर्वक ध्वास निरोध द्वारा मरण । स्वर्गवास । ५२६
१०. आत्मघात द्वारा संघ रक्षा पर जयसेन नृप कथा—श्रावस्तीपुर, जयसेन राजा, बौद्ध राजगुरु बुद्धसेन । मुनि आगमन, राजा का धर्म-श्रवण व ध्रावक होना । बुद्धसेन का कोप व राजा के वध का उपाय । ५२६
११. पृथ्वीपुर के बौद्ध राजा सुमति का बौद्धधर्म पुत्र ग्रहण का संदेश । जयसेन का अस्वीकरण । सुमति का रोष । सहल भट्टी के नायक प्रचल का प्रेषण । ब्राह्मण वेष में पुर-निवास व राजा के वध का उपाय-चिन्तन । अभिसार नामक भट्ट द्वारा वध का भार-ग्रहण । उपामक वेष ग्रहण व मुनि में तपश्चरण की याचना । ५२७
१२. तप-ग्रहण । राजा का आगमन । मुनि से एकान्त में वार्ता । अभिसार द्वारा छिपकर राजा का वध व पलायन । मुनिसंघ के नायक की चिन्ता । ५२७
१३. यह कुकर्म हमने नहीं, अभिसार ने किया, किन्तु उपद्रव निवारण हेतु मैं अपने प्राण अर्पण करता हूँ, ऐसा भित्ति पर शिखर से लिखकर छुरी से उदर-विदारण द्वारा प्राणत्याग व स्वर्गवास । कुमार का क्षोभ । उक्त वाक्य पढ़कर उपशमन, सूरि चरित्र का अभिनन्दन व आत्म निन्दा । ५२८

संधि-५३

- कडवक ५७८
१. शास्त्र विधि से मरण कर स्वर्गवास पर शकटाल मुनि कथा—वत्स देश, कौशाम्बी पुरी, सुभूति ब्राह्मण, कपिला ब्राह्मणी, अप्पर और उक्पर नामक दो पुत्र । ५२९
२. ज्येष्ठ पुत्र मूर्ख, कनिष्ठ वेद-वेदांग ज्ञाता । ज्येष्ठ पत्नी सुमित्रा, कनिष्ठ-पत्नी सुप्रभा । सुप्रभा द्वारा मूर्खपुत्र ग्रहण व उद्यमन । अमावस्य के दिन ज्येष्ठ को अति-मूर्ख समझ काला बैल, काले वस्त्राभूषण आदि वस्तुओं का दान । गृहागमन व पत्नी की भर्त्सना । विप्र मन से वनगमन । देवता की वन्दना । पांडित्य का वरदान । गृहागमन । ५२९
३. अश्वापक षट् प्राप्ति । प्रसिद्धि । समीपवर्ती ग्राम में नरशचि, नमुचि, बृहस्पति और इन्द्रवत्त का आगमन व अप्पर गुह से अध्ययन । विशापाारगामी होकर सहस्र गौधों की शुद्धशिष्या हेतु कुसुमपुर के राजा नन्द के समीप गमन । ५३०
४. उसी समय नन्द की मृत्यु । नमुचि का नन्द के शरीर में प्रवेश । राज्यपद । शुद्धशिष्या प्रेषित । स्वयं शिष्यों के न जाने से गुह का रोष चारों को शाप । नमुचि को मख से विटलकर कुलहीनता, वरशचि को अशुभ, बृहस्पति को तनुशोष व इन्द्रवत्त को महाग्रहदोष का । ५३०

५. शकटाल मंत्री द्वारा छल से स्वामी नन्द के वेष में नमुचि) को मद्यपान । रोष से सकुटुम्ब कूप में प्रक्षेप । सागरदत्त की पत्नी सुभद्रा पर मोहित होकर एक भूत का सेठ के वेष में गृह-प्रवेश । विवाद । निर्णय में सबका असमासम्भ्यं । ५३१
६. राजसभा में विवाद । शकटाल का स्मरण । कूप से निष्कासन । पिशाच की पहिचान व मन्त्र से निराकरण । राजा द्वारा पुनः अधिकार प्रदान । एक दिन राजा द्वारा वररुचि को श्लोक का चतुर्थ चरण देकर प्रथम तीन चरणों की पूर्ति की समस्या प्रदान । ५३२
७. वररुचि द्वारा समस्या-पूर्ति । अन्य भी काव्य रचना । राजा की प्रसन्नता व संगति । शकटाल की ईर्ष्या । रानी से सबघ बताकर राजा को उत्तेजित करना वररुचि को प्राणदण्ड । ५३२
८. धारक्षी द्वारा विद्वान् जानकर वररुचि का मोचन व राजा को वररुचि को प्राणदण्ड दे देने की असत्य सूचना । वररुचि का पलाशकूट ग्राम में छिपकर निवास । अश्व द्वारा राजपुत्र सुनन्द का अपहरण व वन में मोचन । रात्रि में रक्षार्थं वृक्षारोहण । व्याघ्र के भय से रीछ का आकर उसी वृक्ष पर वास व राजकुमार को आशवासन । व्याघ्र का बही आगमन । ५३३
९. व्याघ्र की क्षुधाशान्ति निमित्त रीछ से मनुष्य को नीचे गिराने की याचना । रीछ द्वारा शरणागत के घात का निषेध । दूसरे प्रहर रीछ के सोने व कुमार के जाने की बारी । व्याघ्र द्वारा कुमार से रीछ को गिराने की याचना । ५३३
१०. कुमार द्वारा निषेध । व्याघ्र का आग्रह व भय की सूचना । कुमार द्वारा रीछ को गिराना । शास्त्राग्रे में उलभने से रीछ की रक्षा । रीछ द्वारा राजपुत्र को शाप-उन्ने वा ते' आदि दश अक्षरों को छोड़ अन्य भाषणशक्ति व बुद्धि का नाश एवं शापमोचन का वरदान । ५३४
११. राजकुमार का गृहाममन व केवल उक्त दश अक्षरों का उच्चारण । अर्थज्ञाता का अभाव । राजा का पलाशकूट ग्राम पर रोष व ग्राम-वासियों को नभस्तल में चलते हुए जल को लाने का आदेश । ग्रामीणों की चिन्ता । वररुचि द्वारा अश्व जल से भरे घट भिजवाना । ग्राम में विदेशी विद्वान् की सूचना । ५३४
१२. राजा ने नृपकूप मगाया व अन्य असंभव कार्यों का आदेश दिया व यथोचित प्रत्युत्तर पाया । विलक्षण रीति से उस विदेशी विद्वान् को आकर राजा से मिलने का आदेश और वररुचि द्वारा पालन । राजपुत्र द्वारा उच्चारित अक्षरों का वररुचि द्वारा यथोचित प्रर्थ व आत्म-परिचय । कुमार का स्वास्थ्य-लाभ व वररुचि का पूर्ववत् पद-ग्रहण । ५३४
१३. तीनों की शाप मुक्ति व स्वपद-प्राप्ति । महापद्म मुनि का आगमन । शकटाल की दीक्षा । बिहार । पुनरागमन । वररुचि द्वारा पूर्व वैर के कारण प्रपञ्च से राजा को रोषोत्पादन । ५३६
१४. शकटाल का छुरी से उदर-विदारण व समाधिपूर्वक मरण कर स्वर्ग गमन । यथार्थं बात जानकर राजा द्वारा वररुचि को निर्वासन । महापद्म मुनि से वीक्षा । ५३६

मुनि-तिरिचंद-विरहयउ

कहकोसु

मुणि-सिरिचंद-विरड्यउ

कहकोसु

संघि १

१

ॐ नम परावेवि चित्तं थवेवि नट्टुटादसदोसु ।
लोयत्तयवदु देउ जिगोदु आहासमि कहकोसु ॥

परावेप्पिणु जिणु मुविसुद्धमइ	चित्तइ मणि मुणि सिरिचदु कह ।	
ससारि अमारु सव्वु अथिरु	पियपुत्तमित्त मायातिमिरु ।	
सपय पुणु सपहे अणुहरइ	खणि दीसइ खणि पुणु ओसरइ ।	५
मुविणयममु पेम्मु विलासविहि	देहु वि खणिभंगुरु दुक्खणिहि ।	
जोव्वणु गिरिवाहिणिवेयगउ	लायणु वणु करसलिलसउ ।	
जीविउ जलबुब्बुयफेणणिहु	हरिजालु व रज्जु अवज्जगिहु ।	
अवरु वि ज विः पि वि अत्थि जणं	त त छाहि व्व पलाइ खणे ।	
इदियसुहु मोक्खाभामु फुडु	जइ ण तो मेवइ कि ण पडु ।	१०

घत्ता—इय जाणिवि णिच्चु सव्वु अणिच्चु मणु विसएमु ण खचिउ ।
जे दाणु ण दिणु णउ तउ चिणु तेणप्पाणउ वचिउ ॥ १ ॥

२

बहुदुक्खेणज्जिउ छलिवि जणु	मुयमणयहो पउ वि ण जाइ धणु ।	
बधवयणु लज्जइ णोसरइ	सुहु सत्थभूउ तामणुसरइ ।	
सहभूउ सया जो पोमियउ	सो देहु वि दुज्जणविलमियउ ।	
णउ जाइ समउ ता केम वरु	वमुपुत्तकलत्तबधुणियरु ।	
अणुगमइ सुहासुहु केवलउ	परभवपाहुणयहो सबलउ ।	५
वावारु करइ सव्वाण कए	अणुहवइ दुक्खु पर एककु जए ।	
पच्छा साइज्जइ भाइयहिं	धणु पुत्तकलत्तहिं दाइयहिं ।	
ण णियंति णियतअयाणमणा	परपुरिमु पलोयइ सव वियणा ।	

घत्ता—इय बुज्जिवि पत्ते पुण्णपवित्तं दिज्जइ सइं विलसिज्जइ ।
एत्तिउ फलु अत्थे जणियाणत्थे ज दुत्थियणि वइज्जइ ॥ २ ॥ १०

३

बीहृत्थहो खलु खयभावियहो
 कयघराहु सरीरहो एउ फलु
 गउ जिह रयरायरम्मि रयणु
 बहुजोगिसहासु भमंतु जिउ
 नडु नावइ नाराणरुवधरु
 जुयसविलानाएँ कह व पुणु
 अहखल्लविल्लजोएण जण
 पवणाहउ पत्तु भमंतु जिह

दुग्घसहावहो तावियहो ।
 ज किज्जइ सजमु वउ विमलु ।
 दुल्लहु मणुयत्तणु तिह जि गणु ।
 चिरु दुक्खसयाइँ सहतु थिउ ।
 बहुभेयारोयकसायकरु । ५
 अणुसरइ सरीरी मणुयतणु ।
 पावइ मणुयत्तणु पावखणु ।
 त ठाणु लहइ मणुयत्तु तिह ।

घत्ता— पत्ते वि पवित्ते फुडु मणुयत्ते देसु वसु वउ सोहणु ।

नउ नीरोयत्तु पावइ वित्तु सुयणसगु सबोहणु ॥ ३ ॥ १०

४

अह एत्तिउ सवराणगहणु लहइ
 अन्नाणु कुमग्गे सचरइ
 आवज्जइ दुक्किउ दुग्गइहे
 इय भाविवि पाविवि मणुयभउ
 गिणरु गु [रुव-] बुद्धिलद्धोववउ
 नीसेसहु कम्महो करिवि खउ
 तउ लेवि निवारिउ जेण मणु
 विणु भाणाज्जभयणाहिँ सासुगइ
 कि तवेण परस्सुमु जामु मणु

तो ऊहापोहु न सभवइ ।
 गुरुउवइट्टउ हिउ राउ करइ ।
 पइसरइ पुणो पउरावइहे ।
 सुइखेत्तु सुगोत्तु पसत्थु वउ
 किज्जइ जिणानाहपउत्तु तउ । ५
 पाविज्जइ जेण महतु पउ ।
 तहो हृत्थगेसु सासयरुवणु ।
 न वि बज्जइ विणु वरणाणावइ ।
 तहो पुरउ परिट्टिउ भवभमणु ।

घत्ता— चित्तिज्जइ चारु मोक्खदुवाक अप्पसहाउ म यजहि । १०

त लब्भइ आणु दुक्खवसाणु कहिउ कसायकयतहिँ ॥ ४ ॥

५

अज्झयणा सत्थत्थब्भासो
 पचक्खाहियविसयनिरोहो
 दसणाराणचरित्तपयासो
 सज्झायम्मि पसत्तहो वइणो
 अन्नो नो सज्झायसमारो
 तेण सया सज्झाण पयत्त
 अज्झयणो य कइत्तविसेसो

पउपयणियधम्मधिवपोसो ।
 नाराणागुणसोवण्णो गेहो ।
 दुक्कियकम्मन्नाणनिरासो ।
 होइ निरोहिय निरयणगइणो ।
 अत्थि तवोहु तवाण पहाणो । ५
 कायव्वं मुणिएणाहोरत्तं ।
 दूरीकयकम्मासवदोसो ।

अज्जयरोण' वसिज्जइ चित्त
कि कीरइ कव्वउ' व निरुत्तं
कि पुण नाणाभावनिउत्त

घत्ता—कि कीरइ ताए वरवायाए जइ वि विमुक्क मुघम्मह ।

वणिज्जइ नेयगुरा बहुभेय देवागमगुरुधम्महँ ॥ ५ ॥

६

निप्पक्खु पक्खि उड्डुगमणु व्व
जइवि ढु वरवण्णु विमुद्धमइ
विविहागमु कइयराससयण
छदालकारु नाउ भरहु
विन्नाराइँ रजियजणमराइँ
सामग्गि कइत्तरोण जडिय
पावइ एत्तियहँ न मज्झं महुँ
आगमु आगमणमयहिँ मुण्डिउ
कइ वाणर तहुँ ससयणु वणो
लक्खियउ तक्कु मइँ महिउ पर
मच्छदु वियणि वणायरणिगयर
अहिनाउ भरहु पुरु चक्कवइ
गह रक्खस गणिया सव्ववहु
विन्नाराइँ विगयणाणरसइँ

घत्ता—महु धम्मं परेक्क भत्ति गुरुक्क अण्णु कि पि न विचाराणि ।

जलहि व्व असोमु जो कहकोसु सो हउँ केम समाणाणि ॥ ६ ॥

७

जो विरडउ आसि महामइहिँ
त रयमि केम हउँ मदमइ
अह जो जूहिदे मगु कउ
इय जाणोवि जइ कि पि वि करमि
विणु कज्जे वडिडयपावमल
कि तारा भएण न उग्गमइ
जीवउ जणु परगुराजणियजउ
ससहाउ पयासइ सव्वु जणु

५. १ अण्णेण । २ कि करइ वउ । ३ कहिए ।

तेण हुय मह तम्मि पयत्तं ।
तो कहिय' मेत्त पि कइत्त ।
कइ कव्व विरएइ विहत्तं ।

१०

गुराकोडिविवज्जउ सुरघणु व्व ।
सामग्गिहीणु कि करइ कइ ।
वायरण सतक्कु' देसिवयणु ।
वेज्जय-गहगरिणय-कव्वनिवहु ।
अवरइँ वि अणोयइँ लक्खणइँ ।
अवर वि बहुगुरामणिसजडिय ।
तुडि कवण चिराणकईहिँ सहुँ ।
मइँ अण्णु कयावि रोय भणिएउ ।
वायरणु वयणसगामु जणो ।
देसी वि विविह वणिज्जार नर ।
साहरणु तहालकारु वरु ।
विज्जउ तिव्वाहो वायगइ ।
आयामिसरासि कव्वनिवहु ।
लक्खण मुरोमि गा सारमइँ ।

५

१०

१५

महरिसिहिँ अण्णोयहिँ सक्कईहिँ ।
भूयरहो होइ कि गयणागइ ।
कि कलहु ए वच्चइ' तेण मउ ।
तो दुडुमणाहँ ए उव्वरमि ।
साण व छणससिहे भसति खल ।
तारावइ जणतमोहु समइ ।
अहवा दुज्जणहँ वि दोसु नउ ।
उण्हत्तु व सिहि सीयत्तु वणु ।

५

६. १ सत्तक । ७. १ पवच्चइ ।

घत्ता—लइ लेउ हयासु दुज्जणु दोमु मुक्को मोक्कल्लिउ कि पि वि ।

महु एत्थ पसत्थे पेच्छइ सत्थं जइ जोयतु कहि पि वि ॥७॥ १०

८

गराहरहो पयासिउ जिणवइणा
सिवकोडिमुण्णिदि जेम जण
तिह गुरुकमेण अहमवि कहमि
महु देवि सरासइ सम्मुहिय
आयण्णाहो मूलाराहरहं
गाहतरियाउ सुसोहरणउ
धम्मत्थकाममोक्खासयउ
तारात्थ [इह] मणिऊण पुरउ

सेणियहो आसि जिह गरावइणा ।
कहकोसु कहिउ पंचमसमण ।
नियबुद्धिविसेमु एव रहमि ।
सभवउ समत्थलोयमहिय ।
सग्गापवग्गसुहसाहरहं । ५
बहु कहउ अत्थि रजियजणउ ।
गाहासु जासु सठियउ तउ ।
पुणु कहमि कहाउ कयायणउ ।

घत्ता—सबधविहूणु सव्वु वि हीणु^१ रमु न देइ गुणावतहं ।

तेणिय गाहाउ पयडिंवि ताउ कहमि कहाउ मुणातहं ॥ ८ ॥ १०

९

भणिद च—जिह कुडुंण विहरण आनेक्ख नत्थि जीवलोयम्मि ।

तिह पवयेण विहरण पावति कह न सोयारा ॥

सिद्धे जयप्पसिद्धे चउव्विहाराहरणाफल पत्ते ।

वदिता अरहते वोच्छ आराहरण कमसो ॥ [भ० आ० १]

अस्या नमस्कारगाथाया नवपदानि भवन्ति । अथ पदार्थकथनम् । तद् यथा—**सिद्धे** ५
सिद्धान् । कीदृग्गुणविशिष्टान् ? **जयप्पसिद्धे** जगति प्रसिद्धा प्रख्यातास्तान् । अथवा जगत् प्रसिद्ध
प्रकटं करतलामलकवद् येषां तान् । एतेन अञ्जनगुटिकादिसिद्धाना निरास । **चउव्विहाराहरणाफल**
चतुर्विधाराधनाफल कार्यम् । किं तत् ? अव्यावाधमनन्तं सुखं पत्ते प्राप्नान् । **वदिता** वन्दित्वा
नमस्कृत्येत्यर्थः । **अरहते** न केवलं सिद्धान् अर्हन्तश्च पूर्वोक्तविशेषणविशिष्टान् । रजोहननादिगुण-
त्रयोपलम्भप्रादुर्भावादिन्द्रादिविनिमित्तमतिशयवती पूजा प्राप्ता ये तेऽर्हन्तस्तान् । एतेन हरिहर- १०
हिरण्यगर्भदीना निरास । **वोच्छं** वक्ष्ये । कं ? **आराहरणं** आराधनाभिधानं शास्त्रम् । **कमसो**
क्रमशः परिपाठया पूर्वाचार्याणां मतानुल्लङ्घनेनेत्यर्थः ।

उज्जोवरणमुज्जवरण निव्वहरण सिद्धिसाहरण च नित्थरण ।

दसराणाणाणचरित्ते तवाग्गमाराहरणा भणिया ॥ [भ० आ० २]

उज्जोवरणं उद्योतनं प्रकाशानमित्यर्थः । उज्जमखं यजनं गन्धप्रसूनादिपूजादिभिः पूजनम् । १५
निव्वहणं निर्वाहः । ईप्सितस्थानप्रापणमित्यर्थः । सिद्धिनिष्पत्तिरित्यर्थः । साधनं फलावसानान्त
तात्पर्यम् समाप्तिकरणमित्यर्थः । नित्यवरणं निरंतरणमवसानं नीत्वा गमनम् । वंसणस्याखरित्ते
एवं भणिते दर्शनज्ञानचारित्रतपसाराधना पूर्वोक्तदृष्टान्तैरेव भणित्वा भवति प्रोक्ता भवति इत्यर्थः ।
एषा दृष्टान्तगाथा—

उज्जोवराय दुविह नेय	लोइय-लोउत्तरिय-विभेय ।	
उज्जवरा पि तहेव असेस	इण्ह भण्णइ दुविह्विसेस ।	२०
उज्जानयरे पालियखत्तो	भरहो भरहाहिवई होंतो ।	
तेणुप्पन्न रिण्णवि रव्वन्नं	हयगयअसिदंड बहुवन्न ।	
चक्क सारगा सव्वाण'	दिव्व देवासुरविजयाणं ।	
साहकारं दरिसियघाय	साहिवि सव्वाहि खडाय ।	
त दिव्व पउरयर राय	पावेप्पिणु वड्ढियअणुराय ।	२५
लीलासचोइयवरपत्तो	सहु सेन्नाए सनयर पत्तो ।	
भुवणत्तयपायडियसनामो	खयरासुरनरविहियपणाओ ।	
ज सो उप्पाइयपयमुत्थो	होवि थिओ चिरु तत्थ कयत्थो ।	

घत्ता—भुजतु मुहाई गयदुक्खाई त उज्जोवणु लोइयउ ।

लोउत्तरभेउ कहमि अलेउ जिह सव्वण्हुपलोइयउ ॥ १० ॥ ३०

१०

तह चय साहु	सीलबुवाहु ।	
मुहसाहणाहे	आराहणाहे ।	
कारणु लहेवि	सघहो कहेवि ।	
अणसरमि पुज्जु	हउं अणकज्जु ।	
तेणाणुभाउ	वज्जिउ पमाउ ।	५
सम्मत्तणाण	तवचरणाक्षाण ।	
सेणाइ मोह	मिच्छत्तजोह ।	
इदिय कसाय	परिसह विसाय ।	
उवसग्गआइ	निज्जिव्वि अराइ ।	
पावेवि मोक्ख	सिरि पहयदुक्ख ।	१०
ज सव्वु कालु	बुज्जिउ तियालु ।	
खयजम्मकंदु	तेलोककचदु ।	
अट्टगुणावंतु	माराइ अरातु ।	
उवमाणचत्तु	सुहु अण्यत्तु । [दुहडहउ नाम छदु]	

६. १ सव्वाण पयडेवि पयाणं ।

घत्ता—त लोउत्तरिउ विउसायरिउ उज्जोवणु जाणिएज्जइ । १५
उज्जवणहो कि पि भेयदुय पि मुणिए सपइ भाणिएज्जइ ॥ १० ॥

११

चपाए नयरीए जियसत्तुराएण
सिरिनाय पुन्नाय नारग नालियर
किण्हागरू राइणा मलय मायंद
वरजबु जवीर विज्जउर खज्जूर
कयलीउकरमर महु केसरा पणस
वावेवि वरखेत्ति पालेवि वडुविय
दट्टूण सपुण्णजोव्वणसिरीसोहु
तुट्टेण धणदाणभांयणकियापुव्वु

उज्जाणवणु परमसोहाणुराएण ।
तह तिलय अइमुत्तलवलीलसनियर ।
पोफ्फलदुमासीय चंपय कयाणद ।
कक्कोल पल्लास सिरिखड कप्पूर ।
अवरेवमाइ तहि मुणइ को बहुस । ५
सजायफलपुफ्फसघायभोणविय ।
अहिरामु आरामु रविरस्सिकयरोहु ।
किउज्जवणु वरतूरमगलरवापुव्वु ।

(मदनवेतारु)

घत्ता—ज मुट्टु विसालु तेग वि सालु तप्फलु पच्छा पामिउ ।

लोइयउज्जवणु जिम वणु' पवणु तं समयम्मि पयासिउ ॥ ११ ॥ १०

१२

तहा मुणी कायकिलोससोहिए
ववेवि सट्टसणानाणसजमे
नएवि विद्धि मुहसीलवारिणा
पसिद्धिपूया कुसुमोहसोहए
मणोहिरामे बहुवित्थर गए
महोच्छन्न मोयणदव्वचायय
लहेवि सिद्धि च समाहिकारण
पहुंजए ज सरस निरतरं
तमुत्तम सब्बविरूवचत्तय

सरीरछेत्ते तवसीरवाहिए ।
महीरुहे चारुवियेयसजमे ।
दुरंतजम्मासुहतावहारिणा ।
गुणोहसभूयफलोहरोहए ।
निएवि ते वारियतावसकए । ५
करेवि ताण तणुचायजायय ।
समत्थससाग्दुहोहवारण ।
मुह सया तप्फलज अणुत्तर ।
जणुत्तर उज्जमग पउत्तय ।

(वशस्थ छन्दः)

घत्ता—इच्छियउ अणुत्तु जेवि महत्तु भारुत्तारिचि माराधणु । १०

ज नरु मुहि होइ भासहिं जोइ त लोउब्भउनिव्वहणु ॥ १२ ॥

१३

दिक्ख्खासमयम्मि नवेवि गुरु
पाविचि निज्जावयजोग्गु गणी
सिद्धि गउ ज मुहु अणुहवइ
११. १ लोइयउज्जवणु ।

उच्चाएवि सजमभारु गुरु ।
उत्तारिउण त तेम मुणी ।
सिब्वहणु जणुत्तरु तं हवइ ।

आहारपहूइ कज्जनिवहु
अणुहुजइ ज तज्जणिएउ जणु
सहंसणु नाणु चरित्तु तउ
पाविवि निब्बाणु विमुक्कतणु
अइदुल्लह देवासुरमहिया
वयसीलोवासजुएण चिरु

निप्पाइऊण आलस्समहु ।
सुहु सा लोइय ससिद्धि भणु । ५
वड्ढाविऊण कयकम्मखउ ।
संसेवइ ज सुहु साहुजणु ।
ससिद्धि जणुत्तर सा कहिया ।
काराणि उवसग्ग सहेवि निरु ।

घत्ता—एयग्गमणेण मारणधरोण साहंवि विज्जासाहणु । १०
दहणीवे पत्तु सोक्खु महतु ज त लोइयसाहणु ॥ १३ ॥

१४

भवरणिण विस्सवि कु वि साहुवरु
दूसहु सहेवि उवसग्गणु
रयणत्तयविज्जउ सोहराउ
ज सिद्धखेत्तु पावेवि सुहु
अइदुक्कर सुट्टु निरजणिया
ठिउ उसहदत्तु नामेण वणी
गउ सिघलदीवहु सोहराइ
वोलेवि दीवसायरवणइ
ज पत्तु सोक्खु त नित्थरणु
बहुदुक्खसयाई सहतु थिउ
मणिदीवु मणुयगइ पइसरेवि
ससारसमुट्टुत्तरिवि गुरु
पाविवि ज अग्गावाहसुहु

दुद्धरवयसीलोवासधरु ।
निच्चलु करेवि मेरु व्व मणु ।
साहिवि सग्गावइरोहराउ ।
अणुहुंजइ दूरुच्छिट्टुदुहु ।
लोउत्तर सा समग्गि भणिया । ५
वारिणज्जहो सयलकलासु गुणी ।
रवणई लहेवि तमखोहराइ ।
पावेप्पिणु नियजणवयजणइ ।
ववहारिउ भासइ विउसयणु ।
अवरग्गइ निग्गिवि कहव जिउ । १०
सम्मत्तचरणारयणई भरेवि ।
दुक्खाडइ छडिवि मोकखपुरु ।
अणुहवइ अणतु पणुट्टुदुहु ।

घत्ता—तहु होंतु कयाइ एइ न जाइ जम्मइ मरइ ण जिज्जइ ।
ससारुत्तारु त नित्थारु परमत्थेण भणिज्जइ ॥ १४ ॥ १५

१५

गाथा—आराहणाए कज्जे परियम्म सव्वहा वि करणिज्ज ।
परियम्म भाविदस्स हु सुहसज्झाराहणा होदि ॥ [भ० आ० १९]
जोग्गो भाविदकरणो सत्तु जेदूण जुद्धरग्गिमि ।
जघ सो कुमारमल्लो रज्जबडाय बला हरदि ॥ [भ० आ० २२]

बोग्गो समर्थः । भाविदकरणो भ्रम्यस्तसमस्तविज्ञानः । शत्रून् जित्वा सङ्ग्रामरंगे ५
यथा स प्रसिद्धः कुमारमल्लो राज्यपताका बलाद् हरति गृह्णातीत्यर्थः । अत्राख्यानम् ।

भट्टिलपुरे भट्टगुणोहहरु
जिणायत्तहे तामु वि पियहे हुउ
वरवीरु सलक्खणु बहुगुणउ
जिणामइमहएविपुत्तु भणिवि
होऊण अभाविउकरणु जरणे
पुरु वेडिउ जणु संतासियउ
तं नियवि सकोहु सरहु सघउ
सो पाराउट्टउ तेण कउ
असराले सरजाले लइउ
घणघाराधोरणिपहयतणु

जिणचदु राउ रिउरायहरु ।
मुउ सूरदत्तु सूरेहिं थुउ ।
अबभसियसिक्खरजियजणउ ।
जिणायत्तु जरणे वत्तु मुणिवि । १०
जामच्छइ तामेक्कम्मि खरणे ।
भिल्लक्के कलयलु घोसियउ ।
जिणायत्तु सबलु सन्नहवि गउ ।
कलिकाले न धम्माइसउ ।
न विसयवले नवपव्वइउ । १५
गउ घरहो पलाएवि जेम घणु ।

घत्ता—एत्थतरे राउ सबलसहाउ जा चल्लिउ रूसेप्पिणु ।

ताणुप्परे तेण लहुतणएण ता विन्नविउ नवेप्पिणु ॥ १५ ॥

१६

भो रायराय उद्धरियघर
पाइक्कहो अबसरु एहु महु
दासेण वि होंते सामि जहिं
जइ जममुहे पेसमि पिसुणु नउ
इय वयणाहिं पहु सतोसियउ
रहसिहरारूढु महाबलिउ
सवरोहे इतु दिट्टु सरहु
आसणु दुक्कु सो तामु किह
जामज्जइ पुरउ न पइसरइ
चउदिसहिं भमिउ रहु ताम किह
आलायचक्कु रहु न भमइ
सदारिणउ सीहे गयनिवहु
तासेप्पिणु सहसा गाढभउ

लहुहत्थुत्थल्लहिं पयपर ।
तुहुं नियहि चोज्जु सव्वेण सहु ।
जुज्जइ बोलिज्जइ काइं तहिं ।
तो छित्त पाय मइं ताय तउ ।
सहुं आसीवाएँ पेसियउ । ५
जालधरवहे पत्थु व चलिउ ।
नावइ तमनियरे सूररहु ।
महराम्मि समुद्दहो मेरु जिह ।
पारक्कउ पहरणु वावरइ ।
नवमेहहिं विज्जुलपुजु जिह । १०
पडिवक्खहो लक्खु नेय गमइ ।
अहिउलु गरुडेण व लोयवहु ।
सज्झाराहो नं अण्णाणु गउ ।

घत्ता—नियनयरे पइट्टु विजउ पघुट्टु परिवडिड्यअणुरायहो ।

पेसणु साहेवि वइरि वहेवि पणविउ सो नियतायहो ॥ १६ ॥ १५

१७

तेण वि तहो पवर पसंस किय
परमुच्छवेण सव्वहिं नविउ
सव्वत्थ सूरदत्तहो तरणउ
पसरिउ जसु सुट्ठु सुहावणउ
एक्कहिं दिणे वडिरिविहसणउ
अत्थाणि थिएं केण वि भग्गिउ
जियसत्तु मुएप्पिणु अन्न नउ
सयलेहिं वि त जि समत्थियउ
कि मेच्छवरायजयम्मि जए
तवखग्गे इंदियवडिरब्लु
सासयसुहरज्जुवडायधर
ता त पि निमित्तु पवित्तु हुउ

तुट्ठेण दिन्न जुवरायसिय ।
नाउ वि जियसत्तु परिट्ठुविउ ।
गिब्वइ वणिणज्जइ घणघणउ ।
जिरायत्तहो नवर दुहावणउ ।
सजायउ मुहडपससणउ । ५
कि बहुणा निच्चउ मई सुणिउ ।
सुदरु साहसमुहडत्तपउ ।
जिरादत्ते पर अवहत्थियउ ।
मुहडत्तणु कामकसायखए ।
निट्ठारिवि मारिवि अइपब्लु । १०
जे लेति सूर ते साहु पर ।
गुरुनामे निज्जियसत्तु थुउ ।

घत्ता—जायउ जुवराउ जित्तकसाउ कामिदियदलवट्टणु ।

उप्पाएवि नाणु भुवणपहाणु गउ त सासयपट्टणु ॥ १७ ॥

१८

भग्गिद च—धम्मेण होइ सूरा मारणसूरेति गव्विदा होह ।

एक्को वि धम्ममूरो सूरसहस्साण सामिओ होइ ॥

तिह भावियसामणु साहु कुमरो वि धुरघरु ।

सम्मइसणरहे वलग्गु वयसीलाउहघरु ॥

मिच्छत्ताइरिऊ जिरणेवि सन्नामरणगणे । ५

गेण्हइ आराहणवडाय गय किति नहगणे ॥

पुव्वमभाविदजोग्गो आराहेज्ज मरणे जदि वि कोइ ।

खन्नगनिहिदिट्ठत त खु पमाण न सव्वत्थ ॥ (भ० आ० २४)

पुव्वमभाविदजोग्गो पूर्वकालेऽननुष्ठितयोग्याचरणे । यद्यपि कश्चित् मरणकाले

आराधनामाराधयति तत्तु स्फुट सर्वत्रापि न प्रमाणं स्थाणुनिधानलाभ इव तत् । अत्राख्यातम् । १०

वग्गडविसयहो होतु भडु कज्जवमु समायउ ।

उत्तरमहुरहे सोमसम्मु नामे विक्खायउ ॥

जिणहरि तत्थ जिणिदयदु वदेवि नियच्छिउ ।

नंदिमित्तु नामेण साहु धम्मक्खरु पुच्छिउ ॥

तेण वि तिह तिहो कहिउ सव्वु जिह हुउ उवसंतउ । १५

लेवि महव्वय म्पुयवि गंधु सहसा निक्खंतउ ॥

पढिउ कयावि ण किं वि तेण नाराउ निरक्खरु ।
 दिन्न सिद्धमाइय लिहेवि अक्खर अक्खरगुरु ॥
 ॐ नम सिद्ध पि ह्वु न एइ पुणु पुणु वि कहिज्जइ ।
 मुक्खु भणेविणु वार वार गुरुणा जूरिज्जइ ॥ २०
 नावइ नम सिद्ध पि जामु सो काईं करेसइ ।
 अन्नाणिउ पावज्ज लेवि किम निव्वाहेसइ ॥
 त निमुणेवि विराउ हूउ वर मरणु मुहावहु ।
 सव्वजहणु जडत्तु नेव संजाउ दुरावहु ॥
 इय चित्तेवि अग्नेक्कु साहु कयविणएँ भासिउ । २५
 केरिसु मरणविहाणु तामु तेणावि पयासिउ ॥
 सम्मद्दसणनाणचरणतवसोहि करेप्पिणु ।
 अरुहएवपडिबिबु फलिहसकामु सरेप्पिणु ॥

घत्ता—जो मेल्लइ देहु सो मुहगेहु होइ देउ देवालप्र ।

पुणु कम्मविमुक्कु गुरुहँ गुरुक्कु मुद्धु बुद्धु सिद्धालप्र ॥१८॥ ३०

१९

माणसे इण धरेवि	तिप्पदक्खिणं करेवि ।	
जिणस्स मदिरे जिणिदु	वदिऊण लोयचदु ।	
मणि वडिडयाणुराउ	निग्गओ तओ पुराउ ।	
दारुणं वण पइट्टु	तित्थु जक्खरुक्खु दिट्टु ।	
रुद्धभाणु भावयामु	ठाइऊण मूले तामु ।	५
पाणभोयणाण चाउ	देहि निप्पिहत्तभाउ ।	
सिद्धवंदण करेवि	दुक्कियाईं वोसरेवि ।	
पासुए सिलायलम्मि	आयमाणओ मणम्मि ।	
देउ देवाविदवंदु	काउसग्गे मुक्कतदु ।	
अच्छिऊण पंचरत्तु	पाणयम्मि पाणवत्तु ।	१०
सग्गे सग्गिवासे भारु	रूवरिद्धिजित्तमारु ।	
दिव्वभोयसोक्खफारु	पत्तु ओहिणाणपारु ।	
बीससायरोवमाउ	साहु सो मुहासि जाउ ।	

(समानिका नाम छन्दः)

घत्ता—जह रुहमवि तामु कम्मवसासु हूउ सग्गहिँ अवियाणहो ।

खभ्रुयनिहिलाहु त तस लाहु वच्चइ वयणपमाणहो ॥१९॥ १५

२०

थाणुयनिहाणदिट्टकहा
उज्जेणिहिं अरिथ अलच्छिघ
सो एक्कहिं वासरं पत्तियए
अवरंधलया मग्गेवि जणु
तुहं पर नवसुंहु करेहि छणु
निल्लज्जु निरुज्जमु पउररिसु
किं पई जीवतं नीसरहि
निमुणेप्पिणु भामिणिवयणगइ
जतहो उम्मूलियपायवहो
सिरछित्तरत्तओहलियत्तणु

आहासमि लोयपसिद्ध जहा ।
दिउ विण्हुदत्तु अनयणपसरु ।
गरहिउ कब्बाडविरत्तियए ।
आणहिं कुडुवनिव्वाहघणु ।
मेल्लिवि नउ जाहि कहिं वि भवणु । ५
कम्मेण केण तुहं किउ पुरिसु ।
जाजाहि जमाणे पइसरहि ।
निग्गउ घराउ कयमरणमइ ।
अग्भिडिउ खंडु भालम्मि तहो ।
छज्जइ न उययमाणु तवणु । १०

धत्ता—दूसिउ दोसेण कम्मवसेण भउ आलोयणु भल्लउ ।

जा जोयइ पासु ता तले तासु नियइ निहाणउ दुल्लउ ॥ २० ॥

२१

अहिमाणे मरणहो चल्लियउ
सिरवेहिं रुहिरुग्गालु कहिं
अह पुण्णहिं सब्बु वि सपडइ
दारुणु अरिचक्कु वि उवसमइ
जलियग्गि वि जायइ सीयलउ
त लेवि महाहरिसहो भरिउ
सनिहाणु सलोयणु निग्गवि वरु
घणवतहो पेसलु सयलु जणु
त निग्गवि सलोयणु लद्धघणु
कलहेप्पिणु सयल वि वियलगइ
महि ढंडोलत भमत गया
जेमघहो लोयणलाहु तहो

कहिं खदु तेण सिरि सल्लियउ ।
कहिं दिट्टिलाहु निहिलाहु कहिं ।
ज ण घडइ तं पि हु सघडइ ।
विमु अमियरसायणु परिणवइ ।
सुकिय सब्बत्थ वि सोहलउ । ५
गउ गेहहो विण्हुदत्तु तुरिउ ।
किउ आयरु सोमिल्लाए वरु ।
घणहीणहो सयणु वि दुव्वयणु ।
चित्तिउ अवरंधलजुवइजणु ।
निद्धाडिय लोहि निययपइ । १०
ते गड्डे विहड्डु पडेवि मया ।
फुडु तेम समाहि अणायमहो ।

धत्ता—जाणेप्पिणु एउ जणियविवेउ जइणागमु भाविज्जइ ।

सिरिचदपहूइ पुज्जविहूइ ज समाहि पाविज्जइ ॥ २१ ॥

विबहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणामाले अत्थसदोहसाले ॥ १५
भुवणविदिदनामे सब्बदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे मुन्दरे दिन्नतोसे ॥

मुणिएसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते ।

पढमो पीडियनामो अहियारो यं समत्तो त्ति ॥

॥ संघि १ ॥

संघ २

१

सम्मत्तादीचारा सका कखा तहेव विदिगिछा ।

परदिट्ठीण पससा अणायदणसेवणा चेव ॥ (भ० अ० ४४)

सम्यक्त्वस्य अतीचाराः । के ते ? शङ्कादयः । शङ्का आप्तागमार्थगुरुधर्मादिषु सन्देहः । काङ्क्षा स्वस्यागामिभोगाभिलाष । विदिगिछा विरूपकमिदमिति घृणा । परदिट्ठीणपसंसा मिथ्यादृग्प्रशंसनम् अनायतनसेवा अन्यदेवादीना सानुकूलता । एतेऽतिचारा इति । ५

विग्घविणासणु भुवणगुरु पणवेप्पिणु देउ निरजणु ।

सपइ समहसणहो दोसहँ करमि पउजणु ॥

सिरिरायगेहि उरि अत्थि सेट्ठि
एक्काहिँ दिणि सो विभियमणेण
पव्वेसु पवच्चह निच्चमेव
भासइ वणिदु भो सोमदत्त
वण्णतरि पुव्वसुरेण चारु
घोरोवसग्गसहणाउ गुज्झु
ता णागणिगणपहभामुराई
विणिवारियकुगइभवंत राई
तहिँ वदहँ नयणाणदिराई
वणिवयणु सुणेप्पिणु दियवरेण

जिणदामु जणिजिणधम्मदिट्ठि ।

विणएण भणिउ घरवभणेण ।

कहिँ तुम्ह नहगणि जेम देव । १०

आयण्णाहि पुत्त पवित्तभत्त ।

तुट्ठेण समित्ते गयणचारु ।

ससिद्धु समप्पिउ मतु मज्झु ।

अणवरयपणयदेवामुराई ।

अकयाई कयाई निरंतराई । १५

हउँ जामि तेण जिणमदिराई ।

वोन्लित्त विज्जागहणायरेण ।

घत्ता—सो परमक्खरु म तुमहँ पह देहि पसाउ करेप्पिणु ।

जिण जइवर तुम्हेहिँ महँ वदामि जेम जाएप्पिणु ॥ १ ॥

२

पभणइ वणिदु सजणिजोच्च
साहहँ सावरहँ दुहेण जाइ
तुह वयणे जइ पाणावसाणु
निट्ठा हु निएप्पिणु कहइ तामु
काऊण पढ्ढमु छट्ठोववासु
उद्धाणणु तलि नवनिशियघारु

पुण्णेण लद्ध मई सिद्ध विज्ज ।

तीसत्तहँ सत्तहँ मुगइ नाइ ।

कहि करेमि तो वि साहणविहाणु ।

विज्जासाहणविहि अरुहयामु ।

पिउवणे गिरिसिरि वडपायवामु । ५

असिकोततिसूलपहइ चारु ।

ठविऊण पयत्तं पहरणोहु
अट्ठुत्तरपायसएँ समाणु
बधिवि करेवि पूयाविहाणु
लोग्गनिवासु पईसरेवि
थिरु पलियंकेण वईसरेवि
असिदुहिय सहत्थेणुद्धरेवि
विद्धइ एक्केक्कउ तासु पाउ
ता सिज्झइ मत्तु नहग्गजाणु

घत्ता—ईसि हसेप्पिणु ता भणिउ वणिवयणु सुणेप्पिणु विप्पे ।

अवरु वि करमि किमेत्तिएण उवएसहि काई वियप्पे ॥ २ ॥

१५

३

पेक्खेप्पिणु तासु अईवगाहु
किउ तेण समग्गु वि तं विहाणु
जारुहइ रुहइ पुणु पुणु वि जाइ
तहिँ एवजणचोरेण दिट्ठु
नीसेमु आइमज्झावसाणु
सभवइ असंसउ एउ सब्बु
इय चित्तिवि मणिउ मंतु मित्त
विहिवसिण विहिउ कि पि वि ण खेउ
धिय भट्ठपुत्तु साहसु नियंतु
सहसत्ति वड्ढेप्पिणु ढुंक्कु रोहु
हेलाए सब्बु नामंकएण

घत्ता—आवेप्पिणु सो अद्धवहे निवडतु घरेप्पिणु विज्जए ।

कि किज्जउ दे आएसु पहु विघ्नविउ सुरासुरपुज्जए ॥ ३ ॥

५

१०

४

जाणेवि तेण सम्भावसेवि
सुरसेलि सयंभुजिणालयाई
ता सुहडु लेवि लाइउ निखेउ
देवाहिवकयपवरच्चणाई
अणवरयगेयत्तरारवाई
जयजयपभणत्तुरासुराई

दिसि दिसि एक्केक्कु पयंडु गोहु ।
साहहि सिक्कउ सउ लंबमाणु ।
भूयदिणि भूयविग्घावसाणु ।
सिक्कम्मि य तम्मि पईसरेवि । १०
मंदरधीरत्तु वईसरेवि ।
अरहतनमोक्कारुच्चरेवि ।
जा ण हवइ अज्ज वि भूमिजाउ ।
इयरहँ नउ केमवि सिद्धि जाणु ।

उवएसिउ मत्तु नहावगाहु ।
पाणेण निएप्पिणु भाविहाणु ।
नावइ कइ फललोहाणुजाइ ।
पुच्छिउ निमित्तु तेणोवदिट्ठु ।
चित्तइ मणि परदब्बावसाणु । ५
न चवइ असच्चु सो साहु भव्वु ।
दिज्जउ महुँ सुहिसयचत्तमित्त ।
किउ तेण तम्मि विज्जाणं खेउ ।
चोरेण वि अवगणिउ नियतु ।
उच्चारिवि मत्तु सुहकरोहु । १०
कत्तरिउ सिक्कु नीसकएण ।

पच्चक्ख निएप्पिणु भणिय देवि ।
दक्खालहि नेवि सुहालयाई ।
आयासि विहिउ विज्जाए वेउ ।
विरइयसुरकामिणिनच्चणाई ।
उप्पाइयसुयणमणुच्छवाई । ५
सुदरसरीरभाभासुराई ।

निडुहियचउग्गइकाणणाईं

केण वि कयावि न कयाईं जाईं

पडुयवणि सउमणसम्मि जेम

आणिउ सिरिभद्दासालनामि

चउमु वि दिसामु चउराणणाईं ।

जिणविबईं जिणभवणाईं ताईं ।

नदणवणे वदावेवि तेम ।

उज्जाणि जइणभवणे हिरामि । १०

घत्ता—तत्थ नमंतहो देउ तहो सुहमइ ज्ञाणम्मि निविट्टउ ।

देवदिसिहि सव्वणहुधरो दिट्ठीवहि सेट्ठि पइट्टउ ॥ ४ ॥

५

ता ज्ञत्ति पदक्खिण देवि आसु

गुरु तुहूँ महू हउँ तव तणउ सीसु

ता काउस्सग्गु मुएवि तेण

कहू गुरुविणेषसंबधु केम

सिरिविजयनयरि अरिमथु राउ

दुल्ललिउ ललिउ नामेण पुत्तु

अयरिसकरणजणु कहिमि नाउ

जाणेवि जणेरे दुट्टभाउ

सो हउँ जणदव्वु हरतु जाम

अंजणसुदरिवेसाए वुत्तु

जइ छिण्णिवि णिवसम्माणियाहे

निसि निववहुकठहूँ लेवि हारु

तत्तेएँ असिवरफरकरेहिँ

विभ्रविउ नवेप्पिणु अरुहयासु ।

दरिसावहि पहु धम्मोवएसु ।

पुच्छिज्जइ वणिजणणायणेण ।

आहासइ सो पुणु वित्तु जेम ।

सुदरि महएविहे तेण जाउ । ५

बहुखुइविज्जदुव्वसणभुत्तु ।

सो तेणजणथेणो त्ति णाउ ।

नीसारिउ रायगिहे समाउ ।

तहिँ अच्छमि एककहिँ दियहे ताम ।

तो तुहूँ महू निच्छउ होहि कंतु । १०

वरहारु समप्पहि राणियाहे ।

निग्गउ राउलहो सवेयचारु ।

निग्गतु नियच्छिउ तलवरेहिँ ।

घत्ता—हुउ कोलाहलु अइवहुलु नरवइपाइक्कसहासहिँ ।

अच्छोडियसरधोरणिहिँ सदाणिउ चउहिँ मि पासहिँ ॥ ५ ॥ १५

६

ता चित्तिउ णिग्गमणह उवाउ

सारेविणु पेसणु गहियमोम

एत्तहिँ वि देहिदेहावसाणु

तहिँ जामि भमतु भमंतु जाम

वडविडविमूलि नाणापयारु

कयअट्टविहच्चणु आउहोहु

साहाए पउरपायहिँ समाणु

पुणु पुणु नरु एककु महीरुहग्गु

अइसणु हारु मुएवि जाउ ।

गय सुहइ नियत्तिवि घरु सतोस ।

पुरवाहिरि जहिँ भीसणु मसाणु ।

गिरिसिहरे नियच्छमि चोज्जु ताम ।

उद्धाणणु धरिउ फुरतधारु । ५

एक्केक्कदिसाए दिसाए जोहु ।

विणिबद्धउ सिक्कउ लवमाणु ।

उत्तरइ चडइ णावइ पवंगु ।

घत्ता—सो तेहावत्थाए मई आलोएवि विभियचित्तें ।

किमिउ किमत्थें कि करिउ पुच्छिउ कह सव्वु पयत्तें ॥ ६ ॥ १०

७

पयासिउ तेण जयम्मि पयासु
स सावउ सव्वगुणोहनिवासु
तिणा महुँ अक्खिउ एउ विहाणु
निएवि अहो हउं पाणवसाणु
वणीसहुँ केम वि बोल्लु असच्चु
महामइ धम्मपरो समभावि
विचित्तिवि एउ मणम्मि वि जाइ
पयच्छहि तो महुँ मतुवएसु
तन्नो लहमेव समप्पिउ तेण
विसिप्पिणु सिक्कए सक मुएवि
तिवारउ मतु महतु भणेवि
नभोगइ साहिय विज्ज तुरति

इहत्थि वणिदु परो जिणदासु ।
अमच्चु सया हउं बभणु तासु ।
विइण्णिउ मंतु नहंगणजाणु ।
पकपमि' भाउय साहयमाणु ।
हवेइ असंसउ तो महु मच्चु' । ५
न सेट्ठि असच्चु चवेइ कया वि ।
पउत्तु मया जइ वीहहि भाइ ।
करेमि वियाणमि जेण विसेसु ।
मया वि पट्टिच्छिउ एयमणेण ।
करेण किवाणसुया सिय लेवि । १०
समग्गु वि त सहसत्ति लुणेवि ।
समागय पेसणु देहि भणति ।

घत्ता—भणिय सुरिदगिरिदे मई वदावहि नेवि जिणालय ।

सुरसुदरि सव्वायरेण दक्खालहि जिणदासहो पय ॥ ७ ॥

८

पडुयवणि पडुयपडुरीउ
नदणवणि आणदियतिलोउ
वदाविवि देउ दयानिवासु
हुउ गुरुविणेषसबधु एव
तिह करहि सामि सव्वोवयारि
ता तत्थायउ तवसिरिनिकेउ
जाणिप्पिणु [तें तहो] कम्महाणि
कइलासे सेलि सिलेसि जाउ

सउमणसि सुमणसिमहासिरीउ ।
सिरिभद्दासालि सुभइ जोउ ।
एत्थाणिउ विज्जए तुज्ज पासु ।
एवहिँ सभवइ परत्थु जेव ।
देवावहि तउ जो दुक्खहारि । ५
चारणमुणि दमवरनामधेउ ।
[मुग्गिदिव्ख दिन्न दुक्खावसाणि ।]
हुउ उभयभट्ठु बभणु वराउ ।

घत्ता—एउ वियाणिवि देवगुरुधम्मायमि ससयचत्तउ ।

जो होसइ सो भव्वयणु पावेसइ मोक्खु महत्तउ ॥ ८ ॥ १०

९

सपइ सकखणिक्कखभेउ
 सव्वासुहवज्जिण सुहपएसि
 तहिं पयपकयरविमयगहत्थि'
 पिय कयणमाल मयणग्गिजाल
 जसहर-विस्सभर-नामधार
 दट्ठूण एंत पट्टुत्त' दो वि
 बहुखंडखीर धयपूर साय
 तद्दिन्नाहरणफुरतकाय
 भोयणकत्तारु कणिट्ठ सुट्ठ
 मुउ मूढु विसूइण मदभाउ
 ताएण वि कयसतोसभाउ
 इयरु वि निएवि मुउ हुउ विराउ
 माकखु सया सम्मतहीणु

आहासमि दुग्गइसुगइहेउ ।
 पट्टणु उज्जेणि भवतिदेसि ।
 विस्सभरु वरु नरनाहु अत्थि ।
 सुय विन्नि ताहे भुयबलविसाल ।
 एक्कहिं दिणे गय गोउलु कुमार । ५
 मिहरेण सनिलयहो निय नवेवि ।
 भु जाविय पडिबत्तीण भाय ।
 ससहाय सघरु भवरणिहू आय ।
 पुणरवि जेमेप्पिणु हुउ निचिट्ठु ।
 भवरहो वि सतण्हहो एहु नाउ । १०
 किउ राउ पत्तसिउ पढमु जाउ ।
 पव्वइउ करेप्पिणु सव्वचाउ ।
 परिभमइ घोरससारे दीणु ।

धत्ता—इय जाणोवि जो कख मणे तिविहू वि तिविहेण मुएसइ ।

सो छड्डिवि सव्वावयउ मासयमुहभायणु होसइ ॥ ९ ॥ १५

१०

अवरु वि उज्जेणिहि गयणचट्टु
 दुविहारिवग्गसजणियतासु
 अतरदीवाहिउ परममित्तु
 नहसुदरिगतहे तहो सनाम
 मुउ'काले जते गयणसूरु
 आयणिवि मित्तु परोक्खु हुउ
 हक्कारिवि वेवि वयससूणु
 आलोणवि आनिगिवि भरेण
 दुव्वारवयरिकुलकालदडु
 हा गयणाइच्च नरिदभीह

नवु अत्थि नियन्नयगयणचट्टु ।
 आयासलच्छि महएवि तामु ।
 नामेण नरेसरु गयणमित्तु ।
 उप्पन्न पुत्त जयविजय नाम ।
 जण नत्थि कयतहो को वि सूरु । ५
 दुहु जाउ गयणचदहु पहूउ ।
 आणिय घरु सव्व वि रूवसूणु ।
 कय सजल नयण विस्सभरेण ।
 हा गउ महु दाहिणु बाहुदडु ।
 जणवल्लह सत्तुकरिदसीह । १०

धत्ता—एवविहु सोएवि बहु सम्माणिवि पउरपसाएँ ।

भुजाविज्ज विसन्न सुय सूयारु पउत्तउ राएँ ॥ १० ॥

६. १ गलत्थि । २ पत्त ।

१०. १ म्रुप ।

११

पडिवत्तिप्र पट्टपेसणपरेण
सयणत्थु भणह ता निसिहिँ जेट्ठु
थरथरथरेइ परिभमइ अंगु
लहुएणाउच्छिउ कि निमित्तु
किं पइँ नेहउ निववयणु सुणिउ
विसमिस्साहारु विसन्नु भाय
विजएण भणिउ तउ जइ विसन्नु
भन्नइ विसन्नु न विसेण जुत्तु

भणिदं च-विषान्नमिव भोक्तृणा
जाणेवि एउ विदिगिछभाउ
इय वारिज्जतु वि मन्नमाणु
दुग्गइहे मरेप्पिणु अट्टमाणु
इयरो वि पसंसिउ पत्थिवेण
कालेण दुविह्विदिगिछसुद्धि

घत्ता—इहभवे जीविउ रज्जु सुहु परभवे देउ अणुत्तरु ।

नोविदिगेछे पावियउ इयरेण वि दुक्खु निरतरु ॥ ११ ॥

१०

१५

भु जाविय ते भोयणकरेण ।
सजाय जीह महु जड्ड सुट्ठु ।
अच्छीहिँ न पेच्छमि किं पि चंगु ।
खलियक्खरु भासइ सचिराचित्तु ।
दिज्जसु विसन्नु सूयारु भणिउ । ५
मज्जेरिस तेणावत्थ जाय ।
ता होइ सरूवु न महुँ किमन्नु ।
आहारु मणोज्जु विसन्नचत्तु ।
परिहरहि कयायर जणियताउ । १०
विसमिदि आहारु दुगुँछमाणु ।
गउ गयणसूरनंदणु पहाणु ।
पुज्जेविणु पेसिउ सपउ तेण ।
सो गउ मरेवि सव्वत्थसिद्धि ।

१२

दूरुज्जिभयमिच्छामयवियारु
विज्जाहारु सावउ एक्कु कोवि
सचल्लिउ वंदणहत्तिहेउ
सपत्तउ दाहिणमद्वरे दिट्ठु
तप्पायमूलि गयभवरिणाइँ
विन्नविउ नवेप्पिणु भुवणसेव
ता मुणिणा भणिउ महामईहिँ
वंदण वि मुणिदंहो सुव्वयासु
किं कारणु साहुहुँ साहु ताहँ
इय तेण विचिचित्तिवि किउ तिखुत्तु

निसुणह अमूढमरणगुणवियारु ।
आयासमग्गि एक्कगु होवि ।
वदतु महामुणि अरुहएउ ।
मुणिगुत्तु नम सिउ मुणिवरिट्ठु ।
अच्छेवि तेण कयवइ दिणाई । ५
जाएसमि उत्तरमहुर देव ।
आसीस कहेज्जसु रेवईहिँ ।
त निसुणिवि विभउ हूउ तासु ।
इयरहँ गुरु नामु न लेई ताहँ ।
पुणु पुणु वि जईसँ त जि वुत्तु । १०

घत्ता—तं निसुणेप्पिणु सावणण विहसेप्पिणु भणिउ भडारउ ।

को गुणु तहे पट्ट पंसियउ जेणासीवाउ तिवारउ ॥ १२ ॥

१३

एयारहंगसुयसायराःसु
नीसेसवत्युससयहरासु
दुद्धरपरिपालियसजमासु
किं वंदणाए किं पि वि न तामु
निसुरोप्पिणु भासिउ भावयासु
भो अभवसिद्धि मिच्छोदएण
सम्मं सद्दहइ न जइणमुत्तु
साविय वि सब्बसदेहवत्त
सम्मत्तमुद्ध निम्मल मरणेण
मुणिवयणु, मुणिएवि किंचि वि सखेउ
पेच्छह तवसीए वि रायदेमु
अह एण वियप्पे किं किएण
इय चित्तिवि गउ नहं पवणावेउ

वच्छल्लमहागुरासायरासु ।
पव्वइयहो सपइ गराहरासु ।
भवसेणानाममुणिएपुंगवासु ।
पट्टवह साहु संघाहिवासु ।
पभराइ मुणिए परमावहिपयासु । ५
वामोहिउ भो मोहिजएण ।
तहो तेण परणामु एण होइ जुत्तु ।
कुच्छियगुरुदेवायमविरत्त ।
तहं पेसिउ आसीवाउ तेण ।
चित्तइ मणि खयरु न घडइ एउ । १०
जं साविय वर किय मुणिएकुलेमु ।
गुरागुरु भुवणयत्ति ससकिएण ।
संपत्तउ त पुरु पउरकेउ ।

घत्ता—ता तहिं तेण विउब्बियइं बंभाइयदेवहं रुवइं ।

विज्जपहावें चउदिसहिं जणवयमणविभयभूयइं ॥ १३ ॥ १५

१४

पयडीकरतु नियनियविहोउ
अन्नहिं दिणिए किउ अरहतवेसु
भवसेणु सब्बसघें समेउ
संसारमहादुहदाइयाहं
वाणारसिरायहो तणउ पुत्तु
नव विणुहु रुद्ध एयारसेव
तित्थयर ते वि चउवीस सामि
निच्छउ मायाविउ को वि एहु
इय भणिएवि न गइय विवेयखाणिए

गउ भत्तिहरिसवमु सब्बु लोउ ।
तहो वंदणाए अमुणिएय विसेमु ।
गउ जाणिएऊण तित्थयरदेउ ।
दट्टव्वु काइं रुद्धाइयाहं ।
जो बभु सो हु काले समत्तु । ५
ते काले कवलिय सावलेव ।
गय मोक्खहो सब्बदुहोवसामि ।
जणमणाहो जेण सजणिएउ खोहु ।
थिय रेवइ रेविवि लोयवाणिए ।

घत्ता—ता तहिं अबसरि खेयरेण विभियमणेण चित्तिज्जइ । १०

वामोहिउ जणु सयलो वि मइं पर तो वि न तहं मणु भिज्जइ ॥ १४ ॥

१५

महरिसि वि समागय वीयराय
लइ करमि को वि अज्ज वि उवाउ

पर एक्क ए वरुणनरिदजाय ।
परियाणमि जे तहिं तणउ भाउ ।

इय चित्तेप्पिणु अइयल्लु जाउ
रेवइधरपवलिसमीवभाए
कोवीणकमंडलपिच्छजुत्तु
आवंतु सतु अक्खुडिवि पडिउ
तं वयणु सुणेप्पिणु रेवइए
आणिवि उवयारु करेवि जोग्गु
तेरा वि नीसेसु समच्छरेण
आयरिसिउ असणु अमगलेरा

थिउ निवडिऊण वियरालकाउ ।
ता कहिय वत्त केणावि माए ।
को वि धम्मपुत्तु मुच्छाए भुत्तु । ५
अच्छइ दुवारि कोढेण सडिउ ।
गतूण तेत्थु सुदरमईए ।
सई दिण्णउ भोयणु विगयरोगु ।
न वक्कगएण सणिच्छरेण ।
जलु साइगएण व मगलेण । १०

घत्ता—नवमेहेण व उव्वमिउ तं सयलु तेण सकसाएँ ।

ताए करेहँ पडिच्छियउ नावइ अउदायणु राएँ ॥ १५ ॥

१६

सावियहिँ निएप्पिणु मुद्धु भाउ
कयइच्छाकारे तेरा ताहे
गुरुआसीवाउ कहिउ भवेण
तुहुँ का वि महासइ समयदेवि
वित्तनु समग्गु वि निउ रुहेवि
जाइवि खत्तियगुह गुराणिहाणु
वंदण कहेवि जहजोग्गु तामु
भवसेणपामु गउ बडुउ होवि
नियपायपओरुहपणायगत्तु
पुच्छिउ को तुहुँ कहिँ होंतु आउ

विज्जाहरू नियरुवेण जाउ ।
वदावि देउ मुहासयाहे ।
ताए वि नवि वि लइयउ सिरेण ।
गयसंसयसय एव थुणेवि ।
सदेहु निहिलल्लोयहो सहेवि । ५
पणवेप्पिणु सुव्वउ मुणिएपहाणु ।
वच्छल्लु निएप्पिणु सुहपयासु ।
तहिँ अरसरि बाहरू चलिउ सो वि ।
मुणिएणा वि मुणेवि अउव्वु पत्तु ।
त निमुणिएवि भासइ सो समाउ । १०

घत्ता—भट्टपुराविवसंत हउँ विज्जत्थियउ बहुविज्जेसर ।

मुणिवि कित्ति कचीपुरहो तुह पासु आउ परमेसर ॥ १६ ॥

१७

पडिगाहिउ एव भएणतु तेरा
बहुएण वि विणएणणुसरेवि
धोवतरु जाएप्पिणु समेउ
सव्वत्थ वि मग्गु निरंतरेहिँ
अप्पासुयपहु पेच्छिवि नियत्तु
किं कारणु पहु वाहुडिय जत्त

नावइ अणत्थु अमुणियमणेण ।
मग्गेवि कमडलु करि करेवि ।
वेउव्विउ तामु परिक्खहेउ ।
संछण्णउ कयउ तणकुरेहिँ ।
छुडुँ ता नवल्लसीसे पयत्तु । ५
आहासइ मुणि सुणि विणयवंत ।

हरियंकुरु जीवाणुवरि वृत्तु
भासइ दिउ जइ ए जीव होंति
पच्चक्खपमारिण किमारिसेण

आयमि न जाणु जइवरहँ जुत्तु ।
तो कि न चलति न चलवलंति ।
करि ककणे व कि आरिसेण ।

घत्ता—तहो वयणेण अयाणमणु आयमुत्तु न पमाणु करंतउ । १०
ताई वि सचूरंतु गउ काणणतरु करिवरु व पमत्तउ ॥ १७ ॥

१८

अग्गए गंतूण विसुद्धबुद्धि
इयरेण वि तक्खणि किय धरिन्ति
विज्जाए करेप्पिणु तोयनासु
जा जोयइ ता तहिँ नत्थि अप्पु
मुणिसन्न निएप्पिणु भणइ धुत्तु
तुम्हई मुएवि गउ कहिमि नेव
पुणरवि वियडिहिँ कय सन्न तेण
हउँ सन्न न वुज्झमि मूढभाउ
कि मोणे संदेहावहेण
आणहि कयपयडिमलावसाणु

स बइट्टु करेवई कायसुद्धि ।
भप्पोवलवियडिविहीण झत्ति ।
ममांतहो कुंडिय दिन्न तामु ।
सन्नाए समोणँ भणिउ विप्पु ।
कर जोडिवि मायाभट्टपुत्तु । ५
मई काई कियउ सलिलेण देव ।
वच्चइ जाणतेण वि दिएण ।
वयणेण पयासह करमि साउ ।
ता बोत्तिज्जए मिच्छावहेण ।
इट्टालु रक्ख अह सुक्कछाणु । १०

घत्ता—आलु पलोएवि चउदिसउ विप्पेणावेवि पउत्तउ ।
मई सव्वु वि पहु जोइयउ पर कि पि न दिट्टु निरुत्तउ ॥ १८ ॥

१९

कि अन्ने एएँ निम्मलेण
किज्जउ सउच्चु ता भणइ साहु
फसणेण सरीरहो ते मरति
जइ अत्थि वि तो दीसहिँ न काई
सयमेव तत्थ जाएवि जाम
सव्वणहुवयणु अवगणिऊण
अप्पासुयपुहइए नइजलेण
भवसेणु भणेवि अबवसेणु
गउ कचीपुरु मुणिगुत्तपामु

वरमट्टियाए जमुणाजलेण ।
एत्थत्थि पउरजीवावगाहु ।
कज्जेण तेण जइ परिहरति ।
आयण्णिवि वडुयपयपियाई ।
आलोइय नियइ न कि पि ताम । ५
तहो भणिउ सव्वु मणि मन्निऊण ।
किउ सउच्चु तेण सहसा जलेण ।
खेयरु परवित्तसहावथेणु ।
पणवेवि निवेइय वत्त तामु ।

घत्ता—जइ देवायलु सचलइ पच्छिमेण उग्गमइ दिवायरु । १०

तो पहु तुम्ह वाणि चलइ अहवा जइ सूसइ सायरु ॥ १९ ॥

१७. १ करि व पमत्तउ ।

२०

तहविह्व बहुअलियवियप्पजोउ
जो तुम्हहँ वयणु सुणेवि हूउ
देदेहि तासु पच्छित्तु करमि
भवियव्वु वियाणिवि तेण तासु
चिरयालु करेप्पिणु परमनिट्टु
गउ बभलोउ देवरिसि जाउ
दमवरमुणिपाय नवेवि साहु
रेवइ वि गंपि करहाडदेसि
दुद्धरु तउ करिवि विमुक्कपाव

पत्तियइ न केमवि मूढलोउ ।
परिणामु मज्झ सामिय विरूउ ।
परमत्थपंधु तउ तिव्वु चरमि ।
तउ दिम्ह दुक्खसदोहनासु ।
निन्नासिवि तासिवि दूरि तिट्टु । ५
एत्तहे खेयरवरु वरुणराउ ।
सजायउ सुहसीलबुवाहु ।
तवसिणिय हूय मुणिगुत्तपासि ।
सभूय मुरिदु अमूढभाव ।

घत्ता—एउ वियाणिवि परसमए जो जिउ परिणामु चएसइ । १०

सो मुरेदु सिरिचदजसु होएप्पिणु अस्सउ हवेसइ ॥ २० ॥

विवहरसविसाले णेय काऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले ॥

भुवणविदिदणामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिण्णतोसे ॥

मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसंजुत्ते ।

दमणदोसवियारो वीओो सधी समत्तो य ॥

१५

॥ सधि २ ॥

संधि ३

१

उवगूहण ठिदिकरणं वच्छल्ल पहावणा गुणा भणिदा ।

सम्मत्तविसोहीए उवगूहणकारया चदुरो ॥ [भ० आ० ४५]

दर्शनोद्गाहप्रशमनमुपगूहनम् । व्रतभ्रष्टस्य नानादृष्टान्तोपायैः पुनस्तत्रैवावस्थापन
स्थितिकरणम् । सधर्माणा धोरोऽसर्गारोगातङ्कादिषु प्रतीकारकरण वास्तव्यम् । यथा..क्ति
व्रतपूजादानादिभिरहंशंनोद्योतनं प्रकाशनम् प्रभावना । एते चत्वारोऽपि उपगूहन-कारका ५
रक्षाहेतव । कस्याः ? सम्मत्तविसोधीए सम्यक्त्वविशुद्धः ।

ध्रुवक—अइयार पउत्त दुग्गइदुक्खविणासणहो ।

गुण कहमि पहाण सम्मं सम्मद्दसणहो ॥

ज पउत्तु पयणियजणसोसह

किउ जें जेमप्पउ आयासमि

पुप्फनयरि कयवइरिरहासहो

पुत्तु विसाहु मईए अनुच्छउ

सत्तदिणेषु गएसु सकते

तवज्जाणाणलहुयवम्मीसह

गोउरि पविसमाणु पेक्खेविणु

घरु आणेषिणु पुज्ज करेप्पिणु

उवगूहणउ पयासणु दोसह ।

आयन्नह त तेम पयासमि । ५

रायहो कतविसाह्विसासहो ।

जायउ तामु विवाहमहुच्छउ ।

मडवि मडणविहिणाच्छते ।

वालमित्तु मुणिगुत्तु मुणीसह ।

सहसुट्ठिणि णु ठाह भणेप्पिणु । १०

पणवेप्पिणु वरभोयणु देप्पिणु ।

घत्ता—आउच्छिय तेण नववहुनेह्वसगएण ।

सोमिल्ल व पुप्फ डाले आसिविसगएण' ॥१॥

२

बोलावेप्पिणु पिए थोवंतरु

एव भणेवि मुणिहि अवलग्गउ

मुणि न भणइ सो केम नियत्तइ

केण वि भणिउ मित्तु मुणिगुत्तहो

ता तमेव तहो कारणु ह्यउ

दूरुज्झियपमायविसयासउ

सुणिवि पियहो तववहुपरिणयणउ

आवमि लग्गउ मित्तमुणीसह ।

धम्मालावहि दूरपह गउ ।

गय विन्नि वि तहिँ जहिँ रिसिंसंतइ ।

घाउ तवत्यु एत्थ सुपवित्तहो ।

गुरुनामे पिहियासउ नूयउ । ५

नियसरुवसनिहियसयासउ ।

कणयसिरिए ओहुल्लउ' वयणउ' ।

१. १ आसिि णयंगएण ।

२. १ ओउल्लिय ।

जइ हउँ तो कि कारणु अन्नप्र
अप्पउ असहंतप्र सावत्तउ
रक्खसि सुहगइजणियविमद्दे

चित्ति वि एउ समुज्जलवन्नप्र ।
परमुद्देएँ कक्करि चित्तउ ।
हुय मिच्छामरणेण रउद्दे ।

१०

घत्ता—दूरुज्झउ तेण मिच्छामरणु जिणायमप्र ।

विहरंतु मुणिट्टु कहिमि काले सो दिट्ठु तप्र ॥२॥

३

वुज्झउ बोहे पुच्चभवंतरु
निट्ठुरु निट्ठयमणु निल्लक्खणु
सो जिह उवहसिऊण पणट्ठउ
एव विचित्तिवि एयविहारिहिँ
सा [हु] हयास हिमाचलधीरहो
भोयणकालि कसायकयतहो
करइ' उवट्ठउ लउजइ जे वणु
काले जते दुविकयसंवव

परियाणिउ एसो सो महु वरु ।
कुलपरिहासहीणु अविक्खणु ।
एवहिँ कहिँ महु वच्चइ दिट्ठउ ।
मुणिसीहहो गय मासाहारिहिँ ।
दूसहभुक्खाखामसरीरहो । ५
लिवगवियारमिसेण सया तहो ।
नियवि विविज्जइ कयजणजेवणु' ।
जाउ तयट्ठियसेमु दियवरु ।

घत्ता—सो एकदिणम्मि विहरमाणु सच्छंदगइ ।

चरियाप्र पइट्ठु रायगेहु पुरु धीरमइ ॥३॥

१०

४

तहिँ भोयणु पउत्तविहिपुण्णप्र
चिरभववेरिणीप्र वेउव्विउ
त निएवि उट्टाहाभोयप्र
मुणि आसाइयतवसिरिसाइउ
भुत्तु निरतरु कुगइनिरोहणु
देवहिँ साहुक्कारिय राणी
साहु विय अईविनिव्विन्नउ
सुक्कज्झाण विसेवि विचित्तउ
देवागमणु दूउ मइवंतप्र
किउ उवसग्गु केण कि कारणु
आइ मज्झु अवसाणु न रक्खिउ

चेल्लणमहएवीप्र विइन्नप्र ।
लिवगवियारु तामु सहसा किउ ।
चेडयनामनराहिवधीयप्र ।
चउदिमु कडवडे पच्छाइउ ।
एव करइ को किर उवगूहणु । ५
तिहुयणविक्खाणी मुणि जाणी ।
काणणे सच्चवाउ पडिवन्नउ ।
णाणु अणोवमु तं सपत्तउ ।
पुच्छिउ जइवरु सेणियकंतप्र ।
कहि सामिय गुत्ससयवारणु । १०
ता तेणावि सवइयरु अक्खिउ ।

घत्ता—मुणिवयणु मुणेवि अट्टरउदाइसु विरउ ।

संजायउ लोउ दंसणनाणचरित्तरउ ॥४॥

५

अवरु वि उवगृहणअक्खाणउ
 चउविहसुरनिकायमज्जत्थे
 मिच्छाधम्मकारिदमइंदे
 धम्मस्सवण करते संते
 भूयलि राया सेणियसन्नित्त
 तं निसुणेवि असह्माणउ
 निप्रवि नराहिउ एंतु ससेणउ
 चामरवाहिहाणु विक्खायउ
 ता तहिं मगहेसरु संपत्तउ
 गुरुहारज्जहे मीणप्पत्तउ
 मई दासे हौतेणाहम्मउ

घत्ता—जइ कज्जु भसेहि तो तुम्हई पासत्थ पट्टु ।

अच्छह होएवि हउं संपाडमि मच्छवट्टु ॥५॥

कहमि समुज्झियदोसुट्ठाणउ ।
 सुयनाणोहिनाणसामत्थे ।
 अणुरजणिप्र क्हाप्र मुरिदे ।
 फेडियपुच्छयजणमणभंतं ।
 दिट्ठसम्मत्तु भणेप्पिणु वन्नित्त । ५
 एप्पिणु नहि चोइयसविमाणउ ।
 मग्गसग्गेवरि कड्ढियमीणउ ।
 सुरवरु जालहत्थु रिसि जायउ ।
 जइ आलोप्रवि जालु धिवंतउ ।
 पणवेप्पिणु विणएण पउत्तउ । १०
 जुज्जइ तुम्हई एउ न कम्मउ ।

६

वियाणिय निम्मलराउ मणेण
 धराहिन्न एत्तियमेत्तहिं चेव
 तन्नो विरईहे कराउ लएवि
 गन्नो मगहावइ गेहि नवेवि
 निएविणु तारिसु ताण विधम्मु
 मुणेवि वियडिद्धण अन्नदिणम्मि
 सलेहदलाउ नियकधराहु
 विदिन्नउ सब्वहं रायसुयाहं
 नवेप्पिणु निव्विदिगिद्धमणेहिं
 चडाविउ ताउ लएवि ससीसे

घत्ता—त निप्रवि णिवेण भणिय सब्वसामंतवरे ।

मुद्दियउ कियाउ कि तुम्हहिं विरुयाउ सिरि ॥६॥

पउत्तु पवचु मूणिदे तेण ।
 पन्नोयणु मीणहिं अन्नहिं नेव ।
 करे अणिमेष सभिच्चहो देवि ।
 विसज्जिउ संजउ संजइ वेवि ।
 दुगुच्छइ लोउ दियवरधम्मु । ५
 णिदसणु संदरिसाविउ तम्मि ।
 करेप्पिणु मुद्दउ जीवणु ताहु ।
 [पुरीसविलित्तउ कारिवि ताहं]
 करेवि कयजलि सब्वजणेहिं ।
 ससेहरे चपयवासविमीसे । १०

७

जियसत्तुचक्केण सुयसामिचक्केण
 एहम्ह जीवस्स चेषणप्र तणु जेम
 तं वयणु निसुणेवि कुलकुमुयचदेण
 जइ निहिलजियनाहजिणमुद्धारस्स
 मई मुयवि विदिगिद्ध नवयारु किउ तासु

विणएण सलविउ सामंतचक्केण ।
 सपुज्जणिज्जादिवदणिय फुडु तेम ।
 विहसेवि ते भणिय सेणियनरिदेण ।
 गुरुविणयपुब्बेण मच्छधिचेरस्स ।
 ता तुम्ह कि कारणं करहु उवहासु । ५

ता तेहिं तं मन्नियं कयपणामेहि
तुहुँ एककु पर धण्णु भो रायराएस
निरवज्जु जयपुज्जु पर एककु जिणघम्मु
तं सुणिवि आवेवि देवेण नरनियर
वुत्तो सि तुहुँ जारिसो देवराएण
इय भणिवि पुज्जेवि वित्तंतु अक्खेवि
त नियवि वित्तंतु मिच्छन्ति पविरत्तु

मन्नाविओ सामिओ विहियसामेहि ।
जसु अचलु मणु धम्मे कयपावविदेस ।
दोसें असक्कस्स कि होइ नउ गम्मु ।
मज्जे नृवो भणित्तु हो भावितित्थयर ।
अहिएण फुडु तारिसो धम्मराएण । १०
गउ अमरु सुरलोउ तहो हारु वरु देवि ।
संजाउ जणु सब्बु जिणसमए अणुरत्तु ।

घत्ता—अवरेण वि एव सासयमोक्खक्कटिण्ण ।

कायव्वु सया वि उवगूहणु समयट्ठिण्ण ॥७॥

८

भासमि सच्चियमलसहरणहो
रायगेहि पहासाहियरायहो
दसणनाणचरित्तसमिद्धउ
एयवरु निसि पडिमाजोएँ
तम्मि चैय नयरम्मि सतासउ
थभणमोहणाइबहुविज्जउ
साहसपउ बहुवसणाकतउ
एक्कहिं दियहिं जाम तहिं मदिरु
ताम भज्ज पेच्छइ विच्छाई
पुच्छिय मन्नावेवि वराणणि
भासइ गणियासुदरि दुल्लह
कितुज्जाणवणम्मि महापहु
हारु निएवि मज्जे उम्माहउ
थिय पहेवि पिय तेणुट्टेएँ

निसुणह कह पवित्त ठिदिकरणहो ।
वारिसेणु सुउ सेणियरायहो ।
पालियपब्बोवासु पसिद्धउ ।
अच्छइ पिउवणे पावविओएँ ।
अत्थि चोरु विज्जुच्चरनामउ । ५
अजणसिद्धु कयतु व विज्जउ ।
गणियासुदरिगणियाकंतउ ।
जाइ निसिहिं सो नयणाणदिरु ।
विगयचदचदिम न राई ।
रुट्टु ममोवरि काइँ अकारणि । १०
नउ तुज्जुवरि कोहु महु वल्लह ।
चिल्लणदेविहिं कठि सुहावहु ।
जाउव्विट्ठु भोयघणलाहउ ।
ता घोरिय घण कयजणखेएँ ।

घत्ता—उट्ठुट्ठुहि देवि करि सिगारु चित्त हणहि ।

१५

किं एककं तेण अवरु वि आणमि जं भणहि ॥८॥

९

रंजिऊण भामिणीहिं
अद्धरत्ति रायगेहु
निग्गओ लएवि हारु
नं कयंत बद्धकोह

चित्तु हंसगामिणीहिं ।
गंपि वट्टु लच्छिनेहु ।
बुज्झऊण पायचारु ।
घाइया नरिदजोह ।

१३

एत्तिउ जणवउ हरिसुपेल्लिउ
भणइ मति कुललज्जविवज्जिय
थिय आवेप्पिणु जो तहु भत्तउ
भणिउ नरिदि मइँ वि निरुत्तउ
मते वुत्तु ताहँ को भासिउ
जइ सवणत्थु धम्मु तो पहु सुणु
ज वेएण वुत्तु त किज्जइ
भासिउ नरवरेण वेयत्तउ
सपइ सवणधम्मवहु केहउ
जाणेविणु सामिहँ गमणागहु
जइ जाएसहुँ तेत्थु निरुत्तउ

धत्ता—मज्झत्थे नाह अच्चेवउ

जे णिउणवयणाइँ ते वाएँ

कहि अयालजत्तहे सचल्लिउ ।
नग्ग सवण उज्जाणि अणुज्जिय ।
सो जणु जाइ एह मइचत्तउ ।
गपि सुणेवउ ताण पउत्तउ ।
मुणइ सुईसत्थिहँ सइँसिउ । ५
धम्ममूलु वेएहिँ महागुणु ।
अणुणु सव्वु दूरेण चइज्जइ ।
निमुणिउ मइँ वाराउ बहुत्तउ ।
मुणहुँ गपि तहिँ नीसदेहउ ।
भासइ सुत्तकठु मलसगहु । १०
तो एत्तिउ किज्जउ महु वुत्तउ ।

मोणेण पईँ ।

कायव्व मइँ ॥१३॥

१४

एम हौउ भणिऊण नराहिउ
पय पणवेप्पिणु पुरउ निसन्नउ
ता दिएहिँ भासिउ भो रिसयहो
आगउ आसमगुरु सभासह
तो वि न किपि को वि तहिँ बोल्लइ
नियवि निरुत्तर कयउवहासहिँ
सामिय ए पसु असुइ अमगल
रायसहाए किमुत्तर देसहुँ
एण भएण मुख थिय ज्ञाणे
निमुणिवि ताणं वयणु विरूयउ
सहसुट्टेप्पिणु जणमणरमणहो

धत्ता—गोउरहो समीवे सो सुयसायरु साहु तउ ।

आलोएवि एंनु पुणु वि तेहिँ उवहासु कउ ॥१४॥

गउ तहिँ जहिँ ससघु सघाहिउ ।
आमीवाउ न केण वि दिन्नउ ।
तुम्हारासमे सामिउ विसयहो ।
नियसमयाओ धम्मु पवासह ।
गुरुसकेयवयणु मणि सल्लइ । ५
भासिउ चउहिँ मि तेहिँ हयासहिँ ।
एयहुँ वयणरयण कहिँ भगल ।
सहुँ विउसयणाहि काइँ चवेसहुँ ।
जणमणरजणमायामोणे ।
राउ वि कि पि विलक्खीहूयउ । १०
चल्लिउ सहुँ सेणाए सभवणहो ।

१५

पेक्खु पेक्खु पहु खाएवि एतउ
निदावयणु सुणेवि मुणिदेँ
निच्छउ बंदणहत्तिए राणउ

अवरु बइल्लु कहि पि वि हौँतउ ।
चित्तिउ परवाइब्भमइँदे ।
रउ हौँतउ जहिँ संघपहाणउ ।

वायत्थीहिँ तत्थ अविणीयहिँ
त न पयासिउ केण वि कज्जे
अवरु बइल्लु नियच्छह एतउ
जइवि वाउ असमाहिहिँ कारणु
उवसमेण उवसमइ कि दुज्जणु
जइ अच्छमि सहेवि इय भासिउ
राउ वि एउ मणेसइ निच्छउ
कि गुणसपयाए तए किज्जइ

घत्ता—इय चित्तेवि तेण साहुवाद बाएण दिय ।

फणि गारुडिएण मंतेण व निहप्प किय ॥१५॥

पुच्छिउ कि पि ह्वेसइ एयहिँ ।
गुरुणा दूरविमुक्कावज्जे । ५
तेणेयहिँ पहु एउ पउत्तउ ।
करमि तो वि खलदप्पनिवारणु ।
जाम न किज्जइ माणविहंजणु ।
तो सव्वु वि मइँ कज्जु विणासिउ ।
सासणु एयहँ बुद्धिए तुच्छउ । १०
जाए ससमउ लहुत्तहो निज्जइ ।

१६

मति निरुत्तर निएवि नरिदे
जय परवाइतमोहदिवायए
अन्नहो एह लील किहिँ छज्जइ
जिणसासणु परेक्कु अखलियगइ
एव थुणेवि लेवि सावयवउ
मुयसायरंण गपि गुरु दिट्ठउ
त निमुणेप्पिणु सघपहाणे
किउ अजुत्तु पइँ काइँ विवाएँ
अवमाणिय' अवमाणु करेसहिँ
वायठाणे जइ पावविओएँ
तो तुह पाडिहेरु सपज्जइ

घत्ता—गुरुवयणु सुणेवि चित्तमाणु तो संघहिउ ।

जाएप्पिणु तत्थ थिरु पडिमाजोएण थिउ ॥१६॥

साहु पससिउ परमाणंदे ।
जय अणतगुणमणिरयणायर ।
पइँ मुएवि को महु मणु रजइ ।
जहिँ पइँ जेहा अत्थि महामइ ।
राउ सपरियणु नियगेहहुँ गउ । ५
पणवेप्पिणु वित्ततुवइट्ठउ ।
भणिउ वियाणियभाविविहाणे ।
कलिमूलेण समाहिविराएँ ।
अज्जु निसिहिँ त सघु हणेसहिँ ।
अच्छहिँ जाएवि पडिमाजोएँ । १०
मरणमहावय संघु विवज्जइ ।

१७

एत्तहे तेहिँ चऊहिँ वि मतिहिँ
गहियकिवाणहिँ नाइँ कयंतहिँ
गोउरबाहिरि ज्ञानकयायरु
चित्तिउ कि अन्नाण वराएँ
सो हम्मइ जो हणइ पसिद्धउ
एणमहइँ परिहविय विसाले

१६. १ अवसाणिय ।

परिहवपरिवडिद्वय जि अकित्तिहिँ ।
मारहुँ सबणसंघु निग्गंतहिँ ।
आलोएप्पिणु मुणि सुयसायरु ।
घाइएण खवणयसंघाएँ ।
एउ वयणु सत्थेसु निबद्धउ । ५
खज्जउ एहु अज्जु खयकाले ।

एम भणेवि जाम आमेल्लहिँ
ता ते जाणियजुत्ताउत्ते
ताए अक्कए पसरि नियच्छिय
मति भणेवि निवेण न मारिय

घत्ता—कुरुजंगलदेसे
नं नरवेसेण

हत्थिणपुरे
खत्तधम्मु

घाउ किवाणहिँ मुणितणु सल्लहिँ ।
कीलिय देवें पालियखेत्ते ।
सब्बेहिँ मि लोएहिँ दुगुच्छिय ।
वित्थारिवि नयरहो नीसारिय । १०

महपोमु निउ ।
दइवेण किउ ॥१७॥

१८

लच्छि व लच्छीमइ तहो जाया
णामें पोमु विण्हु विक्खाया
एक्कहिँ दिणि कयभवाणंदो
बंदणहत्तिए तासु नरिदो
देवि पदक्खण पुरउ निसन्नो
मुणिवि धम्मसवण उवसतो
जेट्टमुयस्स समप्पियपोमो
एत्तहे वेतत्थामुहभग्गा
बुद्धिविसेसु निएप्पिणु राएँ
बलिणा मइबलेण बलवंतो
सब्बहिँ साहुक्कारु पघुट्टो

घत्ता—पुज्जेवि

पउत्तु

कुरुनरनाहें मतिवरु ।

जो भावइ सो हु मग्गहि मइमयरहर वरु ॥१८॥

नदण वेत्ति ताए संजाया ।
इंदपडिंद व सग्गहो आया ।
आउ मुणी सुयसायरचदो ।
गयउ ससेन्नो नाई सुरिदो ।
नं वीरग्गइ गोत्तमसन्नो । ५
सलहुमुओ समतिसामतो ।
पव्वइओ राया महपोमो ।
गपि पाव ओलग्गहुँ लग्गा ।
मति चयारि वि किय सपसाएँ ।
सीहरहो सीहबलो जित्तो । १०
त निएवि पोमो सत्तुट्टो ।

१९

पभणइ बलि मग्गेसमि जइयहुँ
ता कालें जते विहरंतउ
थिउ आविवि आदावणजोएँ
बलिणा जनु जणोहु नियच्छिउ
तेण वि कहिउ होंतु सुहजोणिहिँ
सहुँ संधि सिवसोक्खुक्कठिउ
तासु वि विहियदुहोहविच्छित्तिए
तं सुणेवि सूलेण व सल्लिउ
जाणं कारणेण नीसारिय
ते वि इहाय दुट्ट किं किज्जइ

करि पसाहु पहु देज्जसु तइयहुँ ।
सूरि अक्कपणु तहिँ सपत्तउ ।
गउ जणु तं वदहुँ सविहोएँ ।
पुणु पासत्थु को वि आउच्छिउ ।
आउ अक्कपणु मुणि उज्जेणिहिँ । ५
एत्थ सेलि आयावणि संठिउ ।
जाइ एहु जणु वदणहत्तिए ।
गंपि गेहु सहु भाईह बोत्तिउ ।
रूसिवि राएँ कहव न मारिय ।
एवहिँ को उवाउ विरइज्जइ । १०

सो मज्झत्यु एहु फुडु एयहँ
जइ जाणइ पुव्विलउ वइयरु
भेसइणा पउत्तु तहिँ गम्मइ
नमुइ भणइ धीरत्तु न मुच्चइ

घत्ता—पन्हाएँ वुत्तु जाव न पडिवक्खहो फलउ ।

१५

किउ ताव कि होइ जीवियव्वसुहसोहलउ ॥१९॥

२०

तं पर हवइ रज्जसंपत्तिऽ
एउ वयणु मव्वहिँ मि समत्थिउ
जो पइँ आसि अमोहपयपिय
सोज्जि पसाउ करेपिणु दिज्जउ
तं निसुणेवि नरिदे वुच्चइ
ता विणेण भणिउ मुणि वासर
तुहँ चितवियमणोरहपूरउ
पइँ अवहत्थिउ महु मणसत्तलउ
एम भणेवि जणियनिव्वाहे
मुएवि तत्ति परिवारहो देमहो
एत्तहे परिवड्ढियमुहरायहो
जन्नविहाणमिसेण वियंभिउ
वेढिवि सवणसधु नेरतरु
खणिय कुंड हुयवह पज्जालिवि

घत्ता—उवसग्गु निएवि समसहाव दुविहाणसणे ।

१५

थिय तउ उवसग्गसहणु एउ चितेवि मणे ॥२०॥

२१

मंडवि मग्गणेहिँ महि खुब्भइ
हुयवहि जीवनिवहु होमिज्जइ
देवयपियरुहेसँ दिज्जइ
मारिवि जीव मुअंति सखंडइ
रत्तेणुत्तिहुँ ति विरुद्धा
एव भणति ह्णांति सुवद्धहिँ
गलि धिबंति पसु अंतावलियउ

२१. १ जे ।

भत्तउ राउ विमुक्कविवेयहँ ।
तो सपेसइ अम्हइँ जमहरु ।
नाउ वि एयहँ जत्य न मुम्मइ ।
करउ दई ज कि पि वि रुच्चइ ।

दरिसियदुट्ठाणिट्ठपवित्तिऽ ।
वलिणा गपि राउ अम्भत्थिउ ।
वरु पडिवन्न मत्तु पुहईपिय ।
नियपइज्जनिव्वाहउ किज्जउ ।
मग्गि मित्त ज कि पि वि रुच्चइ । ५
रज्जु पयच्छहिँ कुरुरमेसर ।
तुहँ मडवरु सूरहँ वि सूरउ ।
जं दिज्जइ त तुह परिभत्तलउ ।
दिनु रज्जु तहो करिपुरनाहे ।
निवइ पइट्ठु मज्जे रणिवासहो । १०
भमिय आण मडले वनिरायहो ।
धोरुवसग्गु तेहिँ पारभिउ ।
किउ मडलु सद्धन्नदियतरु ।
साहु सुद्धधूमेण करालिय ।

जं^१ मग्गिज्जइ त त लब्भइ ।
पिज्जइ सोमपाणु पलु खज्जइ ।
ते ह्यास ताण गए मुडइँ ।
चंगउ जं सयल वि उवलद्धा । ५
वार वार सीसम्मि दसद्धहिँ ।
नाइँ भुयंगमीउ चलचलियउ ।

जं ज तेत्युच्छिट्टउ पावहिं
सुमरिवि पुव्वेवरे बोल्लइ बलि
भेसइ भेसावइ उवहासइ

घत्ता—जइ साहु सवति तो करति तेलोक्कखउ ।
पर एत्तिउ देउ जं कामु वि रूसंति नउ ॥२१॥

२२

एत्थंतरि मिहिलानयरे
निसि नहे थरहरंतु सवणु
महपोमें गुरुणा मुण्डिउ
हा हा भो उवसग्गु बहु
पुपफयतअज्जेण तउ
कहि केसं केमुवसमइ
सह संघेण अकपणहो
दरिसियवग्घसीहमुहहो
विण्हुकुमारु मुणी वसइ
तं निसुणेवि नवेवि गुरु
गंवि मुण्डिउ नमसियउ
कि महु अत्थि विउव्वणिय
एम भणेवि परिवक्ख किय
सेलभित्ति फाडेवि गय
लग्गा गपि वि सायरहो
जडसंगाओ अपहगइ
नं नियकित्तिदुवारु वरु
अज्ज वि अच्छइ तम्मि नए

घत्ता—हुउ निण्णउ
सव्वासुहचत्तु

गपि विण्हुकुमारें दिट्ठु गुरु ।
नावइ सिद्ध सिद्धिपुर ॥२२॥

२३

मग्गिउ दे आएसु महापहु
जाहि संघउवसग्गु निवारहि
न करइ जो वच्छल्लु ससत्तिअ
कवण सुद्धि तहो फुडु चारित्तअ
पईं मुएवि दूरज्झियदूसणु
२२. १ णय ।

तं त नेवि पुरे घल्लावहिं ।
जाहु अज्जु कहि देमि दिसावलि ।
नमुइ न मुयइ सुनिट्ठुरु भासइ । १०

अच्छतेण जिणदहरे ।
निअवि अईवारत्ततणु ।
नाणवियक्खणेण भणिउ ।
वट्टइ साहुहें दुव्विसहु ।
पुच्छिउ गुरु सदेहखउ । ५
उवएसइ अणुकंपमइ ।
गयउरि गणिहे अकपणहो ।
जो भूभूसणु गिरिगुहहो ।
तासु विउव्वणाअ त्हुसइ ।
गउ खेयरु त गिरिविवरु । १०
गुरुआएसुवएसियउ ।
रिद्धी जणमणरंजणिय ।
वाह पसारिय तेण निय ।
न गगानइ साइसय ।
कामिणि व्व रयणायरहो । १५
खचिय विउसेण व समइ ।
पयडु जाउ जणचोज्जकरु ।
तित्थभूउ तं रधु जए ।

२०

भणइ महामुणि कयधम्महें वहु ।
भइ सुकित्ति भुवणि वित्थारहि ।
सत्तहें जिणमयसत्तहें भत्तिअ ।
नाणि तवम्मि सीले सम्मत्तअ ।
अन्नहो तं न समप्पअ पेसणु । ५

पभणइ विण्हुमुणी णयमत्थउ
 जामु तुम्हे कयअवरविहत्तिय
 एम भणेप्पिणु पणवेप्पिणु गुरु
 गपि सहोयरु जेट्ठु पउत्तउ
 एरिसु कम्मु एत्थ सताणए
 जामज्ज वि मकुडुवु न नामहि
 ताव तुरतु निवारहि बभण

घत्ता—विघ्नविउ नवेवि पोमनरिदे साहुवरु ।

कि कीरुड भाय दिनु ताहँ मई रज्जु वरु ॥२३॥

२४

त पर बोलिज्जइ ज किज्जइ
 जामावहि न पूरवइ दाणहो

उक्त च—सकृज्जत्पान्ति राजान. सकृज्जत्पान्ति साधव. ।

सकृत्कन्याः प्रदीयन्ते व्रीण्येतानि सकृच्छकृत् ॥

विगयलज्ज जज्जाहि अयाणउ
 एव भणेवि विहियउवमोहहो
 वावणवेसु करेवि पइट्टउ
 कयपच्छणु पउत्तु ज रुच्चइ
 कज्जु न कि पि राय महु अन्नहिँ
 पणयवारकर एत्तिउ किज्जउ
 भणिउ असासयरज्जे दियवरु
 मायावावणेण बोलिज्जइ
 पाणियम्मि पाणियलि निहित्तए
 ता वंचणवेसे भूदेवे

घत्ता—महियलु गयणतु जाम ताम पवियभिउ ।

तिहुयणघरखंभु नाई विहाएँ उब्भिउ ॥२४॥

२५

एक्कु पाउ देवसेलसीमे साहु समिओ ।
 बीउ माणुसोत्तरम्मि तेण सनिवेसिओ ॥
 तइयऊ अपावमाणु ठाणु खे परिट्ठिओ ।
 नाई ताण दुज्जणाण धूमकेउ उट्ठिओ ॥
 न मुणिदविद—विग्घवारि—रासिपोयओ ।

हउँ परेक्कु भुवणम्मि कयत्थउ ।
 करह नाह सभावण एत्तिय ।
 विण्हुकुमारु इत्ति गउ गयउरु ।
 कि उवसग्गु मुणीणाढत्तउ ।
 किउ केणावि न भुवणपहाणए । १०
 पावे कुभीपाए पईसहि ।
 पावयम्म रिमिसुघनिमुभण ।

चनवयणेण लोड लज्जिज्जइ ।
 ताव न नेमि वुट्टु अवसाणहो ।

तुहुँ वि तेहिँ विप्पेहिँ समाणउ । ५
 निग्गउ रिसि वासे निवगेहहो ।
 जन्नसाल वलिराएँ दट्टउ ।
 मग्गि भट्टु ता तेण पउच्चइ ।
 हयगयरहघणधन्नमुवन्नहिँ ।
 महु मदियत्थु तिपय महि दिज्जउ । १०
 मग्गहि अवरु कि पि ज बहु वरु ।
 कज्जु जेण त पर मग्गिज्जइ ।
 पावियम्मि पुहई पायत्तए ।
 वेउव्विउ सरीरु सखेव ।

१५

५

नं जगेककचक-चित्तचारुज्जजोयओ ॥
 एत्थु अतरे तिलोयलोयखोहु जायओ ।
 खेयरिददेवदार्णविदविदु आयओ ॥
 आविऊण झत्ति तेहिं पुज्जिऊण त कम ।
 रूसिऊण नासिऊण जन्नहोमसगम ॥ १०
 सधविग्घनिग्गह करेवि कालदूवए ।
 बधिऊण घल्लिओ सबधु अघकूवए ॥
 कि जओ कहि पि होइ पावकम्मकारए ।
 किज्जए सुणेवि एउ चित्तु धम्मसारए ॥
 तक्कमाणुमग्गलग्ग धावमाणइ तया । १५
 सामि सघरंघि सघरघि भो भणतया ॥
 खेयरामरा निएवि खच्चिओ कमो तिणा ।
 लग्गओ अमग्गि चित्तदडु न विवेइणा ॥
 संठिओ सरूवि भव्वपुडरीयनेसरो ।
 ता खमाविऊण तेहिं पुज्जिओ जईसरो ॥ २०
 सोहणार वाइयाउ वीणओ रवण्णओ ।
 लोयपच्चयत्थु तिन्नि किन्नरेहिं दिन्नओ ॥
 तेत्थु जेत्य वे वि एककु खत्ति दिव्वसपए ।
 खेयरा सहस्स सेठि दक्खिणुत्तरइए ॥
 पुज्जिऊण वदिऊण साहुपायपंकय । २५
 सब्व विभियासया गया निय निय पय ॥
 [तोणओ नाम छदो]

घत्ता—एत्थतरे गपि पणमिउ मेरुअकंपणहो ।

मुणि विण्हुकुमारु संघाहिवहो अरुपणहो ॥२५॥

२६

तेण वि आलोइउ सायरेण
 संभासिउ ससिउ गुणनिवासु
 को एम संघवच्छत्तु करइ
 कि किज्जइ अन्ने परमजोइ
 भणिऊण एउ करुणावरेण
 चत्तारि वि कूवहो गलियगाव
 ते पेच्छवि परमुवसमि बलग्ग

नहण्डु चंडु न सायरेण ।
 पई मुण्णवि सत्ति एवहु कासु ।
 घोरोवसमु हेलाए हरइ ।
 पहु तुम्ह पहावे सब्बु होइ ।
 ते विण्हुकुमारे जइवरेण । ५
 कइढाविय नयरहो नाई पाव ।
 पाएसु अरुपणमुणिहिं लग्ग ।

तहो दिवसहो लग्गि विमुक्कपाव
पोमेण वि पुत्तहो देवि रज्जु
त नियवि चोज्जु चितियमणेहि
उवसग्गु हरेप्पिणु दुन्निवारु
गउ विण्हुकुमारु ससूरिपासु
तोडेप्पिणु ईदियसोक्खधामु

हुय सावय मंति विसुद्धभाव ।
सहुँ बहुनिवेहि किउ अप्पकज्जु ।
जिणधम्मु लइउ सव्वहिँ जणेहिँ । १०
पणवेवि अकंपणु सवणसारु ।
आलोइवि निदिवि कम्मपासु ।
कालेण पत्तु पुरु मोक्खनामु ।

घत्ता—जाणेप्पिणु एउ सिरिचदुज्जलगुणगणहो ।

वच्छल्लु सया वि किज्जइ साहम्मियजणहो ॥२६॥

१५

विविहरसविसाले रोयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले ॥
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥
मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसंजुत्ते ।
कयवच्छल्लकहाणे तइओ सघी समत्तो य ॥

॥ सघि ३ ॥

संधि ४

१

ध्रुवय—सासयसुहवावणु कहमि पहावणु कह आयन्नह देवि मणु ।
भरहखेत्ति कुरुजगलि जणवणु निम्मलि करिपुरु अत्थि वियड्ढजणु ॥

हेला—त पालए महाबलो कित्तिए वलक्खो ।

यानसिरिपियानुओ [गुणनिही] मुलक्खो ॥

तहु रुद्धत्तु नामि पुरोहु	मुहकम्मु व सव्वावड्ढिनरोहु ।	५
सोमिल्लहिं हुउ वभणिहिं तामु	सुउ सोमदत्त गुणगणनिवासु ।	
एत्तहिं पट्टणि अहिच्छत्तनामि	दुम्मुहु नरिहु नयणादिगामि ।	
दुम्मुहमहएविहे जणियकामु	तम्सत्थि पुरोहु मुभूइनामु ।	
कासवि पिय नदणु सोमभूड	सुय जन्नदत्त न मयणदूड ।	
अब्भसियसव्वसत्थत्यवेउ	नियबुद्धिविमेमपयासहेउ ।	१०
सो एक्कहिं वासरे करिपुराउ	ससियत्तु मुभूइसमीवि आउ ।	
मुहगोट्टिण परिओसियमणाडें	अच्छेवि तेण कइवयदिणाडें ।	
विणएण पउत्तु जणेरिभाइ	दक्खालहि सपहु गुणाणुराड ।	
गव्विउ मिच्छत्तरुई रिऊण	थिउ त मुभूइ अवहेरिऊण ।	
मामहो मुणेवि असमजसत्तु	[तहो घर मुएवि गउ सोमयत्तु ।] १५	
धूलीधूसरिउ विवक्कवेसु	ण्हाणक्खणु जडसजायकेसु ।	
बहुभेयई गेयई गायमाणु	पहे चच्चरि घरि घरि णच्चमाणु ।	
नीसल्लमल्लसजणियसोहु	सच्छदवारिजणजणियखोहु ।	

घत्ता—नाणावेसविमेसहिं लोयसहासहिं परिवेड्ढिउ विभउ करइ ।

कीलई नीसरियउ गणपरियरिउ गोरीपडपुरे मचरइ ॥१॥

२

हेला—नाणाभावधारओ विविहपत्तयड्ढो ।

रगहिं पइट्टओ न नडो वियड्ढो ॥

पसरततूरबंदिणनिणाउ	एक्कहिं दिणि बहि नीसरिउ राउ ।	
पेच्छवि जणमेलावउ महतु	पासत्थु पुरिसु पत्थिवंणु वुत्तु ।	
कज्जेण केण दीसइ जणोहु	जाइवि जोएवि मिलतु ओहु ।	५

१० १ निमल्लमल्ल* ।

तेणुत्तउ कत्थइ होंतु आउ
सो सब्वगुणालउ चारुहउ
नच्चेवउँ गाएवउँ वरिट्ठु
चउमु वि वेएसु सयभु नाई
त गुणविणोयजणियाहिलासु
जहिँ गच्छइ तहिँ तहिँ समउ जाइ
त सुणवि पहिट्ठउ पुहविनाहु
पेसिउ हक्कारिउ सो वि राउ
अन्नोन्नो पलोइउ सायरेहिँ
गभीरमहुरदुं दुहिरवेण

एत्थच्छइ इहु बभणु पिसाउ ।
णं जाउ मरलु एत्तिउ विरूउ ।
महु भावइ जइ तेणोवइट्ठु ।
मत्थत्थेँ सुयएवी विभाइ ।
खणु जणु वि न मेल्लइ तामु पासु । १०
मोहणु गहिलेण विइणु नाई ।
गुणिवत्तए तूसइ कि न साहु ।
आलोयवि लहु सयमेव आउ ।
दोहिँ मि नं रविकमलायरेहिँ ।
उच्चारिउ आसीवाउ तेण । १५

घत्ता—मेइणि जाम समायर चददिवायर मुरगिरि सगिग मुराहिवइ ।
ताम रज्जु रज्जेसर कुरु परमेसर होउ निरंतरु धम्मि मइ ॥२॥

३

हेला—आसीवाउ देवि नीसेससत्थपत्त ।

पायडिय तिणा निय निम्मल बुहत्त ॥

पहयावरविउसत्तणमयाई
विभिउ नरिदु गुणरयणगहु
अहमिदु चदु खगवइ किमक्कु
सुरमति गहिल्लायायारु
कि विस्सकम्मु सब्वगजाणु
अहवेहु सहसमुहु पन्नगसु
अहवेहु जि पुच्छिज्जइ निरुत्तु
इय चित्तिवि चित्तियपयसिवेण
को तुहँ कहिँ होतु किमत्थु आउ

[दरिमाविय अच्छेरयसयाई ।]
निच्छउ सामणु न होइ एहु ।
हरिहरु कमलासणु सुक्कु सब्बकु । ५
अहवाउ पलोयहँ पुहइ चारु ।
कि सब्वसिद्धु भुवणप्पहाणु ।
कि सरसईए किउ पुरिसवेसु ।
कि अलियवियप्पहिँ चलइ चित्तु ।
परिपुच्छउ सो सई पत्थिवेण । १०
उवएसहि सुदरमइ सहाउ ।

घत्ता—वयणु सुणेप्पिणु रायहो वडिडयरायहो कहइ स वइयर विप्पवरु,
अत्थि देसि कुरुजगलि रिद्धिसमग्गलि नरवारिद करिणायपुरु ॥३॥

४

हेला—तत्थ महाबलो बलो पत्थिवो पहाणो ।

सिवदत्तो पुरोहियो तामु सब्वजाणो ॥

सजाउ पुत्तु तहो बंभणीए
सु वि सुयणहँ नयणाणंदु देंतु

सोमिल्लए कामु व रुप्पिणीए ।
वडिडउ नवयंदु व कलउ लेतु ।

सो हूँ निव नामें सोमयत्तु
तहिँ तायपसाएँ सुहसयाई
चित्तिउ मणि मई एक्काहिँ दिणम्मि
जं अज्ज वि जणणविदत्तु वित्तु
सव्वो वि को वि तायहो घणेण
सभुयज्जिउ भुजहिँ जे पवित्त
इय लोयाहाणउ मग्गु जाउ
उज्जमु करेवि कयलच्छिसोह
इय चित्तवि हूँ निग्गउ घराउ
नयधम्मु अणोवमु चाउ भोउ
पुहईपिय दूरुज्झयसहाउ

घत्ता—आवेण्णु नियमामहो गेहे सनामहो थियउ मुभूइहे तणइँ पहु ।

सो मई भणिउ सराएँ समउ सराएँ कारावहिँ दसणु दुलहु ॥४॥

५

हेला—पुणु पुणु पयत्तहो वुत्तु तो वि तेण ।

मज्झं तुम न दाविओ देव गन्विणण ॥

अहवा परकज्जे कासु कज्जु
परमेसर अहिमाणट्टिएण
मई बुत्थियदुहसंदोहनास
नाणाविणोयकीलावसेहिँ
एत्थच्छमि नयरि नरिदसीह
सपत्तु जम्मफलु मई मणोज्जु
ससारविसमविसतरुह नाई
ज सुदरकव्वरसाणुसाउ
सो अज्जु महामइ मज्झु जाउ

घत्ता—एउ सुणिवि नरिदे परमाणंदे सहुँ सहाए परमायरेण ।

संसेवियसाएँ परमपसाएँ परिपुच्छिउ परमायरेण ॥५॥

हेला—अणुवमगुणगणालओ मुणुवि सव्वतोसो ।

अइसयमइमहल्लओ किउ महंतओ सो ॥

हुउ सव्वदेसपरियणपहाणु
राउ वि तेणुत्तउ करइ सव्वु

५. १ संसेवियकसाए ।

बुद्धिए गयत्थहँ पारु पत्तु । ५
माणतहो बहुवरिसई गयाई ।
धी धी एहउ जीविउ जणम्मि ।
बलि किउ विद्वमि अलज्जचित्तु ।
टिट्टिरि जणु करइ विदत्तएण ।
ते विरला जणणि जणेइ पुत्त । १०
लइ दूरुज्झमि आलस्सभाउ ।
भुवणम्मि पयासमि नियगुणोहु ।
आयन्नवि परमगुणाणुराउ ।
तव कित्ति थुणतु समग्गु लोउ ।
तेणेत्यु गुणतरवेइ याउ । १५

सव्वो वि जयम्मि सयज्जि सज्जु ।
तव दसणसोक्खुक्कंठिएण । ५
किउ गहिलवेसु विसमारितास ।
जणमणु मोहतउ नवरसेहिँ ।
करमाणु तुहारी दसणीह ।
त दिट्ठो कह व जि अज्ज अज्जु ।
वेन्नि जि गुणिगणियई निम्मलाई ।
सहुँ सयणहिँ संगमु पहयताउ । १०
जं दिट्ठु देव तुहुँ गुणनिहाउ ।

अहवा को वारइ चिरविहाणु ।

नउ चित्ते तो वि तहो कि पि गव्वु ।

अहवा सप्पुरिसहँ नत्थि एत्थु
तारिस पेच्छेवि विहूइ तामु
नवजोव्वण फणिकन्न व रवन्न
अह सायर सहणहो मव्वु को वि
तहो ताए जन्नदत्ताए चारु
लीलाइँ कालु वियलियउ हूउ
कहि कि रुच्चइ तग्गयहिएण
लज्जति कि पि लायन्नखाणि

घत्ता—जइ सइँपक्कंबहलइँ परिमलबहलइँ आसायमि गुणरयणनिहि ।
तो महु मणहो मणोहर सिरिपोमणिसर जायइ पिययम परमदिहि ॥६॥

७

हेला--त निमुणंवि भामिणी धीरिया वरेण ।

नक्कज्जेण किकरा पेगिया सायरेण ॥

अलहंत ताइँ भग्गाणुराय
निप्फल निएवि पाइक्क सामि
दुल्लहु अयाले दोहलउ एहु
हा करमि काइँ कहिँ जामि ताइँ
इय चित्तिवि मुइसीयलवणेहिँ
गउ जलवाहिणि वाहिणिहे ऊहु
तेणेक्कु पक्कु साहारु दिट्ठु
विभिउ त पेच्छिवि सोमदत्तु
फलऊण निरतरु छाइयक्कु
इय भाविवि परमुवसमि वलग्गु

घत्ता—जोउ मुएवि मुणिदे भुवणाणदे परियाणेप्पिणु तामु मइ ।
आसीवाउ मणोहरु सब्वसुहकरु देवि पयासिय परमगइ ॥७॥

८

हेला—धम्मो धम्मकारिणो करइ परमसुक्ख ।

पाव पावकारिहे विविहभेयदुक्खं ॥

सुणेवि मंती, मुणिणाहजपियं
विरत्तचित्तो खयसोक्खसायणे
पियत्थमायंदइँ जे सहायया

८. १* जणेण ।

जं न हवइ सोक्खहो हेउ वत्थु । ५
हुउ कि पि सुभूइहे हारिसु तामु ।
मन्नाविवि नियनदणिय दिन्न ।
निद्धणहो विरज्जइ सोयरो वि ।
सहुँ रइसुहु माणतहो सतारु ।
गुरुहारहे तहे दोहलउ हूउ । १०
पुच्छिय किसंगि पेच्छिवि पिएण ।
भासइ सइ निमुणिवि रमणवाणि ।

सव्वत्थ पलोएवि भिच्च आय ।
चिताविउ मणि मायगगामि । ५
अलहतु मुसेसइ दइयदेहु ।
पूरमि पिययमहे समीहियाइँ ।
सहु सेन्ने पउरबयवणेहिँ ।
तहिँ जोयंतेणंबयसमूहु ।
जइ जोएँ तहिँ तहो तलि बइट्ठु ।
माहप्पु एहु एयहु निरुत्तु । १०
जेणबउ एहु अयालि पक्कु ।
गपिणु मुणि पणमिउ गुणसमग्गु ।

फुडक्खर सब्वजणाण' ज पियं ।
हुओ गुरत्तोक्खयसोक्खसायणे ।
समप्पऊणं पहिया सहायया । ५

मुमित्तसन्न [सिव-] सोक्खपावण
विमुक्कगथो परियत्तसन्नओ
महामई सो गुणहसमाणसो
बुहेसु सपत्तमहापहुत्तओ
थिरासओ अप्पपहूइतत्तए
सिलायले सीलनिहाणु अच्छए
तओ समुल्हाणसनेहवत्तिया
सम विसाएण तमेण पत्तिया
पसूय पुत्त बहुलक्खणन्निय

मुणिदमासेवितमेव पावणं ।
हुओ जई जित्तकसायसन्नओ ।
समेण सघेण विमुद्धमाणसो ।
कमेण सोपारपुर पहुत्तओ ।
विचित्तयतो रविभेयत्तए । १०
नगम्मि[ता] ताहि स जोइ अच्छए ।
मुणंवि कतस्स तवस्स वत्तिया ।
हुया मुरूवाणलि नाई पत्तिया ।
नएवि रोमेण सहोयर निय ।

घत्ता—सा विहिमुद्धि लहंप्पिणु तहिं जाएप्पिणु ज्ञाणंसियहु जईसरहो ।
घल्लिव तहो सोमालउ अग्गए बालउ गय बहु दुब्बोल्लिवि घरहो ॥८॥

९.

हेला—अद्धप्पहरसजुया निर्णवि सा सबधू ।
विट्ठि व चित्ति सकिओ भव्वपोमबधू ॥
वयभगोवसग्गु जाणंवि नट्टनेहो ।
दुविहाणसणि सठिओ घम्मसाहिमेहो ॥

एत्तहि अमरा [वइ-] पुरपहाणु
नामेण दिवायरदेउ अत्थि
सो विहिवमेण विहियायरंण
बलिएण पुरंदरसन्नएण
संगामे परज्जिवि पहयमाणु
सोवन्ननयरि नियसालयामु
नहे वदनहत्ति परिभमतु
मुणि वदिवि पेच्छेवि सिसु अणिदु
केणेत्य न जाणिउ [कि पखित्तु]
कि बहुणा लइ होसइ महतु
वज्जकियकरचरणाहिरामु
जय कारिवि जइ रजियमणाइं
तहिं सिसु कुलकुमुयाणदु देतु

विज्जाबल विज्जाबलनिहाणु । ५
दुन्नयतमदूसणु गुणगभत्थि ।
रज्जत्थि लहुणा भायरेण ।
खलवयणपवडिडयदुन्नएण ।
नीसारिवि घल्लिउ बलसमाणु ।
थिउ एवि विमलवाहणहो पामु । १०
एत्थनरि तत्थायउ सकतु ।
थीमुहु निएवि जपइ खगिदु ।
पिणु एहु वालु लक्खणविचित्तु ।
दूसहपयाउ बहुलद्धिवतु ।
तहो वज्जकुमारु करेवि नामु । १५
गेहहो गयाइं वेत्ति कि जणाइं ।
वडिडउ णवयंदु व कलउ लंतु ।

घत्ता—नाणासत्थपुराणइं बहुविन्नाणइं सिक्खिउ जणमणमोहणइं ।
थभणु वइरिनिसुभणु विविहु वियंभणु वसियरण जणखोहणइं ॥९॥

१०

हेला—हुउ सव्वगजाणओ विमलवाहणंते ।
जिणधम्मि सया रओ मरणजम्मणते ॥

वरसत्तिपयासणु नं कुमारु	नं सुट्ठु सुहकरु मुरकुमारु ।	
नावइ सयमेवागउ कुमारु	कालेण सुरिदाउहकुमारु ।	
न जयजसरज्जुपत्तिथाणु	रविदेवहो न दुक्खावसाणु ।	५
दुव्वसणवेल्लिच्छिदणकिवाणु	सुदरमइ सजायउ जुवाणु ।	
एक्कहिं दिणि सव्वयसहिं समेउ	हिरिमतगिरि गउ रमणहेउ ।	
अलयावइ खेयरु पवणवेउ	अरितरुनिम्मूलणपवणवेउ ।	
अगमइ नाम तहो तणिय जाय	रइपीइ नाईं पच्चक्ख जाय ।	
तहे कामएवसत्ति व मनाम	उप्पन्न पुत्ति मणवेय नाम ।	१०
एयग्गे यति अणंतविज्ज	आवाहयति पन्ननिविज्ज ।	
पवणाहयसाहग्गएण	मा विद्ध विलीयणे वकएण ।	
निक्कटय कुवलीकटएण	विद्धच्छिदरुनि विहियट्टएण ।	
पीडाए चित्तविकखेउ जेण	वट्टइ नउ सिज्झउ विज्ज तेण ।	
कयमताराहण परमनिट्टु	तहिं ताए अवत्थए नेण दिट्टु ।	१५
कयकरुणे नयणाणदणेण	सूरामरखेयरनदणेण ।	
गलविद्ध व पेच्छिवि मच्छु अच्छि	उद्धरिउ सल्लु मुहि हुय मयच्छि ।	

घत्ता—ता पीडावमु चचलु जावउ निच्चलु जाउ चित्तु अरिदप्पहरि ।
सिद्ध विज्ज पन्नत्ती सोक्खुप्पत्ती भणिउ ताए सो पुरिसहरि ॥१०॥

११

हेला—नुज्झेसा पसायदाणेण मज्झ विज्जा ।
संसिद्धा अणेयविउव्वणा मणोज्जा ॥

मग्गहि ज सच्चइ एउ मित्त	लज्जामि भणती चारुचित्त ।	
लइ तो वि कि पि आएसु देहि	सप्पुरिस अणुग्गहु महु करेहि ।	
त सुणिवि तेण पडिबन्ननेह	मणवेय भणिय महु विज्ज एह ।	५
दिण सत्त समप्पहि कि परेण	ता ताए दिन्न परमायरेण ।	
सुयणहो किउ सामण्णोवहारु	सभवइ कप्पतरु निव्वियारु ।	
दुज्जणहो अणत वि गुण न भंति	ज किज्जहिं तो एमेव जंति ।	
जाइवि अमरावइ पियरभाइ	सक्कु वि समरगणि जासु भाइ ।	
नीसारिवि घल्लिउ निज्जिणेवि	पणत्तिपहावे पुरियणेवि ।	१०

परमुच्छ्वेण रइयाहिसेउ किउ राउ ताउ आइच्चदेउ ।
 जण वज्जकुमारु परेवकु धनु को करइ एव पुत्तु अन्नु ।
 घत्ता—अवर वि दुट्ट निवारिय दूरोसारिय सुयणु समग्गुन्नइहे निउ ।
 हुउ सव्वत्थ पसिद्धउ तत्थ.समिद्धउ दिव्व भोय भुज्जतु थिउ ॥११॥

१२

हेला—मणवेयाइयाहिँ रत्ताहिँ रत्ति एसो ।

हरिवि निउ कयाइ सोवतु सुद्धलेसो ॥

अह सुदरगु रुच्चइ न कामु कुठे लग्गु दिवायरदेउ तामु ।
 पेसिय विज्जाहर दसदिसामु अलहत सुद्धि आगय निवामु ।
 ता तव्विअभोयसजायताउ अचछइ सकंतु विलवतु ताउ । ५
 परिपत्तपरमसपयसमेउ पचमदिणे पचसरोवमेउ ।
 तो पविकुमारु परिणेवि आउ पचसयसख खेयरमुयाउ ।
 अणिरुद्धसमागमे न सरामु हुउ परमहरिसु खयरेसरामु ।
 पयसद्वियमणिमयनेउरामु पचसयपमाणतेउरामु ।
 महएवि पहाण मणोहरामु मणवेय हूय वल्लहिय तामु । १०
 सहुँ ताण अणोवममुहसयाई माणंतहो बहुवरिसई गयाई ।
 कालेण जणेरिण जाउ पुत्तु तहो लग्गि वि एक्काहिँ दिणे अजुत्तु ।
 भासिउ मुणेवि सजाउ खेउ पुच्छिउ पणवेवि पयगदेउ ।

घत्ता—कहि कि ताय तुहारउ पेसणसारउ मुउ अन्नहो हउँ अहव कहो ।

पुच्छतहो अणुवधे वायावधे कहिउ असेमु वि तेण तहो ॥१२॥ १५

१३

हेला—त निसुणेवि चत्तिअो सो गुरुसयास ।

पियमायाइएहि मन्नाविअो पगास ॥

तो वि न त्थिअो गोत्तमडणो चलिउ जत्थ गुरु कामखंडणो ।
 जाणिऊण ते तस्स निच्छय त लहेवि बहुपुन्नसचय ।
 एवि विविहधयछाइयवर उत्तराइमहुरापुंरं पर । ५
 वरविहूइए विह्णिगियाहओ गपि खंतिगुह सुतवराहओ ।
 दिट्ठु तेहिँ मुणि सोमयत्तओ पुज्जिऊण पणविउ वित्तओ ।
 सूरएवपिउणा पउत्तओ वइयरो [जहेवेय] वित्तओ ।
 दीणवयण पयपोम लगगया ता खमाविऊण समग्गया ।
 सयण जणण बधव विसज्जिया गुरुकमा कुमारेण पुज्जिया । १०
 मुक्कमाणमयमच्छराएय [लेवि] साहुवित्तं विराइयं ।

बल्लहा वि मणवेयनामिया ह्य नाहचरणाणुगामिया ।
 तउ करतु सुहज्ञाणसंजुओ सत्तलद्धि नहचारणो हुओ ।
 गुरुपयाइँ आराहयंतओ पविकुमारु सुइसय सुणंतओ ।
 वसइ जाम भववयणसंतुओ अबरु ताम तहिँ वइयरो हुओ । १५

घत्ता—तेत्थु जे नयरि नयालउ फुहईपालउ पुहईमुहु परदुविसहु ।
 कयजिणधम्मपहावण पवरपहावण नामेणोविल कत तहु ॥१३॥

१४

हेला—सायरदत्तु सेट्ठि सपत्तसव्वकामो ।
 पउरगुणो समत्थि समत्थनायनामो ॥

तहो सायरयत्त पवित्त पत्ति पयणियदारिद् दरिद् पुत्ति ।
 कालेण वणीवइ कालु पत्तु गउ तेण ममेउ जि ईसवत्तु ।
 हा गय सुहसय सोमानगत परपेसणु करइ समुददत्त । ५
 बहुवाहि अट्ठिच्चम्मावसेस मलमुत्तलित्त दृप्पेक्खवेस ।
 तत्तणय वि घरे घरे पिणिघिणति अच्चइ मच्चिउत्तहिँ भिणिहिणंति ।
 एकहिँ दिणि चरियहिँ चारुचित्त वे मुणि पइट्ठ पालियच्चरित्त ।
 रत्थहे उच्चिट्ठइँ भक्खमाण पेक्खेविणु सा मुणर्हहिँ समाणु
 अहिनदणु भणइ कणिट्ठु साहु चित्ततु कम्मगइ मइसणाहु । १०
 हा नियहु केण कउजेण एह जीवइ वराय दुहपहयदेह ।
 त गुणिवि ओहिनाणावयामु तदणु मुणि भणइ अमोहभामु ।
 भो एयहे एहावत्थ जाय मा करहि विसाउ निएवि भाय ।
 कइवय दिणेहिँ एत्थु जि मणोज्ज नरनाहहो होसइ एह भज्ज । १५

घत्ता—त निमुँ वि सचोउजे पहयावउजे पुच्चिउ जइणा जइ पवरु ।
 कहि कम्मे केणेरिस एह असुहवस ह्य होसइ किम राउ वरु ॥१४॥

१५

हेला—ता तहो धम्माणंदणो नंदणो मुणिदो ।
 कहइ दरिदियाकयं कम्मयं अणिदो ॥

गामे गोमयनामे गामउडो गोहडो त्ति नामेण ।
 होंतो गुणवइकंतो गुणवंतो पउरधणवंतो ॥१॥
 तस्स सुया गुणमाला मयमत्ता रूवजोव्वणाइत्ता । ५
 एकदिणे गय छेत्तं भत्तं गहिऊण हलियत्थं ॥२॥

सा सकेयट्टाण हलियविड सट्टिऊण सन्नाए ।
 जा णइमंजुलाए मज्झ मल्हति मज्झन्हि ॥३॥
 सीमाए तत्थ जोएण सठिय सत्तुमित्तसमचित्त ।
 ता नियइ सवणमेवक सिलाए नग्गोहमूलम्मि ॥४॥ १०
 दट्टूण भीयरूयए मज्झ इमो मन्निऊण अरवसउणो ।
 गहिदूण गले घित्तो खलाए तहो मारिदो सप्पो ॥५॥
 साधू वि धीरवीरो विरत्तचित्तो सरीरसोक्खेसु ।
 पच्चक्खाण दुविह घित्तूण थिअो विऊसग्गे ॥६॥
 तइयम्मि दिणे तत्थागएण ताएण तेम दट्टूण^१ । १५
 मुणि गलमाणसप्पविसम सभरिदसव्वगं ॥७॥
 हा हा केणेरिसय कय ह्यामेण निदिद कम्म ।
 ता कहिय केणावि ह्ठु सव्व दुहियाहे दुच्चरिय ॥८॥
 सोदूण सडिदपदिद सपयत्तदो फेडिदूण फणिगत्त ।
 लुहिदूण सव्वमग खमाविदो सुट्ठु सो साधू ॥९॥ २०
 गेह गतूण तदो गुरुरोसव्वमेण तेण सा पावा ।
 गहिदूणाकिन्ती^२ विव वियणे घल्लाविदा रडा ॥१०॥
 मडिदूण तत्थ कोठेण सत्तदिवसेहिं सा मदा सती ।
 पढमम्मि ममुप्पन्ना नरयम्मि महत्तदुक्खम्मि ॥११॥
 तत्थेक्कसायरोवममाणमणत्त मुदुसह दुक्ख । २५
 संहिदूणाण्यविह विणिग्गदा साधुदोहयरी ॥१२॥
 मायगपुरे मायगीवाडए मारणेक्कसव्भावा ।
 अलिउलत्तमालकज्जलवन्ना मुणही समुप्पन्ना ॥१३॥
 चिरमणहुजिददुक्ख पडित्तपसगा वणम्मि मरिदूण ।
 जाया मडलजाया तत्थेव पुणु पुणो पावा ॥१४॥ ३०
 तत्तो चुदा मिवाली सभूया गड्डसूयरी बहुसो ।
 तह य जलम्मि जलूया पुणो पुणो गद्दी रुद्दा ॥१५॥
 पच्छा सा सामगी मायगी धीवरी विरूवगी ।
 नामेण दुग्गधा दुग्गधा दूहवा हूया ॥१६॥
 परछेत्ते^३ नइक्कच्छे जत्थ ठिअो महामुणी एक्को । ३५
 अदिसीदवादवद्दलबहुले सिसिरे निसासमये ॥१७॥

अच्छतो अच्छमणो विगयावरणो निरिक्खदो तीए ।
 कयकरुणाए विइत्तो आणेदूण पलालेसा ॥१८॥
 पासम्मि बालिदोग्गी ।
 कम्मोवसमवसाए पणासपुव्व कय सव्व ॥१९॥ ४०
 मुणिगा वि मुणेवि तदो भवियव्व पेच्छऊण तह भत्ति ।
 कहियाईं अणुवयाड साणत्थमियाईं सहलाड ॥२०॥
 हिसादिदोस कधिदे दुक्खसदोहभीदचित्ताए ।
 इट्ठ मुणिउवइट्ठ ता गहिद तीए भत्तीए ॥२१॥
 उव्वरियपावसेमा सा एह मरिवि एत्थ सजाया । ४५
 मायरयत्तस्स मुया वणिणो दारिदिणी नाम ॥२२॥
 सपत्ते पचत्ते ताए पावेण सपया नट्टा ।
 परकम्म च जणेरी करइ डमा एम निव्वहइ ॥२३॥

[गाहा कडवय]

घना—कियमुकियम्म पद्दावे उज्झयतावे कडवय वरिगहिं नाईं मिय ।
 सयलतेउरसारी पाणपियागी होमइ महुगवइहे पिय ॥१५॥ ५०

१६

हेला—एउ मुणेवि भिक्खुणा चितिय निरुत्त ।

होइ कयाइ नन्नहा साहुणा पउत्त ॥

बुद्धधम्मनामेण बालिया	वाहरेवि सा दुहकरानिया ।	
गल्लगतभूओहकुच्छिया	पीणिउण भिक्खाए पुच्छिया ।	
कहिं तुहच्छए पुत्ति मायरी	कहहि एहि लहु महु सतोयरी ।	५
गपि ताए ता तहो महानए	कहिय माय कम्मति बालए ।	
मिलिय एह महु कह व सुदरी	बहिणि जोयमाणस्य सोयरी ।	
कहिवि एउ लोयहो सपुत्तिया	निय विहारु तेणुवहिदत्तिया ।	
चारुक्तिभारेण भासुर	परमरुवरजियसुरासुर ।	
करिवि कुसलवेज्जोवएसिय	ताहे तारिसग वर किय ।	१०
सुदरम्मि सजाए जोव्वणे	माहणस्म मयणुच्छवे दिणे ।	
सव्वजणमण मोहयंतिया	सहुं सहीहि दोलतिया तिया ।	
निगएण बहि सा मयच्छिया	माहुराण नाहे नियच्छिया ।	
चितिय च किं कामसोयरी	नायकन्न अहवेह किन्नरी ।	
रंभ उव्वसी कि तिलोत्तिमा	मीणईं सईं कि वईं उमा ।	१५

घत्ता—इय चितंतु पयत्ते त पालंते तग्गयमणु जाणेवि हउ ।
सरहें सग्गेण सिरिवइ किउ दूमियमइ कहव कहव नियनिलउ गउ ॥१६॥

१७

हेला—थिउ सेज्जाए सव्ववावारनिव्वियारो ।

सिद्धि झायमाणु न कोई जोईसरो ॥

लच्छीमइदसणे कित्तिसारु
तिह ताहे सलोगेणिजणियताउ
जरु हूउ निरारिउ मुयइ सास
जिह जिह किज्जइ डाहोवयारु
कंचुइणामच्चवरेण तामु
कह एहावत्थहे हेउ १ देव
काह वि पहु तुहुं आसत्तचित्तु
ता कहिउ असेसु वि तेण तामु
एत्थतरि समउ पहाणएहिं
मइवइणा मग्गिउ बुद्धधम्मु
दिहि वट्टइ महुरावइहे जेण
जइ लेइ धम्मु बुद्धोवइट्टु
ता त पि करेवि महत्थवेण

जिह जायधरि वीरावयारु ।
कामेण गलत्थिउ सुट्टु राउ ।
परिसुसइ वयणु वइइइ पियास । ५
तिह तिह अइयारु डहेइ मारु ।
परिपुच्छिउ परिग्याणेवि सासु ।
कि मज्झु वि गोवहि भुवणसेव ।
मुणिओ सि मया चिण्हहिं निरुत्तु ।
अहवा सहुं गुरुणा गोप्पु कामु । १०
जाएवि तत्थु बहुजाणएहिं ।
दिज्जउ लहु कन्नारथणु रम्मु ।
त वयणु सुणंपिणु भणिउ तेण ।
तो करमि सव्वु ज तहो मणिट्टु ।
परिणय सा सुदरि पत्थिवेण । ५१

घत्ता—पोमावइ व फणिदहो सइ व सुरिदहो गहवचदहो १ नाई सिय ।

मा तहो खवयहो खति व सुयणहो सति व रउ व सरहो सजाय पिय ॥१७॥

१८

हेला—संजाउ अईव पेमाणुरायबधो ।

किउ राएण ताहे महएविपट्टबधो ॥

कहिं सा कहिं एवविहु पहुत्तु
कि एत्तिउ एउ भणति जोइ
कीलतहो रइरसरजियासु
सत्तमई मासि वियसियसरम्मि
कोमुइयजन्तपत्थावि ताए
संपइ पढम महं बुद्धदेव
तं सुणिवि तेण निरु निम्मलाहे
ता ताए गंपि गुरु तवपयत्तु
१७. १ बेउ । २ जायवचंदहो ।

अह अलिउ होइ कि रिसिपउत्तु ।
तन्नत्थि ज न पुण्णेहिं होइ ।
गउ समउ ताए छम्मास तासु । ५
आसन्निहूइ नदीसरम्मि ।
विन्नविउ नराहिउ नियसहाए
रहु भमउ देहि आएसु देव ।
वाराविउ रहवरु ओविलाहे ।
विन्नविउ नवेपिणु सोमयत्तु । १०

कयमाणमलणु बहुदुहपसगु
जिणधम्मपहावण होइ जेम
को अबरु भडारा सरणु अम्ह

जायउ मईयरहजत्तभंगु ।
करुणाए कि पि पट्टु करहि तेम ।
को अबरु समइ आसियदुहुम्ह ।

घत्ता—तं निसुणेवि मुणीसें पवरमणीसे चित्तिउ इय करणिज्जु सुहु ।
वज्जकुमारु पउत्तउ हरहि निरुत्तउ एयहे गुरुअहिमाणदुहु ॥ १५

१९

हेला—भणिउ सो वि तीए भयवत दूसियत्ता ।
किज्जउ तेम जेम संभवइ देवजत्ता ॥

ता धीरिय रिसिणा सरिवि हेउ
गउ एम भणेवि तुरतु तित्थु
विज्जाहर विज्जाबलसगव
रहजत्तुत्तरमहुराहि जेम
आयन्नवि तं भासइ अणिदु
इउ अम्ह सामि सयमेव जुत्तु
इय भासिवि भाभामुरमरीर
विज्जाबलनिम्मियवरविमाण
जिणजम्मणि नं चउ सुरनिकाय
पेच्छिवि विज्जाहरजणु अणतु
परचक्कासक करतु सतु

थिर थाहि माए मा करहि खेउ ।
अमरावइ नयरि कुडुवु जित्थु ।
पयपणय भणिय ते तेण सव्व । ५
ओविलहे होइ लहु करहु तेम ।
आइच्चदेउ विज्जाहरिदु ।
करणिज्जु तुज्ज वयणे निरुत्तु ।
विविहालकार गिरिदधीर ।
निमिमेण न्हग्णु ङायमाण । १०
सयल वि गयणयर तेत्थु आय ।
सखुहिउ लोउ किमिण भणतु ।
मन्नद्ध महीवइवलु तुरतु ।

घत्ता—त थभिवि मणुज्जए थभणविज्जए उत्तरतु नीसकियउ ।
तहिं बुधदासिहिं रहु नाइं मणोरहु चूरिवि मयसक्करु नियउ ॥१९॥ १५

२०

हेला—इयरो खेयरेहि सयमेव सज्जिओ सो ।
न पुण्णेहिं निम्मओ ओविलाहे तोमो ॥

सव्वसुवणमओ मणिजडियउ
पडिवालपडिपट्टुविचित्तो
लबियवरमुत्ताहलमालो
धूवगधवासिसिदिम्भाओ
चउदिसु जिणपडिमाअहिरामो
कुसुमामोयमिलियसारगो
अट्ट वि वासर पुज्जिज्जंतो

नावइ रहु सूरहो नहवडियउ ।
तिहुयणचित्तुप्पाइयचित्तो ।
कणरणतकिकिणियवमालो । ५
पयणियभव्वाणदसहाओ ।
नावइ सेलो मंदरनामो ।
कि वणिज्जइ सो सारगो ।
घरि घरि भव्वहिं पणमिज्जंतो ।

मंगलधवलगेयथुइवाएँ	पहयाणेयाउज्जनिनाएँ ।	१०
परमुच्छाहे जयजयकारे	भामिउ रहु पुरि खयरासारे ।	
पेच्छेपिणु एय अच्छरिय	नरवइणा दुरिय परिहरियं ।	
बुद्धदासिसहिण सराएँ	अवरु वि परियणेण तहुँ राएँ ।	
सदरिसावियसासयसम्मो	पडिवन्नो परमो जिणधम्मो ।	
रहवित्ततपरूवणपिसुण	तत्थेक्क धूह थविऊण ।	१५

घत्ता—पविकुमारु पुज्जेपिणु गुरुहु नवेपिणु जणमणनयणाणदयर ।
साहम्मियसाहारण परिहववारण गय गेहहो ते गयणचर ॥२०॥

२१

हेत्ता—अज्ज वि देवनिम्मिओ अच्छए स थूहो ।
कोड्डुणा निएड गतूण लोयजूहो ॥

जण वज्जकुमारु परेक्कु धन्न	को करइ पहावण एव अन्न ।	
सव्वणहु अणिदिउ बीयराउ	होएवि जयत्तयपुज्जपाउ ।	
कालेण कम्मकाणणहुयासु	सपत्तउ सामयमुहनिवामु ।	५
धम्मत्थसत्थवित्थरणसारु	पावयणीवाइमयावहारु ।	
नेमित्तिउ सभूइयनिमित्तु	तवसी वि परममज्झत्थवित्तु ।	
ए पंच वि जण जइवरपहाण	ए पंच वि गुणगणमणिनिहाण ।	
ए पंच वि दूहनिन्नासणामु	भासयर भणिय जिणमासणामु ।	
अवरु वि विणिवारियभवभवेण	नाणाविहेण दूसहतवेण ।	
नाणे विन्नाणे नवनवेण	दाणेण जइणमहिमुच्छवेण ।	१०
जोइममतोसहिंविज्जएण	अवरेण वि लोयमणोज्जएण ।	

घत्ता—कहीसइ मुहदावण धम्मपहावण वज्जकुमारु जेम जणु ।
सो सिरिचद सुरिर्दाह नविउ नरिर्दिहँ जाएसइ सासयभवणु ॥२१॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले, ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले ।
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे, इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते एंतपयदसजुत्ते ।
जिएअरसमयपहावणकहाएणं चउत्थओ सधी ॥

संघि ५

१

सद्दहया पत्तियया रोचयफासतया' पवयणस्स ।

सयलस्स जे णरा ते सम्मत्ताराहया होति ॥ [भ. आ ४८]

सद्दहयां श्रद्धानमनन्यमित्यर्थं । पत्तिययां प्रतीतिकरणं बुज्झणमित्यर्थः । रोचय तुष्टि-
करणम् । फासयाम्नुष्ठानकरणम् । पवयणस्स घर्मस्य सकलस्य ये कुर्वन्ते ते पुरुषा सम्यक्त्वारा-
धका भवन्ति । एत्यक्खाणां । ५

ध्रुवक—पणवेप्पिणु जिणदेवहो दुक्कियतमदिणहो ।

फणु सद्दहणादीण आहासमि जणहो ॥

द्वत्थिणपुरि विणयसमिद्धमई	धणपालु राउ पिय धणयमई ।	
सिरिउसहदासु वणितीयवई	पिय उसहदासि कलहसगई ।	
जिणदासु ताप्र सजणिउ सुउ	धम्मु व दयाप्र सुयणोहिं थुउ ।	१०
कालेण कुलवरणसरहो	दुय वाहि सरीरे नरेसरहो ।	
सो नत्थि जो न पडियारु कउ	पर तो वि रोउ नोवसउं गउ ।	
निवे दूसहदुक्खदवक्कडिया	पेक्खेप्पिणु मुहि ससप्र पडिया ।	
एत्थंतंरि आयउ चारुमई	विहरतु महामुणि चित्तगई ।	
वणिनदणु त वदणहुं गउ	पेक्खेप्पिणु तहो परमाइसउ ।	१५
आवेप्पिणु रायहो वज्जरिउ	आयण्णहि देव महच्छरिउ ।	
एत्थज्जि समायउ एककु जइ	परमेसर तहो आयासगइ ।	
पयधुवणोदयपाणेण गउ	तहो जणहो सरोयहो सब्बु गउ ।	

घत्ता—सेट्टिसुयहो जिणदासहो आयण्णिवि वयणु ।

राप्र राप्र जोइयउ नियमंतिहिं वयणु ॥१॥ २०

२

मुहमुणियचित्तेण	बहुबुद्धिवंतेण ।	
सिद्धत्थनामेण	पहुसोक्खकामेण ।	
त वाहिविद्वणु	मुणिणाहपयधुयणु ।	
उच्छलियजयकित्ति	आणाविय क्षत्ति	
पीडावहरणम्मि	तणुसोक्खकरणम्मि ।	५

१. १ रोचयया फासंतयया ।

भासियउ कि गहणु	इउ हरइ जरमरणु ।	
निमुणेवि राएण	परमाणुराएण ।	
तं सहहंतेण	तं पत्तिय तेण ।	
त रोचयंतेण	त फासयंतेण ।	
अमिइ व मुणतेण	पीय पय तेण ।	१०
संतोसपाणेण	लोहो व्व दाणेण ।	
तेयप्पवेसेण	धणु वयविसेसेण ।	
गउ गउ सरीराउ	सजाउ मुहि राउ ।	
मणि देउ धरिऊण	सदेहु हरिऊण ।	
अणुदिणु विगव्वेण	पायव्वु भावेण ।	१५

धत्ता—धम्मु रसायणवाणिउ पुट्टिपयासणउ ।

जम्मजरामरणत्तयवाहिविणासणउ ॥२॥

३

अववादिअल्लिगकडो वि सगसत्तिमगूहमाणो हु ।

णिणदणगरहणजुत्तो सुज्झदि उवधि परिहरंतो ॥ [भ आ ८९]

अववादिअल्लिगकडो वि परल्लिगधारकोअपि परिधानावतल्लिज्जोअपि सगसत्तिं स्ववल
अगूहमाणो प्रकाशमानः निबल्लणगरहणजुत्तो सुज्झदि शुद्धिं लभते विशिष्टा कर्मनिजंरा करोतीत्यर्थः ।
उवधि परिग्रहं परिहरन् सन् । आत्मदुःखा निन्दा । परप्रकाश्या गुर्वादीनां प्रकाश्या गर्हा । ५
निन्दास्थानं कथ्यते ।

वाराणसिपुरि पहयारिबलु	नरणाहु विसाहदत्तु पवलु ।	
तहो कणयमाल महएवि सइ	वल्लहिय सुरिदहो नाई सइ ।	
एक्कहिं दिणे रूसेवि रायहरि	गउ सो गउडाहिवस्स उवरि ।	
अरिदमणु दमेप्पिणु विहिउ वसु	काराविउ केर विइन्नवसु ।	१०
तहिं नियवि अईव अणोवमउ	देवाण वि कयमणसंभमउ' ।	
पडु लेवि लिहावेप्पिणु सयलु	एप्पिणु पुरु नाई सग्गसयलु' ।	
नामेण चित्तविस्सभकरु	पासाउ कराविउ तेण वरु ।	
कासीविसएसैं एत्थ जइ	अणुरूवु विचित्तु चित्तु हवइ ।	
तो सग्गु वि दूसइ काई पइ	इय चित्तिवि चित्तयारनियरु ।	१
हक्कारिवि दाविउ धवलहरु	सुरहरु व अणोवमसोहधरु ।	

३. १ संभवउ । २ सग्गु सयलु ।

पभ्रणिउ आलिहहि विचित्तयर
प्रहु वयणु सुणेप्पिणु चित्तयरा

इह चित्तु पयत्ते चित्तयर ।
भासति समग्ग वि जमलकरा ।

घत्ता—अम्महँ मज्जे तहाविहु को वि हु नत्थि नरु ।

जो आयहो अणरूवउ चित्तु विलिहड वरु ॥३॥

२०

४

इह विस्सकम्मु सयमेव जइ
नासिज्जइ अम्महिँ भित्ति परा
जइ कज्जु विरूवे तो करहुँ
पूरउ जि मणोरहु नरवरहो
सव्वण्हुपायपकयभमरु
विसकम्मु व माणुसवेसघरु
नावइ इहु पुण्णाहिँ पेरियउ
एक्कहिँ दिणि गुणहिँ विराडयउ
आवेप्पिणु पावतावदवणे
तहिँ दिट्ठु नमसिउ जिणधबलु
भिरिचदु सूरिमघे सहिउ
पुच्छिउ मुणिणा जाणावियउ

आलेवइ चित्तु विचित्तमइ ।
कुकईहिँ सुकव्वहो जेम वरा ।
पहु तुज्जाएसहो नोसरहुँ ।
त सुणिवि विसज्जिय ते घरहो ।
निल्लोहसहावु पमिद्धिपरु । ५
नामे चित्तयर विचित्तयरु ।
सयवइयरहरिसाऊरियउ ।
उज्जेणिहिँ होतु पराडयउ ।
उत्तरिउ मुलोयणु जिणभवणे ।
श्रुउ ण्हविउ पपुज्जिउ प्हयमलु । १०
पुणु पणउ पयत्ते मयरहियउ ।
तेणप्पउँ नियगुणु दावियउ ।

घत्ता—वक्खाणतु महामुणि सो सोयारजुओ ।

लिहिउ निएवि अणोवमु विभउ कमु न ह्ठओ ॥६॥

५

जिणमदिरे को वि अउव्वु नरु
रिसिरूउ तेण तहिँ आलिहिउ
त दिट्ठु जेण न माइ सय
इय अन्नहो अन्ने साहियउ
अणवरउ निहालइ एइ तहिँ
राएण वि किउ तत्थागमणु
त चित्तु सचिन्तु व जोइयउ
पुच्छिउ मुणिनाहे साहियउ
कि एउ सव्वविभ्राणघरु

एत्थायउ जणमणचाज्जकरु ।
नावइ सिट्ठारि सर्वाहिउ ।
तहो चक्खुफल एमेव गय ।
आयण्णेवि जणु रहसाहियउ ।
सपत्त वत्त नरनाहु जहिँ । ५
नुउ जिणु ससघु गणि गुणभवणु ।
पुणु वार वार पोमाइयउ ।
इउ एण सुमइणालेहियउ^१ ।
पुहईस एहु गुणपोमसरु ।

निसुणेवि एउ चितियमइणा
नियहत्थाहरणाहिं^१ पुज्जियउ

तहो दिन्नु पसाउ महीवइणा । १०
पट्टणि गुणपडहउ वज्जियउ ।

घत्ता—सिरिसिरिचदु महामुणि दुक्कियविद्वणु ।

पणवेप्पिणु पयपाले नियउ सो नियभवणु ॥५॥

६

गुणु जाणिवि जीवणु सारयरु
तहो दाविउ तं नवधवलहर
तहिं विविहवत्तरसभावधरु
पारदु चित्तु सुमुहुत्ति तिणा
पिय तामु वि चित्तवडाय सई
तायत्थु तत्थ गहिऊणसणु
तहिं एकदिणम्मि अणोवमए
सिहिपिच्छु लिहिउ तक्काले निउ
सच्च पिव पडिउ मुणेवि सुह
मुक्खो त्ति भणेप्पिणु उवहसिउ
अन्नहिं दिणि सूयारे नविउ

दिन्नउ सुदरु आवासधरु ।
न मुकइहे कहवित्थारु वरु ।
सुविचित्तु मुकव्वु व चित्तहरु^१ ।
तिहुयणजण करहुं नाइ विहिणा ।
सजाय ताए सुय बुद्धिमई । ५
अणुदियहुं पवच्चइ सा सुयणु ।
कीलाए ताए मणिकुट्टिमए ।
तत्थायउ कोऊहल्लपिउ ।
तं गेण्हमाणु भोरगरुह ।
लज्जिउ मणे मोणु करेवि थिउ । १०
पेच्छंतु चित्तु एहु विन्नविउ ।

घत्ता—एहि देव आरोग्गहे रजियजणमणहो ।

जाइ लग्गु म चिरावहि जोव्वणु घोयणहो ॥६॥

७

पेक्खइ पर तो वि न त मुणइ
अदिमुक्खु पुणो वि तीए भणिउ
पुणरवि अन्नहिं दिणं आइयउ
तं मुयवि पलोयहुं अन्नु गउ
महमुक्खु एहु फुडु भूमिवइ
आयण्णिवि इय महिवइ कुविउ
निक्कारणु सामिय कि कुवहि

इयरो वि हु वार वार भणइ ।
निसुणेवि महीवइ मणे वणिउ ।
आलेक्खावरणुच्चाइयउ ।
दुव्वयणं पुणु वि तीए पहउ ।
न वियाणइ काइ वि कज्जगइ । ५
ता ताए नवेप्पिणु विन्नविउ ।
असुहावहु कलुसभाउ मुयहि ।

५. २ सा नियत्थाहरणाहिं ।

६. १ चित्तकरु ।

पुच्छिय कि कज्जे जणियदुहु
ता कन्नए अत्थु पदरिसियउ

पुणु पुणु वि पवोल्लहि एउ तुहुं ।
तं सुणिवि नरेसरु हरिसियउ ।

घत्ता—वयणपउत्तिवियक्खण जाणेवि पुहुइवइ ।

१०

किय महएवि विवाहिवि राएँ बुद्धिमइ ॥७॥

८

सयलु वि त मुद्दए मुद्दियए
सीहासणत्थ अत्थाणि जहि
सेवाए एति पणमंति पया
भणिऊण घरहो जतीउ वरे
गच्छंति खलाउ सा वि सहइ
सव्वण्हु महापहु परमपरा
पाविट्ट दुट्ट दुच्चारणिया
होंती तुहु पयपडिकूलमई
बहु एवमाइवयणहँ घणउ
दिवे दिवे झिज्जति निएवि सइ

पहु खणु वि न ताए विणा जियए ।
सा राणियाउ सव्वाउ तहि ।
जय परमेसरि महएवि सया ।
देप्पिणु एक्केक्कु दसद्धु सिरे ।
देवगाए अप्पउँ विग्गहइ । ५
तिहुयणाचितामणि पावहरा ।
हउँ चिरभवे कुच्छियकारिणिया ।
तेणेउ मज्झ दिणे दिणे हवइ ।
सुदरमइ निदइ अप्पणउ ।
पुच्छइ पयवइ वि न एज्जरइ । १०

घत्ता—एव गदवदि काले एकदिणम्मि निउ ।

जिणहरे तेत्थु पईसिवि पच्छन्नमु थिय ॥८॥

९

तावाइयउ
रइकोच्छरउ
नृवमाणियउ
कयजसपसरे
दुक्काउ तहि
पुण्णासमहे
अच्छेवि खणु
जय देवि तुम
कोवकियए
निव्वक्करए
पहणेवि गयउ
तीए वि तया

रुइराइयउ ।
न अच्छरउ ।
रायाणियउ ।
सेवावसरे ।
बुद्धिमइ जहि । ५
पणवेवि तहे ।
सुविणोयघणु ।
भासेवि इम ।
एक्केक्कियए ।
सिरि टक्करए । १०
तहो दुम्मयउ ।
निय निद कया ।

चितियमइणा	त निग्रवि तिणा ।	
पुज्जेवि सई	थुय सा सुमई ।	
इयरहँ वि तउ	गुरु दंडु कउ ।	१५
नाऊण इण	नविऊण जिण ।	

घत्ता—अवरेणावि सया वि हु भव्वेणप्पणउ ।
निदेवउ छिदेवउ दुट्टवियप्पणउ^१ ॥९॥

१०

सो वि य अविहेयकलत्तवसु	झिज्जइ फुडु थेरहो तरुणि विसु ।	
सोवड अण्णे पावासायए	एक्कहिँ दिणं मारिउ सपइ तए ।	
मारइ मारावइ सई मरइ	त नत्थि ज न तियमइ करइ ।	
छज्जियहे छहेप्पिणु जागरया	त घल्लहुँ निसि पिउवणहो गया ।	
जणपच्चयकारणु धुत्तियए	थभिय देवीए निउत्तियए ^१ ।	५
अच्छोडइ ताडइ उल्ललइ	पेल्लइ करेहि वेवइ वलइ ।	
सिरु धुणइ समुट्टइ वइसइ वि	आरइइ पडइ सा नउ तइ वि ।	
जिह जिह विहि पवहइ आरसइ	तिह तिह अईव देवय ह्मइ ।	

घत्ता—हुय निफदुडुँ वि नाइ नवाहु पसु ।
विगय विहावग्गि दुक्खे पिउवणं कहव नमु ॥१०॥ १०

११

ता भणइ देवि सद्धम्मचुया	कि तउ हयासि दुब्बुद्धि हुया ।	
जे पहउ सपइ हले धम्ममइ	तेणेह तुज्ज सजाय गइ ।	
जइ पयडहि नियदुच्चरिउ जणे	तो फिट्टइ वुल्लियदुट्टमणं ।	
त सुणिवि ताए असुहाउलए	पइसिवि पुरे धम्मनयाउलए ।	
उन्भासिउ भो भो पउरजणि	मई जेही का वि म होउ धणि ।	५
जारहो कारणि रइबुद्धियए	परिहासचुयए नियबुद्धियए ।	
सई वहिउ जाए भत्तारु निउ	एत्थच्छइ पेच्छह परमदिउ ।	
भासतिहे एउ ताहिँ चलिउ	महुँ कुच्छयाए दुक्किउ गलिउ ।	
अवरेण वि धम्मं ठिएण इउ	जाणेविणु जीवे अप्पहिउ ।	

घत्ता—गुरुपयपोम समासिवि दुक्कियगरहणउ ।
अवसमेव कायव्वउ कम्मनिरोहणउ ॥११॥ १०

६. १. *वियप्प दुब्बयएहि भणइ ।

१०. १. थभिउ देविए त निउत्तियए ।

१२

उक्त च—आलोचनैर्निन्दनगर्हणैश्च व्रतोपवासे स्तुतिसकथाभिः ।
 शुद्धैश्च योगैः क्षपणं करोति विषप्रतीघातमिवाप्रमत्तः ॥
 आणक्खिदा य लोचेण अप्पणो होदि घम्मसड्ढा य ।
 उग्गो तवो य लोचो तहेव दुक्खस्स सहण च ॥ [भ. आ ९४]

आणक्खिदाश्चर्यमत्यद्भूत लोचनं दशितं भवति । अथवा आणक्खिदा आत्मपरीक्षा आत्म- ५
 प्रमाणं नालोचने प्रकाशितं भवति । उग्रं च तपः लोचः । तथा दुःखस्य सहनं च कृतं भवति ।
 लोचास्थानं कथ्यते ।

एत्थत्थि वरिदी देसु वरु	तहिँ पट्टणु देविकोट्टु पवरु ।	
तत्थ वि पसत्थसव्वत्थनिदु	सिरिसोमदत्तु दिउ वेदविदु ।	
सोमिल्ला वल्लह तहे विलया	सुय सूय ताए वे गुणनिलया ।	१०
पढमो गिगभूइ छक्कम्मरउ	मरुभूइ बीउ सव्वत्थरउ ।	
अवरो वि तत्थ बहुदव्वरउ	हरिदत्तु विप्पु हरिदत्त सइ ।	
तहो दव्वुद्वारे नित्थरइ	ससियत्तु महामइ वित्थरइ ।	
एक्कहिँ दिणि साहुसमीवे सुउ	सव्वण्हुधम्मु निव्वेउ हुउ ।	
मरुभूइजणरे मुएवि घर	उच्चाइउ रिसिचारित्तभरु ।	१५
गुरुणा समेउ गउ दिक्खियउ	समएण समग्गु वि सिक्खियउ ।	
पुणरवि भमंतु तत्थाइयउ	हरिदत्तएण निज्झाइयउ ।	
भासिउ भो गण्हवि मज्झ धणु	एवहिँ हुओ सि नग्गउ सवणु ।	
त दिन्नु न जाम ताम अबुह	जइ वल्लहि तो जिणआण तुह ।	

घत्ता—त निसुणेषि महामुणि सोमयत्तु लवइ । २०

पोढ पुत्त महु अच्छइँ ताण पासे लइ ॥१२॥

१३

तेणुत्तउ अन्ने कि करमि	पई लइउ दव्वु पई पर घरमि ।	
विहुदत्तु भणइ निग्गंधु मुणि	हउँ नत्थि कि पि भो मज्झ धणि ।	
कि देसमि मुयहि म गाहु करि	जाएप्पिणु नंदण वे वि धरि ।	
पुणरवि आहासइ नत्थि धणु	कि सोमयत्त तुम्हाण भणु ।	
तुज्झत्थि धम्मु सो देहि महु	अहवा त विक्किणिऊण लहु ।	५
ता भवियव्व ओहिण्ण मुणिय	सिरिवीरभट्टगणिणा भणिय ।	
भो सोमयत्त कयधम्मदिसि	एत्थज्जु पगपि मसाणि निसि ।	

विककेवि धम्मु ज लइउ वसु
मुणिऊण एउ गुरुजंपियउ

देदेहि अस्स भो अप्पवसु ।
सीसेण न कि पि बियप्पियउ ।

घत्ता—जामिणिभरं जाएप्पिणु भीसणु सवसयणु ।

१०

भासिउ दिसउ निहानिवि नीसके गयणु ॥१३॥

१४

भो भो आयअह सक्क सिहि
रुहाहिराय विज्जाहरहो
विककाइ धम्मु जो लेउ तसु
भणियम्मि अम्मि पुणु पुणु वि पिणु
तद्देविण पुच्छिउ निव्विसउ
जं विककहि ता तहे दिव्वञ्जुणि
मुरसुदरि अट्टवीस पवरा
मुणु तत्थ अहिंसा सच्चवउ
नगिणत्तणु लोहनिरोहणउ
निक्खेवणगहणविसोहि तह
पचेदियपसरनिवारणउ
अवसणु अण्हाणु भूसोवणउ

जम नेरिय वरुण वाय सणिहि ।
वणदेवहो गहहो ससहरहो ।
हउं देमि अमसउ लेमि वसु ।
करिऊण सविग्गह्व पयडगुणु ।
भयवत धम्मु कहि केरिसउ । ५
मविसेमु पयासइ त्रिपमुणि ।
मज्झत्थि मूलगुण पावहरा ।
परिहारु दव्व तह कामजउ ।
इरिया भासेसण सोहणउ ।
उच्छगमुद्धि ह्यपाणिवह १०
लोचो छावासयधारणउ ।
ठिदिभोयणु दताधोयणउ ।

घत्ता—एयभत्तु एवविहु गयभयमरणजरु ।

धम्मु देवि विककाण समीहियसोक्खवरु ॥१४॥

१५

भणिद च—धम्मो जयवसियरण धम्मो चित्तमणि अणग्घेउ ।

धम्मो मुहवसुधारा धम्मो कामदुहा धेणू ॥१॥

कि जपिदेण बहुणा ज ज दीसेइ जीवलोयम्मि ।

ईदियमणोहिराम त त धम्मफल सव्व ॥२॥

सर्वे वेदा न तत् कुर्यु सर्वयज्ञाश्च भारत । ५

सर्वतीर्थाभिषेकश्च यत्कुर्यात्प्राणिना दया ॥३॥

एवमादि धर्मशास्त्रकारं धर्मफल वर्णितमिति ।

अवरो वि आयणिण जिणधम्मु दहभेउ ।

उत्तमखमा मद्व मोक्खसुहहेउ ॥४॥

अजव च परिणामु सच्च च सउव च ।	१०
तउ चाउ सजमु महाकिचणत्त च ॥५॥	
सरिहरसुरिदाइवसकारि कामारि ।	
निइलणसमु बंभओ दहमु सुहयारि ॥६॥	
दोण्हं पि एयाण मज्झम्मि जो सारु ।	
सो देवि लइ धम्मु ससारनित्थारु ॥७॥	१५
निसुणेवि एय वियड्ढाए देवीए ।	
भणिओ मुणी अरुहपयकमलसेवीए ॥८॥	
अवरस्स सव्वस्स धम्मस्स भयवंत ।	
दाउ फुड तीरदे मोल्लु मयणंत ॥९॥	
जो पुण विमुद्धो सया सव्वसुहयारि ।	२०
दारिद-दोहग्ग-दुह-दाह-धणवारि ॥१०॥	
निव्वाणगमकारणो कम्मघणपवणु ।	
अमिओवमो सव्वजीवाण गुणभवणु ॥११॥	
अदुइज्जओ णोवमो णग्घु अकलकु ।	
उवरि द्विओ सव्वधम्माण नीसकु ॥१२॥	२५
तेलोककचक्कच्चिओ चारुचित्तेण ।	
पन्नतु सव्वण्हणा भुवणमित्तेण ॥१३॥	
एवविहस्सावि दुलहस्स को तस्स ।	
मोल्ल अयाणो जणो देवि धम्मस्स ॥१४॥	
दाउ दयावासचेलक्क' लोचक्क ।	३०
वीमुदिया'—मोल्लमवि भुवणं के सक्क ॥१५॥	

घत्ता—तो वि तुज्ज उवसग्गहो सामिय करमि खउ ।

देमि मोल्लु तहो कि पि वि एउ भणेवि तउ ॥१५॥

१६

मोत्तियमाणिक्हं भरगयह

कक्केयणपूसरायसवह ।

वज्जहें वेडुज्जपवालयहं

रुजगहें गेरुगहें पहालयह ।

१५. १ देवसेक्क । २ बीमुदिया ।

वरफलहेंदीवीवरवण्यह	जलससिरविकतसुवण्यह ।	
हरिनीलमहानीलकियह	कउ रासि असंबु महतयहं ।	
हक्कारिवि विण्हदत्तु धणिउ	ता सोमयत्तमुणिणा भणिउ ।	५
कि जोयहि लइ लइ एउ धणु	मुए सवहुत्तारहि मज्झ रिणु ।	
तेण वि त नियवि विचिंतियउ	विभिण्ण विरूवउ मइँ कियउ ।	
खब्भालिउ हा ज जइ पवर	पेच्छहो धम्मस्स पहाउ' वरु ।	
देवा वि हु जेण नमति पया	मग्गिज्जइ ज त दिति सया ।	

धणसचयादो वर पुण्णसचओ एस पडिदा वेति । १०

धम्मो मदमणुगच्छदि धण पि अन्ने विलुपंति ॥

धोव धोव धम्मं करेह जइवि हु बहु न पारेह ।

विरला वि रुक्खछाया न होदि दुक्खावहा नूण ॥

ता चित्तिवि इउ निव्वेयमणु	जरतणु व मुएप्पिणु रयणगणु ।	
तासु जि समीवि सवेयजुउ	हरियत्तु अकिचणु सवणु हुउ ।	१५
सग्गापवग्गु पयलग्गमणा	साहति पयत्ते दो वि जणा ।	
निवडिउ मणिरासि पएंसि जहि	सिरिकोडि तित्थु नामेण तहि ।	
सजाउ तित्थु अज्ज वि वहइ	जणु दूरहो गपि गपि महइ ।	

घत्ता—जाणिवि एउ करह तउ पइसेवि जइणमइ ।

सिज्जइ ज नउ त नउ अत्थि तवेण जइ ॥१६॥ २०

उक्त च—यद्दूर यच्च दुर्गं च दुराराध्य च यद् भवेत् ।

तत्सर्वं तपसा साध्य तपो हि दुरतिक्रमम् ॥

एव लोचकवाण गद ।

१७

काले विणए उवहाणं बहुमणं तहेवनिण्हवणे ।

वज्जण अत्थ तदुभय विणओ नाणम्मि अट्टविहो ॥ [भ. आ. ११५]

काले एव भणिएदे दब्बे वेत्ते काले भावे कालादिचतुष्टये सध्यादिवोषरहित. शुद्धो वाचना-
कालस्तस्मिन्नित्यर्थः । पर्यङ्ककरमुकुलितनमनकरणादिको विनयस्तस्मिन् । उपधानमवग्रहविशेष-
स्तस्मिन् । आदरादिबहुमानस्तस्मिन् । गुर्वादीनामनिष्कषणमगोपनं तस्मिन् । व्यंजनमक्षरशुद्धिः । ५
अत्थ अर्थशुद्धिं तदुभयं अक्षरार्थशुद्धिं. हीनाधिकशब्दार्थविवर्जितम् । तदुभयविशुद्धं शास्त्रं पठित-
व्यमित्यर्थः । सपइ कालक्खाण । तं जहा—

१६ १ धम्मपहाउ ।

सिरिवीरभट्टनामेण जइ
निज्जणवणि गिरिगुञ्जंतरए
निज्जियसमु समननिरोहणए
तब्बोहणहेउ वियक्खणए
सहसा गोवालणितणु रइया
अइसुरहि सुसाइ अईववरु
विककामि तक्कु गेण्हह भणइ
चिरु अच्छिवि गोरसविकिणिया
कि बुद्धिगहिल्ली ह्य तुहु
इट्ट मिट्ट महुर भणहि

सत्यत्यवभासनिबद्धरइ ।
संठिउ अंधारनिरतरए ।
पढदि त्ति अयालि सलक्खणए । १०
[सुयदेविण चितिवि तक्खणए]
सीसम्मि महणमथणि लइया ।
भो भो रिसि सुहपरिणामकरु ।
परिभमइ पुरउ साहु वि सुणइ ।
तवलच्छिवहूवरेण भणिया । १५
निसि पुरउ अपत्थावम्मि महु ।
जे तक्कु अयाणिण विक्किणहि ।

घत्ता—एहउ सुणिवि अहीरिण वीरभट्ट भणउ ।

कि तुहुं साहु गहिल्लउ जें न मग्गु मुणिउ ॥१७॥

१८

सव्वहिद विउल निरवज्ज
देवयरक्खिययं मुदनाण
काई अकाले पुज्जं जइण
पढहि मुणेप्पिणु एय वयण
ता नक्खत्तविहाए नाओ
हा दुट्टं कदमिदमविवेय
गुरुपयमूले पायच्छित्त
पुणु दव्वादिचउक्कविसुद्ध
तुट्ट कम्मचउक्कं तेण
साहुकय भयव भणिऊण

निउणनिकाचिदय अदुडज्ज ।
अमय मिट्टु सव्वरसाण ।
वयण पडिवक्खं दुग्गइण ।
जोयइ जा निग्गेप्पिणु गयण ।
पाढहो कालाइक्कमु जाओ । ५
भणिऊण करेवि निव्वेय ।
लेप्पिणु दूसेप्पिणु दुच्चरित ।
विणएण पढतु मुदखध ।
जाद केवलमचल नाण ।
पुज्जिवि उच्छवेण नविऊण । १०

घत्ता—गय सुयदेवि समदिरु नाणाचाररउ ।

कालकमेण मुणिदु वि मोक्खनिवासु गउ ॥१८॥

१९

अवरु वि आणदियभव्वयणु
अरुणोदयम्मि सज्झायखणु
सो सव्वकाल अमुणियसमउ
असमाहिण मिच्छत्तेण मुउ

होतउ सिवनदणक्खु सवणु ।
होदि त्ति गहियसकेयमणु ।
पढिऊण जिणिददेवसमउ ।
गगादहम्मि पाढीणु हुउ ।

१७. ? निज्जियसमुननिरोहणए ।

तहिं पुलिणि पढतु सुणेवि जइ	जायउ जाईसरु तोयगइ ।	५
हा मई पाविठ्ठे आसि कउ	सुयनाणाइक्कमु तेण भउ ।	
जलयरु जई वि जणपणयपउ	हा विहि बलबंतो अणु नउ ।	
इय निदिवि अप्पउ उप्पडिउ	एप्पिणु मुणिपायते पडिउ ।	
तेणावि मुणिउ नाणेण तउ	सबोहिउ दिनु घरत्थवउ ।	
मुउ हुउ सन्नासु करेवि वरु	मुहभावणाए सुरु मुहपउरु ।	१०
अवरु वि जो विहिए विसुद्धियए	कानाए चउट्टुए मुद्धियए ।	

घत्ता—इय जाणेवि पढेसइ दुग्गइविद्ववणु ।

सो सिरिचदुज्जलजसु होसइ मुहभवणु ॥१९॥

विवहरसविसाले पेय कोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले ॥

भुवणविदिदणामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिण्णतोसे ॥

मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते ।

एसो अयालअज्जभयएफलकहा नाम पचमो संघी ॥

संघि ६

१

ध्रुवय— इय अक्खिउ जिह लक्खिउ दोसु अयालज्जयणहो ।
गुणपणयहो सुयविणयहो गुण भासमि भव्वयणहो ॥

दुवई— वच्छाजणवयम्मि कोसबीपुरि परिपालियावणी ।
अत्थि नरिदु नाम घणसेणो धरणीवइसिहामणी ॥

तहो वल्लभ रइ व्व मणभवणहो
सा सइ जणमणनयणाणदिरि
राउ वि भागवदो परिवायहँ
तहो गुरु तत्थुवल्लपइट्टउ
सव्वकाल अग्गासणि भुजइ
एत्तहे वेयइढहे जियमुरपुर
विज्जुप्पहु नामेण पहाणउ
सावउ अभिगयसम्माइट्टिउ
विज्जुप्पह नामे पियपत्ती
वंदणहत्तिहेउ नीसंकई
दिव्वविमाणं गयणि भमंतई
माह्मासि घणतुहिणनिवायप्र
ण्हाएप्पिणु हरि हरि पभणेप्पिणु

घणसिरि घणसिरि व्व दणुदवणहो । ५
जिणमुणिदकमकमर्लिदिदिदिदिदि ।
भत्तु सया वि मुरारिहे पायहँ ।
अत्थि भगवु नामं मुपइट्टउ ।
जलथंभणमते जणु रजइ ।
दाहिणसेदिहे रहनेउरपुर । १०
अत्थि तत्थ विज्जाहरराणउ ।
कुगुरुकुदेवह दूरि परिट्टिउ ।
तामु विण्हुपयपकयभत्ती ।
वे वि ताई नावइ सइसक्कई ।
एक्कहिँ दिवहे तत्थ सपत्तई । १५
कयवइलिप्र वहतरवायप्र ।
जमुणदहे बहुबुड्डउ देप्पिणु ।

घत्ता— तें तहो नियमतहो जाउ जवतु जलोवरि ।
उवविट्टउ कयनिट्टउ भिसियाए भासेवि हरि ॥१॥

२

विभिय त निएवि विज्जाहरि विज्जाहरहो भासए ।
नियसमयट्टियाण तवसीणं माह्प्य पयासए ॥

एदिसम्मि अदिसीदवइले
ण्हायिऊण जमुणानईजले
क्षाणजोप्र एयग्गभावणो
तं सुणेवि कुमुयाणुगामिणी

पेच्छ पेच्छ पहु एत्थ निम्मले ।
तवबलेण ठिउ जेम भूयले ।
एहु अम्ह तवसी सुहावणो । ५
भणिय विज्जतेएण भामिणी ।

जाहि मुद्धे मा विभय इमो
 कुपहधम्मरायाणुरजिओ
 खेयरीए निसुणेवि विप्पिय
 भासिय विमुद्धे पसिद्धए
 पुज्जणिज्जि अबियारणि ज्जए
 वेयवयणि एसो णुरत्तओ
 धीरवीरु कयपरमनिट्टओ
 सव्वसत्तहिउ कमु न रुच्चए
 अन्नो धम्मो अन्नो तवोहणो
 तो वि चित्तसवित्ति नावए
 परदुग्गुल्लण अत्तसंसण

मदबुद्धि अन्नायसजमो ।
 पावयम्मु परमत्यवज्जिओ ।
 गुरुदुगुल्लण नाहजपिय ।
 अकए णोवमे णाए सिद्धए । १०
 हेउवाइणावाहणिज्जए ।
 विण्हुदेवपयपोमभत्तओ ।
 मुद्ध बुद्धु तवसी वरिट्टओ ।
 कहमु केम अन्नानु बुच्चए ।
 जइवि सुट्ठु तउ तवइ सोहणो । १५
 अडयणाहिँ हिरिभाउ नावए ।
 भणिउ एइ सप्पुरिसदूसण ।

घत्ता—ता धुत्ते पिय कत्ते भणिय म एम वियप्पहि ।

आयडभु परमत्येँ भणमि हियत्ये अमुणती मा कुप्पहि ॥२॥

३

दुवई—कि बहुएण भदि दक्खालमि तवमाहप्पु आयहो ।

एहि भणेवि तीए सहँ खेयरु ओयरियउ विहायहो ॥

गहियमसच्चम्मई कुणिमगई
 उवरि गपि जगलु पक्खालहँ
 दूसिउ जलु दुग्गधे भग्गउ
 वणरुहपूयपवाहे भूसिउ
 छड्डेँवि त पएमु अन्नेत्तहे
 बहु वाराउ एम चडालहिँ
 मेल्लिवि प्हाणु जाउ आरुसिवि
 एत्तहे पेक्खतहो तहो सोहणु
 वेउव्विउ पासाउ रवण्णउ
 हेमुज्जलहिदोले वलग्गउ
 गमणागमणु नहराणि दाविउ
 अवराओ वि अणेयउ पाणे
 विभिउ त निएवि परिवायउ

जायहँ वे वि जणई मायगई ।
 पारद्वउ त मणु सचालहँ ।
 जाएवि उवरि प्हाहँ सो लगउ । ५
 पुणरवि उवरि गपि पउ दूसिउ ।
 गउ भगओ पवित्तु जलु जेत्तहो ।
 खब्भालिउ कयमायाजालहिँ ।
 थिय ओसरिवि ताई सो दूमिवि ।
 पवरुज्जाणु नरामरमोहणु । १०
 न सुरवइविमाणु अवइण्णउ ।
 जूवईयणु सोहाइ समग्गउ ।
 विविहरसोइए जणु जेमाविउ ।
 रइयउ किरियउ विज्जापाणे ।
 चित्तए हरिसुद्धसियकायउ । १५

घत्ता—जगमन्नई सामण्णई एयइ होति न पाणई ।

गुणिसेवई अह देवई विज्जाहरईँ पहाणई ॥३॥

४

दुवई—अन्नहै एह सत्ति सभवइ न जणमणचोज्जदाइणी ।

अत्थि परेक्क मज्झ जलथभिणि विज्जा विज्जभाइणी ॥

लब्भइ अवर एह जइ विज्जय
तो महु को वि न जाइ अखद्धउ
पणउ करेप्पिणु करु जोडेप्पिणु
के तुम्हई कि कज्जेणायई
सूयई अइअच्चब्भुयभूयई
कहइ खयरु तुम्हहि वि नियच्छिय
पुच्छह ज आगमणु अठायई
आयरियण्णं एककेण सपणयहं
ताहे पहावे जणमणहारई
भासइ भगउ पसाउ विहिज्जउ
भणइ पाणु ज तुम्हहैं दिज्जइ

परमविज्ज खयरामरपुज्जिय ।
इय अवधारिवि तहो कुट्ठि लगउ ।
पुच्छइ ताःई समीवि हवेप्पिणु । ५
संघह करह केम फुडु आयई ।
जणमणविभणियाई वहूयई ।
अम्ह जाइ मायंगी कुच्छिय ।
इहु पुरमेव भमंतई आयई ।
दिन्न विज्ज अम्हहैं कयविणयहं । १०
रूवई करहुं अणोयपयारई ।
अम्हहैं एह विज्ज ढोइज्जउ ।
सच्चउ त परेक्कु सलहिज्जइ ।

घत्ता—अप्पवसी त तवसी कि तुम्हहैं दुक्कियरउ ।

गुणजणएँ विणु विणएँ सिज्जइ मंतु न नीरउ ॥४॥ १५

५

दुवई—जत्थम्हई निएसि जइ तत्थ विसज्जउ माणगारउ ।

करेवि तिपदक्खिणाउ पणवेवि पयासियभत्तिभारउ ॥

सामिय तुम्हहैं पायपसाएँ
पभणहि एउ अससउ तो तुह
भासइ सुप्पइट्ठु दिहगारउ
देहि विज्ज ता दिन्न समिच्छिय
विन्नासेप्पिणि सुइरु सहत्थे
देवि पदक्खिणाउ पणवेप्पिणु
पुच्छिय राएँ भुजियभोयणु
भासइ सो निव सव्वसुहावउ
सो संपुण्णु अज्जु संजायउ
अवर वि देव महामहिमाहर
उच्छवेण पुज्जेवि नमंसिवि

जीवमि चितियसोवखउवाएँ ।
सिज्जइ विज्ज न इयरहो भो बुह ।
करमि सव्वु भासिउ तुम्हारउ । ५
तेण वि भत्तिपरेण पडिच्छिय ।
सिद्धि वियाणेप्पिणु परमत्थे ।
गउ राउलु जय गुरु पभणेप्पिणु ।
भयव अज्ज काई लाइउ खणु ।
जो किउ एत्तियकालु महावउ । १०
बभु विणहु माहेसरु आयउ ।
गण गंधव्व जक्ख विज्जाहर ।
गय सयल वि मं सुइरु पसंसिवि ।

बहुवारहु य तेण सराएँ पुच्छिउ एउ सुणेवि स राएँ ।
कि फहाउ तहो तेण कहिज्जइ ज चित्तिज्जइ त पाविज्जइ । १५

घत्ता—तं निसुणेवि सिरु विहुणेवि विभिण धणसेणें ।
सो नवियउ विन्नवियउ अरिविहंगगणमेणे ॥५॥

६

दुवई—दावासि नियतवस्स माहप्प भो भयवत मोहण ।
संबोहहि जणोहु जणवल्लह कुरु ससयनिरोहण ॥

भगवेणुत्तउ एवहिँ अच्छउ पसरि नराहिव दावमि तिच्छउ ।
सबलु सवाहणु एउ करेज्जसु आमतिउ मडियहे आवेज्जसु ।
भोयणभूसणाइविहि सयल वि हउँ जि करेसमि सकुलवररवि । ५
एम भणप्पिणु गउ परिवायउ विगय विहावरि वासरु जायउ ।
मुप्पइट्टु गुरुपायपन्नोरुह पुज्जहुँ चलिउ राउ पुज्जारुह ।
आवउ सब्बु को वि इय घोसण देवि सधम्मपक्खपरिपोसण ।
सगयपउरपउरपरियणजणु गउ नरिदु तहिँ कोऊहलमणु ।
दिट्ठु नमसिउ जयजयकारे पुज्जिउ सो निवेण परिवारे । १०
अवरेहिँ मि भत्तीणु नमसिउ तेण वि नियसामत्थु पयासिउ ।
परमुज्जाणु विविहरुक्खाउलु पट्टणु दिव्वु एककु किउ राउलु ।
तत्थ नरेसरु आवासाविउ चारुरसोइणु जणु जेमाविउ ।
तबोलई कुसुमाई सुयंधई वत्थई आहरणाई सगधई ।
ज जसु जाग्गु तासु तं दिन्नउ हीणदीणदालिदु विहिन्नउ । १५

घत्ता—अन्नहो नउ एहउ तउ अत्थि समीहियदायउ ।
विभियमइ पुहवीवइ एव सुट्ठु सजायउ ॥६॥

७

दुवई—एउ निएवि विण्हुधम्ममि समग्गु वि लोउ लग्गओ ।
मायंगाई ताई एत्थतरि एव ठियाई अग्गओ ॥

घिद्धी कहिँ एयाई अमहई आयई पावरयाई रउइई ।
अहट्ठव्वई दुट्ठई मारहो लेहु लेहु लहु दूरोसारहो ।
इय भगवहो वयणेण जणोह कह व न मारियाई कयकोहे । ५
निवभत्थेवि ताई निद्धाडिबि घल्लियाई उवलहिँ अइताडिबि ।
तेसु गएसु बिउव्वण नट्टी रायहो सक मणम्मि पइट्टी ।

भयवं किं एयं संपन्न
 तं सुणेवि भगवेण विलक्खे
 अम्हारिसह राय दुवियड्ढहँ
 जत्थम्हँ निएसि कयसत्तिप्र
 इय भणिऊण एण पडिवन्नी
 ताप्र एउ चितियफलपत्तिप्र
 किउ नवयारु न तुह लज्जते
 कोसंबीसे एउ सुणेप्पिणु

कि तव छिड्ड अहवा अन्न ।
 वुत्तउ विज्जानासे सदुक्खँ ।
 कत्थ एत्थ तउ सजमु थड्डहँ । १०
 तत्थ नवेज्ज सुगुरुयप्र भत्तिप्र ।
 मायंगेण विज्ज महु दिन्नी ।
 रइउ असेमु वि मइँ प्पहयत्तिप्र ।
 विज्जासत्ति पणट्ठी निव ते ।
 गपि पाणु मग्गिउ पणवेप्पिणु । १५

घत्ता—जो आयहो परिवायहो दिन्नउ मत्तु महाइउ ।
 दय किज्जउ प्पहु दिज्जउ सो महु चितियदाइउ ॥७॥

८

दुवई—पुव्वुत्त भणेवि चित्तमणिविज्जा भुवणमन्निया ।
 पेच्छेवि परमभत्ति परिओसेँ तेण वि तामु दिन्निया ॥

वेउव्वेवि जहिच्छइ भूवइ
 अन्नहँ दिणि अत्थाणि परिट्टिउ
 तं जोएप्पिणु हरिमुक्कठिउ
 कर मउलेवि पयाहिण देप्पिणु
 पेच्छंतहो नरवरसघायहो
 नविवि पउत्तु निवारियदुट्ठे
 जाणिय भावसुद्धि अणुराएँ
 कि एयप्र विज्जाप्र सपणयहो
 एम भणेवि सरूवु पयासिउ
 भगवपरिक्खहेउ माय गउ
 सुणेवि एउ सोहणु सामते
 विभिणण चितियपरलोएँ
 मेल्लिवि लोयधम्मु गुणगाहे

आउ समदिरु परिओसियमइ ।
 एप्पिणु अत्तजु पुरउवविट्ठउ ।
 हरिवीढहो सहसत्ति समुट्ठिउ । ५
 भत्तिप्र जय जय गुरु पभणेप्पिणु ।
 नरवइ पाणहो नविउ सजायहो ।
 जीविउ रज्जु सोक्खु तइँ तुट्ठे ।
 राउ पससिउ खेयरराएँ ।
 सिज्जइ तेलोक्कु वि तुह विणयहो । १०
 नाउँ ठाउँ सविहउ उब्भासिउ ।
 जाउ सरामु राय मायगउ ।
 सपुरोहे समतिसामते ।
 समउ सब्वपरियणपुरलोएँ ।
 सावयधम्मु लइउ नरत्ताहँ । १५

घत्ता—त जोएवि दिढ होएवि सा तहो खयरिदहो वहु ।
 गयद्धम्महो जिणधम्महो लग्ग मुप्रवि मिच्छावहु ॥८॥

९

दुवई—मायंगहो वि विहिउ विहिपुव्वो जेम निरायिणा तिणा ।
 तेम सया वि विणउ सुयणाणहो कायव्वो हिएसिणा ॥

तं कंहं ? पलियक-निसेज्ज-गदो पडिलिहिय कयंजली कदपणामो ।
 सुत्तत्यजोगजुत्तो पडिदब्बो आदसत्तीए ॥ [मूला. २८१]
 विणएण सुदमधीद जदि वि पमादेण कंह व वीसरिद । ५
 तं उवठादि परभवे केवलनाण च आवहदि ॥ [मूला. २८६]

॥ एवं विणयक्खारण गदं ॥

पुरि अहिच्छत्ति राज वसुवालउ	वसुमइदेविहे कतु गुणालउ ।
सहसकूडु नामेण जिणालउ	तेण कराविवि सुट्ठु सुहालउ ।
तम्मि पुणो पारभिय देवहो	पासहो पडिम जयत्तयसेवहो ।
किज्जइ दिणि निसाहे सा विहडइ	रायरोसु लेप्पयरहो निवडइ । १०
वित्थारइ मारइ नीसारइ	दिणि दिणि अवर अवर हक्कारइ ।
एवं गदवदि काले आओ	अन्नो लेप्पयरो विक्खाओ ।
देवाहिट्ठियय जाणेप्पिणु	गपिणु गुरुपयाइ पणवेप्पिणु ।
तन्निमित्त पुयाइ करेप्पिणु	महुमसाइ अबग्गहु लेप्पिणु ।
तेणाणोवमु भुवणाणदहो	निप्पाइउ पडिबिबु जिणिदहो । १५

घत्ता—त जोएवि पोमाएवि वरवयणहिं परिओसे ।

विन्नाणिउ सम्माणिउ पउरत्थेण महीसें ॥९॥

१०

दुवई—एवविहा वि साहुसघेण विससयभावपावह ।
 गहियावग्गहेण पडिदब्ब सुयनाण सुहावहं ॥

त कंह ? आयविल निव्वियडी अन्न वा जस्स होदि ज जोग्गं ।
 त तस्स करेमाणो उवधाणपरो हवदि एसो ॥ [मूला. २८२]
 सम्मत्तम्मि तम्मि सुयणाणे इदाइहिं सय कया । ५
 पुज्जा पाविऊण पाविज्जइ अक्खयसोक्खसपया ॥

॥ एवं उवहाणक्खारणं गदं ॥

निसुणहो भासमि बहुमाणहो क्ह	पुरि कासीविसयम्मि सुहावह ।
वारणसि भणेवि जाणिज्जइ	इदु वि जाहि सनयरिहे लज्जइ ।
अत्थि सया अणुहुजियभदो	राया तहिं पसिद्धु वसुभहो ।
वसुमइ नामे पाणपिथारी	पिय तहो सब्वंतेउरसारी । १०
अत्थि समीवि ताहे गंगायडि	गामि पलासखेडि जणसंकडि ।

पत्तासोड असोड महतड जणवयवच्छलु दूरज्जियभड ।
 सो बहुगोडलसामिड रायहो वरिसि वरिसि पानियमज्जायहो ।
 घियहो घडाण सहासु पयच्छइ निरुवट्टु कुलेण सुहु अच्छइ ।
 पयणियजणमणनयणापंदा पणइणि गुणनिहाण तहो नदा । १५

घत्ता—सा बंझा अवरज्जा परिणिय तेण सुनदा ।

नवजोव्वण थोव्वडथण मुहनिज्जियछणयदा ॥१०॥

११

दुवई—ता पडिहाइ तामु अहवा नवपेम्म कामु न पिय्य ।

कलहु निएवि ताण कुलवइणा अद्धढ समप्पियं ॥

नदा गाईण गोवाण बहुमाण कारइ सव्वाण ।
 गहण जतीण अणुगमण गणिऊण गोवयमालवणं ।
 एंतीण एप्पिणु पडिगहण सल्लानिच्चुन्नयनिम्महण । ५
 निसि घास लोण खलदाण गाईय गोभत्त पाण ।
 अवर पि हु दावइ सम्माण ताड वि देति पय अपमाण ।
 गोवालाण वि करइ पयत्त घयदुद्ध दहिय वरभत्त ।
 भुजावेप्पिणु मुहसाउयय हत्थे लडुयाइ खाउयय ।
 देवि विसज्जइ तरुसद्धन्न गपि ते वि सतुट्ठा रण्ण । १०
 जेमु जेमु ठाणेमु मणोज्ज विउल जल च तण च सखज्ज ।
 तेमु तेमु सुरहीउ हियत्ते चारयति पायति पयत्तं ।
 मुमरिप्पणु सामिणिसम्माण करहिं दुहिवि नेव पयपाण ।
 गेह अडईदो आयाण ताण नावइ नियजायाण ।
 पियवयण दुरियासणदाण पयधुवण अब्भगणह्णाण । १५
 भोयण च सयण पत्थरण पावरण सरीरमुहकरण ।

घत्ता—एवविहु अवरु वि बहु करइ निच्च गोसाविणि ।

सम्माण घणदाण गोवाण गयगामिणि ॥११॥

१२

दुवई—दुज्झइ दुद्ध जेसु जावि ज्जइ जन्न ताण सोहण ।

भंडाण करेइ कमलाणण धुवणक्कडणसोहण ॥

सुनदा वि सांहग्गावेण गीडा न नेत्तेहिं नीहालए कि पि मूडा ।
 न गाईण गोवाण भंडाण भत्ता गयाणागयाण न पुच्छेइ वत्ता ।

विचितेइ चग न निव्वाहवत्त
 न गच्छति दूर वण चारुचारि
 न जोयति कालेण पायति नीं
 गए पचमासे हुया दाणवाली
 घडाए घएणं सया पच पुण्णा
 कणिट्ठा वि आणेहि कतेण वुत्ता
 पउत्त तया सामिणो निव्वियप्प
 सुणेऊण एय असोएँ हयासा
 पुणो तास नीएइ नदाए अन्ना
 कया मुट्ठु तुट्ठेण कतेण पूया
 धण गोउल सव्वमेवपिय से
 वियाणेवि साहू वि एय निरुत्त

न गोवा वि कुव्वति गाईपयत्त । ५
 सया देति तवाण ते भुक्खमारि ।
 दुहेऊण सेच्छाए घोट्टति खीर ।
 घयस्सागया राइणो भडसाली ।
 तओ जेट्टभज्जाए आणेवि दिण्णा ।
 तुम एत्तिआ सप्पिकुभा निरुत्ता । १०
 मईण घरे नत्थि थोव पि तुप्प ।
 सकोवेण कुट्टेवि नीसारिया सा ।
 निवत्थं निवा तेत्तियं नेवि दिन्ना ।
 मणोवल्लहा सव्वकाल व हूया ।
 न कि वाहवा होइ भो भत्तिलेसे । १५
 सयाकाल काऊण एयग्गाचित्त ।

धत्ता—सुयनाणहो उवयरणहो तहो अज्जावयनियरहो ।

मुहदाण बहुमाणं करउ आण तित्थयरहो ॥१२॥

१३

दुवई—मुत्तत्थ जपतो बायतो चावि निज्जराहेदु ।

आसादण न कुज्जा नेण कद होंवि बहुमाण ॥

सो सोक्खेण पढइ आयन्नइ गत्यत्थ विउज्जाए ।

नाणोवरणु लहइ कम्मक्खउ विसयमुहे न मुज्जाए ॥

जो नउ करइ विगयमइ गव्विउ बहुमाण जिणागमे । ५

सो भवगहणे भमइ दुहपहउ मुनदा जेम दुब्भमे ॥

॥ बहुमाराक्खाण गद ॥

उज्जेणिहि दिहिंमग्गु महीवड

तणुरुहु चारु चदपज्जोयउ

एत्तहे दक्खिणदेसि रवण्णए

बम्हणु सोमसम्मु विक्खायउ

नदणु नियकुलभवणपईवउ

सो समत्थसत्थहँ पारगउ

अट्टारह लिवि देसीभासउ

पुहइ भमतु विसालहे आयउ

पिय महएवि तासु मलयावइ ।

नाएँ नियसतानुज्जोयउ ।

वेअायडपुरि सिरिसपुण्णए ।

पिय सोमिल्ल ताए सजायउ । १०

कुमइकयतु कालसदीवउ ।

तक्कच्छदवायरणपयासउ ।

परियाणइ सव्वउ सविसेसउ ।

गुरु दिहिसेणसुयहो संजायउ ।

तेण वि सो जाणाविउ भव्वई	अक्खरलिवायरणई कव्वई ।	१५
तक्कई तरलवाइविणिवारइ	निग्घंटई छ्वालंकारइ ।	
जोइसाई गणियई गंधव्वई	अवराई वि वघ्नाणई सव्वई ।	
जमणविसयभासक्खरलिवि तहो	केम वि नेइ परेक्क पढतहो ।	
एक्कहिं दिणि कुट्टेणुज्जाएँ	मुक्खु भणेवि पहउ सिरि पाएँ ।	
तासिएण गुरुपायपहारें	ता रोसेण पवुत्तु कुमारे ।	२०

घत्ता—महु देसइ महु होसइ रायलच्छि फुडु जइयहूँ ।
दडेसमि खंडेसमि दुट्टु कमो इमु तइयहूँ ॥१३॥

१४

दुवई—गुरुणा मुणेवि एउ भवियव्वु वियाणिवि निव्विबधण ।
भणिय तुज्ज रज्जे महु होसइ पायहो पट्टबधण ॥

एव भणेवि महागहसारहो	कइवय वरिसई रायकुमारहो ।	
सयलकलाकुसलत्तु करेप्पिणु	गपि सुधम्मु मुणिदु नमेप्पिणु ।	
दाहिणदेसि कालसदीवे	लइयउ तउ सन्नाणपईवे ।	५
रज्जे चदपज्जोउ थवेप्पिणु	दिहिसेणु वि निग्गथु हवेप्पिणु ।	
पव्वइयउ परमप्पउ जायउ	एत्तहे रज्जु करइ तज्जायउ ।	
एक्कहिं दियहे लेहु अणुराएँ	पेसिउ जवणजणतहो राएँ ।	
सो केणावि न वाइवि सक्किउ	ता निवेण सई लेवि वियक्किउ ।	
गुरु मभरिउ मुक्कनीसासे	भणिउ सजलनयणे दीणासे ।	१०
जइ गुणनिहि न पयत्तु करतउ	तो हउँ एह केम जाणतउ ।	
जइ न मुणतु एह तो होतउ	मुक्खभाउ महु लोउ भणतउ ।	

घत्ता—इय भासेवि सभूसिवि पेसिय मति गवेसहूँ ।
तेहिं वि वरे कंचीपुरे दिट्ठु साहु मधे सहूँ ॥१४॥

१५

दुवई—पय पणवेवि भणिउ भो भयव भुवणाणददाइणा ।
अम्हई तुम्ह पास संपेसिय ससिपज्जोयराइणा ॥

मुमरइ निच्चमेव मुणि मोक्खु व	मुमरइ विहलउ सपयसोक्खु व ।	
मुमरइ कोइलबालु वसतु व		
मुमरइ नीलकठु नवमेहु व	मुमरइ सखउ निरामयदेहु व ।	५
मुमरइ किकरु पहुसम्माणु व	मुमरइ धन्नु सुपत्तहो दाणु व ।	

सुमरइ विरहिउ पियससग्गु व सुमरइ चक्कु उयतु पयगु व ।
 सुमरइ ससहर छणदिणणत्तु व
 सुमरइ लोउ सधम्मु नरिदु व सुमरइ भवभयभीउ जिण्णिदु व ।

घन्ता—हंसु व सरु पहिउ व घरु विञ्जु करी व सया वि हु । १०
 पई गुणगुरु सुमरइ गुरु नउ वीसरइ कया वि हु ॥१५॥

१६

दुलई—एम भणेवि तेहिं तहिं होतु महामुणि दिव्वनाणिओ ।
 मन्नावेवि कालसंदीवुज्जेणीनयरमाणिओ ॥

निद्धणतणएण व बहुकसवरु तिसिएण व पहिएण महासरु ।
 सिद्धेण व सभाविउ सिवपुरु नरनाहेण पलोइउ नियगुरु ।
 परिअचिचि अचिचि सविहोएं थुणिवि मुण्णिदु च्चदपज्जोएँ । ५
 पणवेप्पिणु कयदोसावायहो विरइउ पट्टबधु तप्पायहो ।
 अच्छवि तत्थुवसामिवि जणवउ देवि गउरसदीवनिवहु तउ ।
 समउ तेण विहरतउ सतउ पट्टणु रायगेहु सपत्तउ ।
 तत्थ विउनगिरिसिहरि रवण्णउ सम्मइसमवसरणु अरवण्णउ ।
 विण्णि वि ते तहिं वदणहत्तिअ जति निच्च कयसोक्खुप्पत्तिअ । १०
 समवसरणवाहिरि उरविट्टउ एक्कहिं वासरि पालियनिट्टउ ।
 साहु गोरसदीउ णियच्छिउ वदिवि सेणियराएँ पुच्छिउ ।

घन्ता—कहि को गुरु अम्हहं गुरु दुद्धरु कयकम्मक्खउ ।

सगहियउ जयमहियउ जामु पामे परिदिक्खउ ॥१६॥

१७

दुवई—लज्जागारवण गहिएण पउन्नउ तेण रायहो ।
 जयसामियहो सीमु हउं देवहो वीरहो वीयरायहो ॥

गउ आयण्णिवि एउ नरेरु गुरुनिण्हवदोसेण मुणीसरु ।
 हासकामसकामरवण्णउ हुउ इगालधूममसिवण्णउ ।
 बइढमाणु जिणनाहु नमसिवि साहुसधु दुक्किउ विद्धंसिवि । ५
 सेणिउ सहुं सेण्णेण समायउ सियसदीवदेहु विच्छायउ ।
 पेच्छिवि विभियचित्तु नियत्तउ पुच्छइ गोत्तममुणि नयगतउ ।
 कि भयवत मेयसदीवहो दुक्कियकम्मंधारपईवहो ।
 हिमहरहारहसससिकायउ अलितमनिहु सरीरु संजायउ ।

भासिउ गोत्तमेण घणघोसे हुउ तमु तहो गुरुनिण्हवदोसे । १०
 एउ मुणेवि एवि मगहेसैं भणिउ सेयसदीउ विसेसे ।
 भयवं तुम्हए एसु न जुज्जइ ज गुरुदेवहो निण्हवु किज्जइ ।
 गुरुनिण्हवणहो अन्नू न दुक्किउ मई वि अससउ एउ वियक्किउ ।
 जइ पत्तियह न तो नियदेहहो पेच्छह नट्टु तेउ तवगेहहो ।

घत्ता—इय भासेवि सिक्खावेवि मुणि तप्पयपणयगउ । १५
 वहुजाणउ घर राणउ इयर वि गुरुपास गउ ॥१७॥

१८

दुवई—निदणगरहणाए काऊणाणुट्टियपायद्धित्तओ ।
 काले सुद्धु बुद्धु हुउ केवलि पयपाडियजयत्तओ ॥

॥ निण्हवणकहा समत्ता ॥

मगहामडले मयणसमाणउ रायगेहिपुरि पीणियदीणउ ।
 वीरसेणु नामेण पहाणउ अत्थि राउ भग्गारिपहाणउ ।
 पुत्तु पुण्णवतहो सुच्छायउ वीरसेणमहएविए जायउ । ५
 सुहगइ सीहु भणिज्जइ नामे सो सुदरु सलहिज्जइ कामे ।
 एक्कहिं वासरे विप्पडिवन्नहो रायहो उवरि सीहरहसन्नहो ।
 को सो कि न पई सई भासिवि गउ मागहनरवइ आरूसिवि ।
 दूसिउ जणवउ रिद्धिविसालउ रुद्धउ पुरु सुदरु सोहालउ ।
 किज्जइ निच्चभेव उवकालउ तो वि न पणमइ पोयणपालउ । १०
 कयकोट्टारोहेणच्छतं एक्कहिं दिवहे अराइकयते ।
 चित्तिउ बहुसहायसामत्थउ विसमु विइरि अन्नू वि दुग्गत्थिउ ।
 जाणइ नउ कइयहुं वसि होसइ केत्तिउ कालु एत्थ लग्गेसइ ।

घत्ता—एक्कु जे सुहु महु तणुरुहु सो अज्जु वि अपढतउ ।
 अच्छइ घरे हंसु व सरं पयणियसुगइपयत्तउ ॥१८॥ १५

१९

दुवई—सो नउ बप्पु माय सा वेवि विक्खइ त्ताइं निच्छउ ।
 जेहिं न बालभावे सुउ पाढिउ हक्केवि सक्किणुत्थउ ॥
 लालणु णाणादोसहुं कारणु ताडणु फुडु गुणोहहक्कारणु ।
 वरिसइ अट्टु जाम लालिज्जइ पुणरवि मत्त ताइं ताडिज्जइ ।
 मुणिवि वरिसु सोलहमउ संतउ मित्तु व दीसइ पुत्तु निरुत्तउ । ५

मुक्खु न अण्णउ पर परियाणइ
 रायउत्तु जो होइ निरक्खरु
 एउ विचिंतिवि लेहु लिहाविउ
 नेवि समण्णउ कयनवयारें
 तं वायहुं वायउ हक्कारिउ

हेयाहेउ न कि पि वियाणइ ।
 सो न कयाइ पयाहि सुहंकरु ।
 पट्टाणा नियनयरहो पट्टाविउ ।
 वीरसेणदेविहे लेहारें ।
 तेण वि उम्मुद्धिउ उच्चारिउ । १०

तद्यथा—स्वस्ति श्री पौदनपुराद्राजाधिराजपरमेश्वरश्रीवीरसेनो राजगृहावस्थिता श्रीवीरसेनां
 महादेशी मंत्रपुरोहितादीश्व परमादरेण कुशलीकृत्याज्ञापयति यथा महतादरेण सिंह-
 मंथापय^१ इति ।

सुणिवि एउ देविण्ण परिभाविउ
 बहुकाले विवक्खु वसि जायउ
 पुच्छिउ पडिउ सोहु सियसेविण्ण
 कि कारणु किउ लेहुवड्डउ

ता तणुरुहु पच्छन्नु थवाविउ ।
 पूरपइज्जु महीवइ आयउ । १५
 पडिओ आहासिउ महएविण्ण ।
 ता राएण लइवि सइ दिट्ठउ ।
 सिंहमध्यापय इति ।

घत्ता—इय पेच्छिवि परियच्छिवि कयकोवि विच्छाडिउ ।
 दुम्मेहउ सो वायउ^२ नरणाहे निद्धाडिउ ॥११॥

२०

दुवई—एवमिहावि पडइ सुयणाण जो वजणविवज्जिय ।
 सो संसारे भमइ दुहपीडिउ लहइ पय न पुज्जियं ॥

॥ एवं वंजणहीणवक्खाणं ॥

अवरु वि कोसलपुरि परमेसरु
 सो सदरसियआणाभगहो
 गउ धावेवि उवरि अरिंविदहो
 ल्हसिवि देसु सव्वु वि सुहवट्टणु
 जाणिवि कालखेउ मइवतहो
 लेहु लिहाविंवि गेहहो पेसिउ

होतउ चिरु वसुपालु नरेसरु ।
 सबलु सवाहणु कयरणरंगहो ।
 वीरदत्तनामहो बुहविदहो । ५
 थिउ वेढिवि उज्जेणीपट्टणु ।
 पठणनिमित्तु तेण नियपुत्तहो ।
 तत्थ वि कायत्थेणुभासिउ ।

तद्यथा—स्वस्त्युज्जयिन्याः प्रणताशेषसामन्तचक्रवाल-प्रपालितः मस्तेलातलो विपक्षपक्षबृक्षीधोन्मूल-
 नैकवायुबलो राजा धी वसुपालो विनीतावस्थिता वसुमती महादेवी मन्त्रिगणं च १०
 कुशलीकृत्याज्ञापयति । कार्यं च—महायत्नेन वसुमित्रकुमारोऽध्यापयितव्यः ३पाध्यायस्य
 च सालिभक्तं धृतं मंसि च दानव्यमिति ॥

१६. १ सिः मध्यापय । २ लेहुउ ।

इय जिह जिह वक्खाणिवि कहियउ
पुत्तु समप्पिउ जयवक्खायहो
गग्गहो भोयणकालि विसालए
सरलु विरलु धवलुज्जलु सालिहे

तिह तिह भूवइभज्जइँ विहियउ ।
पढइ पासि सो गग्गुवझायहो ।
सुट्टु सुयंघु सुवण्णहो थालए । १५
कूरु पवाहि सहँ घयनालिहे ।

घत्ता—परिसेप्पिणु पीसेप्पिणु खिप्पइ उवरि इंगालउ ।

जयपुज्जहो तहो अज्जहो जाउ जीउ असुहालउ ॥२०॥

२१

दुवई—भुजइ त पि करइ किर काइँ परव्वस्सु सुयणु पंडिओ ।

चित्तइ अबस एहु रायाण आयारो अखंडिओ ॥

जेणुज्झायहो गउरवु किज्जइ
इय परिभाविवि मोणेणच्छइ
काले रायकुमारु वि जायउ
एत्तहिँ वइरि वहेप्पिणु आएँ
भासिउ गग्गे कुसलु नरेसर
एत्तिउ पर अकुसलु गरुयारउ
केरिसु जं उज्झायहो खिप्पइ
भणइ राउ अम्हाण न एसो
कहि कहि केम एउ सजायउ
ताम नृवेण लेहु आणाविउ

निच्चमेव मसिभोयणु दिज्जइ ।
अणुदिणु सत्थुवएमु पयच्छइ । ५
सुंदरु सत्थन्नउ निम्मायउ ।
पुच्छिउ कुसलवत्त गुणराएँ ।
जं दिट्ठो सि अज्जु परमेसर ।
जं दुक्करु आयारु तुहारउ ।
आणिवि खीरोवरि मसि घिप्पइ ।
आयारो गुणिजणियकिलेसो । १०
पई सपेसिय लेहापायउ ।
सई हत्थेण लेवि परिभाविउ ।

आचार्यस्य शालिभक्तं घृतं च मसि च दातव्यमिति ।

कहियत्थेण राउ रोसाविउ

वायउ मसिभोयणु भुंजाविउ ।

घत्ता—दडेप्पिणु मुडेप्पिणु विल्लनिबंधु करेप्पिणु ।

रोहिवि खरि भामिवि पुरि घल्लिउ नीसारेप्पिणु ॥२१॥

२२

दुवई—साहू वि य पढंतु अत्थेणं हीणं एवमाइयं ।

इहभवि परभवम्मि परिपावइ दूसहुदुक्खसाइयं ॥

॥ एषं अत्थहीणक्खारणं गदं ॥

करिउरि परपत्थिवपोमाणु
परवसुपरवहुमंसमहुव्वउ

अत्थि नरिंदु पोमु पोमाणु ।
जिनमुणिपायपउम्ममहुव्वउ ।

रुवगुणाहिं मुणिहि वि मणभामिणि
एकहिं दिणि चउखधावारे
पोयणपुह ससरिवहरिणायहो
किउ कयकोट्टारोहें सो वसु
तत्थ समारिउ थंभसहासैं
सहसकूडनामेण जिणालउ
अहमवि हत्थिणपुरवरि एहउ
कारावमि इय चित्तिवि पउरहो

तद्यथा—स्वस्ति श्री पोदनपुरात् महाराजाधिराजपरमेश्वरः श्री पद्मनरेन्द्रो हस्तिनागपुरे समरत-
जनमाज्ञापयति यथा स्तंभ...हस्त्राणां बहूनां संग्रहः कर्तव्यश्चैत्यायतननिमित्तमिति
वाचयित्वा कथितम् ॥ १५

घत्ता—लद्धाणें ता थाणें पोढतरुणवयसाणं ।

बलनिग्गहु कउ सगहु बहुवोक्कडसहसाणं ॥२२॥

२३

दुवई—एत्तहें लद्धविजउ वीसंभरु विसमाहियहियावली ।

सपत्तो नरिदवूडामणि कुरनाहो महाबली ॥

उच्छवेण नियनयरे पइट्टउ
पहुदसणमणु विविहोवायणु
नद वट्ट जय जीय भणेप्पिणु
सरहसु सुहदिट्ठीए नियच्छिउ
देवहु कारणि दुक्कियनिग्गहु
ता तुरतु नयरेणाणाविउ
तं निएवि पुहईसरु रुट्टउ
भासिउ भीयहिं तेहिं नरेसर
सच्चउ दोसवतु सो लेहउ

गपि गेहु हरिवीदुवइट्टउ ।
गउ वद्धावउ सयलु महायणु ।
पुरउ निविट्टउ पय पणवेप्पिणु । ५
राएँ कयसम्माणे पुच्छिउ ।
विरइउ थंभसहासहें सगहु ।
वोक्कडविदु नरिदहो दाविउ ।
पभणिउ हणहु एहु जणु दट्टउ ।
एत्थु न अम्ह दोमु परमेशर । १०
वाइउ जेण थंभ' इदि एहउ ।

घत्ता—अकसाएँ ता राएँ हक्कारेवि दुज्जायउ ।

विच्छारिवि नीसारिवि घल्लिउ सो दुव्वायउ ॥२३॥

२४

दुवई—एउ वियाणिऊण सुयणाणं वजणअत्थहीणयं ।

न पढिज्जइ मणा वि ससयसयणिण्णासणपवाणयं ॥

॥ एवं वंजएत्थहीणक्खाणं गदं ॥

सिरि सोरट्टुदेसि गिरिनयरऽ	पट्टणि धम्मसेणु पडु नयरऽ ।	
धम्मसेण तहो देवि मणोहर	नं सइ सक्कहो पीणपओहर ।	
सुहमइ सब्बसत्थपारगउ	उग्गदित्ततवतावकिसगउ ।	५
दुद्धरपचमहव्वयधारउ	कामकोहभयमोहवियारउ ।	
तत्थेव य धरसेणु महामुणि	अत्थि तिलोयवदु नवघणझुणि ।	
सीसहो वि सत्थत्थु कहते	चदगुहोयरम्मि निवसते ।	
एक्कहिं दिणि निसि पच्छिमजामऽ	सुइणु पलोइउ तेणहिरामऽ ।	
पढमवयस वे वसह सदक्खिण	धवलवण्ण दाऊण तिपक्खिण ।	१०
वयणु निएयमाण मणहिट्टिय	पय पणवेप्पिणु पुरउ परिट्टिय ।	
ना दक्खिणदेसाउ समाया	वेन्नि साहु तहिं जयविक्खाया ।	

धत्ता—भूयवली भूयवली कयकामो मइवंतउ ।

मुविणीयउ तह वीयउ पुप्फयतु मनचत्तउ ॥२८॥

२५

दुवई—परियचेवि तेहिं पणवेवि पउत्तउ पउरविज्जओ ।

सामिय वायणाऽ सिद्धतहो अम्ह पसाउ किज्जओ ॥

आयणोप्पिणु एउ मुणिदे	ते पडिगाहिय भुवणाणदे ।	
बुद्धिपरिक्खाहेउ रवण्णउ	मुहदिणि वे विज्जाउ विडण्णउ ।	
एक्कहो एक्कमणहो हीणक्खरु	अन्नहो दिनु मत्तु अहियक्खरु ।	५
ता एयति वे वि उववासिय	मठिय ते विज्जबभासासिय ।	
एवके दिट्ठ देवि एक्कक्खिय	अवरे उदतुरिय निरिक्खिय ।	
चित्तिउ देवसहाउ न एहउ	मतदोसु इमु नीसदेहउ ।	
एउ वियप्पिवि जोइयछ्छदिहिं	हीणाहियउ तेहिं नित्तंदिहिं ।	
साहिवि मतजाउ आढत्तउ	दिट्ठउ देविउ सोहणगतउ ।	१०
गपि गणेसहो पाय नमसिय	सब्ब वत्त जह्वित्त पयासिय ।	
तेण वि मइपयासु तहु केरउ	पेक्खिवि जणमणजणियच्छेरउ ।	
कयसिद्धतहो अत्थपउजण	जाया ते पवीण विन्नि वि जण ।	
सम्मत्तम्मि तम्मि आवेप्पिणु	पुज्जिय देवहिं ते पणवेप्पिणु ।	

सुहसत्थत्थलाहपरिओसिय
एवमिहावि पढइ जो नाण

सूरि नमसिवि दक्खिणु पवसिय । १५
सो पावइ सव्वुभइठाण ।

घत्ता—नाइंदहिं खयरिदहिं मणुसिदहिं देविदहिं ।

पणविज्जइ पुज्जिज्जइ सो सया वि सिरिचंदहिं ॥

बिबहरसविसाले गेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले यत्थसदोहसाले ॥

भुवणबिदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुन्दरे दिव्वतोसे ॥

मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसजुत्ते ।

सुयविणयाइगुणाणं पयासणो छट्टुओ सधी ॥

॥ एव ज्ञानाचारः समाप्त ॥

॥ सधि ६ ॥

संधि ७

१

भगिणीए वि विहम्मिज्जतीए एयत्तभावणाइ जथा ।
जिणकप्पिओ न मूढो खवगो वि न मुज्झदि तधेव ॥

भगिणीए भगिन्या विहम्मिज्जमाणाए चौरैः परिवृह्यमाणायाम् एकान्तभावनया नागदत्तः
प्राप्तो मनागपि मोहं न गत । तथैव तथा चैव क्षपको ऽपि सल्लेखनाकाले मोहं न गच्छति न
मुह्यतीत्यर्थः । अत्राख्यानम् । ५

धुवय—इय नाणाचारहो दोसगुण कहीयायण्ह नउ रहमि ।
एयत्तभावणा एयमण जं किय ज फलु त कहमि ॥

वस्तु—अत्थि पट्टणु नाम उज्जेणि

खणि धम्ममहामणिहि सुयणलोयसत्थाहँ वल्लहु ।

पयपालु नरिदु तहिँ करइ रज्जु परजुवइदुल्लहु ॥

१०

चाएँ भोएँ विक्कमेण रूवें जणजणिएण ।

धम्मे समु तहो सो जिज पर बहुणा कि भणिएण ॥

पियधम्म तासु नामेण जाय
पियधम्मु एककु पियधम्मनामु
जें रूवे निज्जिउ पंचवाणु
एकहिँ दिणे तत्थायउ मुणिदु
तहो पासि धम्मु सोऊण वे वि
तउ करिवि सग्गु दुहजलणवाणि
दोहि मि अणुहुँजियसुहसयाउ
जेट्ठेण पउत्तु कणिट्ठु भाइ
नरलोउ भोउ न मुयइ कयाउ
तो सग्गत्येण कयायरेण
दोहिँ मि सुरेहिँ पडिवन्नु एउ
कालेण एत्थु लहु भाउ आउ

सुदरिहि ताहि बे पुत्त जाय ।
वीयउ पियसम्मु गुणोहठाणु ।
नियबुद्धिप्र गुरुहु वि मलिउ माणु । १५
दमवरु नामेण तिलोयवंदु ।
निव्विण्ण हूय रिसिदिक्ख लेवि ।
गय पचमु पचसरतकारि ।
बहुवरिसलक्ख उव्वरिउ आउ ।
पढम जो अम्महँ मज्जे जाइ । २०
जइ न हवइ जिणधम्माणुराइ ।
सो सबोहेवउ भायरेण ।
अह मुणि मुयति कि धम्महेउ ।
थिरु नत्थि एत्थु देवहँ वि आउ ।

धत्ता—अहिधम्म अत्थि नयवतु निवु उज्जेणिम्मि महानयरि ।

२५

सो नायदत्तु हुउ तासु सुउ नायदत्तदेविहि उयरि ॥ १ ॥

२

वस्तु—अवर सुदरि ताहि उप्पन्न

सुय नामें नायसिरि वच्छदेसि कोसवि पुरवरे ।

जिणदत्तु नराहिवइ अत्थि अत्थि अत्थिअ मणोहरे ॥

परिणोपिणु जिणधम्मरइ मो तहें वल्लहु जाउ ।

जोग्गु करग्गहु जोइ करि हूउ सयणाहिं अणराउ ॥

५

अहियत्तु सव्वविन्नाणपारु

धम्मोवरि मणु न करइ कया वि

वहुततईं मतईं गारुडाईं

एत्तहि पियधम्मे पउरलोइ

जइ तो महु जायअ पुण्णवधु

ता ओहिअ वइयरु सव्वु नाउ

हा अज्ज वि न हवइ बीयराउ

कि बहुणा कयजरमरणजम्मु

इय चित्तिवि तहो सवोहणत्थु

नवघणगवलजणवण्णविबु

पुरमज्जि पइट्ठु भमनु एउ

भो अहिखेलावउ जो सहोडु

खेलावहुं सप्प निएवि सत्ति

पत्तउ नवजोव्वणु नाईं मारु ।

सिक्खइ अब्भासइ सो सया वि ।

वड्ढावइ भूयईं पेरुडाईं ।

चित्तइ कहियहुं निव्वाहु होइ ।

नइ करमि सच्चु आयहो निवधु । १०

हा अज्ज वि भाइ अधम्मभाउ ।

हा अज्ज वि अब्बावारराउ ।

वलवतउ सयलहें होइ कम्मु ।

तत्थाउ सप्पपेटाग्गत्थु ।

ग्गत्तच्छु भीमु होएवि डोंबु । १५

आहिइइ मायाडोवु देउ ।

एत्थत्थि एअ सो करहुं कोडु ।

अन्नोत्तु पयामहुं जणि सकित्ति ।

घत्ता—अहिदत्ते आयण्णवि इउ भणिउ पाणु रे भीममुह ।

खेलावमि हउं विमि विसमय पूग्गिपूरमि कोडुइ तुह ॥२॥

२०

३

वस्तु—भणइ अतजु रायपुत्तेहिं

वीहामि तुम्हेंहिं सहु सप्पकील सुदर करतउ ।

जइ कहव पमाउ तुह होइ मरणु तो महु निरत्तउ ॥

तो निवपुत्ते धीरियउ दूरुज्झहि भयभाउ ।

मुअ फणि अन्नोत्तु जि दुइ वि बुज्झहुं मतपहाउ ॥

५

करेप्पिणु सव्वसहा नूवु सक्ख

णरिदमुएण वि सां विविहेहिं

पउत्तु पुणो वि अरे अहि डोंब

पमोक्कु तिणेक्कु तओ मरुभक्खि ।

पसाधिउ भेयहिं दिन्नसुहेहिं ।

पमेल्लहि वीउ जमंजणविबि ।

सुणेपिणु एउ पयंपइ पाणु
 भ्रगम्मु महोसहिमतहिं दुट्टु
 हसेविणु जंपइ ता जुवराउ
 महं महमतसुमडलमुद्द
 तुरंतु तिणा तउ सप्पु विमुक्कु
 समग्गु वि लंघिवि तेण विहाणु
 विसे निविसेण वि विग्गहु चिचु
 नियच्छिवि त भयभतमणेण
 निवेण तधो सहसा सपइज्ज
 पउत्त पयत्तपरेण करेहु

इमो फणि दिट्ठिविसो हियपाणु ।
 इमस्म विराउ वि संकइ सुट्टु । १०
 करेसइ काइँ किरेहु वराउ ।
 विहाणपरस्स सुमुच रउद्द ।
 कयंतु व भूवइपुत्तहो दुक्कु ।
 निवंगउ खद्धु गुणोहनिहाणु ।
 निवण्णु धरायलि रुक्खु व छिन्नु । १५
 विमुक्कउ धाहउ वंधुजणेण ।
 अणेय पवीण अणाविवि वेज्ज ।
 विसक्खउ पुत्तहो जीविउ देहु ।

घत्ता—ता तेहिं वियाणिवि लक्खणहिं कहिउ निवहो सोयाउरहो ।

एहु कालदट्टु देवा वि नउ जीवावहिं गउ जमपुरहो ॥३॥

२०

४

वस्तु—मुणिवि राएँ एउ मायगु

मिल्लतेणंसुइँ गगिराए सगिराए वुत्तउ ।

जीवावहि पुत्तु तुहँ देमि अद्ध रज्जहो निरुत्तउ ॥

भासिउ चंडालेण पहु अरिय एक्कु महु मंतु ।

तासु पहावे सुदरहो सजीवइ तुह पुत्तु ॥

५

एसो मइँ मज्जायाए लद्धु
 तेणेह महीस मणोहेरण
 सो जइ निग्गथु हवेवि चारु
 तो जीवावेज्जसु भणिवि एउ
 जइ एउ समिच्छइ नदणेसु
 राएण पउत्तउ एव होउ
 डोंबेण फुराविय निययसत्ति
 संतुट्टु सव्व थूइ विहिय तासु
 ता जीवियव्वविहि वज्जरेवि
 सुउ धम्मु सुणाविवि राणएण
 एत्थंतरि देवें पुव्ववित्तु
 कालेण वियाणिवि गुणविसेसु

जो जीवाविज्जइ सप्पखद्धु ।
 दूरहो ओसारियगरभरेण ।
 जिणदिक्ख लेइ उज्झियवियारु ।
 दिन्नउ गुरुणा महु मनु देउ ।
 तो वाहमि मंतु विसोहणेसु । १०
 छुडु जीवउ पुत्तु पलाउ सोउ ।
 उट्टाविउ निव्वनदणु भुद्धत्ति ।
 एवद्धु भुवणि माहप्पु कासु ।
 दमवरमुणिपायसमीवि नेवि ।
 लेवाविउ तउ सुवियाणएण । १५
 सबंधु जणाविउ रायउत्तु ।
 हुउ सो जिणकप्पिउ सुद्धलेसु ।

कीदशाः किल जिनकल्पिनो भवन्तीति कथ्यते—

जिदरागदोसमोहा उवसग्गपरीसहारिवेगसहा ।

विहरति जिणा इव ते तेण ह्नु जिणकप्पिया होंति ॥

२०

घत्ता—तं निएवि निवाइबहुउ जणु संजायउ जिणधम्मरउ ।

देवो वि ह्वेवि कयत्थमणु मुणि पणवेप्पिणु सग्गु गउ ॥४॥

५

वस्तु—गलिए कालए निएवि तित्याइँ

पुन्वाउ आबंतु मुणि नायदत्तु तवगुणवरिट्टउ ।

पच्चतचरेण वणि सूरदत्तराएण दिट्टउ ॥

भासिउ तहो पुरिसेहिँ पहु एतहि बद्धउ पयु ।

अम्हईँ निवपल्लीहे इह कहिँ आयउ निग्गंयु ॥

५

एत्थेव धरिज्जए एहु ताम

नं तो अक्खेसइ गं पि वत्त

मा धरहु जंतु न करति चित

ता तेहिँ विसज्जिउ मुणिपहाणु

सुय लेवि एंति कोसवि माय

दट्ठूण सपुत्तिए तीए पुत्तु

भयवंत एत्थ कि अत्थि नत्थि

साहू वि समुज्झियरायदोसु

इय पुच्छिंवि पुरउ चलंति जाम

असरालहिँ सरजालहिँ वणत

बहु तक्कर काईं करति वीर

भयकंपिरु कायरजणु पलाणु

बधेवि ताउ दोन्नि वि जणीउ

आगच्छइ पत्थिवपल्लि जाम ।

तं सुणिवि भिल्लपहुणा पउत्त ।

ए कामु वि अरिसुहिसरिसच्चित्त ।

जामग्गइ गच्छइ गुणनिहाणु ।

तामतरि मिलय सबलसहाय ।

मुणि नायदत्तु नविऊण वुत्तु ।

भउ कहमु सक्किव भवभयपमत्थि ।

थिउ तुण्हक्कउ सुविसुद्धेलेसु ।

चउदिसहिँ समुट्ठिय चोर ताम ।

लइ मारि मारि हणु हणु भणंत ।

मुय सामिकज्जि जुज्जेवि धीर ।

लइयउ धणु तेणहिँ अप्पमाणु ।

नीयउ नियपल्लिहिँ दुम्पणीउ ।

१०

१५

घत्ता—रविदत्तेँ रत्ति सहाभवणे संठिएण सुहडासएण ।

सुहगोट्टिए अच्छंतेण तहिँ भणिय भिच्च तुट्ठासएण ॥५॥

२०

६

वस्तु—सो धरिज्जइ मा ह्नु तुम्हेहिँ

इय भासिउ सव्वहिँ वि पहु निरुद्धु पुहईंसपल्लिहे ।

अम्हेहिँ जाएवि इमु फुडु निसेहु काही इहंतिहे ॥

पेच्छह त न जणावियउ अरिसुहिसमचित्तेण ।

अह निग्गंधमहामुणिहिं काइं लोयचित्तेण ॥

५

त सुणिवि कोवगिजालापलित्ताए
दे देहि मे खग्ग धूया किमुत्तेण
ता पुच्छिया सूरदत्तेण हे माए
कहियं रुयतीए उत्तो तथा चारु
निरु निट्टुरो निट्टुओ निक्किवो पाउ
गुणु कवणु तहो तणउ भणु जणिणउदेउ
ता धोरिया सूरदत्तेण दुक्खस्स
जा जणणि जइवरहो तहो चत्तमोहस्स
सा महू वि तुहं जणणि डय भणिवि अप्पेवि
कोसबि सपेसिया सिसुमयच्छीए
तेणावि गतूण सवेयचित्तेण
बहुरायउत्तेहिं सह समियकम्मेण

वुत्तो निरिक्काहिवो नायदताए
फाडेमि पोट्टु इम दुज्जण जेण ।
कि कारण कहसु भुवणम्मि विक्खाए
जो नग्गसवणो समुद्धूयउवयाह ।
सो मज्झ उयरम्मि एयम्मि सजाउ । १०
फाडेमि घल्लेमि खलु पोट्टु तेणेउ ।
दे पाणिय अत्र हयदेहरुक्खस्स ।
तेलोक्कवदस्य कम्मारिजोहस्स
वसु सव्वु पणवेवि पाइक्क बहु देवि ।
सहिया सधूयाए सा नायलच्छीए । १५
मुणिनायदत्तस्म पास तुरतेण ।
वउ लइउ निम्मुक्कससारसम्मेण ।

घना—कालेण करेप्पिणु कम्मखउ मुरनरिदनाइदयुउ ।

अजरामरु नायधम्मतणउ समउ सूरदत्तेण हुउ ॥६॥

७

वस्तु- -मायवहिणि वि बेवि चोरेहिं

घेप्पतउ निएवि वणे परमबुद्धि अच्चतपावणु ।

जहू मोहू नेव गउ नायदत्तु एयत्तभावणु ॥

तहू खवणेण वि परमपउ ईहनेण मणावि ।

मोहवस मूल दुहहो गतव्व न कयावि ॥

५

॥ एवं एगत्तभावणा-अक्खाण गद ॥

त वत्थु मोत्तव्व ज पदि उप्पज्जए कसायग्गी ।

त वत्थु अल्लिएज्जो जत्थोवसमो हवे तेसि ॥ [भ० आ० २६७]

तं वत्थुं तद्वस्तु पूर्वोक्त परिग्रहादि मोत्तव्वं परिहर्तव्यं ज पदि यदाश्रित्य उत्पद्यते कषायान्नि ।
अभिरिवाभिरत्यन्तदहनात्मकत्वात् । तत् सम्यक्त्वज्ञानधारित्रतपोमार्गवादि अल्लिएज्जो आश्रितव्यः
जत्थ यत्रोपशमो भवति तेसि श्रोधादिकषायानाम् । अत्राख्यानम् । तद् यथा— १०

एत्थत्थि पुव्वमालवे पसिद्धु
नामेण मणोहरु पवरकच्छु
तहिं दूरोसारियवइरिसेणु

पुरु तलिया रट्टुविसए समिद्धु ।
वरकामिणिवयणु व दीहरच्छु ।
नयवतु नरेसरु सूरसेणु

महएवि तामु सइ सूरसेण
गब्भेसरु जणमणजणियहिट्ठि
तहो कत सूरदत्ताहिहाण
पढिमिल्लु नियन्नयगयणमित्तु
बीयउ सुहिसज्जणकुमुयचंदु
तइया मित्तमइ मणोज्ज पुत्ति
वणिवइहे हूउ कालेण कालु

रइ रभ नाई रामामिसेण ।
मुइ सूरदत्तु पुहईससेट्ठि । १५
हुय पुत्त विन्नि तहे गुणनिहाण ।
नामेण पसिद्धउ सूरमित्तु ।
अन्नाणमलुज्जिउ सूरचदु ।
सजाय ताए न मयणजुत्ति ।
गउ तेण समउ जिम वमु विसालु । २०

घत्ता—पेक्खेविणु घरे दालिदुदुहु दोन्नि वि भायर नीसरिय ।

अत्थत्थिय हिडिवि सयल महि सिघलदीवु पईसरिय ॥७॥

८

वस्तु—तत्थ पत्तउ सयलमहिमोल्लु

कह कह व महारयणु सूरबिबसमतेयवतउ ।

त लेवि पहिदुमण चलिय मपुरु बहुगुणनिउत्तउ ॥

एत सत एक्केक्कु दिणु वणं परिवाडिण भाइ ।

एक्कु निहालग्र तं रयणु एक्कु वि भिक्खहे जाड ॥ ५

हत्थम्मि हवइ त जामु जामु
जइ जेट्टहो करे त चडइ पाउ
लहुओ वि मुणइ मारेवि जेट्टु
अवरोप्परु पुणु सयमेव बे वि
इय हत्था हत्थिय समप्पमाण
दियहेहिं पत्त नयरहो समीउ
वीसामु करेप्पिणु सूरमित्तु
महु कज्जु न एण मणोज्जवाय
पुच्छिउ रविचंदे कयविवेउ
कि कारणु सयलु वि मज्जु देहि

दुम्मइ परिवड्ढइ तामु तामु ।
तो तहो लहुमारणि हुवइ भाउ
मणि लेमि एउ एक्कु जि वरिट्टु ।
हा इउ अकज्जु अच्छउ भणेवि । १०
अन्नोन्न विघाउ वियप्पमाण ।
वेत्तवडतीरि कुलहरपईउ ।
भासइ विहसेवि विसन्नचित्तु ।
लइ तुहें जि एउ माणिककु भाइ ।
तुम्हहें मह पि सामन्न एउ ।
[त मज्जु] परमबधव कहेहि । १५

घत्ता—ता कहिउ तेण तहो एउ महु जामच्छइ करम्मि रयणु ।

एक्कु जि गिण्हमि हणमि पईं होइ एउ ता निच्च मणु ॥८॥

९

वस्तु—जाउ मसाणहो वत्थु त सब्बु

ज बंधुविओयकरु काईं तेण सुदर सुवण्णेण ।

जं तोडइ कण्ण दुहकारणेण भणु तहिं किमन्नेण ॥

पाविज्जइ मणि धम्मु धणु अवरु वि ज ज चारु ।

एक्कु न लब्भइ भाइ निउ जइ गम्मइ परपारु ॥

५

भासइ कणिट्ठ उज्झयविसुद्धि
कि बहुणा एण न कि पि कज्जु
इय मतिऊण दुम्मइनिमित्तु
मच्छेण निर्एप्पणु निवटमाणु
तहिं होत सहोयर घरहो आय
ता ताण निमित्ते न किउ खेउ
एत्तहं त मारणकयधिएण
बहुमोल्लु वियाणंवि गरुउ मीण
परिनुट्टु पोडु पाठीणु लेवि

मज्झु वि उप्पज्जइ एह बुद्धि ।
लइ आयहो पावहो पडउ वज्जु ।
दोहिं मि वेत्तवइदहम्मि खित्तु ।
सो गिलिउ ज्जत्ति पलदलसमाणु ।
आलयवि पुत्त पहिट्टु माय ।
गय हट्टहो मीणाणयणहेउ ।
सो बद्धु मच्छु मच्छधिएण ।
गउ विक्कहुं पुरु पयगइपवीणु ।
गय सूरदत्त तहो मोल्लु देवि ।

१०

घत्ता—गपिणु मदिरु गयमदगइ जाम वियारइ रोहि सइ ।

१५

ता जलजलतु उडयक्कनिहुं रयणु निहालइ साहु सइ ॥९॥

१०

वस्तु—त निर्एप्पणु जाउ दुब्भाउ

मचित्तइ देवि विसु दारयाई विण्ण वि वहेप्पणु ।

एक्कल्लिय लेवि हउं मुहुं कयत्थ अच्छमि हवेप्पिण ॥

पुणु वि पडीवउ चित्तियउ हा हा एउ अजुत्तु ।

ज अत्थत्थे मुहि सयणु मारिज्जइ पिउ पुत्त ॥

५

बहुदिर्णाह कहव पुणोहिं रम्मु
एयहो निमित्त कयविणयजुत्ति
इय चित्तिऊण मुदरमुहाहं
जीवउ मुहेण एया आणंण
दुहियाए वि चित्तिउ त लहेवि
एक्कल्लियाहे जे मज्झु एउ
सयमेव समुज्झउ पुणु वि ताए
भुजावि वि पहसमसमियगत्त
करकमलहिं लालिवि सुदरीए
कहिं गय कहिं अच्छिय कि विठत्तु

आयहं कह हम्मइ तणुयजुम्मु ।
हा हम्मइ केमं मणोज्ज पुत्ति ।
त रयणु समप्पिउ तणुरुहाहे ।
जीवेसमि तणयाणियधणेण ।
एयाई विणासमि गरलु देवि ।
पावइ माणिककु महत्तेउ ।
तं अप्पिउ मायहं कयदयाए ।
वीसमिय सयणि निसिसमए पुत्त ।
आउच्छिय विन्नि वि मायरीए ।
ता कहइ नवेप्पिणु सूरदत्त ।

१०

१५

६ १ उयक्कनिहु । २ सउ

१० १ सह । २ केण ।

सुणि माए अणोयालाववेसु
सिघलदीवहो कह कह व एक्कु
तहो तणउ सहाउ अउत्तु कोइ
त इंतहिं कारणु दुम्मईहे

महि परिभमत देसेण वेसु ।
सपत्तु तत्थ माणिककु एक्कु ।
जमु हत्थि वडरि सोवरहो होइ ।
जलि अज्जम्हहिं घल्लिउ नईहे ।

घत्ता—ता ताए सपुत्तिए पुत्तयहें कहिउ रयणु परिणामु भउ । २०
निव्विन्नहिं सव्वहिं तं मुएवि लइउ तेहिं अरहंतवउ ॥१०॥

११

वस्तु—सेट्टिपुत्तहिं तेहिं मोत्तूण

जह वत्थु कसायकरु अप्पकज्जु किउ वउ वरिट्टउ ।
तह चेव तवट्टिण्ण चयवि सत्तु पयणियअणिट्टउ ॥
वज्झपरिग्गहु परमगइगमणमणेण मणोज्जु ।
दुप्परिणामहो परिहरणु होइ सया करणिज्जु ॥

५

॥ एव सल्लेहणाकहाणय कहिदं ॥

गुणपरिणामादीहिं य वेज्जावच्चुज्जुदो समज्जेदि ।

तित्थयरनामगोत्त तिह्वयणसंखोहण पुण्ण ॥ [भ० आ० ३३३]

गुणपरिणामादीहिं य एवं भणिते दर्शनविशुद्धधादि-तीर्थंकरस्वकाग्णानि षोडश परिणामो
गुणपरिणामः स आदि येषां परिणामानां गुणपरिणामादयस्तैः समज्जेवि उपार्जयति ।
तीर्थंकरनामगोत्रम् । नाम च गोत्रं च नामगोत्रम् द्वद्वैव वद्भाव तीर्थंकरस्य नामगोत्रम् । तत्को.सौ १०
समर्जयति ? वेज्जावच्चुज्जुदो वैयाद्व्योद्यतः । तिह्वयणसंखोहणं त्रैलोक्यसंक्षोभणकरं पुण्यं पुण्य
धर्ममिति । अत्राख्यानम् ।

सोरट्टरट्टे निट्टिवियदुट्टु
होंतउ सुहि सहुँ भाएँ बलेण
सो खयरामरनरनमियपाउ
गउ समवसरणु धम्माणुराउ
नमिऊण मणुयकोट्टुए बइट्टु
आयण्णउ धम्मु जिणोवइट्टु
निरु खीणु नियच्छिवि भुवणपुज्जु
किं रोउ एहु कि वयविसेसु
तणुचिण्हु निहालिवि भणइ वेज्जु

वारमइ नयरि नरनाहु विट्टु ।
भरहद्धु जेण साहिउ बलेण ।
एक्कहिं दिणम्मि परिमियसहाउ । १५
तहिं निएवि नेमिजिणु वीयरउ ।
दूरीकयदुग्गइदुक्खनिट्टु ।
तहिं सुव्वउ तेण मुणिदु दिट्टु ।
परिपुच्छिउ हरिणा जीवु वेज्जु ।
हुउ जइ जेणट्टितयावसेसु । २०
पहु वाहि एहु हयदेहविज्जु ।

घत्ता—ता सच्चहामनाहे भिसउ भणिउ भणसु भेसहु पवरु ।

तेण वि सत्थत्थु समत्थियउ उवएसिउ ओसहनियरु ॥११॥

१२

वस्तु—ता सुमोयय मयणवप्पेण

कारावेवि घरि घरि ठविय पउरमत्थविदहो ।

ते लेंतहु रोयखउ दियहि दियहि जायउ मुणिदहो ॥

वेज्जावच्चे तेण तहिँ रप्पिणिपिण्ण मणोज्जु ।

नामु गोत्तु तित्थयरहो आवज्जिउ जयपुज्जु ॥

५

कइवयदिणहिँ पुणु वासुएउ
 पुच्छिउ मुणि पेच्छिवि पुट्टगत्तु
 तेण वि न कि पि समसुहदुहेण
 मुणि नियवि निरुत्तरु जायखेउ
 जइ तो कि जाणहँ देतु राउ
 मरिऊण वेज्जु विझाडईहे
 तावेत्तहे सममाणावमाणु
 तत्थाउ सतु तरुत्तलि निसभु
 अच्छतु सजूहँ सहियनिट्ठु
 जइ जोइऊण जाईसरेण
 भो दूरीकयभवभवणताउ

गउ समवसरणु थुउ नेमिदेउ ।
 भयवंत जाउ वउवाहिचत्तु ।
 भासिउ भूमिवइहि निरु बुहेण ।
 भउ भल्लउ एउ भणंतु एउ ।
 इय सुइरु करेप्पिणु अट्टभाउ ।
 हुउ मक्कडु तडि रेवानईहे ।
 पुब्बिलमुणी महि विहरमाणु ।
 पलियकि पडियसाहाए भिन्नु ।
 वणि हिडतेण वि तेण दिट्ठु ।
 चित्तिउ कइणा विभयपरेण ।
 पेच्छह रिसीण नीसगभाउ ।

१०

१५

घता—जे ससरीरे वि करहिँ नउ मोहु महामइ जयमहिय ।

ते होति केम अम्हारिसहँ नेहाउरमण मलरहिय ॥१२॥

१३

वस्तु—एउ चित्तिवि पुव्वभववेरु

परिहरेवि पसघ्नमणु हुन अईव साहामिएसरु ।

विरएप्पिणु करमउलि नविउ तेण सीसे रिसीसरु ॥

करेवि पयत्तु पयंगमेहिँ बंधवि वेल्लिगुणेहिँ ।

सा तरुसाहहे उवरिमहे कडिडय सब्वजणेहिँ ॥

५

पुणो महोसह वणे
 करेवि उत्तचुण्णय
 मुणी ण वेयण गअो
 पबोहिऊण सावअो
 तुहाउसंतु^१ पत्तय

समाणिऊण तक्खणे ।
 वियक्खणेण दिण्णयं ।
 हुअो तिणा पवगअो ।
 कअो विसुद्धभावअो ।
 वियाणिऊण वुत्तयं ।

१०

कई वि सव्वचायए	धिओ सुहोहदायए ।	
पहिल्लसग्गवासए	विमाणए पहासए ।	
मरेवि मुद्धभावणो	हुओ मुरो सुहावणो ।	
तिलोयलोयमगल	मुणो वि पत्तु केवलं ।	
अमेयतेयभासुरा	ममागया मुरासुरा ।	१५
म घाइबधणच्छुओ	भरेण तेहिं सधुओ ।	
पपुच्छिओ य केवली	पयामिया भवावली ।	
चराचर समग्गय	ययत्थसजुय जय ।	
मुणेवि ते पहिट्टया	नवेवि त घर गया ।	
वियाणिऊण सभव	चिरतणं तहा नव ।	२०
तओ स वाणरामरो	चलतचारुचामरो ।	
महाविभूडराइओ	समागओ णुराइओ ।	

चन्ता—पुज्जेवि पससेवि परमगुरु मव्वेहु पसाउ तवेहु पहु ।

इय भणिवि नमसिवि चन्ततणु पुज्जप्पिणु गउ गयणपहु ॥१३॥

१४

वन्तु—विरएवि रएवि वासुएवेण

जह वेज्जावच्चगुणु दुक्खलक्खमदोहनासणु ।

आवज्जिउ तित्थयरनामगोत्तु सिवमुहपयासणु ॥

अवर वि वेज्जावच्चकर नर त तिह पावति ।

विज्जावच्च समत्तियुए किज्जइ तेण न भति ॥

५

॥ वैयावत्याख्यानकम् ॥

मुयणो वि हव लहुओ दुज्जणमम्मेलणाय दोसेण ।

माला वि मोल्ललहुई होदि हु मडयस्स समिट्ठा ॥ भ० आ० ३५० ॥

मुयणो वि मुजनो ऽपि माधुरपि हवे भवेत् लहुओ लघु सामान्य इत्यर्थ । केन ? दुर्जनमसर्ग-
राषेण । यथा माला मूल्यगुर्वी सती भूत्वा पश्चान्मृतकस्य मसृष्टा मृतकालिङ्गिता अथवा मृतकस्य
मिलिता स्पृष्टा लघुर्भवति मूल्यहीना भवतीत्यर्थ । एत्थ मालक्खाण । तं जहा— १०

पुरु टक्कविसए नयणाहिरामु

अन्थीह पयडु बलदेवनामु ।

बलभददु राउ धणदत्तु मेट्ठि

धणदत्ता वल्लह अत्थदिट्ठि ।

धणवइ नामेण मणोहिराम

नहो नणिय पुत्ति जणजणियकाम ।

तहिं पुण्णभट्टवणिनामएण

मा पुण्णचदपुत्तहो कएण ।

१४ १ लुहुओ । २ नयणेहि ।

घणदत्तु पमग्गिउ गपि गेहु
बहु अत्थु लेवि सुय दिन्न तामु
सा तम्मि वेय दिवहम्मि रत्ति
ता चित्तिउ घणदत्तेण एउ
किं बहुणा खलु सजणियताउ
इय भणिवि सुवण्णे तेण माल
उवसोह करेप्पिणु ताए बाल
ता भणिउ पुण्णभद्देण सव्व
भासिउ घणदत्ते त समग्गु

तेणावि समीहिउ घणु न नेहु । १५
विरइउ विवाहु सुहिमुहपयामु ।
सपत्त मरेवि कयत्तयत्ति ।
बलि किज्जउ दव्वकिलेसु लेउ ।
एयाए समेउ जि एउ जाउ ।
काराविवि रम्म महाविसाल । २०
नीसारिय सुहिरोवणवमाल ।
कुडि एह डहह महु देहि दव्वु ।
घणु पुत्तिहे उवसोहाए लग्गु ।

घत्ता—नउ अत्थि कि पि अवरुव्वरिउ अच्चइ एह पसाउ करि ।

जइ भावइ जो लइ माल तुहँ जा हँ देहेमा मडहु^१ घरि ॥१४॥ २५

१५

वस्तु—वुत्तु अप्पहि पुण्णभद्देण

घणदत्ते तं पि किउ कहिउ तेण वणिउत्ततडयहो ।
विक्कती को वि तहिँ लेइ नेव सा भणंवि मडयहो ॥
हुय सवसगवमेण जणि जिह माला अमणोज्ज ।
दुज्जणमसग्गेण तिह मुयण वि होति अप्पुज्ज ॥ ५

उक्त च—अपवादो भवेद् येन येन चाप्रत्ययो भवेत् ।

नरक गम्यते येन न तत्कर्म समाचरेत् ॥

॥ लघुत्वाख्यानकम् ॥

दुज्जणससग्गीए सकिज्जदि सजदो वि दोसम्मि ।

पाणागारे दुद्ध पिवत्तओ वभणो चेव ॥ [भ० आ० ३५१]

दुज्जणससग्गीए दुण्डमेलापकेन संकिज्जवि आशङ्क्यते एपोऽपि इत्थमृत इत्थमर्थः। कोऽसी? १०
संजदो वि तपस्वी अपि दोसम्मि दोषविषये चैव । यथा पाणागारे पानगृहे ब्राह्मणो दुद्धं क्षीर
पिवमानो ऽपि मद्यं पिवतीत्याशङ्क्यते । एत्यक्खण—

वच्छाजणत्ति जणजणियचोज्जे
रसवणिउ पुण्णभद्दाहिहाणु
भामिणि मणोज्ज तहो माणिभद्
तहे पाणिग्गह्णिण समग्गु तेण
रायहो पुरोहु बभोवमाणु

कोसबीपुरि घणवालरज्जे ।
चिरु होतउ वणिवइ पयपहाणु ।
वमुमित्त पुत्ति परपुट्टसद् । १५
भुंजाविउ जणु रजियमणेण ।
सिवभूइ जयच्चिउ सव्वजाणु ।

१४. ३ मडउ ।

महु पाणाणं पि पिऊ पवित्तु
अकयत्थु अम्ह तो ह्यउ सव्व
इय चित्तिऊण गंतूण गेहु
भयवं जइ मई भिच्चेण कज्जु
सिवभूइ भणइ सोहणु पउत्तु
विरइज्जइ ज जणवयविरुद्ध

जइ जेमाविज्जइ नेव मित्तु ।
गिहघम्मु विवाहु अईवभव्वु ।
सुहि भणिउ नवेप्पिणु बद्धनेहु । २०
तो महु घरि पई भोत्तव्वु अज्जु ।
पर मित्त एहु अम्हई अजुत्तु ।
अन्न वि रिसीहिं आरिसि निसिद्ध ।

उक्त च—शूद्रान्न शूद्रसुश्रूषा शूद्रप्रेषणकारिता ।

शूद्रदत्ता च या वृत्ति पर्याप्त नरकाय तत् ॥

२५

न शूद्राय मति दद्यान्नोच्छिष्टं न हविष्कृतम् ।

न चास्योपदिशेद् धर्मं न चास्य व्रतमादिशेत् ॥

धत्ता—एवविहु समयनिसेहु सुहे अवरु वि लोयवियारियउ ।

घरि तुम्हई तेणम्हारिसहिं भोयणपाणु निवारियउ ॥१५॥

१६

वस्तु—इउ सुणेप्पिणु पुण्णभद्देण

पणवेप्पिणु पुणु भणिउ अम्ह गेहे तुम्हई अजुत्तउ ॥

भयवत भोत्तव्वु जइ तरिहे एउ किज्जउ निरुत्तउ ॥

वणे गोट्टिण अम्हेहिं सहुं सक्करसप्पिसमाणु ।

मन्नह दियनिव्वन्तियउ अवरुद्धउ पयमाणु ॥

५

तामेण समिच्छिउ एम होउ

इयरेण वि कय सामग्गि भव्व

सुदरपएसि सिवभूइ मित्तु

अप्पणु सकुडुवु अदूरे तामु

एत्थतरे मित्तसिणेह मुद्धु

मज्ज पिबदि त्ति जणेण धोमु

पुहईपहुणा वि य एह वत्त

हक्कारिवि आउच्छिउ पुरोहु

पहुवयणु सुणेप्पिणु भणइ विप्पु

जइ ससउ तो ज भणहि देव

केण वि पउत्तु कयमच्छरेण

ता तेण त पि किउ न किउ खेउ

तहो मज्जगधु परिणइवसेण

अह नेहे करइ न काई लोउ ।

गय उववणभूमि मिलेवि सव्व ।

थविऊण तत्थ अविउड्ढचित्तु ।

गोट्टिहं वइट्ठु सो कयविलासु ।

सिवभूइ पियतु निएवि दुद्धु । १०

किउ लाइउ निट्ठोसहं वि दोसु ।

सुय उल्लासीकयपिसुणवत्त ।

कहि काई एहु जपइ जणोहु ।

इउ अनिउ इलेसर निव्वियप्पु ।

त करमि पयासहि भुवणसेव । १५

उव्वमहि असिउ कि वापरेण ।

उग्गरिउ खीरु सक्करसमेउ ।

आयउ आरोसियमाणसेण ।

घत्ता—निद्दोसु वि दोसवतु भणिवि चिरकयकम्भे पेल्लियउ ।
गरहेप्पिणु राएँ मो जणेण नौसारेप्पिणु घल्लियउ ॥१६॥

२०

१७

वस्तु—सुयणु सोत्तिउ सीलसत्तिल्लु

उचवेयसडंगविउ पुज्जणिज्जु बभु व पसिद्धउ ।
सिवभूइ जणेण जिह दोसवंतु मन्नेवि निसिद्धउ ॥
कयदुज्जणससग्गु तिह गुणि तवसी वि वरो वि ।
लोए नेहु वि एरिसउ मन्निज्जइ अवरो वि ॥

५

उक्त च—न स्थातव्य न गतव्य दुष्टेन सहकर्मणा ।

शौण्डेः सह पयः पीत वारुणी मन्यते जनः ॥

अवि सजदो वि दुज्जणकदेण दोसेण पाउणदि दोस ।

जध धूयकदे दोसे हसो वहिओ अपावो वि ॥

अतोव संयतो ऽपि दुर्जनकृतेन दोषेण प्राप्नोति । यथा उलूककृतेन दोषेण हसो हत
अपापो ऽपि । एस्थक्खणं । तं जहा—

मगहामडलि पयसुहयरम्मि
तत्थेव एक्कु कोसिउ उयारि
स कयाइ रायहसहँ समीवु
एक्केण तत्थ कयसागएण
भो मित्त त सि को कहमु एत्थु
घयरट्टहो वयणु सुणेवि घूउ
कयसावाणुग्गहविहिपयामु
वसवत्ति सव्व सामतराय
कीलाइ भमतउ महि पसत्थ
इय वयणहिँ परिओसिउ मरालु
किउ चारु महापहु भुवणसेव
अम्मिह सिमु व्व सामिय सया वि

पयपालु राउ पाडलिपुरम्मि ।
णिवसइ सया वि गोउरहु वारि ।
गउ विहरमाणु मुरसरिहे दीवु ।
पुन्धिउ हसे वयसागएण । १५
आओ सि पएसहो कहो किमत्थु ।
भासइ हउँ उत्तमकुलपसूउ ।
आयहो पहु पुहईभडलासु ।
महु वयणु करति कयाणुराय ।
तुम्हई निएवि आओ मि एत्थ । २०
विणएण पयपिउ मइविसालु ।
किय ज अम्होवरि बुद्धि देव ।
तुम्हहँ पालणिय महापयावि ।

घत्ता—भणिकुण इणहँ नाणाविहहँ चारु सुसायहँ सुरहियहँ ।

दब्बाइँ मुणालइँ आइयइँ तहो तेणावि समप्पियइँ ॥१७॥

२५

१८

वस्तु—तेहिँ पीणउ तुट्टु कायारि

अन्नोन्न सणेहु हुउ तहिँ वसेवि वे तिननि वासर ।

विहसेप्पिणु हसवरु भणिउ तेण गुणगयणनेमरु ॥

आवहि मित्त महु तणउ घरु जाइज्जइ अज्जु ।

पइवन्नउ त पाडलिण वयणु भावि अमणोज्जु ॥

५

ते तरणिअत्थिवेलाए वेवि

सपत्ता सखेवेण तत्थ

अत्थमिउ दिवायरु तहिँ पइट्टु

एत्तहि वि विजयजत्ताहे जोग्गु

दिन्नउ जोइसिएँ तच्चलेण

गच्छतु सतु समुहु पुराउ

भो मित्त नियच्छह एहु राउ

जइ वारमि तो निच्छउ न जाइ

हसेण भणिउ करि कोइडु चारु

त सुणिवि उलूएँ जमदिसाए

अवसउणु जाउ नरवइ नियत्तु

माहणु दिट्टु पत्तु राउ

इय बोल्लिवि वामासाए सद्दु

लहिऊण सउणु हरिसे विसट्टु

पुणरवि अवसउणिउ नरपहाणु

गय गगणगणि उट्टाणु लेवि ।

गोउरसमीवि त छिदु जत्थ ।

णिय रत्ति इट्टुगोटीए इट्टु ।

तिहि वासरु जोग्गु मुहुत्तु लग्गु ।

पयपालु राउ सहुँ नियवलेण । १०

पेक्खेवि पयपइ रत्तिराउ ।

विजिगीसु जतु सेणासहाउ ।

अहवा सपेसमि तां न थाइ ।

दक्खालहि नियसामत्थु सारु ।

किउ सद्दु होवि दाहिणदिसाए । १५

पुणु भणिउ देवभीएण मित्तु ।

जइ भणहि पुणु वि पेसमि सराउ ।

किउ जत्ताजोग्गु अईव भद्दु ।

सहुँ पहुणा साहणु पुणु पयट्टु ।

आरुट्टु मुट्टु सरवेहजाणु । २०

घत्ता—ता कोसिउ सद्दु मुएवि खलु सहसा त पइट्टु विवरु ।

सिरिचदसमप्पहु गुणनिलउ हुउ वाणेण तेण वि वरु ॥१८॥

उक्त च—विकालचर्या विषमा च गोष्ठी कुमित्रसेवां न कदापि कुर्यात् ।

पश्याडज पद्मवने प्रसूत धनुर्विमुक्तेन शरेण ताडितम् ॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले, ललियवयणमाले अत्थसंदाहसाले ।

भुवणाविदिदनामे सब्बदोसोवसामे, इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते रांतपयदसजुत्ते ।

एसो कुमित्तसेवाफलकहणो सत्तमो संघी ॥

॥ संघि ७ ॥

संधि ८

१

आसयवसेण एव पुरिसा दोस गुण च पावती ।

तम्हा पसत्थगुणमेव आसय अल्लिएज्जाह ॥ [भ आ ३६१]

आसयवसेण स्थानविशेषवशेन पुरुषा दोष गुरा वा प्राप्नुवन्ति । तस्मात्प्रशस्तगुणमेवाश्रयत ।
पत्थक्खारां-

दुहनिलयदुटुसगुज्जणंण सज्जणसगवसेण जिह ।

५

हरिसेणहो मयलडलेसरहो हुय परमुअइ कहमि तिह ॥

वस्तु—जम्बुदीवप्र भरहवरिसम्मि

अगेत्ति पसिद्धु जण अत्थि देसु देसहं सिरोमणि ।

देवाण वि वल्लहउ विविहसस्सवणमोहियावणि ॥

पहे पवहतहिं पथियहिं पहे पहे पवहे पवित्तु ।

१०

दहिं ओल्लिउ अल्लयसहिउ जहिं जिम्मिज्जइ भत्त ॥

तहिं सिरिमहति

उवमाणवत्ति ।

भुवणाहिरामि

कपिल्लनामि ।

पहयारिविदु

पुरवरि नरिदु ।

हरिकेउनामु

न रूवे कामु ।

१५

सयवत्तवत्त

जिणधम्मरत्त ।

गुणमणिनिहाण

अप्पाहिहाण ।

महएवि तामु

तिहुयणपयामु ।

खलमइयवट्टि

मुउ चक्कवट्टि ।

हरिसेणु ताहे

हुउ निरुवमाहे ।

२०

अवरि वि निवम्स

लाच्छमड तस्स ।

नामेण कत

मोहग्गवत ।

मच्छन्ननेत्त

जिणमयविरत्त ।

निरु रुद्धभाव

मप्पिणि व पाव ।

गण काले तम्मि

पुरे फग्गुणम्मि ।

२५

निट्टाहियाण

अट्टाहियाण ।

बप्पई पवित्त	अरुहरहजत्त ।	
आढत्त जाम	रयराइ ताम ।	
बद्धाणुराउ	विन्नविउ राउ ।	
महु तणउ बंभ-	रहु अरिनिसुभ ।	३०
वज्जंतमुरउ	परिभमउ पुरउ ।	
कियभुवणसेव	पुणु इयरु देव ।	

घत्ता—ता राएँ बप्पाएविरहु वाराविउ कयजयहरिसु ।
अहवा अणुरत्तु न कि करइ मुइवि वरन्नु खाइ करिसु ॥१॥

२

वस्तु—सुणेवि सामियवयणु महएवि

संचितइ कि करमि कहमि कामु कहो सरणु गच्छमि ।
को सारइ माणु महु कामु अज्जु मुहयदु पेच्छमि ॥
अहवा पहु अन्नाउ जहिँ करइ वविउ वइ खाइ ।
तहिँ कि किज्जइ अन्नबहि मेर मुएप्पिणु जाइ ॥ ५

माणिणि अहिमाणवसाविसन्न	इय चित्तिऊण हुय कयपइन्न ।	
जइ पुव्वमेव रहवरु मईउ	नयरम्मि भमेसइ अट्टुईउ ।	
तो आहारहो सलिलहो पवित्ति	इयरहँ पुणु निच्छउ महु निवित्ति ।	
इय भासिवि सुयणु सुयघमीसे	थिय वेणिनिवधु करेवि सीसे ।	
तावायउ कीलेप्पिणु कुमारु	पच्चक्खु नाई सयमेव मारु ।	१०
निय माय निएप्पिणु भग्गमाण	आउच्छिय वीरे रोवमाण ।	
मलिणाणण दीसहि रुवहि काई	कहि अब हियइ दुक्खाई जाई ।	
सज्जणमणनयणाणदणामु	ता ताप्र पयासिउ नंदणामु ।	

घत्ता—हे पुत्त एत्थ पुरवरि पयडु सच्चकालु महु तणउ रहु ।
नंदीसरि नदीसरि भमइ पुन्निववासरि डुरियरहु ॥२॥ १५

३

वस्तु—गोत्तमंडण तुज्ज ताएण

कम्मेण मणोरहु व वाराविउ सो मईयउ ।
लच्छीमइ-बम्हरहु पढमु पच्छा तईयउ ॥
तेणहिमाणे तणय मई लइयाहारनिवित्ति ।
संपज्जेसइ चित्तियउ जइ तो अत्थि पवित्ति ॥ ५

तइयहूँ एयहि बेणिहि मि मोक्खु
इय लेवि पइज्ज सया वि पुत्त
कारणु सुणेवि भुयबलविसालु
कि करमि जणेरहो कयरएण
जइ अवरु जणइ अहिमाणु तुज्झु
थिर थाहि म रुवहि पसन्नवाप्र
इय धीरिवि जणणि पलबपाणि
एक्कल्लु मल्लु केण वि न दिट्ठु
मेल्लतु विसम तरुसरिपयाइँ
गिरिसकडि दावियतिक्लमल्लि

होसइ जइयहूँ महु मणहो सोक्खु ।
थिय रोवमाण अहिमाणचित्त ।
मायरिहे कहइ अविओलु बालु ।
लज्जिज्जइ गुरुयणअविणएण ।
तो निच्छउ अमरु वि मरइ मज्झु । १०
तव पुण्णहिँ होसइ सव्वु माप्र ।
निग्गउ निसीहु निसि समप्र माणि ।
भीसावणु गिरिकाणणु पइट्ठु ।
पेच्छंतु संतु सावयसयाइँ ।
पत्तउ विज्जुच्चरचोरपल्लि । १५

घत्ता—हरिसेणु निएप्पिणु इंतु तहिँ पजरत्थु तहूँ कहइ सुउ ।
लहु लहु लहु बंधेवि धरहु जाव न नासइ रायसुउ ॥३॥

४

वस्तु—सुणिवि एयइँ सुयहो वयणाइँ

चित्तेप्पिणु कज्जगइ तुरिउ कुमरु ओसरिउ तेत्तहे ।
विहरतउ तावसहँ गउ गइँदगइ निलउ जेत्तहे ॥
तत्थ वि पभणइ करु करह तुट्टुह अब्भुत्थाणु ।
आयउ आसमगुरुत्तणउ लहु विरयह सम्माणु ॥

५

ण्हावह भुजावह करह भत्ति
इउ पूसयवयणु सुणेवि वुत्तु
कणइल्ल पयपहि कि पियाइँ
आयण्णिवि भासइ रिछु एउ

सव्वहँ अब्भभागउ गुरु न भत्ति ।
विभियमणु पुज्जइ रायउत्तु ।
मइँ दुट्टुइँ सुयवयणइँ सुयाइँ ।
सुणु सुयणु दुट्टु पियवाणिहेउ ।

तद्यथा—माताप्येका पिताप्येको मम तस्य च पक्षिणः । १०

अह मुनिभिरानीत स तु नीतो गवाशनैः ॥

शृणोति बावयं स गवाशनानामहं च राजन्मुनिपुङ्गवानाम् ।
प्रत्यक्षमेतद् भवता हि दृष्ट संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति ॥

निसुणेप्पिणु' इउ चितइ नरेसु
इय जाणिवि वज्जइ दुट्टुसगु

लइ बुज्झउ आसयगुणविसेसु ।
आसयह सुहंकरु सुयणसगु । १५

४. १ निसुणिवि ।

ता तत्थ कुमार अतामसेण
नहिं अच्छइ कयपडिवत्ति जाम

निउ घर सयमण्णूतावसेण ।
अन्नेक्कु कहतरु हूउ ताम ।

घत्ता—नामे जणमेज्जहो तावसहो तहो नागवइपियाहे हूउ ।
चंपापुग्गि पुत्तु पर्यडबलु करइ रज्जु मुहिसयणजुउ ॥४॥

५

वस्तु—मयणकित्ति व मयणसत्ति व

तिहुयणजणवसियरणि मयणवाणपति व मणोहरि ।
मयणावलि तामु सस सरससंकजोण्ह व सुहकरि ॥
तहि आएसु निमित्तिण्ण किउ बहुगुणहिं निउत्तु ।
होसइ एसा थीरयण् चक्केसरहो निरुत्तु ॥ ५

सोहणा केण केण न सा मग्गिया
तन्निमित्तेण तत्तेण कामग्गिणा
उद्दुरायाहिगाएँ सिया मुन्दरी
जाणिऊण असज्जो अरी राइणा
तम्भएण तन्नो न रई मीणई
दिट्ठन्नो भाविचक्केसरो न सरो
कि पि ने जाणए तग्गयासामई
तारिस त निएऊण आसकिदा
पुत्ति पुत्ती तुम चक्किणी होहिसी
अन्नचित्ताए कि ताए सा नज्जिदा
मो वि तेलोक्ककजेक्कसीयत्तुणा

तो वि दिण्णा तिणा नेव सामग्गिया ।
आविऊण रुमा सारसामग्गिणा ।
कालनामेण सरुद्ध चंपापुरी ।
सा मुरंगाए नीसारिया भाइणा ।
तायथाण समाया समाया मई । ५०
लग्गन्नो कामएवस्स चित्ते सरो ।
जाय निज्जीव न वाहविद्धा मई ।
वारए मायरी होहि मा दुक्खिदा ।
पुच्छिन्नो आसि अम्हेहिं एक्को रिसी ।
जाय कामावली कामसपुज्जिदा । १५
पीडिदो ल पलोएवि त कतुणा ।

घत्ता—तग्गयमण नियवि बुहेण सुय सयमण्णे नीसारियउ ।
हरिसेणु हरि व निद्धूयभउ गउ नियपुण्णहिं पेरियउ ॥५॥

६

वस्तु—जत्थ पट्टणु सिधुनयनामु

सिधुनयतीरे वरु सिधुनाउ नामे नरेसरु ।
सिधुरवइदीहकरु' करइ रज्जु नदिवि सुरेसरु ॥
सिधुमई महएवि तहो सिधुदेवि सुय जाय ।
कि वण्णमि हूउँ मंदमइ सा सरविजयवडाय' ॥ ५

कन्ना मदेण सहिया विणिग्गदा
लग्गाणुमग्गे करिणी अकुच्छिया
एत्थतरे अतरितारिवेयओ
दट्ठूण रुद्ध भयाभिभलं तिणा
गभीरनाएण गयंदवालओ
आसाए अन्नाए नएहि सोहण
मेठेण सोऊण इण पउत्तयं
अप्पाणय जे ण गणेसि बधुर
एवं भणेऊण तिणा मुसामओ
लद्धूण सन्नं लहु धाविओ करी

पहादु सरं सारसरावि णगदा ।
संदाणिदा दाणवदामयच्छिया ।
तत्थाउ सो पोढपयंगतेयओ ।
कन्नागण कालनिहेण दतिणा ।
वुत्तो अरे वालय वालवालओ । १०
भेसेसि कि मुद्धकुमारियागण ।
घिट्ठो सि त गोह अरे निरुत्तय ।
नो मन्नसे कि पि वि रायसिधुर ।
सचोइओ संमुहओ महामओ ।
तस्साभिवत्तो थिउ रायकेसरी । १५

घत्ता—विरएप्पिणु विज्जु खित्तु नहे करणु करेप्पिणु दंतियउ ।
अप्फालिवि हत्थे कुभयलु उप्फदेवि पुणो वि गउ ॥६॥

७

वस्तु—खणि जि पच्छए पुरउ खणि थाइ

खणि गत्त तरिवि सइ छिवइ दतु करिकुभु खणि खणि ।
खणि भमइ चउदिसउ विज्जुपुजु चलु नाई नवघणि ॥
हक्कइ रोक्कइ आहणइ खणि खणि सरु ससरेण ।
नाणाकरणहिं एव करि किउ वसु चक्कहरेण ॥ ५

खित्ताई सीसि कुमुमई सुरेहिं
परिओसिउ पुरु परियणु नारिदु
जो चिरु कहिओ सि वियक्खणहिं
इय भणिवि नमसिवि निउ निवासु
कन्नासएण सहुं सिधुदेवि
सोवंतु सुहउ एकहिं दिणम्मि
निज्जंतु सतु हरिकेउपुत्तु
भणु भदं का सि कि खयरि देवि
भासइ सा सामिय मुणु विचित्ति
वेयड्ढहो सेडिहे उत्तराहे
सुरधणु नामेण नरेसरासु

गाइउ नहि साहमु किन्नरेहिं ।
जामाउ दिट्ठु वसिकयकारिदु ।
सो सई दिट्ठो सि सईक्खणेहिं ।
सम्माणिउ ससुरे सिरिनिवासु ।
दिन्नी विवाहु किउ विहि रएवि । १०
निउ खयरिए हरिवि नहगणम्मि ।
पुच्छइ पप्फुल्लयपउमवत्तु ।
सचल्लिय तुहुं मईं कहिं लएवि ।
जव्वदीवंतरि भरहखेति ।
सूरोदयनयरि गुणुत्तराहे । १५
पिय बुद्धिमई रइ न सरासु ।

घत्ता—जयचदजमुज्जल गुणनिलय पुत्ति पवित्तुप्पन्न तहिं ।

सा कि वणिज्जइ रूवनिहि मुणि वि मयणवसु जंति जहिं ॥७॥

८

वस्तु—तो तहें चित्तहो को वि न वि पुरिसु

पडिहासइ सुदरु वि जइ वि कामु सयमेव वासउ ।

आणिउ केणावि तउ चित्तपट्टु मोहियजणासउ ॥

तं पेच्छिवि सा सुहय हय सुदरि निरु कामेण ।

हउं सपेसिय ताए तइँ लहुवेया नामेण ॥

५

तहि कारणु सहियहिँ गुणसमग्ग

वयणेण एण रूवजियकंतु

संपत्तु तत्थ सोहग्गसारु

हियवइ न ताहें संतोसु माउ

चक्केससूरदसणि अणिदु

संतुदट्टु सुदट्टु नहगमणु राउ

गंधव्वपुरेसरु^१ भग्गमाणु

आयणिणिवि पाणिग्गहणु ताहें

आरुदट्टु सुदट्टु निदट्टुरकरग्गु

भो पेच्छह उल्लंघियकमेण

वज्जेप्पिणु विज्जाहर रवण

परिहउ परमत्थे पहयनेहु

बहुएण किमाहवँ वेवि अज्ज

अवरु वि को वि जेणेउ कम्मु

परमेसर हउं पइँ नेवि' लग्ग ।

निहुयउ गउ सिधूदेविकंतु ।

दिट्टु जसच्चदए नाइँ मारु ।

रोमंचमिसेण य पयडु जाउ ।

जायउ पप्फुल्लु महारविदु ।

सहसा सुयाहें सहुँ किउ विवाहु ।

गंगाधरु विज्जाहरपहाणु ।

हरिकधरु नाइँ सयपहाहें ।

भासइ अहिमाणाहयधरग्गु ।

किउ काइँ तेण खयरधमेण ।

भूगोयरवरुहो विइन्न कन्न ।

अम्हहँ तुम्हहँ वि समाणु एहु ।

मारेवि एहुँ खल ते अलज्ज ।

नायरड कयावि विमुक्कधम्मु ।

१०

१५

घत्ता—इय भासेवि [सइँ रूसेवि] खयरसहासहिँ परियरिउ

अवहत्थिवि मतिसुहासियइँ विज्जाहरवइ नीसरिउ ॥८॥

२०

९

वस्तु—एत्थ अतरे गपि चरनरहिँ

जाणाविउ सुरधणुहें देवदेव दुज्जउ महाइउ ।

विज्जाहरचक्कवइ रूसिऊण तुज्जुवरि आइउ ॥

जं दिन्नउ कन्नारयणु भूगोयरहो पवित्तु ।

तेणहिमाणघएण फुडु अग्गि व सित्तु पलित्तु ॥

५

जइ सक्कहि तो तहो समुदु थाहि

अहवा लइ लहु नीसरिवि जाहि ।

८. १ नेमि ।

२'पुरेसुर ।

कि माणे जेणावइ अवज्जु
इय चरवयणहिं नहयनरिन्दु
बलियउ विज्जाहरराउ आउ
निसुणेवि एउ ह्यमुयणसल्लु
धिरु थाहि माम आवउ वराउ
को मुन्दरमइ अहियावसाणि
वयणेण एण पहु तहो तणेण
अवबभु नियच्छिवि सुदरामु
चितइ मुरधगु अ दइच्चु कोइ
अहवा रिमोहिं आएमु आसि
वरु पुत्तिहे तेण रणे दुमेहु

जीवंतहैं होसइ अन्न रज्जु ।
चितइ हुउ मलिणमुहारविबु ।
एवहिं चित्तिज्जइ को उवाउ ।
जपइ जामाउ जगेक्कमल्लु । १०
दसमि खलु खलहो कयतराउ ।
पइं परिहवेइ मइं जीवमाणि ।
अप्पाइउ विञ्जु व नवघणेण ।
जसवतहो जसयदावरासु ।
सामन्न अन्नु न हु एहु होइ । १५
किउ होसइ जो गुणरयणरासि ।
मारिस्सइ परमत्थेण एहु ।

घत्ता—इय चित्तिवि नीमदेहमणु सन्नेहेवि सेन्नेण सहु ।

सूरोदयवइ जामायजुउ अमरिसवमु नीसरिउ लहु ॥१॥

१०

वन्तु—पत्तु एत्तहे ताम तवणीय—

मदणसयहयगयहिं भडथडेहिं भूयलु निरतरु ।

छायतु चलतधयवरविमाणनियरेण अबरु ॥

अधारिउ न नवघणहिं नट्टउ भाणुज्जोउ ।

चउदिमु असिसोदामणिउ नियइ फुरतिउ लोउ ॥ ५

कयकायरजणमणसभमाइं
बहुभेयइं सखावज्जियाइं
सद्रेण ताहें बहिरिउ दियतु
थरहरिय धराधर धरणि वीर
आसकिय जम-वइसवण-सक्क
जणु जपइ कपइ काइं एउ
वेयड्डनामु वेयड्डवामि
हरिसणहो हरिसवसेण हूउ
अन्नोन्नु निएवि समच्छराइं
धावियइं पवाहियवाहणाइं

सुहडोहपयासियसभमाइं ।
उहयाइं वि वज्जइं वज्जियाडं ।
न हसिउ गिलेप्पिणु जगु कियतु ।
सजाय जलहि झलझलियनीर ।
डोल्लिय नहि रिक्ख-ससक-सक्क । १०
एत्थतरि सद्दु मुणेवि देउ ।
पहुपुण्णहिं तत्थायउ सुहासि ।
जाणावि पय पणवेवि सूउ ।
दच्छइं रत्तच्छिनियच्छिराइं ।
सुरधणुगंगाधरसाहणाइं । १५

घत्ता—धावतहें सेन्नहें पयपहुउ पंसु पणासियदिट्ठियउ ।

नावइ सुहडामरिसानलहो धूमसमूहु समुट्ठियउ ॥१०॥

११

वस्तु—पढमु पायहँ लग्गु पुणु करहँ

पुणु लग्गउ अंकवहँ जाम केम न करंतु' वारिउ ।

रूसेप्पिणु नाई रउ पुणु विलग्गु केसहँ निरारिउ ॥

चलवलत—भडपवर—करतिकखखग्गभयभग्गु ।

न कूवारउ सुरवरहँ करहँ वल्लग्गउ सग्गु ॥

५

जयगोमिणिकामिणिलपडाई

हयम्ममअरम्मगिरुभडाई ।

बहुपक्खविवक्खयकराई

उरकयखयखग्गभयकराई ।

अच्चतच्चित्तअमरिसवसाई

सवियारई सारई रणरसाई ।

आसिक्खयरक्खयकुलछलाई

अवियत्तई अत्तिभट्टई बलाई ।

मुसुभूरियचूरियरहवराई

निदारियमारियकिकराई ।

१०

आमोडियपाडियगयघडाई

सरपूरियविहडियहयथडाई ।

अच्छोडियतोडियभडसिराई

मुविच्चित्तच्छत्तधयखडिराई ।

अइसइयरइयसरपजराई

गुरुविहुरपहरसयजज्जराई ।

पलपोसियतोसियरक्खसाई

सगलियमिलियसिववायसाई ।

हयवसमूच्छावियभंभलाई

विलुलतअतफणिचुभलाई ।

१५

अरुणारुणारुणवग्गहाई

पहुमित्तच्चित्तदुहनिग्गहाई ।

नीरधकबधपणच्चणाई

सुरयणमणनयणपणच्चणाई ।

घत्ता—वणियगई कयकेसग्गहई रत्तच्छई दट्टाहरई ।

जुज्जतई मेहुणाई व बलई दिट्टुई आमेल्लियसरई ॥११॥

१२

वस्तु—दडदुडुह खग्गपाठीण

छत्तोहाफणुज्जलिय नुरयथट्टपच्छरनिरंतर ।

सिररुहसेवालचय नरकरंक्कमयरहिं दुरुत्तर ॥

दुरयधराहरवणविवरनिग्गय घोर वहति ।

दिट्टु खगिदहिं रत्तनय भडथडतर भजंति ॥

५

एत्थंतरि सुरधणुरायदडु

परबलेण करेप्पिणु खंडु खंडु ।

पाडिउ उववाइउ दिप्पु नाई

रणभूदेविहे कत्थ वि न माइ ।

गलियाउहकरु विलुलंतकेसु

भयभीउ भग्गु उव्वरिउ सेसु ।

साहारिवि सबलु ससावलेउ

सरहसु सेणावइ सीहकेउ ।

११. १ करंति ।

धाविउ ससरासणु सामदेहु	वरिसंतु सरहिँ नं पलयमेहु ।	१०
सो रहु न उ सारहि सो न पत्ति	सो नेवारोहु न सो वि दति ।	
सो तुरउ न सो न उ आसवारु	सामतु न सो सामत्यसार ।	
सो नउ धउ छत्तु न त विमाणु	त नाउहु न उ जपाणु जाणु ।	
दस बीस तीस जहिँ सूसुयत	न उ लग मग्गणा तहो फुरंत ।	
सहसत्ति सराहउ सत्तुसेनु	ओसरिउ समग्गु वि भयविसन्नु ।	१५

घत्ता—नियसेन्नु निएप्पिणु हणिउ रणे पच्चारैप्पिणु पबलबलु ।

बलवइविज्जाहरसामियहो वलिउ तामु नामेण बलु ॥१२॥

१३

वस्तु—बे वि दुद्धर धरणिधरधीर

धुरधोरिय बे वि जण भडपहाण पडिभडविमहण ।

सरणागयसामि सुहिकज्जकरण कणयमयसदण ॥

अडपयड कोयडकर समरसएहिँ रउद् ।

अवरोप्परु ते अत्तुलिय न मुरसिहरिसमुद् ॥

हरिकेउ परज्जयपरबलेण	सरजाले पच्छाइउ बलेण ।	
पहवंतु पहायरु दुद्विणेण	दिणयरु व नहगणे नवघणेण ।	
पाडिउ धणु धउ धवलायवत्तु	आहय हय सारहिँ धरणि पत्तु ।	
किउ विरहु महारहु रहवरम्मि	थिउ अन्नहिँ नवर मणोहरम्मि ।	
एत्थतरि वइरिविणासहेउ	आरुट्टु सुट्टु भडु सीहकेउ ।	१०
वरवमुब्भुउ गुणनमियकाउ	मुकलत्तु व अवरु लएवि चाउ ।	
पडिवक्खहो पिहियनहतरालु	कप्परिउ खुरप्पहिँ बाणजालु ।	
पत्थेण नाइँ पडिवक्खचित्तु	पाडिउ चूडामणि विप्फुरंतु ।	
तिहिँ सरहिँ चाउ धउ छत्तु छिन्नु	पंचासहिँ देहावरणु भिन्नु ।	
किउ वियलु बलुद्धरु बलु खणेण	केसरिधउ ससिउ मुरयणेण ।	१५

घत्ता—ता बलेण विलक्खीहूयण अवरु सरासणु करेवि करे ।

रक्खेज्जमु पच्चारैवि पहउ सरसएण सहसत्ति उरे ॥१३॥

१४

वस्तु—क्षत्ति तिक्खहिँ भिन्नु सन्नाहु

कह कह वि हु न वि हियउ दुज्जणेहिँ बाणेहिँ नावइ ।

गुणधम्मज्जियहिँ नउ [सम्म-] दिट्ठि सघाणु पावइ ॥

१३. १ सारेहि ।

जं ज धणु करयले करइ सुरधणु सेणपहाणु ।

त तं छिन्नइ दइउ जिह वलु अविहडियमाणु ॥

५

सामंतहिं सदरिसियदुहेहिं
निज्जाइय चित्ति अणत सत्ति
खलविज्जपहाउ पडिक्खलति
जयलच्छि नाई हरिकेउकित्ति
सा करि करेवि केसरिघएण
नयखयरमउडमाणिककराय
जइ सरणु पईसहिं वासवामु
निमुणेवि एउ भासिउ बलेण
को तुहुं को सो तुह तणउ राउ
दसमि तुह रे खल कालरत्ति

जाणिवि अवज्जु अरि आउहेहिं ।
सुरधणुभिच्चेण अमोहसत्ति ।
आगय गयणगणि पज्जलंति ।
नावइ दुरत पडिभडभवित्ति ।
अरि भणित्ति पणासहिं कि मएण । १०
नइ तुज्ज कुद्ध सुरधणुहिं पाय ।
पई पेसमि तो वि कयतवामु ।
गलगज्जिएण कि निष्कलेण ।
खणभगुरु निग्गुणु वकभाउ ।
नइ मेल्लि मेल्लि सहसत्ति सत्ति । १५

घत्ता—ता सा तोसेप्पिणु तेण तहो मुक्क उरन्थलि सत्ति किह ।

मव्वह वि धरतधरतह पडिय महीहरि विज्जु जिह ॥१४॥

१५

वस्तु—पहए पडिभडे इदधणुबलेण

किउ कलयलु तूरसरु सुणिवि अरिहिं पडियाई चित्तई ।

मुक्कई हरिकेउसिरि सुरहिं सुरहिकुमुमई विचित्तई ॥

अवरु वि जो जमु अग्भिडिउ सो सो तेण रणम्मि ।

आयामेप्पिणु निययजमु वित्थारिउ भुवणम्मि ॥

५

ता एत्थतरि

पालियकुलबलु

आवट्टतउ

आणामाणु

अइअमरिसवमु

दुज्जयविक्कमु

एक्कु अणतहिं

रुद्धु खगिदहिं

जयसिरिमाणु

दूसहपहरहिं

सीमु घुणाविय

समरमहाभरि ।

पेच्छिवि नियबलु ।

पलयहो जतउ ।

मुइ गगाधरु ।

घाइउ सरहसु ।

न भुक्खउ जमु ।

रइयक्खत्तहिं ।

करिवरविदहिं ।

नं पंचाणणु ।

ते सरनहरहिं ।

भड कडुयाविय ।

१०

१५

निम्मय पबल वि	भंजिय सबल वि ।	
गरुडु सभोइ व	पवणु पन्नोइ व ।	
चीरु वियारिवि	दूरोसारिवि ।	
चोइयपत्तउ	तहिँ संपत्तउ ।	२०
जत्थ ससदणु	पहु वामवधणु ।	

घत्ता—पच्चारिउ रे अवियाण तुहुँ अज्ज जमें निज्जाइयउ ।

पहदो' हा दुज्जण दुक्खिणय कहिँ महु जाइ अघाइयउ ॥१५॥

१६

वस्तु—रे अलज्जि रे मुक्कमज्जाय

मत्त अम्हए मुएवि मदभाय भूयरहो दिन्नउ ।

अवियाणियकुलगणहो नारिरयणु जं पडँ रवन्नउ ॥

तहो फलु अन्नायधिवहो दावमि अज्जु अणिट्ठु ।

खुडमि रसतहो सीसु तुह सभए देउ मणिट्ठु ॥

५

इय आयणोप्पिणु वित्तु सत्तु

परधणपररमणीहरणचित्त

विज्जाहराहे भुयबलविसाल

कि आसि सुहद् महीसरेण

सिहिजडिणा कि न सयपहक्ख

भणु कि किउ मई अन्नाउ एत्थु

परनिदणअप्पससणाई

जोइयई सयवरि काई जाई

चिर पुरिसपयासिउ एहु मग्गु

निक्कारणि जो मारेइ रुट्ठु

सइ अहवा नरहो विणासकालि

वाण।सणेण विहमेवि वुत्तु ।

वड्डुंतरेण भुल्लो सि मित्त ।

भूगोयर सामिय सयलकाल ।

परिणिय न भद् भरहेसरेण ।

सुय दिन्न तिविट्ठहो सिरिसमक्ख । १०

ज जंपहि पुणु पुणु अप्पसत्थु ।

मणुयहँ सक्कित्तिवद्धसणाई ।

जा जामु विहिय सा तामु जाइ ।

अविसिट्ठहो पर भावइ अजोगु ।

सो सामि भणिज्जइ केम दुट्ठु । १५

नासइ मइ रविदित्ति व वियालि ।

घत्ता—इय वयणहिँ मम्मतिमहिँ तहो पच्चुदीविउ वइरि किह ।

पज्जलिउ सहोयरु मारुयहो निक्खित्तेहिँ तिणेहिँ जिह ॥१६॥

१७

वस्तु—वयणविवरहो मज्जे रे धिट्ठु

दप्पिट्ठु खल खुद् तुह अत्थि जीह एहउ चवतहो ।

सयखंडई कि न गय पावयम्म गुरुसिक्खवंतहो ॥

एव भणेवि विमुक्क सर दीह सविस अपमाण ।

तेण वि खंडिवि अद्धवहि पाडिय सप्पसमाण ॥

५

आलग्ग वे वि विज्जाहरिद
विन्नि वि पयड संगरसमत्थ
विन्नि वि आसियदुहदाहकंद
विन्नि वि महंतसपयसमिद्ध
विन्नि वि चारहडा चायसूर
विन्नि वि सरणागयरक्खकारि
विन्नि वि थिग्करिकरदीहपाणि
अग्गेयहि वारुणवायवेहिं
करिसीहिं हरिअट्टावएहिं
हयमहिसहिं उरग्गहिं पन्नएहिं^१
हक्कति हणति चलति घति
खणि अट्टसण खणि पयड होंति
खणि एति जति नहयन्नि भमति

अमरिसवस नं आसाकरिद ।
विन्नि वि परिओसियसयणसत्थ ।
विन्नि वि सुदरजसवेल्लिकद ।
विन्नि वि जयरामारइपइद्ध ।
विन्नि वि निम्मलकुलकमलसूर । १०
विन्नि वि विवक्खवहुवलयहारि ।
पहरति परोप्परु वे वि माणि ।
खणि तम्मि दिणहिं सिलपायवेहिं ।
खणि फणिगरुडाहिं पविपावएहिं ।
खणिसायरमेरुमहतएहिं । १५
खणि खणि अन्नोन्नु जि धीरवति ।
खणि वट्टिवि रविमंडलु छिवति ।
खणि नाणावेसहिं सभवति ।

घत्ता—छलु लहिवि कहव गगाधरेण करवालेण दुहाइयउ ।

सुरवरधणु हणु भणतु पुणु विहिं^१ रुवेहिं पराइयउ ॥१७॥

२०

१८

वस्तु—दो हु खडिय चारि सजाय

चउ आहय अट्ट ह्य अट्ट पहय सोलह भयकर ।

वत्तीस चउसट्टि सउ अट्टवीसु सकिवाण फरकर ॥

इय दुण दुण वड्ढेवि [तहिं] सुरधणु होवि अणत ।

घाइय सब्बदिसामु तहो [हणु हणु एहु भणत] ॥

५

सुरिदधणुस्स निएवि अमाण
हणत असेस निवेस सुसत्तु
तओ ह्यवेरिविउव्वणयाम
सुराहिवचावु वियभिउ ताए
विणट्टविउव्वणरिद्धिपहाउ
इहंतरि सीहधयस्स सुएण
चिरावहि काइं नियच्छहि चोज्जु
१७. १ रग्गाहि पत्तएहिं । २ विवहि ।
१८. १ अजज्जु ।

विउव्वण रिद्धि हयाहियमाण ।
सहामरु विभिउ वित्तहो सत्तु ।
विचितिय विज्ज तिणाभियथाम ।
विणासिउ सब्बु वि साइसयाए ।
तहेक्कु थिओ जयचदहे ताउ । १०
पउतउ मामहं चारुभुएण ।
पचोयहि संदणु वेरि अनज्जु ।

करेइ पसाउ न मामहो जाम
सुणेवि इणं सहसत्ति सुरेण
निओ रहु जेतते अच्छइ सत्तु

वियारमि अस्स उरत्थलु ताम ।
पडिच्छियसंगरभारधुरेण ।
सुराउहएण सम पहरंतु । १५

घत्ता—हक्किउ हरिसेणे वइरि रणे लुद्ध मुद्ध अन्नायपर ।

कहिं जाहि अज्जु काले कलिय वलु वलु आरा रे खयर ॥१८॥

१९

वस्तु—भणइ सुरसरिधरणु विहसेवि

कि मसएँ मत्तकरि पत्थरेण कि मेरु जिप्पइ ।

दूसहु जोइगणेण कि कयाइ रवितेउ हिप्पइ ॥

तुह नामु वि कि ताव पुणु तुहुं वराय अविआण ।

जा जाहि सरहि मा महु समरि रक्खहि वल्लहपाण ॥ ५

एय गुणेऊण परचित्तसल्लेण
अलिएण खल सुहड वाएण भज्जति
भणिएण किर काई बहुणा असारेण
लइ पहरु कि नियहि जइ अत्थि सामत्थु
खयरेण कोवग्गिणा पज्जलतेण
अद्धवहि सहसत्ति आहवसमत्थेण
जे जे हि विज्जामया निहय पडिवक्ख
ते ते खणद्धेण गयणद्धि वाणेहिं
वाणेहिं बहुभेयधनुवेयविहिजाणु
खयरेण मोग्गर मुसडीउ सत्तीउ
सहुं भिडिमालेहिं परसेत्ततामेहिं
कणएहिं सह दुक्खसदोहजणणीउ

भणिय कुमारेण तेलोक्कमल्लेण ।
सप्पुरिस रडाण राडी, लज्जति ।
जाणिज्जए धीरु धीरोहसारेण ।
दसेमि तुह अज्जु जमरायपुरपंथु ।
निसुणेवि एय विमुक्का सरा तेण । १०
ते खडिया चंडकोयडहत्थेण ।
पट्टवइ अणवरउ अरि मग्गणा तिक्ख ।
निट्टवई चक्केसरो अप्पमाणेहिं ।
सबको न जेउ वियाणेवि भूजाणु ।
गय वज्जमुट्टीउ हयसत्तसत्तीउ । १५
अतेहिं पासेहिं सहुं नायवासेहिं ।
अस मुसल हल चक्क मुक्काउ असणीउ ।

घत्ता—तो देवदिअदिवाउहहिं जणमणनयणाणंदणेण ।

सव्वइ हयाई परपहरणइ वप्पाएविहे णंदणेण ॥१९॥

२०

वस्तु—मुणिवि दुज्जउ वइरि बलवतु

पण्णात्तिपहइयउ चित्तियाउ तेणामु विज्जउ ।

आयाउ भणतियउ कहमु काई खयरिद किज्जउ ॥

कि उच्छेल्लिवि महि सयल सहसा तोयवमाले ।

सगहु सचदाइच्चनहु कि घल्लहुँ पायालं ॥

५

त सुणिवि तेण

खयराहिवेण ।

निह्यावयाउ

भणिघाउ ताउ ।

अन्नेण कज्जु

महु नत्थि अज्जु ।

एत्तिउ करेहु

खलु खयहां नेहु ।

विज्जाहिँ वुत्तु

सामन्नु सत्तु ।

१०

न हु होइ एहु

जयलच्छिगहु ।

पच्चक्खु कामु

हरिसेणनामु ।

नायानुवट्ठि

पहु चक्कवट्ठि ।

दिवासिद चद

वासव फाणद ।

सगामि जामु

निम्मलजसामु ।

१५

सकंति सब्ब

अवर वि सगव्व ।

काह केम तामु

किज्जइ विणामु ।

पुहईपियासु

गनूण पासु ।

मेल्लेवि रोसु

दाऊण कोसु ।

पणवेवि देव

आयरसु सेव ।

२०

इयरह न तुम्हि

होसहुँ न अम्हि ।

पत्ता—णिमुणेवि एउ अहिमाणघणु भणइ खागिदु वराइयाहि ।

जा जाहि काई तुम्हेहिँ किर किज्जइ परंण पराइयाहि ॥२०॥

२१

वस्तु—छुडु सहेज्जा चंड भुयदड

तए तइएण' महुँ कि पवेण अवरेण किज्जइ ।

लइ आयहु लुणमि सिरु जइवि चदरुद्धिँ घरिज्जइ ॥

इय भणिवि तेण करयलि करिवि वसुनदउ सखग्गु तुरिउ ।

धाविउ हवकेप्पणु आहायणि विज्जाहरु रोसहिँ भरिउ ॥

५

हरिसेणु वि जाणियवत्तवित्ति

रहु मुएवि सामि तहो भिडिउ झत्ति ।

तिहुयणपसिद्ध वीरारिबीर

पहरति बे वि पुलइयसरीर ।

खणि ओसरति खणि पइसरति

खणि खणि अवरोप्पर चप्परति ।

भमियई नित्तिसेई धगधगति

अन्नोशु जि लग्गिवि खणखणति ।

मणिमयवसुनदय विप्फुरति

२१. १ तह तइयउ ।

उड्डतहँ कपइ भइण भाणु
पयभारें महि पायालु जाइ
ता बप्पाएविहे नदणेण
ओसरिवि सरिवि नहि उल्ललेवि
पडिवक्खनिसागमनेसरामु

निवडतहँ फणिवइ मुयइ ठाणु । १०
हक्कतहँ फुट्टइ भुवणु नाइँ ।
कयवहुभइथडकडमदणेण ।
असिणासिवत्तु सहसा खलेवि ।
तहो विज्जाहरचक्के सरामु ।

घत्ता—रणसरवरि असिवरचचुयण नृवहसे सरलच्छिदलु । १५
दसणःवलिकेसरु सिरिनिलउ तोडिवि पाडिउ सिरकमलु ॥२१॥

२२

वस्तु—निहण दुद्धरे अमरवग्धीरे

गगाधरे मुरवरहिँ चक्कवट्टि सथुउ नहगणे ।
आरुट्टकयतनिहु हणण एहु को किर रणगणे ॥
घन्नउ तिहुयणेक्कविजइ तुहँ पर एक्कु निसीह ।
अरिपक्वयपवि भुवणयले को पावइ तुह लीह ॥

५

हण गगाधरि मुरधणु पडिट्टु
जाणेविणु खलगलकालवामु
विज्जाहर सयल गयावलेव
वेत्ति वि खगमेडिउ वसि करेवि
सोहणनिहाणरयणइँ लहेवि
हेलाण सयल साहिँवि घरित्ति
परियरियउ पउरबलेण ज्ञत्ति
परिपुण्णमणोरहु पुण्णवतु
आलोइय मायरि सायरेण
नियनदणरिद्धि निएवि माय

परमुच्छवेण नियउरि पइट्टु ।
चक्कवइ समुज्जलजमपयामु ।
हुय किकर देव वि विहियसेव ।
पडिवक्कवमडप्फरु अवहरेवि ।
समुरहो खयरण पहुत्तु^१ देवि । १०
परिणिवि मयणावल तवसिपुत्ति ।
परमेसरु दूरोच्छलियकित्ति ।
सत्तमदिणम्मि नियनयरु पत्तु ।
न नवमियकतणु सायरेण ।
सहँ राएँ विभियचित्त जाय । १५

घत्ता—ता लच्छीमइहे मणोरहुउ चूरेवि रहु उवसामियउ ।

जिणसदणु नियमायहे तणउ परमविहूइण भामियउ ॥२२॥

२३

वस्तु—को वि पसवणवियणवियलाहे

उप्पज्जइ जसधवलु जणियाहे जयसिरिविहूसणु ।
हरिसेणसमाणु सुउ सुयणसरणु पिसुणयणदूसणु ॥

गुण रयणोहनिहाणु मुद्द सुंदरमद्द मुपसत्थु ।
तो चित्तादुहसायरहो उत्तारणहें समत्थु ॥

५

गिज्जतहें धवलहें मगलेहें ।	सजोइज्जतहें मगलेहें ।	
वीणहें दाणहें दिज्जतएहें	बभणबदिणहें पढंतएहें ।	
सुरगायणेहें गायंतएहें	वज्जतहें वरवाइत्तएहें ।	
बहुहावभावविबभमयरीहें	नच्चतहें वरविज्जाहरीहें ।	
रजियजणेहें कोड्ढावणेहें	कीलतहें खुज्जयवावणेहें ।	१०
जय जय पभणतहें मुरवरेहें	ताएँ समेउ बहुनरवरेहें ।	
सोहणदिणि लगिग मुहुत्ति जोए	ससिबले आणदियबंभुलोए ।	
अहिसिचिवि पहयाहियमरट्टु	हरिसे हरिसेणहो बद्ध पट्टु ।	
तहें रज्जु करत्ते सुंदराई	भरहम्मि त्रिणेसरमदिराई ।	
मयणावलिवरणनिरतराई	कारावियाई दुरियतराई ।	१५
भुजेप्पिणु चिरु चक्कवडभोय	तउ करिवि निरुभेप्पिणु तिजोय ।	
कालेण पत्तु सब्बत्थसिद्धि	पावेसइ भाविभवम्मि सिद्धि ।	
हरिसेणु व मडसपयसमेउ	आसयह मुणिवि गुणदोसभेउ ।	

घत्ता—अवरो वि विरुद्धासउ मुद्दवि जो सुयणसेउ पहयरउ ।

आसियइ' सो हू सिरिचंदजसु पावइ सोक्खपरपरउ ॥

२०

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले, ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले ।
भुवणाविदिदनामे सब्बदोसोवसामे, इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचदपउत्ते मुविचित्ते एतपयदसंजुत्ते ।

हरिसेणचक्किचरिय नाम इम! अट्टमो संधी ॥

॥ संधि ८ ॥

संधि ६

१

अप्यो वि परस्स गुणो सप्पुरिसं पप्य बहुदरो होदि ।

उदए व तेल्लविदू कह सो जपिहिदि परदोस ॥ [भ० आ० ३७८]

अप्यो वि स्तोको ऽपि परस्यान्यस्य गुण. सप्पुरिसं उत्तमपुरुषं पप्य प्राप्यातीव बहुर्भवति पानीये पतितस्तैलविन्दुरिव । इत्यभूतो य स कथ परदोवान्वदिष्यति । अपि तु नैव जल्पिष्यति । एत्यक्त्वाण । त जहा— ५

पाणभाणु पणवेवि मोहतमोहपण।सणु ।

करमि कि पि कमणीउ सयणसहावुब्भासणु ॥

अत्थि एत्थु भरहम्मि रउद्दहो

नेमिनाहअवयारि धणसे

त कि सब्वसारु वणिज्जइ

रुप्पिणिदेवीकतु कुमारहो

सो तहिं करइ रज्जु सुहु सुंदर

एत्तहे सगलोए सुरसारे

उत्तिमपुरिसपसस महतरि

आयणिण्पिणु केण वि देवे

परमपहाववत परमेसर

कहइ पुरदरु तहो पुच्छतहो

नयरु मज्जे वारमइ समुद्दहो ।

ज निम्मविउ सुरिदादेसें ।

कि उपमाणउ तामु भणिज्जइ । १०

जो जणेरु पज्जुन्नकुमारहो ।

वासुएउ पहु नाइं पुरदरु ।

दरिसियधम्माहम्मवियारे ।

किय चउदेवनिकायनिरतरि ।

पुच्छिउ कोसिउ कियपयसेवे । १५

कहि केरिस हवति उत्तम नर ।

देवहो देहपहाए फुरतहो ।

घत्ता—दोसु कया वि परस्स लेइ न परु वि निवारइ ।

जो गुणु भुवणि^१ मणा वि बहु करेवि वित्थारइ ॥१॥

२

पियहियवाणि माणमच्छरचुउ

भणइ देउ देविद^१ निरुत्तउ

सो नउ दीसए को वि जयत्तए

जंबूदीवए भारहल्लेत्तए

वासुएउ हरिवसहो मंडणु

सो सप्पुरिसु पसंसहो जोग्गउ

१. १. भुवणु ।

२. १. देविदु ।

माणुसु सो सप्पुरिसु जयत्थुउ ।

जो परदोसग्गहणविरत्तउ ।

भासइ सयमुहु अत्थि विवित्तए ।

वारमईपुरे राउ पवित्तए ।

दुद्धरवइरिरायसिरखंडणु । ५

जसु मणु परपरिवायहो निग्गउ ।

सुनिवि एउ विभियमणु जायउ
तम्मि कालि उज्जंतगिरिदहो
भत्तिहरिसवसु सप्परिवारउ
हत्थिपमाणु अईव भयकरु
दुप्पेक्खउ दुग्गधु दुवण्णउ

ता त नियहूँ देउ तत्थायउ ।
वंदणहत्तिण नेमिजिणिदहो ।
एतु नियच्छिवि जायवसारउ ।
साडिउ पकिमिकुलेहिँ निरतह । १०
पयडियदत्तपति गयसन्नउ ।

घत्ता—सो मुरु मुणहसरीरु वेउब्बेपिणु वट्टहें ।

पडिवि परिक्खाहेउ किउ अणवरउ पयट्टहें ॥२॥

३

निएप्पिणु पडिउ' सुभीयरु साणु
समुदु व खोहृबिवाज्जिउ वीरु
महामइ दोसविवायविरत्तु
इहतारि वभणवेसु करेवि
जयावणिनाह भरेण सरेवि
निएप्पिणु मडलु दूसियमग्गु
हयामु कहतहो आइउ एहु
अदसणु दीसइ सुदरु नेव
पयपइ विणु म बोल्हहि एव
मुहम्मि मणुज्ज नियच्छहि ताव
सरीरु वि अन्नहो एत्तिउ कामु
मुणेप्पिणु एउ पसन्नगिरेण
सुराण वरेण परूढविवेय
भणेवि इण हरि पुज्जिवि देउ

समग्गु वि लोउ भएण पलाणु ।
सुमेरु व कपविमुक्कसरीरु ।
परेक्कु थिरो थिउ कसकयत्तु ।
निलिपु मुरारिसमोवु सरेवि ।
पिहेप्पिणु नासिय सीसु धुणेवि । ५
अणोयवियप्पहिँ निदहूँ लग्गु ।
अलक्खणु पाविउ पूइयदेहु ।
पयट्टहूँ आवहि पत्थिवदेव ।
असुंदरु एहु' पवुच्चइ केव ।
दियावलि अस्त फुरतपहाव । १०
कह इमु निग्गुणु दोसनिवामु ।
पससिउ रुप्पिणिकत्तु सुरेण ।
जहा भणिओ सि तथा तुहुँ चैय ।
गओ सनिहेलणु खे मणवेउ ।

घत्ता—महमहणु व सप्पुरिसु परदोसग्गहल्लखणु ।

१५

अवरो वि हु गुणगाहि लहइ तिलोयजणच्चणु ॥३॥

४

चोल्लय पासय घन्ने जूद रयण सिविण चक्क च ।

कुम्म जुग परमाणू दस दिट्ठंता मणुयलंभे ॥

महाकल्याणोपेत पूर्व' चक्रवर्तिगृहे भुक्त्वा समस्तान्त.पुर-सामन्तचक्रग्रामपुरनगरखेटकर्वटपत्तनादिषु
गृहे गृहे दानसम्मानप्रतिपत्तिपूर्वक यद् भुज्यते तच्चोल्लयमिति भण्यते । एत्थ चुल्लयक्खणं—

पुरि साकेइ सयलपुहईसर
भुवणि पसिद्धउ पोरिसघामे
वसुमित्ताप्र पुत्तु वसुमित्तउ
अगहियगुरुयणसिक्खालावउ
अमुणियरायउत्तविन्नाणउ
गउ कालेण जणेरु जमालउ
मुक्खु भणिप्पिणु भुवणाणदे
तहो परिच्छिन्नउ अन्नहो दिन्नउ
घाडिय वसुमइ सहुँ वसुमित्ते
तहिँ सुउ ताप्र दुआलियखवियउ
हुउ खमु दूरज्झाणहो जाणेवि
गपि पुत्त पट्टपाय निहालहि

होतउ बभदत्तु चक्केसर । ५
तहो विहंसु सहसभडु नामे ।
जायउ तहो धरिणीप्र दुचित्तउ ।
दुम्भमणायरु कीलणभावउ ।
धक्कउ सो होएवि अयाणउ ।
हुउ समाउ सुउ सोएँ कालउ । १०
तायहो जीवणु तामु नरिदे ।
अह रायहँ कहिँ किर पडिवन्नउ ।
थिय जुण्णालप्र दुक्खियचित्ते ।
घावहुँ वरत्तुरउ व सिक्खवियउ ।
वसुमित्ताइँ वुत्तु सम्माणिवि । १५
ओलग्गहि पियपउ उज्जालहि ।

घत्ता—पुव्वावरु निमुणेवि पुलिणसमाणनियबहे ।

गउ वसुमित्तु कुमारु पय पणवेवि नियबहे ॥४॥

५

तहिँ कप्पडिओ लगिय सामिहं
एक्कहिँ दियहिँ सकुलनहनेमरु
आयामिउ समेण धावतउ
सहुँ पट्टणा भमतपचाणणु
तहिँ सरवरपालिहिँ उत्तरियउ
पाडिउ सिहि पाहाण तवेप्पिणु
तेँ छुहेवि तावेप्पिणु त जलु
वसुमित्तेण वसुधरिधारउ
नक्कमलेहिँ देहु पुज्जाविउ
समु अबणेप्पिणु सम्मुहुँ नयरहो
आगच्छतेँ संतेँ सतेँ
पुरिपइसारि तेण तहो दिण्णउ

ओलग्गहुँ लगउ गयगामिहे ।
निउ दुट्ठासे हरिवि नरेसरु ।
परियणु निरवसेसु परियत्तउ ।
सो पर एक्कु पइट्टउ काणणु । ५
गउ हरि पट्ट पुण्णेणुववरियउ ।
गइडु विउलु पाणियहो भरेप्पिणु ।
पहसमदेहु सेयसच्चयमलु ।
पहावेप्पिणु चक्कवइ भडारउ ।
निम्मलु नियसवलु भुँजाविउ ।
निउ दुत्थियविद्वन्नघणपयरहो । १०
भिच्चि किउ उवयारु सरते ।
नियकरक्कणु एक्कु रवण्णउ ।

घत्ता—इउ आवणि विक्किणिवि जीवहि जाहि लएप्पणु ।

मिलियसेन्न नरनाहु गउ घरु एव भणेप्पिणु ॥५॥

६

सीहासणि अत्थाणि निविट्टे
वसिकयनिरवसेसभूवालें

हक्काराविवि पालियसिट्टे ।
आरक्खिउ पउत्तु पयपालें ।

पुरि पइसंतहो मणिवेयडियउ
 तं जाएप्पिणु चोरु वियाणहि
 गउ आरक्खिउ रायाइट्टुउ
 तेण धरेवि झत्ति बधाविउ
 एहु सामि सो तक्करु पाविउ
 भासिउ हउं तुह तुट्टु निरुत्तउ
 सो पभणइ महु माय महीवइ
 वुत्तु नरिदे लेवि इहावहि
 ता गंतूण थेरि तेणाणिय
 भणिउ माए उवयारु वरिट्टुउ
 मग्गि मग्गि जो वरु पडिहासइ

महु करकंकणु कत्थइँ वडियउ ।
 निच्छएण न तो तुहँ जाणहि ।
 तं विक्कतु हट्टि सो दिट्टुउ । ५
 नेवि समोसु नरिदहो दाविउ ।
 ता चक्केसरेण मेल्लाविउ ।
 मग्गि मित्त ज चित्तायत्तउ ।
 ज मग्गइ त देवि ह्यावइ ।
 सज्जण नियजणेरि महु दावहि । १०
 सइँ पुहईसरेण सम्माणिय ।
 किउ तुह पुत्ते तें हउं तुट्टुउ ।
 भासइ नियवयणेण महासइ ।

घत्ता—जइ अम्हहँ सपसाउ तो पहु एत्तिउ किज्जउ ।

नियधरु आइ करेवि चोल्लय-भोयणु दिज्जउ ॥६॥

१५

७

ता सुविहइए जणमणहरणहिँ
 निययरसोइए भुजावेप्पिणु
 सम्माणोप्पिणु भुवणाणदे
 महएवीघरु आइ करेप्पिणु
 गेह गेह पई भुजेप्पिणु
 महिलाण छन्नवइ वरिट्टुइँ
 सहसइँ पट्टणाहँ अडयालइँ

ण्हाविवि पुज्जिवि वत्थाहरणहिँ ।
 पउरयरं च सुवण्ण देप्पिणु ।
 भणियइँ बिन्नि वि ताई नरिदे ।
 सव्वदेसगामेसु भमेप्पिणु ।
 पुणु जेमेज्जह महु धरि एप्पिणु । ५
 [देसहँ सहस दुतीसइँ सिट्टुइँ]
 खेडहँ सोलह ताई विसालइँ ।

घत्ता—पुरवराहँ चउवीस कंचणपीणियनीसहो ।

सहसइँ चउवाणवइँ होंति असेस महीसहो ॥७॥

८

नव पवरायर रयणपसाहण
 धणकणपउरहँ सहलारामहँ
 विरइयनाणाभक्खपयारहँ
 चउरासी लक्खइँ गुणसहियहँ
 चउरासी कोडिउ सुपसत्थहँ
 अट्टारह कोडिउ राउत्तहँ
 आयरेण धरि धरि भुजतहँ
 ७ १ नवरिद्धइ ।

सोलह सहस भणिय संवाहण ।
 कोडिउ छन्नवइउ वरगामहँ ।
 सहसइँ तिण्णि [निउण-] सूयारहँ ।
 मत्तकरिदहँ रहवररहियहँ ।
 पाइक्कहँ संगामसमत्थहँ । ५
 अवरहँ पडिसेवयहँ अणंतहँ !
 वसुवसणाहरणाइँ लहंतहँ ।

ताण महाकल्लाणु मुणंतहें
को जाणइ कयाइ पुणु आवइ
ससारम्मि अणति भमंतउ

चक्कवट्टिपरि [-वारु] गणंतहं ।
तिह माणवु मणुयत्तणु पावइ ।
दूसह दुक्खसयाइँ सहंतउ । १०

घत्ता—एउ वियाणिवि पत्तु मणुयत्तणु मा नासह ।
विसयासत्ति मुएवि अरुहधम्मु अब्भासह ॥८॥

॥ चुल्लयक्खाण गद ॥१॥

९

पुरवरु सब्बपयारहिँ सारउ
निवइ नयालउ अरिसयदारउ
तेण तम्मि पट्टणि सउ दारहें
थभह [दारि दारि] गुरुभरघर
थभि थभि असियउ विसालउ
एक्केक्कहें असियहें जिणारहें
रमइ सया वि समप्पियगहणउ
सव्वदारथभसियजूयहें
गपि दिएणेक्केणोलगिय
जइ तुम्हहें सब्बहें समु दाइउ
तो सप्पुरिसहो त महु कसम
त पडिवन्नु तेहिँ ता पडियउ
दिन्नउ धणु परिओसिउ बंभणु
दिव्वञ्जुणीए सुईउ पढंतउ

मगहादेसि अत्थि सयदारउ ।
जयपसिद्धु नामें सयदारउ ।
कारिउ मणिमयतोरणधारह ।
एयारह एयारह सय वर ।
नवइ नवइ छह छह सोहालउ । ५
एक्केक्कउ पेडउ जूवारहें ।
वैसयणु व परवच्चणपवणउ ।
पासि सिरी सु होइ' जमदूयहें ।
ते जूयार पढेप्पिणु मगिय ।
आवइ एक्कु वाउ मुहदाइउ । १०
देज्जह सब्ब वि सब्बमुहकरु ।
सव्वहें एक्कु दाउ विहिपडियउ ।
बोल्लिउ जामु न कि सो सज्जणु ।
अच्छिउ पुणु परिवाडि नियंतउ ।

घत्ता—एक्क वार जइ कह व पुणु समु दाइउ आवइ । १५
तिह मणुयच्चु पुणो वि जीवु किलेसईँ पावइ ॥९॥

॥ एवं पासयक्खाणं गद ॥२॥

१०

जंबूदीवु पल्लु विविहन्नहिँ
देवेणेक्कें हायणि हायणि
जणमणविभयहेउ महल्लउ
न उ पुणु माणुसजम्महो निगउ
ताउ समाणिवि परिवाडिए पुणु

भरिउ निरंतरु नाणाघन्नहिँ ।
अवणिज्जंते एक्केक्कए कणि ।
सो ह्नु कयाइ समप्पइ पल्लउ ।
जीउ अणेयलक्खजोणीगउ ।
परिपावइ मणुयत्तु सुहावणु । ५

६. १ होह ।

अहवा एव धन्नकलाण
अत्थि अउज्झानयरि नयालउ
तासूवरि रायगिहपुरेसरु
सुविहाणहो निमित्तु भयभीयण
सव्वहिं^१ नियनियाई निवकेरण^२
जियसत्तु वि पुरु लेहूँ न सक्किउ
गउ पल्लट्टिवि निययनिवामहो
मग्गिउ अन्न जणेहिं पउत्तउ
एक्कहिं मिलिउ केम ओलक्खहिं

कहियव्व सोयारजणाण ।
पुहईवइ पसिद्ध पयपातउ ।
गउ रूसेवि जियारि नरेसरु ।
नेप्पिणु मयलपयाण विणीयण ।
धम्मइं निद्वियइं कोट्टागारण । १०
तहो निट्ठाहु निएप्पिणु सक्किउ ।
हई सति रायपुरदेसहो ।
निवणं वियाणिवि लेहु निरुत्तउ ।
त परिच्छेइउ होवि विलक्खहिं ।

घत्ता—विबिहजोणिसम्मेषु मिलिउ न जीउ वियक्कइ । १५
तिह निव्वाहिवि लेहूँ नरभवसम्मु न सक्कइ ॥१०॥

॥ एव धन्नकलाण गद ॥३॥

११

पुरि सयदारि दारि एक्कक्कय
खलयहूँ खलण खलण जूयारहूँ
तहिं जूयारिउ नामे वडयउ
सो सथल वि ते नियधणु देप्पिणु
एक्कहिं वामरि सव्वु जिणेप्पिणु
गय जूयार अमेस विनासिवि
ते जूयार कवड्डा कत्तउ
एक्कहिं मेलहूँ जीउ समत्थउ
अहवा एउ एम पयडिज्जइ

पच पच सय सोहगुरुक्कय ।
पच पच सय परवेयारहूँ ।
अत्थि पउरधणकणसचइयउ ।
जूउ रमावइ लाहु मणेप्पिणु ।
वमु कत्ताउ कवड्डा लेप्पिणु । ५
थिउ वडयउ अप्पाणउ दूसिवि ।
वाउ कया वि हु होइ निरुत्तउ ।
न य पुणु माणुसजम्मु पसत्थउ ।
जणहो कहाणउ भति हणिज्जइ ।

घत्ता—निल्लक्खणु नामेण चिरकयकम्मे जूरिउ । १०
तम्मि चय नयरम्मि अत्थि एक्कु जूयारिउ ॥११॥

१२

सो अणुवर्षे रमइ सयाइ वि
एक्कहिं वासरि कहमवि जित्तउ
दुत्थियदीणहूँ निक्कप्पडियहूँ
हरिसियचित्ते तेण विचित्तउ
ताणु चैव वेलाणु विणिग्गय

पर सुदणे वि न जिणइ कयाइ वि ।
सव्वहूँ सव्व कवड्डाकत्तउ ।
नाणादेमागयकप्पडियहूँ ।
दिन्न वराडय तेत्तउ कत्तउ ।
सयल वि ते निय-निय-निलयहो गय । ५

१०. १ सव्वह । २ नियकेरए ।

तेसु गएसु तेहिँ घग्घाविवि
कत्तउ ताउ वियक्खण वडुय
भणइ अलक्खणु ते मईँ देसिय
कहिँ लब्भति काईँ किर किज्जइ
कि बहुवित्थरेण जिह जाणहि

निल्लक्खणु पउत्तु मन्नाविवि ।
लेवि मोल्लु ते देहि कवडुय ।
दीणहँ दिन्ना ते वि हू पवसिय ।
[सुणिवि जुआरहिँ पुणु वि भणिज्जइ ।]
तिह निच्छउ जोएप्पिणु आणहि । १०

घत्ता—कह वि हू विहिजोएण ते मेलवहँ अलक्खणु ।

तरइ कयाइ न जीउ माणुसजम्मु सलक्खणु ॥१२॥

॥ जूदक्खाणं गदं ॥४॥

१३

भरहो सयरो पहु महवतो
सती कुथू अरु अरनामो
हरिसेणो वक्को नयसेणो
एयाण एक्केक्को दिन्नो
ते देवा मणिणो तक्काया
कहमवि पुणु एक्कक्क कयाई
अहवा एव रयणक्खाण
वणिओ नामे सायरदत्तो
सिघलदीव गयउ समित्तो
इतहो जलजाणेण रउट्टे
पुणु तल्लाहु व दुल्लहु^१ लोए

तह य सणक्कुमारु नयवतो ।
नवनिहिनाहु सुभूमो पउमो ।
बभदत्तु अरिखेयरसेणो ।
चूलमणी देवेहिँ रवन्नो ।
जीवा ते^१ बारह भूराया । ५
सघडति नउ माणुसजाई ।
वत्तव्व भुवणम्मि पहाण ।
चितियअत्थोवायपयत्तो ।
तत्थेक्क माणिक्क पत्तो ।
पडिद त हत्थाउ समुद्धे । १०
नरभवु बहुसजोयविओए ।

घत्ता—सुविणुण रज्जविलामु कव्वाडियहो जहा तह ।

एक्कसि माणुसजम्मु पुणरवि पाविज्जइ कह ॥१३॥

॥ रयणक्खाणं गदं ॥५॥

१४

ससिवेहु व दुल्लक्खु नरत्तणु
अह त कोइ कयाइ वि विधइ
मायंदीपुरि पउरसहायहो
दोवइ कउरववंसभवित्ति व
जिणिवि सब्वसंगामसमत्थे

को आसंघइ पावियकित्तणु ।
न पुणु जीउ मणुयत्तणु संघइ ।
धीय सयवरि दोवयरायहो ।
विधिवि चंदवेहु धरकित्ति व ।
लइय रइ व्व मणोहरि पत्थे । ५

॥ सिविणक्खाणं गदं ॥६॥

१३. १ से । २ बहुल्लहु ।

महव सुदंसणु चक्कु सुभूमहो
जीवा तक्काइय तहो रक्खण
पुणु पुब्बावत्थाए असेमहं
एयाणं कयाइ मेलावउ

चक्किहं अतुलपरक्कमभूमहो ।
जक्खदेव पालियसेवाखण ।
कम्महं नोकम्माण पएसहं ।
होइ न माणुसभवह सुहावउ ।

घत्ता—इय दुल्लह्ण मणुयत्तु पावेप्पिणु जो मूढउ ।

१०

न करइ धम्मु दुरते अच्छइ सो भवे छूढउ ॥१४॥

॥ चक्कक्खाण गद ॥७॥

१५

मुम्मट अज्झमलोए महत्तए
अत्थि सर्यंभूरमणु पहाणउ
चम्मु वि तप्पमाणु तहिं कच्छउ
नामि नंदु एक्कनयणुल्लउ
तत्थेच्छाए तेण अच्छते
अजिणहो छिहं रवि आलोइउ
आणिवि त अच्छरिउ ससयणहं
ता त नट्टउ नेव नियच्छइ
जोउ वि पुणु वि वेइ गुणसासणु

सव्वदीवसायरपज्जतए ।
भीयरु रयणायरु अपमाणउ ।
निवमइ मनिले अईव अनुच्छउ ।
बहुपियपुत्तमित्तसयणुल्लउ ।
कहमवि बहुकालेण समत्ते ।
किमिणं नियमणु विभइं ढोइउ ।
दसइ जा विप्फारियनयणहं ।
अह कहमवि कयाइ सो पेच्छइ ।
नियउ नरत्तसूरु तमनामणु ।

५

॥ कुम्मक्खाण गद ॥८॥

पुव्वसमुहे समिल अवरत्तवि
ताण कयाइ पुणो वि पयत्ते

जूउ निहित्तउ गुरुवेलारवि ।
सगमु जीवहो नउ मणुयत्ते ॥

१०

॥ जुगक्खाण गद ॥९॥

सव्वचक्कवट्टीण पहाणउ
कय परमाणुय तहो भेएप्पिणु
न मिलइ सव्वभवतरसारउ

दडरयणु चउहत्थपमाणउ ।
गय वि कयावि मिलति पुणप्पिणु ।
माणुसजम्मु तिलोयपियारउ ।

॥ परमाणु-अक्खाण गद ॥१०॥

घत्ता—दसणु नाणु चरित्तु मुणिवि एउ अब्भासह ।

१५

अडदुल्लह्ण मणुयत्तु पावेप्पिणु म विणासह ॥१५॥

॥ इमे दस दिट्ठंता मणुयलभस्स ॥

१६

जह वालो जपतो कज्जमकज्ज च उज्जुय भणदि ।

तह आलोचेदव्व माया मोस च मोत्तूण ॥ [भ० आ० ५५३]

जह यथा येन विधिना बालो अपत्यं जंपती जल्पन् सन् कञ्जमकञ्जं च कार्याकार्यं च हिताहितं च उज्ज्वलं प्रगुण प्राञ्जलमित्यर्थः भणवि ब्रूते । तथा तेनैव विधिना बालोचेदवच्छं बालोचनीयम् गुरोः प्रकाशनीयं कृतावद्यम् । किं कृत्वा ? भोत्तूण मुक्त्वा । किं तत् ? मायावचनं मोसं व्यलीकं च । एत्थक्खाणं । जहा—

कोसंबीपुरि पहु जयपालउ
दुट्टपक्खवणदहणदवाणनु
वणिजणकुलकमलायरनेसरु
सायरदत्त कत तहो सुंदरि
पुत्तु समुद्धदत्तु मणमोहणु
सव्वकालकयदुक्खियभावणु
गेहिणि सोमा मोमउ नामे
दोहं वि बालहं ताहं सामायउ
एक्कहिं दिणि रमत रजियमण
विविहाणग्घविहमणलोहे
भवणब्भतरि अत्थु लएप्पिणु
एत्तहे पियरडे त अर्नियनई
जोइउ सव्वत्थ वि न नियच्छिउ

घत्ता—एत्थतरि रममाणु नयणाणदजणेरिउ ।

आयउ वावणपुत्तु घरु सुहितायहो केरउ ॥१६॥

१७

अलिगिवि बाहुल्लियनेत्तप्र
पियवयणहिं लालेप्पिणु पुच्छिउ
कहिं सुसोहमय^१ तुह पियसहयरु
कहिउ तेण आहरणई लेप्पिणु
गेहब्भंतरि मित्तु महारउ
ता जाणाविउ दुज्जसवत्तहो
तेण वि हक्कारिवि आरक्खिउ
तं निसुणेवि दुट्टजमदडे
जोयतेण दिट्ठु सोमालउ
ता रुट्ठेण तेण कयनायहो
राएण वि रूसिवि सो पाविउ
जिह पुच्छतिहे ताहे पउत्तउ
१६. १ पावेण । १७. १ सो सोहे मय ।

जयमइ भज्ज मणोज्ज गुणालउ ।
कोट्टवालु जमदंडु महाबलु ।
सायरदत्तु सेट्ठि गढ्भेसरु ।
नं अरवइण्ण का वि मुरसुंदरि । १०
जायउ उयरि ताहे निरु सोहणु ।
अवरु वि अत्थि तत्थ वणि वावणु ।
नदणु तामु कम्मपरिणामे ।
मित्तत्तणु वड्ढियअणुरायउ ।
गय वावणुगेहहो वेत्ति वि जण १७
तेण समुद्धदत्तु दुम्मेहे ।
मारिवि गड्ढिउ खड्ढु खणेप्पिणु ।
सजायाई समाउलचित्तई ।
घरि घरि सव्वु को वि आउच्छिउ ।

२०

अंके करेप्पिणु सायरदत्तप्र ।
वच्छ बहुय वार कहिं अच्छिउ ।
पुत्तु समुद्धदत्तु महु सुहयरु ।
निक्खउ महु ताएं मारेप्पिणु ।
अच्छइ मायरि पुत्तु तुहारउ । ५
ताप्र रुवतिप्र सायरदत्तहो ।
सयलु वि वावणवइयरु अक्खिउ ।
[जाइवि वावणभवणु समडे ।]
मोडियगलु गयासु वणिबालउ ।
निउ बधिवि समीवु सो रायहो । १०
सकुडुंवु वि सहसा खंडाविउ ।
बालि वइयरु जो जिह वुत्तउ ।

पत्ता—सिह् सिरिचदजसस्स कि पि नेव गोवेवउ ।
सघाहिवहो नवेवि नियदुच्चरिउ कहेवउ ॥१७॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहसाले । ललियवयणमाले अन्थसदोहसाले ।
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिअतोसे ।

भुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते ।
नवमो नरत्तलंभे दस दिट्ठंणण सघीमो ॥

॥ सध ९ ॥

संधि १०

१

अच्छीणि सधसिरिणो मिच्छत्तनिकाचिदेण पडिदाइ ।
कालगदो वि य सतो जादो सो दीहससारी ॥ [भ. आ. ७३६]

अच्छीणि चक्षुषी लोचन इत्यर्थं । पडिदाइं भूमौ पतिते । कस्य ? संधसिरिणो सधश्री-
नाम्नो मन्त्रिणः । केन ? मिच्छत्तनिकाचिदेन मिथ्यात्वदृढबन्धकारणेन । कालगदो संतो मृत्युगत-
सन् जाबो यातो दीर्घससारी महाससारी ।

५

तिविहेण नवेवि भुवणत्तयगुरुकमकमलु ।
आहासमि कि पि आयण्णह मिच्छत्तफलु ॥धुवय॥
अधविसण्ण सिरिपव्वयहे पच्चिमे पुरु वल्लूरु ।
अत्थि पसिद्धउ भुवणयले दुत्थियदुहनिन्नलूरु ॥दोहउ॥

जसहरु नामेण तत्थ निवड	महएवि वसुधरि हसगइ ।	१०
उप्पन्न पुत्त तहो तिन्नि वर	धम्मत्थकाम नं कामसर ।	
एक्कहिं दिणे निण्वि विलीणु घणु	सजाउ राउ वइरायमणु ।	
गउ एहु मणोहरु मेहु जिह	जाएसइ अवरु वि सब्बु तिह ।	
समारहो एहावत्थ जहि	कि कीरइ इह रइवुद्धि तहि ।	
कि बह्णणा सासय जेण गड	पाविज्जइ किज्जइ तम्मि मइ ।	१५
इय चित्तिवि रजियजणमणउ	वाहारि वि अणतवीरु तणउ ।	
फहुणा पुउत्तु पिमुणतयरा	पडिगाहहि नदण रज्जधुरा ।	
हिउ साहमि जामि परत्तहिउ	विग्गभाडमि कम्मकलकहिउ ।	
आहासइ पुत्तु पवित्तमइ	जा ताय तुज्जु सा महु वि गइ ।	
खलरज्जे कि पि न कज्जु महु	पई विणु जणेर केवलउ दुहु ।	२०
सिरिधरेण वि विउसदुगुच्छियउ	दिज्जतु वि त न समिच्छियउ ।	

घत्ता—पियचंदहो देवि रज्जु सपुत्तु नराहिवइ ।
केवलिहे समीवे वरदत्तहो सजाउ जइ ॥१॥

२

जसहरु दुद्धरु चरेवि तउ उप्पाएविणु नाणु ।
कम्मकलंकविवज्जियउ गउ काले निब्बाणु ॥

तहो तणउ अणतवीरु सवणु
 दरिसतु जणोहहु धम्मदिसि
 आवेप्पिणु सिरिगिरिसिहरि थिउ
 उज्जाणि वसति वसतभरं
 अइमुत्तयमडवम्मि रसिउ
 विसवेयणाप्र पाणेहिं चुउ
 हा रज्जभमु सजाउ किह
 जसहरमहरायपहूइ [वइ]
 डय भणिवि गवेसहं कज्जकर

सव्वत्यसिद्धि गउ सुद्धमणु ।
 विहरतु सतु सिरिहरु वि रिसि ।
 एत्तहे पियचदु विणोयहिउ । ५
 मणहारिमहुरमाहवियसरे ।
 नाडउ नियतु अहिणा डसिउ ।
 चितापवत्तु कुलमति हुउ ।
 अन्नो न धुरधरु अत्थि इह ।
 वट्टति कत्थ पग्गोयरइ । १०
 सपेसिय सव्वदिसामु नर ।

घत्ता—पावेप्पिणु मुद्धि आहिडिवि महि किकरहिं ।
 आवेप्पिणु वत्त सपाइय सगयकरहिं ॥२॥

३

सामि जसोहरु मोक्खपउ तोडेप्पिणु भवपासु ।
 गउ अणतवीरो वि मुणि पचाणुत्तरवासु ॥

सिरिहरु भयवतु करतु तउ
 निसुणेवि एउ आणदियउ
 वइयरु पउत्तु जो जेम भउ
 अन्नो न तुम्ह वसम्मि नरु
 संजाउ वसवुच्छेउ पहु
 अणुदियहु सव्ववावारचुउ
 पालिज्जइ जइ राएण पया
 पुज्जिज्जहिं जइ निद्धयरया
 वारिज्जइ पररामासु मणु
 भोगोवभोगपरिणामवउ
 बहू एवमाइवयणेहिं मणु

अच्छइ सिग्गिपव्वइ पहयरउ ।
 गउ तत्थ मति मुणि वदियउ ।
 पियचदु कयतहो पासु गउ । ५
 जो जोगु पडिच्छइ रज्जभरु ।
 जणणीबहिणीउ लोयनिवहु ।
 अच्छइ विलवतु अणाहु हुउ ।
 गुणवतभत्ति सव्वण्हुपया ।
 मग्गतहं दिज्जइ अत्थु सया । १०
 वहवधणमोसवयणमुयणु ।
 जइ किज्जइ तो गेहे वि तउ ।
 सचालिउ आणिउ मुणि भवणु ।

घत्ता—अह कन्नविसेण जणु आघत्तु न किं करइ ।

सुर पिवइ कवालि दुलहु सिरित्तणु परिहरइ ॥३॥

१५

४

उच्छवेण अहिसेउ तहो करिवि निबद्धउ पट्टु ।
 दुज्जणु चित्ति चमक्कियउ हरिसं सुयणु विसट्टु ॥

जं मुडिण पट्टनिबंधु सिरं
 मुंडव्वनरेसरु तेण तहो
 किउ सिरिहरेण तउ तम्मि नण
 तहो जाउ नाउ दुक्कियहरणु
 सो वसु तदाइ विमुक्करउ
 केवलु विहारितित्थकरहो
 उप्पण्णु वियक्खणेहिं थुणिउ
 तहिं वंसि अणेय नरिद ह्य
 उप्पण्णु पुणो सपयपउरे
 नामे धणसेणु नराहिवड

किउ विप्फुरंतमणिमउडधरे ।
 सजायउ नाउ मज्झि जणहो ।
 सिरिपव्वउ तेण पसिद्धु जण । ५
 अज्ज वि जाएप्पिणु नियण जणु ।
 मुडियवसो त्ति पसिद्धि गउ ।
 नेमिहि वरदत्तहो गणहरहो ।
 मुडियवसो वि सो वि भणिउ ।
 मुइ धम्मसील कालेण चुय । १०
 अघाण देसि धन्नयडपुरे । ।
 साहियनियबलेण पराहिवड ।

घत्ता—सुदरमइ मव्वसत्थपुराणायमकुसलु ।

सो सावउ परमु जिणमुणिपायकमलभसलु ॥४॥

५

अणुदिणु तेणत्थाणे जणु धम्मस्सवणु करेवि ।

सयलु वि जिणधम्मम्मि दिट्ठु किउ मिच्छत्तु हरेवि ॥

विहिंवसिण तत्थ केणावि किउ
 पाविट्ठु दुट्ठु सो बुद्धसिरि
 तहो परमोवासगु मंघसिरि
 सुय सुदरि नामे बुद्धिमइ
 दूरुज्झावि बुद्धहो धम्मु ह्य
 सघसिरि एक्कु पर दुट्ठमणु
 जामाउ धम्मसविन्नमइ
 पर तो वि मणा वि न मणु चलड
 नियधवलहरोवरि एक्कदिणे
 चारणमुणिगुण वण्णतु गुणि
 तामवहिनाणसयलत्थमुणि

गुणगणहो मज्जे दोसम्मि थिउ ।
 थिउ एवि भिक्खु दुम्मग्गगिरि ।
 निवमति तासु पिय कमलसिरि । ५
 महएवि नरिदहो सा सुमइ ।
 दिढ माविय मालडमालभुय ।
 मन्नइ नउ केम वि देउ जिणु ।
 दक्खालइ तहो जिणधम्मगइ ।
 बलवतउ कम्मु न अन्न लइ । १०
 नरवइ समति अवरण्हखणे ।
 जामच्छइ घणगभीरझुणि ।
 णहि एत नियच्छिंवि सुद्धगुणि ।

घत्ता—ते आलोएवि सहसुट्ठेवि नरेसरेण ।

अइमुहु पइसत गंपिणु पणवेप्पिणु सिरेण ॥५॥

१५

६

कर मउलेवि पउत्तु पहु एह करेवि पसाउ ।

अणुकपाण सकिंकरहो दरिसह धम्मसहाउ ॥

तं वयणु सुणेप्पिणु सपरहिय
रिसि पासाओवरि ओयरिय
अणवरउ पयासियधम्मकहु
निवमणु मुणेवि कयकुवहवह
जिह मति सब्बसदेहचुउ
गय रिसि नरिदु परिओसियउ
धम्मो सि तुम ह्यदुग्गइउ
तव धम्मगहणे महतु महु
कि बहुणा पई अत्थाणियए'
वित्ततु कहेवउ एउ सयलु
जिह लइउ धम्मु सोहणु जिणहो

आयासहो लोयत्तयमहिय ।
निवदिन्नि वईसणि वइसरिय ।
पणवेप्पिणु पुरउ निविट्ठु पहु । ५
तिह कहिय मुणिदे धम्मकह ।
सावउ जिणधम्मु लएवि हुउ ।
सहुँ देविणु मामु पससियउ ।
जिणधम्मु जेण दुल्लह लइउ ।
सजायउ मइमयरहर सुहु । १०
कल्लणु नरनियरविराइयए ।
ज दिट्ठउ चारणजइजुयलु ।
जिह होइ चोज्जु सब्बहो जणहो ।

धत्ता—निसुणेप्पिण एउ परमहरिसु उद्धसियतणु ।

आयन्नहि ताय^१ भणइ मति पहसियवयणु ॥६॥

१५

७

बुद्धपहइ कुधम्मु फुडु दूसिवि सयलु सहाणु ।

पयडिब्बिउ पुहईस मई जिणवरधम्मु पहाणु ॥

चारणमुणिजुयलु निहालियउ
भासेसमि सयलु सहायणहो
सप्पहपरिपथिएण कुवहे
हउँ लाइउ जेण सोज्जि पुरहो
इय चित्तिवि बुद्धविहारु जहि
रे दुट्ठ^१ बुद्धसिरि भासियउ
जा जाहि न ह्णमि भणेवि गुरु
ससारमहासमुदतरणु
गयणगणगमणु अईव गुणी
सामीवि ताण परमेसरहो

मई पावपकु पक्खालियउ ।
भणिऊण इण गउ सभवणहो ।
मोहेवि कुजुत्तिहिँ दुब्बिवहे । ५
नीसारमि वेसमि जमपुरहो ।
रोसेण मति सपत्तु तहि ।
पई मज्झु परत्तु विणासियउ ।
सपइ सिवसुहयरु सब्बगुरु ।
महु जिणवारिदसासणु सरणु । १०
पच्चक्ख नियच्छिय अज्जु मुणी ।
मई लइयउ धम्मु जिणेसरहो ।

धत्ता—मणसा वि न अन्नधम्मु पउजियजीववहु ।

मल्लामि न देउ दोसवतु गुरु कयविकहु ॥७॥

६. १ अत्थाइयए । २ ताह ।

७. १ दुदहु ।

८

नीसरु जाहि न जल्य पईं पेच्छमि खल नयणेहिं ।
एउ सुणेप्पिणु बुद्धसिरिं भासिउ पियवयणेहिं ॥

मइवर थिरु थाहि वईसरहि	पच्छा जं रुच्चइ त करहि ।	
को किर पईं रुट्टयम्मि धरइ	पुहईसरु जासु वयणु करइ ।	
इय वयणाहिं कि पि पसण्णमणु	थिउ रायमति उवसततणु ।	५
बुद्धेसं सासणु पोसियउ	तेणावि हसेप्पिणु भासियउ ।	
सुम्मतु सतु रमणीयतरु	परमत्थे कि पि न अत्थि पर ।	
गिरितरुणयराइ सब्बु खणिउ	कि पईं न कयाइ एउ मुणिउ ।	
हरिजालु एहु जाणइ निवइ	दावड मुणि तेणायासे गइ ।	
जइ चोज्जु तुज्जु तो हउं वि बुह	दक्खानमि लग्ग मुणीण सह ।	१०
इय भणिवि तेण आयासि रिमि	दाविय दरिसावियधम्मदिसि ।	

घत्ता—अवरो वि हु तेण इदजालु तहो दरिसियउ ।
आलोएवि सघसिरि माणसि परिओसियउ ॥८॥

९

आलजालु पेच्छेवि इमु सदरिसियसिवसम्मु ।
सुणिवि वयणु पासडियहं छडि म बुद्धहो धम्मु ॥

आयण्णहि सुदर कहमि कह	जाणहि खलु धम्माहम्मु जह ।	
वाराणमि भुवणि पसिद्ध पुरी	एत्थत्थि सरिद्धि जियन्नपुरी ।	
तहिं उग्गसेणु नामेण वरु	धरणीसरु घणसिरिदेविवरु ।	५
तहो सोमसम्मु अब्भसियसुइ	जणे पयहु पुरोहिउ मुद्धसुइ ।	
पोमावइ पिय पच्चक्खसिरि	उप्पन्न पुत्ति तहो लोमसिरि ।	
सा सुंदरि सयलकलासहिया	तायहो अईवमणवल्लहिया ।	
हुय पोढ कुमारि मयणमणहो	किय मारि व दइवे जुवयणहो ।	
तहो सोमसम्मदियवरहो सया	भुजति भगव घरि पचसया ।	१०
किउ ताहं हेउ महु तेण वरु	तहिं भगवु भमतु सुवण्णखुरु ।	
निरु सुदरु न तारुणभरु	नाणाविहसत्थपुराणधरु ।	

घत्ता—विप्पच्चियपाउ बहुपरिवायहिं परियरिउ ।
आवेप्पिणु सोमसम्ममढासए ओयरिउ ॥९॥

१०

निष्पाएप्पिणु पाउसई वडिडउ ताए पवित्तु ।

त पर भोयणु सो करइ हरिआराहणचित्तु ॥

परिवायपायपकयअलिणा

धुत्तहो जणमणसयपजरहो

पणवेप्पिणु रजियजणमणिया

होज्जमु पुत्तिए सिग्गि पाय परा

काले जते अणुरत्तमई

पच्छन्नहो माणतहो सुरउ

विप्पहो सुय अहिणवपेम्मभरु

निसुणेप्पिणु सोयविसठुलउ

सोयाउलु निवइहे पामु गउ

यजमाणे तेण कयजलिणा ।

नावइ दहिहडिय मजरहो ।

तहो तणय समप्पिय अप्पणिया । ५

अणुदिणु सा भत्ति करेइ वरा ।

अवरोप्परु दोहो वि हूय रई ।

गउ वासारत्तु पत्तु सरउ ।

गउ रयणिहिं लेवि मुवण्णखरु ।

सजायउ विणु मुदुब्बलउ । १०

त निएवि निवहो कारुण्णु भउ ।

घत्ता—पेक्खेवि अवत्थ तारिस तासु सीमु धुणिउ ।

रुट्ठेण निवेण वाहरिवि तलवरु भणिउ ॥१०॥

११

रे रे जोएप्पिणु तुरिउ गपिणु सब्बदिसामु ।

वधोप्पिणु सो दुट्ठमणु आणहि भगउ हयामु ॥

सब्बत्थ वि तेण स जोइयउ

सहो बभणधीयए दावियउ

तेण वि धम्माहियारकरणु

तेण वि उवएसिउ सामियहो

जो कन्नासाहसु आयरइ

पासडिउ सिवपयमइमनउ

ता राएँ रक्खसभीमवणे

उल्लक्क दावि विहियरउ

दुहियाहे समागमेण समुही

कत्थइँ पच्छन्नु पलोइयउ ।

आवेप्पिणु रायहो दावियउ ।

पुच्छिउ कयदोसदण्डकरणु । ५

सनयहो अनीइउवसामियहो ।

किज्जइ न देव तसु आयरइ ।

मारिज्जउ निज्जउ खयमनउ ।

नामेण पिउवणे भीमवणे ।

माराविउ सो लहु विहियरउ । १०

तो सोमसम्मु सजाउ सुही ।

घत्ता—तहे मरणविहाणु सुणेवि सिणेहे सचलिय ।

बभणसुः पाव गय तहिं सोयविसठुलिय ॥११॥

१२

वत्थाहरणविलेवणहिँ भूसिवि पणयपयासु ।
पुणु तंबोल् मुहेण मुहे ताए विइन्नउ तासु ॥

आलिंगिवि चुविवि सुइरु वरु
तारिस निमुणेवि निवेण विहिँ
पुणरवि मोहध पुरधि तहिँ
पुज्जेवि भूइ वरपरिमलेण
पुज्जेविणु पुप्फहिँ मोह किय
त तहो पहाए ताएण तहे
तेणेव विहाणे पुणु वि गया
आलिंगणे कि तहो जाउ सुह
कि भूइजलालिंगणिण ताए
कि तत्थ गवेसतीए वरु

गय बहुविलाउ सा करिवि घर ।
देवाविउ तहो रुट्टेण सिहिँ ।
गय भम्मीकउ भत्ताए जहिँ । ५
सिचेवि वहलचदणजलेण ।
त आलिंगेवि रुयति थिय ।
पेच्छेवि छुहाविउ छारु वहे ।
जलि पिउ नियति बुडुँ वि सया ।
पुज्जाइवि पाविउ पहायदुह । १०
सपत्तउ सोक्खु रुयतियए ।
आलोइउ दावियनेहभरु ।

घत्ता—जिह तत्थ न तीए पत्तउ सुहु सो दिट्ठु नउ ।

तिह बुद्धमयस्स बाहिरस्स किर सोक्खु कउ ॥१२॥

१३

जे निमुणेप्पिणु एह कह बुद्धहो धम्मु मुयति ।
जम्मसए वि न ते नर' सोक्खु कयावि नियति ॥

एवविह अवर कुहेउ सया
गउ पुणु मिच्छत्तहो कम्मगइ
पणवेप्पिणु गुरु मन्निउ खणिउ
रायहो पहाए अत्थाणि मई ।
इय सक्खिवाउ सदेहहरु
ता भासइ भिक्खु उवासयहो
उल्हाविज्जइ न पईवु वरु
तेणेउ भणिज्जहिँ कि पि नउ
कि बहुणा कल्लि म राउलहो

दावेवि तेण तहो कुमइ हुया ।
पेच्छह कि करइ विमुद्धमइ ।
मन्नाविवि मतीसेँ भणिउ । ५
पुच्छतहे चारण दिट्ठु पई ।
दायव्वु किमुत्तरु कहसु गुरु ।
जुज्जइ न पससणु परमयहो ।
सिरि सुगयधम्मु कल्लाणकरु ।
मई दिट्ठु कि पहु कहमि तउ । १०
जाएज्जसु नरनियराउलहो ।

घत्ता—पडिवज्जेवि एहु पणवेप्पिणु तहो भत्तिपरु ।

गउ मति सगेहु गयतमि उइउ तमोहहरु ॥१३॥

१४

एत्तहे सच्चावसरे पहु पसरे सहाप्र निविट्टु ।
आवेपिणु सेवयसयहिँ प्रहु पणवेप्पिणु दिट्टु ॥

उवविट्टु सब्व दुरिओहवह
चारणमुणिगुणसदोह थुउ
परिपुच्छिउ बुज्झिउ धम्मपहु
भासइ पुहईसरु कल्ले मई
उवएसिंवि सजमसील सया
त निमुणिवि विभयभरियमणु
हा हुउ विरूवु ज दिट्टु न वि
ससयकर के वि कहति नर
पहु भणइ न जइ पत्तियह महुँ

पारद्ध नरिदे धम्मकह ।
आयण्णिवि लोयहो हरिसु हुउ ।
कि केण वि ते फुडु दिट्टु पहु । ५
आलोइय चारण सवण सई ।
सघसिरि धम्मि लाएवि गया ।
भासइ समग्गु सामत्तगणु ।
चारण मुणि भव्वभोयरवि ।
कहिँ किर हवति मुणि गयणयर । १०
आउच्छह तो सघसिरि तुहुँ ।

घत्ता—ता राएँ तामु लहु हक्कारउ पट्टविउ ।

न समीहइ एहुँ दुक्खहिँ अक्खि भणेवि थिउ ॥१४॥

१५

पुणरवि कोक्काविउ किकरहिँ तो वि न आवइ पावियउ ।
आऊण पवंचु पएसरेण उच्चाइवि [सहसा-] णावियउ ॥

पुच्छिउ वडिडयमिच्छत्तमलु
थिउ मोणे कि पि वि नउ चवइ
पई मई महगविण [धवल्लहरे]
आलोइय चारण वेत्ति मुणि
पडिगाहिउ धम्मु निरजणहो
कहिँ मुणि कहिँ गयणगणगमणु
भासंतहो तहो सहसति गया
महि पडिय नियच्छिंवि अन्धि पहु
भो अज्ज वि बोल्लहि सच्चु बुह

कि दिट्टुउ चारणजइजुयलु ।
कि कहहि न माम भणइ निवइ ।
अच्छतहिँ चुत्रियअबुहरे । ५
निमुणेवि ताण पई दिव्वक्षुणि ।
त पयइहि कि न मज्जे जणहो ।
मई कि पि न दिट्टु एउ वयणु ।
लोयणमणि विभियलोयसया ।
जपइ दुरुज्झयपावपहु । १०
मा वसुअवत्थ सभवउ तुह ।

घत्ता—कि कहमि न दिट्टु पुणु भणतु दइवे नडिउ ।

सहसा भूमिण आसण।उ कि पि वि पडिउ ॥१५॥

१६

पुणरवि राएँ सो भणिउ अज्जु वि भासहि सच्चु ।
निक्काणु अलिण पुह माम म पावहि मच्चु ॥

दिदुड न पुणो वि भणतु गड
 कि नदइ कहिँ मि असच्चरउ
 मिच्छते को न वियारियउ
 सताणि तासु मिच्छत्तहरा
 अच्छरिउ एउ पेच्छेवि जणा
 राया वि सपुत्तहो रायसिरि
 सुदरमइ पत्थिवसयसहिउ
 पणवेवि समाहिगुत्तपयहँ
 चिरयालु करेप्पणु तवचरणु

महि फुट्ट मरेवि महानरउ ।
 जहिँ सच्चु तत्थ पर होइ जउ ।
 हुउ सो अणतससारियउ । ५
 अज्ज वि जायघ हवति नरा ।
 सजाय सब्व सम्मतमणा ।
 गउ अप्पिवि अप्पणु गहणगिरि ।
 निव्वेयचित्तु च्चित्तियसहिउ ।
 लगउ निच्चलमणु मुणिवयहँ । १०
 महि विहरिवि सबोहेवि जणु ।

घत्ता—सिरिचदजसोहु सुरनरिदनाइदनुउ ।

गोवज्जगिरिदे परमप्पउ सिवसतु हुउ ॥१६॥

विवहरसविसाले गेयकोऊहलाले । ललियवयणामाले अत्थसदोहसाले ॥

भुवणविदिदनामे सब्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुन्दरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते ।

मिच्छत्तफणपयासो दममो सधो समत्तो य ॥

संधि ११

१

भावाणुराय—वेम्माणुराय—मज्जाणुरायरत्तो य ।

धम्माणुरायरत्तो य होहि जिणसासणे निच्च ॥ [भ आ. ७४१]

भावाणुरायरत्तो मनोजुरागानुरक्तः । वेम्माणुरायरत्तो प्रीतिरागानुरक्तः । मज्जाणुरायरत्तो मज्जा मद्या अस्थ्या मध्ये वमा सापि जिनवचनानुरागरञ्जिता यस्य न मद्यानुरागरत्तो भण्यते धम्माणुरायरत्तो धर्मे अनुरागस्तेनानुरक्तः होहि भव त्व जिणसासणे सर्वज्ञवचने निच्चं सर्वकालम् । ५

इय कहिउ कि पि मिच्छत्तफलु
भावाणुरायरत्ताइयहँ
उज्जेणीपुरि अत्थि पसत्थउ
तेण समुद्दत्तनामान्हो
परिणिय नवजोव्वण कि सीमइ
सा पुव्व पउत्त फणिसेणहो
वग्गिवि ताहे खेरि सो लेप्पिणु
एक्कहिँ दियहे कयाइ मुहान्ण
थिउ पडिमाजोएण विराइउ
वइरु सरैप्पिणु सायरदत्तहो
धल्लेप्पिणु अप्पणु धावतउ
गउ नयरहो अब्भतरि तलवरु

पणवेप्पिणु देउ विमुक्कमलु ।
वावन्नणु करमि महामउयहँ ।
सायरदत्तु सेट्ठि वहुअत्थउ ।
पुत्ति पियगुसिरि त्ति गुणालहो ।
जाहि समाण अन्न नउ दीसइ । १०
वणिउत्तहो कुलमाणपवीणहो ।
थिउ तामुप्परि माणु करैप्पिणु ।
सो उववासिउ र्गपि जिणालए ।
नागसेणु ता तेत्थु पराइउ ।
हारु कसोवरि निच्चलचित्तहो । १५
मुट्ठउ मुट्ठउ एउ भणतउ ।
धाविउ त मुणेवि पहरणकरु ।

धत्ता—नाणाविहविग्घविणासकरे

सो तेण सहारु निरिक्खियउ

जाएप्पिणु तेण जिणिदहरे ।

आवेप्पिणु रायहो अक्खियउ ॥१॥

२

जाणतेण वि राएँ निच्छउ
तो वि जणापवाउ रक्खते
मारहु' एहु अत्ति कि दुट्ठे
आयण्णेप्पिणु पिमुणपियारउ

२. १ मारिवि ।

सो नउ परधणहरणसमिच्छउ ।
पेसिय किकर एउ भणते ।
जीवते ते जणियाणिट्ठे ।
जणकोलाहलु हणहणकारउ ।

जिणभावाणुरायरजियमणु
ता तहो तलवरेण जमपासे
लग्गिवि कठि जाउ मणिहारउ
गयणे सुरेहिं स साहुक्कारउ
ससिय पेच्छहो सायरदत्तहो
निरु भावाणुरायरत्तणु

घत्ता—पेच्छेप्पिणु एहु महच्छरिउ
सहु धम्मपालराएण हुउ

॥ एव भावाणुरायरत्तक्काण गद ॥

दुविहाणसणि परिट्ठिउ सज्जणु । ५
असि विमुक्कु खलगलजमपासे ।
विभिउ णिवइ सपुरपरिवारउ ।
पुप्फवरिमु किउ पचपयारउ ।
जिणसासणे मदरथिरचित्तहो ।
सहलउ अस्म परेक्कु नरत्तणु । १०

मिच्छत्तु जणोहे परिहरिउ ।
सिरिसायरदत्तु विवेयजुउ ॥२॥

३

विणीदाजणते जणाणदजाय
मुवण्णाइलच्छीपिओ नायधम्मो
वणी दव्वदत्तो पवित्तो महत्थो
मया सव्ववेइस्म पाएमु तत्तो
कयाई घरे आणजोएण रत्ती
सुरेणारिनाभाइनाणोवसग्गे
सुरिदालय नाई निक्कपभाव
तओ मुट्ठु तुट्ठेण देवेण पूया
नहोगामिणी दुल्लहा दिन्न विज्जा

घत्ता—त चोज्जु निएवि नराहिवइ
परसमउ मुएवि विमुद्धमणु

॥ एवं पेम्माणुरायरत्तक्काण गद ॥

अउज्जापुर अत्थि सव्वत्थनाय ।
नरिदो वरो तत्थ सोवणधम्मो ।
पसिद्धो सयासो समिद्धो पसत्थो ।
तओ सो महापेम्मरायाणुरत्तो ।
थिओ चोहसीवासरे वज्जियत्ती । ५
कए पुव्वसबधवेरेण दुग्गे ।
अल त निएऊण निमुक्कभाव ।
कया तस्स नाणाविहा चोज्जभूया ।
धुओ जाइ कस्सेवत्थेय पडज्जा ।

बड्ढेवि रज्जु सजाउ जइ । १०
जिणधम्मो लग्गु मव्वो वि जणु ॥३॥

४

उज्जेणिनयरीउ नयवत बे भाय
वाणिज्जकज्जेण सावयसमत्थस्स
मालाविहूसणउसीराण सेलाण
विलवतु विलवतु वणे पहउ सो सत्थु
ता विगयवसु बक्खरीनट्टुदिबभाय
सन्नासे जिणसासणे अट्ठिमज्जाणु—
तत्थेव एक्को दिओ सोमसम्मो त्ति

३. १ सिरीनारिनासा' ।

नामेण जिणदत्तवसुदत्त विक्खाय ।
गय उत्तरावहु मिलेऊण सत्थस्स ।
विसमम्मि मज्झम्मि बहुमिच्छमेलाण ।
लूसेवि चोरेहि नीसेमु निउ वत्थु ।
ते बे वि विहिवसेण वणिउत्त संजाय । ५
राएण रत्ताविया मोहतमभाणु ।
सव्वस्सहरणेण सजायगरुत्ति ।

निमुणेवि जिणवयणविहि सो वि तहुँ पासं
पिप्पीलियाइहि किउ सहेवि उवसग्गु

सावयवय लेवि थिरु थियउ सन्नासे ।
मरिऊण सोक्खेण सोहम्मु गउ सग्गु ।

घत्ता—तहो चुउ अग्रयकुमारु हुउ
लद्धण समाहि विसुद्धमण

सेणियनरनाहहो पढमु सुउ । १०
गय बभलोउ ते दो वि जण ॥४॥

॥ एवं मञ्जानुरायत्तक्खाण गद ॥

५

उज्जेणिहे उज्झयदुक्कम्मउ
घणवम्मामहएविण जायउ
जामच्छड बलविक्रमवतउ
ता पच्चतवरेण पयडे
कालमेलमेच्छेण मिलावणि
जे जे केइ निवेण विसज्जिय
पहु पणवेप्पिणु साहकारें
ता सपेसिउ पुहँपाले
गपिणु तेण विरोलिउ परबलु
मारिय के वि नट्टु अरवमाणिउ

होतउ नरवरिदु धणवम्मउ ।
नदणु लकुचु तामु विक्खायउ
सो जुवराउ तत्थ कीलतउ ।
पुव्वविरोहे सगरसोडे ।
करेवि विसालवइस्स हयावणि । ५
ते ते सयल वि तेण परज्जिय ।
मग्गिउ पेसणु लकुचकुमारें ।
नाई कियत्तु विसज्जिउ काले ।
नावइ मदरेण साग्रजनु ।
कालमेलु बंधेप्पिणु आणिउ । १०

घत्ता—त निणवि निवइ परिओसियउ
वाहरिउ भणेप्पिणु अरिडमरु

पुज्जेवि कुमारु पससियउ ।
सव्वत्थ वि अछलु विइनु वरु ॥५॥

६

एक्कहिँ दिणे सच्छदविहारे
पगुलसेट्ठिहे जोव्वणइत्ती
आलोएवि जायअहिनासे
वणिवरो वि वित्तनु सुणेप्पिणु
एक्कहिँ दिणे कीलणु नदणवणु
आयण्णेवि धम्मु निव्विन्नउ
काले सव्वत्थ वि निम्मायउ
निसि महकालुज्जाणे निएप्पिणु
पंगुलेण रिउसुहिसमचित्तहो
लोहसलायउ कयबहुवाहउ

अच्छते तहिँ तेण कुमारें ।
नायवम्म मणहारिणि पत्ती ।
माणिय माणिणि माणविणासें ।
धिउ तुण्हिक्कउ रोसु धरेप्पिणु ।
गउ जुवराउ दिट्ठु मुणि सतणु । ५
समगुणि मुणिचारित्तु पवन्नउ ।
महि विहरेवि पुणो तत्थायउ ।
पुव्ववेरसंबधु सररेप्पिणु ।
पडिमाजोएणच्छतहो तहो ।
सव्वसधिबधेसु समाहउ । १०

सइं किउ एउ सयं विसहिज्जइ अन्नहो कि कासु वि रुसिज्जइ ।
 धत्ता—इय चित्तेवि सुहझाणासियउ मुणि परमखमाए विहूसियउ ।
 धम्माणुरायरत्तासयउ उवसग्गु सहेवि सग्गु गयउ ॥६॥

॥ एव धम्माणुरायरत्तक्खाणं गव ॥

७

एका वि जिणे भत्ती निदिट्ठा दुक्खलक्खनासयरी ।
 सोक्खाणमणताण होदि ह्ण सा कारण परम ॥

एकापि जिने सर्वज्ञे भक्ति निदिष्टा दुःखलक्षणाकारिणी कथिता होदि ह्ण भवति सा ह्ण स्फुट
 कारण निमित्तम् । केया ? परमुक्खुटाना सोख्यानाम् । कथभूताना ? अनन्तानामिति । जिणमति
 प्रक्खाण । तं जहा । ५

मिहिलानयरि पोमरहु राणउ होतउ आसि सुरिदसमाणउ ।
 सो कयाइ सुज्जप्पहु पट्टणु गउ ससेणु पडिवक्खपलोट्टणु ।
 तत्य मुधम्मु मुणिट्टु कहंतउ दिव्वज्झुणी धम्मु दयवतउ ।
 आयण्णप्पिणु विभियभावउ मेल्लिवि कुपहु ह्वेप्पिणु सावउ ।
 पुच्छइ कि अबरु वि एवविहु अत्थि तिलोए धम्मु कहि एविहु । १०
 भासइ साहु अप्पमइ केरिसु धम्मवएसु करइ अम्हारिमु ।
 सुणु चंपापु रि सव्वसुहकरु अचछइ वासुपुज्जतित्थंकरु ।
 समवसरणि तिहुवणजणसामिउ परमणाणि पंचमगइगामिउ ।
 धत्ता—नीसेसत्तसदेहहर नूणाहियहीण अईववर ।
 भुवणत्तयपुज्जिय जासु गिर उवमिज्जइ जए को तासु किर ॥७॥ १५

८

आयण्णेवि एउ अणुराएँ कयविणएण भणिउ मुणिराएँ ।
 निच्छउ जो सामिय तुम्हहँ गुरु वंदणिज्जु सो अम्हहँ गुरुगुरु ।
 अबसमेव दट्टवउ भडारउ दुग्गइदुक्खलक्खविणिवारउ ।
 एउ ण्णेवि भन्तिभरभरियउ सहुँ सेत्ते नयरहो नीसरियउ ।
 उच्चल्लिउ जहिँ देउ निरजणु वासुपुज्जु तिहुवणमणरजणु । ५
 एत्तहे अमियप्पह-विज्जुप्पह पुव्वमित्त सुरवरहँ महप्पह ।
 धम्मविवाएँ जाय विलक्खा बे वि इहागय करहुँ परिकखा ।
 जइ जमयग्गि जमहो चालेप्पिणु पुणु जिणयत्तथिरत्तु निएप्पिणु ।
 धत्ता—नहि जतहिँ सत्तुसीहसरहु आलोइवि नरवइ पोमरहु ।
 अमियपहँ परसमयासियउ विस्साणुलोमचर भासियउ ॥८॥ १०

९

भो भो सहयर एहू निहालहि
 अविघाणियविसेसु नवधम्मिउ
 वासुपुज्जजिणवदणहत्तिण
 तं धम्मंतरिचरहो समित्तहो
 विज्जुपहेण तामु सखेवे
 नयरडाहु दिसडाहु भयंकरु
 दरिसिउ कालसप्पपहखंडणु
 धूलिवाउ अणवरउ पवरिसइ
 मज्जमाणु दक्खालिउ कुंजरु
 हत्थि मुएवि धरेप्पिणु जिणमुणि'^१
 ता तुट्ठेण सुरेण पससिउ
 जोयणधोसभेरि सहुँ हारें
 जाएप्पिणु जरमरणनिवारउ

घत्ता—पणवेप्पिणु जिणु सुपसन्नमणु
 गणहरु होएप्पिणु मोक्खु गउ

भूवइ जइ सक्कहि तो टालहि ।
 सपरिवारु अम्हहें साहम्मिउ ।
 जंतु पइज्जारूहु ह्यत्तिए ।
 वयणु सुणेप्पिणु जिणमयचित्तहो ।
 मायाजालु पयासिउ देवे । ५
 घरगोउर विवाउ असुहकरु ।
 अन्नोन्नु जि ससेन्नभडभडणु ।
 नवघणु नहे चलविज्जु पदरिसइ ।
 कट्ठमे तो वि नियत्तु न नरवरु ।
 धल्लिय झप तेण तहिँ खर्गणि । १०
 कयपवचु' नोसेसु पणासिउ ।
 दिन्नी तहो ह्यरोयवियारे ।
 समवसरणु भव्वोहपियारउ ।

पोमरहु राउ जायउ सवणु ।
 देवेण वि दिढसम्मत्तु नउ ॥१॥ १५

॥ एव जिणभत्तिप्रवक्खाण गद ॥

१०

दंसणभट्टो भट्टो न तु भट्टो होदि चरणभट्टो दु ।

दसणममुयतस्स हू परिवडण नत्थि ससारे ॥ [भ. आ. ७४३]

बंसणभट्टो दर्शनाद् भ्रष्ट नटो नष्ट एव सः । सम्यक्त्वविनाशे यो नष्ट सुतरा स
 नष्ट एवेत्यर्थः । न तु नैव होवि विज्ञापनो भवति चरणभट्टो त्रयोदशविधचारित्र्येण भ्रष्टो विनष्टः ।
 अयि सभावने । यथा सम्यक्त्वविनाशे दूरे नश्यति न तथा चारित्र्यविनाशे नश्यतीति । द्वयो नष्टयोः ५
 को दूरं नटो भण्यते ? सम्यक्त्वेन नष्टः अर्धपुद्गलावर्तप्रमाणं ससारे परिभ्रंतीति नष्टः ।
 व्रतभ्रष्टः षट्षण्डि सागरोपममात्र कालं नष्ट एतद्भ्रष्टिर्न भवति । बंसणं सम्यक्त्व अमुयतस्स
 अमुचमानस्य हू खलु अवधारणं परिवडणं नत्थि संसारे संसारे भवावर्ते न िद्यते परिपतनम् ।
 तस्य दसणभट्टुक्खाण । तद्यथा—

तित्थि अरिट्ठेनेमिभयवंतहो
 रायहो बभरहहो रामिल्लण
 बंभदत्तु नामि विक्लायउ
 चउदह रयणइं नवति निहाणइं

पुरि कपिल्लि अराइकयंतहो । १०
 पट्टमहाएविण सोमिल्लण ।
 चक्कवट्टि बारहमउ जायउ ।
 सिद्धइं मडलाई अपमाणइं ।

६. १ मिणु मुणि । २ कयपवंचु ।

नरवइ निरविसेस विज्जाहर
भोयासत्तहो भोयणकालप्र
सुकइकहाजुत्ति व जाणंतहो
आणेषिणु तहो अग्नि सवन्नउ
दड्डउ तेण महाणससारहो

विहिय जेण देवा वि सकिंकर ।
सूवारेण मुवन्नहो थालए । १५
नाणारसरसोइ माणतहो ।
पायसु पुहईनाहहो दिन्नउ ।
रुट्टउ चक्कवट्टि सूयारहो ।

घत्ता—ता त कठनु आणावियउ
डज्जेवि तेण दुक्खेण मुउ

सिरि खीरु [तस्स] घन्नावियउ ।
रक्खसु सो लवणसमुद्दि हुउ ॥१०॥ २०

११

परियाणिवि पुव्विल्लउ वइयरु
आइउ विविहफलाईं लएप्पिणु
फलरमु आसावेवि सराएँ
कत्थ इमाइ पयासियचोज्जईं
भगवेणुत्तु मज्झ मडियासमे
एयईं अवरारईं वि रससारईं
आयणेषिणु एउ सपरियणु
गउ पहु जलकल्लोलरउद्दहो
तहिँ उवसग्गु तेण पारभिउ
सुमरहि सूययारु उवयारिउ
विजयसेणु नामेण पहाणउ

भगववेसु विरएवि निसायरु ।
दिट्ठु नरिदु ताईं ढोएप्पिणु ।
पुच्छिउ सो अन्नहिँ दिणे राएँ ।
अत्थि फलाईं अईवमणोज्जईं ।
उववणे मज्झ समुद्दहो दुग्गमे । ५
पत्थिव अत्थि अणयपयारईं ।
जलजाणेण फलानायणमणु ।
अब्भंतरु पइसरिउ समुद्दहो ।
भीसणवेससएहिँ वियभिउ ।
हउँ पईं पणुण पएप्पिणु मारिउ । १०
होंतउ रसविसेसविहिजाणउ ।

घत्ता—लइ वल्लहु देउ को वि सरहि
ता सव्वाहारनिवित्ति किय

महुँ अज्जि जियतु न उव्वरहि ।
सामंत मति सन्नासि धिय ॥११॥

१२

विग्घविणासहेउ सिव मुह्यर
मतपहावें चित्ति चवक्कइ
चित्तिवि तेणोवाउ पउत्तउ
जइ जिणिदसासणु न समिच्छहि
ता भीएण तेण जयपुज्जिय
लुहिय कमेण लिहेवि सहावे
ता मारेप्पिणु तेण रसायलि

लग्गउ पहु सुमरहुँ पचक्खर ।
रक्खु वि त मारणहें न सक्कइ ।
मारमि बभदत्त न निरुत्तउ ।
जइ पच वि पय पाएँ पोद्धहि ।
सिद्ध अणाइ मंत अपरज्जिय । ५
वुत्तु नत्थि जिणसासणु पावे ।
घल्लिउ चक्कवट्टि वडवाणलि ।

गउ सत्तमनरयहो निक्किट्टहो

अह कि होइ न दसणभट्टहो ।

घत्ता—इयर वि सामत मतिपमुह

शायंत पंचपहु परमबुह ।

लद्धण समाहि मुएवि वउ

सपत्त सुहेण सुहासिभउ ॥१२॥ १०

॥ एवं दंसणभट्टक्काण गदं ॥

१३

बणि जिणदासु आसि पाडलिपुरि

होतउ जिणपयभत्तउ सुदरि ।

सो कयाइ वाणिज्जहो निग्गउ

भरियभडु कच्चणदीवहो गउ ।

तहिं विढवेवि दब्बु बहु एतहो

कालियदेहु पुव्ववेरे तहो ।

करेवि पयडवाउ घणवद्दु

भासइ सखोहियसायरजलु ।

जइ जीविण्ण कज्जु तो दूसह

जिणसासणु नत्थि त्ति पघोसह । ५

न तो सब्बसरीरहो सारउ

छिदमि उत्तमगु तुम्हारउ ।

आयण्णेप्पिणु एउ परोहणु

अदोनिज्जमाणु मणखोहणु ।

आलोएविणु वणिग्य वियक्खण'

सयल वि कियअन्नोन्ननिरिक्खण' ।

जंपहिं एत्थ काले कि किज्जइ

ता जिणवरदामेण भणिज्जइ ।

घत्ता—अइदुलहु कयावि न भावियउ

जिणदसणु पुण्णहिं पावियउ । १०

मा मुखविरमु ससारभउ

मा वभदत्तगउ सभवउ ॥१३॥

१४

सेट्ठिहे भामिउ एउ मुणेप्पिणु

दिढमण दुविहाणसणु लएप्पिणु ।

करकमलजनि सोसे निवेसिवि

वणि भणाति जिननाहु नमसिवि ।

वच्चउ पलउ पोउ जइ वच्चइ

रक्खस करहि कि पि ज रुच्चइ ।

तो वि अवण्णवाउ भुवणेसहु

करहुं कयावि न अम्हि जिणेसहु ।

ता ताणोवसग्गु जाणेप्पिणु

आसणकपे करणु करेप्पिणु । ५

झत्ति अणावि नामे जक्खे

पेसिउ भव्वजणावइरक्खे ।

चक्कुत्तरकुरुभूमिहे हंतितउ

आरसहस्साधारफुरतउ ।

सिरकमलम्मि तेण सो ताडिउ

पावयम्मु वडवामुहि पाडिउ ।

धरिउ पोउ वरुणेणावेप्पिणु

लच्छि पराइय कलसु लएप्पिणु ।

तुरिउ परोहणु तीरु पराणिउ

देवहिं वाणिवग्गु सम्माणिउ । १०

घत्ता—गयविगघ सब्ब सपत्त घरु

जिणदासे पुच्छिउ जइपवर ।

तेलोकुकु वि तुह बोहम्मि थिउ

कहि सामिय केणुवसग्गु किउ ॥१४॥

१३. १ वियक्खणि । २ निरिक्खणि ।

१५

आयण्णेवि एउ मुणि भासइ
 निमुणि सुयण संपयसंपुण्ण
 अग्गि व अग्गिभूइ नामालउ
 सो वाएण न केण वि निज्जिउ
 कयपइज्जु राएँ वित्थारिउ
 अबमाणेण गपि वणु तावसु
 तत्थ मरेप्पिणु दुप्परिणामे
 मज्झि समुद्दहो जाणिवि खुहे
 तुहँ दिढदसणु देवहिँ पालिउ

वणिहे वइरसबधु पयासइ ।
 चिरु हत्थिणापुरम्मि' रवणए ।
 होंतउ विप्पु जइणपडिकूलउ ।
 पइँ पर सुदरबुद्धि परज्जिउ ।
 करिवि खरारोहणु नीसारिउ । ५
 जाउ अजाणियपरमाणमरसु ।
 हुउ रयणीयरु कालिउ नामे ।
 किउ तउ नेणुवसग्गु रउदँ ।
 पहउ हयासु रहगँ कानिउ ।

धत्ता—निमुणेवि धम्मरुइ मुणिवयणु जणु जाउ सव्वु जिणधम्ममणु । १०
 सुदरमइ निव्वेइ लइउ जिणदासु वणीसरु पव्वइउ ॥१५॥

॥ एव दंसणममुयत्तक्खाणं गद ॥

१६

अवर वि आयण्णह महसत्तहो
 लाडदेसि महुरक्खरभासए
 पुरि गुलि गोद्दहम्मि गुणवत्तउ
 कत तामु जिणदत्त महासइ
 अवरु वि तत्थ परममाहेसरु
 अत्थि नायदत्ताए पसूयउ
 तामु निमित्तेण य सुदरमइ
 जिणदत्तेण भणिउ भो तुम्हँ
 माहेसरसावयहँ सलक्खण

कहमि कहा दसणु अमुयतहो ।
 दोणिमतपव्वयहो सयासए ।
 वणि जिणदत्तु अत्थि जिणभत्तउ ।
 पुत्ति मणोज्ज ताहे हुय जिणमइ ।
 नायदत्तु नामेण वणीसरु । ५
 रुद्दत्तु तहो पुत्तु सरूयउ ।
 मग्गिउ पिउ जाएप्पिणु जिणमइ ।
 माहेसर वरसावय अम्हँ ।
 केरिसु भणु सबधु वियक्खण ।

धत्ता—आयण्णेवि नायदत्तु चवइ जइ किज्जइ तो निच्छउ हवइ । १०
 धम्मो एक्को च्चिय भिष्णु नउ दिव्वस्म वि नत्थि कयावि खउ ॥१६॥

१७

कि बहुणा भणु हउँ वि निरुत्तउ
 एम भणेवि गपि तवसाहहो
 छड्ढिवि सिवपन्नत्तु सपुत्ते
 परिणिवि जिणमइ जिणमउ चत्तउ

लेमि धम्मु सव्वण्हुपउत्तउ ।
 पासि समाहिगुत्तमुणिनाहहो ।
 लइउ जिणिदधम्मु फणिदत्ते ।
 भासइ रुद्दत्तु हरभत्तउ ।

१५. १ एत्थवपुरम्मि ।

हलि मेल्लेवि जयत्तयसेवहो
अन्न न दुग्गइगमणनिवारी
वज्जेप्पिणु गुरुबोहु न केहिँ वि

निरु निरवज्ज इदक्ख हरएवहो । ५
अन्न न मोक्खपरपरकारी ।
हम्मइ अकरणेहिँ गरुएहिँ वि ।

उक्तं च—भवविच्छेदिनी दीक्षा निरवद्या सुनिर्मला ।

नृपशूना हितार्थाय महादेवेन भाषिता ॥

न चातुर्यशतेनापि शार्वा सा हन्यते सती । १०

गुरुद्रोहादृते पुसामित्याह परमेश्वरः ॥

तेण तुम पि मुएप्पिणु' जइणी
वयणु सुणेवि एउ वरइत्तहो

लइ सिवदिक्ख दुक्खसयरीणी ।

भासइ सइ जिणममयविरत्तहो ।

घत्ता—किं पुट्टिहि सामिय सिधुरहो

चडिऊण चडिज्जइ पुणु खरहो ।

लज्जिज्जइ केम सीसु परहो

नाविज्जइ नमिउ जिणंमरहो ॥१७॥ १५

१८

कि बहुणा तेल्लोक्कनमसिउ
अन्नु धम्मु न मणा वि ममीहमि
मा मुज्झहि तुम पि पडिवज्जहि
आयण्णेवि एउ वरु जपइ
मेल्लिवि सामलागि सइवाणउ
जिणदत्तहो दुहियाए पुणो पइ
तो तुहँ पिययम कुरु माहेसरु
पभणइ रुद्धत्तु जइ हुतउ
ता तुहँ करहि केम ता जिणमइ

दुल्लहु मेल्लिवि अरुहपयासिउ ।

दुस्सहदुग्गइदुक्खहँ वीहमि ।

मिच्छादसणु दइय विवज्जहि ।

महु वयणेण एण मणु कपइ ।

को किर करइ धम्मु खमणाणउ । ५

वत्तउ जइ न वि केम वि कपइ ।

अहमवि करमि धम्मु जइणेसरु ।

करहँ न देमि धम्मु अरहतउ ।

जपइ जिणमयम्मि निच्चलमइ ।

घत्ता—जइ हउँ मि न देमि तुज्ज करहँ

कुलधम्मु कवालिहे कम सरहँ । १०

तो मघहि सामि काई करहि

लड अलियइँ वयणइँ परिहरहि ॥१८॥

१९

एव ताण कयाइ पलावे
अन्नोन्न पि कयाइ निसेहे
गए बहुकालए कलिलविरत्ती
जइ जिणभवणु जाहि जइ जइणहँ
तो तइँ हउँ वित्थारमि मारमि
जिणमइ भणइ तुहँ वि जइ गच्छहि

अन्नोन्नं पियधम्मालावे ।

पुणु कलहेण कयाइ सिणेहे ।

भणिय रुद्धत्तेण सपत्ती ।

दाणु देहि निदियपरवइणहँ ।

निच्छउ मदिराउ नीसारमि । ५

हरघरु तवसिहिँ भिक्ख पयच्छहि ।

१७. १ सुएप्पिणु ।

तो निच्छउ अप्पउँ संघारमि
अहवा मा वच्चसु रुदालउ
एव भणेवि वे वि मज्जायए

भुवणे अकित्ति तुज्झ वित्थारमि ।
हउँ मि न जामि कंत चइतालउ ।
सठियाइँ नियनियए निभोयए ।

घत्ता—अच्छंतहँ एव ताहँ भवणि आवेप्पिणु तामेक्कम्मि दिणि । १०
पुरु वेडिवि भिल्लहिँ लाइयउ जणु सयलु किलेसहँ आइयउ ॥१९॥

२०

पयडु हवेवि जलंतजलतउ
आलोएवि समाउजचित्तउ
एत्तिउ कालु धम्मसवाएँ
तो वि नाह मइँ तुज्झुवएसिउ
संपइ जो आयहो उवसग्गहो
भत्तिभरेण तमेवाराहमि
आयण्णेवि एउ बोल्लइ वह
कि बहुणा महु एव पउत्तउ
तिउरहारि मेत्थेवि किँ अन्नहो
करणधरणसंहरणसमत्थउ
अन्न कवणु चउदहभुवणासिउ

रुददत्तघरु सिहिसंपत्तउ ।
जिणमईइँ भत्तारु पउत्तउ ।
गउ अम्हहँ अन्नोन्नविवाएँ ।
किउ न कयाइ मज्झ पईँ भासिउ ।
रक्खइ सो पडु देउ समग्गहो । ५
निच्छउ तामु धम्मु पडिगाहमि ।
भासिउ भज्जे अईव मणोहर ।
परमं दावमि मग्गु निरुत्तउ ।
अत्थि सत्ति रक्खहँ सामन्नहो ।
अन्न कवणु पयडियपरमत्थल । १०
अन्न कवणु सव्वगउ सयासिउ ।

घत्ता—ता जिणमईए गधक्खयहिँ
देप्पिणु हत्थेसु अग्घु रमणु

सुहसलिलेँ कुसुमहिँ चोवखहिँ ।
धुत्तीए भणिउ धुवकरचरणु ॥२०॥

२१

आयहो उवसग्गहु उव्वारहि
एव भणेप्पिणु पहयाणिट्टहो
देहि अग्घु एयग्गु ह्वेप्पिणु
पुव्वमुहेण तेण गुरुसदे
लोकम्मसाखिज्ज'पवन्नहो
जइ माहेसरधम्मु महत्तउ
सुमरणमित्तेण वि भमु फिट्ठइ
निरु निम्मल कम्मक्खयक,री
तो ससहोयर पुत्तकलत्तउ

सकुडुबु वि सामिय साहारहि ।
देवहो पय पणवेप्पिणु इट्टहो ।
एउ सभामिणिवयणु सुणंप्पिणु ।
भासिय चित्ति विचचित्तिरुहे ।
पंचलोयवालहो आयन्नहो । ५
जइ देवाहिदेउ सिवसतउ ।
जइ इच्छाइ तामु जणु वट्टइ ।
जइ निव्वाणदिक्ख तहो सारी ।
मईँ परितायउ पलयहो जंतउ ।

इय अग्रघो वि विहसु तिवारउ
जालासय मेल्लंतु भयावहु

घत्ता—वेळिउ घर भग्गउ निग्गमणु
सहसति म कि पि खेउ करहि

तो वि न कि पि जाउ साहारउ । १०
पवणाइद्धुद्धाइउ हुयवहु ।

पुणु भणिउ ताईं पिउ भीयमणु ।
लइ अवरु वि काईं देउ सरहि ॥२१॥

२२

जो अम्हईं मरणहो उव्वारइ
ता परिवाडिणु हरि कमलासण
अरण वरुण गहू गउरि गणेसर
अवर वि सुर मुमरेवि रवण्णउ
पर मरुमुहि केण वि न निवारिउ
एत्थंतरे विलक्खु असरणमणु
जिणमइ जिणवरसासणवच्छले
अत्थि देउ जलणेण जलतईं
सो कि पहु जो देइ न रक्खइ
संपइ तुहें दे अग्घु जिणदहो

घत्ता—सईं नेत्पिणु ताणतरि वरहो
दोजण [—हैं]दुविह सन्नामु तए

मयणुव' जलणु जलतु निवारइ ।
इद चंद अहमिद हुयासण ।
भगवइ जक्ख रक्ख दिवसेसर ।
आयरेण अग्घजलि दिण्णउ ।
घवसित्तु व पज्जलइ निरारिउ । ५
भासइ नायदत्तु वणिनदणु ।
न वि एत्तियहें मज्जि एककु वि हले ।
जो अम्हईं रक्खेइ मरतईं ।
पावयम्मु पिमुणु व उप्पेक्खइ ।
जेण विमुच्चहें पाणविमइहो । १०

मुयसासुयमुणहें देवरहो ।
भासिउ विच्चासियजिणमयए ॥२२॥

२३

जइ अरहतु महतु महापहु
जइ देवाहिदेउ अजरामरु
वीयराउ परपरमु परावरु
इह परलोयसरणु अमिओवमु
धम्मु महत्तमोक्खसयदावणु
जइ निव्वाणदिक्ख सुहयारी
तो महुं इह सपुत्तभत्तारिहें
एम भणेवि अहोह्विओएँ'
ता तहो तक्खणेण मियसेविणु
सहसा सिहि जलंतु उत्थाविउ

२२ १ महव ।

२३. १ अहोह्विओएँ ।

सिद्धु बुद्धु सकरु भवभयमहु ।
परमप्पउ पयपणयनरामरु ।
जइ तवनिलउ तिलोयरमावरु ।
तेण पउत्तु अईव अणोवमु ।
अत्थि अहिंसाळक्खणु पावणु । ५
ता सुपवित्त भवासुहहारी ।
रक्ख हवेउ निरुत्तउ मारिहें ।
अग्घु देवि यिय पडिमाजोएँ ।
सति पयासिय सासणदेविणु ।
किउ सुहि जणु भिल्लोहु पलाविउ । १०

त निएवि जिणमइभत्तारे पउरयणे राएँ परिवारे ।
जम्मनिवित्ति करेवि कुधम्महो सगहु विहिउ जिणागमधम्महो ।

घत्ता—सिरिचदप्पहु पच्चमगइहे कारणु सासयमुहमुहमइहे ।
सम्मत्तरयणनिद्धूयतमु मा मुयह मणा वि मुणेवि इमु ॥२३॥

विषहरसविसाले णेयकोऊहलाले । खलियवयणमाले अत्थसंदोहसाले ॥

मुवणविदिदणामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहक्के से सुदरे दिण्णतोमे ॥

मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णंतपउदसंजुत्ते ।

दिडसम्मत्तक्खाण एयारहमो इमो संघी ॥

संघि १२

१

सुद्धे सम्मत्ते अविरोदो वि अज्जेदि तित्थयरनाम ।

जादो हु सेरिण्णो आगमेसि भद्दो अविरोदो वि ॥ [भ. आ. ७४४]

सुद्धे सम्मत्ते निर्मले सम्यक्त्वे सति सप्तप्रकृतिविजिते श्रद्धाघने इत्यर्थः । अज्जेदि अर्जयति उपाजयतीत्यर्थं तित्थयरनाम तीर्थकरनामकम् । कोऽसौ ? अविरोदो वि अर्जयतोऽपि । अपि संभावने आस्ता तावद् व्रती व्रतहीनोऽपि सम्यक्त्वविमुद्धो नियमादागामिनि भवे तीर्थकरो भवतीत्यर्थं । ५ जादो प्रादुर्भूत भाव्यपि अविनाभावत् जात इति भण्यते । हु खलु अवधारणे । सेरिण्णो श्रेणिकनामा महाराज । आगमेसि अनागते काले भद्दो संबंज. । पैलोक्यमंगलीभूतत्वान् । अविरोदो व्रतैर्विजितोऽपि । साप्रतमत्र श्रेणिकाख्यानम् ।

ध्रुवकं—पणवेप्पिणु जिणवरु सिद्धिवह्वरु दूरोसारियदुच्चरिउ ।

आयण्णह कहसोहणु जणमणमोहणु आहासमि सेणियचरिउ ॥ ध्रुवकं ॥ १०

खड्यं—जबूदीवि दाहिणे

भारहखेत्ति सोहिणे ।

मगहादेसि सुदर

अत्थि रायगिह' पुर ॥

जहिँ दोमु मणा वि न गुणु जि सब्बु

तहिँ अत्थि राउ पहयारिगव्वु ।

उवसेणिउ नामे परमकित्ति

तहो सुप्पह देवि सुसीलवित्ति ।

हुउ पुत्तु ताहे सेणिउ कुमारु

गुणगणनिवासु पच्चक्खु मारु । १५

पुब्बिल्लु सरेप्पिणु वडरहेउ

पच्चतचरेण पयडवेउ ।

एक्कहिँ दिणि राएँ दुट्ठु आसु

अहिथम्मे सपेसिउ ह्यासु ।

पेक्खेप्पिणु परिओसिउ मणेण

थुउ वाइ निवेण सपरियणेण ।

तत्थारुहेवि दुज्जउ वलेण

गउ वाहियालि कोऊहलेण ।

ता नरहरि हरिणा हरिवि तेण

निउ भोसावणु वणु तक्खणेण । २०

चइऊण तुरउ तरुतलेँ निविट्ठु

तत्थ वि किरायराएण दिट्ठु ।

जमदडे दुट्ठुकयतवामु

सगहिउ नमसिवि निउ निवासु ।

सम्माणिऊण अवित्थसधु

काऊण तेण वायानिबधु ।

जो होसइ आयहे देव पुत्तु

दायव्वु रज्जु तहो तइँ निरुत्तु ।

घत्ता—इय भणिवि मणोहर पीणपओहर तिलयावइ तमहरमुहिय । २५

पेसिउ सुहवट्ठणु [अरिदलवट्ठणु] परिणावेप्पिणु नियदुहिय ॥१॥

१. १ रायणह ।

२

खंडयं—ता तहिँ तीप्र सम तहो
बहुसमएण सरीरउ

रइसोक्खं माणंतहो ।
जायउ मयणसरीरउ' ॥

किउ ताएँ नाउँ चिलायपुत्तु
एक्कहिँ दिणि सक्कसमाणएण
महु पच्छप्र पुत्तहँ मज्झु एत्थु
आहासइ परियाणियसमत्थु
ताडतु भेरि भीभारि तामु
भुजेसइ पायसु सो निरुत्तु
ता तेण परिकखाहेउ सब्बु
हक्कारिवि पच वि सुयसयाइँ
ज ज तुम्हहँ पडिहाइ वत्थु
निसुणेवि एउ पहसियमुहेहिँ

कालेण कुमारु पमाणपत्तु ।
पुच्छिउ नेमित्तिउ राणएण ।
कहि होगइ को रज्जहो समत्थु । ५
जो निव्विसिघासणमत्थयत्थु ।
सुणहाण देतु वरमइपयासु ।
होसइ तुहु रज्जहो जोगु पुत्तु ।
सोहणदिणि करणे सुलगो सब्बु ।
भणियाइँ नरिदे नुयपयाइँ । १०
तं तं निस्संकिय लेहु एत्थु ।
सहसा पुहईसरतणुरुहेहिँ ।

घत्ता—केहिँ वि आहरणइँ हरिकरिरयणइँ गधइँ तंबोलइँ वरइँ ।
लइयइँ सुविचित्तइँ वरवाइत्तइँ केहिँ मि कुमुमइँ सुदरइँ ॥२॥

३

खडय—सेणिओ सिहासणे
आरुहेवि भेरि वरि

मणिगणकिरणुभासणे ।
थक्को काऊण करि ॥

परिवाडिप्र सूयारहिँ कुमार
रायाएसेण सुवण्णथाल
भुजंतहँ ताहँ ललतजीह
आवत निएप्पिणु भीम साण
गभीरु धीरु परि एक्कु थक्कु
साडंतु विणोएँ भेरि दिंतु
जेमिउ बीसत्थउ मइविसालु
जो रज्जहो जोगु अणतविज्जु
इय चित्तिवि दायज्जहँ भएण
मंडलविट्टालिउ एहु पाउ

बइसारिय सयल वि न कुमार ।
दाऊण खीरि वडिह्यरसाल ।
पविमुक्का मंडल नाइँ सीह । ५
सहसा भएण सयल वि पलाण ।
सेणियकुमारु भयभावमुक्कु ।
सुणहाण थोवथोव हसतु ।
जायउ निच्छयमणु भूमिपालु ।
सो सब्बपयत्ते पालणिज्जु । १०
पुहईसरेण जाणियनएण ।
जो देसइ आयहो को वि ठाउ ।

२. १ मयसरीरउ ।

सो हउं वि सुनिच्छउ तासु सव्वु

अवियारु हरंसमि पाणदव्वु ।

घत्ता—इय देप्पिणु घोसण खलमणपोसण नीसारिउ नयरहो तुरिउ ।

तिसभुक्खायामिउ सिधुरगामिउ नदगामु सो पइसरिउ ॥३॥ १५

४

खडय—तत्थ वि भीयहिं विप्पहिं नीसारिउ अवियप्पहिं ।

ता परिवायमढ गउ तेण वि अब्भागउ कउ ॥

ण्हाविउ भुजाविउ विन्न वत्थ

उब्भासिय सकियायमविवत्थ ।

किउ बुद्धधम्मि परमाणुराउ

सुप्पहहे पुत्तु भागवउ जाउ ।

अच्छेवि तत्थ खलकुमयमित्तु

गउ दाहिणदेसहो धीरचित्तु । ५

एत्तहे कचीपुरि डदयत्तु

निवडहं सुविप्पु कयसतियत्तु ।

सुरवडनईहं ण्हाएवि एतु

पंथम्मि सएसहो मिनिउ जतु ।

पणवेप्पिणु सो मुमहुररवेण

पुच्छिउ पुहईसतणुब्भवेण ।

जाएसहि कहिं ता तेण तासु

उवएसिउ कचीपुरनिवासु ।

विप्पेण वि पुच्छिउ तुम्ह कत्थ

कुमरेण कहिउ तेत्थु जि पसत्थ । १०

इय वयणहिं विहिं वि सिणहू जाउ

धेवंतरि पुणरवि रायजाउ ।

आहासइ भो सप्पुरिम मज्झ

चडि खाधि अह व हउं चडमि तुज्झ ।

सोक्खेण जेण नित्थरहं पयु

निसुणेवि एउ अवियाणियत्थु ।

घत्ता—चित्तइ नउ भल्लउ एहु गहिल्लउ पथरीणु निरु फुट्टपउ ।

कि पि वि न वियप्पइ तेण पयपड वयणु एउ उवहासपउ ॥४॥ १५

५

खडय—अतरगि एयविहु णंविज्जवि' तुण्हक्कु' थिउ ।

पहि एक्क बहुकणभर खत्तु निएवि मणोहरं ॥

पुच्छइ कुमार कि खडु खेत्तु

कि खज्जदि खज्जीहदि निरुत्तु ।

कइ कटय वोरिहं कहमु ताय

कि महिसिउ पहणइ एसु वाय ।

कि बड एह अहवा विमुक्क

पिट्टिज्जइ बहु अवराहदुक्क । ५

बहु एवमाइ पुच्छतु जाइ

पर तो वि कि पि न चवइ सुजाइ ।

तरुमूलि सिरोवरि धरइ छत्तु

पहि खघहिं विसहइ उण्हवत्तु ।

पहि पाणहियउ पाणिहिं करेड

जलि परिहेप्पिणु [पुणु] उत्तरेइ ।

पेच्छतु एउ उत्तर न देंतु

गच्छइ कुविओ कोहो जलंतु ।

५, १ एय वि णेविज्जवि । २ तुण्हक्के ।

संपत्ता कंचीनयरु वे वि

गउ घरु त पुरबाहिरु थवेवि । १०

घत्ता—परिम्रोसियसज्जणु दूमियदुज्जणु मिलिउ कुडुबहो विप्पवरु ।

पुच्छिउ अभयमईए विउलमईए पई सहुँ को आइउ अवरु ॥५॥

६

खडय—भासइ सो पुरिसो सुए

आयउ एक्को गुणजुए ।

वाउलओ अन्नाणिओ

तेण मया सो णाणिओ ॥

एत्थाउ भणेसइ अट्टसट्ट

पुच्छइ सुय केरिसु कहइ भट्ट ।

निमुणेवि खघवहणाइ सव्वु

पभणइ कुमारि सो ताय भव्वु ।

नउ होइ गहिल्लउ नायसत्थु

आयण्णहि उज्जुय कहमि अत्थु । ५

ज खघारुहणे जाणु तेण

वुत्तउ अन्नोन्नु वियक्खणेण ।

त परिमुत्तहँ कह कहहि मज्झु

अहवा सुणु हउँ पायडमि तुज्झु ।

जइ खद्धुद्धारु लएवि वप्प

तो खद्धु खेत्तु फुडु निव्वियप्प ।

अहवा घरि सपइ-तवणि तेण

तो खज्जदि एउ पउत्तु तेण ।

जुत्त करेवि जइ नत्थि भत्ति

खाएवउ तो खज्जीहिदि त्ति । १०

वकुज्जुय कटय दोन्नि वेव

कुवलियहे हवन्ति हे अन्न नेव ।

जइ जायपुत्त तो जुवइ बद्ध

पिट्ठिज्जइ अह न तो अबद्ध ।

जइ दुज्झहिँ तो सेरिह पियाउ

अह ण तो पाहण ताय ताउ ।

घत्ता—ज पावेवि तरुत्तलु छायासीयलु आयवत्तु सो सिरि धरइ ।

त दुरहिविमोसहो कायपुरीसहो णिवडतहो रक्खणु करइ ॥६॥ १५

७

खडय—खरकक्करकटाइय

ण मुणिज्जइ दुहदाइय ।

तेण जले पाणहियउ

परिहइ सो पाणहियउ ॥

णउ होइ गहिल्लउ गयमईउ

सो साहु सयाणउ ससणीउ ।

इय वयणहिँ तायहो तणउ चित्तु

रजेप्पिणु पुणु धुत्तीए वुत्तु ।

सो बप्प विप्पणदणु नुरत्तु

आणावहिँ इह बहुबुद्धिवन्तु । ५

ता पेसिउ पुरिसु कहेवि ठाउ

तेण वि गतूण महाणुभाउ ।

घरु वट्टईँ कइमजुत्तियाए

आणीउ अभयमइपुत्तियाए ।

तो ताए परिक्खाहेउ तामु

कच्चोले करेप्पिणु मइवरासु ।

७. १ पाउत्तियाए ।

किं पि वि पउ घोवह इय भणेवि सइं अण्पिउ आसणपट्टु देवि ।
 तेण वि कवीण वियक्खणेण अरणेण्पिणु खंजणु तक्खणेण । १०
 उग्घोडवि थोवजलेण पाय पक्खालेवि परममुवण्णराय ।
 अरसेसु समण्पिउ सलिलु ताहं णिउणत्ताणदियमाणसाहे ।

घत्ता—भुत्तुत्तरकालण भासिउ बालण लज्ज मुएण्पिणु सुदरहो ।
 कुलकमु णिवाहहूँ देहि विवाहहूँ मइँ जणेर आयहो वरहो ॥७॥

८

खडयं—जाणेण्पिणु आसत्तिया तेण गिरुत्तं पुत्तिया ।
 सोहणदियहे रवणिया करेवि महच्छउ दिणिया ॥

सहूँ ताण तत्थ सो णिवकुमारु णावइ रईइ रइसोक्खु मारु ।
 माणतु अणोवमु गुणणिवामु अच्छइ अणेयविहमइपयासु ।
 एत्तहे विलवंतीवणे मरेवि जो बभणु अणसणविहि करेवि । ५
 पावेण्पिणु वणियहो कण्णजाउ सोहम्मसग्गे मुरु पवरु जाउ ।
 अभयमइहे अभयकुमारु णामु सो मुउ सजाउ मणोहिरामु ।
 एत्थतरं दिव्विजयहो गएण णिण्णासियतासियअरिसएण ।
 परदेसे एयथभेण हम्मु वसुपालणिवेण अईवरम्मु ।
 दट्ठूण पडम्मि लिहेवि देवि संपेसिउ पुरिसु इण भणेवि । १०
 कहि गपि सोमसम्मस्स वत्त जामेसि करेण्पिणु विजयजत्त ।
 तामेरिसु गउलमज्जे जेम सिज्जइ पासाउ करेसु तेम ।
 तत्थाविऊण जिह णरवरेण उवइट्ठु पयासिउ तिह णरेण ।

घत्ता—सयलावइरोहे सुणिवि पुरोहें रायवयणु अहिणदियउ ।
 सम्माणिवि किकरु सपेसिउ घरु विण्णाणियकुलु सइयउ ॥८॥ १५

९

खंडयं—आणेण्पिणु पडु दावियउ तेहिँ वि सो परिभावियउ ।
 भणियं णो विण्णाणिया एत्थम्हे अण्णाणिया ॥

कि बहुणा एउ अउव्वु कम्मु सयमेव करइ जइ विस्सकम्मु ।
 गय एम भणेण्पिणु ते सहम्मु चितापवण्णु हूउ सोमसम्मु ।
 किं किज्जइ सिज्जइ जेण एउ णं तो रूसेसइ एवि देउ । ५
 ता बहुविण्णाणविगइएण णिसुणेवि वत्त जामाइएण ।

धीरिउ थिरु थाहि म करहि खेउ
इउ भणेवि थोवदियहेहिं तेण
एत्थंतरे वसिकयणिरवसेसु
आयउ अणयविहभेयकम्मु
पुच्छइ हसेवि संजायचोज्जु
ता कहिउ सोमसम्भेण सव्वु
पासाउ अणोवमु एहु देव

महु लग्गइ निच्छउ माम एउ ।
णिप्पाइउ णियणिउणत्तणेण ।
परिपुण्णमणोरहु णरवरेसु ।
पासाउ णिएवि अईवरम्मु । १०
केणेरिसु किउ मदिरु मणोज्जु ।
जो करइ णत्थि सो कोइ भव्वु ।
किउ महु जामाएँ सुयणसेव ।

घत्ता—तं सुणेवि नरिदे विहियाणंदें भासिउ जो जामाउ तुह ।
सो मज्झ वि जामाइउ गुणहिं विराइउ एव भणेवि पसण्णमुह ॥१॥ १५

१०

खडय—णाई मणोभवसत्तिया
सव्वसलक्खणगत्तिया

णामेण वसुमित्तिया ।
दिण्ण तामु णियपुत्तिया ॥

सहुँ दोहिं ताहिं सेणिउ कुमारु
णावइ विहिं करणिहिं करिवारिदु
अच्छइ तहिं भोयासत्तु जाम
दाऊण चिलायसुयस्स रज्जु
सजायउ राउ चिलायपुत्तु
ता मतिहिं दूउ लहेवि सुद्धि
गंतूण तेण सुप्पहमुयासु
रज्जम्मि थवेवि चिलायपुत्तु
सयल वि पय रज्जु करतएण
कि बहुणा गच्छहँ एहि सिग्घु

सोहइ रइपीइहिं णाई मारु ।
ण खत्तिदयाहिं महामुणिदु ।
एत्तहे वि तामु ताएण ताम । ५
धीरेण अणुट्ठिउ अप्पकज्जु ।
सो करइ कयावि न कि पि जुत्तु ।
सपेसिउ कचीपुरु सुवुद्धि ।
उवएसिउ वइयरु णिवसुयासु ।
सजायउ ताउ मुणी तिगुत्तु । १०
संताविय तेण कयतएण ।
कुरु रज्जु णिवारहि लोयविग्घु ।

घत्ता—जणवल्लह पोमिणि जिह गयगोमिणि परिपीडिय दोसारणेण ।
संभरइ पहायरु देउ दिवायरु तिह पई पय परमारणेण ॥१०॥

११

खंडयं—अभयमईवसुमित्तउ
रायाणं सपुरोहियं

पुच्छेवि कंतो कतउ ।
आयउ सो णिलयं णिय ॥

गपिणु चप्पेवि चिलायपुत्तु
सुहदिणे सुहिसयणहिं बद्धु पट्टु

णीसारंवि घल्लिउ अणयजुत्तु ।
सुदरमइ अरिगयघडघरट्टु ।

तोसेवि सुवयणहिं सब्वलोग
एत्तहे अभएण मणोज्जवाय
सब्वेहिं मि सुदरु सब्व कालु
सो कहहि कत्थ महु तणउ ताउ
ता कहिउ ताप्र अब्वगुणणसेहि
सग्गम्मि व रज्जु करतु इदु
उक्कठियमणु णिसुणेवि राउ
णिग्गउ कुमारु णयणाहिरामु
तत्थ वि एकत्थ विसण्ण सब्व
पुच्छिय कि कारणु मलिनवत्त

थिउ रज्जे दिव्व भुजतु भोग । ५
आउच्छिय एक्कहिं दिणे समाय ।
सुमारिज्जइ जो नरगुणगणालु ।
अच्छइ जणेरि जणियाणूराउ ।
तुह ताउ पुत्त पुरे रायगेहि ।
अच्छइ सुहेण पहयारिंविदु' । १०
पुच्छेप्पिणु मायरि ण किउ खेउ ।
संपत्तउ दियहहिं णंदिगामु ।
दिय मिलिय णिहालेवि गलियगव्व ।
दोसह सब्वे वि विसण्णचित्त ।

घत्ता—तेहिं वि तहो अक्खिउ गुज्जु न रक्खिउ अत्थि एत्थ सपयपउगे । १४
असिदूसहु धामे मेणिउ णामे पुहईसरु रायगिहपुरे ॥११॥

१०

खडयं—तस्सम्हे सिह्होत्तिया
रायपरपरपुज्जिया

सताणागयसोत्तिया ।
जत्थ सया भयवज्जिया ॥

अच्छहं कुमार धणकणयसारु
सपइ ण वियाणहं काई एउ
दुक्करु अईव आएमु दिनु
कि करहं किमुत्तरु वेहं तामु
केरिसु आएमु कहेह जेण
निसुणेवि एउ भासति विप्प
वडकूउ तुम्ह गामे सुभोउ
लहु पेसह सो पुरु मज्झ पासु
इय भणेवि पुरिसु पेसिउ निवेण

भुज्जइ इउ अम्हहं अग्गहारु ।
किउ राएँ अम्हहं वइरिखेउ ।
ते थाणु सब्वु चित्तापवन्तु । ५
ता पुच्छइ नदणु सेणियामु ।
मगहिया तुम्हि महाभएण ।
जं पुच्छिउ तं आरयणि वप्प ।
निसुणिज्जइ सुट्ठु मुसायतोउ ।
अह न तो तुम्हहं करमि नासु । १०
सजाया आउलचित्त तेण ।

घत्ता—मइसपयसारे एउ कुमारे आरयणोप्पिणु विप्पयणु ।
धीरिउ मा वीहहो निवहो दुरीहहो हउं देसमि तहो पडिवयणु ॥१२॥

१३

खडयं—एम भणेविणु सोहणा
पट्टविया परमेसरो

सिक्खवेवि वे माहणा' ।
गपि तेहिं पुहईसरो ॥

११ १ पयारिंविदु । १३ १ मोहणा ।

विणएण पउत्तु कयारिखेव
तुह नंदिगामु पायहँ पवित्तु
अम्हहँ पहु जणमणचोज्जभूउ
पुरु रायगेहु मा एत्थ थाहि
सो केम वि नावइ ता मिलेवि
किउ गामहो बाहिरि पुणु वि वुत्तु
मा होउ इहाणाभगु अम्ह
ता अच्छइ कारणु एककु चारु
मेल्लेवि जुवइयणु कामसेसु

आसियकप्पधिव निमुणि देव ।
विन्नवइ नवेप्पिणु भत्तिवतु ।
सो सब्बपयारहँ भणित कूउ । ५
तुम्हहँ सामियहो समीवु जाहि ।
नीसारिउ सब्बहँ तालु देवि ।
पर तो वि न आवइ कुडिलचित्तु ।
पडिहासइ जइ पुहईस तुम्ह ।
तेणत्थावइ सो निव्वियारु । १०
पुरिसहो वसियरणु न होउ अम्ह ।

उक्त च—पुरुषस्य सर्ववशीकरणाना स्त्रियो वशीकरणमुत्तममिति ।

अपर च—कि न दद्यात्कि न कुर्यात् स्त्रीभिरभ्यर्थितो नर ।

अनश्वोऽप्यश्वता याति अपर्वणि मुण्डित शिरः ॥ [पचनत्र ४,६]

एत्थत्थि रूवजोवणगुणइड
सा पेसहि जइ तो नत्थि भति'

मुपसिद्धिय बररूविय' वियइड । १५
करि करिणिहे लग्गु व एइ इत्ति ।

घत्ता—निमुणेवि सदुत्तरु जाउ निरुत्तरु थिउ तुण्हककुउ नरपवरु ।

पुणरवि सकसाएँ रइयउवाएँ पेसिउ नरु भणेवि अवरु ॥१३॥

१४

खडय—गपि तेण वण्णुत्तमा भणिया ते वण्णुत्तमा ।

आएसं तुज्ज निवो देदि गुणोहनिही निवो ॥

पलभारसखाए एवको मया मत्तु
तहो तारिसो नत्थि इह को वि सन्नाणु
गामम्मि विप्पा फुडं तुम्हि बहुभेय
तेणस्स तोलेवि सब्बे तुमे चेव
न तो निरुत्तं कलत्तेहँ पुत्तेहँ
हत्थी वि सपेसिओ बुद्धिसारेण
सलिलम्मि नावाए करिण चडावेवि
उत्तारिऊण गम्भो त च भरिऊण
जाणावियं सामिणो सो वि सुणिऊण

गउ गहिउ दाऊण बहु दब्बु गुरुगत्तु ।
जो कहइ तोलेवि पलभारपरिमाणु ।
सत्थत्थसुविसुद्धमइ अत्थि चउवेय । ५
पलभारसखा पयासेह लहुमेव ।
पेसेमि जममदिरं समउ मित्तेहँ ।
साहारिया बभणा पुणु कुमारेण ।
बुड्डेवि एसियपमाण विहविवि ।
उवलेहँ तोलेवि पलसख करिऊण । १०
काऊण मोणं थिओ सीसु धुणिऊण ।

घत्ता—पुणरवि तहो पत्ती दिन्नाणत्ती पुहईवइणा पउरजलु ।

नेप्पिणु सारामहो पच्छिमि गामहो करह तुरिउ सो कूउ खलु ॥१४॥

१३ १ सुपसिद्धवररूविय । २ तंति ।

१५

खंडयं—ता सव्वो गामो तिणा निवपुत्तेण मुमतिणा ।
 पुव्वासाए वसाविओ कूवहो निवहो कहाविओ ॥
 पुहईसे एरिमु मइपयासु पुच्छिउ विभियचित्तेण कासु ।
 पहुवयणु मुणेप्पिणु भणइ दूउ तहिं पहिउ एवकु कमणीयरूउ ।
 धायउ अच्छइ तहो एह बुद्धि जाणमि हुउं सामिय सव्वसुद्धि । ५
 निसुणेवि एउ आरुद्धएण राएण निवारियदुद्धएण ।
 पट्टाविउ पुरिसु पुणो वि तेण तेण वि जाएप्पिणु बंभणेण ।
 उवएसिउ रायाएमु अत्ति सो देसिउ वासरं नेव रत्ति ।
 दुस्सिक्खिउ भूमिए नउ पहेण पेसह एत्थावउ नउ नहेण ।
 अह न तो सव्व कयंतथाणु पट्टावमि परमत्थेण जाणु । १०

घत्ता—ता विप्पहिं भासिउ दइवदुविलसिउ नियह एह अमहहं सरणु ।
 अणिमित्तु पवित्तहो हा मइवतहो केमाइउ आयहो मरणु ॥१५॥

१६

खंडयं—एव भणत्त रडतया विप्पा धीरेप्पिणु तया ।
 कुमरो वरमइसपओ तत्युज्झयसको गओ ॥
 आयउ रहं ओलंवतगनु सभावेलाए निएवि पुत्तु ।
 अहिणाणहिं परियाणिवि निरुत्तु आलिगवि नरनाहे पउत्तु । ५
 पइं मेल्लिवि एरिमु मइपयासु अवरहो कुलमंडण सहइ कामु ।
 पुणु पुच्छिउ पिउणा पिमुणमूलु मपेसिउ कचीपुरहो मूलु ।
 आणाविऊण रमणीउ दो वि थिउ रज्जि राउ निक्खिनु होवि ।
 एत्तहिं वि सिवुद्धेओ जम्भति नामेण विसाली पुरि महति ।
 कोमियनिवेण जसमइहे जाउ सोहणमइ चेडयनामु राउ ।
 मुणसिद्ध अत्थि कलयंठिसद्द महएवि तामु नामे मुहइ । १०
 धूयाउ सत्त सिधुरगईए सजायउ राए महासईए ।

/ घत्ता—पियकारिणि सुप्पह छणचंदप्पह धंभइ नियरूवेण रवि ।
 तह तइय पहावइ अवर मृगावइ जेट्टा चदण चेल्लण वि ॥१६॥

१७

खंडयं—एक्कहिं वासरि राइणा तेण पउत्तं राइणा ।
 एत्थ लिहावेज्जइ वरे [वर] आलेहं वासहरे ॥

रे जणमणचित्तयारु
 य एक्कु महामईउ
 जतमउ तेण रजियजणोहु
 विन्नाणिय बहु दुल्लक्खण
 एक्कहिँ दिणि सोहणगुणविहूइ
 निमुणंवि वत्त देसंतराउ
 पुच्छेवि गेहु गपिणु पइट्टु
 बीसामु करेवि मुएवि खेउ
 तेण वि निएवि विणओवयारु
 अच्छत्तें तहिँ हियजणमणेण

पर नत्थि कोइ सो चित्तयारु ।
 कोकामु नामु निववड्ढईउ ।
 किउ इत्थीरूवु अउव्वसोहु । ५
 खम्भालिय तेणाहयमएण ।
 चित्तयरो नामें चित्तभूइ ।
 संजायचोज्जु तं नियहुँ आउ ।
 कोऊहलकरु कोकामु दिट्टु ।
 उवएसिउ नियआगमणहेउ । १०
 जाणाविउ तहो विन्नाणु चारु ।
 चोज्जाई अणेयई कियई तेण ।

घत्ता—आयत्तेवि राएँ सो अणुराएँ हक्कारिवि आणावियउ ।

सम्माणिवि मदिरु नयणाणंदिह सतेउरु तहो दावियउ ॥१७॥

१८

खडय—रायाएसे चित्तय
 त महएवीरूवय

लिहियं तेण विचित्तयं ।
 कन्नाण व सुरूवय ॥

रूव चेल्लणाहँ पर एक्क
 लेह्णिहत्थो त भावतो
 ता मसिविदु गलेवि विवत्थे
 आयं भावहो रूव राओ
 जाणेप्पिणु नट्टो चित्तयरो
 संजाणाविवि तेणत्थाण
 दिट्टो सेणियरायमियंको
 विभिउ तं पेक्खेवि नरिदो
 पुच्छइ कहसु एह कहु केरी
 कि किल्लरि खेयरि इदाणी

केमइ नावइ भावहो एक्क ।
 जामच्छइ सो तग्गयचित्तो ।
 पडिओ कम्मवसेण उवत्थे । ५
 तं निएवि जाओ सकसाओ ।
 आउ रायगेहिँ चित्तयरो ।
 गं पि सुरेदसहएण समाण ।
 दाविउ पडु चेल्लणरूवंको ।
 नावइ हप्पिणरूउ उर्विदो । १०
 सव्वसलक्खणु सोक्खजणरो ।
 नायकन्न किं रइ रुदणी ।

घत्ता—ता कहइ वियक्खणु देव सलक्खणु अत्थि विसालीपुरि निवइ ।

अहिहाणें चेडउ अनयनिहोडउ नावइ सग्गि सुराहिवइ ॥१८॥

१९

खडयं—तस्स सुहृदा नामिया वल्लह भज्ज सनामिया ।
जाया ताप्र किसोयरी एसा सामिय सुदरी ॥

चेल्लरा नामेण अईव भव्व उवमिज्जइ कहो पहयारिगव्व ।
तहि तेण एउ ऋयपयसिबेण हूँ रूउ लिहाविउ पत्थिवेण ।
मईं सव्वु समा रिउ तो वि देव पर केम वि भावहो एइ नेव । ५
ता चित्ततहो दडवेंण षडिउ मसिविदु गुज्जि लेहणिहे पडिउ ।
हुउ रूउ सरूउ निएवि राउ सकसायभावु मज्झुवरि जाउ ।
तहो अत्थि चित्तु पुत्तिप्र समेउ इयरहूँ कह बुज्जइ गुज्जभेउ ।
निसु ेवि एउ नासेवि रत्ति पडु लेवि आउ हूँ एह ज्ञत्ति ।
कि बहुणा सा सारगनेत्त तुह जोग्गी वरसयवत्तवत्त । १०

पत्ता—कि किज्जइ बहुयहिँ पत्थिव बहुयहिँ तिजगुक्कोडयकामसिंह ।
वर एक्क वि मारी पाणपियारी अणुवमगुणलायण्णनिहि ॥१९॥

२०

खडय—आयण्णेवि पउत्तय एय पीणियसोत्तय ।
हुउ नरवइ अणुरत्तओ कामपरव्वसच्चित्तओ ॥

अत्थाणु विसज्जवि मतगेहि वइसेवि समति विचित्तसोहि ।
परिपुच्छिउ मयणाउरमणेण सिद्धत्थनामु पालियजणेण ।
कह कहमुवल्लभइ सा कुमारि विणु ताप्र अससउ विरहमारि । ५
पहुवयणु मुणेषिणु पहयभंति आयण्णहि भूवइ भणइ मति ।
तुज्झुवरि राउ सो असमभावि मग्गतहूँ देइ न सुय कयावि ।
अहवा जइ अबहत्थियवलेण धिप्पइ कुमारि गपिणु बलेण ।
न वियाणहूँ तो कि होइ तेत्थु सो वि य अईव सामिय समत्थु ।
ससयतुलाप्र पणिय अबज्जु विरयति सुमड न कयावि कज्जु । १०
जो जिप्पइ सो खलु बलविणामु अह हारप्पइ तो लोयहासु ।
इय जाणिवि किज्जइ देव तेम अहि मरइ न भज्जइ लट्ठि जेम ।
सिज्जइ नएण ज नउ बलेण साहिज्जइ त निच्छउ छलेण ।

पत्ता—पहु अणु न किज्जइ तहिँ एसिज्जइ बुद्धिवतु कोइ वि पुरिसु ।
भोलेवि स सुदरि भुयणमणोहरि जो आणइ पयणइ हरिसु ॥२०॥ १५

२१

खंडय—एयं मइवरभासियं मुणिवि निवेण पसंसिय ।
वयणकमलु मइसारहो जोइउ अभयकुमारहो ॥

दिट्ठीए वियाणिवि तायाचित्तु	पणवेप्पिणु पय पुत्तेण वुत्तु ।	
एत्तियहं मज्झि अहमेक्कु धम्भु	पइं जासु सामि आएसु दिन्नु ।	
इय भणिवि लिहावि वि पडि कुमारु	पडिबिबु जणेरहो लेवि चारु ।	५
वणिबेसे होइवि सत्थवाहु	बहुवक्खरु बहुजणवयसणाहु ।	
दियहेहिं तत्थ सपत्तु दिट्ठु	बहुरयणहिं चेडयणिवु वरिट्ठु ।	
तेण वि सम्माणु करेवि वुत्तु	किं किज्जइ दिज्जइ कहि निरुत्तु ।	
सो भणइ नाहु नायाणुचारि	तुह पायमूलि उम्मूलियारि ।	
इच्छमि कयविककउ करहूं एत्थु	ठाएण पसाउ हवउ पसत्थु ।	१०
ता राएँ नियनिलयहो निवासु	आसन्नु दिन्नु सइं संपयासु ।	

धत्ता—बहुकेणयसारउ [अभयकुमारउ] करइ असेसकलासु गुणि ।
कयविककउ बप्पहो कारणि अप्पहो नाउं धरेप्पिणु बोडु वणि ॥२१॥

२२

खंडय—जो कोइ वि तत्थत्थिओ जो केण वि कज्जत्थिओ ।
त तं तस्स विणा धण देइ सया रजइ जण ॥

हुउ पुरि पसिद्धु गुणु सव्वु कोइ	गेण्हइ अह दाणं कि न होइ ।	
जाएप्पिणु तग्गुरंजियाहिं	चेल्लणहे कहिज्जइ लंजियाहिं ।	
परमेसरि एत्थायउ अउव्वु	नामं वणि बोडु अइवभव्वु ।	५
पडि लिहिउ रूउ सोहग्गभारु	दुक्करु जइ तारिसु होइ मारु ।	
अच्छइ तहो केरउ सामिसालु	त पुज्जइ पणमइ सो तिकाळु ।	
जणवच्छलु कयविककउ करेइ	जो ज मग्गइ त तामु देइ ।	
कोऊहलेण त मुणिवि कन्न	बिभियमण तत्थागय सुवन्न ।	
चित्तवडु निएप्पिणु जणियखेउ	पवियभिउ माणसि कामएउ ।	१०
आसन्नहय गुणगोयरीए	पेक्खइ त चंदण सोयरीए ।	
सजायरूढि अणुदियहु एइ	इयरो वि हु सेणियगुण कहेइ ।	

धत्ता—एक्कहिं दिणि रत्तए सो एक्कंतए भणिउ ताए गयगामियहो ।
विरहेण म मारहि मइं साहारहि नेहि पासु नियसामियहो ॥२२॥

२३

खंडयं—तं निसुणेवि निवंगया तेणाणंगवस गया ।

मं भीसहि मइदरिसिणा भणिय कवडवणिणा तिणा ॥

पडिवालहि कइ वि दिणाइँ भइ
इय भणिवि समालोडवि मणेण
तेण वि कुमारिभवणतु जाम
जेट्टाए समेउ सहोपरीए
विन्नाणकलालायन्नजेट्ट
जहिँ अच्चइ तिहुयणमणु हरति
सुदरयर जहिँ छणयदकति
इय चितिवि परमणमेत्तलणाए
बीसरिय अक्कि जायाहिसेय'
अइदुल्लहु जणमणजणियचोज्जु

जा करमि उवाउ पसन्नसहि ।
वाहरिवि भणिउ नियखणउ तेण ।
किय तुग सुरंग मणोहिराम । ५
नीसरिय कुमारि विहावरीए ।
जगजुवईयहुँ उप्परि वि जेट्ट ।
तहिँ अम्हारिसियउ किं करति ।
तहिँ तारियाउ कहिँ विप्फुरति ।
विणएण भणिय सा चेल्लणाए । १०
सव्वणहुपडिम कयदुरियछेय ।
अवरु वि करडु मणिमउ मणोज्जु ।

पत्ता—गुणनिहि लहु धावहि लेप्पिणु आवहि रूयपरज्जियरइपियहो ।

दूरुज्जियचितउ वे वि तुरतउ मिलहुँ जेण गपिणु पियहो ॥२३॥

२४

खंडयं—आयण्णेप्पिणु सोयरी
अवियाणती वचण

वयणमिण गुणगोयरी ।
गय पल्लट्टिवि सभवण ॥

एत्यंतरि वणिउ सलक्खणाए
म चिरावहि आवहि चारुचित्त
भयभीयहे विहियपियासयाहि
निसुणेवि एहु चितवइ बोदु
अइलोहे मत्यए भमइ चक्कु
कि लाहे मूनु वि गलइ जेण
नीसरिउ कुमारि लएवि ज्ञति
जामावइ जेट्टा पडिम लेवि
विलवति विलक्खी होवि कण्ण

निवपुत्तिए वुत्तु वियक्खणाए ।
को जाणइ केरिमु होइ मित्त ।
कि आवहु जाइ न जाइ ताहि । ५
अइलोहु कयाइ न होइ भदु ।
अइलोहे पडइ अकालचक्कु ।
इय चित्तिऊण सुदरमणेण ।
नं चेडयरायहो तणिय कित्ति ।
ता नियइ न ताइँ गयाइँ वे वि । १०
गय जिणवरभवणु सुवण्णवण्ण ।

पत्ता—तहिँ निज्जियकामहि जसमइनामहिँ पिउवहिणिहे वेल्लहलभुय ।

पयमूलि महासइ सिघुरवरगइ ह्यु तवसिणि भव्वयणथुय ॥२४॥

२५

खंडय—एतहि बुद्धिविसारउ
बहुववहारपवट्टणं

निव्वेणेण कुमारउ ।
सपत्तो नियपट्टणं ॥

सुदर सव्वंगावयवपुन्त
सायरि नावइ छणयदमुत्ति
सप्पुरिसे नावइ अणहवित्ति
नवमेहावलि मोरेण नाई
सतुट्ठु सुट्ठु धरणीवईसु
सुहिसयणहिं परमुच्छवसणाहु
दिन्नई दौणाणाहई धणाई
मणि हरिमु विवड्ढिउ सज्जणाहै
करकमलि बाल लग्गी वरासु

आलोइय नरनाहेण कन्त ।
सुयणेण व वरकइकव्वजुत्ति ।
णवपोमे णावइ अक्कदित्ति । ५
भमरेण व नववियसत्ति जाइ ।
उमवयणालोयणि नाई ईसु ।
सोहणदिणम्मि विरडउ विवाहु ।
मणिबधि विवड्ढई ककणाई ।
दूसहु दुक्खाणलु दुज्जणाहै । १०
सिरि हरिहे दया विव मुणिवरासु ।

घत्ता—अंतेउरसारी पाणपियारी हुय सा सुद्धय भूवइहे ।

सिरिससहरकत्तिण भुवणु भमत्तिण धवलिउ जाहिं महामइहे ॥२५॥

वित्रिहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्यसंदोहसाले ॥

भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिभ्रतोसे ॥

मुणिसिरिखदपउत्ते सुविचित्ते एतपयदसजुत्ते ।

चेल्लणदेवित्रिवाहो नाम इमो दोदहमु सधी ॥

॥ संधि १२ ॥

संधि १३

१

सिरिमेविण् चेल्लणदेविण् काले जते मलविलउ ।

सजणियउ नामे भणियउ वारिसेणु सुउ गुणनिलउ ॥

देविण् सुदुट्टुपरिणामुजुउ

नरनाहु विण्हुधम्मम्मि रउ

अन्नोन्नु ताहँ दोह वि सया

एक्कहिँ दिणि सकसाएण पिया

पुरिसहँ गुरु निच्छउ विप्पयणु

चिरपुरिसपयासिउ एउ जए

कि बहुणा जो महँ देउ गुरु

भत्तिण् आराहणिज्जु हवड

जँ गुरुहँ विणउ पिय मणहि तुहँ

कोणिउ नामेण पसूउ सुउ ।

चेल्लण पर मन्नइ जिणसमउ ।

बहुधम्मविवाएँ दिवस गया ।

रोसेण भणिय गयमदगया ।

महिलहे भत्तार न अन्न पुणु ।

दुग्गइ हवेइ एयम्मि हए ।

सो तुज्झि विसेसे दुरियहरु ।

निसुणेवि एउ चेल्लण चवइ ।

त सच्चु अवस करणिज्जु महु ।

५

१०

घत्ता—इय घोसिवि पइ परिओसिवि सइँ आमतिवि धुत्तियए ।

आणिय गुरु बहुलच्छीहरु अन्नहिँ वासरि भगव तए ॥१॥

२

अब्भतरु पय विच्छुलिवि निया

अवयरह सय इय विण्हुपया

देप्पिणु अग्घजलि लाइयउ

झाणासणु मेल्लिवि गाढभया

निसुणेप्पिणु पुहईसेण पिया

साविय भणेवि जइ अन्न नउ

तो भुक्खतिसासमसमियतणु

खब्भालहँ कि हलि महु तणउ

पहुवयणु सुणेप्पिणु राणियए

गघक्खयपुप्फहिँ पुज्ज किया ।

इय भणेवि तिसि वाराउ तया ।

सिहि जलिउ पट्टे^१ सुहि साइयउ ।

सहसन्ति पलाइवि सयल गया ।

कुविएण भणिय जिणधम्मपिया ।

पडिहासइ धम्मायरणु तउ ।

विहिँ पहरहिँ आणेप्पिणु भवणु ।

जुज्जइ तवसीयणु बहुगुणउ ।

भासिउ विणएण सयाणियए ।

५

१०

घत्ता—त छज्जइ ज रुसिज्जइ पावेप्पिणु कारणु रमण ।

निककज्जउ जणियावज्जउ कोवु न किज्जइ अरिदमण ॥२॥

२. १ पत्त ।

३

तुहुँ जाहँ पयासहि भक्तिभरु
 कज्जेण तेण मई दिन्न सिही
 एत्थत्थि सुणिज्जउ देव कहा
 कोसबी नामें अत्थि पुरी
 पयपालु पयाहिउ पुहइवई
 वणि सायरदत्तु धणाहिवई
 तहिँ अत्थि समुद्दत्तु अवरु
 अब्रोसु ताहँ मित्तत्ति हुय
 एक्कहिँ दियहम्मि अईवसुही

गुणगुरुहुँ ताहँ हउँ अहिययरु ।
 रोसेण नाह नउ नायविही ।
 वच्छाजणति कयवइरिवहा ।
 सुदरपएसमय सोक्खयरी ।
 जसमइ महएवि मरालगई । ५
 गेहिणि तहो वसुमइ नाम सई ।
 वणिवरु समुद्दत्ताहे वरु ।
 बहुकालि परमपीईए जुय ।
 सायरदत्तेण पवुत्तु सुही ।

घत्ता—गुणमंदिर नयणाणदिर मित्त परोप्परु नेहगइ । १०
 न नियत्तइ मुइरु पवत्तइ जिह तिह करइ विसुद्धमइ ॥३॥

४

जइ जम्मइ भज्जय पुत्ति तुह
 अह मज्झ तुज्झ तो नदणहो
 पडिवन्नु बिहिँ मि कालेण हुउ
 इयरेण वि रजियजणमणउ
 तहो नायदत्त नामेण सुया
 बहुदियहहिँ पीणघणत्थणिया
 कहि केरिसु पुत्तिए तुज्झ वरु
 निसिसमए सो पुणु होइ नरु
 कलिकालोवमु तणु सवरिवि

ता देवी महु तणयहो सुमुह ।
 देसमि फुडु नयणानदणहो ।
 वसुमइयहि गन्धि भुयगु सुउ ।
 पालिउ पडिवन्नउ अप्पणउ ।
 सप्पहो वि समप्पिय ललियभुय । ५
 पुच्छिय जणणीए सनदणिया ।
 ता कहिउ ताए तारुणधरु ।
 पुणरवि दिणम्मि फणि जणियडरु ।
 अच्छइ पेट्टारए पइसरैवि ।

घत्ता—इय वत्तए वियसियवत्तए भणिउ जणेरिए करमि तिह । १०
 दिहिगारउ कंतु तुहारउ पुरिसु सया वि हु होइ जिह ॥४॥

५

इय भणिवि समुद्दत्त घरहो
 थिय तत्थ जाम पच्छन्नतणु
 नीसरिउ मुएप्पिणु कचुयउ
 नं कामएउ विहिणा विहिउ

गय रयणिसमए दुहियावरहो ।
 इम लक्खइ जेम न को वि जणु ।
 वसुमइहे पुत्तु ता नरु हुयउ ।
 सहुँ सेज्जए समउ पियाए थिउ ।

पेट्टारउ कंचुलियए सहिउ
 एत्तहिं वमुमित्तु पहाए तहिं
 पेक्खेप्पिणु दडहु नियासिरउ
 आणदिउ वंधवसयणगणु
 धीयहे सुहकारणु जेम तए
 अहिदेहु मुएप्पिणु असुहयह

ता सामुयाए धुत्तिए डहिउ । ५
 आयउ पइसरहुं करडु जहिं ।
 हुउ सब्बकालु नरु नयनिरउ ।
 जायउ विभियमणु सयलु जणु ।
 पज्जालणि पेट्टारयहो कए ।
 मुहिं सब्बकालु सो जाउ नरु । १०

घत्ता—हरिलोयहो निरुवमभोयहो गयहें तेम मईं ताहें तणु ।
 दहणत्थ परमसुहःथ सामिसाल जालिउ जलणु ॥५॥

६

पुणरवि आवेप्पिणु दुक्कवभरे
 तवचरणु वि एउ निमित्तु तहु
 मेल्लेप्पिणु माणवकुणिमतणु
 कज्जेण एण सिहिं जालियउ
 भल्लेण विरुवउ होइ जहिं
 आयण्णवि एउ धराहिवइ
 एककहिं दिणे किकरपरियरिउ
 अडविहिं पइमारि समप्पपरु

पइसंति न जेम सरीरधरे ।
 पाविज्जइ जेण अणनु सुहु ।
 ज होइ मुरारिलोयगमणु ।
 पहु मईं न को वि खड्ढभालियउ ।
 बोलिज्जइ किज्जइ काईं तहिं । ५
 थिउ मोणु करेप्पिणु कुवियमइ ।
 पारद्धिहे नरवइ नीसरिउ ।
 परमेसरु अवहीनाणधरु ।

घत्ता—मुणि जसहरु पेच्छिवि जसहरु पडिमाजोए दुरियहरु ।
 कहिं दिट्ठउ एहु अणिट्ठउ असउणु कज्जविणासयरु ॥६॥ १०

७

इय चित्तिवि सुमरिवि पावहिउ
 अइरोमवसेण मुणोसरहो
 वहहेउ कयत व जणियभया
 मुणिमाहप्पेण विणीय किया
 ते निएवि नरिदे निप्पसरा
 मुणिनाहहो होवि पुक्कपयरु
 पुणु सणु धित्तु मुउ झत्ति गले
 रिसिब्रहपरिणामे तहिं समए
 बद्धाउ हवेप्पिणु उवसमिउ

गुरुदोहु महाएवीए कियु ।
 पुहईसरेण परमेसरहो ।
 मुणहाण विमुक्का पचसया ।
 दाऊण पयाहिण पुरउ थिया ।
 करे करिवि सरासणु मुक्क सरा । ५
 चलणोवरि वडिउ बाणनियरु ।
 तवयरणकरणिट्ठवियमले ।
 नरयम्मि नरेसरु सत्तमए ।
 तं चोज्जु निएवि मुणिहे नमिउ ।

घत्ता—भयवर्ते समरिउमित्तें जाणेपिणु उवसंतमणु । १०
वरभासए पुण्णपयासए उच्चारिवि आसीवयणु ॥७॥

८

दुक्कियकम्मिघणजलणसिह किय धम्मस्सवण अणेयविह ।
निसुणेवि अणोवमु मुणिवयणु निवु निदिवि अप्पणु पुणु जि पुणु ।
जायउ जिणसामणि लीणमणु पडिवन्नउ खाइउ सद्दहणु ।
नहयलि सुरेहिं अहिणदियउ ता राउ जाउ आणदियउ ।
वदेप्पिणु सिरिजसहरसवणु आयउ पुहईवइ नियभवणु । ५
दूरुज्झिय मिच्छासमयमणु सुहूँ करइ रज्जु पालियसुयणु ।
चेत्तलणमहएविण परियरिउ रामु व सीयाण अलकरिउ ।
एक्कहिं दियहम्मि सहाभवणे जामच्छइ पट्टु नरनियरघणे ।

घत्ता—आवेप्पिणु कर मउलेप्पिणु ता वणवाले विन्नविउ ।
परमेसरु नाणदिणेसरु देवदेउ सुरनरनविउ ॥८॥ १०

९

सामिय तइल्लोयलोयसरणु अमराहिवरइयसमोसरणु ।
जियदुज्जयकामकसायरणु दूरीकयजाइजरामरणु ।
दुग्गइ दुहपंकनिदाहदिणु विउलइरि पराइउ वीरजिणु ।
आयण्णेवि एउ धराधरणु तहो देवि सब्बअगाहरणु ।
सहसत्ति कयासणपरिहरणु पय सत्त सुविणयालकरणु । ५
परिओसिउ तट्टिसि कयगमणु जयदेव भणेवि पसन्नमणु ।
पणवेप्पिणु भूयलि लुलियतणु भेरीरवपरिपुरियभुवणु ।
सम्मत्ते सगयसव्वजणु गउ बंदणहत्तिण करिवि खणु ।
गच्छतु सतु सपयभवणु सपत्तउ सेलममीववणु ।

घत्ता—वरवंसउ लद्धपससउ सकरि सहरि सचमरु ससिरि । १०
धरधारउ रयणहिं सारउ नियसमु राएँ दिट्ठु गिरि ॥९॥

१०

करंतसच्छनिज्झरो भरंतहंदकंदरो ।
गिरीसु तुगदेहओ तडीनिसन्नमेहओ ।
अण्येयनायनाइओ अण्येयसुखराइओ ।

अण्यदेवयासिभ्रो
भमंतमत्तभिगभ्रो
अण्यसावयाउलो
अण्यसिद्धखेयरो
पलोइभ्रो महीहरो

अण्यपुप्फवासिभ्रो ।
नहृगलग्गसिगभ्रो ।
अण्यचोज्जसकुलो ।
वई व जो मणोहरो ।
धराइ नाईं सेहरो ।

५

घत्ता—तहो मत्थण्ण दिट्ठु पसत्थण्ण मोक्खु व तइल्लोयग्गि थिय ।

भवभयहरु सुट्ठु मणोहरु समवसरणु भव्वयणपिउ ॥१०॥

१०

११

जोयणपमाणु निद्धूयमलु
नित्तलमुत्ताहल्लतोरणउ
जहिं पच्चवण्णमणिधूमिउ
कचणमणिमयईं मणोहरइं
माणवमाणत तिल्लोयथुया
चउ चउ चउ दिसहिं सुहावियउ
कीलंतहसकारउ सया
पुणु परिह विसाल पवित्तजला

अमराहिवनीलनिबद्धतलु ।
न बभु चारु चउराणणउ ।
पायारु महनु सुरेहिं कउ ।
अणुलग्गईं तासु अरुहधरइ ।
पुणु माणथभ जिणविबजुया ।
मणिमयसोवाणउ वावियउ ।
पप्फुल्लहिं फुल्लहिं दिहियपया ।
सपुरिसमइ व्व अविलद्धतला ।

५

घत्ता—चउ दिसु घणु पुणु वेल्लिवणु कुमुमामोयभमियभमरु ।

हेमुज्जलु चुबियनहयलु पुणु पायारु अईववरु ॥११॥

१०

१२

वारेसु जासु निरु निम्मलईं
वणसुर विविहालकारधरा
सुरवहुपारभियनच्चणउ
वाइत्तयसइमुहालियउ
अणवरयसुधूयधूमनिवहा
चउसु वि दिसासु दो दो पयडा
ससरोवरगिरिकेलिहरइं
फलपुप्फपवालजावधणइ

सोहत अण्यईं मगलईं ।
पडिहार परिट्ठिय वज्जकरा ।
सुरगायणरजियजणमणउ ।
पुणु दो दो नच्चणसालियउ ।
वासियदियतरायावसहा ।
कचणमय सठिय धूयहुडा ।
कीलतसुरासुरसुदरईं ।
पुणु विउलईं चउ नदणवणइ ।

५

घत्ता—चउवारण्ण तिप्पायाराण्ण पीढि त्तमेहल्लि मणिकिरणे ।

अइकोमलु चलकिसलयदलु सहइ असोउ असोयवणे ॥१२॥

१०

१३

देवंगवत्यपच्छादयउ
 सुरतरु वरमालोमालियउ
 गुमुगुमुगुमतमत्तालिगणे
 सत्तच्छउ वणि सत्तच्छयाहें
 चउगोउर पुणु वि सुहावणिया
 सामीवइ ताहें दिसामु गया
 कमलद्वयहसखगिदधया
 अट्टोत्तरपडिधयसयसहिया

चउदिसि जिणविबविराइयउ ।
 भत्तिप्र भव्वेहिं निहालियउ ।
 चंपउ चंपयवणि मुहुपवणे ।
 पवरायइ अंबउ अंबयाहें ।
 वणवेइय कलहोयहो तणिया । ५
 मालावत्यद्वयमोरधया ।
 केसरिगोविसकरिचक्कधया ।
 सोहंति विचित्तायमे कहिया ।

घत्ता—बहुसीसउ लद्धपससउ गुरु विव जणमणचित्तयरु ।

निहियवरु चउगोउरवरु पुणु पायारु विचित्तयरु ॥१३॥

१०

१४

जहिं मरगयदडासत्तकरा
 पुणरवि धूवहडनट्टहरइ
 पुणु कप्पमहीरुह सोक्खयरा
 बहुमगलदव्वविराइयइ
 तारावइकतसियच्छविया
 दिव्वतदेवनियरावरिया
 नव नव अइउन्नय नाहें धरा
 रयणमयइ रजियजणमणइ
 पुणु मुणिसहमडवधम्मकहा
 पुणरवि गरुययरु अणोवमउ

पवलिहिं पडिहार नायकुमरा ।
 नवरसजुत्तइ जणमणहरइ ।
 पुणु जव्वणयवेइय पवरा ।
 चउदारइ पुणु विमहाइयइ ।
 अणवरयवेणु बीणारविया । ५
 पासायपति सुमणोहरिया ।
 मणिपुजविचित्त तमोहहरा ।
 पुणु पतिनिवदइ तोरणइ ।
 तोसिय खयरामरमणुयसहा ।
 पायारु परिट्टिउ फलिहमउ । १०

घत्ता—तहिं किर कप्पुब्भव नाहें मणुब्भव देवदिवायरत्तेयहर ।

इदाणप्र जत्य पहाणप्र दारवाल धिय दडकर ॥१४॥

१५

आयासफलहिनिव्वत्तियउ
 ताणुप्परि मणिमडवु सहइ
 सोलहसोवाणहिं सोहियउ
 थिय पीढु मणोहरु मज्जे तहो

तहो लग्गेवि सोलह भित्तियउ ।
 जो सरयणगयणलील वहइ ।
 वर वेरुलिएहिं पसाहियउ ।
 भुवणत्तयपीढु नाइ नहो ।

चउदिसु तहो उवरि निहागघरा
 पवरट्टमहाधयसोहधर
 जे भीयरु मोहचवकु पहउ
 जो दुइमु मणकरि वसि करइ
 विसु धम्मु पयासिउ जेण जए
 जसु सुहकम कमलनाहु नवड
 जो नीरवरु अंवरु मुणइ
 जो निवभउ सीहु व पहयमउ
 जो विसयवसायसप्प दमइ

थिय धम्मचक्ककर जक्खसुरा । ४
 तहो उवरि सुवन्नवीढु अवरु ।
 तहो रेहइ रयणरहंगधउ ।
 तहो तवेरमु धउ अणुसरइ ।
 तहो नत्थि भति विसु थाए धए ।
 तहो निच्छउ कमलकेउ हवइ । १०
 तहो अवरचिधउ को हणइ ।
 तहो अवसे सोहइ सीहधउ ।
 सो विणयामुयवडाय लहइ ।

घत्ता—मुक्काउहु भडकुमुमाउहु जामु मएण पणट्ठु रणे ।

अनिवारिउ होइ निरारिउ कुमुममालधउ तामु जणे ॥१५॥ १५

१६

अवरु वि तामुवरि विचित्तयरु
 जवूनयमउ मणिविप्फुरिउ
 तहिं सठिउ सोहइ भुवणगुरु
 मरगयलट्टीए महाइयए
 छत्तत्तउ सहइ समुद्धरिउ
 रविकोडिसमप्पहु भावलउ
 आरत्तपुप्फयवयचियउ
 गयसोयहो पासं असोयतरु

छज्जइ पीढत्तउ चित्तयरु ।
 पुणु भद्दासणु सीहहिं धरिउ ।
 तइलोयसिरम्मि व मोक्खपुरु ।
 कक्केयणपव्वविराइयए ।
 निरु निम्मलु न नाहहो चरिउ । ५
 जणनयणहं तइ वि हु सीयलउ ।
 न अमयरसोहो सिचियउ ।
 न दीसइ निग्गउ रायभरु ।

घत्ता—न अक्खइ गुज्झु न रक्खइ दुदुहिगुरुसरेण जणहो ।

मा मुज्झह सहिउ विउज्झह गलइ पावु पणवहो जिणहो ॥१६॥ १०

१७

वरपरिमलामोयवासियदियताइं
 न देव अच्चासणाभएण रिक्खाइं
 चउमट्ठि जकवामरा चमर चालति
 ण केवलन्नाणजरपुरिसकेसोहु
 गंभीर मुपमन्न सयलत्थ मयक्खाणि
 बहुरस [विडविया-] हं धार व्व जलयस्स
 जं ज जए कि पि किर वत्थु सुपसत्थु

गयणाउ निववंति कुमुमइं विचित्ताइं ।
 महि धिवहिं अप्पाणय मुणियसिक्खाइं ।
 जिण खीरसायरतरग व्व दीसति ।
 चिरुपुण्णपवणेण सचलइ कयसोहु ।
 पवियभए परममहवीरजिणवाणि । ५
 नियनियहिं भासाहिं परिणमइ सव्वस्स ।
 तं तं तहिं निहिउ आणेवि सव्वत्थु ।

अन्नोन्नचिरवइरु नउ को वि संभरइ
सव्वत्थ परिभमइ जहिँ जहिँ जि मणदिट्ठि
सुनियत्थसुपसत्थनेवत्थवरकाय

अणवरउ परमाऽ मेत्तं ऽ संचरइ ।
तहिँ तहिँ जि खयरामरापणयपरमेट्ठि ।
नियनिजउ नीसुच्चा काऊण न आय । १०

घत्ता—सिरिसरसइ मेल्लेप्पिणु सइ दूरोसारियभवरिणहो ।
को य ककइ वण्णहँ सक्कइ समवसरणसयय जिणहो ॥१७॥

१८

उन्नइ घरतरुथभहँ तणिया
पायार थूहमणि वेइयउ
महि मेल्लिवि पंचसहासधणु
जहिँ जिणवयणामयलीणमणु
रिसि पढमि वीऽ कप्पामरिउ
तुरियइ जोइसियहँ सुदरिउ
छट्टुऽ भवणामरजुवइजणु
अट्टमइ अट्टविहमुरनिवहु
दहमऽ कप्पामर पणयपरा
बारहमऽ हरि करि किडि ससया
अणवरउ जत्थ सगीयसरु
सहँ सेन्ने हरिमुद्धु सियतणु

जिणतणुमाणें बारहमुणिया ।
अट्टउणउ नवर निवेइयउ ।
ज थिउ गयणगणि रम्मतणु ।
बारहकोट्टेसु निविट्ठु जणु ।
तइयम्मि कोट्टे सयमधरिउ । ५
पंचमइ वियाणह वेतरिउ ।
सत्तमऽ ताहँ भत्तारगणु ।
नवमइ नक्खत्त थिया सपहु ।
एयारहमऽ नीसेस नरा ।
सिहि सप्प अवर तिरियच्च सया । १०
सयलु वि जणु जयजयकारपरु ।
तहिँ राउ पइट्ठु पहिट्टुमणु ।

घत्ता—पेच्छिवि मुहु जिगदेवहो मुहु विहसिउ मगहाहिववयणु ।
सिरिचदहो जयणाणदहो दसणेण न कुमुयवणु ॥१८॥

बिबहरसविसाले जेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले ॥
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे मुन्दरे दिन्नतांसे ॥
मुणिसिरिचदपउत्ते कहकोसे एत्थ सेणियक्खणे ।
जिणसमवसरणरयणानिरूवणो एस तैरसउभाउ ॥

संघि १४

१

सवडम्मुहु सव्वणहु पेक्खेप्पिणु अणुराएँ ।

पणवेप्पिणु पारद्धु थुणहुँ भडारउ राएँ ॥

जय जय परमेसर परममेह	जय भुवणावयसिहिसमणमेह ।	
जय पउलोमीपियपणयपाय	जय दूरोसारियनरयपाय ।	
जय अट्टमहामयमयकिराय	जय तणुतेयाहयकिकिराय ।	५
जय दुग्गइदुक्खसमुट्पोय	जय कामकुभिपंचासपोय ।	
जय भुवणबधु बधवविहीण	जय भव्वकमलबांहण विहीण ।	
जय विसमविसयविसहरविराय	जय सत्तुमित्तसममण विराय ।	
जय सिद्ध बुद्ध सिव परमहस	जय सीलसरोवरपरमहस ।	
जय दूरीकयमायापवच	जय जाणियनिहिलजयप्पवच ।	१०
जय सधरधराधरणेक्कसेस	जय सामिय दुद्धरवयविसेस ।	
जय उक्खयमोहणविडविमूल	जय सिद्धिपियापट्टवियमूल ।	
जय जय तिसल्लभजणसमत्थ	जय कोहविमुक्क महासमत्थ ।	
तुहुँ कामधेणु कमणीयकाउ	पइँ पालिउ छज्जीवहँ निकाउ ।	
तुहुँ सासयपुरपहसत्थवाहु	पइँ न किउ किवावरसत्थवाहु ।	१५
तुहुँ निक्कलकु सयलावलोउ	तुह कित्तिण धवलीकउ तिलोउ ।	
तुहुँ देवदेउ जगगुरु न भति	तुह भत्तहँ भवकाणणे न भति ।	
तुहुँ चित्तियदाइ दुहोवसांभे	हउँ अन्न न मग्गमि कि पि सामि ।	

घत्ता—सासयसोक्खनिवासु भवि भवि भवभयवज्जिय ।

नियचरणोवरि भत्ति महुँ दिज्जउ जयपुज्जिय ॥१॥

२०

२

इय जिणु थुणेवि पत्थिववरिट्ठु	मुणि बंदिवि नरकोट्टण वइट्ठु ।	
जिणवयणहो निग्गय दिव्ववाणि	तहिँ निसुणिय तेण दुभेय पाणि ।	
तस थावर ते वि बहुप्पयार	अणुहुत्तसुहामुहकम्मभार ।	
दो दोस तिकाल तिभेयपत्तु	सत्तलत्तउ रयणत्तउ पवित्तु ।	
गइ गारव गुण गुत्तीउ तिमि	जग जोय वेय मरु मूढ तिमि ।	५
चउ सन्नउ बध वि चउ कसाय	आराहण गइ चउ सुरनिकाय ।	
वय विणय समिदि सज्जाय पंच	पचत्थिकाय परमेट्ठि पच ।	

छ्वासाय छल्लेस्सासाहाव
छज्जीव काल पोग्गलविसेस
ठाणहँ संघादणइ छ चेष

छद्व्व छरस भन्नभभाव ।
मिच्छत्तनइहो छादण विसेस ।
तच्चाइँ सत्त मय सत्तभेय । ५

धत्ता—सत्तपयारु सरीरु अट्ट सिद्ध गुणगणिया ।

कम्म वि अट्टपयारु अट्टा भय मय भणिया ॥२॥

३

नव बभचेर नवविह पयत्थ
उत्तमखमाइ दहभेउ धम्म
एयारह रुद रउदभाव
बहुसुयवित्थारेयारसग
वारह मुणपडिमउ दुक्कराउ
चारित्तु सुगइगमणहो उवाउ
रयणाइँ चउदह मग्गणाउ
चउदह आहरणइँ रज्जुयाउ
चउदह मल जीवसमासभेय
गुणठाण चउदह पुव्व वत्थु

नवविह गह तह नव नय पयत्थ ।
दस पायच्छित्तइँ सवणधम्म ।
एयारह सावय पहयपाव ।
बारहविह तव कयकामभंग ।
अणुपेक्खउ कम्मखयंकराउ । ५
किरियाउ तथा तेरहविहाउ ।
चउदह नईउ दुत्तरवणाउ ।
सोयारपिडयडिह जुयाउ ।
कुलयर वि चउदह मइसमेय ।
अभंतरु चउदहभेउ गंधु । १०

धत्ता—पनरह जोयपमाय कम्मावणिउ निरुत्तज ।

सोलह सग्ग कसाय तह भावणउ पवित्तउ ॥३॥

४

दससत्ता संजम दुरियठाय
नाहज्जयणइँ एऊणवीस
सवलेक्कवीस परिसह दुवीस
तित्थइँ चउवीस सुहावणाउ
छव्वीस पुहइभेयतराहँ
आयार कप्प पर अट्टवीस
दुम्मोयमोहठाणाइँ तीस
बत्तीस महंत जिणोवएस
जं सुट्टमु थूलु जइ कि पि वत्थु
णाणासुहदुक्खनिरतराइँ

अट्टारस भासिय सपराय ।
असमाहीठाणइँ होति वीस ।
तियअहियं ठाणविही वि वीस ।
पणवीस महव्वयभावणाउ ।
गुण सत्तावीस जईसराहँ । ५
पावहो सुत्तइँ एऊणतीस ।
कम्महो विवाय खलु एककीस ।
तेत्तीसच्चासणभेय दोस ।
ज नत्थि हुयउ होसइ समत्थु ।
सव्वाण कहाउ भवंतराइँ । १०

धत्ता—आयण्णेप्पिणु सव्वु वडिडयपरमाणदें ।

पुच्छिउ गोत्तमसामि निययभवाइ नरिदे ॥४॥

५

भणइ राउ पयपणयगतओ
 कि कयं वय जयपहाणओ
 त सुणेवि नवजलहरज्जुणी
 नियसिरग्गओधभियंबरो
 पज्भरंतसरभरियकदरो
 दतिदंतनिम्भिसदेहओ
 सुरसमूहमेवियतडावणी
 नरवड व्व मायगसारओ
 जिणहरो व्व हरिसेविओ सया

कहसु काईं हउं सामि होतओ ।
 जेण एत्थ सजाउ राणओ ।
 कहइ मगहनाहहो महामुणी ।
 अत्थि एत्थ धरणीयले धरो ।
 विझु नामु तरुनियरसुदरो । ५
 कयरणो व्व सुहडो सलेहओ ।
 गिरिपहाणु दिणयरसिहामणी ।
 सिरिहरो व्व सारगधारओ ।
 जामु भतिपर विविह सावया ।

धत्ता—तम्मि गिरिदि रउद्दु सीहु व पहयकरिदउ ।
 खडरमारु नामेण अत्थि पयडु पुलिदउ ॥५॥

१०

६

पाणिवहपवडिडयदप्पकडु
 भपडवमालतरुसरिससीमु
 दीहरउहतुरविरलदंतु
 एक्कहिं दिणि तेण सकतएण
 तरुमूनि निससु तिगुत्तिगुत्तु
 मुणि माहप्पेणुवसतु जाउ
 वइणा पवत्तु कय-वसुद्धि
 त वयणु सुणेप्पिणु वणयरेण
 कहि सामिय वुच्चइ काईं धम्मु

करकयपयडकोयडदडु ।
 अरत्तनेत्तु भूभंगभीमु ।
 गवन्नालिवण्णु नावइ कयतु ।
 काणणि कीलाए भमतएण ।
 प्रालोइउ साहु समाहिगुत्तु । ५
 पाएसु पडिउ समहिलु चिलाउ ।
 सभवउ वच्छ तुह धम्मवुद्धि ।
 पुच्छिउ रिसि सिरि सगयकरेण ।
 आयण्णावि भामइ समियकम्मु ।

धत्ता—सो फुडु भण्णइ धम्मु जहिं न जीउ मारिज्जइ ।

खज्जइ असुइ न मसु जत्थ न सुर महु पिज्जइ ॥६॥

१०

७

सो भण्णइ धम्मु असच्चचाउ
 मुच्चइ परयारु अणत्थमूलु
 वज्जिज्जइ परपेसुअभाउ
 जो करइ एउ संजणियसोक्खु
 निसुणेवि एउ पुणरवि पुलिदु
 जं भासिउ तुम्हहिं सोक्खहेउ

धिप्पइ परदव्वु न जणियताउ ।
 निसिभोयणु धम्मसिरम्मि सूलु ।
 परवचणु दुग्गइगमउवाउ ।
 सो नियइ कयावि न कि पि दुक्खु ।
 बोल्लइ पप्फुल्लमुहारविदु । ५
 जो सव्वु न सक्कइ करहुं एउ ।

ज सककइ त जइ करइ कोइ
मुणि भणइ होइ नदन निरुत्तु
तो जं सककइ तं करइ चारु
परमत्थे एण कमेण जीउ

तो तासु धम्मु किं किं पि होइ ।
छुडु देवगुरुप्परि अचलचित्तु ।
सद्धइ इयरु वयसीलभारु ।
पावइ परसुहफलु पुण्णबीउ । १०

घत्ता—सुणिवि एउ भिल्लेण मुणिहं परज्जियमारहो ।
लइय नवेवि निवित्ति वायसमासाहारहो ॥७॥

८

गउ साहु कहिहिं सब्बोवयारु
कालेणासोसियदेहसाहि
ओसहविहाण किउ निरवसेसु
वल्लिपलभोयणु वज्जरइ विज्जु
तहो सालउ' सुहिमुहसज्जणेहिं
ता सूरवीरनामेण तेण
निब्भयमण नयणसुय मुयंति
मुक्कालय हा हा पिय भणंति
सो भणिउ ताई ह्यइट्टसोक्खु
जज्जाहि वप्प तुहुं चलिउ जत्थ
पुणु भणिउ तेण रक्खहिं म गुज्जु
सा भणइ वीर निस्सकचिन्त

निवपल्लिनिवासहो खइरसारु ।
जायउ गिभु व दुहदाइ वाहि ।
पर किं पि नेव जायउ विसेसु ।
तं मणइ मणावि न कयपइज्जु ।
कोक्किउ पियाण सुहिसज्जणेहिं । ५
सारसपुराउ आवतएण ।
आलोइय वरकामिणि रुयति ।
पुच्छिय किं रोवहिं हरह भति ।
रोविज्जइ अप्पण्णउ दुक्खु ।
किं कहियण्ण अम्मह कहाण एत्थ । १०
कहिं का तुहुं किं मणिं दुक्खु तुज्जु ।
अक्खिज्जइ जइ जायइ परित्त ।

घत्ता—ता भणिय सूरवीरेण मा भी रुयहिं ससुदरि ।

ज मइं सिज्जइ कज्जु तं कहिं करमिं किसोयरि ॥८॥

९

भणियं ससिवयण विसालनेत्त
दिढमणु सुयमुणिवरवयणसारु
सो कायमांसवज्जणफलेण
सब्बहिं सुरगइहिं विणासहेउ
भज्जइ पइज्ज तहो तणिय जेण
तें रुयमिं भाउ नउ अन्नु मोसु
सुदरि पइज्ज दिढवयहो जासु
गउ एम भणेवि तुरंतु तेत्थु

वडजक्खिणि हउं वणि एत्थु मित्त ।
जो तुह बहिणीवइ खइरसारु ।
होसइ महु पिउ पुण्णहो बलेण ।
वुत्तउ पर खाइ न कयविवेउ ।
ते तुहुं तहिं आहूयउ जणेण । ५
निमुणेवि भणइ संजायतोसु ।
को करइ सयाणउ भगु तासु ।
बहिणीवइ मरणावत्थु जेत्थु ।

८. १ सोलउ ।

घत्ता—गपि पयासियनेहु वाहिविलीणु सविणएँ ।

दिट्ठु सहोयरिकंतु विहसियमुहु कयपणएँ ॥१॥

१०

१०

पुणु भणिउ भणइ जं कि पि वेज्जु
जे सुहि सुहु होइ सरीरु रम्मू
लइ खज्जउ जंगलु वायसामु
दिढमणु भ्रवगण्णियवाहिवाहु
ते भणिउ जाइ जइ पलइ काउ
निट्ठाहु निएप्पिणु सहरिसेण
पुणु जक्खिदेविवित्तु तासु
आयण्णिवि परियाणियविसेसु
कयसव्वजीवमांसहो निवित्ति

त किज्जइ चित्तिज्जइ सकज्जु ।
जीवतहँ होसइ धम्मकम्मू ।
पुणु तासु करेवउ दोसनासु ।
निसुणेवि एउ वज्जरइ वाहु ।
भजमि वउ तोवि न खामि काउ । ५
भत्तारु पससिउ ससह तेण ।
पायडिउ भावि सुरलोयवामु ।
सतुट्ठु सुट्ठु मणि वणयरेसु ।
एत्तहँ ह्य काले पाणसनि ।

घत्ता—मुउ निम्मोहु धरेवि गुरुगिर चित्ते चिलायउ ।

१०

देउ दिवारु नामु पढमसग्गे सजायउ ॥१०॥

११

कहिँ अमुइ चिलायत्तणु अहम्मू
इय जाणिवि दूरि विमुक्ककम्मू
एत्तहँ काऊण परोक्खकज्जु
पियसोयाहय विच्छायकति
एतेण तेण पुणु दिट्ठु देवि
कि पालियवयसुविकयसणाहु
ता कहिउ रयतिण ताण तासु
ज कहिउ भावि वरइत्तलाहु
काऊण सव्वपलकवलचाउ
सपभ्रुत्तमदेवत्तलाहु
वयणेण एण जक्खिह्हे तणेण

कहिँ देवत्तणु सुइ परमरम्मू ।
भणु केम न किज्जइ जइणधम्मू ।
तहिँ थाण थवेप्पिणु भाइणेज्जु ।
साहारिवि ससहोयरि रयति ।
बोल्नाविय जमला कर करेवि । ५
हुउ महु बहिणीवइ तुज्जु नाहु ।
किउ मईं सयमेव सकज्जनासु ।
हरिसिउ तुह वयणु सुणेवि वाहु ।
गुरुपय सुमरेवि महाणुभाउ ।
महु पुणु वि तहट्ठिउ विरहडाहु । १०
जाएप्पिणु विभियमाणसेण ।

घत्ता—सावयधम्मू समाहिगुत्तमुणिहँ पणवेप्पिणु ।

लइउ सूरवीरेण ससण निवित्ति करेप्पिणु ॥११॥

१२

सुदरु सजणियजणाणुराउ
उवसेणिउ नामे गुणनिट्ठाणु

इह रायगेहनयरम्मि राउ ।
होंतउ विवक्खमाणावसाणु ।

सइ सक्कहो सिरि व सिरीहरासु
 सो खइरसारसुरु सूणु ताहे
 सो तुहुँ नरिंद नयणाहिरामु
 नेमित्तियवयणे राणएण
 पुव्वज्जियकम्मं पेरिओ सि
 गउ णदिगामु तत्थ वि दिएहिँ
 सम्माणिकुण अप्पाइओ सि
 मिच्छामयपरिणामे हओ सि

वत्तलह सुप्पह महएवि तासु ।
 संजायउ सइहे अणोवमाहे ।
 सेणिउ नामेण ह्यारिथामु । ५
 मडिवि मिसु मतवियाणएण ।
 जाणेवि जोग्गु नीसारिओ सि ।
 अवगणिओ सि भयभीयएहिँ ।
 भगवेण सधम्महो लाइओ सि ।
 सहुँ वणिएँ कचीपुरु गओ सि । १०

घत्ता—वणिणा तहिँ तेण नियसुय सुट्ठु रवण्णी ।

नामे अभयमइ त्ति' तुज्जु विवाहहुँ दिण्णी ॥१२॥

१३

उप्पन्न पुत्तु तहे अभयनामु
 एत्तहे ताए पडिवन्न वाय
 मगहाहिवु करिवि चिलायपुत्तु
 पारद्ध अणाउ अयाणएण
 परिवारें तुहुँ पेसेवि पुरिसु
 आवेप्पिणु देप्पिणु धम्मदारु
 पडिगाहिउ कोसु असेसु देसु
 पुहईस पुव्वदूसणवसेण
 सताविउ पई सपयपगामु

सुरगुरु मईए रूवेण कामु ।
 निव्वाहिय पालिय नियय छाया ।
 धीरेण महातउ तिब्बु तत्तु ।
 परिपीडिय पय तव राणएण ।
 आणाविओ सि जणजणियहरिसु । ५
 निद्धाडिउ सो पई अनयकारु ।
 जाओ सि वप्प तुहुँ मागहेसु ।
 रोसेणानियपेसणमिसेण ।
 दडहुँ पारभिउ नंदिगामु ।

घत्ता—एत्तहे अभयकुमारु नेहभावरसभरियउ ।

लहहुँ सुद्धि तउ तणिय कच्चिपुरहो नीसरियउ ॥१३॥

१०

१४

आवतु वलेप्पिणु तहिँ पइट्ठु
 पुच्छेवि सुमइणा किउ उवाउ
 आणाविउ जुत्ति करेवि धुत्तु
 सभासिउ दरिसिउ परमपेम्मु
 नामेण सम्म चिरजम्मपत्ति
 पालिवि सावयवय समियकम्म
 तत्तो न्युय चेडयरायधुय
 तहिँ रूउ चित्तयारें मणोज्जु
 १२. नंदयसत्ति ।

कदतु कणतु जणोहु दिट्ठु ।
 धीरिउ तुह दायहो दिन्नु दाउ ।
 परियाणिउ पई अप्पणउ पुत्तु ।
 आणाविउ पुणु नियनारिजुम्मु । ५
 तुह मरणदुक्खसखीणगत्ति ।
 ह्य कत तुज्जु सोहम्मि रम्म ।
 सजायाणोवम परमरूय ।
 एत्थाणिउ जणमणजणियचोज्जु ।

तं निग्रवि नराहिव विहियखेउ
न सुहाइ किं पि पेक्खवि अवत्थ

पवियभिउ तुह मणे मयरकेउ ।
गउ वरमइ अभयकुमारु तत्थ । १०

घत्ता—विरएप्पिणु विन्नाणु सयलकलागमसारी ।

आणिय चेल्लिण तेण हुय महएवि तुहारी ॥१४॥

१५

संजाउ परोप्परु रम्मु पेम्मु
अन्नोन्नोभासियदोसजालु
एक्काहि दिणि देविप्र भगवसत्थु
निसुणेप्पिणु पईं गरहिय सपत्ति
थिउ मोणु करेप्पिणु तुहें समन्नु
तहिं दिट्ठु महामुणि मयणतामु
दट्ठूण पहूउ पहूउ खेउ
कहिं दिट्ठु अणिट्ठु विमुक्कलज्जु
इय च्चित्तिवि पईं पचाणण व्व
मुणिमाहप्पेण तमेण मुक्क
आलोइवि साण अलग्गमाण

अहवा को लघइ पुव्वकम्मु ।
गउ धम्मविवाएँ विहि मि कालु ।
खब्भालिउ किउ आणिवि अणत्थु ।
ता कहिय ताए दिट्ठतजुत्ति ।
अन्नहिं दियहम्मि गअो सि रन्नु । ५
नामेण जसोहरु जसनिवामु ।
पारद्विहिं एहु अलाहहेउ ।
खलु खवणउ खाउ कयतु अज्जु ।
निम्मुक्क पघाइय सुणहू सव्व ।
काऊण पयाहिण पुरउ थक्क । १०
पुणु रोसवसेण विमुक्क वाण ।

घत्ता—सरसमूहु कुमुमोहु होएवि पडिउ न लग्गउ ।

तुहें मुणिमहिम निएवि उवसमभावि वलग्गउ ॥१५॥

१६

पणवेप्पिणु समपरिणइसणाहु
तेण वि सुहदुहगइगमणहेउ
निसुणेप्पिणु सासयमुहनिहाणु
जो विहिउ साहुवहकरणि^१ भाउ
कट्टिवि तउ निरु निम्मलमणेण
गुरुसवेगेण मणोहिरामु
| भुवणवइपणयपायारविदे
| तिन्नि जि सवच्छर अट्ट मास
एत्तिअ अळ्ळत्तिअ तुरिअ काले
सीमंतनरअ दुक्खहो खणीहिं

सथुउ पयभत्तिभरेण साहु ।
उएसिउ धम्माहम्मभेउ ।
पडिवन्नउ खाइउ सद्दहाणु ।
त सत्तमनिरअ निवद्धु आउ ।
पुणु बद्धु पढमि दसणबलेण । ५
एत्थज्जिउ पईं तित्थयरनामु ।
निव्वुइपरे सम्मइजिणवरिदे ।
दस अवर वियाणहि पंच दिवस ।
पचत्तु हवेसइ तुह वयाले ।
जाएवउ पईं पढमावणीहिं । १०

१६. १ *बहुकरण ।

नारइउ निरतरदुक्खवरिसु
नीसरिवि तओ ह्यदुक्खजालि

होसहि चउरासी वरिससहसु ।
ओसप्पिणीहे तइयम्मि कालि ।

घत्ता—सिरिचदुज्जलकित्ति जगगुरु सव्वमुहकरु ।

नामे पोमु महाइ होसहि तुहें तित्थंकरु ॥१६॥

विबिहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले ॥

भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचदपउत्ते सुबिचित्ते एतपयदसजुत्ते ।

चउदहमो सधीमो सेणियचिरजम्मकहणक्खो ॥

॥ सधि १४ ॥

संघ १५

१

एउ सुणेपिणु पुणरवि सेणुउ विभ्रवइ ।

कहि कालक्कमु केरिमु होसइ साहुवइ ॥ धुवय ॥

कहि केत्तिय अच्छइ अबसपिणि
केरिमु ताहें सहाउ वि होसइ
भो मगहामडलवइ सुहमइ
पई परोक्खि ह्यग्र तिहिं वरिसहिं
गयहिं चउत्थग्र कालि पवित्तग्र
सावणपडिवयदिणि पडसेसइ
वीसुत्तर वरिसहें मउ सुदर'
तहो पवेसि सब्बण्हपउत्तउ
तम्मि पहीयमाणि पाडलिपुरि

कइयहें होसइ सा उच्छपिणि ।
एउ सुणेवि महामुणि घोसइ ।
आयण्णेहि कालकमपरिणइ । ५
अट्टुहिं मासहिं पणदह दिवमहिं ।
आसाडहो पुण्णिमग्र समत्तग्र ।
पचमु कालु रउद्दु हवेसइ ।
परमें मणुयाणं सत्त जि कर ।
आउसरीरपमाणु निरुत्तउ । १०
वरिसि सहासि गयम्मि मणोहरि ।

घत्ता—नामे दुम्मुहु दुम्मुहु कक्की भूमिवइ ।

होसइ रिसिभिव्खद्ध लेसइ दुट्टमइ ॥१॥

२

साहु वि उपन्नावहिनाणउ
सब्बाहारहो चाउ करेपिणु
भिव्ख्खागहणेणतरे कक्की
पावे नरयाणु पडसेसइ
चोज्जु निएपिणु तहिं बिंभियमणु
करिवि नियत्तणु दुक्कियकम्महो
वरिसहें सहसि सहसि एककक्कउ
ताम जाम विसए एक्काहिय

परियाणंपिणु कक्की राणउ ।
जाएसइ सुरलोउ मरेपिणु ।
मारेवउ वज्जेण सुवक्की ।
अनयाचारहो संति न दीसइ ।
दुम्मुहरायसु आइउ बहु जणु । ५
लग्गेसइ दिहु जिणवरधम्महो ।
होसी कक्की निब्बु नयमुक्कउ ।
सयल वि एम मरेसहिं साहिय ।

घत्ता--कहइ महामुणि रायहो समयसहाबु पुणु ।

दुक्खिउ दीणु दरिद्धिउ होसइ सब्बजणु ॥२॥

१०

१. १ सुदर ।

३

निग्गुणु निट्ठुह^१ परसताविरु
माणुत्ताणउ रोसपरब्बसु
मज्जमंसपिउ पावासत्तउ
सब्बु वि परपरिवाउनिलीणउ
जलयावलि पविरलु वरिसेसइ
रोउ रउदु दुहिवसु ह्वेसइ
पुत्त पियर घराउ घलेसहिं
तवसि वि माढावन्नु करेसहिं
विप्प वि किसिकम्महो लगेसहिं

बंधणसीलु असच्चपलाविरु ।
परदारारउ ईहियपरवमु ।
कुगुरुकुदेवकुधम्महें भत्तउ ।
विरलउ होसइ को वि कुलीणउ ।
मेइणि किचि किचि फलु देसइ । ५
सयलु वि जणु जणेण खज्जेसइ ।
देवभोय पुहईस लएसहिं ।
निय छक्कम्मइ दूरे चएसहिं ।

धत्ता—करभरु पउरु करेवउ सुइहिं राणएहिं ।
होएवउ चडालहि आयमजाणएहिं ॥३॥

१०

४

खिसत्तणु^१ काही कुलउत्तिय
नउ मन्नेवउ गुरुह्वें गुरुत्तणु
नउ निव्वाहेसहि पडिवन्नउ
भरियउ अइभरियउ जि भरेवउ
छेत्तइ ऊसरत्तु जाएसहिं
गामहणइ पिपिलसकिण्णइ
पयहिय पर्यणियजणसतावे
अक्खमि केत्तियाइ बहुरुवइ
आयण्णहि भो आगामिय जिण
एत्तियमेत्ते तम्मि अछत्तण

होसइ चल परपुरिसासत्तिय ।
छट्ठे वउ सीसहिं सीसत्तणु ।
मित्तिहिं काहीसहि पेसुन्नउ ।
निट्ठणु सयलु वि परिहरएवउ ।
धन्नइ अवदायइ नासेसहिं । ५
रण्णइ बब्बुलचोरहिं छन्नइ ।
पुहईसर कलिकालपहावे ।
अवरइ होसहिं जाइ विरुवइ ।
चउयालीस मास पणरह दिण ।
जणवइ दुक्कियकरण पवत्तण । १०

धत्ता—कोसलपुरि दुइसणु सयलधराहिवइ ।

सव्वह पच्छिमु कक्की^१ होसइ इह निवइ ॥४॥

५

एक्कहिं दिणि सहाण अच्छत्तउ
कि महु कोइ वि अत्थि असिद्धउ

पुच्छेसइ सो निययमहतउ ।
तामासेसइ बुद्धिसमिद्धउ ।

१. १ निट्ठु ।

५. १ खसत्तणु । २ कक्कीस ।

सयलु लोउ सयलु वि पासडिउ
 एक्क मुएवि साहु निगँथा
 एउ मुणैपिणु पुणु पुच्छेसइ
 ताहँ अउव्व का वि गइ नरवर
 गंभीरत्तणेण रयणायर
 सच्चसउच्चाचारपरायण
 सब्बसत्तसुहयारि' पसिद्धा
 मुरनरपुज्जणिज्ज तिहुयणगुरु
 निच्चनिरंजणम्मि अणुराइय
 सीलसहाय खतिरहे थाइवि

केर कराविउ पई बहुदडिउ ।
 अवर सब्ब तुह नामियमत्था ।
 केरिस ते पुणु मति कहेसइ । ५
 जे धीरत्तणेण मुरगिरवर ।
 जे अन्नाणधारदिवायर ।
 नहनिम्मलमण गुणगणभायण ।
 नउ कामु वि पवणवपडिबद्धा ।
 जे जाएसहिँ भोक्खमहापुरु । १०
 सूरवीर महसत्त महाइय ।
 सजमकवएँ तणु पच्छाएवि ।

घत्ता—दिहु दमणु बाणासणु लेप्पिणु ज्ञाणसर ।

जेहिँ कसाय परीसह किय रिउ निप्पसर ॥५॥

६

निम्मलर्कित्तवडायालकिय
 मेल्लिवि देवदेउ सामन्नहो
 जे निच्छय निप्पिह पहायत्तिय
 कि बहूणा जइ ते परमेसर
 तो हुकारमेत्तवावारे
 इय वयणावसाणे सकसाएँ
 कहसु मुमइ साहारियकाएँ
 मति भणेसइ भिक्खाहारे
 त गेण्हहु आसन्नविणासे

कामकरीकेसरि निस्सकिय ।
 जे मणमा वि नमति न अन्नहो ।
 ते तुह केम हृति वसवत्तिय ।
 केम वि कोवु करति नरेसर ।
 तेनुक्कु वि डहति अवि्यारे । ५
 पुणरवि सो पुच्छेवउ राएँ ।
 निव्वहृति ते केण उवाएँ ।
 मुणवि तेण दुक्कियपब्भारे ।
 सपेसेवउ पुरिसु हयासे ।

घत्ता—तम्मि कालि एक्को च्चिय होसइ एत्थ जइ ।

१०

सायरचदु पसिद्धउ नामे चारुमइ ॥६॥

७

सायरदत्तु नाम पालियवउ
 तहो घरि रिसि चरियहे पइसेसइ

एक्को च्ये ह्वेसइ सावउ ।
 गपि भाउ सो नरु मग्गेसइ ।

५ १ सब्बसत्त्वमुहयारि ।

नियकरकवलु दियवरु देसइ
चिंतंतहो तहो नाणु हवेसइ
मुणिवि आउ सन्नासु करेसइ
तइयहुँ अरुहधम्मु नासेसइ
निदणिज्जनरयहो जाएसइ
कत्तियमासामावसवासरि
सग्गहो अरुहिनाणगुणधारण^१
धम्मनासु^२ होसइ पुव्वण्हण
अवरण्हण ह्यवहु नासेसइ

किमियमदिट्टपुव्वु चित्तेसइ ।
तेणासेसु वि परियाणोसइ ।
सावएण सहुँ सग्गु गमेसइ । ५
राउ वि वज्जासणिण मरेसइ ।
अवरु वि आयाण्ह ज होसइ ।
साइरिक्खे उययंति दिणोसरि ।
गण सिरिसायरचदे भडारण ।
निवइकुलक्खउ पुणु मज्झणए । १०
सयलु वि जणु कच्चउ भुजेसइ ।

धत्ता—आसाढहो पुण्णिमदिणि रयणिविणिग्गमणे ।

एसइ समउ समत्तिहे कलि रविउग्गमणे ॥७॥

८

सावणपढमदिवसि पइसेसइ
सपवेसि तहो दुरयणि तणुयहो
करपमाणु सोलह वरिसाउसु
एहु वि आसाढहो समचदिणो
तासु सहाउ काई किर सीसइ
पलयकालु सब्वहँ मि हवेसइ
सोसहु सलिलु सब्वु आवेसइ
सत्त रत्तु वज्जग्गि पडेसइ
सत्त पयडवाउ वाएसइ
सत्त जे गरलवारि वरिसेसइ
सत्त कसायउ कडुयउ तिक्खउ
पुणु अमिओवसु तत्थ निरतरु
वेयडुढहो गुहासु पइसेसहिँ
तेहिँ पुणो पयसिट्ठि करेवी
पियरसयणसंबधविज्जिय
सयल वि सयलोवायविहीणा
गिरिसरिसायरनियडनिवासिय

अइकलिकालु रउदु हवेसइ ।
वीस वरिस परमाउसु मणुयहो ।
तहो निग्गमणे हवेसइ माणुसु ।
समउ समाणे चउ पुण्णिमदिणे ।
सुंदरु जत्थ न कि पि वि दीसइ । ५
वासरसामि अईव तवेसइ ।
भेइणि निरवसेस फट्टेसइ ।
सधराधरघरिन्ति डज्जेसइ ।
कुलिसइलायलु पयडु हवेसइ ।
सत्त पुणो खारवु सवेसइ । १०
अवर सत्त कजियसारिक्खउ ।
थलि उप्पज्जेसहिँ वीयकुरु ।
बाहत्तरि परिजुयल जिएसहिँ ।
इत्थीपुरिसहिँ भूमि भरेवी ।
नग्गा पसुसमतल्ल अलज्जिय । १५
खरफरुसगा वाहिंविहीणा ।
कदमूलफलदलमसासिय ।

होएप्पिणु सच्छद वि दुक्खय

जीवेसहिं चिरदुरियनिरिक्खय ।

घत्ता—एउ मुणेप्पिणु ससयभावधारहरु ।

पुच्छिउ पुणरवि राएँ गणहरदिवसयरु ॥८॥

२०

९

केम रहेसइ वेयड्ढायलु
भणइ महामुणि निसुणि महामइ
मेल्लिवि अज्जखडमज्जिमु सुय
तेसु दुसमसुसमहो परसतइ
हाणिणु मुणिकरतणु कयहरिसहँ
पचसरासणसय देहुन्नइ
अवरु न कि पि अत्थि हीणाहिउ
पचेरावएसु भरेहसु वि
नत्थि विदेहिं अन्नु कयदुक्खउ

कि न पडेसइ तहि वज्जाणलु ।
नत्थि खयायलि कुलिसिग्गिहँ गइ ।
न पडण पचमेच्छक्खडेसु य ।
अण्णकालु न कयावि पवत्तइ ।
जीविउ पचुत्तर सयवरिसहँ । ५
पुव्वकोडि परमाउसु मन्नइ ।
सेणिय सम्मइनाहिं साहिउ ।
एस कमो जाणसु सव्वेसु वि ।
मेल्लिवि कालु दुसमसुसमक्खउ ।

घत्ता—भासइ गोत्तमसामि सुम्मउ पत्थुयउ ।

१०

जहिं होसहिं तित्थकरु तुहँ मुरमय्यउ ॥९॥

१०

गण अइदुसामि दुसमु पइसेसइ
तहो पवेसि दुरयणि देहुच्छउ
अतहिं वरिसह सउ वीसुत्तरु
वरिससहासमेसि तहिं मुह्यर
नामई ताहँ इमाइ मुणेज्जसु
कणयारउ तह तइउ पसत्थउ
पचमु कणयपुगवुहिद्वउ
सत्तमु नलिणप्पहु जाणिज्जइ
राणउ नलिणद्धउ निरु^१ नवमउ
एयारहमु होइ पउमप्पहु
पउमकेउ पत्थिउ तेरहमउ

वीस वरिस परमाउसु होसइ ।
होसइ जणवउ बुद्धिण तुच्छउ ।
जीवेसइ तणुमाणँ मुणिकरु ।
चउदह उप्पज्जेसहिं कुलयर ।
कणउ कणयपहु वीउ भणेज्जसु । ५
कणयकेउ भासियउ चउत्थउ ।
[नलिणनामु छट्टउ पुणु सिट्टउ ।
अट्टमु नलिणराउ सुभणिज्जइ ।]
तह पुगमु नलिणाइउ दहमउ ।
पउमराउ बारहमउ सुप्पहु । १०
पुगमु पउमाइउ चउदहमउ ।

घत्ता—ए कुलयर निम्मलमइ सव्बोवायकर ।

पुणु चउवीस सुहकर होसहिँ तित्थयर ॥१०॥

११

पच्छिमकुलयरासु धरि सुदरु
तुहुँ महपोमु नामु भवभयहरु
लकेसरु सुरदेउ सलक्खणु
हरिसुप्पहु तह अवरु सयंपहु
जयदेउ वि देवाहिववदिउ
पहुकित्ती जयकित्ति वि सुव्वउ
विमलु विमलपहु बहलु जि निम्मलु
देउ समाहिगुत्तु जगवच्छलु
कदप्पु अणिदिउ पुणु जयकरु
दिव्ववाउ देवच्चियपायउ

पायपअरुहपणयपुरंदरु ।
होसहि पढमु एत्थु तित्थंकरु ।
तहो गणनाहु ह्वेसइ लक्खणु ।
पुणु सव्वाउहु सिवपरसपहु ।
उदयदेउ पहदेउ उदकिउ । ५
पुण्णबुद्धि निकसाउ महावउ ।
चित्तगुत्तु उप्पाइयकेवलु ।
पुणु सयभु सच्चियमिवसुहफलु ।
विमलु विसालसीलु गुणगणहरु ।
पुणु अणतवीरिउ विक्खायउ । १०

घत्ता—ए भासिय तित्थयर तिहुयणसतियर ।

सुणु एवहिँ जे होसहिँ बारह चक्कहर ॥११॥

१२

भरहु भरहसामिउ पहिलारउ
पुणु जडदतु वइरिवयसेणउ
पुहुईसरु सिरिभूइ सुहालउ
पोमु महापोमु वि पोमाणु
विमलवाहु डहियाहियकाणु
नव बलएव नव जि नारायण
नव नारय नरवइकलिकारण
कामएव चउवीस सुहकर
पच सवाय चावसय माणुसि
बायालीस वरिससहसूणए

दीहदतु अन्नायनिवारउ ।
गूढदतु पुणु नउ सिरिसेणउ ।
सिरिकतु वि नरनाहु नयालउ ।
राउ चित्तवाहणु भूमाणु ।
अवरु अरिट्टनेमि सिरिमाणु । ५
पडिसत्तु वि नव मत्तुपरायण ।
नाणाविह विज्जाहर चारण ।
अवर वि विविहभेय पुहुईवर ।
सुहयरि पुव्वकोडि परमाउसि ।
सायरकोडाकोडिपमाणए । १०

घत्ता—दुसमसुसमसमए गुण दहविह कप्पतरु ।

पइसेसए सुहयारउ कालसमउ अवरु ॥१२॥

१३

नामे सुसमदुसमु सो वुच्चइ
तासु पवेसि कोडिपुव्वहँ जणु

सिरिसव्वणु भडारउ मुच्चइ ।
जियइ सवाय पचघणुसयतणु ।

अवसाणम्मि एकपल्लाउसु
सायरहँ सो सोक्खई देसइ
पुणु दुसमहो पवेसे पुव्वुत्तउ
निग्गमि वेगाउय गरुयारउ
जलहितिकोडाकोडिपमाणु
सुसमसुसमु नामे पुणु छट्टउ
सुसमहो निग्गमे आउ तणुअइ
अवसाणम्मि तिकोसपमाणउ

एक्कु कोसु देहन्नणु माणुसु ।
वे कोडाकोडियउ हवेसइ ।
आउसु कायपमाणु निरुत्तउ । ५
वउ वे पल्लाउसु सुहयारउ ।
पच्चमि कालि तम्मि बोलीणणु ।
होसइ समउ अईववरिट्टउ ।
ज त तामु पवेसई मन्नइ ।
पल्लई तिमि चिराउसमाणउ । १०

घत्ता—चउ कोडाकोडिउ सायरहँ निरु सो कालु वहेसइ ।

तम्मि गयम्मि पुणो वि नवअवसप्पिणि होसइ ॥१३॥

१४

ताहे वि सुसमसुसमु पुणु सुसमउ
दुस्समु अइदुस्समु छह होसहिँ
एउ मुणेवि सब्बु रिसिभासिउ
गउ नियनिलयहो नयणाणदहो
काले जते रज्जु करतउ
सवेयाइमहागुणवतउ
वयसजमसीलहिँ परिचित्तउ
तत्तो नीसरेवि तिहुयणगुरु
एउ मुणेवि धरह दिदु दसणु
कोणयकुमरु रज्जधुरधारउ
अभयकुमारवारिमेणाइय

सुसमदुसमु पुणु दुस्समसुसमउ ।
समयावट्टिहे हाणि करेसहिँ ।
पुहईसरु अईव परिओसिउ ।
पय पणवेप्पिणु वीरजिणिदहो ।
नइधम्मणेण पुहइ पालतउ । ५
मुमइसुद्धखाइयसम्मत्तउ ।
मग्गि वि पढमनरयावणि पत्तउ ।
होएप्पिणु जाएसइ सिवपुरु ।
दूरि विवज्जह मिच्छादसणु ।
हुउ पच्छा पयाहे हियगारउ । १०
सेणियसुय तवगुणहिँ विराइय ।

घत्ता—सिरिचदुज्जलकित्ति धवलेप्पिणु भुवणु ।

के वि मोक्खहो के वि सग्गहो गय वसि करेवि मणु ॥१४॥

विबिहरमविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले ॥

भुवणविदिदनाम सब्बदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे विन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचंदपउत्ते कहकोसे एत्थ सेणियक्खाणे ।

कालक्कमकहणक्खो पन्नारहमो इमो सधी ॥

संधि १६

१

एका वि सा समत्था जिणभत्ती दुग्गदि निवारेदु ।

पुण्णाणि य पूरेदु आमिद्धि परंपर सुहाण ॥ [भ. आ ७५०]

आस्तां तावच्छीलव्रतानि एकापि एकाकिन्यपि समर्था अत्यर्थेन शक्ता । कासौ ? सा प्रसिद्धा जिनः सर्वशस्तत्र भक्तिजिनभक्ति पूजेत्यर्थः । किं कर्तुम् ? निवारयितुं निरचयेन वारयितुं बुग्गदि कुत्सिता गति न केवलं कुगतिमपहस्तयितुं समर्था पूरेदुं वडंमित्तुमपि शक्ता । कानि ? ५ पुण्णानि शीलव्रतादीनि कथंभूतानि च तानि ? हेतुभूतानि कारणानीत्यर्थः । केवा ? आसिद्धि परंपर सुहाणं आमृत्तिपर्यंतं सुखपरंपराणामिति ।

धुवय—करकडे समरि पयडे मुर वि सिरीए विभाविय ।

एककेण जि भत्तिगुणेण जि सोक्खपरपर पाविय ॥

न वियाणमि छदु न वायरणु

साहित्तु न कव्वविसेस रसु

किह करमि कव्वु अविय।णमणु

तइ वि रयमि भत्तिए भत्तिफलु

एत्थत्थि भरहे अगाविसए

त कि वणिज्जइ गुणाहिं गुरु

दुव्वारवडरिमायगहरी

नियरिद्धिविसेसुवहसियहरी

मुहं करइ रज्जु गुणनियरहरु

अहिणवसारगपलोयणिया

मयमत्तमहागयलीलगई

न निघदु न तक्कु अलकरणु । १०

न वि यारिसु जाइसु लद्धरसु ।

जदु रजमि केम विउद्धजणु ।

मानेहु महारहु कि पि छलु ।

चपापुर नामे साइसए ।

उवमा तहो जइ पर सक्कपुरु । १५

सपयावपरज्जियपोहहरी ।

तहिं धाडीवाहणु रायहरी ।

जो नायधम्मतरुअबुहरु ।

नवजोव्वण जणमणमोहणिया ।

वसुदत्ता तहो महएवि सई । २०

धत्ता—आसन्नउ अत्थि सउन्नउ पुरु कुसुमउरु रवण्णउ ।

न सम्गहो सोहसमग्गहो खडु महिहे अवइण्णउ ॥१॥

२

एक्कदियहिं कोइडेण पत्थिवो

निएवि सामि सपरियणु एतत्रो

पचवण्णवत्थाहिं सुहाविया

आउ तत्थ पयणियपयासिवो ।

किउ जणेण उच्छउ महत्तत्रो ।

हट्टसोह बहुभेय दाविया ।

उग्घाडिवि जोयइ कबलउ
 आलोइउ अवरु पत्तु लिहिउ
 कोसबीपुगि वसुमइहं हुया
 ज दिवसहो लग्गेवि गब्भे थिया
 बहुवाहिहिं वाहिय वियल किया
 ते जायमेत्त निवमन्नियए
 घल्लविय मलिलि सल्लक्खणिया

दिट्टुअ अनामु अगुत्थलउ । ५
 उब्भासिउ तेण सव्वु कहिउ ।
 वसुपालनरिदहो एह सुया ।
 तद्विसावहि नरनाहपिया ।
 न पयट्टइ एक्कु वि कावि किया ।
 बुहिरुण एत्थ निव्विन्नियए । १०
 तउ कुच्छियकुल निल्लक्खणिया ।

घत्ता—लेहत्थे एण पमत्थे निरु नरवइ आणदिउ ।

सोहणदिणि पवरुच्छवघणि सई तहं चदणु वदिउ ॥६॥

७

महएवि भणेवि पग्गिट्ठविया
 महं सइए मक्कु न मुरपुरहो
 विविहुच्छवेहिं पहु पडसरिउ
 जपति के वि मकियत्थु पहु
 दुक्करु रई वि एरिस हवई
 मणसा वि न चित्तहं जा तरई
 क वि भणइ एह धण पुण्णवई
 न मुणहं किउ आयए कवणु तउ
 एवविहाई वयणइ जणहो

मा मीमाहं सव्वेहिं वि नाविया ।
 अन्नहिं दिणि गउ चपापुरहो ।
 जणु जोयहं नववहु तीसरिउ ।
 जे पत्ताणोवम एह वहु ।
 सिट्टारहो का वि अउव्व गई । ५
 सा केम विणिम्मिय हसभई ।
 पग्गिपाविउ एग्गिमु जाई पई ।
 जेणेरिसु निरवमु लद्धु वउ ।
 निसुणतु राउ गउ सभवणहो ।

घत्ता—महं कंतए अहिणवकत्तए एक्कहिं पट्टि निविट्टुउ ।

१०

मुहिसयणहिं वियसियवयणहिं मगलमेसहिं दिट्टुउ ॥७॥

८

एत्थतरि परमाणदभरे
 पेच्छह जा रच्छारमियसुरे
 मा अग्गमहिंमि अनेउरहो
 वडसरिउ चउक्कि ताए सहिउ
 आयण्णिवि एउ विचित्तियउ
 वलि किज्जउ माणविवज्जियहो

सजाय वत्त महएविघरे ।
 मालियसुय परिणिय कुसुमपुरे ।
 किय राए मणिमयनेउरहो ।
 सव्वेण जणेण एउ सहिउ ।
 महएविए चित्तु नियत्तियउ । ५
 जीविउ पडिवक्खपरज्जियहो ।

इउ सुम्मइ किल चलच्चित्तियउ
त अलिउ सञ्चु मन्भावचुया
किं एवहिँ अवरु तवचरणु

कुडिलउ नियडिरउ' होंति तियउ ।
हा पुरिस अणोयपवंचजुया ।
भवभयहरु महुँ जिण्डु सरणु ।

घत्ता—इय भासिवि घरु परिसेसिवि माणिणि अहिमाणाहय । १०
पिहियासउ कलुसविणासउ जिहिँ रिसिसामि तहिँ गय । ॥८॥

९

पणवेप्पिणु देविणु देवनुउ
दय करहि भडारा मज्झवरि
डज्झउ ससारु असारयरु
तं किज्जइ जेण न एत्थ पुणु
एत्थतरि वत्त सुणेवि तहिँ
पणवेवि सपरियणाणु भणिय
परमेसरि करहि पसन्नु मणु
तुहुँ पुज्जणिज्ज सब्बहो जणहो
पइँ होतिणु पावियकित्तणहो
धिवमाणे' अणुक्कमखडणउ
किउ राएँ नवरु अयाणपणु

विन्नविउ' मुणिणु गुणोहजुउ ।
दे देहि दिक्ख दुक्खोहहरि ।
खणभगुरु इट्ठुविअोयकरु ।
आविज्जइ लिज्जइ कुणिमतणु ।
गय पोमावइ महएवि जिहिँ । ५
तुहुँ सामिणि देवि महु तणिय ।
पडिवज्जहि [मा तुहुँ] तवचरणु ।
खम तुहुँ परमहएवित्तणहो ।
को महु अहियारु पहुत्तणहो ।
तुह पेसणु फुडु महु मडणउ । १०
खम करहि महु महएवि पुणु ।

घत्ता—इय वयणइँ तोसियसुयणइँ निमुणेप्पिणु सिरिसेविणु ।
विणयासिय हसिवि पससिय पोमावइ महएविणु ॥९॥

१०

हलि सुयणि सयाणि कुलीणपणु
भासाणु देसु विणएण कुलु
सुयणो न होइ हंकारकरु
अप्पेण वि मज्जइ नीयजणु
जणवच्छलि सच्छसहावि हले
तुहुँ नउ सवत्ति विणएक्करसा
तुह राएँ दिन्नउ मइँ वि पुणु

पइँ मेल्लिवि अन्नहो नत्थि पुणु ।
जाणिज्जइ अवरुयारेहिँ खलु ।
रणणायरो वि तिह मयरहरु ।
जिह मोत्तिय संसएवि करिणु ।
तुह मोल्लु न तिहुयणे वि सयले । ५
गुणगणणिहाणि महु लहुयससा ।
लइ महएवित्तणु सक्खिजणु ।

८. १ नियरउ ।

९. १ विन्नविय । २ धिवमसाणे ।

मा भणसु कि पि लइ लइउ खणु तवदवेण दहेवउ दुक्खवणु ।

घत्ता—पणवेप्पिणु एउ सुणेप्पिणु गय पोमावइ नियघरु ।

वसुदत्तए खच्चियचित्तए लइयउ तउ दुक्कियहरु ॥१०॥ १०

११

मामीवि सतियहिँ	कमलसिखितियहिँ ।	
मउ माणु परिहृगिवि	तउ ताए चिरु चरिवि ।	
झाएवि मुहुजोउ	गइयाए सुरलोउ ।	
मुहुसाहिमेहेण	अन्नोन्ननेहेण ।	
दिणि रयणि घडिमानि	बोलीणि बहुकानि ।	५
एक्कम्मि दियहम्मि	रयणिहिँ विरामम्मि ।	
मणिहेममए हम्मि	सयणम्मि निरु रम्मि ।	
थीयणपहाणाए	निहायमाणाए ।	
देवीए पुहईसु	दिट्ठो मयगेसु ।	
हरिरयणु सियवन्नु	वरवसहु मोवन्नु ।	१०
उत्तुगु सिरिभवणु	कण्णघिवो तवणु ।	
दट्ठण इय सुद्ध	सहमत्ति पडिबुद्ध ।	
गुपहाए भूवइहे	वज्जगिउ वरमडहे ।	

घत्ता—अन्निरामए पच्छिमजामए निमिहिँ नराहिव नरवइ ।

मोवनिए मउनियनिन्तिए दिट्ठु नाह मई करिवइ ॥११॥ १५

१२

तुरगमु गोवइ कचणरासि	मुमदिरु कप्पतरु तमनासि ।	
पयासहि कि फलु दिट्ठिहिँ एहिँ	पयपइ भूवइ बुद्धिगुणेहिँ ।	
मयच्छि महीवइदसणे चारु	हवेसइ नदणु नावइ मारु ।	
गएण गरूउ हयारि हएण	धुरधरु धोरु धुरधरएण ।	
सिरीसु मुवन्नु सुवन्नचएण	गुणीगुणमदिरु मदिरएण ।	५
समासियकप्पमहीरुहु जेण	नियच्छिउ कप्पमहीरुहु तेण ।	
मुदूसहु भदे पयावगुणेण	अधम्मतमोहरणो तवणेण ।	
अणोवमलक्खणलक्खियदेहु	कुलंबरमित्तु महामइगेहु ।	
अणोयनग्गिदनिकायपहाणु	किसोयरि आणए सक्कसमाणु ।	

घत्ता—चउसायरमेर निसायरफलहे लिहावियनामउ । १०
भुजेसइ पुहइ हवेसइ पिण तुह मुउ अहिरामउ ॥१२॥

१३

सुविणयफलु एउ सुणेवि सई
कइवयदिणेहिँ वेल्लहलभुया
निहालसु जभणु मदगई
निवडणभएण किउ दुज्जणहि
पुच्छिय नाहेण जमुज्जलिया
कहि कामुप्परि तुह दोहलउ
आयण्णिवि नाहहो भासियउ
नरवेमु करेप्पिणु पई समउ
धयच्छत्तच्चिधकयमडवेण
विरइयवेसेण सुहावणेण
पवहंत मदसीयलपवणे
जइ करमि पयाहिण पट्टणहो

गय मेहहो तुट्ट गइदगई ।
पुहईसपत्ति गुरुहार हुया ।
अहिनिमु हुय देविहे धम्मि मई ।
वयणारविडु कालउ धर्णाहि ।
कमलाणणि कि तुहँ दुब्बलिया । ५
किज्जउ अउव्वु को सोहलउ ।
देविण अहिलानु पयामियउ ।
रुह्झण रेवातिलउ गउ ।
मगलतूरारवतडवेण ।
परिचारिय पियपग्गियणजेण । १०
दुट्ठिणि ईसीसे सवतघणे ।
नो होइ मुहत्थी मह मणहो ।

घत्ता—तहिँ अबसरि पहुणा पुरवरि परमुच्छउ काराविउ ।

न गिरिवरु मयजलनिव्वरु करिवरु सिगाराविउ ॥१३॥

१४

विज्जाहरु विज्जावेउ तुरिउ
तेण वि आवेप्पिणु वित्थरिउ
सीयलु सुयधु निम्मिउ पवणु
आणदभेरि सरसदियउ
एत्थतरि गरुयाणदभरे
कोऊहलमाणस गुणणिलया
गयखधि चडावेवि पुरउ वहु
सुरनियरविराइय लोयपिया
सव्वेहिँ मि जयजयकारु कउ
तडितडयडति गज्जतु घणु

नियमित्तु नरिदे सभरिउ ।
दुट्ठिणु घणेहिँ रवि अतरिउ ।
वरिसाविउ जलु एक्केक्कु कणु ।
जणु मिलिउ सव्वु आणदियउ ।
जयमगलतूरारवगहिरे । ५
कयपुरिसवेस थियणतिलया ।
अप्पणु पुणु पच्छारुहिउ पहु ।
न इदपडिद गइदि थिया ।
कमचारे चोइउ चलिउ गउ ।
वरिसतु निएप्पिणु इदधणु । १०

घत्ता—रुदु व जमु करि लघियकमु सुमरेप्पिणु जम्मणवणु ।

नीसरियउ चप्पिवि तुरियउ काई करइ किर परियणु ॥१४॥

१५

दतिउरवणहो मणवणजउ
 हा हा पभणतु विसन्नमु
 पोमावईप्र देवीप्र पट्टु
 हा हउं हयास खल कि न मुई
 पडें विणु अणाहु भूयलु सयलु
 तुहुं तेण नाह करि परिहरहि
 महुं जाइ सामि उत्तरहुं नउ
 किं किज्जइ सब्वहें दुट्टु विही

सम्महुइ कलिगहो गयउ गउ ।
 पल्लट्टु अमेसु वि समिउ जणु ।
 गिरिगहणि भणिउ परदुब्बिसहु ।
 महु लग्गि वि हुय तुह एह गई ।
 नासेसइ लेसइ वइरि बलु । ५
 तरुसाहहि लग्गि वि ओयरहि ।
 हा दूरीहूयापाय तउ ।
 पिय सयलु खमिज्जहि गुणहें निही ।

घत्ता—पणवेप्पिणु एउ भणेप्पिणु महु महु दूमियमइ ।

हत्थिदहो मरणसमुद्धो उत्तारिउ [भुवि] भूवइ ॥१५॥ १०

१६

बाहुडिउ नरेसरु गउ भवणु
 अहनिमु धावतु समहो भरिउ
 वंचेवि दिट्ठि नावइ जमहो
 गय तुरिय तरेवि तोउ तडहो
 समु मुप्रवि निमज्जवि सुइरु गउ
 एत्थतरि तत्थ करडकरु
 लच्छि व पेच्छेवि सणेहपरु
 पोमावइ वहिणि भणेवि घरु
 तहिं मास चउक्कि सुहेण गए

दती वि पत्तु दतिउरवणु ।
 तहिं पोमसरोवरि पइसरिउ ।
 उत्तरिय देवि तबेरमहो ।
 थिय वणदेवि व्व मूलि वडहो ।
 जलु लेवि सइच्छइ कहि मि गउ । ५
 भडु नामे आइउ मालकरु ।
 सजायउ खुटियकमलभरु ।
 गउ लेवि पयत्ते दतिपुरु ।
 आसन्नहूइ पसवणसमए ।

घत्ता—गप्र गामहो चित्तियकामहो पिययमि आलापालिणियप्र ।

ईसाप्र विदूसणु लाप्रवि नीसारिय मालिणियप्र ॥१६॥ १०

१७

भूयहिं वेयालहिं भेक्खसहि
 नामेण महाभयम्मि निसिहिं
 पसविय पोमावइ जाउ सुउ
 पेच्छती त जुवईण परा
 तामायउ राउ व दंडकरु

जहिं जमु वि घलिज्जइ रक्खसहि ।
 तहिं पिउवणे पुरपच्छिमदिसिहि ।
 कि भणमि सब्वलक्खणहिं जुउ ।
 जामच्छइ हरिससमेय परा ।
 मायंगवेसि तहिं एककु नरु । ५

विणएण तेण दूरत्थिएण
परमेसरि पसिय पसन्नमणे
एत्थत्थि भरहे वेयड्ढगिरि
तहो दाहिणसेडिहे रमियसुरु
त विज्जुलेहमहएविवरु
हउं बालदेउ तहो पुत्तु ह्रुउ

विन्नविय देवि कत्थत्थिएण ।
वित्ततु महारउ मुयणि मुणे ।
रूपमउ अणोवम जासु सिरि ।
विज्जप्पहु नामे अत्थि पुरु ।
पालइ विज्जुप्पहु खयरवरु । १०
भज्जाए हेममालाए जुउ ।

धत्ता—विहरतउ भोयासत्तउ चदणभूरुहपरिमलु ।

गउ कीलहुँ सोह निहालहुँ एक्कदियहं मलयाचलु ॥१७॥

१८

भमरु व सुमरेप्पिणु कमलसरु
एतहो विमाणु ग्यणुज्जलिउ
कि थिउ विमाणु इय भणिवि तनु
रिसि धोरु सच्चवउ जोयधरु
इय चित्तिवि मइ उवसग्गु किउ
रे रे णवयम तुह दप्पखउ
त मुणिवि मुणीवइ विन्नविउ
खम करि कइयह सावतु पुणु
निदुप्पु निएवि दयावणउ
उवसामिउ साहुवइट्ठु तहो

तहिँ मुडरु रमेप्पिणु चलिउ धरु ।
महुरानयरिहे उप्परि खलिउ ।
जा जोयमि ताम विमुक्कमलु ।
महु एहु गमणपडिबधकरु ।
सवणेण वि रूसेप्पिणु सविउ । ५
विज्जाविच्छेउ मूठ हवउ ।
सामिय दुक्कम्भे हउं खविउ ।
होसइ महु विज्जाविहव गुणु ।
गयणेयरु कयपहु जाव णउ ।
भाविउ निमित्तु विज्जागमहो । १०

धत्ता—सविसेसए अगसुदेसए चपापुरे बहुवाहणु ।

परमेसरु अत्थि नरेसरु नामे घाडीवाहणु ॥१८॥

१९

पोमावइ देवि तासु तणिया
हरिऊणाणेसइ दत्तिपुरु
तहिँ सुदरि' मालायारधरे
ईसावसाए पसवणसमए
नीसारिय पसवइ पेयहरे
सव्वगसरूवु सलक्खणउ

कयदोहल अतरवत्तिणिया ।
करि रेवातिलयनामु असुरु ।
अच्छेसइ हसि व कमलसरे ।
मालिणिए मारिदत्ताए तए ।
नामेण भीमे' सज्जणियडरे । ५
सा सुयणु जणेसइ तहिँ तणउ ।

तहिँ तुहँ मि चंडचंडालु हुउ
पउमावइदेविहे पासि सुउ
सो जइउ लहेसइ रज्जपउ
रक्खंतु मसाणु तेण सपिउ

अच्छेज्जसु नियमज्जाणु जुउ ।
पालेज्जसु लेवि जुवाणु हुउ ।
दतिउरि तइउ सावंतु तउ ।
हउँ तुज्जागमणु नियंतु थिउ । १०

धत्ता—भयवंते तववहुकंते ज चिरयालि पउत्तउ ।

तं जायउ जयविक्र्वायउ कि मुणि भणहिँ अजुत्तउ ॥१९॥

२०

परमेसरि भति न कि पि करे
भासिउ महएविणु होउ इण
कि बहुणा णयणाणदणहो
इउ करमि भणेवि नवेवि घरु
अप्पिउ पियाहे पुन्नढभहिउ
पारद्धउ पालहुँ सोक्खकरु
जिणमदिरि दूरुज्जययरेहे
अच्छति पयत्ते विणयजुय ।

दे सुउ वडढारमि नेवि घरे ।
लइ छिज्जउ भाउय सावरिणं ।
मुपयत्तु करेज्जहि नदणहो ।
गउ सह्रिमु सिमु लएवि खयरु ।
ताए वि वगयरेण गहिउ । ५
एत्तहे पोमावइ गय नयरु ।
अज्जयहि' पामि उवसभरयहे !
कइवयदिणेहिँ आरोय हुया ।

धत्ता—सहुँ अज्जहिँ भवियणपुज्जहिँ एकहिँ दिणे तिहुयणमुणिहे ।

गय वदणहत्तिणु निहयदुहत्तिणु नदणवणु समाहिगुत्तमुणिहे ॥२०॥ १०

२२

पणवेप्पिणु पुरउ निसन्नमई
निसुणेप्पिणु सब्बु मयाणियए
जगडमरमणोभवहत्थिट्टरि
मई कवणु पाउ किउ असुह्यरु
ता कहइ महामुणि राणियहे
वणि नायदत्तु बहुवित्थियहे
तहो नायदत्त नामे पमया
पेक्खेप्पिणु वणि निविन्नमई
तउ करेवि समाहिणु मुक्कवउ

मुणिणा वि पयासिय धम्मगई ।
विन्नविउ भडारउ राणियए ।
परमेसर परमपसाउ करि ।
जे जाउ विओउ अणत्थकरु । ५
वल्लह्विओयविद्दाणियहे ।
होतउ पुरीहे सावत्थियहे ।
घरविप्पे समउ कुकम्मि रया ।
मेल्लेपिणु घरु सजाउ जई ।
वभुत्तरु नामे सग्गु गउ ।

धत्ता—तत्तो चुउ चपापुरि हुउ धाडीवाहणु नरपवरु ।

१०

वमुपालहो पुहईपालहो मुउ वसुमइहे मणोहरु ॥२२॥

२३

वणिबभणु कविलु वि कालगड
पयणियपडिवक्खपक्वपलउ
वणि घरिउ धाडिवाहणनिवहो
भवगहणि भमेवि असोक्खयरे
वणिउत्तहो वमुदत्तहो तणिया
घणवइ घणसिरि नामालियउ
घणवइ घणपालहो घणपयरे
तहो ससग्गेण अकज्जरया
घणसिरि कोसविहे सुदरहो
दिढदसण ससयभावचुया

काणणि दत्तिउरहो जाउ गउ ।
नामे पसिद्धु रेवातिलउ ।
हुउ करिवरु सो कयपयसिवहो ।
अहिदत्त वि तामन्नित्तनयरे ।
हुय नागदत्त नामे वणिया । ५
जणियाउ ताए वे बालियउ ।
दिन्नी सुय नायलदनयरे ।
हुय सा अणमन्निय बुद्धमया ।
दिन्नी वसुमित्तहो वणिवरहो ।
सा साविय तहो सग्गेण हुया । १०

घत्ता—काले मुए पिए विह्वि गए नायदत्त दुक्खिय धरु ।
ससिमुहियहे लहुदुहियहे आगय कोसबीपुरु ॥२३॥

२४

घणसिरिए विवेयगुणायरए
मुणिवरहें पासि दुहविद्वणु
अच्छेवि तत्थ जेट्टहे सुयहे
तहिं ताए निवारयकुगइभउ
इय इतिए जतिएँ ज णियरउ
पुणरवि परिगहियाणत्थमिया
तत्थु जि पुरम्मि पुहईवइहे
जइयहें पहूइ सा उयरि हुया
जरसासखासकइहूइ हया

सम्माणिवि मायरि सायरए ।
लेवाविय निसिभोयणहो खणु ।
गय नायलदपुरु पासु तहे ।
भग्गउ निसिभोयणविरइ वउ ।
मूहए वयभगु तिवार कउ । ५
घणसिरिसामीवए एवि मया ।
वसुपालहो देविहे वसुमइहे ।
तइयहें पहूइ सोक्खेण चुया ।
जीवियमदेहहो देवि गया ।

घत्ता—नाणाविहदुहवकावियमुह सा हयदेहबलासय । १०
नवमासहिं कह व किलेसहिं वाहि व गम्भहो निग्गय ॥२४॥

२५

उयरत्थिया वि जा दुहु जणइ
किं किज्जइ जइ सुवन्नछुरिया
किं पुत्तिए दुक्खविदाइणिए

सा वड्ढती किं नउ कुणइ ।
तो किं हम्मइ तणु सुहयरिया ।
किं मायए पावइसाइणिए ।

भणिऊण एउ मंजूसियए	नीरधए रयणविहूसियए ।	
नामंकियअंगुलिएण जुया	विलिहियपत्तेण समेउ सुया ।	५
भीयाए छुहिप्पिणु वमुमईए	पवहाविय कालिदीनईए ।	
मंजूस वि विहिवसेण षडिया	गपिणु पयागसंगमि षडिया ।	
सुरसरिसोदेण वहति तहिं	गय ओवहति कुसुमउरु जहिं ।	

घत्ता—तहिं जोइय पुण्णहिं जोइय मालिएण मजूसिय ।

पडसेप्पिणु सलिलु तरेप्पिणु कडिडवि नियघरु मसिय ॥२५॥ १०

२६

उग्घाडिवि जोइय दिट्ठु सुया	मरसत्ति व सिमुरूवेण हुया ।	
सामन्नहो एह न सुदरिया	भणिऊण एउ लक्खणभरिया ।	
नियपियहे समप्पिय तेण किया	पालेवि जुवाण नइलोयपिया ।	
एक्कहिं दिणि धाडीवाहणहो	नरनाहहो वडरिविराहणहो ।	
निवडिय दिट्ठीवहि नाई रई	मजाउ अईवासत्तमई ।	५
सत्ताविउ कामगहेण पट्ट	परिणिय मा बल्लह हूय बह ।	
परमत्थे परमुन्नइहे निउ	मात्तिउ राएण कयत्थु किउ ।	
परियाणिवि कुलगुणसीलकिय	महिबइणा तुहुं महएवि किय ।	
अत्तेउरसरसयवत्तिणिया	हुय काले अतरवत्तिणिया ।	
एक्कहिं दियहम्मि पिएण तुहुं	पुच्छिय कि किस कहे कवणु दुहु ।	१०

घत्ता—उवडट्टउ पई वि मणिट्टउ पुहईमेण वि सहयरु ।

निज्जाइउ तुरिउ पराइउ विज्जुवेयगयणेयरु ॥२६॥

२७

सीयलसुयधमदयरमरु ^१	ससुरिदाउहु खणरुइ ससरु ।	
वरिसतु सनु इसीसे जनु	तेण वि तहिं निम्मिउ मेहउलु ।	
किउ परमुच्छउ पयणियपुलउ	सिगारेवि करि रेवात्तिलउ ।	
कयपुरिसवेस तग्गयमइणा	तहिं तुहुं बलग्ग सहुं भूवइणा ।	
वाइय वादत्तय मिलिउ जणु	चोइउ गइदु लीलागमणु ।	५
दंतेण पयाहिण पट्टणहो	दुट्ठिणे निसुणेप्पिणु घणु घणहो ।	
चउदिसु चलंति चल इदघणु	करिणा निएवि संभरिउ वणु ।	

२७. १ मंदयरु मरु ।

सब्वहिँ वि घरतहँ पवणजउ
तुहवयणें पच्छातावपर
गउ निययनिवासहो पुरिसहरि

चप्पेवि बलेण नीसरिउ गउ ।
कहमवि उत्तरिउ घरेवि तरु ।
एत्तहे एत्थायउ तुरिउ करी । १०

घत्ता—समभरियउ पए पइसरियउ तुहँ तरेवि निग्गय सरु ।
पहाएप्पिणु सलिलु पिएप्पिणु गउ गइदु गहणतरु ॥२७॥

२८

तहिँ विहिवसेण वेल्लहलभुए
दट्ठूण सिण्हभावभरहो
तहिँ कुसुमदत्तघरे जेम थिय
एक्कहिँ दिणम्मि ईसावसए
गए गामहो पिए मालिणिए तुहँ
तहिँ पसविय सुउ सजाउ वरु
कहिऊण सवइयरु सयलु तउ
ज जायमेत्त छित्ता सि जले
ज मालायारिणीए पहया
तं फलु तिवारवयभजणहो

तुहँ मानिण दिट्ठा सि सुए ।
गउ बहिणि भणेवि लेवि घरहो ।
चत्तारि वि मास सुहेण निय ।
रूसेप्पिणु सजोइयमिसए ।
धाडिय गय पियवणु जणियदुहँ । ५
मायगवेसु आइउ खयरु ।
मग्गेप्पिणु नदणु लेवि गउ ।
ज करिणा णिय हरिऊण हले ।
घल्लिय घराउ पिउवणहो गया ।
निसुणेंप्पिणु एउ निरजणहो । १०

घत्ता—पणमेप्पिणु मणु नियमेप्पिणु मुणिययमूले महाफलु ।
सगहियउ तउ जयमहियउ ताए सिरीचदुज्जलु ॥२८॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयरामाले अत्थसंदोहसाले ॥
भुवणविदिदनामे सब्बदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिअतोसे ॥

इय करकडचरित्ते सिरिचदमूणिदविरइए रम्भे ।
सोलहमो आसासो करकंठुप्पत्तिणामोयं ॥

॥ सधि १६ ॥

संधि १७

१

एतर्हिं सवसयणं खेयरघरे वड्ढड बालउ ।
निम्मलगयणयले न वीयायदु मुहालउ ॥

न माणससग्वरि रायहमु	न निरवद्दु गिरिगहणि वमु ।	
नं मुक्कपक्खि रिक्खेयमित्तु	न भव्वहो धम्मायरणि चित्तु ।	
न दिणि दिणि सुदरु मुक्कड्ढव्वु	न चिरकयमुक्कियगेहिं दव्वु ।	५
न ऊहापोहिरि मइवियप्पु	न नवजोव्वणे मणि मयणदप्पु ।	
नहचारिहे सिग्गिसावाहयामु	वड्ढड व मणोरहु मुहपयामु ।	
पोमावइ एक्कहिं दियहिं नेत्थु	गय बालएवधरु बालु जेत्थु ।	
कडु करेण कर कडुयतु	नदणु निएवि कीलतु सतु ।	
नालेप्पिणु मुइरु पसन्नवाय	करकडु करेप्पिणु नामु आय ।	१०

घत्ता—एतर्हिं ताम तर्हिं दिणि दिणि वड्ढडु कुमारउ ।
किउ खयरहिंवेण नाणा सत्थत्थविसारउ ॥१॥

२

रक्खतु सतु भीमणु मसाणु	जामच्छइ नियताएँ समाणु ।	
ता तत्थ विधि निद्धयकाम	रिसि वीरभट्टजयभट्टनाम ।	
सहँ सधे एवि अमोहवाणि	पासुयपएसि थिय दिव्वनाणि ।	
तर्हिं तिन्नि वस पावेवि कालु	उट्टिय भिदेप्पिणु नरकवालु ।	
एक्को मुहे दो नयणेमु दोमु	नीसरिय निएप्पिणु जायतोमु ।	५
पभणइ मुणि नामे बालएउ	भो नियह नियह अच्छरिउ एउ ।	
माणवकरोडि फाडेवि वस	केमुट्टिय किह वड्ढडयपसस ।	
निमुणेवि वीरभट्टेण वुत्तु	सधाइवेण एय निरुत्तु ।	
जो आयहो महिमडलहो सामि	होसइ सबन्नदपोवसामि ।	
तहो अकुसद्धत्तधयाण दंड	होसति परिज्जियवइरिदड ।	१०

घत्ता—निसुणेवि मुणिवयणु नामेण सुमइ बभणु मणे ।
चित्तं प्रलियगिर न हवति कयावि मुणिजणे ॥२॥

३

अवधारिऊण एय मणम्मि
वरपव्वसधिवडिडय महंत
छिदेप्पिणु लेप्पिणु जाइ जाम
भेसाविउ कडिडवि खग्गधेणु
पेच्छिवि मुहलक्खणलक्खियगु
उवएसिउ जो मुणिणा मणोज्जु
एसो सो रंजियजणमणाई
चित्तेवि एउ विणएण वुत्तु

धिउ सुत्तकंठु एककहिं दिणम्मि ।
दट्ठूण वेणु ते थरहरत ।
करकडुकुमारो दिट्ठु ताम ।
उहालेवि तिन्नि वि लइय वेणु ।
दुव्वारवइरिकयमाणभगु । ५
भूवलए करेसइ सयलु रज्जु ।
सामन्नहो एई न लक्खणाई ।
विण्णे पोभावइदेविपुत्तु ।

घत्ता—भो अम्हारिसहं उज्जमु अकियत्थु अपुण्णहं ।
लइ तुम्हारिसहं सिगि एह सब्ब कयपुण्णहं ॥३॥

१०

४

निमुणेविणु एउ सलक्खणेण
को तुहं कहिं होतु किमत्थु आउ
त मुणिवि पयासइ सो वरम्मि
नामेण सुमइ सपयविहीणु
त नत्थि ज न किउ अत्थहेउ
सेविउ ममुद्दु दीवतराई
परिसमिउ भमिउ देसतराई
रससिद्धि निहालितु धाउवाउ
तइवि हु न कि पि फलपत्ति जाय

पुच्छिउ कुमरेण वियक्खणेण ।
कि गहिय वस कहि भो मत्ताउ ।
हउं भट्टपुत्तु पाउलिपुरम्मि ।
पडु पट्टिउ सब्बकलापवीणु ।
आराहिउ निट्ठए मत्तु देउ । ५
पइसरिउ सेलगुज्जतराई ।
विहियाई विविह्वेसतराई ।
अवरु वि अणयविह्वु किउ उवाउ ।
फुडु दुक्कियकम्महो एह आय ।

घत्ता—हिडेवि सयल महि एत्थाययए बहुसीसे ।
वम निएवि किउ सुदरु आएमु मुणीसे ॥४॥

१०

५

जो सयलहो भूमडलहो नाहु
ए छत्तधयंकुसदड तासु
जइ सुसहि जलहि चलु गिरिपहाणु
इय चित्तिवि किर महुं एहि रज्जु
छिदेवि लेवि हउं चलिउ वस

होसइ अरिनियरमियकराहु ।
होसति करेसहिं वइरिनासु ।
रिसि भासिउ तो वि न अप्पमाणु ।
हांसइ कज्जेण अणेण अज्जु ।
पई लइय भावि भो रायहंस । ५

विणु पुण्णहिँ पत्तु वि जाइ वत्थु
कि बहुणा जइयहुँ तुज्जु रज्जु
तइयहुँ मत्तित्तणु तरणितेय

पुण्णोहिँ होइ सयलु वि पसत्थु ।
हांसइ सुदर सजणियचोज्जु ।
देज्जमु महु अरितरुजायवेय ।

घत्ता—करकडेण तउ अब्भत्थण तासु समत्थिय ।

अहवा सप्पुरिस पाणा वि घरति न पत्थिय ॥५॥

१०

६

पडिबज्जिवि वण्णुत्तमपउत्तु
एत्थतरि दतिउरहो नरिदु
पचत्तु पत्तु अबुत्तु साह
सीहासणु सुत्तु निएवि मति
विणु राएँ को किर करइ सति
नीरकुसु करि व कयावसाणु
तारायणो व्व परिवारलोउ
इय चित्तिवि मयरयमहुयरोहु
करि कलमु देवि सगयकरेण
करि भणित्तु भद्दु तुहुँ गुणसमगु

निदावसु तरुतले गपि सुत्तु ।
बलवाहणु नामे न सुरिदु ।
सो नत्थि जासु रज्जाहियारु ।
चित्ताविउ माणसि निहयभति ।
पलयहो पयाउ परमत्थु जंति । ५
खलयणु को खलइ वियभमाणु ।
विणु राएँ कहिँ किर जणइ जोउ ।
किउ पट्टहत्थि सिगारसोहु ।
परियणहो मज्झि मतीसरेण ।
अप्पेसाहि कोइ वि रज्जजोग्गु' । १०

घत्ता—एउ वयणु सुणेवि सच्चलिउ पीलु लीलागमु ।

मयनिव्वरसहिउ वरवसु गिरिदु व जगमु ॥६॥

७

करकडुपुण्णमरुपेरियगु
जयमगलवाइत्तयसणेण
नहलग्गकुभु उन्नयविसाणु
तहिँ तरुतलम्मि निदायमाणु
तहो उवरि करिदे कणयकुभु
सीयलजलफरिसवसेण धीरु
जयकारिउ परिवारें पुरेण
एत्थतरि के वि भणित्तु एउ
तहिँ नत्थि विसिट्टहो देसि वासु

नीसरिउ नयरु मेल्लिवि मयंगु ।
परियरिउ पउरपरियणजणेण ।
सपत्तउ त भीसणु मसाणु ।
दिट्टउ कुमारु लवखणनिहाणु ।
पल्लत्थिउ निदासनिनुभु । ५
उन्नित्तिउ अरिसिहिसमणनीरु ।
नियखंधि चडाविउ सिधुरेण ।
मायगहो जहिँ रज्जाहिसेउ ।
लइ नासहुँ जायउ धम्मनासु ।

हा दिद्वुड एरिसु मनु जेण

मूलम्मि विणासिउ कज्जु तेण । १०

घत्ता—ए आलाव जणु किर करइ जाम अवरित्तउ ।

दियवरु नाम तहिँ ससयविच्छेउ व पत्तउ ॥७॥

८

विप्पे पोमावडदेविपुत्तु

पणवेप्पिणु आसीवाउ वुत्तु ।

जय नद वड्ढ एयायवत्तु

कुरु रज्जु विणासहो जनु सत्तु ।

सा मुणित्त जणे जयलच्छिगेहु

निच्छउ मायगु न होइ एहु ।

पडु पडित्त सुइवड्ढियमरट्टु

कि मगु णमसइ सुमइ भट्टु ।

एत्थत्तरि जयमगलरवेण

नयरम्मि रइयपरमुच्छवेण । ५

अहिमेउ करेप्पिणु परियणेण

बधेवि पट्टु हरिसियमणेण ।

पणवेप्पिणु भणित्त गयदगामि

तुहुँ अम्हहँ अज्जपहूइ सामि ।

आसकिउ रिउ पसरियपयाउ

हुउ दतिनयरि करकडु राउ ।

घत्ता—तम्मि चेय दियहे सव्वाउ सुरासुरपुज्जउ ।

विज्जुल्लेहमुएण पत्तउ पुण्विल्लउ विज्जउ ॥८॥

१०

९

ता बालएवविज्जाहरेण

गयणगणि मणिमयसेहरेण ।

धाएप्पिणु थिर पडुभनित्तु

बोलाविय सयल वि रायउत्त ।

सकलत्ते रिसिसावहे वसेण^१

मायगहो वेसे निब्भएण ।

मइ एत्तिउ कालु ममाणु एउ

मेविउ हउं खेयरु वानएउ ।

एहु वि कुमारु नउ होउ पाणु

फुडु रायउत्तु लक्खणनिहाणु । ५

चपापुरि धाडीवाहणासु

रायहो नयधम्मपसाहणासु ।

पोमावइ त्ति वल्लहिय जाय

दोहलवस करिणाणिय इहाय ।

सजणित्त ताए न इहु कुमारु

नामे करकडु पयावसार ।

परिपालित्त मइँ मुणियेसणेण

हुउ तुम्हहँ पडु सुक्कियगुणेण ।

हुए रज्जलाहि आयहो हुयाउ

महु विज्जउ साववसे चुयाउ । १०

घत्ता—एवविहु सयलु खगु नियवित्तु कहेप्पिणु ।

गउ परिमुद्धमणु सनयरु कुमारु पुच्छेप्पिणु ॥९॥

१०

गए खेयरि उज्जुय सज्जण व्व

पुहईसरेण वरिसव सपव्व ।

ते तिन्नि वि वस गयंकुसासु

किय दंड छत्तपालिद्वयासु ।

६. १ 'सावहे एण ।

पालिउ पडिवसउ दिनु तासु
सुयरज्जलभरंजियमईए
दिट्टउ नदणु नदियजणोहु
कहिण्हिं बालदेवहो तणेहिं
सब्बेहिं वि सहुं राएण अज्ज
जय नद वड्ढ जीवहि अणण
भुजेज्ज सुमेइणि आसमुद्द
हरिससुयमुहि आमीस देवि

मत्तित्तणु सुमइहे दियवरासु ।
एतूण तत्थ पोमावईए ।
न पुण्णिमाए ससि पुण्णसोहु । ५
परियाणोवि साहिन्नाणएहिं ।
पणविय परिपुज्जिय पुज्जणिज्ज ।
कुरु धम्मु सया सहुं परियणेण ।
ता जाम मेरुरविससिसमुद्द ।
गय पोमावइ सुउ सिक्खवेवि । १०

घत्ता—कित्तिकिरणनियरु अन्नायतमोहदिणेसरु ।

रज्जु करतु सुहुं थिउ तहिं करकडु नरेसरु ॥१०॥

११

तामेक्कदियहं दूएण एवि
मुणि सयलवसुधरिसामिसालु
पसरतकित्ति अणवरयचाउ
सुदरमइ सब्बगुणोहोहेहु
सपयावपरज्जियवासरेसु
करि केर महारी देहि कप्पु
इय कहिउ जीवियव्वहो उवाउ
कि लब्भइ भुजहुं एवमेव

दतिउरनाहु वुत्तउ नवेवि ।
दुव्वारवइरिकुलपलयकालु ।
परमेसरु परमपयाणुराउ ।
दुन्नयदावानलसमणमेहु ।
पइं आणावइ चपावुरेसु । ५
पइसरह एवि परिहरहि दप्पु ।
न तो चित्तेज्जहि अण्णठाउ ।
भूयलु किय जाम न माभिसेव ।

घत्ता—दतिपुराहिवइ दइवुज्जमसेन्नसमिद्धउ ।

दूयदुजपियउ आयण्णिवि एउ विरुद्धउ ॥११॥

१०

१२

आहासइ को किर एत्थ सामि
दइवेण समप्पिउ मज्जु रज्जु
कि गोत्तकमे कामु वि पहुत्तु
सब्ब पि पुण्णसामग्गि जासु
मेल्लेप्पिणु सुविक्रयकम्मु एत्थु
न वियाणइ अज्ज वि तुज्ज राउ
अमिउ व हालाहलु नवर खाहुं
सो जाहि दूय गपिणु निवारि

भणु दूय केण महु दिन्न भूमि ।
जो सहइ न तहो भुयवधु रज्जु ।
अहवा ष्ठु कि सासणि निउत्तु ।
कुनबलु जमु पोरिसु रज्जु तासु ।
को अवर देहुं फोडुहुं समत्थु । ५
तहो लग्गु विरूउ पहुत्तवाउ ।
जो इच्छइ उम्मगणेण जाहुं ।
मा हक्कारउ नियसमुह मारि ।

घत्ता—सरिवि पुरउ सहहे पहुनिदावायपलित्तें ।
पारद्धउ भणहुँ दूएण दूयगुणजुत्तें ॥१२॥

१०

१३

न विआणहि अज्ज वि किं पि मूढ
अमुणेप्पिणु अप्परस्स सत्ति
कि मागहाइदेवहें धरित्ति
भणु तेण ताण ते पइसरति
महु हासउ दिज्जइ नवर तेण
जोइगणु कि पसरियकरामु
तुहें गोप्पउ व्व सो जलनिहाणु
भणु एवइइतरु समउ जेण
अहवा लइ तुज्जु न दोमु कोइ

कि चवहि आलु माणाहिरूढ ।
जो कुवइ तासु निच्छउ भवित्ति ।
चक्कीहिँ दिन्न निव्वाहवित्ति ।
बलु जासु तासु सयल वि डरंति ।
जं वग्गइ मसउ सम गएण । ५
पुज्जइ तेएण दिवायरामु ।
परमाणुउ तुहें सो गिरिपहाणु ।
किं किज्जइ दप्पु समाणु तेण ।
सव्वहो मइनासु विणासे होइ ।

घत्ता—आसन्नम्मि खण्ण विवरीय चिट्ठ मइविब्भमु ।

१०

पेच्छह कीडियहै कि न हवइ पक्खविणिग्गमु ॥१३॥

१४

को विसहइ दूसह सामिघाय
दूयहो वयणेण विमुक्कसत्ति
आरुठु दुट्ठवयणइँ भणत
हम्मउ न दूउ अघ्नाउ एहु
लइ मेल्लि मेल्लि मा धरहि एंतु
रुहिरासवु रक्ख पियतु भूय
मा वार वार विप्पियइँ जपि
जइ इच्छहि सेवा धुइ पणामु
पइसरु वणु मेल्लिवि रज्जु भोउ
इयरहुँ पर महुँ कोयडु तासु
दूएण भणिउ जिह नियघरम्मि

सभालहि स मा मरहि राय ।
पक्खुहिय सव्व सामंत मंति ।
पहुणा विणिवारिय उत्थरंत ।
बोल्लउ जं भावइ' तं दुमेहु ।
धवु लहउ अज्जु भुक्खिउ कयंतु । ५
राएण भणिउ जज्जाहि दूय ।
नियसामिहे संघहि एउ गंपि ।
ता होहि साहु निमुक्ककामु ।
झायहि जिणु चित्तं धरेवि जोउ ।
पणवइ रणे वाणहिँ जणइ तामु । १०
जंपइ कि तिह कोइ वि रणम्मि ।

घत्ता—पहरइ पवर भड मुहुमुक्कहक्कल्लक्ककण्ण ।

नडियकबंधसण्ण गयकायरे सरपिहियक्कण्ण ॥१४॥

१५

पहुणा पउत्तु निच्छयपरेण
तुहँ महु पमाणु फुडु तहिँ जि काले
गउ तुरिउ वओहरु कहिय वत्त
अइविसमु नवर दतिउरनाहु
पइसरइ न तुमहँ देइ कप्पु
वयणेण एण अखलियपयाउ
को सो कि न करइ महु पणामु
भणिऊण एउ सन्नाहतूरु

रे दूय काई बहुवित्थरेण ।
पेक्खेसहिँ सगरे सुहडकाले ।
कुरु सामिसाल संगामजत्त ।
मन्नइ न कि पि बद्धासगाहु ।
बोल्लइ ज भावइ त सदप्पु । ५
परिकुइउ पयपइ चपराउ ।
लइ दसमि खलहो कयतधामु ।
देवाविउ वडरिकुडुबजूरु ।

धत्ता—निसुणोवि तूररवु रणरसरोमचपमाहणु ।

सहसा सन्नहेवि चल्लिउ महुँ पहुणा साहणु ॥१५॥ १०

१६

एत्थतरे एप्पिणु चरनरेहिँ
कि देव अवरवावारसत्तु
तुज्झुवरि तुरगतंरंगचारु
उड्डतबहलधूलीजलोहु
पसरतकित्तिवेलाविसालु
पवहंतसयडजलजाणवत्तु
अवलयरवडायानायवदु
अरिमयरकोववडवाणलिल्लु
जससखविहूसियउहयकूलु
बंदिणवेयालियरोलराउ
परिवारपउरजलयररउदुदु

करकडु भणिउ पर्णामयमिरेहिँ ।
अच्छहिँ कुरु सगामहो फयत्तु ।
मेयायवत्तडिडीग्भारु ।
दावियगुरुगयघडमेलसोहु ।
अलकतकोतअसिमीणजालु । ५
दुल्लंघु अकित्तिमलोहचत्तु ।
गुणमणिआणदियसयणचदु ।
गूढयरमंतगभीरिमिल्लु ।
अंपियविवक्खपायालमूलु ।
लायणसाह अखलियपयाउ । १०
उच्छल्लिउ दुद्धरु अरिसमुदुदु ।

धत्ता—राएँ वज्जरिउ आवउ न कि पि पडिवालमि ।

होउ' अमरइ तहो निम्महेवि दुक्खु दक्खालमि ॥१६॥

१७

रुसेप्पिणु पहुणा समरभेरि
रणरसवनेण जियपरबलेण

देवाविय भयथरहरियवेरि ।
पारदुउ सन्नज्झुँ बलेण ।

१६. १ हेडं ।

मणपवणवेय पक्खरिय वाइ
सज्जीकय सदण चारुचित्त
कोइ वि सख्खगकरु विप्फुरंतु
कोइ वि घरतु धणु गुणसमाणु
कोइ वि सदप्पु करकलियकोतु
कोइ वि नरनाहु व गहियदंडु
केण वि करेण संगहिउ कणउ
केणे वि लइउ हरिसेण परसु
केण वि करम्मि किउ तिक्खु सेल्लु
कोइ वि अमरु व्व सनायवासु

गिरिगरुय गुडिय गय दाणराइ ।
आवेप्पिणु अवसरि मिलिय मित्त ।
मेहु व सविज्जु ससिसोह देतु । ५
पडिहाइ सुहडु सज्जणसमाणु ।
नावइ वरवारणु एककदतु ।
सुप्पहु व सहलु कोइ वि पर्यंडु ।
अहवा कि कोइ वि मुयइ कणउ ।
अहवा पडिहाइ न कामु परसु । १०
तिक्खु वि अह रुच्चइ कसु न सेल्लु ।
कोइ वि सरिसामि व झयपयासु ।

घत्ता—कोइ वि चक्कधरु सरवरु व सलक्खणु दीसइ ।

वज्जमुट्टिसहिउ इदो व्व को वि पडिहासइ ॥१७॥

१८

सणज्झमाणु हारप्पियाए
भडु भणिउ विवक्खकरिदकुभ
महु कज्जु ससीयरनिम्मलाइँ
अवराइँ वुत्तु अरिदतितत
जिह तुज्ज पसाएँ परमनेह
क वि भणइ वियक्खण निययकतु
सामियहो रज्जु तुह कित्ति जेम
सामत असेस वि परिहरेवि
द्धिन्नम्मि रुक्ख पत्तइँ पडति

आलिगेप्पिणु कोइ वि पियाए ।
दारेप्पिणु असिणा अरिनिमुभ ।
आणेज्जसु पिय मुत्ताहलाइँ ।
आणेज्जसु मज्झ निमित्तु कंत ।
परिहमि चूडुल्लउ सामदेह । ५
पहु तुच्छभिच्चु परबलु महतु ।
अरिदमण करिज्जसु अवस तेम ।
मूलिल्लु हणेज्जसु पइसरेवि ।
सयमेव न पुणरवि संघडति ।

घत्ता—सामिसाले पहए नासइ दिसासु पवलु वि बलु ।

१०

छत्तइँ निवडियए नीसेसु वि न महियरिउलु ॥१८॥

१९

काए वि को वि घुसणेण सित्तु
कामु वि कुलतिलयहो तिलउ भालि
कामु वि अक्खय निक्खित्त सीसि

नावइ नियरइराएँ विलित्तु ।
सोहइ छणयंदु व नहि विसालि ।
सोहंति नहे उदुतिमिरमीसि ।

१७. १ सुहडसज्जणु समाणु ।

काप्र वि पसन्न नवकुसुममाल
 कासु वि मगलु गार्यतियाए
 क वि देइ महासइ धूवगंध
 तुह सत्तु असेस वि खयहो जतु
 इय लद्धासीघोसण सगव्व
 घुसिणारुणु कवयालकियगु
 षदणघूसरु सकवउ नरिदु

नवदिट्ठि नाई ढोश्य विसाल ।
 उत्तारिउ आरत्तिउ तियाए । ५
 भत्तारहो भासइ होंतु अघ ।
 चितविय मणोरह संपडतु ।
 नीसरिय सुहउ सन्नहिंवि सव्व ।
 सोहइ समेहु नं नवपयगु ।
 न को वि सल्लण्ण पुण्णिमिदु । १०

घत्ता—पावेवि चदबलु गहबलु जोइणिबलु भूबलु ।

सहुँ राएँ चलिउ कयकलयलु नीमेसु वि बलु ॥१९॥

२०

दोसइ बलु पवलिहे नीसरतु
 सहरिसु धोवतरु जाइ जाम
 अन्नोन्नु निएप्पिणु रणरसाई
 रह रहहें तुरग तुरगमाहें
 पच्चारिवि नरवर नरवराहें
 सहरस पहुकज्जे भिडति जाम
 मपन्न तत्थ कयकलयलाहें
 पच्चारिय सयल वि नियनियामु
 कि जुज्झह बुज्झह करह नेहु

कव्वु व कइवयणहो मणु हरंतु ।
 सपत्तउ परबलु पवलु ताम ।
 धावियई बलई अमरिसवसाई ।
 तवेरम तह तवेरमाहें ।
 पहरणकर किकर किकराहें । ५
 पोमावइ वत्त सुणेवि ताम ।
 थिय अंतरानि दोहें वि बलाहें ।
 जो पहरइ सामिहे आण तामु ।
 पिउपुत्तहें सगरु कवणु एहु ।

घत्ता—जेमागय जिम जणिउ जिह वड्ढिउ जाउ जुवाणउ ।

तिह सयलु वि कहिउ वडयरु जिह जायउ राणउ ॥२०॥

१०

२१

भो धाडीवाहणराय एहु
 नामे करकडु कयारितासु
 निमुणेवि एउ आणदिएण
 करकडु वि जामज्ज वि न ताउ
 पणवतु पुत्तु परमेसरेण
 चाणूरकस जमगोयरेण
 हुउ पुण्णहिँ रायहो पुत्तजोउ

तुह नदणु पयणियजणसणेहु ।
 धम्मावयारु गुणगणनिवासु ।
 परिहरिउ दति पुहईपिएण ।
 उत्तरइ ताम पायत्थु जाउ ।
 आलिगिउ नवनेहहो भरेण । ५
 रुप्पिणिमुउ व्व दामोयरेण ।
 आणदे पणच्चिउ बंधुलोउ ।

५

सर्वेहिं मि परिओसियमणेहिं
तुहें माय महासइ वंदणिज्ज

धुय पोमावइ अज्जिय जणेहिं ।
परमेसरि तुहें जयपुज्जणिज्ज ।

घत्ता—पुत्तु कलत्तु धणु गउ पुणु वि मिलइ दुहु खिज्जइ ।
कयपुण्णेण फुडु त नत्थि ज न पाविज्जइ ॥२१॥

१०

२२

तहिं होतु पुत्तु पुहईघवेण
सोहणदिणम्मि रज्जाहिसेउ
किउ बदिमोक्खु बदिणहुं दिण्णु
उब्भिय कुलकेउ विचित्त छत्त
गीयाई पुरंधिहिं मंगलाई
नच्चतहिं खुज्जयवामणेहिं
मुहत्तित्थतोयपरिपूरिणहिं
मुत्ताहलमालाकिणहिं
अहिंसिचिवि नेच्छतु वि विसालि
किउ पट्टबधु सयल वि विहूइ
तुहें पुत्तु सर्वजणसामिसालु

निउ चपापुरु परमुच्छवेण ।
पारंभिउ सुहिसयणहिं समेउ ।
दुत्थियजणाण दालिदु दुच्छिणु ।
हय दुदुहि सरबहिरियदियत ।
दहिदूवक्खयकयमगलाई । ५
नरनाहि कचणदामणेहिं ।
निवहत्थाहत्थुदीरियहिं ।
सिरि वणकलसेहिं वसंकिणहिं ।
वइसारिउ सीहासणि पहालि ।
तहो तणिय भूमि अज्जु जि पिहूइ । १०
इय भणिवि मुएण्णिणु मोहजालु ।

घत्ता—अच्छेवि कइ वि दिण नदणहो धरत धरतहो ।
गउरिसिराउ पइसरिउ सरणु अरहतहो ॥२२॥

२३

आराहेवि धम्मु मुणिदपाय
उप्पाएवि काले केवलक्खु
होएवि जयत्तयपुज्जपाउ
विहरेप्पिणु सुइरु धरायलम्मि
अतिमु थिरु धारिवि सिद्धजोउ
सो जायउ बाहासयविमुक्कु
करकंडुणा वि एत्तहं असेस
हुउ सव्वत्थ वि अखलियपपाउ
नयधम्मे रज्जु करंतु लोय
एक्कहिं दिणम्मि लीलाकहाए

निम्मूलुम्मूलिवि चउ कसाय ।
नाणुत्तमु लोयालोयलक्खु ।
उवएसिवि धम्मु अमिच्छभाउ ।
कइलासहो उवरि सिलायलम्मि ।
काऊण सेसकम्महो विओउ । ५
अजरामरु सासयथाणु दुक्कु ।
नयविक्रमेण साहिय नरेस ।
अहवेहु सव्वु सुक्कियसहाउ ।
पालंतु संतु भुजतु भोय ।
जामच्छए पहु सठिउ सहाए । १०

घत्ता—पहुआएसयरु चरु ताम तत्थ सपत्तउ ।

पणवेप्पिणु पयहँ विन्नवइ बुद्धवित्तंतउ^१ ॥२३॥

२४

देव दक्खिणावहि सुहालए
चोडचेडपडीसनामओ
ते सदप्प बोल्लंति वक्कय
नयपरेण ता मइविहूसिओ
गपि तेण ते भणिय निट्ठुरं
पणविऊण वसिकयअराइणो
मुएवि देवदेवं जिणेसरं
नउ नवति तउ कि पउच्चए
सुणिवि सामिसालेण विप्पियं
दंसयामि जमरायसासणं
करमि वामपाएण चूरणं
जे ण मज्झ पणवंति माणवा
इय भणेवि मज्जायवज्जिओ
सह बलेण बलतुलियदिग्गओ

अत्थि चोडविसए विसालए ।
रायउत्त अहिमाणधामओ ।
नउ नवति तुह पायपंकयं ।
ताण दूउ राएण पेसिओ ।
पुणु वि एवि तब्भणिउ नियपुर । ५
कहिउ एव तेणामु राइणो ।
ते नवति सक्क पि नावरं ।
करउ कि पि ज तामु रुच्चए ।
कयतमेण सहसत्ति जपिअं ।
अवस ताण पिसुणाण सासण । १०
सेहरस्स संतइविसूरणं ।
ते जियति देवा न दाणवा ।
सायरो व्व पलयम्मि गज्जिओ ।
वइरिदप्पदलणो विणिग्गओ ।

घत्ता—कइवयवासरहिँ सपत्तु

वे वि समावडिय सजाउ परोप्परु संगरु ॥२४॥

२५

पहरणसंघट्टुट्टंतजलणि
धाविरिकिकरउरभरियकोंति
वज्जंततूरवहिरियेदियति
कत्तरियछत्तसयघयसमूहि
निवडतनिरंतरसरवरोहि
भेच्छिकमंसवसबहलपंकि^१
गयरइयरत्तसरिसेउबंधि
हहिरासवमत्तपिसायसत्थि
कावालयिजोइयपरममुंडि

गयदंडाहयतुट्टंतचलणि ।
फणिचुभलनिहनिग्गतअत्ति ।
सिवफेक्कररवतोसियकयति ।
विहडावियसुनिविडसुहुडजूहि । ५
सुआसणाहिंडिरहयवरोहि ।
हणहणरवकायरजणियसकि ।
सव्वत्थपणच्चियमडकबधि ।
पेक्खयसुररुद्धायासपंथि ।
भेरुंडसुडनियरुंडखडि ।

घत्ता—पइसेवि आहयणे गरुडेण व णाय निरुद्धा ।

पोमावइसुएण ते तिमि वि जिणिवि निबद्धा ॥२५॥

२३. १ बुद्धमंतउ ।

२५. १ भेच्छिक^१ ।

१०

२६

हुकारिवि रोसे वामपाउ
 घल्लइ नरिदु मउलगिग ताम
 दट्ठण भणिउ हा हा हयासु
 भयवंतहो भववणहुयवहासु
 पडिबिबु जेण पाएण हणहुँ
 इय भणिवि विसन्नमणेण ते वि
 तेहिँ वि नियपुत्तहँ देवि रज्जु
 किं रज्जे परिह्वदूसियण

उच्चाण्वि मउलिहँ जाम घाउ ।
 पेच्छइ जिणमुत्ति मणोहिराम ।
 हउँ पावयम्मु परलोयनासु ।
 जिणनाहहो निज्जयमयणहासु ।
 पारद्धउ कम्मु रउदु कुणहुँ । ५
 मेल्लिय सपेसिय पिउ ववेवि ।
 जिणदिव्व लेवि किउ अप्पकज्जु ।
 किं मडएँ रयणविहूसिएण ।

घत्ता—फुडु माणुन्नयहँ दो च्चिय गईउ नरवइसिदि ।

अहवा सव्वहिय सिदिचदजसुज्जल तवसिदि ॥२६॥

१०

बिबहरसविसाले णेयकोऊहलाले । लनियवयणमाले अत्थसदोहसाले ॥

भुवणविदिदणामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिण्णतोसे ॥

इय करकडचरित्ते सिदिचदमुणिदविरइए रम्भे ।

रायत्तयनिज्जिणणां सत्तारहमो इमो सणी ॥

॥ सधि १७ ॥

संधि १८

१

ध्रुवयं—साहिवि रायत्तउ निवइ नियत्तउ काणणम्मि गिरिसरिहि तडे ।
आवासिउ साहणु परबलसाहणु तेरनामपट्टणनियडे ॥

उत्तारियपक्खरगुड ह्यगय
मुक्का वसह करह खर चारहो
माणइ धवलु को वि कोमलतणु
मुग्रवि चारु कटयतरु चिन्नउ
विरइउ सप खरेहिं असुहयरउ
खट्ट' गइंदिहिं काणणि सल्लइ
केण वि करिणा वणकरि माणिउ
तावच्छउ सइं जणियाणक्खहो
निहय तुरगमेहिं किं किज्जइ
छिन्न कुडारहिं कम्मयरहिं तरु
खणियउ तित्तिणउ थिन्नु' हुयासणु
रद्ध रसोइ पउररसवंजण
पहुणा भोयणु वइरिवियारे

विरइय वरपडमय मदिरसय ।
लग्गउ जणु नियनियवावारहो ।
रुच्चइ अह न कासु कोमलतणु । ५
करहहिं अह लव्भइ चिरदिन्नउ ।
अह कि खर चवति महुरयरउ ।
सा को मुयइ चित्ति जा सल्लइ ।
जाणवि गधे लइउ न पाणिउ ।
गधु वि दूसहु होइ विवक्खहो । १०
जलु वि सकज्जवसेण लइज्जइ ।
तिक्खसगु अह कि कासु वि वरु ।
दुज्जणो व्व जणतावपयासणु ।
सुकइकहा इव जणमणरंजण ।
भुत्तउ रज्जु व सहुं परिवारे । १५

घत्ता—भुत्तुत्तरकालं नरनियरालं थिउ अत्थाणि नरेसरु ।

तणुपहविप्फुरियउ मुरपरियरियउ नं सग्गम्मि सुरेसरु ॥१॥

२

तहिं अरुसरि पट्टु पेक्खहुं आयउ
पेसियपडिहारे परमेसरु
डोइउ पाहुहु चित्तयकत्तिउ
भोत्तिय वंसविसेसुवभव सुहु
नियवि नरिदे वत्थाहरणहिं
पुच्छिउ पइं पसरियपंचाणणि
एउ सुणेविणु आहासइ सिवु
देव दिवायरतेय सुहालउ

सिवु नामेण भिल्लु विक्खायउ ।
दिट्ठु तेण नविऊण नरेसरु ।
नावइ दुज्जणरइयउ मेत्तिउ ।
धरिय करिदकलह चमरीरुह ।
सम्माणिउ भिल्लाहिउ वयणहिं । ५
दिट्ठु चोज्जु कि किचि वि काणणि ।
कोऊहलु आयण्णं पत्थिवु ।
सहसथंभु नामेण जिणालउ ।

१. १ सिद्ध । २ थित्त ।

नं चूडामणि एक्कु समुन्न
न वियाणिज्जइ काई वि कारणु

अत्थि रप्फु तहो उवरि रवन्नउ ।
एक्को सेयवणु वरवारणु । १०

धत्ता—कमलई तोडेप्पिणु सरि पइसेप्पिणु सोडई लेवि तिकालु जलु ।
अहिंसिच्चि वि अचि वि त परियच्चि वि जंतु नियच्छमि अतुलबलु ॥२॥

३

विभियच्चित्तं तं निसुणेप्पिणु
मज्झु वि दावहि त कोऊहलु
हुउ अग्गए गउ जत्थ मणोहरु
जोएवि राणएण अहिणदिउ
देवि पयाहिण पुज्ज करेप्पिणु
पुव्वकमेण नाउ आवतउ
आलोएप्पिणु रइयवियारणु
देवपहाउ कोइ होएसइ
एम भणेप्पिणु गंधहिं धूवहिं
सुइसरीरु दब्भासणि राणउ

सो पहुणा पउत्तु विहसेप्पिणु ।
दावमि एव भणेप्पिणु नाहलु ।
वणपच्छिमदिसाए तं जिणहरु ।
कयजयजयरवेण जिणु वंदिउ ।
उप्परि उव्वीहरहो चडेप्पिणु । ५
पुज्जवि रप्फु नियच्छिउ जतउ ।
भणइ सामि सामन्नु न कारणु ।
इयरहूं एउ विहाणु न दीसइ ।
पुज्जवि रप्फु पुप्फबलिदीवहिं ।
थिउ थिरु लेवि पइज्ज समाणउ । १०

धत्ता—पाहाणहो रत्तउ कि करि भत्तउ एउ वियाणिउ जाम नउ ।
ताम न जणु रजमि भोयणु भुजमि सासणदेवि ण पियमि पउ ॥३॥

४

तहिं जिणवइभवणम्मि सुहंकर
अच्छइ जाम निसन्नु नरेसरु
तें तहिं उववासिउ' अहिरामए
सुणु नरेद सदेहु विणासमि
वंसे दसासहो एत्थ मणोहरु
सयलए' मलए निएवि समुन्नउ
जिह कइलासे आसि भरहेसे
तिह तेण वि तहिं कंचणमणिमय
कालें जते उत्तरसेडिहे
अमिय-सुवेय वेन्नि विज्जाहर
वंदणहत्तिहेउ अणुराइय

मणं झायंतु पच परमक्खर ।
ता तत्थायउ देउ अहीसरु ।
बोल्लाविउ निसि पच्छिमजामए ।
निरखसेसु वित्तंतु पयासमि ।
होंतउ मुज्जतेउ विज्जाहरु । ५
पूइ नामु गिरि सुट्ठु रवन्नउ ।
चउवीस वि तित्थयर विसेसे ।
काराविय थप्पिय परमप्पय ।
पुरे नहवल्लहम्मि गयळुडिहे ।
सोयरभाइ भव्व महिमाहर । १०
पव्वदिणम्मि तत्थ संपाइय ।

घत्ता—परियाचिवि अच्चिवि सुक्कउ सचिवि सज्जण धम्मविणोयपिय ।
गुणपावस' रजियमाणस जिणपडिमाउ नियंत थिय ॥४॥

५

सुदरयरु तोडियपमुपासहो	तहिँ पडिबिबु नियच्छिवि पासहो ।
पडिछंदेण एण नियपुरवरि	अवर वि पडिम करावमि जिणहरि ।
एम भणेवि लेवि परिओसे	आइउ अमियवेउ आयासे ।
एत्थ थवेवि देउ वदेप्पिणु	जामुच्चाइय पडिम निएप्पिणु ।
ता तिलमेत्तु वि वलइ न थाणहो	जाय महत्त चित्त नहजाणहो ।
तत्थेव य छुहेवि मजूसहे	विज्जारइयहे रयणविहसहे ।
गउ खेयरु तुरतु तेरापुरु	दिट्टुउ सहसकूडि त्रसहरु गुरु ।
वदिवि पुच्छिउ पडिमहे वइवरु	अक्खइ अवहिनाणि सयमधरु ।
निच्छउ एत्थ पएसि विसालउ	होसइ खेयर चारु जिणालउ ।
पई सबोहिउ धम्मु लएसइ	परभवे सा मुवेउ पुज्जेसइ ।
निच्चल होवि तेण थिय सुदर	जिणपडिमा पयपणयपुरदर ।

१०

घत्ता—निग्गथ हवेप्पिणु एउ मुणेप्पिणु एत्थु जि निव्वेएँ लइय ।
पणवेवि तमोहरु साहु जसोहरु वे वि सहोयर पव्वइय ॥५॥

६

तत्थ सुवेउ परीसहभग्गउ	मुउ मिच्छत्ते इह हूयउ गउ ।
सेयसरीरु गिरि व गरुयारउ	जूहवई मयधु परमारउ ।
इयरु वि काले कालु करेप्पिणु	आराहण भयवइ भावेप्पिणु ।
हुउ कप्पुवभवु देउ महाइउ	मुणिवि भाइ सबोहहुँ आइउ ।
कयचिररिसरुवे सभाविउ	लेप्पिणु पुव्वनामु बोल्लाविउ ।
मयलु वि चिरवइयरु जाणाविउ	हुउ जाईसरु पच्छाताविउ ।
हा पाविट्ठे कि पि न भाविउ	मई' अप्पाणउ सइ सताविउ ।
उवसंतेण तेण पडिवन्नउ	इसिणा सावयधम्मु विइसउ ।
पुव्वपडिमपरिणामु वियाणिवि	उवएसियवयणहिँ सम्माणिवि ।
पुज्जेज्जसु पणवेज्जसु भावे	जेण सहोयर मुच्चह पावे ।

१०

घत्ता— इह को वि मुणेसइ एह लएसइ जइयहुँ उक्त्तणेवि पडिम ।
सन्नामु करेज्जसु सव्वुवएज्जसु तइयहुँ तुहुँ गयगुरुगहिम ॥६॥

४. १ पाठस ।

६. १ समस ।

७

एम भणेवि देउ गउ सग्गहो
 न वि कामु वि सो रूसइ रज्जइ
 पासुयसलिलाहारु पउजइ
 जनु सतु पहि जंतु नियच्छइ
 पुणरवि आहासइ नायामरु
 वेयड्ढहो सोहाहयसुरउरि
 नीलमहानीलक्ख इहाइय
 दाइएहिँ ते समरि परज्जिय
 चिरकयदुक्कियकम्मं पेल्लिय

करिवरो वि परमहो वेरग्गहो ।
 पुव्वकमेण जिणोसरु पुज्जइ ।
 धम्मज्ञाणि मणु धीरु निउजइ ।
 एण विहाणं सो एत्थच्छइ ।
 आयण्णहिँ अवरु वि निव वइयरु । ५
 दाहिणसेट्ठिहिँ रहनेउरउरि ।
 होंता खग निव वेण्ण वि भाइय ।
 जाया विज्जाविह्वविवज्जिय ।
 निययनिवासहो देसहो घल्लिय ।

घत्ता—मुणि नाणदिवायरु नामे सायरु पुच्छउ तेहिँ पणट्टमलु । १०

पुणु मयणवियारा अम्मह भडारा होसइ कइयहुँ विज्जबलु ॥७॥

८

कहइ साहु दक्खिणदेसतरि
 तेराउरि निवसत सहरिसहिँ
 धारासिवपल्लिहे आसन्नउ
 गिरियडि कारावेवि पइट्ठिवि
 अट्ठुववासे मंतराहण
 एउ सुणेवि नवेप्पिणु मुणिवरु
 साहेवि सव्व देस देसाहिव
 एहु जिणालउ तेहिँ कराविउ
 एव सव्वु वित्ततु पयासिउ
 पुणु वि भणिउ निव' तुहुँ पुण्णाहिउ

अहिरविसुअ धणधन्नरितरि ।
 बोलीणेहिँ दुवालसवरिसहिँ ।
 सहसथंभु जिणभवणु रवन्नउ ।
 उच्छउ अट्ठाहियहे अणुट्ठिवि ।
 होसइ तुम्ह समीहियसाहण । ५
 एत्थागय ते तेरापुरवरु ।
 थिय सुहुँ रज्जु करत महानिव ।
 पुणरवि विज्जाहरपउ पाविउ ।
 नाएँ रायहो मणु परिओसिउ ।
 पुव्वजम्मि पइं जिणु आराहिउ । १०

घत्ता—चितिउ पाविज्जइ परबलु भज्जइ तामु सुरा त्रि हु दिति वरु ।

निम्मलु जसकित्तणु होइ पट्टत्तणु महिउ जेण जिणदेउ वरु ॥८॥

९

निच्छउ तुह पुण्णेहिँ चलेसइ
 इय भणेवि गउ अहिँ आवासहो
 कुसुमसमूहु व गयणपलासहो

पडिम पमाणु एह जाएसइ ।
 एत्तहिँ उइउ विबु दिवसेसहो ।
 नं चित्तातरुफलु पुहईसहो ।

सूरें तमभहु दूरोसारिउ
जयमंगलरवेण तहिं गपिणु
दिशु घाउ सब्वणहु सरेपिणु
नरवइ सब्बु को वि परिओसिउ
पूर पइज्ज नरिदहो केरी
पुज्जिय पट्टणा कयनवयारे

उट्ठिवि राएँ जिणु जयकारिउ ।
अट्टपयार पुज्ज विरएप्पिणु । ५
कडिडय जिणतणु रप्फु खणेप्पिणु ।
देवहिं साहुकारु नहिं घोसिउ ।
आणिय लयणहो पडिम भडारी ।
किउ पारणउ समउँ परिवारें ।

घत्ता—मगलु गाइज्जइ दुदुहि वज्जइ जिणमहिमुच्छउ नवनवउ । १०
किज्जइ वित्थारे एण पयारे थिउ तेत्थु जि चिरु लद्धजउ ॥१॥

१०

राएँ धम्माणदियच्चित्ते
मूलपडिमसीहासणरोहण
पुच्छिउ वाहुरेवि सिलकुट्टउ
भणिउ तेण सुणि सिरिकुलमंदिर
वज्जिउ तेण देव रूवारे
नं सहसत्ति असद्दमाणे
नट्टउ लयणु जलोहे पूरिउ
हा हा हउँ पाविट्टु अउन्नउ

एक्कहिं दिणि पाडिमाउ नियतें ।
पाहणगठि निएवि असोहण ।
टुटु एहु कि दीसए मोट्टु ।
अच्छइ एत्थ पउरपाणियसिर ।
नावणीउ टंकियहिं पहारे । ५
फोडावियउ अणायपमाणे ।
बहु वसुहाणाहेण विसूरिउ ।
नासिउ जिणहरू जेण रवन्नउ ।

घत्ता—नेमित्तियवयणें पाहणचयणे बघाविउ पट्टणा वरणु ।

जलु जेम न निग्गइ लोयहो लगगइ वाहि दुहिक्ख होइ मरणु ॥१०॥ १०

११

करइ पलउ जो जिणवरभवणहो
एउ भणतु निच्चदूमियमइ
एप्पिणु पुणु नाएण णिरोहिउ
एत्तिउ कालु एउ मइँ रक्खिउ
अग्गए दूसमकालपहावें
घरि घरि तक्कर दुक्किय' दुज्जण
तेण समत्थु वि हउँ मणिघडियहो
अवरु वि एयहो उप्परि एरिसु
एहु जि पायच्छित्तु निरुत्तउ
एम भणेवि सेहु गउ भवणहो

तहो कहिं सुद्धि धम्मविद्वणहो ।
अच्छइ असइ न केवइँ भूवइ ।
सोउ करंतु सामि सबोहिउ ।
सपइ कज्जवसेण उवेक्खिउ ।
होएवउ लोएण सपावें । ५
होसहिं फुडु विरला सुहि सज्जण ।
थिउ उप्पेक्ख करेप्पिणु पडिमहो ।
कारावहिं जिणहरू विडवहिं जसु ।
उट्टु राय मच्छहिं' अवचित्तउ ।
उइउ विबु गयणगणें तवणहो । १०

११. १ दुक्खिय । २ म छत्ति ।

घत्ता—थोप्रहिँ दिवसहिँ पुण्णविसेसहिँ सिद्ध महारायहो लयणु ।
जिणबिबविराइउ सुट्ठु विराइउ आणदियजणमणवयणु ॥११॥

१२

निप्पन्नं महएविहे वीयउ
गुरुहरिसेण रइयराहासय
देवहो भूमिदानु बहु दिन्नउ
अच्छिवि सुइरु तत्थु गउ चंपहे
जामच्छइ सुहँ रज्जु करंतउ
मुणिआगमणु मुणेवि सयाणउ
पणवेप्पिणु आसानिसिनेसरु
कहि भयवत कोइ हउँ होंतउ
भासइ एउ मुणेविणु मुव्वउ

खुड्डयलयणु अवरु तहिँ तइयउ ।
तिहिँ वि पइट्टु एकलम्गे कय ।
रोडजणहो रोडत्तणु छिन्नउ ।
कचणगेहपहाहयचदहे ।
सवणसघु ता तहिँ सपत्तउ । ५
गउ लहु वदणहत्तिप्र राणउ ।
पुच्छिउ पकयणाहु मुणीसरु ।
केण गुणेण सुसपय पत्तउ ।
चिरभवकम्मु नराहिव सुव्वउ ।

घत्ता—नामे घणमित्तउ वणिवइ होंतउ तहिँ तेरापुरि सोहणए । १०
रज्जम्मि मुहालप्र धम्मनयालप्र नीलमहानीलहँ तणए ॥१२॥

१३

तहो घणदत्तु नाम गोवालउ
सो कयाइ वणु लेप्पिणु सुरहिउ
पइसिवि एककु तेण सव्वुत्तमु
आवइ जाम लेवि किर तीरहो
भणइ छलेण लइउ पई सयदलु
सक्कु वि अन्नू न एयई पावइ
एयहिँ नायराउ परपुज्जइ
लइ तुह खमिउ जाहि जो सारउ
तहो पय पुज्जेज्जमु जय कारिवि
एम करेमि भणेवि तुरतउ

होंतउ पुत्तोवमु विणयालउ ।
गउ सरु दिट्ठु सरोयहिँ सुरहिउ ।
खुड्डिउ पोमु हरिसेण अणोवमु ।
ता नायामरु निग्गउ नीरहो ।
देवयरक्खिउ एउ सपरिमलु । ५
अह को सिहिसिहाहिँ तणु तावइ ।
इट्ठु देवपय पुण्णु समज्जइ ।
सव्वहँ वंदणिज्जु गरुयारउ ।
जइ अन्नहो तो घल्लमि मारिवि ।
गउ घरु तं लएवि घणयत्तउ । १०

घत्ता—गंपिणु घणमित्तउ तेण पउत्तउ मिलिउ करेप्पिणु करजुअलु ।
आरा करि पहु पय एउ सुसपय जेण चढावमि वरकमलु ॥१३॥

१४

पुच्छिउ वणिणा केण निमित्तं
निरवसेसु सयवत्तहो वइयरु
१२. १ सुद्धउ ।

भासिउ गोवालेण हसते ।
तं निमुणेवि पयंपइ वणिवरु ।

पुत्त न होमि सब्बगरुयारउ
एहि जाहूँ तहो एण मणोज्जे
तहिँ पच्छावि सो वि जिणवरघरु
धणयत्तेण सवणिणा गपिणु
तेण वि भणिउ स [-व्वजणहियरउ]
एहि जाहूँ तहो पय सब्भावे
तो तहिँ गपि भडारउ भासिउ
जो तिहुयणवईहिँ पणविज्जड

सव्वहँ नीलराउ वहुारउ ।
पुज्जहि कमकमलाई पउज्जे ।
चलिउ नमसहूँ साहु जसोहरु । ५
वुत्तु राउ पुव्वत्तु नवेप्पिणु ।
अच्छइ साहु जसोहरु ह्यरउ ।
पुज्जहि जेण विमुच्चहि पावे ।
तेण वि अरुहएउ उवएसिउ ।
तासु अवरु को गरुउ भणिज्जड । १०

घत्ता—मुणिवयणु सुणेप्पिणु कर मउलेप्पिणु पणवेप्पिणु परमेसरहो ।
गोवालेण अमोल्ले एक्के फुल्ले पुज्जिय पाय जिणेसरहो ॥१४॥

१५

तेण गुणेण एत्थ विक्खायउ
आसमुद्द भेइणिपरिपालउ
जिणपुज्जाफलेण विज्जाहर
जिणपुज्जाफलेण इदत्तणु
जिणपुज्जाफलेण जगपियरहो
अहवा लइ कि बहु वणिज्जड

सो तुहूँ चपावइ संजायउ ।
जयसिरिधित्तसयंवरमानउ ।
होंति अमर अमेयमहिमाहर ।
पाविज्जड जए चक्कवइत्तणु ।
लब्भइ नामु गोत्तु तित्थयरहो । ५
जिणपुज्जाफलु कहो उवमिज्जड ।

उक्तं च-पूजितव्यो जिनो नित्य त्रैलोक्येश्वरपूजित ।
जितपूजासम पुण्यं न भूतं न भविष्यति ॥

पुज्जिउ जिणु न जेण मुणिभोयणु
मुएवि मोहु सव्वावइरोहणु
दुल्लहु ने मणयत्तणु हारिउ
विणु रयणत्तएण कि किज्जइ
मुहमइ एउ सव्वु निमुणेप्पिणु
पणवेप्पिणु मुणिदु उवसतहिँ

दिन्नउ सव्वसोक्खसजोयणु ।
कउ वरतवु न जेण जयखोहणु १०
तहो पुणु दुग्गइदुक्खु निरारिउ ।
गमणागमणु कयावि न खज्जइ ।
सिरि सिरिदत्तहो पुत्तहो देप्पिणु ।
लेप्पिणु तवु समेउ सामतहिँ ।

घत्ता—जिणवरु आराहिवि चलमणु साहिवि सिरिचदुज्जलकित्तिजुउ । १५
करकडु नरेसरु गउ परमेसरु देवलोउ देविदु हुउ ॥१५॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसंदोहलाले ।
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचंदपउत्ते सुबिचित्ते णंतपयदसजुत्ते ।
करकंडसग्गमणो अट्टारहमो इमो संधी ॥

॥ संधि १८ ॥

संघ १६

१

भुवणकमलदिवसेसरु
भक्तिफल सभूसमि

अहिवदेवि जिणेसरु ।
रोहिणिचरिउ समासमि ॥

धम्माणुरायरंजियमणेण
गंपिणु विउलइरि तिल्लोयसरणि
पणवेप्पिणु भावे निम्मलाड
गोत्तमु मुणि विणयवियाणएण
आणदह भव्वजणाहि चित्तु
किह भमिय भवतर सहिउ दुक्खु
किह किउ नक्खत्तुववासु ताए
निसुणेवि एउ वरमइविहूइ
भो जिणमुणिपयपकयदुरेह

एक्कहिं दियहम्मि सपरियणेण ।
सिरिवीरजिणेसरु समवसरणि ।
निमुणिवि धम्माधम्महो फलाइं । ५
परिपुच्छिउ मेणियराणएण ।
उवएसह पट्ट रोहिणिचरित्तु ।
सपत्तु पुणो वि हू केम सोक्खु ।
किह मुणित्तु न सोउ अपोवमाए ।
वज्जरइ नरिदहो इदभूइ । १०
निसुणाहि मगहेसर परममेह ।

घत्ता—नियसोहाहयसुरपुरि
रिद्धिए जियमघवतउ

एत्थ भरहे चपापुरि ।
अत्थि राउ मघवतउ ॥१॥

२

धयरट्टगईए महासईए
सिरिपालपहूइय गुणहिं जुत्त
सव्वहं लुहयारी रोहिणि ति
सा कत्तियनदीसरदिणम्मि
गधक्खयपुप्फहिं पुप्फकेउ
गपिणु अत्थाणि जिणेससेस
कर जोडिवि लेवि असीस भाल'
जोव्वणभरभूसिय चारूक्ख
निवसइ धरि वट्ट कुमारि जासु

महएविए तासु सिरीमईए ।
जणिया मयणोवम अट्ट पुत्त ।
मुय नाइं सुहकर कामकित्ति ।
उववासिय तोसियभवियणम्मि ।
पलयानलु पुज्जिवि परमदेउ । ५
अप्पिय तईं तायहो ह्यकिलेस ।
वइसारिय राएं अंकि बाल ।
चित्ताविउ निवइ तिएवि धूव ।
जणजपणु दुज्जसु अवस तासु ।

घत्ता—इय चित्तिप्पिणु पुज्जिय
लेप्पिणु मतिचउट्टउ

पुत्ति निवासि विसज्जिय । १०
पट्ट मत्तणए पइट्टउ ॥२॥

३

विउलमइसुमइसुयसायराण
पहुवयण सुणेवि सुबुद्धिनामु
कि बहुणा सामि सयंवरेण
नीसेसहं मंतहं मंतु एहु
मन्निउ सव्वेहिं वि एउ चारु
विरइय सामग्गि समग्ग झत्ति
हक्कारिय नरवइ निरवसेस
थिय कंचणमयमंचेसु जाम
जणमणु मोहंति मणोहिराम

वयणावसाणे सुयसायराण ।
आहासइ मंति मणोहिरामु ।
सपज्जउ सुहं सव्वहं वरेण ।
मा तुट्टउ केण वि सहुं सिणेहु ।
जोडउ गहचारु मुहुत्तु चारु । ५
पइसारिय वन्नप्र रायउत्ति ।
सम्माणिय राएँ विविह्वेस ।
नीसरिय रइ व्व कुमारि ताम ।
पइसरिय सयंवरे पुरिसकाम ।

घत्ता—बहुलक्षण सुहयारी
अक्खइ धाइ सुगत्ती

सुकह व सालकारी । १०
भमइ णरिद नियती ॥३॥

४

सहसत्ति चित्ति पइसत्तियाप्र
को वि कुडल मेहल वलय हार
आयरिसे काइ बढाणुराउ
छोहंधु को वि सा नियवि जंति
कासु वि गलि लगउ कामपामु
निट्ठुर उरि निवडियमयणवाणु
कासु वि जरु लगउ कामडाहु
केण वि नियलज्जह दिन्नु तोउ
हुउ कामगहिल्लउ को वि राउ
कर मोडइ को वि कयगभगु
मणि को वि विसूरइ निववरिट्ठु

किय रायहं विविह वियार ताप्र ।
उत्तारइ परिहइ वार वार ।
पुणु पुणु वि पलोयइ वयणराउ ।
दढ दाडियाउ तोडप्र तडत्ति ।
विह्णइ सिरु छोडइ केसपामु । ५
मुच्छेवि पडिउ कोइ वि जुवाणु ।
नीससइ सुसइ कोइ वि सवाहु ।
वियलेण हसाविउ सयललोउ ।
जंपइ जंभावइ मूढभाउ ।
नच्चाविउ मयणे विविहभगु । १०
विणु पुण्णहिं कि लभइ मणिट्ठु ।

घत्ता—एवविह बहु चेट्टउ
धीर वि कामे कायर

पावियदूसहनिट्ठउ ।
कय नरवर कयायर ॥४॥

५

नेवालहो नेमि व हिययदार
पीड व मंगालहो मंगलासु

जमणेसहो जमकरवत्तधार ।
हाणि व बंगालहो तणुबलासु ।

पचालहो' पारणविपत्तिय व्व
टक्कहो कसमीरहो कालरत्ति
मारि व मालवियहो नत्थि भति
हुय लाडहो विरहसमुद्वेल
कन्नाडहो कत्तिय कालकील
दविडेसहो दूसहदुहविहूइ

घत्ता—तक्खयदिट्ठि व मारइ
मुण्णवि सब्ब गयसोयहो

जालंधररायहो जमपुरि व्व ।
गुज्जरहो गरुय न गरलमत्ति ।
चेईसहो चेइय ण वलति । ५
कोकणयहो दूसह कालवेल ।
चोडह चडवक न डहणसील ।
विसमयर कालिगहो न विमूड ।

को वि न मणु साहारइ ।
गय सा पासि अमोयहो ॥५॥ १०

६

जाणेवि सभाव विसुद्धवेणु
पेक्खेविणु त विभियमणाप्र
कहि कवणु एहु कि को वि देउ
भासइ वियड्ढ निमुणेवि एउ
करिपुरपरमेसरु वीयसोउ
देवीप्र जाउ विज्जुप्पहाप्र
लइ वरहि अणोवमु सब्बसारु
वयणेण एण धाएहं तणेण

घत्ता—सो नयणुप्पलमालप्र
पुज्जिउ जउ व विसालप्र

करिपालएण थिर किय करेणु ।
आउच्छिय वुद्ध वियक्खणाप्र ।
कि किन्नरु खेयरु मयरकेउ ।
हलि सुयणु एहु गुणगणनिकेउ ।
तहो तणउ तणउ नामे असोउ । ५
नावइ सिरिविजल सयंपहाप्र
अज्ज वि मणोज्जु अच्छइ कुमार ।
सहसत्ति ताप्र तोसियमणण ।

पच्छा मणिमयमालए ।
आसि सुलोयणबालप्र ॥६॥ १०

७

जं घित्त माल करि लग्ग बाल
उहीविय चेईसेण सब्ब
सकेइय सुय मघवतएण
करिवरपुररायहो वरिउ पुत्तु
जइ अछ्छप्र आयहो उवरि भाउ
किउ एउ सब्बु जणरंजणत्थु
कि बहुणा वे वि हणेवि बाल
निसुणेवि एउ हयसमरभेरि

त खुहिय राय मच्छरविसाल ।
तुम्हहं फुडु सब्बगेण भव्व ।
परिहरिवि असेस वि ताप्र तेण ।
पेच्छह कि पुरिसहो होइ जुत्तु । ५
तो कि हक्कारिउ वरनिहाउ ।
तुम्हारिसाहं केवलु अणत्थु ।
घिप्पइ बलेण मयणत्थसाल ।
सभ्रद्ध सुहड सगहियखेरि ।

घत्ता—एतहे चपापुरवइ अवरु ससेभु सुयापइ ।
अमरिसवस सन्नद्धा नाई कयत विरुद्धा ॥७॥ १०

८

सब्बेहिं मि किज्जइ काई एहिं महु हरिहिं वरायहिं नं गएहिं ।
लइ इंतु पसाएँ माम तुज्जु सक्कु वि समरणे मरइ मज्जु ।
तुहुं नियह चोज्जु रक्खहि कुमारि पडिभइहें भिडमि हुं करमि मारि ।
पहुणा पउत्तु अच्छउ कुमार गउरविउ अम्ह तुहुं वइरिमार ।
मई कलिउ चित्तु तुह कवण तत्ति लइ दावामि खलहें कयंतथत्ति । ५
इय वारिज्जंतु वि वइरिसेन्नि अलम्गु गपि जलणु व्व रन्नि
एतहे परचक्कहो चपनाहु अन्निभइउ ससिहे न सवलु राहु ।
संजाउ महाहउ पलयकालु नच्चतकवधनिरतरालु ।
दूसहभइहकारवरउदु मज्जायविवज्जिउ न समुदु ।
पवहंतरत्तसरिदुत्तरिल्लु मत्थिक्कमंसच्चिक्खिल्लो । १०
सरनियरनिवारियरविपयामु पहरणसघट्टट्टियह्ययामु ।

घत्ता—तहिं तेहए पहरंतहो रणे करिपुरवइपुत्तहो ।
जो जो सम्मुहु ढुक्कउ सो सो को वि न चुक्कउ ॥८॥

९

अणवरउ असोयहो बाणजालु छाइयमहिसयलनहंतरालु ।
न मुणिज्जइ कि पि वि पाण नेत दोसहिं सब्बत्थ वि सर पडंत ।
पहरइ विज्जुप्पहसुउ अलक्खु पडिहासइ एककु वि कोडिलक्खु ।
चेईसपमुह निव ह्य पह्य सरसीरिय के वि हु विरह ह्य ।
अलहत लक्ख रणु परिहरेवि थिय तत्थ के वि दूरोसरेवि । ५
अवमाणिय बद्ध निरुद्ध के वि ।
रच्छहि सिरु उयरु हणतियाउ *मुउ खेलावतिए लोयवालु ।
महिलउ निएवि विलवतियाउ ।
घत्ता—पुच्छिय हसिवि वियक्खण नामे धाइ सलक्खण ।
हणहि माए ससयमलु कहि किमेउ कोऊहलु ॥११॥ १०

* यहा नीवें कडवक का शेष भाग, दसवा कडवक पूरा, तथा त्प्यारहवे कडवक का पूर्वं भाग आदर्श प्रति में छूट गया है ।

१२

सिग्गडय भणिउ छत्तु रामु
सिरु उरु हणेवि नचिज्जमाणु
को एहु नवर नाडयविसेसु
घाईए भणिउ मुए सोउ दुक्खु
कि सोउ दुक्खु वुच्चइ हसेवि
निमुणेवि एउ आरुहु घाइ
उम्माहु तुज्जु कि हले अहव्वु
अह अवरु कि पि नच्चणपओउ
देवीए भणिय कि करहि रोसु

घत्ता—पई अणाइसनाणई
कहियहँ जणमणहरणई

डोंवुनिय वि नाडउ जयपयासु ।
मोवकलकएहिँ गाइज्जमाणु
गीयसरु वि को सत्तमु सरेसु ।
भन्नइ इमु परिओसियविवक्खु ।
आउच्छइ पुणु वि असोयदेवि । ५
भासइ अणक्खु कि सहहँ जाइ ।
ईसरियरूवसोहम्मगव्वु ।
गीयसरु जेण जाणहिँ न सोउ ।
अमुणिउ पुच्छतहँ कवणु दोसु ।

सयल कला विन्नाणई । १०
तह चउसट्टि वि करणई ॥१२॥

१३

न कयाइ पयासिउ एहु मज्जु
खम करहि मणेवि' अदिट्टपुव्वु
पुणु भणिउ ताए सुदरि सखेउ
कि सोउ भणिज्जइ भणइ देवि
हउं कहमि अत्थु तुह इय भणेवि
मुहलक्खणतणु जीवियसमाणु
जोयतहो दिसउ महापहाउ
पावइ धरिन्ति अज्ज वि न जाम
मा पेच्छउ रोहिणि देवि दुक्खु

घत्ता—तहो उप्परि सोमालउ
पहाएप्पिणु मणहरणहिँ

न वियाणमि कि किउ माइ तुज्जु ।
पुच्छउ मई एत्थ न कि पि गव्वु ।
रोविज्जइ सोयवसेण एउ ।
आरुट्टउ पुहईसरु सुणेवि ।
सिसु लोयवालु हत्थहिँ निएवि । ५
दाविउ पासायहो खिप्पमाणु ।
छुडिऊण पडिउ रयणु व कराउ ।
किउ पाडिहेरु देवेहिँ ताम ।
इय चित्तिवि रइउ असोयरुक्खु ।

धरिवि वरासणे बालउ । १०
पुज्जउ वत्थाहरणहिँ ॥१३॥

१४

तहिँ ताए अवत्थए अच्छमाणु
आलोइवि नदणु नरवरिदु
सव्वेहिँ मि वत्तिउ मुएवि गव्वु
जाणेवि एउ आयरह धम्मु

१३ १ भणेवि ।

पुरदेवयाहिँ सहँ कीलमाणु ।
विभिउ पुरु परियणु सयणविदु ।
एहु रोहिणिपुण्णपहाउ सव्वु ।
न नियच्छह जेणाणिट्टजम्मु ।

विभियमणु सहूँ राएण लोउ
 चारणमुणि आयउ रूपकुभु
 जाणाविय वणपालेण तत्त
 गपिणु पणवेप्पिणु रूपकुंभु
 कि महिलहि सोयवसेण रूनु
 महु सुयहँ सुयाहँ वि पुव्वजम्म-

घत्ता—ता परमावहिनेत्ते
 पारद्धउ तमु नासहँ

जामच्छइ ताम तिकालजोउ । ५
 अवरु वि नामेण सुवण्णकुभु ।
 किय राएँ वदणहतिजत्त ।
 पुच्छिउ मुणि कम्मासवनिसुभु ।
 कि रोहिणीए किय आसि पुनु ।
 सबधु पयासह पहयछम्म । १०

वरगिराए भयवते ।
 रायहो वइयरु भासहँ ॥१४॥

१५

भासइ रिसि आयण्णह नरिदु
 इह होतउ वारह जोयणेहिँ
 मियमारि तामु तहिँ वसइ वाहु
 सब्बोसहिचारणु नाणसोक्खु
 आयावणि सठिउ सहियनिट्ठु
 मुणिमाहप्पेण न जीवघाउ
 चितइ हयामु हा अज्जु मज्झ
 लग्गइ न घाउ न हवइ पमाउ
 परियाणित पुणु निच्छउ अणेण

घत्ता—एत्थतरि दिव्वासउ
 इयरेण वि रूसेप्पिणु

एत्थत्थि नीलु नामे गिरिदु ।
 उत्तरदिसाहि सोहिउ वणेहिँ ।
 एक्कहिँ दिणि काममियकराहु ।
 मुणि मासोवासिउ जमहरक्खु ।
 पारद्धिहिँ आएँ तेण दिट्ठु । ५
 हुउ आउ भमेप्पिणु वणु चिलाउ ।
 कि कारणु गय पारद्धि वझ ।
 नासेवि जाइ वणयरनिहाउ ।
 महु पहउ कज्जु दुइसणेण ।

गउ भिक्खहिँ पिहियासउ । १०
 मुक्किय सिल तावेप्पिणु ॥१५॥

१६

एत्तिहिँ रिसि चरिय करेवि पत्तु
 ता दीविउ अग्गि पलित्त पाय
 थिरु सुक्कझाणे अतयडु जाउ
 कोट्ठेण सडेप्पिणु सत्तमम्मि
 नरयम्मि महामुणिपलयकारि
 तेत्तीसपम्भोनिहपरमियाउ
 पुणु पुणु वि नरयतिरिएसु जाउ
 उपन्नु दडे गोउलियगेहि
 सो नीलगिरिहे गाईउ लेवि

जा थाइ सिन्नाहे पमायचत्तु ।
 थिउ साहु मुएवि ममत्तराय ।
 गउ मोक्खहो होवि तिलोयराउ ।
 दियहम्मि मरेप्पिणु तमतमम्मि ।
 सजायउ नारउ हरिणमारि । ५
 तहिँ दूसहु दुक्खु सहेवि आउ ।
 सपइ एत्थेव पुरम्मि पाउ ।
 सुउ वसहसेणु गंधारिदेहि ।
 गउ मारिउ दवदहणे दहेवि ।

घत्ता—वत्त मुणेप्पिणु मायप्र
सुयसोएँ धाहाविउ

बहुनारियणसहायए । १०
सयलु वि पुरु रोवाविउ ॥१६॥

१७

पवित्तु पुरम्मि पयासियखेउ
मुणिज्जउ सपइ धम्मपियाहे
पलद्धपससि पयाहियकज्जि
पसिद्धु असखधणो धणमित्तु
सिरि व्व निवासहो सीलपवित्त
चिरतंणदुक्कियकम्मनिबध
न कोइ वि जाहि समीवइ ठाइ
तहि जि पुरे वणि सायरसेणु
खलो स [सया वि] विमुक्कसधम्मु
कयाइ तिणा कय चोरिय लद्धु

नरेसर सोयहो कारणु एउ ।
भणामि भवावलि तुज्ज पियाहे ।
इहेव पुरे वसुपालहो रज्जि ।
वणीवइ होतउ निम्मलचित्तु ।
सलक्खण तासु पिया धणमित्त । ५
हुया तहो पुत्ति य पूइयगध ।
दुग्धभएण पलाइवि जाइ ।
सिरीमइ भज्ज मुअो सिरिसेणु ।
सया वि अणुट्ठियकुच्छियकम्मु ।
धरेवि तलारनरेहिँ निबद्धु । १०

घत्ता—मुणिवि पडहु वज्जतउ
जाएप्पिणु धणमित्ते

सो मारहुँ निज्जतउ ।
भणितु दयावरचित्ते ॥१७॥

१८

जइ तणय मज्झु
तेणुत्तु माम
धणमित्तएण
रक्खिउ कुमारि
सिरिसेणु रत्ति
दुग्गध ताय—
एक्कहिँ दिणम्मि
तवगुणसमिद्ध
कित्तिहरराउ
सोऊण धम्मु
अवसरु लहेवि
निंदियजणेण
अमियासवेण
सोरट्ठि चाइ

परिणहि तो वारमि मरणु तुज्जु ।
परिणमि मेल्लावि मणोहिराम ।
नरनाहहो ढोइयवित्तएण ।
परिणाविउ तणुदुग्गंधनारि ।
तहे गधभएण पलाणु झत्ति । ५
भवणम्मि थिया भग्गाणुराय ।
तत्थाया मुणि नदणवणम्मि ।
अमियासव पिहियासव पसिद्ध ।
गउ बंदहुँ पुरपरियणसहाउ ।
सजाउ चत्तमिच्छत्तकम्मु । १०
दुग्गघएण मुणि पुच्छिउ नवेवि ।
हुय एरिस हुँ कम्मेण केण ।
पारद्धउ कहहुँ हयासवेण ।
पुरु अत्थि पुत्ति धणकणयसाह ।

गिरिनयरनामु	भूवा लु राउ नयणाहिरामु ।	१५
तहिं करइ रज्जु	तहो गगदत्तु वणिवइ मणोज्जु ।	
कीलाहि हेउ	मयणुच्छवदिणि पहुणा समेउ ।	
परियणजणेण	उज्जाणवण जतेण तेण ।	
भिक्षानिमित्तु	मुणि मासोवासि समाहिगुत्तु ।	
पुरि पइसमाणु	पेक्खेविणु तणकचणसमाणु ।	२०
सिधुमइ नाम	मयमत्त भणिय गेहिणि सकाम ।	

घत्ता—सयलु वि कीलासत्तउ
कवणु पयत्तु करेसइ

हलि जणु वणि सपत्तउ ।
कट्ठु मुणिदहो होसइ ॥१८॥

१९

पुणरवि अलाहि मासोववासु	काहीमइ गुरु निट्टानिवासु ।	
पडिलाहहि मुणि बाहुडहि भज्जे	आवेज्जमु पच्छा भुत्तभाज्जे ।	
काहिं आउ एउ इय चित्तिऊण	गुरुणा रोमेण नियत्तिऊण ।	
धाइहे वारतिहे वइरिणीए	भुक्खासमसतहो सइरिणीए ।	
घोडयनिमित्तु सभारसेधु	विससरिसु कडुवतुवउ विइधु ।	५
तहो सत्तिप्र धुम्मावियसरीरु	कह कह व पत्तु रिसि वसइ धीरु ।	
आराहण आराहेवि सम्गु	गउ हुउ मुरवरु सपयसमग्गु ।	
भव्वयणाहिं वदेप्पिणु विमाणु	परमुच्छवेण वहि नीयमाणु ।	

घत्ता—जणमणनयणाणदे
नरनाहेण नियच्छिउ

कीलेप्पिणु आणदे ।
पुरु पइसते पुच्छिउ ॥१९॥ १०

२०

हा जीविएण को एहु चत्तु	ता केण वि कहिउ समाहिगुत्तु ।	
निमुणेप्पिणु कारणु कुद्धएण	जूरेप्पिणु पाविणिक्कुद्धएण ।	
सिधुमइ खरारोहणु करेवि	नीसारिय नयरहो रेर देवि ।	
निज्जणवणि कोट्टें गलियगत्त	जीवेप्पिणु सा दियहाइं सत्त ।	
ह्य तमपहे नारउ दुहनिहाणु	वावीसजलहिजीवियपमाणु ।	५
परिवाडिए सत्त वि भमिय नरय	ह्य सुणही वे वाराउ सरय ।	
सूयरि सियालि उदुरि जलूय	मायंगी गइहि गाइ ह्य ।	
तुहें एत्थु पुव्वकयपावबंध	सपइ सजाया पूइगघ ।	

न वियाणप्र कि पि मएण मत्तु
जणि जीउ एम अणुहवइ दुक्खु

घत्ता—एउ सुणेवि विउद्धप्र
मइँ मुणिद निक्किट्टए

अप्पाणहो अप्पणु होइ सत्तु ।
पावहो फलेण कहिँ लहइ सोक्खु । १०

ताप्र पउत्तउ मुद्धप्र ।
हा किं किउ पाविट्टए ॥२०॥

२१

जो साहवुँ करइ किलेसु नामु
अणुहुत्तउ इय एत्तिउ असोक्खु
मुणि भणइ पुत्ति जइ पुव्वकम्म-
ता रोहिणिउववासं सरीरु
पुच्छिउ तप्र तहो केरिसु विहाणु
पुव्वल्लदियहो भोयणु करेवि
पुणु कोरप्र रोहिणिचदजोप्र
रइराउ भोउ आरभकज्जु
फुडु सत्तसट्ठि आएँ कमेण

घत्ता—आयमेण नवदिवसहिँ
एउ विहाणु समप्पइ

कहिँ अत्थि दुक्खनित्थारु तासु ।
कहिं तामु केम एवहिँ विमोक्खु ।
खउ ईहहि होहि अईवरम्म ।
आयासहि दुक्खहो देहि नीरु ।
आहासइ सजउ गुणनिहाणु । ५
मुणिमग्गे पच्चक्खाणु लेवि ।
उववासु अवरदिणि पुन्नजोप्र ।
दूरज्जिऊण अवरु वि अवज्जु ।
उववास होति दरिसियसमेण ।

भासिउ पंचहिँ वरिसहिँ । १०
पुत्तिप्र पुणु विटप्पइ ॥२१॥

२२

सम्मत्ति तम्मि जाणिवि ससत्तु
रोहिणिअसोयसहियउ विचित्तु
पडि चारु लिहाविवि रयणरइय
काराविऊण परमुच्छेवेण
जायरणविणोउ तहाहिसेउ
विविहोसहभोयणसत्थदाणु
घटउ बुब्बुइयउ धय विचित्त
जहजोगु साहु पुज्जाप्र सहिय
दिज्जति सचरुयइँ भायणाइँ
उज्जवणु सारु सब्वहो वयासु
न वि अत्थि जासु उज्जमणसत्ति

उज्जमणकज्जि किज्जइ पयत्तु ।
सिरिवासुपुज्जदेवहो चरित्तु ।
अह पडिम हेमपाहाणमइय ।
किज्जइ पइट्टु जय जय रवेण ।
वर पुज्ज रइज्जइ पुण्णहेउ । ५
सघहो दाऊण जहाविहाणु ।
देवहो चदोवय चारुचित्त ।
अज्जियहिँ वत्थ सत्थेसु कहिय ।
तह सत्तावीस जि वायणाइँ ।
निप्फलु विणु उज्जमणें पयासु । १०
सो विउणउ करइ विहाणु पुत्ति ।

घत्ता—तहो फलेण वयपुज्जिउ रोयसोयभयवज्जिउ ।
 परभवि सिरिचदुज्जलि होइ जीउ उत्तमकुलि ॥२२॥
 विवहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवघणमाले अत्थसदोहसाले ॥
 भुवणविदिदनामे सन्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे मुन्दरे दिअतोसे ॥
 मुणिसिरिचदविरइए कहकोसे एत्थ रोहिणीचरिए ।
 उज्जमणविहिपयासो एगुणो एस वीसमो सधी ॥

॥ संधि १९ ॥

संधि २०

१

निमुणेप्पिणु विहि लेवि त्प्र पोसहु पुच्छिउ पावनिवारा ।
किं केण वि मई जेम रिसि अवरणेण वि किउ एउ भडारा ॥

गाहा—सोऊणमिण दुग्गंधदेहनिवनदणस्स वित्तत ।
रोहिणिवयमाहप्प पारदं साहुणा कहिउं ॥

आयण्णि पुत्ति भरहे पयडु	एत्थत्थि विसउ नामे सयडु ।	५
जयसेणु राउ तहिं सीहउरे	सुहं करइ रज्जु धणकणपउरे ।	
कणयप्पहदेविहे तामु हुउ	दुग्गधु नामु दुग्गंधमुउ ।	
एक्कहिं दिणि पहयभवावलिहे	विमलप्पहनामहो केवलिहे ।	
तेलोककचवकसखोहणए	उप्पन्नि नाणि सबोहणए ।	
नहु जाणविमाणहिं छाइयउ	सुरयणु हरिसेण पराइयउ ।	१०
कीलतु सतु मणियरविमले	पासायहो उवरिमभूमियले ।	
सो असुरकुमारु निएवि नहे	चिरभउ सुमरेप्पिणु धरणिवहे ।	
मुच्छेविणु निवडिउ हुउ वियलु	धाविउ जणु हाहारवमुहलु ।	

घत्ता—सिचिवि सलिले सीयलेण आसासिउ चमरीरुहवाएँ ।
उट्टिउ नीससतु विमणु किं मुच्छिउ सुय पुच्छिउ ताएँ ॥१॥ १५

२

गाहा—अकहत नियपुत्त घेतूण मलाणवयणकदोट्टु ।
केवलनाणिसयासं तन्नो गन्नो पुच्छिउं राया ॥

दूरुज्झयजम्मणमरणरिणु	पणवेवि सपरिवारेण जिणु ।	
आयण्णिवि धम्मु भवत्तिहरु	विन्नविउ नरिदे परमपरु ।	
कम्भेण केण दुग्गंधु हुउ	किं संपइ मुच्छिउ मज्झ सुउ ।	५
ता भासइ संसयतिमिरहरु	तिहुयणरवि केवलनाणकरु ।	
रिसिवहु करेवि चिरु भवि भमेवि	नाणाविहाइँ दुक्खइँ सहेवि ।	
सजाउ एत्थ दुग्गधवउ	नहे असुर निएप्पिणु नरयभउ ।	
सुमरेवि एहु निव मुच्छियउ	पुणरवि पुहईसँ पुच्छियउ ।	
कहिं केम भडारा एण किउ	मुणिवहु अप्पाणउँ नरउ निउ ।	१०

घत्ता—ता तिहुयणगुरु दिव्वक्षुणि मुणिवहकारणु रायहो भासइ ।

अत्थि कलिगविसणु विसम विद्धमहासोयक्ख वणासइ ॥२॥

३

गाहा—तत्थेक्कु तवकत्ती अवरु नामेण सेदकत्ति त्ति ।

होता जूधादिवदी गिरिगरुया गयवरा चडा ॥

पाणियपिवणत्थु गलतमया

अवरुप्परु जुज्झिवि वे वि मया ।

उदुरमज्जार बद्धवइरा

अहिनउल ह्य पुणु वयसफरा ।

सूयर पारावय पावरया

[अणुहुज्जिवि नाणा दुक्ख सया । ५

जो कणयउरेस-पुरोहियउ

नामेण सोमभूई हुयउ ।

सोमिल्ला भज्जा रूवजुया]

ते वे वि एवि तहे उयरि हुया ।

तहिँ सोमसम्मु पढमिल्लु सुउ

पभणिउ तह सोमदत्तु अणुउ ।

पढमहो मुकत नामेण पिया

वीयहो लच्छीमइ पाणपिया ।

कालेण ताउ परलोउ गउ

राएण पुरोहिउ लहुउ कउ । १०

घत्ता—कि किज्जइ वडुत्तणेण जगि गुरउणेहिँ पाविज्जइ ।

वज्जिवि जलहि त्थासियहिँ लोयहिँ कूववाविपउ पिज्जइ ॥३॥

४

गाहा—अच्छतो तो सपए सुयनिलओ सोमदत्तु दियवसहो ।

जाओ रायपहाणो अह होइ गुणेहिँ भणु कि न ॥

एक्कहिँ दिणि रजियनरवरहो

उवइट्टु सुकतए देवरहो ।

भो सोमयत्त सयवत्तमुह

पाविट्टु एउ तुह भाइ वुह ।

परिहासविवज्जिउ लच्छिमई

कामइ कामधु अयाणमई । ५

निसुणेवि साहु सो चितवइ

हा एउ कयावि न सभवइ ।

त नत्थि ज न दुक्कियरयउ

महिलउ चवति कोवगयउ ।

पत्तियइ सयाणउ ताम नउ

सइँ दिट्टु असभवु जा न कउ ।

एक्कहिँ दियहम्मि महामइणा

होएप्पिणु पच्छन्नण तिणा ।

सहुँ नियकंताए कुक्कम्मरउ

सयमेव पलोइउ भायरउ' । १०

कयपरमविराएँ मुणुवि घर

पडिगाहिउ मुणिचारित्तभरु ।

घत्ता—आयण्णवि तववत्त तहो राएँ परमविसाउ करेप्पिणु ।

किउ अहियारि पुरोहियहो सोमसम्मु[सो] हक्कारेप्पिणु ॥४॥

५

गाहा—दूयवयणेण वसुहानाहेण कयाइ मागधाधीसो ।
तेलोककसुदरक्खो वसुपालो मग्गिदो हत्थी ॥

तेण वि न दिञ्चु ह्य चित्तखई	रुसेवि सयडविसयाहिवइ ।	
तहो उवरि सयलपरियणाभिलिउ	नेमित्तिवदिन्नदियहिं चलिउ ।	
थिउ गोधुलुक्कि पुरवाहिरए	रिसि सोमयत्तु एत्थतरए ।	५
विहरतु जतु जत्तुत्थमिउ	एतूण तत्थ पडिमाए थिउ ।	
त निएवि सोमसम्मेण पडू	विन्नविउ हयासे नायपडू ।	
तुह एहु नरेसर अरिदमणे	अवसउणु विजयजत्तागमणे ।	
कि बहुणा मारेप्पिणु पिमुणु	माणिज्जइ सामिसाल सउणु ।	
एयहो रत्तेण दिसामु वली	दिज्जइ पसमिज्जइ सब्बकली ।	१०
त निमुणिवि करअपियसवणु	थिउ होवि अहोमुहु नयभवणु ।	

घत्ता—विस्सदेवविप्पेण तउ कयहाहाकरेण पउत्तउ ।
सोमसम्मु भो रायवर भासइ अविद्याणतु अजुत्तउ ॥५॥

६

गाहा—सारयए सब्बाण सउणाण सउणदंसण नूण ।
सब्बाण कज्जाण निप्पत्ती कुणदि भणिद च ॥

भारते मुरारिणा—त्वमारोह रथ पार्थ गाडीव चापि धारय ।
निजिता मेदिनी मन्ये निर्ग्रथो मुनिरग्रतः ॥

शकुनशास्त्रे च—श्रवणस्तुरगो राजा मयूरः कुजरो वृषः ।
प्रस्थाने वा प्रवेशे वा सर्वे सिद्धिकराः स्मृताः ॥ ५

ज्योतिषागे च—पद्मिनी राजहंसाश्च... तपोधना ।
यद्देशमुपसर्पन्ति तद्देशे शुभमादिशेत् ॥

धर्मशास्त्रे च—यागी च याज्ञी च तपोधनश्च मूरोऽथ राजाथ सहस्रदश्च ।
ध्यानी च योगी च तथा शतायुः सदर्शनादेव हरन्ति पापम् ॥ १०

एवविहु सत्थुवइड्डुगुणो	सब्बह तेणेहु महासउणो ।
कि बहुणा ह्यसंदेहगई	फुडु पच्चउ एहु नराहिवई ।
आयहो माहप्प भीयमई	एसइ पहाए मगहाहिवई ।

सह्वं पाहुडेण तंबेरमउ	अप्पेसइ तुज्ज मणोरमउ ।	
आणंदिउ सामि सुणेवि इण	तो लेवि विहाणण त करिण ।	१५
तत्थायउ मागहु मतिजुउ	ढोएप्पिणु कप्पु अदप्पु हुउ ।	
संजाउ अईवकयत्थु प्ह	समाणिउ बंभणु दिन्नबहू ।	
एत्तहे चिरवइरवसेण निसि	गतूण निसुभिउ तेण रिसि ।	
आयण्णिवि पहुणा पावियउ	कयकोवे सो पिट्टावियउ ।	
बभणु भणेवि नउ मारियउ	वित्थारिऊण नीसारियउ ।	२०

घत्ता—कोढें सब्वगु वि गलिउ पावे पाविउ मुणिवहयारिउ ।
उक्किट्टाउसु सत्तमणु हुउ नरयम्मि मरेप्पिणु नारउ ॥६॥

७

गाहा—महदा दुक्खेण तदो चुदो' समुट्ठिम्मि अतिमे जादो ।
जोयणसहसपमाणो नामेण तिम्मिगिलो मच्छो ॥

तहिं पुव्वकोडि जीवेवि मुउ	पुणु छट्टनरणु नारइउ हुउ ।	
पंचाणणु पुणु पचमनरउ	हयउ पुणु दिट्ठीविमु उरउ ।	
पुणु चोत्थणु पुल्लि पुणो तदिए	भेरुडु चडु पुणु पुणु विदिए ।	५
पुणु पक्खि हूउ नामेण चउ	पुणु पढमनरउ पावेण गउ ।	
पुणु एत्थ एहु दुग्गधजुउ	हुउ पावे पत्थिव तुज्जु मुउ ।	
निसुणेवि एम नियपुव्वभउ	विन्नविउ कुमारे पहरउ ।	
किह सपइ सामिय दुरियहिणु	फिट्टइ ता तहो उवइसइ जिणु ।	
रोहिणिउववासे दुरियखउ	सपज्जइ सुह्वं सुय चारु वउ ।	१०
आयण्णिवि करणविहाणु तिणा	सह्वं सावयधम्मे सुहमइणा ।	
उववासु लइउ वदेवि गुरु	दूरुज्जिबि मिच्छा देउ गुरु ।	

घत्ता—वयमाहप्पे थोवयहिं दिवसहिं दुग्गधु वि वरपरिमलु ।
सुदरु रायकुमारु हुउ पेच्छह पच्चक्खु वि धम्महो फलु ॥७॥

८

गाहा—रज्जं पिउणा दत्त काऊण चिर पुणो सपुत्तस्स ।
दाऊण माससेसे नियाउसे लच्छि वि जयस्स ॥
सन्नासविहीणु मरेवि बरो सजायउ पाणयसग्गि सुरो ।

७. १ सुदो ।

नाणेण वियाणियपुव्वभवो
माणेप्पिणु सव्वसुहाईं चुउ
देविददिसाए विदेहवरे
भव्वो विमलाइयकित्ति पट्टु
कामो व्व दिवायरकित्तिमुउ
सामीवे समग्गुणायरहो
कालेण महामइ मुक्कमलो

वीसबुहि आउसु निच्चनवो ।
जबूदुमलछणि दीवि ह्हुउ । ५
पुडाइरिगिणीनामपुरे ।
नामेण सिरीमइ तामु बहु ।
मेहाइयसेणवयसजुउ ।
नामेण अत्थि मुदिवायरहो ।
सजायउ सव्वकलाकुसलो । १०
[मोडणउ नाम छदो]

घत्ता—एत्तहे उत्तरमहुरपुरे सेट्ठी सायरदत्तु पसिद्धउ ।
जयमइयहे तहो पियहे ह्हुउ पुत्तु मुमदिरु गुणहिं समिद्धउ ॥८॥

९

गाहा—दाहिणमहुराए वणीसरस्स नामेण नदिमित्तस्स ।
धणदत्ताए पियाए जायाओ वेत्ति धूयाओ ॥

पट्टमा नामेण मुसीलधरा
दिन्नाउ इमाउ मुमदिरहो
ता तहिं विवाहसमयम्मि गउ
आलोएवि सुट्ठु मणोहरउ
महसेणे ताउ मुयाहियउ
मन्नाविवि ते विच्छोइयउ
गंतूण पुडारिगिणिपुरिहे
तेण वि सुणेवि अन्नायपरा
अवमाणिय वीयसोयनयरे

बीया सुमई माहवियसरा ।
वणिउत्तहो तहो गुणमदिरहो ।
रविकित्ति समित्तु सकज्जरउ । ५
सकेइउ तेण स महयरउ ।
अवहरियउ अद्धविवाहियउ ।
आणिउ पउरयणे जाइयउ ।
जाणाविउ अरिक्करिकेसरिहे ।
नीसारिय नवतारुणभरा । १०
गय वेवि भमत विचित्तघरे ।

घत्ता—तत्थ विमलवाहणनिवहो विमलमईमहएविए जायउ ।
न भल्लिउ मयरद्धयहो अट्ट तण्णभवाउ विक्खायउ ॥९॥

१०

गाहा—मयणस्स जयवडाया जयमइ कणयप्पहा सुवन्ना य ।
सुप्पह सुमदी सुव्वद नदा विमलप्पहा तह य ॥
पुच्छिउ निवेण आएसकरु जयमइयहे होसइ कवणु वरु ।

तेण वि उवएसिउ पहयपरु	लाएसइ चदयवेहि सरु ।	
जो सो निच्छउ दुहियाहे पिय	ता ताएँ तं जि विहाणु किउ ।	५
हक्कारिय राय रइउ बिसमु	ससिवेहु परममिन्नाणगमु ।	
निक्खम्मइ थभु तासु उवरि	वेएण भमतु महतु अरि ।	
तहो उवरि धरिज्जइ कयहरिसु	पविरइयविसाहठाणु पुरिसु ।	
लक्खहुँ ण जाइ लोयणपसरु	परिभमियचावसन्निहियसरु ^१ ।	
तहो गपिणु सत्तपयाई जुय	थभुवरि थविज्जइ छिद्दजुय ।	१०
अवराई वि तिन्नि तिन्नि पयइं	गनूण धरिज्जइ छज्जुयइ ।	

घत्ता—पुणु सत्तमहो जुयहो पुरउ तिन्नि पयाई कमेवि अवड्डिय ।
थभे थवेज्जइ दप्पणहो तलि वालेण निवद्ध कवड्डिय ॥१०॥

११

गाहा—भममाणमंतराले चक्क च ठविज्जदे पुणो तीए ।

जुगचक्काण विवरेण सो विधदे पुरिसो ॥

कत्तरिण कवड्डिय कुतलए मसिवेहु एहु सो भूवलए ।

उक्त च—छित्त्वा भ्राम्यदनुक्रमे युगमत सप्त क्रमैरादिम
श्रीणि श्रीणि पदान्यतीत्य पुरतोऽप्यकैकमेव हि षट् । ५
तच्छिद्रे भ्रमदर्यनतरसिरोजातर्गतौ दर्पणे
मज्जेच्चेदिषुरेष विध्यति नरः स्याच्चन्द्रकारुयो बुध ॥

तं विघहुँ सक्कइ को वि नउ	हुउ सयनु विलक्खउ रायचउ ।	
तहिँ अवसरि देसियवेमधरु	सव्वाण वि मज्झि निएवि वरु ।	
पहुणा सई अक्ककिलि भणिउ	जइ अत्थि वप्प पईं धणुगुणिउ ।	१०
तो करि कोऊहलु रजि जणु	दुल्लहयरु नहिँ कन्नारयणु ।	
निमुणेवि एउ त विद्धु तिणा	परिओसिउ राउ महामइणा ।	
परिणेप्पिणु जयमइ आइयउ	थिउ तेत्थु सुहेण विराइयउ ।	
उववासिउ समिउ किलेसहरे	विमलइरिहे सिहरे जिणिदहरे ।	
सोवतु सतु एक्कहिँ दियहे	निउ चित्तलेहनह्यरिण नहे ।	१५

घत्ता—वेयइहो गिरिवरहो सिरि सिद्धकूडि जिणभवणि थवेप्पिणु ।
विज्जाहरि नियनिलउ गय वियडदत्तखेयरहो कहेप्पिणु ॥११॥

१० २ परिभमचाव^१ ।

११. १ लढ ।

१२

गाहा—उन्निदियउ कुमारो दट्ठूण जिणिदमदिर हिट्ठो ।

उट्ठेवि कयपणामो पइट्ठुओ तत्थ थुइवयणो ॥

तहु दसणेण पविमयई वरे
नाणाथुईहिं जिणु वदियउ
एतूण वियडदतेण निणा
आयण्णाहि निज्जयदेवपुरे
नामेण पसिद्धउ पवणजउ
तहो रायहमगइ कामिणिहे
वर वीयसोय' नामेण मुया
वरु ताए ताहे तमोहहर
आएण जेण दुक्कियहरहो
विहडेसई सो दुहियाहे पइ
बहुकाले सपइ त पि दुहा

वियडियई कवाडई गब्भहरे ।
उवविट्ठु सुहउ आणदियउ ।
विन्नविउ नवेवि नहोगइणा । ५
एत्थत्थि खगेसरु अब्भपुरे ।
परमेसरु दरियाराइखउ ।
नहवल्लहनामहे भामिणिहे ।
हुय कहु उवमिज्जइ चारुभुया ।
पुच्छिउ मुणि नामे नाणधरु । १०
सयमेव कवाडई जिणहरहो ।
होसइ गउ एम भणेवि जइ ।
सजायउ दसणेण सुमुहा ।

धत्ता—मन्नावेवि कहेवि इउ गउ गयणयरु गयणि तं लेप्पिणु ।

गपि निवेइउ सामियहो पुरवाहिरि उज्जाणि थवेप्पिणु ॥१२॥ १५

१३

गाहा—सोऊण आगमण आएसनरस्स रजिओ राया ।

पुज्जेवि वियडदाढ सहसत्ति सय गओ तत्थ ॥

परमुच्छ्वेण पुरि पेसियउ
कन्नाउ एवकतीसावरउ
होऊण सव्वविज्जाहिवइ
वसिऊण तत्थ सभरिवि घरु
दुत्थियविइन्नकचणपयरे
नामेण पहजणु भूमिवइ
पइपयभत्ताए अणोवमए
अइसयगुणरूवविराइयउ
सो तहिं पऊरपरिवारसहु
मयनिब्भरु नामें नीलगिरि
कालु व कोवेण करंतु खउ

परिणाविउ मुय सभूसियउ ।
दिन्नाउ देवकन्नावरउ ।
वरिसाई पच अणुबद्धरइ । ५
सविहूइए वल्लिउ पुरिसवरु ।
एत्थतरि अजणगिरिनयर ।
नीलजंण देवि मरालगइ ।
जायाउ अट्टु धूयाउ तए ।
मयणा कणया विउलाइयउ । १०
उज्जाणं गपि नियत्तु पहु ।
आलाणखभु भजेवि करि ।
धाविउ जणनियरहो पवणजउ ।

१२. १ गीयसोय ।

घत्ता—हुउ कोलाहलु अइगरुउ घीरु वि को वि नाहिं साहारइ ।

अच्छोडइ तोडइ सिरु धुणइ ज जं पावइ त त मारइ ॥१३॥ १५

१४

गाहा—त दट्ठण कुमारो अतुलबलो सुरहराउ ओपरिओ ।

सीहु व घीरेवि जण हक्केप्पिणु हत्थिणो भिडिओ ॥

बत्तीस करणाई काऊण करि जित्तु
सतुट्ठु सव्वो जणो सति सजाय
मयणु व्व रूवेण जणमणु विमोहंतु
पेसेवि पुरु परम काऊण पडिबत्ति
अच्छेवि तहिं कइ वि दियहाई रयवित्तु
विज्जापहावेण पच्छन्नगत्तेण
गहियाई गेहणई निम्मवि वि बलु पउरु
सजाउ सगामु बहु पडिय सामंत
मणिमयरहारूढ पहरंत सरवरहिं
चिरु जुज्झऊण कुमारेण सपणामु

देवेहिं गयणाउ कुमुमोहु सिरि घित्तु ।
सभरिवि राएण नेमित्तिवरवाय ।
करिकधरारूढु इदो व्व सोहतु । ५
परिणाविओ ताउ कन्नाउ रविकित्ति ।
गउ पुडरिक्किणिपुर लेवि नियमित्तु ।
काऊण विविहाई चोज्जाई^१ तहिं तेण ।
निमुणेवि कुडि लग्गु नरनाहु जणपउरु ।
आलग्ग सयमेव पिउपुत्त बलवत । १०
धुय वेवि बरवीर हरिसेण मुरवरहिं ।
सपेसिओ बाणु लिहिऊण नियनामु ।

घत्ता—त दट्ठण पहिट्ठु पहु पेल्लिवि रणु रहाउ उत्तिन्नउ ।

इयरु वि समुहें पराइयउ अवरुप्परु आलिगणु दिन्नउ ॥१४॥

१५

गाहा—सजाओ सजोओ सम सपुत्तेण पुन्नवतेण ।

परमुच्छवकयसोहो पइट्ठुओ पट्ठण राया ॥

एक्कहिं दिणि गयणहो उक्क चुया
घणु जोव्वणु जीविउ बुद्धि बलु
कि बहुणा सासय जेण गइ
इय चित्तिवि अक्ककित्ति सपए
सिरिधरगुरुपासि तवेवि तउ
एत्तहे हुउ अक्ककित्ति वि जइ
खयरामरमाणवधुयवलणु
आलोप्रवि गयणि विलीणु घणु
जयमइमहएविहे गम्भि हुयहो

आलोप्रवि निवहो विरत्ति हुया ।
उक्का इव णासेसइ सयलु ।
पाविज्जइ किज्जइ तम्म मइ । ५
धविऊण महामइ जइणमए ।
गउ विमलकित्ति निव्वाणपउ
नवनिहिचउदहरयणाहिवइ ।
चिरु करिवि रज्जु खलमयमलणु ।
भावेवि अणिच्चु विरत्तमणु । १०
नामेण विमलकित्तीहे सुयहो ।

१४. १ रोज्जाई ।

अर्हिसिचिवि होइवि रायसिरि
संजायउ संजउ नीरयइं
कालेणाराहिवि पंचगुरु

सहुँ बहुनिवेहिँ गउ गहणगिरि ।
पणविप्पिणु सीलगुत्तपयइं ।
गउ अच्चुयसग्गहो जाउ सुरु ।

घत्ता—सा दुग्गधिणि वणितणय कालु करेवि किलेसविणासहो । १५
हुय महएवि पहाण तुह अइसएण रोहिण्णिउववासहो ॥१५॥

१६

गाहा—विज्जुप्पहाप्र जाम्रो देवीए बीदसोगरायस्स ।
पुत्तो असोयनामो सग्गाउ चुदो तुम एत्थ ॥

पंचूणसट्ठिपल्लाउखए
चंपापुअम्मि परमेसरहो
सिरिमइमहएविप्र सजणिया
महएवि तुहारी हसगइ
महुरापुअरि वइरिसिरीहरहो
बहुगुणु अग्गासणभोयणिउ
कताप्र सत्त तहो अग्गिलए
सिहिसिरिमरुभूइपहइ वरा
ते पुण्णहीण दोग्गच्चहया

कता वि तुज्ज अगाविसए ।
नामे मधवंतनरेसरहो ।
सा रोहिणि नाम एह भणिया । ५
सुणु पुत्तहउ जम्मइं निवइ ।
रायहो नामेण सिरीहरहो ।
सोत्तिउ सिहिसिम्मु नाम भणिउ ।
सजाया नदण निम्मलए ।
चउदहविहविज्जाथाणधरा । १०
अत्थत्थिय पाडलिपुरहो गया ।

घत्ता—सुपइट्टहो पुहईसरहो महएवीप्र सुरूवउ जायउ ।
नदणु नामे सीहरहु सीहु व विक्कमेण विक्खायउ ॥१६॥

१७

गाहा—तत्थेव रायउत्तेण पुत्तिया विगदसोग नामेणं ।
सिहरहस्स विइत्ता कमला कमल व्व पच्चक्खा ॥

सविहूइप्र रंजियजणमणउ
आलोप्रवि संपयसोक्खच्चुया
हा पुव्वभवे भो सब्वहिउ
पुण्णेण कलत्तु पुत्तु विहिउ
जणनिदणिज्जु दुक्खइं सहइ
इय च्चित्तिवि निव्वेएण गुणी
चिरु तउ चरेवि निद्धयरया

परिणयणनिहाणु ताहे तणउ ।
गय परमविसायहो विप्पसुया ।
अम्हेहिँ न सुक्किउ कम्मु किउ । ५
पाविज्जइ अवरु वि जं सुहुउ ।
भिक्खा वि न पुण्णहीणु लहइ ।
हुय सत्त त्ति जण निग्गंथ मुणी ।
कालेण सग्गु सोहम्मु गया ।

तत्येक्कु पओनिहि दिव्वु सुहु
एत्यागय विगयसोयपमुहा

माणेप्पिणु दूरविमुक्कदुहु । १०
हुय एविणु तुज्जु सुया सुमुहा ।

घत्ता—आसिकालि आयासचरु भल्लावउ नामेण पसिद्धउ ।
पिहियासवहो समीवे हुउ वंभयारि वयसीलसमिद्धउ ॥१७॥

१८

गाहा—अणवरयं नरसेत्ते विज्जापाणेण वंदणाहत्ति ।
काऊणं कालगदो उववओ पढमकप्पम्मि ॥

पंचासपंचपलिदोवमइ
हुउ एहु अणोवमरूवजुउ
सुणु पुत्ति चउक्कहो पुव्वभउ
पुव्वम्मि विदेहि अत्थि विसउ
तहो दाहिणसेडिहे सुदरिहे
कमलामहएविहे कमलसिरी
अवर वि कमलाइयगंधिणिया
एवाउ चयारि वि उववणहो

माणेप्पिणु सुहई अणोवमइ ।
तुह लोयवालु नामेण सुउ^१ ।
जंबूदीवम्मि पससपउ । ५
तत्थ वि वियड्ढवेयड्ढनउ ।
पहु गरुडवेउ अलयाउरिहे ।
तहे हुय सुय सोहणरूवसिरी ।
विमलस्सिरि विमलसुगंधिणिया ।
कीलहुँ गयाउ मिलियउ जणहो । १०

घत्ता—आलोइउ आयासचरु तत्य ताहिँ तवतरुणपियारउ ।
पणवेप्पिणु आउच्छियउ नामे सुव्वयसूरि भडारउ ॥१८॥

१९

गाहा—भयवं कि उववासो भण्णदि किह कीरदे पयासेह ।
केरिसयं तस्स फलं ता मुणिणा कहिउमाढत्त ॥

दुविहो परमत्यो ववहारो
अप्पसहावसयासे वासो
चउभेयाहारहो परिहारो
धीसंसगं भोयविलासं
लोहं कोहं माणं डंभं
मुणिमग्गेणुत्तमउववासे

उववासो भणिओ अविजारो ।
पुत्ति, परमत्यो उववासो ।
भणिओ आयम्मि ववहारो । ५
वक्करं च खेड्डं च सहासं ।
कीरइ सो चइऊणारंभं ।
पउ वि ण पिज्जइ पावविणासे ।

भणितं च परसमये—अष्टौ तानि व्रतघ्नानि आपो मूल पयः फलम् ।

हविर्ब्राह्मण कामश्च गुरोर्वचनमौषधम् ॥ १०

१८. १ हुउ ।

जलपाणेण सहिउ सामन्नो
जं जीवेण आसि अन्नानं
तं उववासतवेण पवित्ते

सारभो उण होइ जहन्नो ।
किउ दुक्कम्मुज्झियदयदाण ।
डज्झइ काणणं व मरुमित्तं ।

भणितं च—यदज्ञानेन जीवेन कृत पाप सुदारुणम् ।
उपवासो हि तत्सर्वं दहत्यग्निरिवेन्धनम्^१ ॥

१५

तथा चोक्तम्—रजोमलावलिप्तागो यथा तोयेन निर्मलः ।
तथोपवासतोयेन भवत्यात्मातिनिर्मलः ॥

जेम ह्यासणम्मि धम्मत्त
तेमुववाससिहीसतत्तो

लोहं मुयइ मलं निम्भत ।
अप्पा निम्मलु होइ पवित्तो ।

उक्तं च—धाम्यमान यथा लोहं मलं त्यजति सर्वतः ।
व्रतोपवासतापेन तथा पापमलं त्यजेत् ॥

२०

घत्ता—रुद्धं सलिले पवेसि सरु जिह खरकिरणकरोहे सूसइ ।
तिह उववासं संजयहो पुव्वक्किउ पावोहु पणासइ ॥१९॥

२०

उवत च—उदकागमे यथा रुद्धे सरः शोषति भास्करः ।
तथोपवासयोगेन प्राणी पाप विशोधयेत्^१ ॥

गाहा—मुव्वदि उववासादो तवो न अन्नोत्थि सव्वसत्थेसु ।
इय नाऊण पयत्तं कायव्व तत्थ सत्तीए ॥

तथा चोक्तम्—श्रूयते सर्वशास्त्रेषु तपो नानशनात्परम् ।
पापाना क्षयहेतुत्वात्सर्वसौख्यप्रदायकम् ॥

५

सुरामुर खेयर किन्नर जक्ख
उवासवएण वसा विह होंति

पिसाय महोरय भूय सरक्ख ।
समीहिउ बत्थु समत्थु वि देंति ।

उक्तं च—देवा गधर्वयक्षा वा पिशाचोरगराक्षसाः ।
व्रतोपवासयोगेन वशं गच्छन्ति तत्क्षणात् ॥

१०

महोसहि मंत वसाइय जोय

फलंति खलति जराइय रोय ।

तथा चोक्तम्—विद्यामन्त्रास्तथोषधो योगश्च वशकारकाः ।
सिध्यन्ति ह्युपवासेन क्षीयन्ते च जरादयः ॥

१६. १ *निरिवेसिउ सिद्धे ।

२०. १ विशेषयेत् ।

मुणोवि महप्पुववासहो ताहिँ	पुणो वि पउत्तुवसंतमणाहिँ ।	
मुणीसर पंचमियाहि विहाणु	कहेह पयासइ संघपहाणु ।	१५
दुभेय समाहिसिरीपयपुब्बु	हवेइ वियाणह पंचमि पब्बु ।	
समाहिहे कारणु किण्हइ पक्खे	विदीय लइज्जइ सुक्किलपक्खे ।	
दसायण दोह मि पच जि मास	जिहुत्तविहीप्र करेवि उवास ।	
महाअहिसेउ जिणाहिवपुज्ज	जिणालप्र घटउ सोह मणोज्ज ।	
पहावण जायरणेण समाण	ससत्तिप्र संघहो दाणु समाण ।	२०
मुणिदहँ पोत्थय पोत्थय क्त्थ	तहज्जहँ दिज्जहिँ वत्थ पसत्थ ।	

घत्ता—एम करेप्पिणु उज्जमणु फलु पाविज्जइ ताहे पहावँ ।

लद्धसमाहि जीउ कमेण वच्चइ सासयपुरहो सहावँ ॥२०॥

२१

भणिदँ च आगमे—एक्कम्मि भवग्गहणे समाहिमरणेण जो मदो जीवो ।

नहु सो हिडदि बहुसो सत्तट्ठभवे पमोत्तूण ॥

गाहा—होदूण चक्कवट्टी कल्लाणपरपर च लद्धूण ।

सिरिपंचमिफलमेयं अप्पा अजरामरो होइ ॥

निसुणेप्पिणु एउ किसोयरिउ	पणवेप्पिणु साहु र्होयरिउ ।	५
पंचमिउववासु लेवि गयउ	तहिँ दियहे चेव वज्जे हयउ ।	
सोहम्मसग्गे सोहाजुयउ	सुरसुंदरियउ चारि वि हुयउ ।	
जीवेवि पंच पलिदोवमइ	माणेप्पिणु सुहइ अणोवमइ ।	
तत्तो चइऊण चत्तदुहउ	तुह जायउ एयउ तणुरुहउ ।	
रोहिणिउवरम्मि महाइयउ	पुहईस वसुंधरिआइयउ ।	१०
आयण्णवि एउ विमुक्करउ	हुउ सयलु लोउ जिणधम्मरउ ।	
एत्थंतरि नवि वि वसुंधरिया	पुच्छइ गुणसासवसुंधरिया ।	
कहि केरिसु सामिय मोणफलु	आयण्णहि भणइ विमुक्कमलु ।	

घत्ता—कयमोणव्वउ सग्गि सुरु होइवि चक्कवट्टि उप्पज्जइ ।

जीवहो मोणफलेण पुणु सिद्धिवहवरत्तु संपज्जइ ॥२१॥

१५

२२

गाहा—तिहुयणपच्चयकरणं अमयं व अईवमिट्ठय वयणं ।

सव्वपमाणीभूदं अणोवमं होइ मोणेण ॥

अणिवारियन्नाणापसरु जए
रिद्धीय समाणु पुरंदरहो
माणुन्नईए मंदरसरिसु
तहो वयणु वि अमिओसहहँ एए
फुल्लियनवनलिणगंघबहलु
बलु पोरिसु कुलु जसु कित्ति जउ
सव्वत्थ वि धोत्तसएहिँ सया
दुहसज्जउ विज्जाओइणिउ
देवहँ वि पुज्ज बंदणकरणु
मोणेण महत्तणु संभवइ
क्षाणु वि कम्मक्खयकरणखमु

आराहहिँ गरुय वि तामु एए ।
रुवँ सोहग्गेण वि सरहो ।
उवमाण न कोइ तामु पुरिसु । ५
संभवइ विसमविसवाहिए ।
महुरक्खरजंपिह मुहकमलु ।
तहो होइ जेण किउ मोणवउ ।
युव्वंति नरा कयमोणवया ।
मोणेण होति फलदाइणिउ । १०
किज्जइ मोणेण जि मलहरणु ।
कयमोणहो कलहु वि उवसमइ ।
किज्जइ मोणेण जि मोक्खगमु ।

घत्ता—अहवा किं बहुजपिण्ण अत्थि समाहिनियमु जं कि पि वि ।

तं सयलु वि मोणव्वण्ण सिज्जइ सहलु होइ इयरं पि वि ॥२२॥ १५

२३

गाहा—काऊणं उज्जमण सावहि मोणं धरिज्जदे पुज्जा ।

सिणवड्ढमाणपडिमा पइट्टइत्ता पयत्तेणं ॥

निरवहिहे अणंतसोक्खकरणु
परदोसावाउ जसुज्जलउ
कि मोणं परदोसग्गहणु
इय जाणिवि परदोसग्गहणु
आयणिवि एउ वसुधरिए
निसुणेवि एउ हरिसहो भरिउ
पहु पुत्तकलत्तहिँ परियरिउ
एक्कहिँ दिणि दप्पिणि पलिउ सिरे
तक्खणि वेरग्गहो राउ, गओ
न वियाणइ विसयासत्तमणु
न मुणइ न को वि कामु वि सरणु

उज्जमण सन्नासे सरणु ।
सो सव्वहँ मोणहँ अग्गलउ ।
परिभमइ चउग्गइ भवगहणु । ५
वज्जिज्जइ किज्जइ अमलमणु ।
दिहु लइउ मोणु गुणगोयरिए ।
सुरहियवयनियमालकरिउ ।
पणवेवि साहु पुरि पइसरिउ ।
आलोएवि मणिमयमउडधरे । १०
हा सयलु वि तिट्टए लोउ हओ ।
मन्नइ महु पुत्तु कलत्तु घणु ।
न निहालइ आसन्नउ मरणु ।

घत्ता—वणवाले एत्तूण पहु एत्थतरि नवेवि विन्नवियउ ।

देव अज्जु उज्जाणवणे' आउ देउ जो सक्के ण्हवियउ ॥२३॥ १५

गाहा—नामेण बासुपुज्जो जयपुज्जो जणियजणमणाणंदो ।

सिरिसमवसरणसहिओ विहरंतो तुम्ह पुणोहि ॥

निसुणोवि नराहिउ/आसणहो

गंतूण सत्त पय तद्दिसे

वणवालहो देवि पसाउ बहु

आणंदतूरसरभरियदिमु

सहुँ सेभेँ सक्कु व नीसरिउ

सोऊण धम्म उवसंतमइ

अमियप्पहे नामे सहु सुयाहि

उप्पाएवि केवलु सिद्धि गउ

उत्तिट्ठु नाई परसासणहो ।

पणवेप्पिणु परममहारिसिहे ।

सुउ लोउवालु काऊण पट्टु ।

धम्माणुरायवड्ढियहरिसु ।

गंपिणु जहिँ जिणु तहिँ पइसरिउ ।

सजाउ असोयनरिदु जइ ।

हुउ गणहरु सुद्ध बुद्ध जुयहिँ ।

गेहिणि महएवि करेवि तउ ।

५

१०

घत्ता—सिरिचदुज्जलु गुणनिलउ रयणतेयसुद्धीए मणोहर ।

पन्नारहमए सग्गे हुउ सुरवरिदु नामे मणिसेहरु ॥२४॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले ॥

भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे मुदरे दिव्वतोसे ॥

मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते ।

जिणभत्तिफलपयासो नाम इमो वीसमो संधी ॥

संधि २१

१

विज्जा वि भक्तिमंतस्स सिद्धिपुत्रयादि होदि सफला य ।

कह पुणु निव्वुदिविज्जा सिज्जिभहिदि अभत्तित्तस्स ॥ [भ आ. ७५२]

एवं भगिदो विज्जा वि विद्याशास्त्रमपि शास्त्रोपदेशो वा सिद्धिभक्ति समाप्ति समायाति सफला च फलदायिनी भवति । कि पुननिवृत्तिविद्या निर्वाणविद्या समाप्ति गमिष्यति अभक्तिमंतस्य भक्तिहीनस्येत्यर्थः । अत्राख्यानम् । ५

धुवय—अवरु वि भक्तिफलु भावेण सुणिज्जउ ।

अवरणिय दुक्कियहं. सलिलजलि दिज्जउ ॥

आसि एत्थ पावियगुणगउरव
जामच्छति सब्ब अविहत्तिप्र
ताम दोणु नामेण पहाणउ
एक्कहिं वासरि तहिं संपत्तउ
दाविउ नेप्पिणु सतणुत्तणयहो
तेण वि तासु समप्पिय नंदण
हुउ विक्खायउ पत्तमहत्तणु
पच्छिमनयरासन्नप्र रत्नप्र

पडवरज्जि परिट्टिय कउरव ।
करिवरपुरि' अवरुप्परु भेत्तिप्र ।
बभणु धणुविन्नाणवियाणउ । १०
किवेण वियाणिऊण गुणवत्तउ ।
कयदिद्ववभचेरवयपणयहो ।
सो वि गुणावइ नयणानदण ।
अह को गुणहिं न पावइ कित्तणु ।
अत्थि भित्तु नाणातरुद्धन्नप्र । १५

घत्ता—भीमु पयडवलु गवलजराविबउ ।

अत्थि चिलायवइ तहिं खीरकलवउ ॥१॥

२

लेप्पपिडमउ दोणु करेप्पिणु
पुच्छइ कहि गुरु केम रइज्जइ
सयमेवक्खइ एण विहाणे
काले भत्तिभरें संजुत्तउ
सइवेहु दुल्लक्खु वि जाणिउ

पुज्जइ सो तिकाल पणवेप्पिणु ।
ठाणु बाणसंधाणु वि किज्जइ ।
मुच्चइ बाणु रइयसधाणे ।
धणुविन्नाणहो पारु पडुत्तउ ।
राहाचंदवेहु परियाणिउ । ५

१. १० पुरु ।

अज्जुणपमुह कुमार सलीलए
खीरकलंबएण पारद्धिहे
निसुणिवि सुणहँ सद्दु सरु मुक्कउ
विधु साणु किंकंतु पघाइउ

एक्कहिँ वासरि गय वणकीलए ।
नीसरिएण मयामिससिद्धिहे ।
सो वि तासु मुहकूहरहो दुक्कउ ।
जहिँ कुमार तहिँ ताउ पराइउ ।

घत्ता—तं पेक्खवि नरु विभिउ को एहउ । १०
सद्देहकुसलु जेणेहु समाहउ ॥२॥

३

ता पंयेण तेण सयल वि गय
थोवतरि धणुवाण [... ..]
सद्दु सुणेवि' साणु मई विद्धउ
को तुहँ सद्देहु कहिँ सिक्खउ
हउँ पहु आयहे [रणहे] राणउ
गुरु महु दोणायरिउ भडारउ
कहिँ केरिसु पत्थेणाउच्छिउ
ता ससिबेहपहइ पयासिउ
अवराइँ वि रहंगयखग्गइँ

सोणियच्चिणहु नियता निग्गय ।
... ..] ।
पुच्छइ पुणु विहसेवि कइद्धउ ।
कहइ कुमारहो भिल्लु सुसिक्खउ ।
नामे खीरकयबु पहाणउ । ५
किउ ते धणुविन्नाणविसारउ ।
दोणे तुज्जुवएसु पयच्छिउ ।
धणुमुणु तेणज्जुणु वि विसेसिउ ।
दावियाइँ छुरियाइँ समग्गइँ ।

घत्ता—चितिउ अज्जुणेण ए मज्जु वि अहिउ । १०
धणुविन्नाणुणु सविसेसु पयासिउ ॥३॥

४

पेच्छह हा हउँ गुरुणा वंचिउ
मेल्लिवि महुँ गुरु अन्न न अहियउ
दिन्नउ वरु गरुयाहँ वि जहिँ वरु
एम भणेवि गंपि गुरु गरहिउ
खीरकयंबउ नामे वणयरु
भणइ दोणु पई मेल्लिवि वल्लहु
कहिँ अम्हइँ कहिँ पुत्त चिलायउ
निच्छउ एउ असेसु असच्चउ
एउ सुणेवि नेवि गुरु अज्जुणु

मेच्छहो नियगुणु अहिउ पवचिउ ।
होसइ तुह विन्नाणें सहियउ ।
अलिय होइ तहिँ कि कीरइ किर ।
पई धणुगुणु भिल्लाणु वि न रहिउ ।
जाणइ मज्जु वि पासिउ धणु वरु । ५
न वि महुँ आसाथाणु वि दुल्लहु ।
कहिँ धणुवेउ तेण विन्नायउ ।
जइ तो पहु दक्खालमि पच्चउ ।
गउ तहिँ जहिँ सो भिल्लु अणज्जणु ।

३. १. विद्धु सुणेवि ।

घत्ता—काणणि कालनिहु दोणेण निरिक्खिउ ।
पुच्छिउ चाउ पइँ कहो पासिउ सिक्खिउ ॥४॥

१०

५

भणिउ तेण गुरु दोणु महारउ
तासु पासि मइँ मुणिउ सरासणु
पभणइ दोणु दोणु उवलक्खहि
भासइ भित्तु किं न परियाणमि
गुरुवयणेण तेण दक्खालिय
एण मज्झु उवएसिउ घणुगुणु
पत्ये भणिउ केम पइँ आयहो
कहइ किराउ तिवाहिण देप्पिणु
भणमि महापहु मइँ आसासहि

वेएँ घणुवेएण विसारउ ।
छुरिउ खग्गु गय भ्ररि भ्ररितासणु ।
किं एमेव असच्चउ अक्खहि ।
निच्छउ जइ दावहि तो जाणमि ।
लेप्पपडिम नवमालोमालिय । ५
एहु महारउ सामिउ बहुगुणु ।
सिक्खिउ पासि महीमयकायहो ।
आयहो परमपुज्ज विरएप्पिणु ।
दिट्ठिमुट्ठिसघाणु पयासहि ।

घत्ता—एण कमेण महुँ सयमेव जि आयउ ।
घणु आहीणगुणु कुसलत्तणु जायउ ॥२॥

१०

६

आयन्नेवि एउ किविकते
पेक्खु पुत्त देवा वि हु भत्तहो
त न अत्थि जगि जंनउ भत्तिण
एव भणेवि समुत्तयघोणे
ह सो दोणु तिलोयपसिद्धउ
एउ सुणेवि भत्तिभरनडियउ
हउँ सकियत्थु अज्जु उक्किट्ठउ
इय भणेवि अग्गण थिउ भत्तउ
दिज्जउ गुरुदक्खिण तेणुत्तउ
मग्गिउ दाहिणहत्थं गुट्ठउ
विणयवसेण जेम तहो सिद्धी

भणिउ घणजउ ईसिं हसते ।
होति पसन्न देति वरु सत्तहो ।
पाविज्जइ पयत्थु पहयत्तिण ।
जाणाविउ अप्पाणउ दोणे ।
कुरुपंडवगुरु गुणहिँ समिद्धउ । ५
खीर कयबउ पायहिँ पडियउ ।
ज पच्चक्खु देव तुहुँ दिट्ठउ ।
हेउ सरेप्पिणु गुरुणा वृत्तउ ।
जं मग्गहि तं देमि निरुत्तउ ।
तेण वि दिन्नु घणंजउ तुट्ठउ । १०
चावविज्ज बहुभेयसमिद्धी ।

घत्ता—अन्नाणत्तु तिह पलयहो जाएसइ ।
भोक्खविज्ज मुणिहे निच्छउ सिज्जेसइ ॥६॥

७

अवरु वि अक्खमि भत्तिकहंतरु
 भारहवरिसि विजयविसए पुरु
 अत्थि तम्मि पयवालु नरेसरु
 सुदरोए तहो कत्तए नदण
 सब्बहँ धन्नतरि लह्यारउ
 तहो संगेण सब्बवसणायरु
 चोरियाए बहुवारउ पाविउ
 पत्ता पुणु वि कुडुबे चत्ता

आयन्नह मणु देवि निरंतरु ।
 नामे पुहइतिलउ नं सुरउरु ।
 सूरदत्तु सेट्ठी गब्भेसरु ।
 जणिय सत्त जणनयणानंदण ।
 तहो सुहि बंभणु पाणपियारउ । ५
 हुउ धन्नतरि धम्मि अणायरु ।
 जणणगुणे निवेण मेत्लाविउ ।
 नीसारिय करिउरु संपत्ता ।

घत्ता—तत्थारक्खियहो जमदडहो केरए ।

सठिय वे वि जण पडिवक्खनिवारए ॥७॥

१०

८

न वियाणांति अन्न कम्मंतरु
 साहूपसाएँ ससयचत्तउ
 जाणिवि वयविसेमु अणुराएँ
 जीववहे खणम्मि खचिय मणु
 एकहँ वासरि विन्नि वि रत्तिहे
 हुए अरवसउणि निवारिय गमणए
 गरुयपरत्तिए नियनियगेहहो
 सुविहाणत्थु जणेरिविसेसँ
 सुत्त नियच्छिवि मन्निवि परनरु
 कडिडवि खग्गु जाम किर मारइ

चोरियाए जीवंति निरतरु ।
 विविहावग्गहफलु सपत्तउ ।
 पुणरवि सूरदत्तवणिजाएँ ।
 लइयउ पचपप्पोसरणहो खणु ।
 गय चोरियहे अत्थसपत्तिहे । ५
 थिय नाडउ नियत सुरभवणए ।
 आगय सुहि आवासु सिणेहहो ।
 समउ बहुल्लियाए नरवेसे ।
 कुविउ वीरु धन्नतरि दुद्धरु ।
 विन्नि वि बइवसपुरि पइसारइ । १०

घत्ता—सुमरिवि गुरुवयणु सहसा ओसरिउ ।

सिक्कउ ताम तहिँ असिणा कत्तरियउ ॥८॥

९

भंडुत्तरणि पडेप्पिणु लग्गी
 उट्ठिय सुदरि ताम तुरंती
 तं निसुणेप्पिणु चत्तकसाएँ
 जाउ मसाणहो माणुसु निब्बउ

गुरुसद्देण निद् तहे भग्गी ।
 धन्नतरि चिरु जियउ भणंती ।
 भणिय माय कयपरमविसाएँ ।
 आयउ अज्जु होंतु तुम्हहँ खउ ।

रक्खिउ नवर बएण भणोहरि
 एम भणेवि विहाणि समित्तहो
 बलि किज्जउ दुक्कियसयगारउ
 कि बहुणा तवचरणु लएवउ
 सुणिवि परमसब्भावनिउत्तं
 भो धन्नंतरि मित्त [महा-]मइ

हा महु सव्वु खमेज्जहि सुद्धरि । ५
 जाणाविउ समसुहदुहचित्तहो ।
 निग्घिणु निंदु कम्मु अम्महारउ ।
 मइँ कियदुक्कियकम्मु हणेवउ ।
 वुच्चइ सोमसम्मदियपुत्ते ।
 निच्छउ जा तुह सा मज्झु वि गइ । १०

घत्ता—सुहिणा भणिउ सुहि तो काइँ चिरावहि ।
 भज्ज जणेरि महु धरि घल्लिवि आवहि ॥९॥

१०

ताउ पुरोहियपुत्तु लएप्पिणु
 लग्गा जाम तासु तहिँ वासर
 धम्मसूरि पणवेप्पिणु लइयउ
 आयाराइ सत्थसयपारउ
 भूभूसणगिरिवरि गिरिधीरउ
 एत्तहे ताउ पराणिवि आयउ
 गउ गिरि सुद्धि लहेवि तुरतउ
 थिउ आयावणे नियमियचित्तउ
 मुणि मोणेणच्छइ किम बोल्लइ
 पडिउत्तरु अलहतु नियत्तउ

गउ नियनयरहोँएउ सुणेप्पिणु ।
 तामन्नाणतमोहदिणेसर ।
 तउ सुद्धरिसुएण अइसइयउ ।
 हुउ कइवयदिवसहिँ मइसारउ ।
 अच्छइ तवसखीणसरीरउ । ५
 तहिँ विस्साणुलोमु अणुरायउ ।
 दिट्टउ मुणि तवु तिब्बु तवंतउ ।
 वदिउ सुमराविउ पुव्वुत्तउ ।
 इयरु वि वार वार दुब्बोल्लइ ।
 गिरितलि तवसित्तवोवणु पत्तउ । १०

घत्ता—सयजडितावसहो सहसजडिहे केरउ ।
 हुउ सो सीसु तहिँ मंदमइ असेरउ ॥१०॥

११

तावेत्तहे तहे जोउ समद्धउ
 भणिउ मित्त करि वयणु महारउ
 अच्छिउ हउँ नियमत्थु म रूसहि
 जाम न केम वि बोल्लइ माणिउ
 किउ पइँ केम वि न वि महु वृत्तउ
 एम भणेवि साहु गउ ठाणहो

सुहिसबोहणत्थु तहिँ पत्तउ ।
 सुयहे एउ भवि भवि दुहगारउ ।
 एहप्पउ सुतवेण विहूसहि ।
 संजएण ता पुणरवि भाणिउ ।
 जाणावउ फलु कालि निरुत्तउ । ५
 काले अच्चुयसग्गविमाणहो ।

११. ३ नवि ।

हुउ मरेवि' सुरवरहिँ नविज्जइ
इयर वि पढमकप्पसपसाहणु
नंदीसरजत्ताए नियच्छिउ

भणु जिणधम्मु कासु उवमिज्जइ ।
करि विज्जुप्पहदेवहो वाहणु ।
अच्चुयवइणा चिरकयकुच्छिउ ।

घत्ता—बोलावियउ गउ कयसोक्खविरामहो । १०
पत्त मित्त फलु मिच्छापरिणामहो ॥११॥

१२

ता विस्साणुलोमचर भासइ
मइँ आयम'-जुत्तीए सुहंकर
हुउ तेणेरिमु भो अच्चुयवइ
जइ जमयग्गिपहूइ पसिद्धा
ते तुम्हहँ वि पासि अहिययरा
भणइ सुरेदु ते वि ससयमइ
इयरेणुत्तु अप्पसंभूसणु
इंदें भणिउ सखुवु भणिज्जइ
जइ पत्तियहि न तो दक्खालमि

मिच्छादिट्ठि ससमउ पसंसइ ।
किउ न महाएवहो तउ दुद्धर ।
महु समए वि हु अत्थि महाजइ ।
दुसहँ महातवजोयसमिद्धा ।
होसहिँ सव्वहँ सोक्खजणेरा । ५
तेण तवेण लहेसहि दुग्गइ ।
परनिदणु सप्पुरिसहो दूसणु ।
अम्हारइँ न को वि निदिज्जइ ।
एहि अणिच्छयमलु पक्खालमि ।

घत्ता—एव भणेवि सुर विसहियपंचग्गिहे । १०
गय सामीवे तहो वेत्थि वि जमयग्गिहे ॥१२॥

१३

विहिँ मि परोप्पर सो खब्भालिउ
पेच्छह एउ न याणइ मूढउ
जइ सुय सुहगइ देहँ समत्था
जइ पुत्तेहिँ सुगइ पाविज्जइ
उप्पहम्मि जाणतु वि लगउउ
कल्लाउज्जि कामिरायहो सुय
उप्पन्नउ तहे पुत्तु पियारउ
तामेत्तहे निम्मलसम्मत्ते
भूयदिवसि भुक्खिरसिवसाणए
पडिमाजोएँ निच्चलचित्तउ

पक्खपवंचु करेप्पिणु चालिउ ।
को नदणहिँ सग्गि आरुढउ ।
तो मकुणकिडिसुणहँ समत्था ।
तो तउ दाणु सीलु किं किज्जइ ।
ताण वयणु निसुणेप्पिणु भग्गउ । ५
पत्थिवि तेण विवाहिय रेणुय ।
परसुरामु खत्तियखयगारउ
रायगेहिनयरोवरि जते ।
निसि जिणयासु वणीसु मसाणए ।
आलोएप्पिणु मित्तु पउत्तउ । १०

१२. १ आयस ।

घत्ता—अम्हहँ एहु सुहि साहम्मिउ पेक्खहि ।
दूरए ताम मुणि अच्छतु परिकखहि ॥१३॥

१४

रुसा तेण ताढत्तु घोरोवसग्गो	जलंतग्गिपाहाणधूलीविसग्गो ।	
घण पाणियं भीसणो मेहवाओ	समुच्छयउच्चीहरो चडवाओ ।	
सकंकालवेयालमालाकरालो	पणच्छंतरंडोहरुद्धतरालो ।	
पधावतफारककहक्कारउट्टो	सिवारक्खसीफेरवामुक्कसट्टो ।	
पदीसंतसट्टूलसीहच्छहल्लो	पडंतारिनारायवावल्लभल्लो ।	५
विसप्पंतसप्पोहफुक्कारफारो	पुरागारदाहोयदव्वावहारो ।	
पियापुत्तमित्ताइसीसस्स छेओ	कओ दूसहो एवमाई अणेओ ।	
पर तस्स चित्तं ह्यं नेव वंक्कं	अकप सुरट्टी व होऊण थक्कं ।	

घत्ता—इय निट्टाउलहो पेक्खेवि सो विभिउ ।
इदजालु सरिसु उवसग्गु निसुभिउ ॥१४॥ १०

१५

अच्छयवइणा तो जिणदासहो	तुट्टएण दुक्कम्मविणासहो ।	
करिवि पसस सुरासुरसामिणि	दिन्न विज्ज गयणगणगामिणि ।	
पुज्जिवि वणिवइ जाम पयट्टिहँ	अचमाण नहु कमकदोट्टिहँ ।	
ताम पोमरहराउ ससेन्नउ	सुदरभत्तिभारसपुन्नउ ।	
वासुपुज्जजिणवदणहत्तिए	गच्छमाणु सासयसपत्तिए ।	५
मिहिलानयरु निएप्पिणु' धुत्ते	वुत्तउ मित्तु जिणेसरभत्ते ।	
अज्ज वि कल्लि एहु उवसंतउ	मुणिवयणेण ह्ययउ वयवंतउ ।	
करिवि पइज्ज पुज्ज गंजोल्लिउ	वदहुँ वासुपुज्जजिणु च्ल्लिउ ।	
जइ सक्कहि तो जतु निवारहि	वित्थारिवि पवचु पत्तारहि ।	

घत्ता—तेणुवसग्गु तहो दक्खविउ विचित्तउ ।
नयरदाहपमुहु तो वि हु न नियत्तउ ॥१५॥ १०

१६

ता विस्साणुलोमचरु तुट्टउ	गउ संदेहु [मिच्छ-] मइपुट्टउ ।
साहुक्कारिवि अविचलचित्तहो	जोयणधोस भेवि दिश्रो तहो ।

१५. १ महिलानयरु निहेप्पिणु

अमियपहेण वि सव्वरुयाहरु
 गंपिणु चंपापुरपरमेसरु
 संवेएण लेवि सजमभरु
 दुद्धरु तउ करेवि गउ मोकखहो
 विस्साणलसुरो वि तित्थयरहो
 धम्म सुणेवि गहियसम्मत्तउ

हारु समप्पिउ तासु मणोहरु ।
 पणवेप्पिणु बारहमु जिणेसरु ।
 [निव-] पोमरहु महामुणि गणहरु । ५
 मुक्कउ चउगइभवभमदुक्खहो ।
 पायमूले भुवणत्तयपियरहो ।
 गउ सग्गहो हरिसेणसमित्तउ ।

घत्ता—अविचल भक्ति जसु अवरहो वि हवेसइ ।

सो सिरिचदजसु सासयसुहि होसइ ॥१६॥

१०

विवहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले
 भुवणविदिदणामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिण्णतोसे ।

णि सिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते ।

मुहिसबोहणनामो एयाहियमवीसमो सधी ॥

॥सधि २१॥

संधि २२

१

अस्त्राणी वि य गोवो आराधित्ता मदो नमोक्कार ।

चंपाए सेठिकुले जादो पत्तो य सामन्न ॥ [भ० आ० ७६२]

अस्त्राणी वि य अज्ञानोऽपि च मूर्खोऽपि गोवो गोपाल आराधित्ता आराधयित्वा स्मृत्वा मृतः सन् । किमाराधयित्वा' नमोक्कारं नमो अरहताणमिति नमस्कारम् । चंपाए चम्पानाम्नि पुरे । जात उत्पन्न । क्व ? श्रेष्ठिकुले । पत्तो य प्राप्तश्च सामन्नं यथास्थानं चारित्रमिति । ५

ध्रुवय—तेलोरपईवहो विद्धंसियदुहसणहो ।

पणवेवि जिणदहो अक्खमि चरिउ सुदसणहो ॥

दुवई—अगाजणवयम्मि चपापुरि पवलविवक्खसाहणो ।

अत्थिमहामहीसु सक्को इव नामें धाडिवाहणो ॥

अभयमइ त्ति कत तहो सुदरि	नं अबइन्न का वि सुरसुदरि ।	१०
उसहदासु वणिवइ तहो गेहिणि	अरुहदासि न चदहो रोहिणि ।	
गोवालउ गुणवतु पसिद्धउ	नामे सूहवु विणयसमिद्धउ ।	
एक्कहिं वासरि रुक्खनिरंतरु	गउ सो गाइउ लेवि वणतरु ।	
माहमासि घणतुहिणकणालए	पडिमाजोएँ सभायालए ।	
केसरि कामकरिदवियारणु	दिट्टउ एककु महामुणि चारणु ।	१५
विमिउ एत्थु केम निसि नेसइ	एहउ दूसहु सीउ सहेसइ ।	
धुं चित्तेप्पिणु गउ नियनिलयहो	रयणिहिं निद् तामु गय विलयहो ।	
विभयरसवसु तग्गयचित्तउ	अच्छिउ सो तमेव सुमरतउ ।	

घत्ता—गय कह व विहावरि हुए पहाए तेत्तहे तुरिउ ।

गउ अच्छइ जइवरु जेतहि तुहिणपडावरिउ ॥१॥ २०

२

दुवई—जोउ मुएवि साहु गमणत्थिउ उइए तमोहभक्खणे ।

भणिवि नमोरहंत गयणंगणे गउ उप्पएवि तक्खणे ॥

विभिउ मुणि पेक्खवि गयणि जंतु

नमो अरहंताण एहु मंतु ।

आयासगमणकारणु निरुत्तु

इय चित्तिऊण एयग्गचित्तु ।

सो सव्ववार घोसतु मंतु
 करयलि धरेवि महुरक्खरेण
 सव्वत्थ वि सुय दुक्कियकयंतु
 सिवसोक्खहेउ दुग्गइनिसेहु
 नउ अमुइसरीरे अमुइ देसि
 उवहासु करतहँ होइ दोमु
 जो होइ होउ सो सामि दोमु
 सक्कमि न मुहुत्तु वि मुयहँ ताय

अच्छइ नियनहगइ चित्तवंतु । ५
 एकहँ दिणि वारिउ वणिवरेण ।
 नउ उच्चारिज्जइ परममत्तु ।
 देवाहिदेउ णवयारु एहु ।
 बुच्चइ सुइदेहँ सुइपदेसि ।
 आहासइ आयन्नय विसेसु । १०
 महु एउ मुयत्तहो गरुयसोसु ।
 ता वणिगयहो मुहि नीसरिय वाय ।

घत्ता—जइ सक्कहि मुयहँ न तो मा मेल्लसु खणु वि सुय ।
 तुह एह निरुत्तउ देसइ लच्छि विणासच्चय ॥२॥

३

दुवई—आयहो सुहु अणत्तु कल्लाणु महुच्छउ तुज्झ होसए ।
 माहप्पेण पुव्वकयदुक्कियकम्मविणासु होसए ॥

अहनिमु गोवालउ सभरइ
 एकहँ दिणि महिसिहँ गपि नई
 लहु ताहँ निसेहहँ धावियउ
 मुउ अरहु सरंतु नियाणवसु
 पंचमए मासि हुउ दोहलउ
 सुहदसणु जिणयासिए जणिउ
 सियपक्खससो व पहापसरु
 अक्खरलिबिआइउ निम्मलउ
 आलिगणाइ ह्यजुवइमणा

त एकु मुहुत्तु न वीसरइ ।
 किय उत्तरेवि परखेत्ति रई ।
 सियसूले पाणिए पावियउ । ५
 हुउ सेट्टिहे मुउ उवलद्धजसु ।
 किउ जिणमहिमुच्छवसोहलउ ।
 नामेण सुदसणु सो भणिउ ।
 वडिडउ रूवेण व पचसरु ।
 अब्भसिउ वहत्तरी वि कलउ । १०
 सिक्खिउ चउसट्ठि वि कामगुणा ।

घत्ता—सजाउ जुवाणउ सयलकलालकारधरु ।
 नं महिमवइन्नउ केण वि कज्जे अमरवरु ॥३॥

४

दुवई—तेत्थु जि पुरि पहाणु वणिलोयहो सायरदत्तनामओ ।
 सायरदत्तकत्तु जणवल्लहु अत्थि मणोहिरामओ ॥

पुत्ति रइ व्व अईव मणोरम
 दिन्न सुदंसणासु वरिओसे

जणिय तेण नामेण मणोरम ।
 परिणिय मंगलतूरनिघोसे ।

जाउ सुकंतु पुत्तु तहिँ केहउ
 पुच्छिवि पट्टु निव्वेएँ लइयउ
 दुद्धरु तउ करेवि गउ सग्गहो
 पुन्नवतु सव्वत्थ पसिद्धउ
 तहो सुहि कविलु विप्पु सुहयारउ
 तामु रूवजोव्वणमयगव्विय
 आयन्नेवि सुदंसणकेरउ
 हूय परोक्खरायरंजियमण
 निम्भरपेम्मवसाए वयसिय

रुप्पिणीहे मयरद्धउ जेहउ । ५
 वणिवइ उसहदासु पव्वइयउ ।
 हुयउ सुदंसणु सामि सवग्गहो ।
 जाउ निवच्चिउ रिद्धिसमिद्धिउ ।
 रायपुरोहिउ पाणपियारउ^१ ।
 कंचणवन्न कविल नामें पिय । १०
 सा गुणकित्तणु जणियच्छेरउ ।
 इदियसुह [इच्छइ] सुहदसण ।
 एक्कहि वासरि गय सपेसिय ।

घत्ता—विणएण पउत्तउ ताएँ सुदंसणु कविलु तुह ।

मुहि सुट्ठु न सक्कइ आवहि लहु छणयदसुह ॥४॥ १५

५

दुवई—एउ सुणेवि साहु सुहिवच्छलु अविआणियपवंचओ ।
 उत्ताउलउ तीए सहुँ सुदरु कविलहो मंदिरं गओ ॥

आउच्छिय बभणि एक्कचित्तु
 कविलाए एह विणएण वुत्तु
 आयन्नवि अब्भतरि पइट्ठु
 कविलाए ताम करि धरिउ सेट्ठि
 जीवावहि मइँ पिय एक्कवार
 सुदर परोक्खरायाणुरत्त
 जइ नेच्छिहि तो निच्छउ जि मरणु
 इय भासिवि कामुयकामणाइँ
 सा वणिवरेण गुरु मणु हरति^१

अक्खहि कहि अच्छइ मज्झ मित्तु ।
 सुहि तुम्हहँ अच्छइ मज्झ मित्तु ।
 तहिँ जाम निहालइ परमइट्ठु । ५
 एक्कसि आलिगहि देहि दिट्ठि ।
 सर मयणहो दूसह दुन्निवार ।
 थिय हउँ चिरु पइँ जोयंति मित्त ।
 पइँ मेल्लिवि अन्न न भज्जु सरणु ।
 आलिगणचुवणमम्मणाइँ^१ । १०
 विणिवारिय बहुक्कम्मइँ^१ कुणति ।

घत्ता—सुणु भदे म खिज्जहि थिर होएप्पिणु महु वयणु ।

हउँ सहु निरुत्तउ पर न विआणइ को वि जणु ॥५॥

६

दुवई—आयन्नेवि एउ सहसत्ति विरत्तए ताइँ मुक्कओ ।
 गउ मंदिरु वणिदु हरिणो इव सीहिणिकमहो चुक्कओ ॥

थिय कविल विलवखी होवि तउ
 संतेउरपुरपरिवारसह
 सिबियत्य पुत्तपरिवारजुया
 जोएवि मणोरम मणहरिया
 अमयामहएवि वियक्खणिया
 परमेसरि कि भो सुरजुवई
 छणयंदपहा इव गयणयले
 गच्छइ परमुच्छवेण वणहो

पत्तउ वसंतु कयकामजउ ।
 वणकीलए लीलए चलित पहु ।
 वणिणाहहो गेहिणि चारुभुया । ५
 पच्चक्खसिरो रिब अवरयिया ।
 कविलए पुरोहभज्जए भणिया ।
 सई सक्कहो कामहो नाई रई ।
 उज्जोउ करंति सति सयले ।
 विभउ जणंति सब्वहो जणहो । १०

घत्ता—देवीए पउत्तउ सहि याणदियजणमणहो ।
 पाणाण वि वल्लह गेहिणि एह मुदंसणहो ॥६॥

७

दुवई—एउ सुणेवि भट्टपिय भासइ पइ' कुलविद्धिकारिओ ।
 उप्पायति पुत्तहंडाणि सकुसलत्तेण नारिओ ॥

भणइ देवि हलि एउ म माणहि
 एह महासइ णियभत्तारहो
 अणुगुणवयसिक्खावयधारी
 भणइ कविल सो मई विघ्नासिउ
 पुरिसु न होमि निरुत्तु नउसउ
 भासइ रायपत्ति गुणमडउ
 घुत्ते मिमु लाएप्पिणु खंचिय
 मुद्धि वराइ न कि पि वियक्कहि
 लज्जिय एउ सुणेप्पिणु बभणि
 तहो लभ्गिवि हउं मयणे मारिय

अज्ज वि आयहि सीलु न याणहि ।
 भत्त न वज्ज वि पाडइ जारहो ।
 जिणमुणिदपयपेसणगारी । ५
 तेण वि मज्झ सब्बइयक भासिउ ।
 तेण मज्झ सुयसंभवि ससउ ।
 सो परनारिरमणि परसडउ ।
 तेणज्जय भणेवि तुहुं वचिय ।
 परपुरिसहं मणु लेवि न सक्कहि । १०
 चितइ परनरचित्तनिसुभणि ।
 किय घुत्तेण तेण पत्तारिय ।

घत्ता—इय चित्तेवि अमरिसवसए ताए निववहु भणिय ।
 हउं मुद्ध वराई किर बंभणि अवियक्खणिय ॥७॥

८

दुवई—सक्किउ रमहुं नेव मई सुदरु सुहसुविसुद्धमाणसो ।
 कि पई कामसत्थनिम्मायरम्मपराणियाए सो ॥

भासइ महएवि सुणेवि एउ
हलि अवरहो केरउ गहणु कासु
तो जावज्जीविउ बभचेरु
इय लेवि पइज्ज वणाउ एवि
हक्कारिवि पडिय धाइ ताए
तुहँ धरणि व वेत्तिहँ माय मज्झु
महु एहावत्थ सुदसणेण
जिम जाणहि तेमाणहि ऋडत्ति
धाईए भणिय कलयठसहि
अन्नू वि सो सावउ सुद्धवित्तु

हउँ कबिलि रमावमि कामएउ ।
जइ रममि न भजमि सीलु तासु ।
निच्छउ सहु कामें करमि वेरु । ५
हुय कामगहे विवरीय देवि ।
वुत्तिय मयणाहयमाणसाए ।
मणु पइ समेउ किर कवणु गुज्झु ।
विणु वट्टइ दुल्लहफसणेण ।
महु पाण जमालउ जा न जति । १०
कि भणिउ अजुत्तउ एउ भहि ।
परयारि न करइ कयावि चित्तु ।

घत्ता—वन्न वि परयारहो जो न सुणइ परमत्थरउ ।

कहि किह कामिज्जइ सो सुदरि निद्धयरउ ॥८॥

६

दुवई—वुच्चइ राणियाए मई पुरउ पुरोहपियाहे वुत्तयं ।

माणमि जइ ण सुहउ सो ह्यवहि पइसमि तो निरुत्तय ॥

ता धाइए धीरिय दुम्मणिय
तहो आणेवए मयणत्तिहरु
सो पिउवणे अट्टमिचउदसिहे
तहिँ होतुच्चाइवि भाणवसु
पूरमि पइज्ज परमत्थु तउ
आसासिवि निववहु पडियए
महएवि करेसए पुरिसवउ
तेण वि लहु पुरिसपमाणियउ
पच्छाएवि वत्थें खधि किय
पुच्छिय पडिहारे पढमयरे

सपइज्ज भज्ज रायहो तणिय ।
हलि अत्थि उवाउ एककु पवरु ।
अच्छइ पडिमाजोएँ निसिहे । ५
एत्थाणमि सुयणुवलद्धजसु ।
आयहो परु नत्थि उवाउ तउ ।
गतूण पयावए भणिउ तए ।
करि पडिमउ सत्त अणोवमउ ।
पडिमउ निउणेण समाणियउ । १०
पडिवयदिणि रत्तिए एकक निय ।
पइसंति निरददुवारि वरे ।

घत्ता—कि लेवि पईसहि कहसु ताए ता वयणु कउ ।

ज महु पडिहासइ कि आयए चित्ताए तउ ॥९॥

१०

दुवई—पभणइ वारवालु जं भावइ तं कि लेहु अब्भए ।

जइ जाणइ अजुत्तु पुहईवइ तो अम्हई निसुभए ॥

तो वि न कहइ कोवसिहि वडिडउ
 ता रुद्राए ताए अछ्छोडिय
 बोल्लिउ सीसु तुजभु लेवावमि
 पुरिसव्वउ महएवि वउत्थी
 आयहे पडिमहे पुज्ज करेपिणु
 पभणइ वारवालु भयभीयउ
 भुल्लउ मा जाणावहि रायहो
 एक बहुणा जइवि हु णरु सच्चउ

लेवि तेण पगुरणु नियडिडउ ।
 घल्लिवि पडिम महीयलि फोडिय ।
 रे हयास तिलु तिलु कप्पावमि । ५
 अछ्छइ पड्ड णियति अविस्त्थी ।
 [भोयणु भुजइ पुणु जग्गेपिणु]
 हउं तुह किकरु माइ विणीयउ ।
 एक्क वार खम करहि अणायहो ।
 आणहि तो वि न वारमि सच्चउ । १०

घत्ता—ता ईसि हसेपिणु धुत्तियए भणिउ म करहि भउ ।
 वज्जरमि न रायहो चिरु जीवहि सुहु सभवउ ॥१०॥

११

दुवई—एण कमेण सत्तवारेसु वि सत्त वि दारवालया ।
 करिवि पवंचु ताए साहिय किय नियआणाणुपालया ॥

सव्वत्थ वि सव्व करेवि सुद्धि
 पिउवणि वणिदु समसत्तुमित्तु
 धीरिमए सुरिदायलसमाणु
 उच्चाइवि आणिउ समसहाउ
 न रोसुत्थाणु नराहिवानु
 पल्लंकि चडाविउ मुद्धियाए
 पर तो वि न तहो मणि खोहु जाउ
 कि अछ्छहि इच्छहि सुहय अज्ज
 जइ हउं पिय तुहं पइ एहु भोउ
 दय करहि होहि महु साणुराउ
 वारइ दूसह मयणासिघार

अट्टमदियहम्मि विसुद्धवुद्धि ।
 उववासिउ भाणानिलीणचित्तु ।
 निसि पडिमाजोए अछ्छमाणु । ५
 नावइ अप्पाणहो देसचाउ ।
 अप्पिउ महएविहे न विणामु ।
 किउ सयलु नयणवावारु ताए ।
 थिउ निच्चलु नावइ कट्टकाउ ।
 लइ होहि सामि अणुहुंजि रज्जु । १०
 भणु तो कि किज्जइ देवजोउ ।
 मारमि पच्छन्नु विसेण राउ ।
 पए लग्गए अणुणइ वार वार ।

घत्ता—चुविउ बहुभेयहिं आलिगिउ दरमलिउ ।
 थिउ मेरु व धीरहो तो वि मणा वि न मणु चलिउ ॥११॥ १५

१२

दुवई—पुणु पारदधु ददु जइ नेच्छहि तो सकुडुंबु कल्लए ।
 घल्लावमि हयास पईं सूलए जणियजणोहसल्लए ॥

बहु एवमाइ खबभालियउ
 आयहो उवसग्गहो उव्वरमि
 इय लेवि पइज्ज मणेण थिउ
 तहे खबभालंतिहे अप्पवसी
 अरुणुग्गमि नउ साहारियउ
 थिय मोक्कलकेस विसटुलिया
 निसुणिवि गहियाउहु धाइयउ
 पुच्छिउ परमेसरि काई इउ
 निसुणेवि एउ दुम्मियमणहो
 नेच्छति ह्यासें विट्ठविया

वणि तो वि न भाणहो टालियउ ।
 जइ तो परमत्थे तउ करमि ।
 लेप्पेण नाई केणावि किउ । ५
 आसाए समेउ गया मुनिसी ।
 अप्पउं नहेहिं पवियारियउ ।
 धावह पोक्कारइ भिदुलिया ।
 सहसा परिवारु पराइयउ ।
 हा हा केणेरिसु कम्मु किउ । १०
 सा कहइ रुयंती परियणहो ।
 हउं एहावत्थहो एण निया ।

घत्ता—आयन्नवि राएँ रोसवसेण भयकरहँ ।

आएसु समप्पिउ मारहु एहु सकिकरहँ ॥१२॥

१३

दुवई—नेवि मसाणि साणसिवसकुलि छिदह सीसु आयहो ।

गय किकर तुरतु त लेप्पिणु आएसेण रायहो ॥

एत्तहे वत्त मुणेप्पिणु बोल्लए
 हा हा एउ काई सजायउ
 कि मज्जायए वज्जिउ सायरु
 कि संचल्लु सुरायलु ठाणहो
 कि गयणगणु गउ पायालहो ।
 कि ससारिउ हूउ विमुक्कउ
 खीणकसाउ कसायहो दुक्कउ
 कि सजायउ मरणु कयतहो
 अह कहमवि एउ वि संपज्जइ
 एम जाम जणु सयलु विसूरइ
 तावइ सारिउ तेहिं जि सुलउ

थामि थामि जणु धाहउ मेल्लए ।
 आयहो दूसणु केम समायउ ।
 कि पच्छिमि उग्गमिउ दिवायरु । ५
 [.....]
 कि जणु भग्गु कामसरजालहो
 कि ससारिउ कालहो चुक्कउ ।
 दतउ कप्परुक्खु कि थक्कउ ।
 हा हा कि गउ अमिउ विसत्तहो । १०
 एयहो एउ न संभावज्जइ ।
 सधइ' विहि अंगुलियउ तूरइ ।
 हरिविट्ठरु ता जाउ अमूलउ ।

घत्ता—तामेत्तहे पिउवणु नेवि तेहिं निट्ठुरकरहि ।

असिलट्ठि पभेम्लिय तहो गीवहो निवकिंकरहि ॥१३॥ १५

१४

दुवई—लग्गिवि पंचवन्न रलकंदलि ह्य पसूणमालिया ।
वरपरिमलमिलतमहुयरउलगुमुगुमुरववमालिया ॥

किउ नहयलि देवहिं साहुकारु	कोणाहयदुदुहिसद्भारु ।	
विरइउ पुज्जेविणु पाडिहेरु	दिन्नउ मणिककणु हारु दोरु ।	
तं पेक्खिवि अइविभयमणेण	मन्नाविउ राएँ परियणेण ।	५
पर तो वि न अचिच्छउ पावमुक्कु	विमलासयमुणिसामीवि दुक्कु ।	
तहो पय पणवेवि महाणुभाउ	जइ जाउ करेप्पिणु सव्वचाउ ।	
एत्तहिं देवीए सुणेवि वत्त	भीयए गलिपासए पाण चत्त ।	
हुय रक्खसि पाडलिउरमसाणि	घाई वि ताहे पाणावसाणि ।	
मग्गणगणदिन्नसुवन्ननियरु	नासेवि समागय कुमुमनयरु ।	१०
तहिं देवयत्तनामालियाहे	थिय गणियहे गेहि गुणालियाहे ।	

घत्ता—नीसेमु पयासिउ नियवित्तु विलासिणिहि ।
जाणिवि गुण गउरउ किउ ताए वि सुहासिणिहि ॥१४॥

१५

दुवई—वसइ सुहेण जाम गुणमंडिय पडिय ताम पत्तओ ।
बहुदियहेहिं साहु विहरतउ सो तवखीणगत्तओ ॥

गोउरि पइसंतु निहालियउ	पडियए सीसु सचालियउ ।	
सो एहु सुदसणु सुयणयुउ	जमु लग्गिवि महु आगमणु हुउ ।	
तं निमुणिवि देवयत्त भणइ	न कविल महएवि कि पि मुणइ ।	५
परचित्तु लएवउ गरुयगई	लइ पेक्खहि पडिए चारुमई ।	
मणु खोहमि आयहो मुणिवरहो	आणाकरु करमि पचसरहो ।	
इय भणेवि खडाएवि आणियउ	घरवारु देवि सदाणिउ ।	
मुणि तिन्नि दियह ख्खभालियउ	पर तो वि मणा वि न चालियउ ।	
थिउ होवि धीरु न कट्टमउ	पाहणमउ नावइ लेप्पमउ ।	१०
होएवि विलक्खए मेल्लियउ	निसि ताए मसाणए घल्लियउ ।	

घत्ता—तहिं साहु समजसु सव्वाहारचाउ करिवि ।
थिउ पडिमाजोएँ मेरु व मुक्कभाणु धरिवि ॥१५॥

१६

दुवई—तत्थ वि वितरीण पुब्बिल्लण घोरुवसम्पु साहुणा ।
वइरवसेण रइउ मुणिवासर सहिउ पलंबवाहुणा ॥

किउ विसमघाइकम्मावसाणु	उप्पाइउ केवलु विमलनाणु ।
तइल्लोयल्लोयसंखोहु जाउ	सहसागउ सामरु देवराउ ।
भवणामरपरिमिउ उरयराउ	जय देव भणतउ णरनिहाउ । ५
थुउ तेहिं भरेण तिल्लोयराउ	तुहुं देवदेउ पहु वीयराउ ।
मणिमउ पोमासणु एक्कच्छत्तु	सजाउ चउरचउराणणत्तु ।
सामन्न दुवालसगण सहाण	उवविट्टु सव्व नियनियण ठाण ।
परमेसरेण नीसेसु वत्थु	अक्खिउ वरवाणिण तिहुवणत्थु ।
आयत्तिवि धम्मु मणोहरीण	गणियाण सविउसिण वितरीए । १०
सम्मत्तु लइ [—उ वरसुहनिहाणु	मुणिणा पुणु पाविउ] परमठाणु ।

पत्ता—सिरिचदजमुज्जलु अवरु वि जिणनवयारपरु ।

होसइ भुवणत्तयगुरु परमेसरु सिद्धिवरु ॥१६॥

तथा चोक्तम्—साव्येनापि नमस्कार यः करोति जिनेश्वरे ।

स निस्तरति ससार कि पुनः परमार्थतः ॥ १५

विवहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले ॥
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसंजुत्ते ।

नाम सुदसणचरिय सग्गो वावीसमो एसो ॥

॥सधि २२॥

संधि २३

१

जइ दा खडसिलोगेहि यमो मरणादु फेडिदो राया * ।

पत्तो य सुसामन्न कि पुण जिणवुत्तसुत्तेण ॥ [भ० आ० ७७५]

जइ वा यदि तावत्खडसिलोगेहि शास्त्राप्रतिबद्धश्लोकेलक्षणविरहितैर्वा यमो नाम्ना मुनिभंरात् फेडिदो भवनीत उद्धरितः । राया राजपि । प्राप्तश्च सुसामन्नं शोभनचारित्र कि पुन नं मुच्यते मुच्यत एव । कि पृच्छायां शङ्काया च वर्तते । जिणवुत्तसुत्तेण सर्वज्ञोक्तसूत्रेणागमेन । ५ इदानी यममुनेराख्यान कथ्यते ।

धुवय—नाणवओगहो कहमि फलु पणवेवि जिणिदहो ।

जिह अन्नाणु विणासु गउ यमरायमुणिदहो ॥

अत्थि उट्टुविसए विसालए	धम्म नाम नयरे सुहालए ।	
यमु नरिदु महएवि घणवई	पुत्तु ताहे खर नामु दुम्मई ।	१०
चारुव्व सोहगखोणिया	सुय सलक्खणा नाम कोणिया ।	
भूयभव्वभववत्थुजाणिणा	विहिउ ताहे आएसु णाणिणा ।	
जो इमाहे वरइत्तु होसए	सो समग्ग महि एह लेसए ।	
सा भएण निहुयं सुहाविया	भूमिगेहि पट्टणा थवाविया ।	
एक्कदियहे कम्मारिमारओ	तहिं सुधम्मु नामे भडारओ ।	१५
महि भमतु भव्वयणसंथुओ	आउ साहु सधेण सजुओ ।	
त नमसिउ सब्वजणवओ	सुणिवि भत्तिवसु उववण गओ ।	
इट्टकज्जमन्नाणुराइणा	सठिएण धवलहरि राइणा ।	
जतु जणु विहूइए नियच्छिओ	मति दीहु नामेण पुच्छिओ ।	
कहइ मति सुहभावनिग्गया	सामि नग्गसवणा समागया ।	२०
नवहूँ एहु पय ताहँ भत्तओ	जाइ लोउ वणु कयपयत्तओ ।	

घत्ता—सुणिवि एउ मिच्छासमयमयमत्तउ पत्थिउ ।

निदमाणु गुणिसवणगुणु गउ तहिं वायत्थिउ ॥१॥

२

मुणिमाहप्पेण विणट्ठु नाणु	हुउ मुखु निरक्खरु नरपहाणु ।
थिउ मूउ नाई वयणु वि न एइ	बोल्लतहँ उत्तर काई देइ ।

१. १ यदि दा खंडसिलोगेहि यमो मरणदुष्पडिदो राया ।

२ शास्त्राप्रतिबद्ध ।

निसुणिवि मुणिवयणुवसंतभाउ
पंचहिं सएहिं नियनदणेहिं
उत्तमखमदमतवखीणगत
अक्खरु पउ सयलु वि संघु देइ
निदइ अप्पाणउ विगयगव्वु
अवियाणिय आयमसत्थभेउ
किं संघमज्झि अच्छमि निरुत्तु
इय चितिवि पुच्छिवि गुरु सुधम्मु

गद्दहो देवि सिरि सुयहो राउ ।
पव्वइउ समउ साहियमणेहिं ।
सयल वि सयलागमपारु पत्त । ५
पर यमनिवरिसिहिं न कि पि एइ ।
बलि किज्जउ मुक्खहो जीवियव्वु ।
कि किज्जइ संजउ निव्विवेउ ।
वरि वच्चमि पेच्छमि जइणतित्थु ।
गउ पुव्वएसि जिणतित्थरम्मु । १०

घत्ता—खरसंजमियए रहे चडिउ जवखेत्तमियारए ।

जंतु नियच्छिउ एककु जणु पहे दूसचारए ॥२॥

३

पेच्छिवि जव खाहुं समीहमाण
खर कुट्टिज्जंत निएवि तेण

रहु एतहिं उत्तहिं कइद्दमाण ।
किउ खंडसिलोउ तवोहणेण ।

आयड्ढध परियड्ढध पुणो वि समयड्ढध ।

लक्खिदो दे मया भावो जवं पत्थेह गद्दहा ॥

एण जि सो सज्जायाइयाउ
पुणु पुरपवेसि लिकरुय दिट्ठ
त नियइ साहु ते नउ नियति
ता मुणिणा वरु विरइउ सिलोउ

किरियाउ करइ सुहदाइयाउ । ५
खेलंतहं अड्डिय ताहं नट्ठु ।
धावति जाम अन्ने सयति ।
हुउ नाणावरणहो कि वि लोउ ।

आधावध परिधावध पुणो वि समधावध ।

तुम्हेत्थ मंदबुद्धी छिदं पस्सह कोणियं ॥

१०

पुणरवि वियालवेलाए भेउ
कयजत्थत्थमियतिकालएण

नीसरिउ निहालिवि चरणहेउ ।
किउ अवरु सिलोउ दयालएण ।

उप्पलणालसीदलंगो मा हिडसु वियाले ।

अम्हादो नत्थि भयं दीहादो दिस्सदे भयं ॥

अन्नत्थगएण निएवि क्वि
कोड्ढे पणिहारिउ पुच्छियाउ
जुवईहिं कहिउ भयव इमाउ
निसुणेवि एउ विभियमणेण

गड्डाउ सिलहे गामहो समीवि । १५
केणेमउ गड्डुलियउ कियाउ ।
कलसेहिं थविज्जतहिं कयाउ ।
किय गाह खणदं मुणिवरेण ।

अच्छंतस्स य गच्छतएण अदिकक्कडस्स मउएण ।
भिन्नो सो पाहाणो निच्चं जुत्तेण घडएण ॥

२०

घत्ता—कि परमत्थे मज्झु मणु पत्थरह वि निट्ठुरु ।
जेणेक्कल्लउ परिभममि मेल्लेप्पिणु नियगुरु ॥३॥

४

इय चित्तिवि गुरुसामीवु जतु
थिउ नदणवणि ह्यु लोयजत्त
एयति नरिदहो कहिउ कज्जु
जइ जाउ दियबरु करिवि चाउ
पुणरवि खलेण पावप्पिण
जामज्ज वि सामि न करइ भेउ
इय भणिवि वे वि करवालहत्य
तावहि सज्झाउ लयंतएण
आयड्ढघाइ सयलु वि सिलोउ

दियहेहिं साहु नियनयर पत्तु ।
आसकिउ मति सुणेवि वत्त ।
तउ ताउ पुणागउ करहुं रज्जु ।
निप्पिहु तो कि कारणु इहाउ ।
दीहेण भणिउ कि जपिण ॥ ५
मारिज्जइ ता किज्जइ न खेउ ।
गय रयणिहिं थिय पच्छन्न तत्थ ।
उच्चारिउ पावकयतएण ।
निसुणेवि भणइ कयसत्तुसोउ ।

घत्ता—दीह वियाणिय मुणिवरेण अम्हइ एत्थाया ।
किह मारेवउ इय भणेवि सकिय सजाया ॥४॥

१०

५

वइरि वि पुन्नेहिं विमोहु जाइ
सहुं दीहे चविउ सुणेवि राउ
कोणिय महु बहिणि जगेक्कमित्तु
उप्पलणालाइ भयावसाणु
चित्तइ जाणेमि सया वि एहु
एहण वि अवत्थण पुत्तनेहु
पेच्छह भयवतु तिलोयवंदु
परु सुग्गहिन्नो वि न होइ अप्पु

पुणु अवरु पढिउ आधावघाइ ।
पई भणिउ ताउ रज्जत्थु आउ ।
तामायउ जाणावणनिमित्तु ।
मुणिभणिउ सुणेप्पिणु नरपहाणु ।
पाविट्ठु मति अवयारगेहु । ५
भावेप्पिणु दूरुज्जिभयसिणेहु ।
सिक्खवहुं समागउ मई मुणिउ ।
वरि निग्गुणी वि सुहि मायवप्पु ।

उक्तं च—उपकारशतेनापि गृह्यते न परः क्वचित् ।
सुगृहीतः सुमान्यो वा यः परः पर एव सः ॥

१०

अफलस्यापि वृक्षस्य छाया भवति शीतला ।
निर्गुणोऽपि वर बधुर्यः परः पर एव स ॥

इय भणिवि खमाविउ पहयमारु
सावयवउ लेवि नवेवि साहु

आयन्निवि [धम्मु] ग्रहिससारु ।
गउ घरहो अराइमियंकराहु ।

घत्ता—दुट्ठु भणेप्पिणु रायण्ण वित्थारेवि दीहउ । १५
नीसारिउ पावइ दुहईं अवरो वि दुरीहउ ॥५॥

६

ता मुणि तहिं होंतउ गउ ससघु
सुंदरमइ दुद्धरु तउ करंतु
कोट्टाइ चउव्विह सिद्ध बुद्धि
अणिमाइय अट्टपयार रिद्धि
जल जघ तनु फल पुप्फ वीय
चारणरिद्धीउ इमाउ तामु
खेलोसहिआइउ ओसहीउ
अमयासवाइ रसलद्धियाउ
मणवयणकायबलु तिविहु जाउ
इय रिद्धिविराइउ केवलक्खु
फणिनरसुरिदचंदत्थएहिं

गुरु दिट्ठु नमंसिउ गुणमहग्घु ।
कालेण हूउ वहुरिद्धिवतु ।
उग्गतवाइ पंचविह सिद्धि ।
तहू चैव विउव्वण कयपसिद्धि । ५
आयाससेदि अवरट्ट वीय ।
सिद्धाउ समासियसंजमामु ।
पच वि हुयाउ नावइ सहीउ ।
चत्तारि वि जइणा लद्धियाउ ।
आहारवसइ अक्खीणदाउ ।
उप्पाण्वि नाणु तिलोयलक्खु । १०
पचहिं सएहिं संजुउ सुएहिं ।

घत्ता—मोक्खु कुमारगिरिदे गउ जमराउ महामुणि ।
अजारामरु वाहारहिउ हूउ अट्टमहागुणि ॥६॥

७

दढसुप्पो सूलहदो पचनमोक्कारभेत्तमुदनाणो ।
उवउत्तो कालगदो देवो जादो महइद्धीओ ॥ [भ० आ० ७७६]

तथा—उज्जयिन्या दृढसूंपनामा चौरः शूलेन भिन्नाङ्गोऽपि पंचनमस्कारमाश्रुतज्ञाने
उपयुक्तः मृतः सन् महान् देवो जात इति तात्पर्यः ।

होंतउ उज्जेणिहे जणमणोज्जि
विज्जजणसिद्धु पयंडधामु
सा एककहिं दिणि रयणिहिं मणिट्ट
पुच्छिय कि कारणु दुम्मणासि
सा भणइ रमण गयवरगईहे

दढसुप्पु चोरु घणवालरज्जि । ५
गणियावसतसेणाहिरामु ।
चित्ताविय दुम्मण तेण दिट्टु ।
कहि कति कंति सोहग्गरासि ।
जइ लहमि हारु वरु घणवईहे ।

तो होइ सुहृत्थी जीवियव्हु
थिरु षाहि भदि मा करहि खेउ
इय भणिवि गंपि निसि तहिँ पइट्ठु
तेएण तासु दिट्ठउ विरुट्ठु

[न तो महु मरणु विजाणियव्हु ।] १०
एमहि जि ण माणमि नत्थि खेउ ।
महएविहे हारु लएवि नट्ठु ।
उद्धाइउ तलवरबलु निरुद्धु ।

घत्ता—बद्धु धरेप्पिणु चउदिसउ भामेवि विहाणए ।

घित्तु जियतिहे सूलियहे पुहईवइआणए ॥७॥ १५

८

एत्यतरि बंदिवि जिणवरिदु
बोलाविउ जयविकखायनाम
तुहुँ सुयणु सव्वजीवोवयारि
हउँ मुट्ठु तिसाइउ पाणिएण
आलोएवि कंठालग्गपाणु
भो बारहवरिसहिँ गुरु पसन्नु
सो दुल्लहु पाणियहेउ भाइ
जइ धरहिँ एककतो तुहुँ मुहुत्तु
चोरेण भणिउ दे होउ एउ
ता वणिवरेण तहो भवभयत

तेणित्तु निहालिउ वणिवरिदु ।
अहो अहो धणयत्त मणोहिराम ।
जिणवयणविसारउ सोलधारि ।
आसासहि तुरिउ पराणिएण ।
भासइ हियत्थु वणि जणपहाणु । ५
तेणज्जु एककु महु मत्तु दिन्नु ।
जतहो महु लहु वीसरिवि जाइ ।
तो आणमि पायमि पउ निरुत्तु ।
जा जाहि मित्त कि करहि खेउ ।
उवइहु पचनवयारमत । १०

घत्ता—गउ धणयत्तु निहेलणहो इयरु वि सुरलोयहो ।

सुमरिवि पच पयक्खरइँ मुक्कउ दुहसोयहो ॥८॥

९

सोहम्मि महिद्धिउ देउ जाउ
ता सलिलु लेवि धणयत्तु पत्तु
गउ जिणभवणहो एत्तहे चरेहिँ
लूसहुँ वणिमदिरु पहिय भिच्च
ता आसणकपेँ मुणिवि हेउ
थंभिय थिय धरि पइसत पत्ति
वियल बलु पाण लएवि नट्ठु
तहिँ रक्खु रक्खु भासतु सरणु
उवसमिउ रोसु दरिसिउ सरूवु
वं पेच्छिवि पुहईवइ ससेट्ठि
सो भयभीयहिँ विंभियमणेहिँ

पेच्छह जिणिदधम्महो पहाउ ।
कुमुमालु निएप्पिणु पाणचत्तु ।
रोसिउ पहु सूइयवइयरेहिँ ।
धाविय निववयणे न दइच्च ।
सपत्तु तुरिउ दढसुप्पदेउ । ५
किउ धोरुवसग्गु नरिदु भक्ति ।
गपिणु जिणिदमदिरु पइट्ठु ।
पइसरिउ वणीसहो पुहइघरणु ।
पुज्जिउ वणि देवेँ हयविरूवु ।
हुउ सजउ अवरु वि जणु सुदिट्ठि । १०
सूलत्थु जेण पुज्जिउ जणेहिँ ।

घत्ता—तेण देउ तप्पहुइ हुउ सूलेसरनामउ ।

अज्ज वि तेत्थच्छइ पयडु जणविहियपणामउ ॥९॥

१०

अवरेरिसमूलहयस्स कहा
महुराउरि उत्तरि अत्थि वरो
उदिदोयदेविए तामु सुउ
निवमति पसिध्दु सुबुद्धि जए
पढमिल्ल पिया तहो मित्तसिरो
तरलच्छ तइज्जिय विण्हूसिरो
पउमाइलया तह हेमलया
पवरोसहमतविहाणपरो
निवसतहँ सव्वहँ ताहँ तहि

निमुणेज्जउ लोयवियारसहा ।
उदिदोयनामु धरत्तिधरो ।
मुदिदोदउ जाउ पलबभूउ ।
अरुहाई दामु वणीसु पए ।
अदुइज्ज दुइज्जिय खडसिरो । ५
सइ चारु चउत्थिय नायसिरो ।
खणरोइलया वर कुदलया ।
कयसाहसु चोरु सुवन्नखुरो ।
पभणति व णासहि पाव कहि । [त्रोटक]

घत्ता—आगय कोमुदजत्त जिणमहिमुच्छवसारी ।

१०

कत्तियसुक्कट्टिमिहि दिणि भव्वयणपियारी ॥१०॥

११

गय सत्त दियह धम्मच्छवेण
देवाविय घोसण पुरवरम्मि
उज्जाणवणहो जुवईउ जतु
जाएसइ जो महिलाण मज्झु
पुहुईसरेण जं भणिउ जेम
नारीउ निवाणण रत्थियाउ
नियनिययविणोयहिँ कोलमाण
सूरेण वि किउ निववयणु रत्ति
पेसिय समुद्वेलावणामु

पुन्निमदिणम्मि धरणीधवेण ।
नियसोहाणदियसुरवरम्मि ।
नयरब्भतरि नर सव्व ठतु ।
सो दोहउ निच्छउ मरइ सज्जु' ।
सव्वेहिँ मि त किउ सव्वु तेम । ५
उज्जाणि गवि कीलण थियाउ ।
थिय नर नयरतरि सावहाण ।
आसन्न निएप्पिणु निययवित्ति ।
अत्थहरि कियउ अण्णु निवासु ।

घत्ता—निप्पहु हुँ पई परिहविउ बहुवारउ दिणयर ।

१०

एवहिँ कहिँ महु जाहि खल थिरु थाहि तमोहर ॥११॥

तहिँ एवड्ड वार हउँ अचिछउ
एत्थंतरि आयसइ भूवइ

कहि केरिसु निवेण पुणु पुचिछउ ।
हसकहाणउ कहइ महामइ ।

तद्यथा—दीहकाल वय वुत्था पादवे निरुवद्वे ।
मूलादो उट्टिदा वल्ली जादं सरणदो भय ॥

१०

घत्ता—सप्पुरिसु व सउणासियउ सरतडि वित्थियउ ।
एक्कु गहणि उत्तुगतरु अत्थि रवन्नउ ॥१६॥

१७

तहिँ निवसति मराल सुहालग्र
नियवि लयकुरु भासिउ वुड्डे
अहो उवएसु महारउ किज्जउ
नं तो एण ह्वेसइ आवइ
बुड्डु सहावे मरणहो वीहइ
एउ सडिभहँ वयणु सुणोप्पिणु
मुक्खु हिओवएसु ण वि बुज्जइ
वड्डिय वेल्लि ताहँ नं दुक्खहो
ताग्र चडेवि पसारियवाहे
सयल वि बद्धा थेरोवाए

कालकमेण विणिग्गउ मूलग्र ।
पुत्तपउत्ताहि अत्थविड्डे ।
एहु चंचुनहरेहिँ खणिज्जउ ।
ताम तेहिँ उवहसिउ महामइ ।
सयलकाल जीवहुँ जि समीहइ । ५
रायहसु थिउ भोगु करेप्पिणु ।
पच्चेल्लिउ तामुवरि विरुज्जइ ।
काले उवरि चडती रुक्खहो ।
उट्टिय पास निरतर वाहे ।
मेल्लिय न वि मेल्लिय जमराए । १०

उक्तं च—वृद्धवाक्य सदा कृत्य ये च वृद्धा बहुश्रुताः ।
पश्य हसा वने बद्धा वृद्धवाक्येन मोचिताः ॥

घत्ता—एउ कहेवि णराहिवहो गउ भवणहो तलवरु ।
वीयग्र दियहे पुणाइयउ परियाणेवि अवसरु ॥१७॥

१८

पुचिछउ राएँ चोरखयकरु
दिट्ठु न कहिउ तेण महिपालहो

रे जमपास पलो-[इउ] तक्करु ।
अचिछउ वयणु सुणंतु कुलालहो ।

तद् यथा—जेण भिक्खं बलिं देमि जेण पोसेमि अण्णयं ।
तेण मे पट्टिया भग्गा जाद सरणदो भय ॥

पढिउ सिलोउ एहु ता केण वि
जीवमि हउँ सुहि मट्ठियपिडे

पुचिछउ कहिउ सदुक्खेँ तेण वि । ५
तेण जि महु हय पट्टि पयंहेँ ।

कहवि एउ कुभारकहाणउ
तइयउ वासरु अवरु कहंतरु
पहु वरधम्मु अतिथि वरसत्तिहे
सो कयाइ सामतसहायउ
पइसंतहो परमुच्छवसोहणे

गउ भडु घरहो तलारपहाणउ ।
कहइ सुबुद्धि सुणइ पुहईसरु ।
नयरिहे निरुवमसुहसपत्तिहे ।
साहेवि सत्तु महाबलु आयउ । १०
पट्टणे देवाण वि मणमोहणे ।

घत्ता—पडिय पआलि नियत्तु ष्टु अवसउणु भणेप्पिणु ।
चित्तावन्नु ससेन्नु बहि थिउ आवासेप्पिणु ॥१८॥

१९

उट्टाविज्जणु गोउरु वासरे
पुच्छिउ ताम महतउ राए
त सुणेवि जयदेवे वुच्चइ
जइ सई हत्ये माणुसु मारहि
तो उट्टए पउलि परमेसर
भणइ राउ मई एउ न किज्जइ
तुम्हई तुण्हक्का पहु अच्छह
एम भणेप्पिणु धणु भेलाविउ
देइ अम्ह जो माणुसु मारहुँ

निवडणु पुणु अत्यमियदिणेसरे ।
कहि केमुट्टइ पवलि उवाए ।
भणमि नाह जइ तुम्हई रुच्चइ ।
जइ तहो रत्ते बलि वित्यारहि ।
जाणमि कउलनएण नरेसर । ५
ता पट्टणजणेण वोत्तिज्जइ ।
अम्हे करेसहुँ चोज्जु नियच्छह ।
विउलो पुरे पडहउ देवाविउ ।
दिज्जइ लक्खु तामु दीणारहु ।

घत्ता—निहउ तेत्थु जे पुरे गरुयलोहाहयचित्तउ । १०
बंभणु ढक्कु एक्कु वसइ नामे वरदत्तउ ॥१९॥

२०

तहो वरदत्ता भाविणिया
सिवदत्ताइ य चत्तरया
सा घोसण तिट्ठाधरहो
देप्पिणु नदणु एक्कु पहु
तं निसुणेप्पिणु पावपिउ
औवंताणं अम्ह वरो
जाहि जाहि मा करहि खणु
सा गंतूण सब्बलहुओ
साए ह्यएण गुणअहिओ

ढक्किणि सा वि हु पाविणिया ।
नदण सत्त पसूय तथा ।
कहिउ सुणेवि एवि वरहो ।
लेहु दिणारलक्खु दुलहु ।
जपइ समउं पियाइ पिउ । ५
होसइ सुयणु सुओ अवरो ।
आवहि तं गहिऊण घणु ।
इंदत्तु नामेण सुओ ।
देवि दिणारलक्खु गहिओ ।

निच्छउ.पई देवउ गरलू भजेवउ ताएण गलू । १०
करिवि विवत्थ दिन्नधर्णाहि सो संगहिउ पउरजणहि ।

घत्ता—लौयसहासहिं वेडियउ मारहुं नियतउ ।
पवलिहे अहिमुहु भयरहिउ सिमु जाइ हसतउ ॥२०॥

२१

केण वि करुणाए नियच्छियउ पुरिसेण वडुउ सो पुच्छियउ ।
मारहुं निज्जतउ पुत्त तुहुं कि कारणु करहि पसभु मुहु ।
तेणुत्तु बालु वप्पहो डरिउ सुहि होइ जणेरिहे अणुसरिउ ।
दोहें वि भएण नरवइ सरणु तामु वि भउ रक्खइ पउरयणु ।
सुणु सुयण काई तहिं करइ सिमु जहिं देइ माय सयमेव विमु । ५
भजइ जणेरु कोमलु गलउ पुरलोउ वि हणइ सराउलउ ।
तहिं कामु कहिज्जइ को सरणु तो वरि धीरत्तणेण मरणु ।

उक्तं च—जस्स य पिदा गलय वलेदि मादा विस देदि ।
राया जत्थ विलुपदि क सरण तेण गतव्व ॥

निसुणेवि एउ करुणामइणा मेल्लाविउ बालउ भूवइणा । १०

घत्ता—देवहिं साहुवकारु किउ सिरिचदजसुज्जलु ।
पुज्जिउ सामि समिद्धिउ गौउरु हुउ निच्चलु ॥२१॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । लसियवयणमाले अत्थसदोहसाले ॥
भूवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह ललु कहकोसे मुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते एत्थ कोमुइकहाए ।
तलवरकहाहियारे एसो तेवीसमो सधि ॥

॥ सधि २३ ॥

संधि २४

१

पुणु वि सहाभवणि भडु सुमइ तलारपहाणउ ।
अक्खइ सामियहो चोत्थए दिणि अवरु अहाणउ ॥

तद् यथा—सव्व विस जहि सलिल सव्वारअं च कूडसछन्न ।
राया य सयं वाहो तत्थ मयाण कुदो वासो ॥

पंचमि वासरि अवरु कहाणउ	कहइ वीरु आयन्नइ राणउ ।	५
पाडलउरि वसुपालणरेसरु	तहो चित्तकइ णामु मतीसरु ।	
नाणासत्थपुराणवियाणउ	सिग्घकइ त्ति भणेवि पहाणउ ।	
तेण कयाइ कइतहो मच्छरु	दाविउ कुविउ पुहइपरमेसरु ।	
बधिवि गगादहे घल्लाविउ	सलिलि वहतु सतु बोल्लाविउ ।	
भणि एवहिं भो किचि सुहासिउ	बुडु तेण वि तेणाहासिउ ।	१०

तद् यथा—जेण बीया परोहति जेण सिप्पति पादवा ।
तरस मज्झि मरिस्सामि जादं सरणदो भय ॥

सुणिवि एउ णरवइ परिओसिउ	कड्डिउ जलहो मति सतोसिउ ।	
छट्टुए दिणि पुणु कहइ सयाणउ	पहु सुभद्धु कुमुमउरि पहाणउ ।	
एक्कहिं वासरि अवरसरि नवियउ	अहियारियनरेण विन्नवियउ ।	१५
आरामहो मरुहो अयसघहो	रक्खण के किज्जहि पहु सघहो ।	
वयणु मुणेवि एउ तहो केरउ	भणिउ नराहिवेण विवरेउ ।	
तद् यथा—आरामरक्खया मक्कडा सुरारक्खया	सोडा अयरक्खया वया ।	
मूलविणट्ठु एउ तेणुत्तउ	कज्जु वियाणहि देव निरुत्तउ ।	

घत्ता—सत्तमदियहे पुणु सामंतमतिसघायहो । २०
मज्झि नवेवि पय जमपासु पयासइ रायहो ॥१॥

२

उज्जेणीपुरम्मि जसभट्टउ
नियमायरिहि समप्पिावि भज्जउ

नामें सत्थवाहु जसभट्टउ ।
चलिउ वणिज्जउ सत्थसहेज्जउ ।

आवासिउ सुहदिणे बहियत्तिहं	पुणु कज्जेणागउ घरु रत्तिहे ।	
पइसंते पगुरणउ जणेरिहे	आलोएवि मूलि बायारिहे ।	
तं दक्खालिवि सुदरवत्तहं	पाणपियहं तेणग्ग कतह ।	५

मूलविणट्टा वल्ली ज जाणह तं करेह सुण्हाउ ।
अबाए पगुरण दिट्ठ एरंडमूलम्मि ॥

एउ सुणतु नाह हउं अच्चिउ	चाहिउ चोरु न कहिंमि नियच्छिउ ।	
आयन्नेवि राउ आरुट्टउ	भणइ हयासु सहावे डुट्टउ ।	
छ हिण एवमेव पइं पाविय	अलियकहाणएहि वोलाविय ।	१०
अज्जावहि दिणु दावहि तक्करु	न तो करमि दास सयसक्करु ।	

घत्ता—तेण सुणेवि इउ जाणिवि पट्टु दुक्कु नियाणहो ।
घित्तहं ताइं लहु आणेवि मज्झि अत्थाणहो ॥२॥

३

दिट्ठु चोरु सयलहं वि पयासिउ	जमपासेण पुणो इउ भासिउ ।
जत्थ राया सय चोरो समच्चो सपुरोहिदो ।	
वण तच्चाहु सव्वे वि जाद सरणदो भय ॥	

मणिमयपाउयाउ पुहईसहो	नहरुत्तिउ निएवि मतीसहो ।	
जम्भोवइउ पुरोहह करउ	लोयहो चित्तु जाउ विवरेरउ ।	५
सुयणु सुलक्खणु सुइ उवयारउ	अज्जु अकज्जु एहु खलियारउ ।	
कल्लइ अम्हहं सतावेसइ	निव्विबेउ महिवइ मारेसइ ।	
एम भणेप्पिणु विविहवियारं	पेल्लिउ पुहईवइ परिवारं ।	
सपुरोहिउ ससति नीसारिउ	पुणु जुवराउ रज्जि वइसारिउ ।	
मंतिपुत्तु मत्तित्तिण थवियउ	अवरु वि रज्जकज्जु परिठवियउ ।	१०
कियउ पुरोहु पुरोहियजायउ	सयलु वि लोउ निराउलु जायउ ।	

घत्ता—एउ सुणेवि पट्टु मज्जायाभंगु न किज्जइ ।
भग्गहं ताइं फुडु तारिस अवत्थ पाविज्जइ ॥३॥

४

आयन्नेवि एउ अणुराएँ	मति पसंसिउ माहुरराएँ ।
भासिउ जइ वणगमणु न जुज्जइ	तो लइ नयरमज्जु जाइज्जइ ।

चोज्जु अउज्जु निएह्वं विसेसे
चलियालक्ख होवि ससभावइ
नयरुभतरि चोज्जु नियतहिं
अजणविज्जाविहवसमिद्धउ
तहो अणुमग्ग लग्ग गय तेत्तहे
तहो पायारसमीवि रवन्नउ
चोरु चडेवि तत्थ थिउ राणउ

त पडिवन्न तास मतीसे ।
चिन्नि वि सुवकविहप्फइ नावइ ।
अग्गण चोरु नियच्छिउ जंतहिं । ५
कचणखुरनामेण पसिद्धउ ।
अरुहयासवणिमदिरु जेत्तहे ।
वडतरु एक्कु अत्थि वित्थिन्नउ ।
मूलि परिट्ठिउ मतिसमाणउ ।

घत्ता—तहिं पत्थावे वणिनाहेण समुज्जलगत्तउ । १०
अट्ठोवासिएण अट्ठ वि कंताउ पउत्तउ ॥४॥

५

अज्जु वि वणहो मुएवि निहेलणु
पुरिस वि विविहविणोयहिं पट्टणि
पुंक्कमेणम्हइं तुम्हइं परि
कि अबराए सरायए कीलए
उववासिय कयदुरियविओए
भासिउ ताहिं एत्थ कि वुच्चइ
एह भणेप्पिणु पावविरत्तउ
मगलधवलगेयजयसहे
अच्छिवि पयडियनिम्मलभावाहिं
पुच्छियाउ वणिनाहे जायउ

रायाएसे गउ जुवईयणु ।
कीलमाण थिय वडरिपलोट्टणि ।
णवपइसवि थियाइं सुमणोहरि ।
सहसकूडि एत्थेव जिणालए ।
अच्छह्वं जिणजायरणविणोए । ५
एउ विसेसे अम्हइं रुच्चइ ।
गयउ ताउ जिणभवणु सकंतउ ।
पुज्जमहिम करिऊणाणदे ।
अवरोप्पसु चिरु धम्मालावहिं ।
विह तुम्हइं दिढु दंसणु जायउ । १०

घत्ता—ताहिं पउत्तु पिय तावक्खह तुम्हइं अम्हइं ।
पुणु परिवाडियए अम्हइं वि कहेसह्वं तुम्हइं ॥५॥

६

एम होउ निमुणह एयग्गउ
एत्थु जि आसिकालि परमेसरु
जसमईए महएविए जायउ
सो संपइ पयाउ आसासइ
सभिन्नाइबुद्धिनामाणउ
सुप्पह पिय सुबुद्धि सुउ केहउ

वणि [-वरु] नियकह कहणह्वं लग्गइ ।
होतउ पमुदियउदउ णरेसरु ।
तहो सुउ उदिदोदउ विक्खायउ ।
दूरहो अरिबलु जामु पणासइ ।
मति मतसम्भावविद्याणउ । ५
तामु विहप्फइ बुद्धिए जेहउ ।

जो एवहिं कयभुवणाणंदहो
मोहणाइ विज्जंजणसिद्धउ
रुप्पखुराइ पुरंधिण जणियउ
सो संपइ इह वट्टइ तवकर

वट्टइ मंतिपहाणु नरिदहो ।
चोरु वि रूप्पखुरु त्ति पसिद्धउ ।
नंदणु तहो सुवन्नखुरु भणियउ ।
साहसपउ सुहडहें वि भयंकर । १०

घत्ता—सेट्टि वि नरवइहे सब्बण्हु साहुपयभत्तउ ।

वल्लहु जिणमइहे जिणयत्तु गुणोवहि होतउ ॥६॥

७

अरुहयासु हउं सुउ तहो केरउ
एउ असेमु वि विभियचित्ता
कहइ सेट्टि आयन्नहि भामउ
एक्कहिं वासरि जूउ रमेप्पिणु
विहिं पहरहिं चोरियपरचंदिरु
ताम सगंधाणियभसलाहिले
रायरसोयसमीवि समायउ
नयणइं अजणेण अजेप्पिणु
लद्धसाउ अणुदिणु तहिं भुजइ

तुम्हहें नयणाणदजणेरउ ।
धिउ ते तित्ति त्रि तेत्थु सुणता ।
अप्पडिमल्लु रूप्पखुरनामउ ।
जित्तउ दीणाणाहहें देप्पिणु ।
भुविखउ जाम जाइ किर मदिह । ५
कूरहो परिमलु उत्तमसालिहे ।
अग्घाइवि आसन्नउ जायउ ।
हुउ सुहि सहुं राएँ भुजेप्पिणु ।
राउ वि पुत्तिमराउ व भिज्जइ ।

घत्ता—तो मंतीसरेण एक्कहिं दिणि वइरिवियारणु ।

१०

पुच्छिउ पुरिसहरि काहे दुब्बलत्ति कि कारणु ॥७॥

८

पुन्नवंतु तुहुं सुरहें वि वल्लहु
भणिउ निवेण कवणु महु चितणु
एत्तिउ पर महुं भक्खउ दिज्जइ
भुजमि चउयुणु नियआहारहो
जाणमि अवरु को वि कि जीवइ
वयणु एउ निसुणेवि सयाणउ
अजणसिद्धु कोइ होसइ खलु
एम भणेवि वियाणियसच्चें
भोयणवेलहे भोयणसालहे

कवण चित तुह कि पि न दुल्लहु ।
जसु सहाउ तुहुं कयसुहमंतणु ।
जेमतहें वि न अग्घाइज्जइ ।
तो वि न तित्ति हवेइ सरीरहो ।
तेणुयरग्गि मज्जु नउ नीवइ ।
चित्तइ मंति मतिविहिजाणउ ।
जेणेरिसु महीसु किउ दुब्बलु ।
किय किय तहो धरणत्थु अमच्चें ।
रविकुसुमच्चणु इत्थु विसालहे ।

घत्ता—धूमहो भरिय घड ढकिवि थविय चउकोणहिं । १०
संजयपवर भड पच्छन्न सफरहिं किवानहिं ॥८॥

९

तामायउ कयलोयाणिट्टउ	भोयणमदिरमज्जु पइट्टउ ।
अक्ककलियफुट्टणसद्दे खलु	जाणित्ति किउ दुवारगढे अग्गसु ।
मुक्कु धूमु नयणेसु पइट्टउ	आगय असुय अंजणु नट्टउ ।
ता तहिं भडहिं निएवि निबद्धउ	रायाएसे मूलिहे छुट्टउ ।
जेण समेउ एहु जंपेसइ	तासु पासि जणदब्बु हवेसइ । ५
एम भणेवि चउट्टिसु रक्खण	दिन्न निवेण अलक्ख वियक्खण ।
एत्थतरि जिणयत्तु बणीसरु	सुप्पहाए पुज्जेवि जिणेसरु ।
साहसमीवि धम्मु निसुणेप्पिणु	रुप्पखुरेणावतु निएप्पिणु ।

घत्ता—बोल्लाविउ अहो बणिबइ महु एत्तिउ किज्जउ ।
सव्वुवयारि तुहं तिसियहो जलु आणिवि दिज्जउ ॥९॥ १०

१०

जिणयत्तेण जि एउ मुणेप्पिणु	चोरु गलागयपाणु निएप्पिणु ।
वृत्तुवयारहेउ सविसेसहिं	भो रुप्पखुर वारहवरिसहिं ।
अज्ज मज्ज गुरुदेउ पसन्नउ	तेण मंतु पावारि विइन्नउ ।
सुदरु चित्तियसुहसयदायउ	त घोसंतु एत्थु हउं आयउ ।
जलनिमित्तु जतहो वेइ घरु	सो वीसरिवि जाइ महु मणहरु । ५
लइ त तुहं सुमरंतउ अच्छहि	जइ पडिआयहो दुलहु पयच्छहि ।
तो हउं जामि देमि आणमि जलु	पभणइ थेणु पिपासइं आउलु ।
दे दे मित्त मतु म चिरावहि	नउ वीसरमि जाहि लहु आवहि ।
ता बणि तासु थिरत्तु करेप्पिणु	गउ घरु पंच पयाइं कहेप्पिणु ।

घत्ता—चोरु वि ताम तहिं सुरमेल्लियसुमणसविट्ठिहं । १०
नबयारक्खरइं मुउ संभरतु परमेट्ठिहं ॥९०॥

११

सोहम्मसग्गि	हुउ सुरवइ सुहसंपयसमग्गि ।
बणि ताम पत्तु	सीयलजलभरिउ लएवि पत्तु ।

अवियारवत्
सिरनिहियहत्थु
पुव्वज्जएण
भासंति जोइ
संवेयजुत्तु
अच्छइ रिसीसु
वित्तनु कहिउ
एत्तहे चरेहिँ
आरुट्ठु राउ
तहिँ समए देउ
अवहरहूँ विग्घु
सुरहूँ वि पयंडु

कुसुमालु णिएप्पिणु पाणवत्तु ।
भवदुक्खलक्खना।सणसमत्थु ।
फुडु लद्धु समाहिए मरणु तेण । ५
अन्नहो अवत्थ एरिस न होइ ।
इय चित्तिवि जत्थ समाहिगुत्तु ।
गउ तत्थ सेट्ठि पणमियससीसु ।
उववासु समाहिनिमित्तु गहिउ ।
उवइद्धु सव्वु सगयकरेहिँ १०
पेसिउ घरु त्थसहूँ नरनिहाउ ।
आसणकपेण सुणेवि भेउ ।
नरवेसु करेप्पिणु पत्तु सिग्घु ।
थिउ घरदुवारि करकलियदइ ।

घत्ता—किंकर णरवइहूँ पइसंत तेण अणिवारिय । १५

नाइँ मुणीसरेण मणदुप्परिणाम निवारिय ॥११॥

१२

सावलेवु त तणु व गणेविणु
ताम लट्ठि भामेवि भयकर
केण वि रायहो वत्त पणारिय
कोइ महाभु घरि वणिकेरए
जमदूएण व भामियदंडे
आयन्नेवि नरिदु पलित्तउ
जेँ भडयणु कयतपुरु पाविउ
एम भणेप्पिणु परबलसाहणु
जे जे पइसहिँ ते ते वारइ
ताम जाम बलु सयलु वि निट्ठिउ

किर पइसंति जाम चप्पेविणु ।
मायइँ मारिय नरवइकिंकर ।
पहु पाइक्क तुहारा मारिय ।
अच्छइ विग्घु व सिद्धिदुवारए ।
तेणाहय पाइक्क पयडे । ५
चित्तभाणु तुप्पेण व सित्तउ ।
कहिँ महुँ जाइ अज्जु सो पाविउ ।
सइँ सन्नज्जिभवि आउ ससाहणु ।
दंडपहारे मुरु सघारइ ।
नरवइ पर एक्कंगु परिट्ठिउ । १०

घत्ता—वेसु निसायरहो भीयरु करेवि रोसाविय ।

नासंतहो तुरिउ तहो पुट्ठिहे अमरु पघाविउ ॥१२॥

१३

रे रे दुट्ठु राय कहिँ नासहि
चित्तइ जो वणिवइहि विरूवउ

निच्छउ अज्जु जमाणणि पइसहि ।
तासु हयासहो हउँ जमदूवउ ।

एउ सुणेवि विसेसैं तट्टउ
 तहिं मुणिमज्झि वणिदु अकुच्छिउ
 वरितायहि परितायहि आयहो
 एम भणेवि विणीउ हवेप्पिणु
 इयरु वि तामाइउ आरुट्टउ
 मा रक्खहि मा रक्खहि मारहुं
 निण्वि वणीसरेण मयगारउ
 अन्नहो एहु पहाउ न दीसइ
 इय चित्तेवि पउत्तु अजुत्तउ
 खमहि भाय रायहो भयधत्थहो

नासिवि निवइ गुहाहें पइट्टउ ।
 धम्मकहाउ सुणंतु नियच्छिउ ।
 भो जिणयत्त मित्त ससहायहो । ५
 थिउ सेट्ठिहें समीवि वइसेप्पिणु ।
 भासइ एहु महीवइ टुट्टउ ।
 देहि देहि जिणयत्त वियारहुं ।
 जाणिउ देउ विउव्वणसारउ ।
 अन्नहो माहुरराउ न नासइ १०
 हम्मइ जं निर्लिप नासतउ ।
 निच्छउ मडणु खति समत्थहो ।

घत्ता—एउ सुणेवि मुरु परिहरिवि वेसु वेयालउ ।

चितियमित्तु हुउ अणुवमतणु सोहग्गालउ ॥१३॥

१४

देवि पयाहिण पढमु वणीसरु
 वुत्तु निवेण देव देवालग्ग
 मेल्लिवि मुणि महिमाग्ग महल्लउ
 जाणमि विणउ सुट्टु भासइ मुरु
 पुणु साहम्मियाहें मुह्लेसहें
 कित्तु एहु महु गुरु पहिलारउ
 पुच्छिउ पुहईसैं किह हुउ गुरु
 पुज्जिउ परमविहइग्ग वणिवइ
 कहिं हउं कहिं देवत्तणु सारउ
 तुहुं निक्कारणु परउवयारिउ
 एवविहवयणेहिं थुणेप्पिणु

वदिवि वंदिउ तेण मुणीसरु ।
 विणयजुत्ति कि नत्थि सुहालग्ग ।
 वदिउ जेण गिहत्थु पहिल्लउ ।
 निवइ नवेवि देवु महारिसि गुरु ।
 किज्जइ इच्छायारु असेसह । ५
 पणमिउ पढमु तेण मुह्यारउ ।
 कहिउ सुरेण असेमु वि वइयरु ।
 वारिय पावहो पई महु दुग्गइ ।
 सामिय एउ पसाउ तुहारउ ।
 पई हउं दुक्खसमुदहो तारिउ । १०
 थिउ अग्गइं कर मउलि करेप्पिणु ।

घत्ता—पेच्छेवि अच्छरिउ अबसरोहि वि विभियचित्तहिं ।

लइउ निवेण तउ सहुं सेट्ठिमतिसामंतहिं ॥१४॥

१५

सहुं सम्मत्तें दूसियदुअउ
 देवु वि दिडसम्मत्तु लएप्पिणु

केहिं वि सावयवउ पडिबन्नउ ।
 गउ सग्गहो मुणिगणु पणवेप्पिणु ।

वत्तउ वणिबरेण नियकतउ
 एउ सुणेवि सव्वु संतुट्टहिँ
 पिययम अम्हेहिँ मि श्रायमिउ
 सद्दहाणु पत्तियमु निरुत्तउ
 तुम्हेहिँ सुयउ न दिट्ठउ कहियउ
 सद्दहामि पत्तियमि न रोचमि

तइयहुँ हउँ हुउ दिढसम्मत्तउ ।
 ताहिँ पउत्तउ दसणपुट्टहिँ ।
 दिट्ठउ सुट्ठु एउ अणुममिउ । ५
 ता कुंदाइलयाणु पउत्तउ ।
 भासिउ सुट्ठु नेव सद्दहियउ ।
 ज किउ तुम्हेहिँ तं नउ फासमि ।

घत्ता—एहु सुणेवि पहु चित्तइ समंति रोसंगउ ।

पेच्छिवि तं सपउ देप्पिणु महु ताउ तवंगउ ॥१५॥ १०

१६

पुरु परिवारु देसु विभयकरु
 कि न एह पडिवज्जइ पाविणि
 मइँ पहाणु एयहे ह्यविग्गहु
 चित्तिय चोरेण वि महु ताएँ
 मग्गिउ वणि जिणयत्तउ पाणिउ
 मंडिवि मिसु उवयारहो कारणु
 तासु पहावे सुरु सजायउ
 मायइँ बलु विणिवाइउ राणउ
 सं भीसिउ वणिणा मुरु सामिउ
 देवेण वि वणिनाहु नामसिउ
 आयन्नेवि सवेएँ लइयउ
 मइँ वि एहु पच्चक्खु णियच्छिउ

जाणइ सव्वु कोइ त वइयरु ।
 दुट्ठसील वणिनाहो भाविणि ।
 सइँ हत्येण करेवउ णिग्गहु ।
 तिसियएण सुलाह्यकाएँ ।
 तेण वि तहो गउआउ वियाणिउ । ५
 दिन्नु मनु दुग्गइविणिवारणु ।
 वणिउवसग्गु मुणेवि इहायउ ।
 भेसावियउ भएण पलाणउ ।
 हूयउ मुहि महु रापुरसामिउ ।
 नियवित्तनु असेसु पयासिउ । १०
 नरवइ पुरु परियणु पव्वइयउ ।
 एयहे पर पडिहासइ कुच्छिउ ।

घत्ता—सिरिचदुज्जालिय कह एह ण कमु पडिहासइ ।

एसा दुट्ठमइ ण मुणहुँ कि कारणु दूसइ ॥१६॥

विविहरसविसाले णेयकोउहलाले । सलियवयणमाले अत्थसंदोहसाले ।
 भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचंदपउत्ते कहकोसे एत्थ कोमुइक्काए ।

इप्पलुरसग्गसाहो एसो चउवीसमो सग्गो ॥

संधि २५

१

ध्रुवय—एउ कहेवि वणिदे नं पच्चक्ख सिरि ।
पढम कंत परिपुच्छिय नामे मित्तसिरि ॥

जंभेट्टिया—अक्खहि पिययमि भुवणपवित्तहो ।
कारणु अणुवमि नियसम्मत्तहो ॥

कहइ कंत पुरि रायगेहि	सुदरघरसिहरासन्नमेहि ।	५
हईवइ परवलनियरजूरु	नामेण अत्थि सगामसूरु ।	
हो कणयमाल कमणीय देवि	नं थिय रइ तियमयवेसु लेवि ।	
थेव वसइ वणि उसट्टदासु	नामे जिणयत्त कलत्त तामु ।	
हग्गसोल विणयहिं अहीण	सा वभ लया इव फलविहीण ।	
कहिं दिणि नियपइ निरुवमाए	अवसरि कर जोडेवि वुत्त ताए ।	१०
हुयणहो घम्मु रयणिहिं मियकु	कुलमडणु नदणु निक्कलंकु ।	
तइ विणु तेण विणासु जाइ	पिय भणमि तुम्ह जइ चित्ति ठाइ ।	
रिणिज्जउ जेण हवेइ पुत्तु	आयन्निवि वणिवइणा पउत्तु ।	

घत्ता—पचासए बोलीणए मुएवि परत्तहिउ ।
अवरु करंतु हसिज्जइ नरु जिह गहगहिउ ॥१॥ १५

२

जंभेट्टिया—भासइ पिययमा रायवसागय ।

किज्जइ कम्मु तं जं [न] उवहासयं ॥

हु जाविउ एम भणेवि कतु	नियचित्तं समउ करेवि मनु ।	
थु जे णियतायहो तणिय धूय	जिणदासहो बधुसिरीहे हूय ।	
वत्तिय वहिणि मणोहिराम	कणयाहदेह कणयसिरि नाम ।	५
रिणाविउ मग्गिवि समिसालु	गउ सुहु माणतहो थोउ कालु ।	
कहिं दियहम्मि वहति नेहु	बंधुसिरि समागय दुहियगेहु ।	
लिगिवि विरइयविणयजुत्ति	पुच्छिय वइसारिवि ताए पुत्ति ।	

कहि बत्ये अत्यि सासुरप्र सोक्खु
कि सुवइ वसइ पइ पई समाणु
त निसुणिवि वाहोहल्लिवत्त

कि कुणइ न कि पि सबत्ति दुक्खु ।
कि करइ सुयणु सम्माणु दाणु । १०
गगिरगिर वच्चइ रत्तनेत्त ।

घत्ता—देप्पिणु उवरि सबत्तिहे पुच्छहि काई पुणु ।
मुडिवि सिरु नक्खत्ताउछणे कवणु गुणु ॥२॥

३

जभेट्टिया—ताप्र ह्यासप्र पइ पडिगाहिउ ।
अच्छइ मायडि खलप्र विमोहिउ ॥

जिणभवणि ताई दोन्नि वि जणाई
अच्छंति जहिच्छप्र भोयणत्थु
दिवसावसाणि कम्मारिय व्व
एक्कल्लिय सोवमि रीणगत्त
तामच्छउ रइसुहु सुहयरेण
लइ लइयउ लावई ताप्र कंतु
निसुणेवि एउ मायरि पलत्त
भासइ काऊण पवच्चजुत्ति
भागय घर वरणहं जइयहु जि

अहनिमु रइरसरजियमणाई ।
मज्झममप्र पर एति एत्थु ।
घरखोरु करेवि असेमु अक्ख । ५
न वियाणमि कत्तहो तणिय वत्त ।
वयणु वि न अत्थि महं सह वरेण ।
अच्छइ वामोहिउ मुहु नियतु ।
नावइ सिहि चुरुलिघएण सित्त ।
वेयारिय हा पावाप्र पुत्ति । १०
सा मृप्र पउत्त मई तइयहुं जि ।

घत्ता—तुहं मणहर भत्तारहो वडुःरियपणय ।
ते तुज्जुवरि न जुज्जइ महु देणहं तणय ॥३॥

४

जभेट्टिया—निसुणेप्पिणु इण सुरउ मुएप्पिणु ।
पइ परिणाविउ सबह करेप्पिणु ॥

सपय पुणु क्यदेउलनिवास
कि बहुणा करमि उवाउ कोइ
इय भासिवि सुय सठविय ताप्र
मा उच्छुय होहि भणेवि एउ
तहिं तहे विणासविहि चित्तवत्ति
त्तामेक्काहिं दिणि खट्टंगघारि

थिय पिउ पडिगाहेप्पिणु ह्यास ।
दुट्टहे तहे जेण विणासु होइ ।
पडिवालहि कइवि दिणाई माप्र । ५
गय गेहु जणेरि वहति खेउ ।
जामच्छइ कोवे पज्जलत्ति ।
कालु व कावालित्ठ चंडमारि ।

तत्थायउ बारि पइदु ताए
कावालयि मई वि अणय दिठु
निच्छउ एयाउ समीहियत्थु
इय चितिवि भत्तिए तासु भिक्ख

आलोइउ सिवभत्तासयाए ।
पर एयहो का वि अउव्व चेठु । १०
पाविज्जइ बारिज्जइ अणत्यु ।
सा अणुदिणु देइ अणयभक्ख ।

घत्ता—अइभत्तिभरेण बियाणवि परिणइ तहो तणिय ।

धुत्त तेणेक्कहिँ दिणि बधुसिरी भणिय ॥४॥

५

जभेट्टिया—अम्हई माइए विज्जासिद्धय ।

मत भाणजोएहिँ समिद्धय ॥

भुवणम्मि नत्थि किचि वि असज्भु
तो जाणावेज्जसु सुणिवि बुद्धु
महु तुज्भु पसाएँ परममेह
पर एत्तिउ कज्जु महंतु पुत्त
कणयसिरी नाम कमणीयकाय
बचिय हउँ परिणाविउ सणाहु
अहनिमु जिनमदिरि कयानवास
नामे जिणयत्ता दुट्ठभाव
तुह ससह होइ तो गेहवासु

सभवइ कज्जु जइ कि पि तुज्भु ।
उल्लवइ इयती दुव्वियडु ।
सपडइ सव्वु पडिवन्ननेह । ५
तुह बहिणि अणोवमगुणहिँ जुत्त ।
मा एककए धुत्तिए करिवि माय ।
एवहिँ पुणु थिय बघेवि गाहु ।
मेल्लइ न मुहुत्तु वि पिउ हयास ।
सा मारिज्जइ जइ कह व पाव । १०
ता निग्गय गिर कावालियासु ।

घत्ता—उच्छय होहि म मायरि चितिउ करमि तउ ।

परु मारेवड अम्हहँ सक मणा वि नउ ॥५॥

६

जभेट्टिया—निसि भूयहँ दिणे हेमसिरीहिय ।

मारमि सा फुडं करमि तवेहिय ॥

लोक्कवसकरि पउर विज्ज
अपुरहो पाइ जइ सा न नेमि
न्निुणोवि एउ बंधवसिरीए
अरवंत समुद्धु सहाउ जासु
तुहँ जासु पसभू महाणुभाव

साहेवि अय वेयालविज्ज ।
सत्तच्चिहे तो नियदेहु देमि ।
सो भणिउ हसेवि पसंसिरीए । ५
कि जति पियासए पाण तासु ।
निच्छउ कहिँ तासु किलेस ताव ।

गय एम भणेवि नवेवि हम्मु
तामागउ दियहु चउइसीहे
आणेवि सलक्खणु सवु समग्गु
परियाणियमतविहाणसत्थु

जामच्छइ तहिं वधति कम्मु ।
गउ चंडमारि पिउवणु निसीहे ।
पुज्जेवि देवि तहो हरिथ खग्गु । १
जा जवइ मनु पोमासणत्थु ।

घत्ता—ताम कयतु व भीसणु मडउ समुट्टियउ ।
मुहे जालाउ मुयतउ पुरउ परिट्टियउ ॥६॥

७

जंभेट्टिया—लग्गु चवेवए दे पहु पेसण ।
को पेसिज्जउ वइवससासणं ॥

ता मडयमिसें पच्चवख हूय
तेणुत्तु कणयसिरियहे सवत्ति
कावलियवयण सुणेवि तेत्थु
पइसरहुं न सक्कइ सावलेव
नामग्गहणेण वि जासु जति
तहो भवणे पईसइ केम पाव
अलहंति पवेसु ह्यप्पयाव
निवडिय तहो पुरउ पुणे वि तेण
अकरति कज्जु परट्टुन्निवार
सयवहभीएण भणेवि एउ

वेयालिण विज्ज रउट्टरूय ।
मारेवि एहि जिणहरि सुयति ।
गय जिणभवणहो जिणयत्त जेत्थु ।
थिय देवपहावे दूरि एव ।
गहरक्खसभूय हवेइ सति ।
सा असुइ हयास रउट्टभाव ।
गय तहिं जि वलेवि विमुक्कराव ।
साहिय सपेसिय तवखणेण । १
गय आगय तेत्थहो तिन्नि वार ।
पुणरावि सपेसिय ण किउ खेउ ।

घत्ता—दोहें मि ताहें सवत्तिहो मज्झे सहावचुय ।
सा मारेप्पिणु आवाहि जा दुब्भावजुय ॥७॥

८

जंभेट्टिया—तं णिसुणेवि सा तत्थ दुरतिया ।
गय कचणसिरि हणिवि नियत्तिया ॥

नियच्छिवि रत्तविलित्तु किवाणु
गम्भो सुहि होइवि सो नियठाणु
हयास तिणा ह्य होसइ धुत्ति
विहाणए बंधुसिरी गय तेत्थु

विसज्जिवि मंतु मुएवि मसाणु ।
विणट्टु विहावरि उग्गउ भाणु ।
वियप्पिवि एउ पटिग्गहुं पुत्ति । ५
सुयावरइत्तहो मदिह जेत्थु ।

निष्पिणु नंदणि जीवियत्त
 वसुंधरिपालहो पासु रुयंति
 अहो जिणयत्तए चारु त्रिणीय
 सुणेवि इण पट्टणा कुविण
 सबल्लह बधिवि सा खल खुद

किबाणपहारवियारियगत्त ।
 गया जिणयत्तहे दूसणु देति ।
 निसुभिय सामि महारिय धीय ।
 विसज्जिय किकर ताहे कएण । १०
 इहाणह मदिरि देप्पिणु मुद ।

घत्ता—गय पाइक्क निवाणए पुरदेवीए तउ ।
 घरे पइसंतहें संतहें थंभणु ताहें कउ ॥८॥

९

जभेट्टिया—जिणयत्तावित्त सुणेवि सुहाहिए ।
 दुविहाणसणए थक्क समाहिए ॥

एत्थतरम्मि	कावालिउ पुरदेविए पुरम्मि ।	
पेरिज्जमाणु	पभणतु भमइ लद्धावमाणु ।	
हउं निरवराहु	मारहुं जिणयत्त करेवि गाहु ।	५
अल्लियपयाव	वेयालिणि विज्ज रउद्दभाव ।	
साहाविओ मि	वधुसिरिए ससए ढोइओ मि ।	
आराहिऊण	सपेसिय सा मई साहिऊण ।	
खलहिययदार	अकरति कज्जु आगय तिवार ।	
पेसिय पुणे वि	आगय वधुमिरिहे सुय हणेवि ।	१०
पेच्छिवि पहाए	लाइउ जिणयत्तहें दोसु ताए ।	
एयं सुणेउ	जायउ जणु सव्वु वि विगयखेउ ।	
एत्तहे वि थेरि	भेसात्रिय भूर्यह चत्तखेरि ।	
लोयहो कहंति	आहिडइ पट्टणि पुक्करति ।	
सुविमुद्धिंसेस	जिणयत्त महासइ विगयदोस ।	१५
दावियकिलेसु	महु तणउ एउ विलसिउ असेसु ।	
विप्पिउ परासु	चित्तिज्जइ त आवइ घरासु ।	

घत्ता—एथंतरि तहें देविहें जयजयकार कउ ।
 हय दुडुहि जिणयत्तहो धम्मं जाउ जउ ॥९॥

१०

जभेट्टिया—परमविहूडए पुरदेवीए सा ।
 पुच्छिय संथुया निम्मलमाणसा ॥

तं पेक्खवि निच्चलचित्तु होवि
परिहरिवि रज्जु संवेयजुत्तु
सामंतमत्तिमुहिसयसहाउ
दुम्भोउ मुएप्पिणु गेहवासु
जिणयत्त वि अज्जहि जिणमईहे
कहिऊण मित्तसिरियाए एउ
रिसि गुरु धम्मो वि दयासमग्गु
अवरु वि जं कि पि जिणेसरेण
तइयह्वं पहूइ संपयसणाह

लगउ जिणधम्महो सव्व को वि ।
पणवेप्पिणु साहू समाहिपुत्तु ।
संजायउ रिसि रणसूरराउ । ५
पव्वइउ वणीसरु उसहदासु ।
पव्वइय पासि सुदरमईहे ।
वुत्तउ मुएवि अरहतु देउ ।
निग्गथसरुवे मोक्खमग्गु ।
उवइट्ठु सत्थि परमेसरेण । १०
सुविणे वि न याणामि अन्नू नाह ।

घत्ता—ता सव्वेहि मि ससिय पइं चगउ कयउ ।

कुदलयाए परेक्कए तहि भासिउ हयउ ॥१०॥

११

जभेट्टिया—त निसुणोवि णिवो
थिउ तुहिककउ

पुणु वि पलित्तमो ।
खचियचित्तउ ॥

पुणु पुच्छिय वणिणा खडासरी
निसुणोवि वयणु कतहो तणउ
कुरुजंगलि हत्थिणायणयरे
दिउ सोमयत्तु नामेण वरु
गुणमदिरु रजियजणमणउ
सोमिल्ला नामे तासु पिया
तह सोयवसेण विमूढमई
वणे मुणिवरेण सबोहियउ
खणभंगुरु पुत्तकलत्तधणु
आयन्नवि संजयधम्मभुणी
हुउ सावउ संसयभावजुओ
सावउ भणेवि गुणितत्थिधणु

किह हुय तुह दिढसम्मत्तसिरी ।
सा कहइ कहतरु अप्पणउ । ५
भूभूयहो रंजण सोक्खयरे ।
होंतउ चउवेयसडगधरु ।
एत्तउउ दोसु जं निद्धणउ ।
सा एक्काहिं दिणि कालेण णिया ।
घरि बाहिरि कहिं मि न करइ रई ।
पियसोउ करतु निरोहियउ । १०
जलवुब्बुय फणु व इंदधणु ।
गउ सोउ भत्ति उवसमिउ गुणी ।
सोमाए निययदुहियाए जुओ ।
निउ उसहदासवणिणा भवणु ।

घत्ता—सव्वपयारें चित्तइ वणि तहो निव्वहणु । १५

सुहू धक्खंतहो काले पत्तउ मरणखणु ॥११॥

१२

जभेट्टिया—मुणेवि निरुत्तय
वणियपहू तिणा

मरणनिमित्तयं ।
भणिउ सुमइणा ॥

भो परममित्त दुन्नयविलय
निव्वाहिउ एत्तिउ कालु पइ
एवहिं महु संपत्तउ मरणु
सुहि एउ करेज्जसु एह सुया
जाणेप्पिणु कामु वि बंभणहो
इय भणिवि समप्पिय पुत्ति तिणा
मरिऊण समाहिण धोरमणु
सोमा वि तन्नो वणिनाहघरे
तहो नेहु निएप्पिणु घणघणउ
न वियाणइ ज मुउ महु जणणु

साहम्मियवच्छल गुणनिलय ।
न वियाणउ कि पि वि दुक्खु मई ।
परमेट्ठियायपकयसरणु । ५
सोमा महु तणिय गुणोहजुया ।
देज्जसु मिच्छत्तनिसुभणहो ।
किउ सव्वचाउ सुदरमइणा ।
गउ सग्गहो भेल्लेवि कुणिमतणु ।
अच्छइ सुहेण हंसी व सरे । १०
वीसरिउ सोउ तायहो तणउ ।
एहु जि सो निच्छउ महु जणणु ।

घत्ता—धुत्तहें धुत्तु जुवाणउ विविहवसणवसइ ।

तेत्थु जि बभणु नामे रुदयत्तु वसइ ॥१२॥

१३

जभेट्ठिया—एवकहिं वासरि रूवरवन्निया ।

न जर्गावधणा कामहो कन्निया ॥

पायालकन्न न लद्धजसा
जोइवि ज्यारसहाहिवेण
कहो तणिय एह कलहसगई
भासिउ ज्यारहिं रूवनिही
एसा कुमारि वेल्लहलभुया
जणणेण मरते वणिवरहो
तहो गेहि एह जणमणहो पिया
निसुणेप्पिणु रुददत्तु चवई

मग्गेण जति सा कज्जवसा ।
बोल्लिउ विडेण विभियमणेण ।
कि नायकन्न पच्चक्खरई । ५
जणमणसधुक्किय कामसिहो ।
सुहि सोमयत्तदियवरहो सुया ।
नियसुहहि समप्पिय सुहयरहो ।
नावइ रयणायरे वसइ सिया ।
हउं परिणमि एह गयदगई । १०

घत्ता—तेहिं भणिउ कुव्वडयहो अत्थि सई गरुय ।

परउत्ताणहो सुयउं न जाइ हवेइ रुय ॥१३॥

१४

जभेट्ठिया—काई अजुत्तय भणहि सयाणउ ।

आयहिं वयणहि होहि अयाणउ ॥

एत्थत्थि अणेय वि वेयजुया
 तेहिँ मि न लद्ध रइरभसमा
 तुहुँ पुणु बहुवसणासत्तमई
 किह लहसि मूढ मिच्छत्तरउ
 मई तेम करेवउ जेम एह
 जइ एउ न करमि महु तणउ
 पूरमि पइज्ज जइ कह व नउ
 इय भणिवि सव्वकिरियाकुसलु
 होएप्पिणु वभयारि गुणिहे
 आयउ आवेप्पिणु दुरियहरे

बंधण बंधोवम दोसच्चुया ।
 मिच्छादिट्ठियाहि भणेवि इमा ।
 दूरुज्झय विप्पायारगई । ५
 भासइ विडु अहिमाणेण तउ ।
 परिणेवी कुवलयसाम्भेह ।
 कि किज्जइ तो धुत्तत्तणउ ।
 साहमि सिहि तो तुम्हहँ पुरउ ।
 गउ अवरु देसु बहुवुद्धिबलु । १०
 सामिवि तत्थ कामु वि मुणिहे ।
 थिउ उसहदाससव्वण्हुघरे ।

घत्ता—तहो आगमणु सुणेप्पिणु गउ जिणहरु वणिउ ।
 इच्छायारु करेप्पिणु वभयारि भणिउ ॥१४॥

१५

जभेट्टिया—केत्तहि होतया तुम्ह समागया ।
 कहइ पवचिउ पुव्वदिसागया ।

भो वणिवर जिणवरजम्मणइ
 नाणइँ निव्वाणइँ सव्वइ वि
 वदेप्पिणु सति कुयु अरह
 एत्थाउ मुणेवि सच्छमइणा
 भासइ सो एत्थु जि नयरि वरु
 दिउ सोमसम्मु नामे पयडु
 तहो रुद्धत्तु हउँ पुत्तु हुउ
 मरणेण ताण सोयहो भरिउ
 मिच्छत्तभावभूँ दामउ

निक्खवणइँ तिहुयणकम्मणइ ।
 अइसयतित्थाइँ वि अवरइ वि । ५
 पेक्खहुँ पयाइँ भवभयहरह ।
 पुच्छिउ पुव्वासमु वणिवइणा ।
 बभणिहि सोमसम्माहे वरु ।
 होतउ सुइसत्थपुराणपडु ।
 जणणीजणेरपयभत्तिजुउ ।
 तित्थाइँ निहालउँ नीसरिउ । १०
 वाराणसि आइयाइँ भमिउ ।

घत्ता—पुन्नवसेण महामुणि एक्कु पलोइयउ ।
 तेणुवसामिवि सासणे जइणि निअोइयउ ॥१५॥

१६

जभेट्टिया—तासु समीवए दूरुज्झवि अह ।
 सावउ जायउ वभवई अह ।

कि गोत्ते सासयसुहकरणु
 निसुणेवि एउ पोमाइयउ
 कि निरवहि लोयत्तयमहिउ
 सावहि तेणुत्तउ वणिपवरा
 दुल्लहु सो किज्जइ जाम वउ
 फलु आयहो ज धम्मोवचउ
 वणि कहइ अत्थि बभणदुहिया
 अन्नहो सा कामु वि दिन्न नउ
 लइ परिणहि सुदर हसगई

धम्मु जि महु मायवप्पु सरणु ।
 पुणु वणिणा पुच्छिउ माइयउ ।
 कि सावहि बभचेरु गहिउ । ५
 अउ एण काई किज्जइ जि परा ।
 पालिउ किर दीसइ काई नउ ।
 को जाणइ कइयहँ [देइ वउ ।
 सुदरि] छणयंदरुदमुहिया ।
 सावयहो भणेप्पिणु देमि तउ । १०
 वणिवयणु मुणेवि धुत्तु चवई ।

घत्ता—नीसरेवि घरवासहो कह व करेवि खणु ।

पुणु ससारे पइसइ जाणमाणु कवणु ॥१६॥

१७

जभेट्टिया—नेच्छतो वि बला तेणेच्छाविउ ।

सो सोहणदिणे सुय परिणाविउ ॥

परिणेवि पहाणं पवचपरु
 जाएप्पिणु जूयारिय भणिया
 आयन्निवि तेहँ पसस किया
 नामेण पसिद्धा कामलया
 सहियउ तए पुव्वकमेण भणु
 एत्तहँ सोमा वि पसन्नमई
 निमुणेवि विलक्खी होवि थिया
 ज वणिणा दिन्नु विवाहि धणु
 पडिमहँ पइट्टु किउ उज्जमणु
 सिवदत्तु वि लोउ असेमु जिह
 आमतिउ ताए सलक्खणए
 तहँ निरुवमु रूवु निहालियउ

गउ टेटहे ककणबद्धकरु ।
 पूरिय पइज्ज मई अप्पणिया ।
 तेत्थु जि पुव्वित्तिय तासु पिया । ५
 वसुमित्तहे कुट्टणीहे तणया ।
 अच्छइ बहुविसयासत्तमणु ।
 पाविट्टुहो तारिस तासु गई ।
 कि किज्जइ दइवायत्त किया ।
 काराविउ ताए देवभवणु । १०
 सम्माणिउ सधु सपउरजणु ।
 वेसइ कुट्टणिणु समेउ तिह ।
 नीलुप्पलदलसरिसेक्खणए ।
 वसुमित्तए सिरु सचालियउ ।

घत्ता—केव वि कज्जे परिहरिय एणेह सुहकरि ।

कह व पमाई जइ बलइ तो कहँ अम्हहँ सिरि ॥१७॥

१८

जभेट्टिया—केडमि मूलहो वाहि महतिया ।

जेणमाप्र अह होमि न अत्तिया ॥

इय चितिवि भीसणु कालनिहु
 कुसुमाणम्भतरि रइयछल
 हक्कारिय भुजहुँ पावरया
 गतूण समप्पिउ पुप्फघडु
 घेतूण तम्मि कुसुमाईँ तए
 पुन्नेण पुणु वि कड्ढतियहे
 विभिय कुट्टणि कि चित्तु नउ
 वरकब्बु व उप्पाइयहरिमु
 तबोलविलेवणभूसर्णाह
 घरु जतहँ ताणाणदभरे

दोजीहु विसमगरलग्गिसिहु ।
 कलसम्मि छुहेवि लएवि खल ।
 सहँ दुहियए दुहिपवरेण गया । ५
 आमोयवसीकयनामउडु ।
 पुज्जियउ देउ कयसागयए ।
 हुउ सप्पु वि मणहर माल तहे ।
 कि नीसररेवि अहि कहिमि गउ ।
 भुजेप्पिणु भोयणु विविहरसु । १०
 पावियसम्मानहँ निवसर्णाह ।
 सोमाप्र लएवि सवत्तिकरे ।

घत्ता—अइमणोज्ज मन्नेप्पिणु जा दइवे रइय ।

दिन्ना सेस भणेप्पिणु सा मालोरइय ॥१८॥

१९

जभेट्टिया—छडु दिन्ना तओ होएवि दट्टिया ।

सा फणिणा खला हुय निच्चेट्टिया ॥

फणिदट्टु निएप्पिणु पुत्तडिया
 कलसम्मि छुहेवि लेवि उरउ
 हा धावह लोयहो मज्झ सुया
 रोवति एउ पभणति तहि
 पहु पेक्खु पेक्खु तुह कि करिहे
 आर्यान्निवि कारणु कुविउ पहु
 पुच्छिय कि जणमणनयणपिया
 सोमाप्र पउत्तु न महु तणउ
 सुम्मउ आमतिय एह घरु
 लइ पुज्जहि देउ भणेवि महु

निच्चेयण पुहईयलि पडिया ।
 कवारउ वसुमित्ताप्र कउ ।
 मारिय सोमाप्र गुणोहजुया ५
 गय तणय लएप्पिणु राउ जहि ।
 हुय केहावत्थ सुहकरिहे ।
 कोक्काविय लहु सिवदत्तवहु ।
 पई पावे णिसुभिय एह तिया ।
 इउ कम्मु नराहिव निग्घिणउ । १०
 ससुयाप्र महारउ देवहरु ।
 अप्पियउ कलसु कुसुमेहिँ सहु ।

घत्ता—तहिँ फुल्लाईँ लएप्पिणु मईँ परमेसरहो ।

रइय पुज्ज पुहईसर देवजिणेसरहो ॥१९॥

२०

जंभेट्टिया—भुत्ताणतरिए कामालिया ।
जतिहे नियघर चलभसलालिया ॥

इहू कामलयाहँ मुहावणिया
दिनाप्र ताप्र एयाप्र किउ
हा महु सुय सोमा कामलया
जाणइ फुहईस एह अवरु
सावयकुलि एरिसु कम्मु नउ
वमुमित्तप्र ता कलसम्मि कर
दक्खानिउ सामिय एण मुया
सोमाप्र सो जिज हत्थि गहिउ
वमुमित्तप्र लइउ हूउ विसमु
सोमाइ लइउ हुउ माल पुणु

आसीस दिनु देवहो तणिया ।
कूवारउ कोवहो लोउ निउ ।
खावेविणु सप्पहो पासु हया । ५
जिणधम्मु सुणेवि अहिसवरु ।
कज्जप्र अमहारप्र पावजुउ ।
धल्लिवि लहु कड्डिउ पवणचरु ।
खद्धा विसमेण विसेण मुया ।
हुउ पुप्फदामु परिमलसहिउ । १०
विसहरु कयतकलिकालसमु ।
त पेच्छिवि विभिउ सयलु जणु ।

घत्ता—एहु जि दिव्वु निरुत्तउ मई न कयावि किउ ।
जइ अजुत्तु ता आयहो आवउ गयउ जिउ ॥२०॥

२१

जंभेट्टिया—भणिऊण इणं
परसिय तिप्र सा

णविऊण जिण ।
जाया निविसा ॥

उट्टिय भडत्ति
ता त निएवि
किउ पईं किमेउ
दुहियहे सवत्ति
आणिउ सदप्पु
तेण वि न खद्ध
पावियधरित्ति
ज विहिउ पाउ
एत्यतरम्मि
सोमहे पसस
दुदुहिननाउ

बहु सुत्तिय हउं एहउ भणति ।
पुच्छिय निवेण सा सबह देवि ।
भासिउ वमुमित्तप्र सुणउ देउ । ५
मणिऊण निसभहुं चारुगत्ति ।
मईं घडहिं छुहेप्पिणु कालसप्पु ।
उव्वरिय एह पुत्तेण मुद्ध ।
पच्चेत्तिलउ मज्झु जि डसिय पुत्ति ।
त एत्थु जि पहु पच्चक्खु जाउ । १०
महियलि नरेहि देवाह नहम्मि ।
किय तुहुं निदोस विमुद्धवस ।
हुउ बूहउ सीयलु सुरहि वाउ ।

सजणियतुट्टि
भाभासुरेहिं
तं नियवि चोज्जु
बहुयहिं जणेहिं
बुज्झवि विसेसु
सोमाग्र भक्ति
किय लइय दिक्ख
हुउ रुद्धत्तु
कुट्टणि सधीय

निवडिय नहाउ सुरपुप्फवुट्टि
पुज्जिय सविहूइए सा सुरेहिं । १५
पुहईसरेण परिहरिवि रज्जु ।
तउ लइउ समउ साहियमणेहिं ।
लग्गउ जिणधम्महो जणु असेसु ।
त पेच्छिवि घरवासहो निवित्ति ।
अवभसिय निरतर जइण सिक्ख । २०
सावउ तयाए मिच्छत्तत्तु ।
हुय वइणी जिणसासणि विणीय ।

घत्ता—खडसिरीए पउत्तउ तप्पहूइ अचलु ।

सिरिचद्रुज्जलु दसणु हुउ महु विगयमलु ॥२१॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले ॥
भुवणविदिदनामे सब्बदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचद्रपउत्ते कहकोसे पच्चवीसमो सधी ।
वेयालपुप्फमान्ना कहापवघो इमो नेओ ॥

॥ सधि २५ ॥

सधि २६

१

ध्रुवय—अवरः वि कहमि कह एत्थत्थि भरहि सुपसिद्धउ ।
वच्छदेसें पुरु कोसवीनामु समिद्धउ ॥

अच्छइ विण्हुमिरी तहिं राणउ
अत्थि तासु बुद्धीए महतउ
सयलकलाविघ्नाणवियाणउ
एवर्काहिं वासरि नयणाणदिरु
कयमासोववामु बहुनिट्टउ
पेक्खवि पत्तु अउव्वु वियइहे
पडिगार्हउ मुणि विहियविहाणे
सममणेण मुणिनाहे भुत्तउ
रिसिदाणहो फलेण सुरसथय

अजियगउ नामेण पहाणउ ।
सोमसिरी नामेण महतउ ।
कयपासडधम्मसम्माणउ । ५
साहु समाहिगुत्तु तहो मदिरु ।
चरियहिं चरियासमए वइट्टउ ।
उट्टेप्पिणु सङ्गाइ गुणइहे ।
दिन्नउ भोयणु कयसम्माणे ।
भुजिवि अक्खयदाणु पउत्तउ । १०
पंचच्छरिय निहेलण तहो हुय ।

घत्ता—रणणुप्फवरिमु सभमरु वरगघाहिट्टिउ ।
दुट्टहिमद्दु नहि सुरसाहुक्कारु समुट्टिउ ॥१॥

२

ए अइसय निएवि मतीसें
सोत्तिय सिहिहोत्तिय आवसथिय
वेयपुराणसडगवियक्खण
सम्माणिय अणय भुजाविय
बद्धारिय असेस सताणइं
तो वि न किपि वि चोज्जु नियच्छिउ
मइं मुणिद दिन्नइं अपमाणइं
पर न कि पि कोऊहलु धम्महो
भासइ पह इदियमणइच्छउ
कारणु अट्टरउट्टहो एयइं

चित्तिउ नियमणि मुणिउ विसेसे ।
जत्तविहाणसोमपाणत्थिय ।
वभण मइं वभ व्व सलक्खण ।
तावस भगव भिक्ख सभाविय ।
दिन्नइं विविहइं इच्छादाणइं । ५
इय चित्तेवि समंजसु पुच्छिउ ।
दह तेयाइं महतइं दाणइं ।
दिट्टउ एउ अउव्वउ जम्महो ।
एयइं न मह दाणइं निच्छउ ।
तेण भणेवि होति नउ एयइं । १०

जं पावेवि पत्तु अप्पउ पर
कहिं पत्तुत्तु अजुत्तउ लेतहो

तारइ त दिज्जइ दुक्कियहरु ।
दाइहं दायारत्तणु देतहो ।

घत्ता—अभयदाणु जए ओसहु समेउ सुहसत्थे ।
आहारेण सहुं दिज्जति पत्ते परमत्थे ॥२॥

३

पुच्छइ पुणु पणवेवि महतउ
फलु दूरीकयदुग्गइदाणहं
कहइ साहु निसुणइ मंतीसरु
सोमप्पहु सोमप्पह राणी
सें दिज्जइ बहुत्तु विद्धत्तउ
आइ मज्झि अन्नसाणि निरतरु
ताहि जि महसालहिं आसन्नउ
निरु निट्ठावरु निप्पिहवित्तउ
तेणेक्कहिं बासरि खले गपिणु
कय सत्तुय सलिलेण निबद्धउ
हुयवहि एक्कु ह्वणेवि सइ तउ
जामच्छइ सो ताम पराइउ

कि केण वि अवरेण वि पत्तउ ।
मइं जिह आहासेह पदाणहं ।
वेन्नायडनयरम्मि नरेसरु ।
अत्थि नाई इदहो इदाणी ।
पउरमुवन्नु जन्नु आठत्तउ । ५
दिज्जइ जत्थ सुवन्न सुहकरु ।
विस्सभूइ दिउ वसइ पसन्नउ ।
बहुगुणभवणु दयादमवतउ ।
जव कवोयवित्तिए आणेप्पिणु ।
पिडचउट्टउ सुट्ठु मुयधउ । १०
अतिहिहि केरउ मग्गु नियतउ ।
मुणि पिहियासमु गुर्णाहि विराइउ ।

घत्ता—सतु भमतु पुरं घरपतिए पालियनिट्टउ ।
भिक्खहे तासु घरु कयमासोवासु पइट्टउ ॥३॥

४

मुणि पेक्खेप्पिणु पय पणवेप्पिणु
निउ घरि विहि करेवि समुन्नउ
भुत्तए तम्मि न कि पि वियप्पिउ
पुणु नियभामहे वयणु पलोइउ
पच्चच्छरियइं पुत्तेणायइं
साहुक्कारिउ सुरहिं नहगणि
वरिसिउ कुमुमनियरु आयासहो
एम भणतु व दुट्ठहि वज्जिउ

भत्तिए भयव ठाहु भणेप्पिणु ।
करयलि अतिहे पिडु तहो दिन्नउ ।
पिडउ तेणप्पणउ समप्पिउ ।
ताए वि तइउ तुरति पढोइउ ।
अव्वहियम्मि^१ जईसरि जायइं । ५
पडियइ नाणारयणइं पगणि ।
पेक्खउ जणु फलु पत्तविसेसहो ।
आयउ सुरहि पवणु जणु रजिउ ।

४. १ अव्वभियम्मि ।

घत्ता—बहुसुवन्नमहहो फलु अम्हहें एउ भणता ।

सहूँ राएण दिय परिओसें तहिँ संपत्ता ॥४॥ १०

५

लेंति जाम किर परमुज्जालई
ता नउलेण दिएण पउत्तउ
जं जसु तणउ तासु तं आवइ
एउ न बहुसुवन्नजन्नहो फलु
तेणेयई उज्जोइयगयणई
विस्सभूइ तं निमुणिवि राएँ
पभणित अन्नदाणु गरुयारउ
फलु भिक्खद्धहो सोक्खजणेरउ
ता त तेण मणा वि न मन्नित
विणु अन्ने अन्नेहिँ न किज्जइ

ताम ताई जायई इगालई ।
परिवज्जइ किज्जइ नाजुत्तउ ।
इयरहो पर दरिसावइ आवइ ।
आयहो भिक्खादाणहो निम्मलु ।
सजायई विवरीयई रयणई । ५
पत्तदाणफलु हुयअणुराएँ ।
बहुदोगच्चदुक्खखयगारउ ।
दे महुँ लइ जन्नद्धहो केरउ ।
तेणाहारदाणु पर वन्नित ।
जीवहो जीवियत्थु छुह छिज्जइ । १०

घत्ता—अतरु सुरगिरिहे सिद्धत्यहो भासित जेत्तित ।

अन्नहो अन्नहें वि कणयाइयदाणहें तेत्तित ॥५॥

६

जेण वाहि वाहिल्लहो छिज्जइ
वाहिवखइ सुहूँ दुक्खु नियत्तइ
आणज्जयणेहिँ पत्तु निरंतरु
कम्मक्खउ करेवि निव्वाणहो
ओसहदाणु तेण गरुयारउ
वारमइहे वसुएवहो पुत्ते
मणि परिवड्डियधम्माणंदे
ओसहदाणु मुणितहो दिन्नउ

त फुडु ओसहदाणु भणिज्जइ ।
नियधम्माणुट्टाणं पवत्तइ ।
खवइ कम्मु रइयासवसवरु ।
वच्चइ सासयसोक्खनिहाणहो ।
देवउ दायारे सुहयारउ । ५
असमविसमविककमसजुत्ते
कुसलत्तणु करेवि गोविदे ।
दूसहवाहिवियभणु छिन्नउ ।

घत्ता—पुज्जित सुरवरहिँ सुविहूइए सो सम्भावे ।

होसइ तित्थयरु तिहयणगुरु सो सम्भावे ॥६॥ १०

७

जीवदयासमु हुयउ न होसइ
जइ तिहयणु सयरारु दिज्जइ

दाणु चउग्गाइदुक्खु विणासइ ।
तो वि न अभयपदाणहो पुज्जइ ।

जो एककु वि सरीरु आसासइ

तासु वि पुत्रहो मोल्लु न दीसइ ।

उक्तं च—यो दद्यात्काश्चनं मेरुं कृत्स्नां चापि वसुधराम् ।

एकस्य जीवितं दद्यात् फलेन न सम भवेत् ॥

५

हिरण्यदान गोदान भूमिदान तथैव च ।

एकस्य जीवितं दद्यात् फलेन न सम भवेत् ॥

जो पुणु सव्वजीव म भीसइ

तासु महापुरिमहो कि सीसइ ।

एककदियहकएण एककेण वि

जीवदयादाणे पाणेण वि ।

वाणारसिहे आसि दिढचित्ते

सुसुमारदहि ब्रधिवि घित्ते ।

१०

सुरपूर्याहिसेउ सपत्तउ

नरवड पुरु परिवारु वि सत्तउ ।

चिरु उज्जेणिहे विगयविवेएं

धीवरेण नामे भवदेए ।

किउ मुणिदभासिउ गरुयारउ

मेल्लिउ एककु मीणु चउवारउ ।

तेण तेण चउआवइचत्तउ

मरिउ रायसेट्टित्तणु पत्तउ ।

सव्वहें अभउ जेण पडिवन्नउ

तेण भुवाण भणु काई न दिन्नउ । १५

घत्ता—जीवदयाई विणु दाणु वि दिज्जतु अजुत्तउ ।

निष्फलु सव्वु तहो तवु कायकिलेसु निरुत्तउ ॥७॥

८

धम्माहम्मु देउ गुरु सत्थे

दसणु नाणु चरिउ परमत्थे ।

जीवु अजीवु वि आसवसवरु

निज्जर वधु मोक्खु भवभयहरु ।

लोयालोउ वि सगनु मुणिज्जउ

अवरु वि त न ज न जाणिज्जइ ।

सत्थे समउ समत्थिउ अच्छइ

लइउ कुवाइहिं खयहो न गच्छइ ।

एउ वियाणिवि जेण निरुत्तउ

दिन्नउ सत्थदाणु जिणवुत्तउ ।

५

तेण चउग्गइगमणकयतहो

तित्थु पअत्ताविउ अरहतहो ।

विज्जादाणु देइ जो माणउ

सो भवि भवि हवेइ बहुजाणउ ।

तिहुयणगुरु सव्वणहु भडारउ

सो हवेइ सासयमुहसारउ ।

कि बहुएण भुयगमराएं

खडसिलोयहो फलु अमहाएं ।

पत्तउ पडुरिएण न मारिउ

गरुडे गुरु भर्णावि जयकारिउ ।

१०

एककक्खरहो वि जइ जउ दिज्जइ

तो वि न गुरुहे भत्ति मुविज्जइ ।

घत्ता—एककक्खरु वि गुरु अविद्याणमणु जो निदइ ।

सयवारउ हवइ सो साणु पाणु कहिं निदइ ॥८॥

९

एवमाइ मुणिवयणु मुणेप्पिणु
 अज्ज प्हइ तुज्ज पयपकय
 भो भयवंत विवज्जियकम्मं
 तं निसुणेवि मुणिदं दिन्नउ
 एत्तहे केण वि जंते काले
 सामिय सोमसिरी ओलग्गइ
 निप्पहरणु प्हुकज्जु न सारइ
 तेण देव सो होइ न भत्तउ
 अन्नहिं वासरि नयणाणंदे
 नियनित्तिसु लएवि पलोइउ
 सयलसहाप्र पससिउ सारउ

भणिउ अमच्चे पय पणवेप्पिणु ।
 सरणु मज्जु दूरुज्जिभयभवभय ।
 करि पसाउ महु जिणवरधम्मं ।
 सावयधम्मु तेण पडिवन्नउ ।
 रायहो कहिउ कट्टकरवाले । ५
 मूढउ सावयधम्मं वग्गइ ।
 सकडि केम विवक्खु वियारइ ।
 थिउ प्हु अवधारिवि अवचित्तउ ।
 चालिवि लोहकहाउ नरिदे ।
 न सहमडवु विज्जुज्जोइउ । १०
 अवरु ण एवविहगुणधारउ ।

धत्ता—परिवाडीप्र पुणु सव्वाण वि' लेवि किवाणइं ।

पुहईसिण सइं दिट्ठइं जमजीहसमाणइं ॥९॥

१०

पच्छा मग्गिउ मति विसारउ
 तेण वि जाणिउ जाणिवि अप्पउ
 कणयमुट्ठि कट्टमउ सकोसउ
 कड्डइ जा सरोसु पुहईसरु
 तहो तेएण दिट्ठि ह्य लोयहो
 पिसुणहं वयणु पलोइवि राएं
 तुम्हइं कहिउ मज्जु हियभावे
 ओलग्गप्र असिणा कट्टमएं

जोयहुं केरिसु खग्गु तुहारउ ।
 धीरे सुमरेविणु परमप्पउ ।
 अप्पिउ मडलग्गु ह्यहिंसउ ।
 ता हुउ सूरहामु भाभामुरु ।
 समुहुं नियइ कुसूरुज्जोयहो । ५
 भासिउ कि न निएहु कसाएं ।
 सोमसिरी तुम्हइं असभावे ।
 ता प्हु भणिउ मुणियजिणसमएं ।

धत्ता—एयहिं सच्चु तुह उवइट्ठु खमहु पुहईसर ।

लोहसत्थधरणे खणु अत्थि मज्जु परमेसर ॥१०॥

१०

११

पुन्नपहावे संदरिसियजसु
 मुणिवि एउ सव्वेहिं पससिउ

कट्टमओ वि हूउ असि एरिसु ।
 देवाह साहुकारु नहि घोसिउ ।

६. १ सव्वणेवि ।

निवडिय पुप्फविट्ठि आयासहो
पुज्जिउ पुरदेवीण विसेसे
फलु पच्चक्खु णिएविणु धम्महो
पुत्तु थवेवि रज्जि अणुराएँ
अवरेहिँ मि केहिँ मि तउ लइयउ
मज्झु वि विण्हूसिरीण पउत्तउ

गउ जणु णिरवसेसु परिओसहो ।
जयमगलरवदुदुहिघोसे ।
चत्त णिवेण तत्ति निवकम्महो । ५
लइय जिणिददिवख ससहाएँ ।
केहिँ मि सावयवउ सगहियउ ।
तप्पहूइ सम्भत्तु निरुत्तउ ।

घत्ता—आयन्नेवि इउ धम्माणुरायसजुत्ते ।

पुच्छिय णायसिरि नामेण कत वणिउत्ते ॥११॥ १०

१२

आहासइ सइ कासीदेसे^१,
निवहो जियारिहि कचणचित्तहे
अज्जण उसहसिरिण सबोहिय
वयमाहप्पे रोयविवज्जिय
णवजोव्वण णरवइहिँ असेसहिँ
जणणु विसेसप्पिउ भखावइ
ओडुविसयराये भवदत्ते
एप्पिणु बहुवलेण वेड्डिउ पुरु
कन्नारयणु सकप्पु अदत्ते
चालिय दित्तिलदिलिय न चत्तलइ

वाराणसिपुरि लद्धविसेसे ।
मुडिय नाम पुत्ति हुय कतहे ।
सा माट्टिय खायति निरोहिय ।
हुय रइ व्व रूवे अपरज्जिय ।
मग्गिय असहियविरहकिलेसहिँ । ५
ताहँ माज्झ एक्को वि न भावइ ।
छोहानलजालोलिपलित्तं ।
बलिउ वइरि जियारि हुउ कायरु ।
निसिहि सपरियणेण नासते ।
मेत्तलेवि जाड केम मणु सत्तलइ । १०

घत्ता—असमत्थेण रणे पुच्छिउ पुरोहु पुहईसे ।

कि कीरइ कहिउ तेण वि तहो णाणविसेसे ॥१२॥

१३

एयहि पाडिहेरु होएसइ
सुणिवि एउ सा तहिँ जि मुएप्पिणु
एत्तहे परवलु पबलु पइट्टउ
रायउत्ति भवदत्तहो तट्ठी
वयमाहप्पे दहु वि रवन्नउ
तत्थ सुहेण परिट्टिय सुदरि

अच्छतहो तुह सति न दीसइ ।
गउ रयणिहे नरिदु नासेप्पिणु ।
लहसिओ पट्टणु लोउ पणट्टउ ।
गगादहि गतूण पइट्ठी ।
रयणुज्जोइउ घर सपन्नउ । ५
तहिँ पइसतु सतु नृबकेसरि ।

१२. १ कस्सीरवेसि ।

थंभिउ पुरदेविऽ थिउ केहउ
हुऽ पहाऽ अंतेउरलोएँ
तहे वयणे पुरदेविऽ मुक्कउ
नरनाहेण सयलपरिवारे
सुरवरेहिँ सुविहूइऽ पुज्जिय
तं निऽवि केहिँ वि पव्वइयउ
मुड्डिया वि उसहसिरीदिक्खय

तडि कट्टमउ सिलामउ जेहउ ।
मन्नाविय कुमारि कयसोएँ ।
लज्जवि थिउ दप्पेण विमुक्कउ ।
थुणिउ खमाविय कयणवयारे । १०
आणदिउ जणु दुदुहि वज्जिय ।
केहिँ वि पुणु सावयवउ लडयउ ।
हुय तवसिणि मयलागमसिक्खय ।

घत्ता—नायसिहिऽ भणिउ पिय तप्पहूइ महु सुहयरु ।

हुउ समत्तु दिहु मिरिचदजमुज्जलु मलहरु ॥१३॥ १५

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले ॥
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे गुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते ।
सोमसरि-मुड्डियाण कहाए छव्वीसमो सची ॥

संघि २७

१

धुवय—पउमलया पिय पचमिय पुच्छिय वणिनाहेण महासइ ।
नियसम्मत्तदिढत्तणहो कारणु कहसबधु पयासइ ॥

अगाजणवण चपापुरवरि	धाडीवाहणरज्जसुहकरि ।	
उसहदासु णामेण वणीवइ	होतउ तासु पिया पोमावइ ।	
पोमसिरी सुय तहें उप्पत्ती	नावइ नायकन्न अरइत्ती ।	५
बुद्धदासु नामेण पसिद्धउ	अवरु वि वसइ तत्थ वणि रिद्धउ ।	
बुद्धदासि पिय रूवरवन्नउ	बुद्धसघु तहें पुत्तुप्पन्नउ ।	
सो समित्तु एक्कहिं दिणि तेत्तहें	गउ वणिदजिणमदिरु जेत्तहें ।	
देवच्चणु कगति तरलच्छिय	पोमसिरी तहिं तेण नियच्छिय ।	
मोहिउ मयणे तहें आसत्तउ	दुक्खु दुक्खु गउ गेहु पहुत्तउ ।	१०
थिउ सेज्जहें पडेवि चिताविउ	गपिणु मायरीण बोलाविउ ।	

घत्ता—का अमुहत्थी कह सुसुय जेण न तुह कि चि वि पडिहासइ ।
आयन्निवि मायहें वयणु लज्ज मुएप्पिणु सो आसासइ ॥१॥

२

जइ जणोरि निरुवमरूवसिरी	उसहदासतणया पोमसिरी ।	
परिणमि तो हउं निच्छउ जीवमि	इयरहें पेयाहिवपुरि पावमि ।	
एउ सुणेवि ताए आदन्नए	कहिउ गपि नियकतहो कन्नए ।	
तेण वि एवि मयणसिहितवियउ	गुणवयणेहिं पुत्तु सिक्खवियउ ।	
दुल्लहलभि चित्तु ज किज्जइ	त केवlu अप्पउ विनडिज्जइ ।	५
अम्हई मसासिय सो सावउ	सच्चसउच्चायारसहावउ ।	
अम्हई चडालाई व भावइ	पुत्तय तासु पुत्ति को पावइ ।	
मा विरहग्गिणु अप्पउ जालहि	अहवच्छह' उवाउ पडिवालहि ।	

घत्ता—एम भणेवि लेवि तणउ गपि जसोहरु मुणि पणवेप्पिणु ।
सावउ करिवि पवचु हुउ बुद्धदासु जिणधम्मु सुणंप्पिणु ॥२॥ १०

२. १. अहवच्छइ ।

३

छट्टिवि बुद्धधम्मु निच्छम्महो
 उसहदासु साहम्मियभत्तउ
 एक्कहिँ दिणि जिणमदिरि हिट्टिण
 बुद्धदासु पोमावइनाहे
 किउ समग्गु गउरउ गरुयारउ
 अरुइए लइउ व दिसउ पलोयइ
 ताम उसहदासेण भणिउजइ
 भणइ धुत्तु जइ पुत्तु महारउ
 कवलगहणु तो करमि तुहारण

लग्गा वे' वि निघवि जिणधम्महो ।
 करइ नेहु अवियाणियचित्तउ ।
 अच्छिवि अन्नोत्तु जि सुहगोट्टिण ।
 निउ घरु भोयणत्थु कयगाहे ।
 वड्डिउ भोयणु पाणपियारउ । ५
 जाम न केम वि कवलुच्चायइ ।
 मित्त न कि कारणु जेमिज्जइ ।
 परिणावहि नियसुय सुहयारउ ।
 मदिरि णयणणदजणेरण ।

घत्ता—एत्थु अजुत्तउ काइँ पईं भणिउ उसहदासेण पवत्तउ । १०
 धीयउ सुहि अम्हारियउ सावयाहँ देयाउ णिरुत्तउ ॥३॥

४

ज दिज्जइ तुह त पर धन्नउ
 साहम्मिउ मणेवि अणुराएँ
 दिन्नी सुय करेवि परमुच्छउ
 हुउ मुहि बुद्धसधु सहुँ ताएँ
 परिणोप्पिणु पुणरवि हुय तारिस
 वदयधम्मसवणु अणुवासरु
 हलि पोमसिरि परमकारुणियउ
 कमकमलाइँ तामु पुज्जतहँ
 त न ताहे पडिहासइ चित्तहो

भुजहि करि पसाउ पडिवन्नउ ।
 सांहणदिणि सुहिसयणसहाएँ ।
 किउ विवाहु रिद्धीण अतुच्छउ ।
 अहवा नदइ को ण उवाएँ ।
 वेन्नि वि सुर पियति गसियामिस । ५
 करहँ ताहे दूसति जिणेसरु ।
 बुद्धो ते पसु जेहिँ न सुणियउ ।
 सिज्झइ मग्गु मोक्खु भायतहँ ।
 गउ काले जणेरु पचत्तहो ।

घत्ता—अवसरु परियाणेवि पुणु कइवयदियहहे तेहिँ पउत्तउ । १०
 पोमलच्छि अम्हहँ तणउ णाणु मुणइ नीसेसु जयत्तउ ॥४॥

५

तेण मुणिउ जिणधम्मे जायउ
 सुणिवि ताण अम्भतरकोवए
 निच्छउ अवरु एउ को बुज्झइ

तुह जणेरु वणे हरिणु वरायउ ।
 भणिया खणियवाइ सविवेयण ।
 तह वि हु जइ अम्हारिसु मुज्झइ ।

३. १ ते ।

मेल्लिवि बुद्धधम्मु किं किज्जइ
 एम भणेवि ताहँ मणु तोसिउ
 हक्कारिय पडिवत्ति समारिय
 बाहिरि ताणेक्केक्की लेप्पिणु
 दिन्नउ सरसु भोज्जु आणदिय

अन्नु वि जत्येरिसु जाणिज्जइ ।
 अन्नहिँ दियहिँ निमंतउ पेसिउ । ५
 भवणब्भंतरम्मि बइसारिय ।
 पाणहिया तिममणु रंवेप्पिणु ।
 सव्वहिँ पोमसिरी अहिणंदिय ।

घत्ता—पुच्छिय जंतहिँ नियनिलउ अम्हहँ एक्केक्की एत्थ थिया ।
 देहि पलोएवि पोमसिरि पाणहि न मुणिज्जइ केण निया ॥५॥ १०

६

मुणिवि पडुत्तरु दिन्नउ धुत्तिए
 तुम्हई दिव्वनाणि विन्नायउ
 संपइ तिह तेणेव नियच्छह
 एह सुणेप्पिणु दिन्नाकोसहिँ
 भो तुह मुयवहूए निक्किट्टए
 गुरु परिहउ सुणेवि धिक्कारिय
 वे वि ताई परदेसहो चलियई
 सत्थ वि अवरोप्परु लोह गय ।

वदयाहँ पोमावइपुत्तिए ।
 जिह मुउ महु जणेरु सजायउ ।
 खाइवि तिममणु पुणु मई पुच्छह ।
 गपिणु वणियहो कहिउ सरोसहिँ ।
 खाविय पाणहियउ निक्किट्टए । ५
 सा सपिय वि ससुरे नीसारिय ।
 पुरवाहिरि दो सत्थहँ मिलियई ।
 भुजिवि सविसु भोज्जु रयणिहिँ मय ।

घत्ता—वारिज्जतु वि पिययमए रयणीभोयणखणु भजेप्पिणु ।
 ह्यउ बुद्धसघो वि तहि निच्चेयणु विसन्न भुजेप्पिणु ॥६॥ १०

७

पोमसिरिहे पियसोउ करतिहे
 हुए पहाए सुहिसयणसहायउ
 नंदणु मुयउ निएप्पिणु रुन्नउ
 डाइणीए पई पुत्तु महारउ
 बहुवयणेण काई जीवावहि
 पायमूले तहो एम भणेप्पिणु
 मज्झ लहेवि निमित्तु पराइउ
 इय चित्तेवि कयंजलिहत्थए
 जइ ण विरूवी हउँ कामु वि जणि
 जइ दिदु निसिभोयणखणु पालिउ
 तो विसवेयणाए निच्चेट्टउ

दुक्खु दुक्खु गय रयणि रुयतिहे ।
 वणिवइ बुद्धदासु तत्थायउ ।
 वहुयहे अब्भक्खाणु विइन्नउ ।
 खद्धु ससत्थलोउ सुहयारउ ।
 न तो ज न पत्त त पावहि । ५
 नदणु थविउ तेण आणेप्पिणु ।
 एउ निहत्तउ कम्मु पुराइउ ।
 ताए पउत्तउ पुन्नपसत्थए ।
 जइ निच्चलु महु मणु जिणसासणि ।
 जइ मई अन्न पुरिसु न निहालिउ । १०
 सासणदेवि नाहु महु उट्टउ ।

घत्ता—मूयउ वि जीविउ तहिँ समऽ बुद्धसधु तहे पुन्नपहावें ।

अवरु वि सत्यलोउ सयलु मुक्कउ विसवेयणसंतावें ॥७॥

८

पेक्खह दूरीकयसंतावें

एम भणेवि पसंसिय सव्वहिँ

हुउ आणदु महंतु महीयलि

हय दुदुहि कुमुमोहनिमित्तउ

तं निएवि उज्झिउ मिच्छत्तउ

केहिँ मि लइय दिक्ख तउ तत्तउ

अणुगुणसिक्खावयसजुत्तउ

बुद्धदामु सकलत्तु सपुत्तउ

मयउ वि' जीवइ पुन्नपहावे ।

पुज्जिय पणमिय सा गयगव्वहि ।

विहियपससहि देवहिँ नहयलि ।

पडिउ मुअधु सलिलु जणु सित्तउ ।

लोउ सयलु जिणधम्म पसत्तउ । ५

पुत्तु कलत्तु वित्तु परिचत्तउ ।

केहिँ मि सावयवउ सपत्तउ ।

हुउ सावउ भावियरयणत्तउ ।

घत्ता—पोमलयाऽ कहेवि कह भणिउ नाह हउँ एह निएप्पिणु ।

निच्चलमण जिणधम्मो ह्य ससयभाव सव्व भेत्तेप्पिणु ॥८॥ १०

कुदलयाभणिद सेस वत्तव्व ।

९

पुणु वणिनाहे ववगयकुच्छिय

कहइ अत्रतिदेसि उज्जणिहे

अत्थि तामु रामाऽ सख्यउ

नामे उमउ भणिज्जइ कहउ

पुत्ति वि जिणयत्ता जिणयत्तहो

उमउ वि तहिँ परदव्वु हरतउ

सेट्ठिहे दक्खिन्नेण विमुक्कउ

हक्कारिवि नरवालनरिदे

पुत्तु समुद्दत्त तुह केरउ

चोरियाऽ बहुवारउ गहियउ

संपइ जइ सक्कहि तो वारहि

कणयलया नामे पिय पुच्छिय ।

वणिउ समुद्दत्तु सुहजोणिहे ।

सायरदत्तऽ पुत्तु पसूयउ ।

बहुवसणिउ धन्नंतरि जहउ ।

दिन्नी कोसविहे वणिउत्तहो । ५

बहुवाराउ तलारहिँ पत्तउ ।

पुणरवि खलु अवराहहो दुक्कउ ।

भणिउ वणीसरु णयणाणदे ।

पावयम्मु दुम्मइ विवरेरउ ।

तुह दक्खित्ते नउ निग्गहियउ । १०

मरणसमुद्दहो ऽहु उत्तारहि ।

घत्ता—पहुआएसु पडिच्छियउ गपि गेहु दुव्वयणहिँ ताडिउ ।

जणणे जणणिऽ बंधवहिँ कुलछारणु नयरहो निद्धाडिउ ॥९॥

१०

तावहिँ सत्थवाहसुयसहियउ

तत्थ वि बहिणिऽ पेच्छिवि भायरु

८. १ ब ।

गउ कोसविहे वज्जियसहियउ ।

वत्त सुणेप्पिणु किउ मदायरु ।

तेण वि तेण विराएँ गंपिणु
 सुणिवि धम्मु दुग्गइकयवसणहँ
 सावयधम्मसमउ सम्मत्ते
 अबरु अयाणियफलहो अबग्गहु
 तं सुणेवि मन्नाविवि आणिउ
 एत्तहिँ लद्धलाहृगंजोल्लिय
 सत्थवाह ते तेहि समाणउ
 उमउ जि चल्लिउ पयणियहरिसहिँ

भत्तिण रिंसि रिसिगुत्तु नवेप्पिणु ।
 किउ परिहार भत्ति दुव्वसणहँ ।
 लइउ समुद्दत्तवणिउत्ते । ५
 अंगीकयउ भाविसुहसगहु ।
 वहिणिणु दिन्नु दव्वु सम्माणउ ।
 करिवि वणिज्जु सदेसहो चल्लिय ।
 पुच्छिवि वहिणि पत्तसम्माणउ ।
 आय समीवहो कइवयदिवसहिँ । १०

घत्ता—उक्कंठिय मणमंदिरहो सत्थु मुएवि जाहिँ जामतरि ।
 भुल्लिवि विहिवसेण पहहो निवडिय भीसणं गुहिलवणतरि ॥१०॥

११

पहपव्वभट्टहिँ तम्मि भमतहिँ
 दिट्ठु तेहिँ किपाउ रवन्नउ
 विसयसुहाई व पढमु सुसायई
 सब्वहिँ चारु भणेवि सुयधई
 पुच्छिउ कवणु एहु उमएँ तरु
 वुत्तु सहाएँ समयसामे
 कडुयउ नीरमु त वज्जिज्जइ
 भणइ वणिदपुत्तु अमुणियफलु
 तेण रसेण सब्व धुम्माविय

पहसमभुक्खतिस(समसतहिँ ।
 मरणु व तरुवेणवइन्नउ ।
 परिणामम्मि महादुहदायई ।
 तामु फलाई खाहुँ पारद्धई ।
 सोहइ सउरिसो व्व वरफलधरु । ५
 तोडिज्जहिँ कि सहयर नामे ।
 ज मिट्ठुउ सुयधु त खज्जइ ।
 असमि न भजमि नियवउ निम्मलु ।
 हुय निच्चेट्ट महीयलि पाविय ।

घत्ता—करहुँ परिकख वियक्खणणु जणमणहरु नियरुवु करेप्पिणु । १०
 दूमियचित्तु मित्तमरणे भणिउ उमउ वणदेविणु एप्पिणु ॥११॥

१२

कि न पहिय देवाहँ वि भोज्जई
 एहु रुक्खु अवियाणियनामउ
 आयहो फलई खाइ जो माणउ
 मरिवि कयावि न दुक्खु निरिक्खइ
 एत्थु आसि सामरि वाहिल्ली
 आयहो फलरसेण सुच्छायउ
 एउ म जाणहि जं एए मय

एयई खाहि फलाई मणोज्जई ।
 पुन्नहिँ पाविज्जइ अहिरामउ ।
 वाहिविहीणु होइ सो अहिणउ ।
 नाणे सयरायरु वि परिकखइ ।
 होंती हउँ जरजिन्न गहिल्ली । ५
 सुदरु महु सरीरु सजायउ ।
 उट्टुहिँ लग्गा होएवि अक्खय ।

एम भणेवि ते वि उट्टाविय
ता वणिवइपुत्तेण पउत्तउ
तो वि माए वउ लइउ न भजमि

करिवि मणोज्ज तीए तहो दाविय ।
ज भावइ तं होउ निरुत्तउ ।
अवियाणियतरुहलईं न भुजमि । १०

घत्ता—पेक्खेविण् निट्ठाहु तहो तुट्टए देवयाए बोलिज्जइ ।
हउं वणदेवि पसन्न तुह मग्गहि दिढपइज्ज कि दिज्जइ ॥१२॥

१३

तेण भणिज्जइ जइ महुं देवय
ता एवहिं वयस जीवावहि
ता ते तीए सब्व उट्टाविय
छ्हतिससमु अबहरवि सरीरहो
देविए वुत्तु पुत्त पत्तहो पुरु
सव्वविहरहरि एम भणेप्पिणु
एत्तहिं वणि कुसलेण पट्टत्ता
अन्नहिं वासरि जणहो नियतहो
रयणकुमुमगधोवयवरिसणु
नरनाहेण वि परमविहोएँ
त निएवि राएँ थिरचित्तहिं
लइयउ तउ केहि मि सावयवउ

हुय पसन्न सच्चउ निहयावय ।
अन्न वि नयरपथु दरिसावहि ।
नियमाहप्पे मुय जीवाविय ।
सुहिसबधु करेप्पिणु धीरहो ।
तुज्जु करेसमि गुणिगउरउ गुरु । ५
गय नियनिलयहो कुहिणि कहेप्पिणु ।
मिलिय कुहुबहो ह्य सइत्ता ।
किउ पूयाहिसेउ देविए तहो ।
दुदुहिनीसणु कियउ पससणु ।
पुज्जिउ सो सयलेण वि लोएँ । १०
उमईं सहुं मणुएहिं बहुत्तहिं ।
केहि मि दिढु दसणु ह्यभवभउ ।

घत्ता—कणयलयाए पउत्तु पिउ मज्जु वि त निएवि कोऊहलु ।
सजायउ सिरिचदजससद्दहाणु जिणसासणं निम्मलु ॥१३॥

कुदलयाभणिद सेसं वत्तव्वं ।

विबिहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले ।
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते सत्तवीसभो संघो ।
एत्थेभो पोमनिरीउमयकहाकहणनामो ह ।

संधि २८

१

ध्रुवयं—सत्तमघरिणि वणीसें घम्ममणीसे पुच्छिय विज्जुलया पुणु ।
कहहि केम ह्यकलिमलु तुज्जुम्भयमलु हुउ सम्मत्तु महागुणु ॥

सा कहइ णाह मयणाहिरामि
नामेण सुज्जकोसवि अत्थि
तहिं मणिमयकुडलघिटुगडु
महएवि तासु विजयाहिहाण
तत्थेव बसइ सुरदेवनामु
वाणिज्जहो जाएवि भगलिदेसु
ढोइउ सुगडनरवइहे तेण
एक्कहिं दिणि कयमासोववासु
चरियहे पइट्ठु तेणेवि दिट्ठु
दिन्नउ तहो भोयणु नवपयारु

तरपूजणवए जणदिन्नकामि ।
पट्टणु जहिं एक्कु वि दोसु नत्थि ।
सुहं करइ रज्जु नरवइ सुगडु । ५
मुणिवरहो खमाइ व गुणनिहाण ।
वणिनदणु कयजिणमुणिपणामु ।
आणेवि तुरउ पावियविसेमु ।
तेण वि कयत्थु किउ बहुघणेण ।
मदिरि रिसिसेणु मुणिदु तासु । १०
उट्टेप्पिणु पाडिगाहिउ वरिट्ठु ।
सच्चिउ मुहु पचाइसयसारु ।

घत्ता—तेत्थु जि पुरि वणिउत्तहो सायरदत्तहो विहवविंलासहिं चत्तउ ।
सरिदत्तए' जणियउ नामे भणियउ पुत्तु पआनिहिदत्तउ ॥१॥

२

चित्तउ मणि तेण ससाहुकार
आणमि हरि हउं मि मणोहिराम
इय भणिवि भगलिदेसहो सहेउ
तहिं तेहिं मिलेवि पलासगामि
तिहिं वरिसहिं उप्पन्नए उवाए
गय एम भणेवि समुद्दत्तु
नामेण कुडुंविउ तहि असोउ
रक्खावइ सो ह्य सुणिवि तासु
तेण वि पडिगाहिउ गुणनिवासु
[.....] वइ सामिसेव

दाणहो फलु निएवि सुवन्नघार ।
पावमि जेणे'रस अत्थकाम ।
गउ नियवयसवणियहिं समेउ ।
अन्नोन्न भणिय धणकणपगामि ।
सव्वहिं वि मिलेवउ एत्थ ठाए । ५
थिउ तेत्थु जि पहसमसमियगत्तु ।
निवसइ सलग्गसपयसमेउ ।
गउ सायरदत्तहो पुत्तु पासु ।
[.....] ।
रक्खइ ह्यसाहणु निच्चमेव । १०

१. १ सरिदत्तए ।

घत्ता—वीयसोय सुहलक्खण सुट्ठु वियक्खण गेहिणि तामु असोयहो ।
कमलसिरि त्ति तणुब्भव जाणियमणुब्भव रूवे रइ व तिलोयहो ॥२॥

३

सो अइइहे आणेऊण ताहे
नाणा कदई मूलई फलाई
हुउ काले कमलसिरिहे सिणेहु
जइ होइ कह व महु दइव कतु
चित्तति एउ अहनिमु मयच्छि
एक्कहिँ दिणि गमणाउलमणेण
कमलाणणि हलि कमलसिरि एत्थु
सहि तुज्ज भसएँ गुणनिहाणि
हुउ सेबावहि कलयठिसदि
त सुणित्रि ताए गगिरगरिग्राए
भो वल्लह हउँ मि न एत्थ थामि

अणुदिणु नेहेण अणोवमाहे ।
कुमुमाई देइ वरपरिमलाई ।
भावइ सो मोरिहिँ नाई भेहु ।
ता होज्जउ एहु समुददत्तु ।
नवनेहभरच्छाहिँ कमललच्छि । ५
पियसहि पउत्त एयति तेण ।
न वियाणिउ मई किच्चि वि अणत्थु ।
महु सरिउ सब्बु जिह निययठाणि ।
लइ सज्ज खमेज्जहि जामि भदि ।
बोलिलउ सणेहरसनिब्भराए । १०
निच्छइण सुयणु पईँ समउ जामि ।

घत्ता—मणि मन्नियउवयारे विणयागारे वणिउत्तेण पउत्तउ ।
परउवयारिणि पहियहँ सहँ धणरहियहँ पियसहि जाहुँ न जुत्तउ ॥३॥

४

तुहुँ असहियदुहि सोमालमुत्ति
अम्हई देसिय सपयविहीण
पच्चेल्लियउवयारहो किलेसु
अच्छहि सुहुँ लइ महु तणिय सिक्ख
भासइ असोयसुय पईँ समाणु
पईँ विणु कुडुसु मुहि सयणु सब्बु
जइ नेहि न तो मारेवि जाहि
पडिबन्नु तेण ता ताहे गमणु
ताए वि तामु उवइट्ठु भेउ

सुहि वच्छलि गम्भेसरहो पुत्ति ।
परपेसणजीवय दुहविलीण ।
काहीसमि तुह नेप्पिणु विदेसु ।
धरि रिद्धि मुद्धि मा भमहि भिक्ख ।
वल्लह महुँ दुक्खु वि सुहनिहाणु । ५
पडिहासइ कहिँ महुँ जीवियव्वु ।
लइ मूलहो फेडहि विरहवाहि ।
अह नारिरयणु परिहरइ कवणु ।
अहवा अणुरत्तहो चिण्हु एउ ।

घत्ता—अच्छति अणोवम वेत्ति तुरंगम जलगयणंगणगामिय । १०
सोणासयवन्नज्जल सालस दुब्बल मुणेवि लइज्जसु सामिय ॥४॥

५

जलगामिउ जसु तणु रत्तवन्नु
आयासचारि जो हंसभासु

सो चालइ किच्चि मुयतु कण्णु ।
सो कि पि न चालइ गुणनिवासु ।

ता तेण गंवि उवएसु लेवि
परिओसिउ सायरदत्तपुत्तु
एत्तहे खमयावहि सभरेवि
विन्नविउ नवेप्पिणु तेण सामि
पडिवन्नु असोएँ चित्ति ठाइ
तेण वि निव्वेडिवि एक्कु ताहँ
भासिय ए लेमि सुणेवि एउ

परियाणिय वाइ निएवि वे वि ।
थिउ पोइए तत्थ हवेवि धुत्तु ।
आगय वणि वाणिज्जइँ करेवि । ५
दिज्जउ जं वुत्तउ घरहो जामि ।
जो सो लइ सुदरु एक्कु वाइ ।
ते वे वि तुरगुत्तम हयाहँ ।
चित्ताविउ पट्टु कि कहिउ भेउ ।

घत्ता—ए आलसिय अलक्खण सुट्ठु सुलक्खण अवर लेहि जे भावहिँ । १०
देसतरि मणरुय सोहण नववय जे नीयवि बहु पावहि ॥५॥

६

विरुय वि ए होतु न अन्न लेमि
इय भणिवि निवासहो गउ असोउ
को एत्थु समीहइ मज्झु छेउ
सव्वेहिँ मि मयमायगगामि
केण वि जाणेप्पिणु कहिउ मम्मु
कि रूसहिँ परियणजणहो नाह
निच्छउ सा तहो आसत्तबुद्धि
जइ देमि कह व देसियहो पुत्ति
अह देमि न तो आयहे न अन्न
जा रत्त जासु सा तासु नारि
इय लोयवयणु अपमाणु केण

तावच्छउ अज्जु पहाए देमि ।
पुच्छिउ हक्कारिवि निययलोउ ।
कि पहियहो कहिउ तुरगभेउ ।
पट्टु जाविउ सवह करेवि सामि ।
तुह पुत्तिहे केरउ एउ कम्मु । ५
घरभेएँ कामु न नट्टु राह ।
इयरहँ कह कहइ तुरगमुद्धि ।
तो भणहिँ सयण विरइय आजुत्ति ।
भावेसइ होसइ वरु विसन्नु ।
इयरहो पुणु फुट्टु पच्चक्ख मारि । १०
किज्जइ इय चित्तेविणु मणेण ।

घत्ता—ताएँ रूवरवन्नो तासु जि दिन्नी सुय सुहँ पुव्वुत्तामहि ।
रूपिणि व्व गोविंदे परमाणदे परिणिय तेण वि ता सहि ॥६॥

७

कइवयदिणेहिँ गमणत्थिएहिँ
बोलाचिवि नावडयहो कहेवि
थोवतरु जलनिहिमज्झि जाम
भो कमलसिरीपिय कहमि तुज्झु
उत्तारमि तो तइँ नेमि पर

चल्लिउ घरु सो सहुँ सत्थिएहिँ ।
पल्लट्टु ताउ सुय सिक्खवेवि ।
वच्चति वुत्तु नाविण्ण ताम ।
जइ एक्कु तुरंगमु देहि मज्झु ।
न तो न पराणमि कहिउ सारु । ५

ता बोल्लिउ कमलसिरीपिएण
जइ सच्चइ तो परतीरु नेहि
अगलउ अवरु कि चि बि न देमि
जइ नेहि न भणइ समुद्दत्तु
ता तं तडम्मि उत्तारिऊण
एत्तहे असोयतणयहे तणेण

केवट्टु काई बहु जपिएण ।
जं वुत्तु तरावणु तं लएहि ।
इयरेण भणिउ तो हउँ न नेमि ।
ता आणहि तीरहो जाणवत्तु ।
गउ तरिउ परोहणु पेरिऊण । १०
उवएसे सो तोसियमणेण ।

घत्ता—आरुहिऊण तुरगमे गयणंगणगमे सायरसोह नियतउ ।
इयरु धरेवि जलोवरि [...] आगउ घरहो सकतउ ॥७॥

८

अन्नहिं दिणि कमलसिरिहे करम्मि
गयणगणगामिउ तुरउ लेवि
राएण वि दुल्लहु हउ निएवि
नियनदणि नाई अणगसेण
पावेप्पिणु पहुसम्माणु वित्तु
सो उसहसेणवणिवरहो वाइ
पालइ पहुवयणे करइ तत्ति
अट्टमि चउदसिहे सय वाणदु
जाणिय सदिट्ठि विसुद्धदिट्ठि
पुणु चालवि चालइ लालिऊण
जनु वि आवतु वि एम तामु

वारिचरु धरेप्पिणु नियघरम्मि ।
गउ दिट्ठुं नियनरवइ नवेवि ।
पडिगाहिउ रज्जहो अद्घु देव ।
दिन्नी नामेण अणगसेण ।
हुउ सिरिदत्तहे सुउ सुहियचित्तु । ५
राएण समप्पिउ सुद्धजाइ ।
वेयड्डुगिरिदहो उरुयभत्ति ।
तहिं चडिवि जाइ वदहुं जिणिदु ।
विरसामइ अतरि तुरउ सेट्ठि ।
हत्थेण तिवारप्फालिऊण । १०
सो करइ विहाणु तुरगमासु ।

घत्ता—पहुपच्चतणिवासिउ सुहडसयासिउ जियसत्तु जि पसिद्धउ ।
अत्थि चरडु छलइत्तउ साहसवतउ परधणहरणपइट्टुउ ॥८॥

९

अत्थाणि तेण नियपरियणामु
तरपूजणवए बहुधणकणम्मि
भूवइहे सुगडहो तुरयरयणु
त आणिवि जो महुं देइ तामु
पहुवयणु मुणेप्पिणु समरसोडु
हउँ आणमि देव भणेवि एउ
जिणभवणि तत्थ अच्छतएण

जपिउ मुहु जोइवि साहिलासु ।
भो रविकोसमीपट्टणम्मि ।
अच्छइ धरि वणिगहो कमियगयणु ।
अहिलसिउ देमि साहसघणामु ।
सहसभडु एक्कु नामेण कौडु । ५
गउ बंभयारि होइवि सवेउ ।
रजिउ जणु उग्गतवेण तेण ।

दुक्खंति चक्खु मिसु करिवि धुत्तु
केण वि ओलक्खिवि कहिय वत्त
महूँ एहु ण भावइ बभयारि
एयहो नउ दिज्जइ भवणि वासु
साहम्मिउ मन्निवि तो वि तामु

थिउ एककहँ दिणि धरि तहँ जि सुत्तु ।
धुत्ताहँ वि अत्थि महंत धुत्त ।
वणिवर निद्धम्मिउ डंभयारि । १०
दुज्जणससग्गं होइ नामु ।
वीससइ वणीसरु देइ वासु ।

घत्ता—दाविउ हउ पुच्छंतहो उवएसु वि तहो कि चि वि तामेक्कहँ दिणे ।

रत्तिहे सेट्ठि पसुत्तउ सो छलइत्तउ गउ हरि हरिवि नहगणे ॥१॥

१०

अवियाणियसम्मुवएसएण
जतेण परावत्तिउ तुरगु
मुउ चोरु तुरगमु गयउ तेत्थु
तिपयाहिण देप्पिणु पुरउ थक्कु
चितागइ मणगइ नाम वेवि
हयवइयरु ता तहो कहिउ सव्वु
हणु एहु करेण तिवार वाइ
उवसग्गु नियत्तइ होइ हिट्ठि
तो तेणाहउ हउ गउ तुरतु

गिरिकक्करविसमपएसि तेण ।
तेण वि पाडिउ किउ देहभगु ।
सिरिसिद्धकूडजिणभवणु जेत्थु ।
तहँ अक्सरि चारणजुयलु दुक्कु ।
पुच्छिय खगेण केण वि नवेवि । ५
पुणु चितागइणा भणिउ भव्वु ।
नियनिलउ जेम गयणेण जाइ ।
जेणुसहसेणु जसु लहइ सेट्ठि ।
पट्टणु पयगकोसवि पत्तु ।

घत्ता—एत्तहे वणिजणपुगमु हरिउ तुरगमु जाणिवि रायहो भीयउ । १०

दुविहाणसणु लएप्पिणु भाणु रएप्पिणु थिउ जिणभवणि विणीयउ ॥१०॥

हयहरणु सुणेप्पिणु पहु पवित्तु
पेसिउ वणि मारहूँ किकरोहु
उग्गामिय घाय हणति जाम
एत्थंतंरि एप्पिणु गयणि तुरउ
आमेल्लिय देवहँ पुप्फविट्ठि
पेच्छह जिणिदधम्महो महप्पु
किउ पाडिहेरु पुज्जिउ वणिदु
राएण वि पुरपरियणजणेण
तं निण्वि नरिदे अप्पकज्जु
अवर वि जिणयत्तायरियपासि

भेघासणु^१ नं तुप्पेण सित्तु ।
तेण वि जाएप्पिणु किउ निरोहु ।
थभिय पुरदेविणु सव्व ताम ।
थिउ देवहो भामरि देवि पुरउ ।
हय दुट्ठि सथुउ रायसेट्ठि । ५
देवहँ मि सइदहँ जणिउ कपु ।
सुरवरहँ विहइणु न जिणिदु ।
परिपुज्जिउ आणदियमणेण ।
किउ सहुँ वणिणा जि मुएवि रज्जु ।
हय सजय तुट्टणु मोहपासि । १०

११. १ मेतासणु ।

घत्ता—एम कहेवि कहंतरु सवणसुहकर विज्जुलयाप्र पउत्तउ ।
तप्पहइ दुक्कियहरु महुँ सिवसुहयरु हुउ सम्मत्तु निरुत्तउ ॥११॥

१२

निसुणेवि एउ वणिवइ सभज्जु
अह चारु पलोइउ कहिउ भदे
आयन्नवि कुदलयाप्र वुत्तु
इच्छामि पडिच्छामि नेव एउ
निग्गहु पहाप्र वड्डियमलाहे
इयरहुँ सव्वहुँ सम्माणदानु
एत्तहे वि समुग्गउ गयणि भाणु
आगउ वणिभवणि वि गुणनिहाणु
राएण विनिम्मलजसपयामु
दूरीकयदुक्कियकम्मबधु
मुहि कवण हि मणि मिच्छाहिमाणु

पभणइ पई पिययमि किउ मणोज्जु ।
सइहिउ सुट्ठु कलयंठिसइ ।
किउ तुम्हहिँ एत्थु न कि पि जुत्तु ।
चित्तप्र सुणेवि नरवइ सखेउ ।
एयाहे करेवउ मई खलाहे । ५
इय चित्तिवि गउ घरु नरपहाणु ।
पुहईवइ परिमियजणसमाणु ।
तेण वि किउ अब्भागयविहाणु ।
पुच्छिउ पुहईसे अरुहयामु ।
आयन्नवि निसिहे कहापबधु । १०
भामिणि का करइ न सइहाणु ।

घत्ता—त निसुणेवि मणोज्जप्र सेट्ठिहे भज्जए कुदलयाप्र पउत्तउ ।
हुँ सइहमि न एयहेँ विगयविवेयहेँ सामिय वयणु अजुत्तउ ॥१२॥

१३

कि कारणु पुच्छइ पुहइपालु
अम्हेहिँ वि दिट्ठउ पयडु एत्थु
भासइ सा पहु एहु वि मणोज्जु
एयहिँ जिणसासणे परिणएहिँ
बुज्झियसुयदिट्ठहो फलु विवेउ
हुँ मंदबुद्धि परसमयभत्त
मई पुणु न कयाइ जिणिदधम्मु
एयहेँ जि अज्जु उवइट्ठु रत्ति
कि बहुणा अज्जु जि जइण दिक्ख

विभियमणु मति वि मइविसालु ।
मूलाहियकहवइयरु पसत्थु ।
पच्चक्खु वि पेक्खवि धम्मकज्जु ।
कि कियउ न तउ जाणियनएहिँ ।
कज्जेण तेण नृव भणिउ एउ । ५
दुद्धिट्ठुसुयदुक्कियरत्त ।
माहण्णु पलोइउ हयविहम्मु ।
आयन्नवि हुय महु गरुय भत्ति ।
गेण्हमि सिक्खमि निरवज्ज सिक्ख ।

घत्ता—एउ सुणेप्पिणु राएँ सव्वसहाएँ तुट्ठएण अणुमन्निय । १०
तुहुँ सकियत्थ सउत्तो गुणसपुत्ती एम भणेप्पिणु वन्निय ॥१३॥

१४

तुहुँ पर परियाणहि धम्मभेउ
इय भणिवि निवेण सपरियणेण

सजाउ जाहिँ एरिसु विवेउ ।
धम्माणुरायरंजियमणेण ।

परिहरिवि रज्जु गुणधणु मुणिदु
 मंतीसरो वि नामें सुबुद्धि
 चोरु वि सुवन्नखुरु सुद्धभाउ
 अवर वि अणेय जिणदिक्ख लेवि
 उदिदोदयाइनिवनारिसत्थु
 मित्तसिरिपहूइउ सेट्टिणीउ
 अवरेहिँ पयत्ते लइउ रम्मु
 कालेण चरेवि चरित्तभाह

तउ लइउ नवेवि तिनोयवंदु ।
 हुउ संजउ भ्रट्टपयारसुद्धि ।
 पव्वइउ करेप्पिणु सव्वचाउ । ५
 थिय माणव मउ मच्छह मुएवि ।
 दिक्खंकिउ जायउ एवकवत्थु ।
 हुउ अज्जिउ सम्मार्दिट्टिणीउ ।
 सहँ सम्मत्तेण गिहत्यधम्मु ।
 उदिदोदउ भूवइ सवणसाह । १०

घत्ता—महिमंडलि विहरेप्पिणु धम्मु कहेप्पिणु सिरिचदुज्जलकित्तिघउ ।
 सन्नासेण मरेप्पिणु जिणु सुमरेप्पिणु सहँ सव्वहिँ सुरलोउ गउ ॥१४॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले ॥
 भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोमे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते एत्थ कोमुइक्कहाए ।
 एसो तुरयकहन्वा अट्टाहियवीसमो सधी ॥

संधि २६

१

जीववधो अप्पवधो जीवदया होदि अप्पणो हु दया ।
विसकंटओ व्व हिसा परिहरिदव्वा तदो होदि ॥ [भ.आ. ७९६]

जीववधो जीवहिंसा अप्पवधो आत्मघातो भणितो भवतीत्यर्थः । सुगममपरम् ॥ जीववधे
अप्पवधो एत्यक्खाणं ॥

ध्रुवयं—दूरोसारियजीववहु पयडियजीवदयागमनिम्मलु । ५
पणवेप्पिणु जिणु पायडमि जीववधादियाहँ सुम्मउ फलु ॥

नासिक्कनयरपच्छिमदिसए	सुपसिद्धि अत्थि कोकणविसए ।	
गामउडु पलासगामि पयडु	नामे सुदामु समयत्तजडु ।	
तहो भज्जईं फलिहपईहभुओ	वसुदामु सुदामए जणिउ सुओ	
नियगामसमीवि असोसजलु	काराविउ ते तलाउ विउलु ।	१०
तहो पालिहे किउ उज्जाणवणु	तहो मज्झि दुग्गदेविहे भवणु ।	
सहँ विसयजणेण पावनिरउ	वरिसहो वेवारउ तहे पुरउ ।	
महिमुच्छउ जीवहँ करइ वहु	गामम्मि भमाडए देविरहु ।	
कालेण पवडियपावभरु	सजाउ तामु खयवाहिजरु ।	
कायरु सुदामु हुउ मरणखणे	उट्टिउ हाहारउ बंधुजणे ।	१५
हक्कारिवि पुत्तु परिट्टविउ	उवइट्टु कि चि कचणु ठविउ ।	

घत्ता—सुणु वसुदाम परोक्खे महँ जो मगए तहो भोयणु देज्जसु ।
जिह छम्मासिय देवयहे होइ जत्त तिह पुत्त करेज्जसु ॥१॥

२

मुउ एम भणेप्पिणु गामवइ	तत्थेव पत्तु तिरियंबगइ ।
हुउ छेलउ पावे भारियउ	तहे देविहे अगए मारियउ ।
कंपंतु कणतउ गीडमउ	वाराउ सत्त एव निहउ ।
अट्टमियहि वारहि तक्कडउ	पुणरवि संजायउ बोक्कडउ ।

संधि २६ के आदि मे लिखा है 'ज्ञानोपयोगः' ।

महिमुच्छवि वसुदामेण पुणु
आलोणवि मुणि निज्जरियरउ^१
बे बे त्ति भणतउ गहियभउ
नाणेण तन्नो मुणिणा मुणित्त
तुहँ मूढ आसि अमुघायपित्त
एवहिँ कि कंदहि को धरइ
परिपुच्छित्त वसुदामेण मुणी

मारहुँ निज्जतु देविभवणु । ५
जाइसरु^१ खणि संजाउ अउ ।
तरुतलि मुणिणाहहो पामु गउ ।
पेक्खंतहो तहो बोक्कडु भणित्त
एवहिँ अणुहुजसु पुव्वकिउ ।
अम्हारिसु लोयहो कि करइ । १०
कहि कि किमेउ ता कहइ मुणी ।

घत्ता—एहु छेलु वसुदाम तुह तणउ ताउ पावेण मरेप्पिणु ।
सत्त वार हुउ बोक्कडउ दिनु सहत्थे देविहि नेप्पणु ॥२॥

३

पहँ भक्खिउ आयहो तणउ वउ
मइँ एहु समासइ विन्नवइ
पभणित्त मइँ रिद्धिनिमित्तु किउ
हउँ रक्खेवइँ असमत्थु जणे
आयन्नवि दव्वदामु चवइ
उज्जाणि जेण एरिसु विउलु
अणवरउ उवाइउ जीववहु
जइ तेण न पाविउ मोक्खपउ
निसुणेवि एउ भासइ सबणु
तो धीवर पारद्विय पवरा

सपइ सुमरेप्पिणु पुव्वभउ ।
परितायहि परितायहि चवइ ।
ज पइँ तं एप्पिणु पुरउ थिउ ।
ज रुच्चइ त चित्तवहि मणे ।
मुणि एउ कयावि न संभवइ । ५
काराविउ देविहे देवउलु ।
किय पुज्जिय अच्चिय देववहु ।
तो निच्छउ सग्गु सदेहु गउ ।
जइ जीववहाइ सग्गमणु ।
सुरलोइ मणोहर होति सुरा । १०

घत्ता—जीववहाण न धम्मु सुय ताइँ नवर नरयहो जाइज्जइ ।
सुहगइ जीवदयाइँ पर सासयसोक्खलच्छि पाविज्जइ ॥३॥

४

वसुदामु पयपइ कि बहुणा
धणु थविउ मज्झ किच्चि वि कहिउ
जाणमि जाईसरु जइ कहइ
मुहु जोइवि मुणिणा भणित्त पसु
ज जीवहि न तो धुवु मरणु

भयवंत मरंतएण पिउणा ।
किच्चि वि पुणु कायरेण रहिउ ।
तो ताउ महारउ सुहु लहइ ।
जा जाहि बप्प दक्खवहि वसु ।
तुह नत्थि एत्थ कोइ वि सरणु । ५

२. १ निज्जरित्त रउ ।

२ जाइंभरु ।

मुणिवयणु सुणेप्पिणु गयउ तहिं
 चरणेण खणेप्पिणु दावियउ
 धी धी संसारु असारयरु
 नंदणहो समप्पिवि निययपउ
 अवरु वि जणु तं पेक्खेवि हूउ
 केहिं वि जिणदेवदिकख लइया

नियखेत्तमियारुणु दव्वु जहिं ।
 वसुदामउ पच्छा तावियउ ।
 भणिऊण एउ वेरग्गपरु ।
 संजाउ दियंबरु लेवि तउ ।
 सहुं देविणु जीवदयाणु जुउ । १०
 केइं वि संजाय अणुव्वइया ।

घत्ता—पालेवि पंचाणुव्वयइं गुरुआणइ सम्मत्तु धरेप्पिणु ।
 छेलओ वि सुहलोउ गउ मरणयालि जिणु मणि सुमरेप्पिणु ॥४॥

५

जीवदया होदि अप्पणो हु दया । एत्थक्खाण ।

सिप्पानइसमीवि सविसेसुणु
 धीवरु जलसंचारपवीणउ
 जमघटारउद् तहो केही
 कहिमि कालि नामेण जसोहरु
 नंदणवणि सधे सहुं सठिउ
 मियसेणु वि पारद्धिहे चल्लिउ
 आइउ कोइडे तत्थ तुरंतउ
 गणु जणवणु वउ लज्ज मुएप्पिणु
 भासइ रिसि वउ तुज्जु न जुज्जइ

सिसवगामि अबंतीदेसणु ।
 अत्थि पयडु नामे मियसेणउ ।
 गेहिणि जमरायहो विहि जेही ।
 आउ महारिसि तत्थ जसोहरु ।
 गउ जणु त वदहुं उक्कठिउ । ५
 पेच्छिवि लोयजत्त गजोल्लिउ ।
 आयन्नवि मुणि धम्मु कहतउ ।
 मग्गिउ तेण साहु पणवेप्पिणु ।
 पढमउ जीवरक्ख तहिं किज्जइ ।

घत्ता—ताणु विहूणउ कियउ वउ णिप्फलु जाइ सव्वु अकियत्थउ । १०
 वउ वि सुदिट्ठिविवज्जियउ वयणु व छिन्ननासु अपसत्थउ ॥५॥

६

ता मियसेणें भणिउ भडारा
 ज पहिलारउ जालि पडेसइ
 एम भणेवि लेवि खणु तेत्तहे
 तत्थ तेण जालेण निबद्धउ
 मेल्लिउ मच्छकुलक्खयकालें
 करिवि चिण्हु परियाणिवि चत्तउ
 गउ दिवसयरु ताम अत्थवणहो

कि बहुएण पावविणिवारा ।
 त महु अवसमेव न मरेसइ ।
 गउ सिप्पासरीहे दहु जेतहे ।
 एक्कु पोढु पाढीणउ लद्धउ ।
 पुणरवि सो ज्जे निबद्धउ जाले । ५
 ताम जाम सरवारउ पत्तउ ।
 अवरु वि निव्विन्नउ नियभवणहो ।

रित्त निएप्पिणु कावडि कंतप्र
किं कारणु रित्तउ अज्जायउ
किं तुहुँ किं हउँ भुक्खणु सरयुइँ

पुच्छिउ नाहु छुहासमसंतप्र ।
किं मडलि मीणक्खउ जायउ ।
कहिं खाहेति काइँ डिंभ रुयइँ । १०

घत्ता—ताम कहिज्जइ तेण तहे अज्जु भज्जे मइँ साहुसमीवइ ।
धम्मु सुणेप्पिणु लइउ खणु पढमजालि पडियहो मारेवइ ॥६॥

७

लेवि निवित्ति गंपि सिप्पा णइ
पडिउ एककु पाढीणु गुरुक्कउ
गउ दिणु हउँ निब्बिन्नु नियत्तउ
गउ तुहुँ खल खवणयसंसग्गिप्र
जो गउ रित्तहत्थु घरु आवइ
नीसरु जाहिं जाहिं जमथत्तिहे
गउ उत्तरु अदिनु नियपत्तिहे
तत्थ सुयनु भुयगँ डसियउ
हुप्र पहाप्र मुउ अहिणा दट्टउ
तहो दुक्खेण मरेप्पिणु सरयहो

घल्लिउ जालु रुद्ध जलयरगइ ।
सो जे सरवारउ' [मइँ] मुक्कउ ।
ता रुद्धाप्र ताप्र अहिखित्तउ ।
मारियाइँ सब्बइँ भुक्खणिगप्र ।
सो किम धरिणिहे वयणु विहावइ । ५
पडउ वज्जु चडु वियहि बलत्तिहे ।
धिउ मुत्तहरि पडिप्पिणु रत्तिहे ।
निउ जीविउ जमघाडिप्र मुसियउ ।
जोयत्तिप्र जमघटप्र दिट्टउ ।
गय पाविट्ठिणि पंचमनरयहो । १०

घत्ता—उज्जेणिहे उज्जमपरहो पुत्तु सत्थवाहहो बहुवित्तहो ।
हुउ सो उयरि सिरीमइहे गब्भि घणकित्ति गुणवालहो (?) ॥७॥

८

[...]
गुणवालपुत्ति राएणवभत्थिय (?)
गुणवालहु मणु तत्थ ण मण्णिउ
पुत्ति लेवि गउ णियधणु भित्तहो
नियथो गब्भिणि तत्थ मुएप्पिणु
[...]
पेच्छिवि सो चरियाहे पइट्टे
[...] पज्जय वरु गुणनामे
हा किह जियइ किलेसे दारउ

[...]
मंतिपुत्तपरिणयणि समत्थिय ।
तम्हा परदीवतरि चल्लिउ ।
थविवि तत्थ पुरि धरि सिरियत्तहो ।
गउ गुणवालु निसल्लु हवेप्पिणु । ५
[...]
भणिउ जसोहह साहु कणिट्टे ।
पेच्छह एहु कम्मपरिणामे ।
आयन्नहि ता भणइ भडारउ ।

घत्ता—एहु वि एयहो तणप्र धरं पुन्नवसँ गोसामिउ होसइ । १०
रायपसाप्र पसारियउ सोक्खपरपराउ पावेसइ ॥८॥

९

प्रायस्त्रेवि दियंबरजंपिउ
 मुणिवरवयणु कयावि न चुक्कइ
 धीरें तो वि उवाउ करेवउ
 इय चित्तैवि पाणिउ कौक्काविउ
 बालु भणैप्पिणु तेण वि रक्खिउ
 बहिणिवरेण पुत्तु करि पालिउ
 पाणकरे मारहुँ णेवाविउ
 तहिँ रुवंतु पालियगोविदें
 तेण सपुत्तु भणैवि अपुत्तहें
 ताण वि पुत्तसिणहे बालउ

सिरियत्तहो भएण मणु कंपिउ ।
 नीसदेहु पमाणहो दुक्कइ ।
 जाणिवि दुन्निमित्तु वचेवउ ।
 मारहुँ सो रन्नहो नेवाविउ ।
 मारिउ भणिवि एवि तहो अक्खिउ । ५
 एक्कहिँ दिणि सिरिदत्ते आणिउ ।
 तेण वि णउ मारिउ सथाविउ ।
 दिट्ठउ गोउलियण गोविदें ।
 पालहुँ दिन्नु नेवि नियकंतहें ।
 पालिउ जाउ जुवाणु गुणालउ । १०

घत्ता—एक्कहिँ वासरे गोउलहो कज्जत्थिउ वाणिज्जकलालउ ।

परिपालियपडिवन्नयहो गउ गोविदहो घरु सिरियत्तउ ॥९॥

१०

पेच्छिवि पुच्छिउ गोउलबालउ
 गोविदेण भणिउ सुह्यारउ
 वार वार पुच्छतहो अक्खिउ
 वणि बइयरु सुणेवि चिताविउ
 अज्ज वि करमि उवाउ वियप्पिउ
 पेसिउ नयरहो महुरु भणैप्पिणु
 उण्हालण खरतावाकतउ
 गणिय वसतसेण तत्थाइय
 छोडिवि कंठि निबद्धउ बालण

नंदणु कासु एहु गोवालउ ।
 कि न वियाणहि पुत्तु महारउ ।
 मित्ते मित्तहो गुज्झु न रक्खिउ ।
 एहु सो निच्छउ काणणि पाविउ ।
 लेहु लिहेप्पिणु तासु समप्पिउ । ५
 गउ सो पियराएसु लहेप्पिणु ।
 पुरपदेसि नंदणवणि सुत्तउ ।
 जीवियास नं तासु पराइय ।
 लेहु विचारिउ बुद्धिसालण ।

घत्ता—अवघारैवि लेहत्थु तण चित्तिउ आयहो रक्ख करेवी । १०

नहसुत्तिए णयणंजणेण जहिँ विसु तहिँ किय विस्सा देवी ॥१०॥

११

तेण कमेण पुणो गलगंठिउ
 गउ घरु पुच्छेप्पिणु पिउमित्तहो
 तेण वि किउ लेहत्थु रवन्नी
 पुज्जिउ जणि सब्बहिँ जामाइउ ।

गय सा सो वि सुएप्पिणु उट्ठिउ ।
 पुरउ निहित्तु लेहु तप्पुत्तहो ।
 निय सस तासु विवाहहुँ दिन्नी ।
 परमविहूइण पुन्नविराइउ

अन्नहिं दियहे सेट्टि तत्थायउ
किउ पई काई एउ सुउ भासिउ
आयन्नेवि एउ उद्देए
कि दुक्खई पियाए पुच्छिउ वरु
संभासमए देवि पुफ्फक्खय
मारणत्थु जहिं पुरिसु पवेसिउ

नियवि विवाहु विलक्खउ जायउ । ५
तेण वि तहो लेहत्यु पयासिउ ।
थिउ पडेवि चित्ताजरवेए ।
तेण वि कहिउ असेसु वि वइयरु ।
गघ धूव नाणा चरु दीवय ।
नायदेवदेउलु तहिं पेसिउ । १०

घत्ता—कहिं चल्लिउ जामाय तुहुं पुच्छिउ सिरियत्तहो' दायाएँ ।

तेण वि नायदेउ कहिउ पुज्जहुं सपेसिउ तुह ताएँ ॥११॥

१२

भणइ महाबलु ताउ गहिल्लउ
तुहुं न वियाणहि मग्गु नवल्लउ
अप्पहि पुज्ज जाभि नायालउ
तेण वि बलि मग्गतहो डोइउ
तहिं पइसतु समीहियदाणे
मारिउ सेट्टिहे पुत्तु पियारउ
मुउ सुउ जीवमाणु जामाइउ
उम्मुच्छिउ कह कहव सटुक्खउ

जो पई पट्टावइ एककल्लउ ।
नयरु महतु मिलइ कहिं भुल्लउ ।
तुहुं अच्छहि आवाणि' निहालउ ।
गयउ महाबलु काले चोइउ ।
मारिउ सो सकेइयपाणे । ५
जाणिउ जणि जायउ हा हा रउ ।
पेच्छेवि वणिवइ मुच्छ पराइउ ।
थिउ तुण्हक्कउ होवि विलक्खउ ।

घत्ता—बोलीणहिं कइवयदिणहिं वणिणा गुणसिरि कत पउत्तो ।

जइ जोयहि महु सोक्खु तुहुं तो पाडहि आयहो समसुत्ती ॥१२॥ १०

१३

पियवयणेण ताए ता मोयय
अप्पिय धीयहे एउ करेज्जमु
एम भणेप्पिणु अप्पणु बाहिरे
पुत्ति निएवि भणिय भूक्खाइउ
अच्छइ ज सिद्धउ त भोयणु
ता ते अवियाणत्तिए दिन्ना
मुच्छिउ विसरसेण मुउ वणिवइ
तहिं पच्छावि पिया वि पइव्वय

किय विसगन्निभण परमामोयय ।
ए पर नियभत्तारहो देज्जमु ।
गय सपाइय वणे एत्थतरे ।
छइडेवि रज्जकज्जु हउं आइउ ।
दे सखेवि म लायहि [तुहुं] खणु । ५
लइडुय ताए विसमविसभिन्ना ।
अवरु वि दुट्ठु लहइ परि सगइ ।
विसु खाएप्पिणु पियपये गय ।

घत्ता—मुउ वणिनाहु नराहिवेण को वि नत्थि संताणे सुणेप्पिणु ।

किउ जामाइउ सेट्टिपइ ससुरहो तणउ सव्वु घणु देप्पिणु ॥१३॥ १०

१४

जाणिवि जोगु सरूवु सलक्खणु
 निय सुय अद्धु रज्जु आणदें
 रायपसाएँ रज्जसमिद्धउ
 अच्छइ जाम भोय भुजतउ
 चरियहे' चारु चरतु' पइट्टउ
 पडिगाहिउ भत्तिण भुजाविउ
 पुच्छिउ मुणिवइ पुव्वभवतरु
 पालिउ पईं मुणिवयणु न खडिउ
 तहो फलेण सर आवइ पत्तउ

पडिवयणेण मुणेवि वियक्खणु ।
 दिन्नु तासु वसुदत्तनरिदें ।
 जायउ सोमयत्तु सुपसिद्धउ ।
 रिसि जयकेउ नाम सपत्तउ ।
 सेट्ठिसुयावरेण घरि दिट्ठउ । ५
 पंचपयारु दाणफलु पाविउ ।
 तेण वि कहिउ आसि तुह्वं धीवरु ।
 एक्कु मच्छु सरवारउ छडिउ ।
 मरिवि एह सपय सपत्तउ ।

धत्ता—मुणिवि विरत्तउ पुव्वभउ सोमयत्तु तवचरणु चरेप्पिणु । १०
 सिरिचट्टुज्जलु जसनिलउ गउ सव्वत्थविमाणु मरेप्पिणु ॥१४॥

विविहरमविमाणे पेयकोऊहलाले । तलियवयणमाले अत्थसदोहमाले ।
 भुवणविदिदनामे मव्वदोमावमामे । इह खलु कहकोसे मुदरे दिन्नतोसे ॥

मृणिमिच्चदपउत्ते मुविचिन्ने एत्थ जणमणाणदे ।
 एमो एउणनीमो नामेण दयाफलो सधी ॥

॥संधि २९॥

संधि ३०

१

मारेदि एगमवि जो जीवं सो बहुसु जम्मकोडीसु ।
अवसो मारिज्जतो मरदि विधानेहिं बहुएहि ॥ [भ.आ. ८०२]

जो मारेवि यो घातयति एकमपि जीवं प्राणिनं स प्राणी बहुषु जन्मकोटिषु अवसो परवशो मारिज्जंतो मार्यमाणो म्रियते नानाविधाने म्रियत इत्यर्थः । अत्रार्थे यशोधराख्यानं कथ्यते । सुप्रसिद्धत्वात् लिखितम् । ५

पाणो वि पाडिहेर^१ पत्तो वि सुसुमारदेहे ।
एगेण एगदिवसवकदेणहिंसावदगुणेण^१ ॥ [भ० आ० ८२१]

चाण्डालोऽपि प्रतिहार्यं देवतापूजनं प्राप्तं विक्षिप्तो सुसुमारनामनि गगाद्दे । एकेन एकदिनकृतेन ब्रह्मिणा ब्रतमाहात्म्येन । अत्राख्यानं कथ्यते ।

धुवयं—अवरु वि जीवदयाहे फलु आहासमि सुदरु । १०
कासीदेसि अत्थि पयडु वाराणसि पुरवरु ॥

नियविह्वोहामियसुरवारिदु	एत्थत्थि पायसासणु नरिदु ।
तक्करकुडुबमीणउलजालु	जयदडनामु तहो कोट्टुवालु ।
नियगोत्तकमायउ अत्थि पाणु	जमपासनामु ह्यचोरपाणु ।
आढत्तुवसगु समच्छरेण	चिरवइरे केण वि वेतरेण । १५
जरसासखासबहुवाहिधत्थु	जणु मरइ नयरि वड्डुउ अणत्थु ।
निसिसमप्र निरतर भूयपेय	भीसावहिं जणु भीसण अणेय ।
त नियवि नरिदे सतियम्मु	पारदधु निवारिउ हिंसकम्मु ।
दिवसट्ट करइ जो जीवघाउ	अविचारु तासु अवहरमि आउ ।

घत्ता—एरिस पुहईसहो सुणिवि घोसण पुरलोएँ । २०
घरि घरि सतियत्थु रइउ नियनिययविहोएँ ॥१॥

१. १ मरदि वि बंधणेहि । २. पाडिहेर । ३. एगदिवसवकदेण अहिंसावदफलगुणेण ।
४. पारदधि ।

२

दाणइँ ष्हवणच्चणपुज्जणाइँ
विहियाइँ विसेसे नायरेहिँ
तत्थेक्कु अत्थि वणि धम्मु नामु
वणि वज्जहो चुक्कउ कह व लद्धु
जाणिवि गड्डरिएँ कहिय सुद्धि
बधाविवि कारागारि छुद्धु
बोलति अट्ट दियहाइँ जाम
पच्छा मारेवउ पावयम्मु

हिंसालियचोरियवज्जणाइँ ।
किउ धम्मुच्छउ परमायरेहिँ ।
पाविट्ठु सुट्ठु पलकवलकामु ।
मारेप्पिणु तेण उरब्भु खद्धु ।
आयन्निवि राएँ सो कुबुद्धि । ५
अवरु वि इय सिक्खइँ विसमलुद्धु ।
खलु अच्छउ गोत्तिहे एउ ताम ।
थिउ एम भणेवि ह्यारि सम्मु ।

घत्ता—ता तहिँ सब्बोसहिनिलउ दूरुज्जिउ कामे ।

मुणि विहरतु पराइयउ अमिआसउ नामेँ ॥२॥ १०

३

थिउ एप्पिणु अडमुत्तए मसाणि
फसणमत्तेण वि गलिउ रोउ
मुणिमाहप्पेण मुएवि ठाणु
जमपासेण वि तत्थागएण
निदिवि नियकम्मु सुणेवि धम्मु
आवेप्पिणु पुरु पालियखणेण
अक्खेज्जमु आरक्खियहो वत्त
थिउ एम भणेप्पिणु ससि व मेहि
ता मायगिय तत्थागएण

तहो पायमूलि दुक्खावसाणि ।
सुहि अमरु सब्बु सजाउ लोउ ।
गउ कत्थइँ वितरु मुक्कमाणु ।
महरिसिवाएण वि गयगएण ।
चउदसिहि विवज्जिउ हिसकम्मु । ५
सिक्खविय कंत एयति तेण ।
गउ गामहो करहुँ विवाहजत्त ।
ल्लिहक्केवि पाणु पइसेवि गेहि ।
पुच्छिय भडेण चोरक्खएण ।

घत्ता—वट्टए तुह वरइत्तु कहिँ ता तए जमदडहो । १०

अक्खिउ वहिणिहे पाहुणउ गउ पोमिणिसडहो ॥३॥

४

जो विणिवाएवउ अज्जु चोरु
तं अवरु लएसइ धणु बहुत्तु
नत्थि त्ति वयणमत्तेण रहिउ
ता भणिउ तलारे रे ह्यास
तेण वि भयभीएँ नोसरेवि

तहो अत्थि विहूसणु हारु दोरु ।
आयन्निवि ताए तलारु वृत्तु ।
करसन्नए लोहवसाए कहिउ ।
नीसरहि तुरतु कयतपास ।
भासिउ सो संगय कर करेवि । ५

मई साहुसमीवि सुणेवि धम्म
तं खमहि पडिक्खहि अज्जु एक्कु
हउं रायाएसे आउ एत्थु
सहूँ तलवरेण ता तत्थ पाणु

चउदसिहिं विवज्जिउ हिसकम्मु ।
निसुणेवि भणइ नासियनिरिक्कु ।
पईं मुयवि न जामि समुच्चयत्थु ।
गउ जत्थच्छइ रिउतिमिरभाणु ।

घत्ता—तेण नवेप्पिणु विन्नविउ दरियारिकुलक्खउ ।

१०

साहुसमीवि पइज्ज मईं पहु लइउ दयावउ ॥४॥

५

त तुज्झु पसाएँ गुणगणाल
मायगहो कवणु वयाहियारु
जइ केसवसिवकमलासणाहँ
ता मेल्लिउ होतउ निच्छएण
पेच्छह उव्वरइ न को वि ताहँ
किउ अज्जु अहिंसावउ पहाए
..... सुमुमार-
ता मेढयचोरे भणउ पाणु
अवरेण वि केण वि हउँ निरुत्तु

निव्वाहमि मेल्लहि सामिसाल ।

..... ।

वउ लइउ होतु दुहनासणाहँ ।

विनडिउ तुहँ खलखवणयवएण ।

चंडालु वि लाइउ नियवयाहँ । ५

..... ।

दहि घिवहि निसुभिहि अनयकार ।

मईं मारिवि रक्खहि निययपाणु ।

मारेवउ ता पाणेण वुत्तु ।

घत्ता—ज भावइ त होउ महु पईं तो वि न मारमि ।

१०

गुरुवयणे अगोकरिय सपइज्ज न हारमि ॥५॥

६

तं सुणिवि तलारे चोरमारि
अवरु वि जो खवणयवयइँ लेइ
पुरि भामिवि एम भणतएण
तहि घित्तु चोरु मयरेहिं खद्धु
तहो तेत्थ सहेज्जउ जाउ धम्म
तहिं सीहासणि ठविऊण पाणु
किउ दुदुहिसद्दु पससमीसु
निसुणहो भो जणहो मुणीहि दिन्नु
सो इहपरलोयविवेयहीणु
पुरि पिट्टिज्जंतु जियंतएहिं

वधेवि स परदवावहारि ।

सो एवविह आवइ लहेइ ।

निय सुमुमारदहु दो वि तेण ।

पुणु जणहो नियंतहो पाणु छुद्धु ।

किउ तेण वलाहिउ पुलिणु रम्मु । ५

पुज्जिउ सुरेहिं पत्तो सुमाणु ।

तहिं अवसरि भूयहिं भूवईसु ।

जो छंडावइ वउ मदपुन्नु ।

पावइ अवत्थ एरिस निहीणु ।

भामेप्पिणु एम भणंतएहिं । १०

घत्ता—नीयउ सुंसुमारदहहो बंधेवि घिप्पंतउ ।
रक्खि रक्खि जमपास मई जपिउ कपंतउ ॥६॥

७

आयन्निवि भूयपिसायएहिँ	जमपासु भणिउ सकसायएहिँ ।
लइ आयहो तोणय न करहि तत्ति	दे दावहँ खलहो कयतपत्ति ।
पाणेण भणिउ कुलसामि एहु	अम्हारउ पेक्खइ जणियणेहु ।
खम किज्जउ मेल्लिज्जउ निरुत्तु	ता तेहिँ पायसासणु पउत्तु ।
जइ जीविण तुह अत्थि कज्जु	तो एहु करेप्पिणु पाणभोज्जु ।
जसमइ नियसुय न काचि देवि	परिणावहि अद्धउ रज्जु देवि ।
तो नरवइणा धरि आणिऊण	सकियायवत्ततले ष्हाणिऊण ।
पुरदेसहो कोसहो किकराहँ	सदणहँ तुरगहँ कुजराहँ ।
अद्धद्धु समप्पिवि जयपहाणु	किउ राणउ अप्पसमाणु पाणु ।
कहिँ सो कहिँ एवविह विहूइ	अह धम्मफलेण न काई होइ ।

घत्ता—तं पेच्छेविणु अच्छरिउ दूरुज्जिभयछम्महो ।
लग्गउ जणु सव्वायरेण जिणभासियधम्महो ॥७॥

८

सच्चं भणंति रिसओ रिसीहिँ विहियाउ सव्वविज्जाउ ।
मेच्छस्स वि सिज्भतिय विज्जाओ सच्चवाइस्स ॥ [भ० आ० ८३६]

सच्च सद्ब्रत वदन्ति । के ते ? ऋषयो मुनय । ऋषिभिश्च विहिता सर्वविद्या म्लेच्छस्यापि सिध्यन्ति विज्जाउ विद्या । कथंभूतस्य ? सत्यवादिन । अत्राख्यानम् ।

इह भरहि दक्खिणावहि विसालि	गिरिमलयखडि विसयहँ विचालि ।
देवाण वि दुग्गु मणोहिरामु	सुपसिद्धु अत्थि मायगनामु ।
वारह गाउयइँ न क्खु वि तसइ	तहो उप्परि सवरहँ देसु वसइ ।
तत्थत्थि विवत्थि विवाहकालि	सवच्छरद्धु गहणतरालि ।
पुव्वं चिय साधिवि बभचेर	सच्चिण विज्जा ढोयति थेर ।
नारी नरु वे वि कुमारयाइँ	तं साहहिँ साहियमारयाइँ ।
एयत्थ तत्थ निवसतयाहँ	पालियदिढसच्चवयाहँ ताहँ ।
दुग्गाम्मए चितियसयलकज्ज	सिज्भइ साहतहँ सवरविज्ज ।
चुए बंभे सच्चवए जणियरिद्धि	न कयावि हवइ तहो तणिय सिद्धि ।

सच्चेण सिहि वि सीयलु ह्वेइ
सच्चेण नरहो देव वि नमति
तउ सजमु सीलगुणा वि सब्व

सच्चेण अथाहु वि थाह देइ ।
वसि होंति भूय रक्खस तसति । १५
सच्चम्मि परिट्टिय गलियगव्व ।

घत्ता—अह वा कि बहु जंपिण्ण सयलु वि संपज्जइ ।
एक्के सच्चे होंतण्ण मोक्खु वि पाविज्जइ ॥८॥

९

पावस्सासवदारं असच्चवयण भणति हु जिणिदा ।
हियएण अपावो वि हु मोसेण वसू गदो निरय ॥ [भ० आ० ८४८]

पापस्यास्रवदारं ब्रुवन्ति । के ते ? जिणिदा सर्वज्ञा । कि तद् ? व्यनीकवचनम् ? हृदयेनापापो
पि हु स्फुट मोसेण असत्यवचनेन गतो नरकम् । कोऽसौ ? वसुनामा वसुधाधिप ।

आयन्नह वसुरायकहाणउ
नयरु अउज्झा नाम रवन्नउ
तहिँ विस्सावसु नाम नरेसरु
सुरकन्न व सुरकन्ना राणी
नदणु जणिउ ताणं नामे वसु
रायहो बभणु खीरकलवउ
तहो कतण्ण सत्थमइण्ण जणियउ
सत्थइँ पढहुँ पुत्तु पाणप्पिउ
बभणु विज्जत्थियउ विक्खायउ
ते तिन्नि वि वसुनारयपव्वय

अत्थि विणीदादेसि पहाणउ । ५
न सुरिदपट्टणु अवइन्नउ ।
करइ रज्जु ण सग्गि सुरेसरु ।
अत्थि तामु जुवइजणपहाणी ।
किउ अरिवग्गु जेण सयलु वि वसु ।
विप्पायारहो न पडिाववउ । १०
णदणु पव्वउ नामे भणियउ ।
वसु उवभायहो तामु समप्पिउ ।
अवरु हि नारउ नामे आयउ ।
पढहिँ सीसु आराहियगुरुपय ।

घत्ता—चउदसविज्जाथाणघरु अणवरउ पढावइ । १५
वसुहे पढतहो नारयहो सखेवेणावइ ॥९॥

१०

पव्वउ बहुसथहिँ वि न बुज्झइ
तुहुँ विउसब्भावेण पढावहि
तुहुँ वे वडु उव परउवयारिउ
जइ तुहुँ सब्भावेण पढावहि
तो ते सिक्खिय केम न नदणु
पभणइ भट्टु न कि पि वि बुज्झहि
९. १ सए ।

भट्टिणि भट्टहो उवरि विरुज्झइ ।
नदणु एवमेव भक्खावहि ।
पइँ सुउ सब्बकालु अवहेरिउ ।
वेयसडगमग्गु दरिसावहि ।
निच्छउ तुहुँ नियसतइमट्टणु । ५
सुद्धि अकारणु काइँ विरुज्झहि ।

तुह सुउ मंदबुद्धि कि कीरइ
घोसंतहो बहुदिणहिँ निरतरु
एरिसु बार बार अक्खइ पइ

नियमइ अन्नहो देहूँ न तीरइ ।
एयहो एइ कि पि पउ अक्खरु ।
तो वि न थक्कइ गरहंती सइ ।

घत्ता—हक्कारिवि एककहे दियहे चितवियउवाएं । १०
घरिणिहे पच्चयत्थु' भणिय ते तिन्नि वि ताएं ॥१०॥

११

गंपिणु हट्टु कवड्डा देप्पिणु
तं निसुणेविणु चितइ पव्वउ
खाएवि चणय कवड्डा आणहूँ
इय चितेवि वराडय देप्पिणु
एत्तहिँ सुदरबुद्धि विसारय
वणियहो तत्थ कवड्डा देप्पिणु
लेहूँ न ए विरूव पभणेप्पिणु
आणिवि ढोइय गुरुहे नवेप्पिणु
सत्थिमईहे वयणु जोएप्पिणु
पेच्छहि नियपुत्तहो मुखत्तणु

भक्खिवि चणयावह ते लेप्पिणु ।
ताउ गहिल्लउ न वियाणइ नउ ।
उक्कुरु' देति पसारिय जाणहूँ ।
आगउ सो चणया खाएप्पिणु ।
गय हट्टहो विन्नि वि वसुनारय । ५
गेण्हिवि चणय थोव खाएप्पिणु ।
तहो जि समप्पिवि सुव्वा लेप्पिणु ।
ते निय निय वइयरु पुच्छेप्पिणु ।
भासिउ भट्टे ईसि हसेप्पिणु ।
एयहँ तणउ कते घुत्तणु । १०

घत्ता—अन्नहिँ वासरि ताहँ पुणु एककेक्कु समप्पिउ ।
समउ कवड्डुएहिँ घउउ उवभाएँ जपिउ ॥११॥

१२

पुत्तहो हट्टि एउ घणु देप्पिणु
सहूँ मोल्लेण लेवि एत्थावह
त निसुणेप्पिणु पुव्वकमे पुणु
आणवि तुप्पहो कुंभ समप्पिय
तो वि न थक्कइ सा गरहती
तुह सुउ सिगहीणु पसु सच्चउ
एम भणेप्पिणु ताणेक्केक्कउ
भासिउ न निहालइ काइ वि जहिँ
तं निसुणेप्पिणु पव्वउ रत्तहो
तत्थ उरव्वहो कन्न लुणेप्पिणु

ए तिन्नि वि घउ घियहो भरेप्पिणु
नियमइविहवु मज्झु दरिसावह ।
तेहिँ पयासिउ निय निय मइगुणु ।
पुणु पुव्वुत्तु वृत्त विप्पे पिय ।
अन्नहिँ दियहिँ दिएण पउत्ती । ५
लइ अवरु वि दक्खालमि पच्चउ ।
सहूँ सत्थेण समप्पिवि बोक्कउ ।
कन्न लुणेवि एह एयहँ तहिँ ।
गउ नाणाविहतरुसच्छन्नहो ।
आगउ तायहो कहिउ णवेप्पिणु । १०

१०. १ एच्चयत्थु ।

११. १ दुक्कुरु ।

घत्ता—वसुनारय वि निएवि तहिँ भमिऊण पराइय ।
पुच्छिय खीरकलबएण विणएण विराइय ॥१२॥

१३

किमक्खयकन्न उरब्भ लएवि
पउत्तु विणोयहिँ दिट्ठविणोउ
दिवायरचंदगहा गयणमि
गिरिदगुहाहिँ गुणायरभूव
रसातले पन्नय समिग सुरोहु
पउत्तउ तुम्हहिँ को वि न जत्थ
तिलोए असेस पएस असुन्न
मुणेप्पिणु एउ पहिट्ठमणेण
समेउ सकतए बोत्तिलउ विप्पु
न लज्जइ तद्विवासावहिँ सा वि
परिक्खिय सीसहँ बुद्धिविसेसि

समागय विन्नि वि तुम्ह भमेवि ।
पलोयइ पट्टणि पट्टणलोउ ।
तिरिक्ख तरु वणदेव वणम्मि ।
नियच्छहिँ अम्हहँ पच वि भूय ।
निहालए पुत्तविहत्तजसोहु । ५
निरिक्खए कन्न लुणेज्जहे तत्थ ।
ते केव लुणिज्जहिँ एयहँ कन्न ।
हसेप्पिणु सीस पससिय तेण ।
पलोइउ पुत्तहो बुद्धिवियप्पु ।
पयपइ कि पि अणिट्ठु कयावि । १०
कयाइ वणम्मि विमुद्धपएसि ।

घत्ता—नाणेयंते पढंताहँ तहिँ वड्डारन्नउ ।

आइउ चारणमुणिजुयलु बहुगुणसपन्नउ ॥१३॥

१४

ते निएवि नवनीरयसदे
पेच्छह जिह आयमु अम्हारए
खेत्तसुद्धि काऊण पडिज्जइ
ए अन्नाण विवेयविवज्जिय
आयभो वि मिच्छायमु आयहँ
इय विणएण जि एउ पढतहँ
मरिवि महानरयहो जाएसहिँ
एम भणेप्पिणु आयासहो मुणि
ताहँ समीवि समासियमग्गा

पभणिउ वीरभद्दु सिवभदे ।
विणएण जि तिह एयहँ केरए ।
गणिणा त निमुणेवि भणिज्जइ ।
कुगुरुकुदेवधम्मगुणरजिय ।
दुग्गइकारण जीवनिकायहँ । ५
एयहँ मज्झि दोन्नि दियपुत्तहँ ।
दूसहदुक्खसयाई सहेसहिँ ।
ओयरेवि तरुमूलि महामुणि ।
होएवि सुयपरिवाडिहे लग्गा ।

घत्ता—आयन्नेप्पिणु विप्पवरु मणि चितइ सच्चउ ।

एउ कयाइ न मुणिवयणु संभवइ असच्चउ ॥१४॥

१०

१५

ए अज्ज वि अपाव जणपुज्जिय
 एयहुँ मज्झि पढमु जाएवउ
 जामज्ज वि ण जामि णरयावणि
 ते तित्ति वि तेणेउ वियप्पिवि
 अप्पणु पुणु निब्बेएँ लइयउ
 एत्तहि वेलाइक्कमि जायए
 पुत्तहो ताउ काई तुम्हारउ
 अम्हई पेसेवि अक्खइ पव्वउ
 नदणु सत्थिमईए तउ तहिँ

बभयारि विसएहिँ विवज्जिय ।
 मई पावेण नरए पइसेवउ ।
 सरणु पईसमि ताम महामुणि ।
 पेसिय घरु समिहाउ समप्पिवि ।
 साहुसमीवि विप्पु पव्वइयउ । ५
 पुच्छिय नदण दियवरजायए ।
 अज्ज वि नावइ लोयपियारउ ।
 एउ न जाणहुँ ताउ कहि गउ ।
 पेसिउ चत्तु जणेरु वणे जहिँ ।

घत्ता—ससहाएण तेण वियणे जोयते विट्ठउ । १०
 हुउ त्तिग्गथु महासवणु तरूमूलि निविट्ठउ ॥१५॥

१६

पव्वएण त तेम निएप्पिणु
 हा हा कि किउ एम भणेप्पिणु
 परिहणु पाणहियाउ लएप्पिणु
 अप्पिवि कहिउ जणेरिहँ वइयरु
 त मुणेवि हा नाह भणंती
 उट्ठिउ दुक्खु दुक्खविदाणी
 ता। पव्वउ पिउपइ आरूढउ
 नियमइविहवे ज जिह जाणइ
 एत्थतरि विस्सावसु राणउ
 खीरकयबायारिउ पससिवि

अम्हई ताय अणाह मुएप्पिणु ।
 सुइरु रुएप्पिणु पय पणवेप्पिणु ।
 जन्नोवइउ पवित्तिउ नेप्पिणु ।
 जिह सजायउ ताउ दियवरु ।
 पडिय धरायलवीढि रुयती । ५
 थिय निदेवि विप्पु विप्पाणी ।
 हुउ आयरिउ सव्वजणरूढउ ।
 त तिह विप्पसयहो वक्खाणइ ।
 आयन्नेविणु वत्त सयाणउ ।
 पुत्तकलत्तमोहु परिसेसिवि । १०

घत्ता—अप्पिवि वसु वसुमइ सुयहो निग्गथु ह्वेप्पिणु ।
 हुउ जइ जिणवयणासियउ गुरुपय पणवेप्पिणु ॥१६॥

१७

रज्जि वइट्ठे हक्कारेप्पिणु
 भणिय माय मग्गहि गुरुदक्खिण
 जइयहुँ मग्गेसमि गुरुवच्छल

वसुणा उज्झाइणि पणवेप्पिणु ।
 मणि परिभाविवि भणइ वियक्खण ।
 तइयहुँ तं देज्जसु जसनिम्मल ।

एम होउ भणिऊण विसज्जिय
तामेक्कहिं दिणि पड्यकरिदें
पारद्धिहे गएण हरिणहो सरु
चुक्ककुरगु बाणु पडिखलियउ
बिभिएण करफसे जाणिउ
गंपिणु जाणाविउ वसुरायहो
जिह न मुणइ जणु तिह आणाविउ
तासु उवरि सिघासणि राणउ

गय गुरुपत्ति निहेलणु पुज्जिय ।
काणणम्मि एक्केण पुलिदे । ५
आमेल्लिउ नित्तुलउ खयकरु ।
लग्गि वि फलिहयभि उच्छलियउ ।
उप्पाडि वि नियभवणहो आणिउ ।
तेण वि दिन्नु पसाउ किरायहो ।
निय सहमडवम्मि रोप्पाविउ । १०
सहइ निसन्नु सुरिदसमाणउ ।

घत्ता—अंतरिक्खि सच्चेण वसु सिहासणि अच्छइ ।

हुय पसिद्धि कोड्डेण जणु विभियमणु पेच्छइ ॥१७॥

१८

फलिहयभि तह निम्मलि सठिउ
उवरिचरो त्ति पयासियनायहो
तामेक्कहिं दिणि बुद्धिविसारउ
दिट्टउ पव्वउ किउ सभासणु
विहिय पव्वएण कायव्व
पुच्छिउ नारएण भो पव्वय
अय छेलय पव्वएण पउत्तउ
पव्वय सुमिरहि कि न गुरुत्तउ
जे जायति न ते अय ताए
तेहि ट्टणेवउ धम्मासत्ते

मन्नि वि लोएँ गयणि परिट्टिउ ।
बीयउ कियउ तामु वसुरायहो ।
आगउ गुरुसुयनेहे नारउ ।
अवरांप्परु चिन्नेहपयासणु ।
आयन्ने वि अएहि जडव्व । ५
अक्खहि बधव कि मन्निहि अय ।
भासिउ इयरे एउ अजुत्तउ ।
अय तिवरिस जववीहि निरुत्तउ ।
वक्खाणिय बहुवुद्धिसहाए ।
पसु पिट्टमउ करेप्पिणु मते । १०

घत्ता—एवमाइ मुणिवयणु अपमाणु न किज्जइ ।

त अपमाणु करताहँ नरयम्मि पडिज्जइ ॥१८॥

१९

इय अन्नोन्नविवाए कड्डिउ
अमुणियत्थु जडु रोसहो आयउ
जइ अन्नारिस्सु तो महु केरो
एम होउ सुदरु मइधामें
वसु पमाणु कल्लए बोल्लेवउ

दोहँ वि सीसहँ कलहु पवड्डिउ ।
पव्वउ कयपइज्जु सजायउ ।
जीह लुणिज्जइ अह व तुहारी ।
तं पडि वन्नउ नारयनामे ।
नियवयणु सहाए दिट्ठेवउ । ५

गउ घर विमणु निएपिणु मायए
 आवहि निच्चमेव मुच्छायउ
 दोसइ सयवत्तु व पफुल्लिउ
 तेण वि वइयरु कहिउ सुणेपिणु

पुच्छिउ पव्वउ वच्छलवायए ।
 अज्जु सुपुत्त काई विच्छायउ ।
 अज्जु काई तुह मुहु ओहुल्लिउ ।
 पभणइ मायरि सिरु विहुणेपिणु ।

घत्ता—हा सुय विरुय पइज्ज किय तुह ताउ सइत्तउ । १०
 अय तिवरिस जववीहिकण सुउ ववखाणत्तउ ॥१९॥

२०

हउँ मिच्छाहिमाणदप्पे हउ
 जाणतेण वि दुक्कियगारी
 कहसु केम एवहिँ कि किज्जइ
 अत्थि उवाउ एक्कु ओलग्गमि
 आसि दिन्न गुरुदक्खिण सारी
 एम भणेवि माय वसुरायहो
 तेण वि कणयासणि वइसारिय
 पुच्छिउ कहसु माए कि किज्जउ
 त निमुणेपिणु वसुणा वृत्तउ

..... ।
 किय पइज्ज मई जीवियहारी ।
 एउ सुणेवि ताए बोल्लिज्जइ ।
 गपिणु वसु पुहईहरु मग्गमि ।
 पुज्जइ जेण पइज्ज तुहारी । ५
 गय सामीवु भुवणविवखायहो ।
 पणवेपिणु पडिवत्ति समारिय ।
 भणिउ ताए गुरुदक्खिण दिज्जउ ।
 ज भावइ त मग्गि निरुत्तउ ।

घत्ता—भासिउ ताए पहाइ इह सगहियकसाएँ । १०
 नारय पव्वय वे वि जण आवेसहिँ वाएँ ॥२०॥

२१

तुहँ पमाणु किउ पई न हणेवउ
 पत्तिउ मग्गिओ सि अणुराए
 दिन्नासीसवयण परिपुज्जिय
 ता ते पसरि वे वि तत्थाइय
 नारएण वसु सच्चे साविउ
 जाणतेण वि एउ अजुत्तउ
 अह उवरोहँ काई न किज्जइ
 सहँ सीहासणेण खडहडियउ
 पभणइ नारउ अज्ज वि सच्चउ
 पुणरवि तेण तं जि आहासिउ

पव्वयवयणु पमाणु करेवउ ।
 ता पडिवन्नु वयणु वसुराए' ।
 पणवेपिणु गुरुभज्ज विसज्जिय ।
 सम्माणिय निवेण गुरुदाइय ।
 तेण वि ताहँ वयणु परिभाविउ । ५
 पव्वयवयणु पमाणु पउत्तउ ।
 किं अत्थि नियसीसु वि दिज्जइ ।
 वसु अलिणाययासहो पडियउ ।
 चवहि नरिद नियच्छहि पव्वउ ।
 चलइ मणा वि न पव्वयभासिउ । १०

२१. १ भराएँ ।

एम भणतउ लोएँ दिट्टउ
तइयए वारए दुक्ख करालहो

महिविवरतरि अद्धु पइट्टउ ।
गउ मरेवि सत्तमपायालहो' ।

घत्ता—पेच्छह मुणिसिरिचदजसु पुहईसु वि होतउ ।

एक्केण जि अलिएण वसु नरयावणि पत्तउ ॥२१॥

विविहग्मविमाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहमाले ।
भुवणविदिदनामे सव्वदांमोवसामिं । इह खलु कहकोसे मुदरे दिव्रतोसे ॥

मुणिसिरिचदपउत्ते मुविचित्ते एव्य जणमणाणदे ।

वमुनिवनग्गपवेमो नाम इमो तीसमो मधी ॥

॥ सधि ३० ॥

संघि ३१

१

धुवयं—दूरज्जिभयतावें सच्चपहावे नारउ परिपुज्जिउ सुरहि ।
वित्थारिवि दुज्जणु सच्चविवज्जणु पव्वउ नीसारिउ नरहि ॥

पत्तावमाणु विच्छायतणु
एत्तहे कुरुजगलजणपउरे
महएवि तामु नामे अतिही
हुय तहे सुय सुलसा हसगई
एत्तहे पोयणपुरि पुहहवई
तहो देविअ अमरमणोहरिए
नामे महपिगलु मयणममु
तहो सुलस निवेण सुजोहणेण
पडिवन्न आसि सहसगहणु

गउ पव्वउ कहिँ वि पइट्ठु वणु ।
नरनाहु मुजोहणु नायपुरे ।
सइ सोहणगुण लायन्ननिही । ५
नियरूवोहामियरभरई ।
नामेण सुपिगु विसुद्धमई ।
सजायउ पुत्तु मणोहरिए ।
दरियारिदप्पनिह्लणखमु ।
निय वहिणीउत्तहो सोहणेण । १०
अज्ज वि न होइ पाणिग्गहणु ।

धत्ता—उज्झहे सिरिसारउ वइरिवियारउ अत्थि सयरु नामे निवइ ।
वसुरायहो नदणु नयणाणदणु नावइ सग्गि सुराहिवइ ॥१॥

२

निसुणेवि अणोवमरूवसिरी
अणुराइउ पुहईसरु सयरु
गंतूण तेण करिनायपुरु
तेण वि पउत्तु जसनिम्मलहो
इय कहिउ अमच्चे एवि तहो
किं किज्जइ जेण मरालगई
विणु ताए निरुत्तउ महु मरणु
पहु एम भणतु निवारियउ
जिह पावइ सा तुह तिह करमि
इय भणिवि सुहासुहफलदरिसु

सा सुलसा न पच्चक्ख सिरी ।
सपेसिउ मग्गहुँ मतिवरु ।
पत्थियउ सविणएँ कन्न कुरु ।
मईं दिन्न धीय महपिगलहो । ५
संजाय चित्त वसुहाहिवहो ।
पाविज्जइ सा पच्चक्खरई ।
अत्थक्कइ हुक्कउ जमकरणु ।
मतीसरेण साहारियउ ।
अह न तो हुयवहि पइसरमि ।
सामुहउ चिरपोत्थयसरिसु । १०

रइऊण तेण परिवाइयहे
सा विण्हुदत्त नामेण तहि

अरिपिउ सव्वत्थसमाइयहे ।
गय तं लएवि सा सुलस जहि ।

घत्ता—वम्महसरभत्थहँ पासयसत्थहँ हरिसु जणतिए ऊणहियए ।
नवकचणवन्नहँ अग्गए कन्नहँ त वायहँ आढत्तु तए ॥२॥

३

विउलईं नियव मुहकमलु उरु
तणु मज्झु कवोलु गुप्फसहिउ
पय नक्क कियाडी भालयलु
रत्ताईं सत्त जीहाहरइ
सुण्हाईं रोम तय रय^१ नहइ
मड्हाईं लिगजघाजुयइ
आणदियजणमणइक्खणइ
हलमुसलकलसपासायउसा
अवरईं वि कमलकुलिसकुसइ
दीसति जामु सो पुहइवरु

गंभीरईं नाही सत्तु सुरु ।
सुहभायणु अवरु उयरु कहिउ ।
जपणु वि समुन्नउ वच्छयलु ।
कर कम मणि नयण नहईं वरइ ।
अगुलिपव्वाइ पच सुहइ । ५
सहुँ गीवईं पट्ठि पच थुयइ ।
एयईं सुपसत्थईं लक्खणइ ।
करि चक्कमयरजुवमालरसा ।
छत्तद्वयतोरणपट्ठिसइ ।
अणहुजइ रज्जु जेम सयरु । १०

घत्ता—एयाईं पसत्थईं जणियमुहत्थईं उत्तमपुरिसहँ लक्खणइ ।
पयडियसतावे पावपहावे सेसईं होति अलक्खणइ ॥३॥

४

पंचास दोस फुडु अंधलए
खुज्जइ दोसय बहु दुहजणणा
वरु अधु न काणउ कायरउ
वरि एउ न दिट्ठु अमगलउ
महुपिगु विवाहइ जा जुवई
अह कि बहुणा कयतडवइ
पइसारु देइ जो पिगलहो
सो सईं हत्थे दुहवत्तणउ

काणम्मि सट्ठि सउ पगुलए ।
महुपिगलि दोस अणंतगुणा ।
वरि काणउ होउ म केयरउ ।
सव्वहँ विरुद्धु महुपिगुलउ ।
सा होई रड न लहइ रई । ५
समयम्मि विवाहहो मडवइ ।
पाविट्ठहो सुद्धु अमगलहो ।
नियसुयहे देइ विहवत्तणउ ।

घत्ता—आयन्निवि बाली चलभउहाली महुपिगुवरि विरत्तमण ।
जाणेप्पिणु धुत्तिए कुवलयेत्तिए पव्वइयए जणमणदमण ॥४॥ १०

५

मई सयल पलोइय पुहइवई
 दूरजिभय दुक्कियलछणइ
 जसु पोरिसु साहमु सीलु कुलु
 रक्खियछलु वइरिविणासकरु
 नियरूवोहामियउछधणू
 चिरु घोर बीरु तउ जाप्र किउ
 आयन्नवि गुण अणुराइयए
 कहि केम भडारिप्र मज्झु वरु
 निसुणेप्पिणु त तवसिणि चवइ
 परिहरिवि अमेस नराहिवई

पर सयरहो का वि अउव्व गई ।
 अन्नहो तारिसई न लक्खणइ ।
 अन्नहो कहो सपय बुद्धि वलु ।
 को वरु मग्गणजणकप्पतरु ।
 अह कि वन्निज्जइ सव्वगुणू । ५
 सा जइ पर पावइ सयरु पिउ ।
 सा भणिय सुजोहणजाइयए ।
 सो सूहउ होइ अणंगसरु ।
 जइ होइ सयवरु तो हवइ ।
 तहो धिप्पइ माल मरालगइ । १०

घत्ता—आयन्नवि कन्नप्र एउ पसन्नप्र भणिय जणणि जाएवि घरु ।

मेलावियवहुवरु मज्झु सयंवरु कारावहि अवरोहकरु ॥५॥

६

महएविप्र भणिउ नराहिवई
 सव्वेहिँ मि मन्नित एउ वरु
 सुमुहुत्ते सव्व समग्गि क्रिया
 निग्गय कुमारि कोड्डावणिया
 पेच्छेवि जंति वंचेवि सई
 कामु वि उरि खुत्तउ कामसरु
 कामु वि गरुयारउ विरहजरु
 नोससइ सुसइ को विमणु मणु
 केण वि नियरज्जहो लइउ खणु
 इय वियल कुणति नरेंदसया

तेण वि आलोइउ मतिमई ।
 हक्कारिउ आइउ वरनियरु ।
 कचणमयमचहिँ राय धिया ।
 न हत्थभल्लि कामहो तणिया ।
 कामु वि हुय दुत्तर दुक्खनई । ५
 मुच्छाविउ पाविउ को वि नरु ।
 उप्पन्नु असङ्गलु डाहजरु ।
 कामु वि सपाइउ जमकरणु ।
 जइ एह न तो तववहु सरणु ।
 जहिँ सयरु महीवइ तेत्थु गया । १०

घत्ता—महुपिगलु चत्तउ दइवायत्तउ कज्जु पयत्ते परिणवइ ।

सयरुवरि रवन्नप्र^१ पेच्छह कन्नप्र धित्त माल मणिपुप्फवइ ॥६॥

७

संजाउ विवाहु विसन्नमणा
 चारणमुणिपासि विहूयरउ

गय नियनियनिलयहो सव्व जणा ।
 महुपिगलेण सगहिउ तउ ।

६. १ सयरुवरीउरवन्नए ।

कह एह मल्लितित्थंकरहो
बहुदिवसहि महि विहरतु गुणी
चरियहे पइट्ठु चरियावसरे
तहिँ सुदरु लक्खणलक्खधरु
मग्गिय वइसाणरु वणिहे पिया
तेणत्तु डहेवउ एहु मइ
जारिसइँ अग्गि आयहो तणए
तारिसइँ रज्जु भुजइ पुहई

उप्पन्नि तित्थि भवभयहरहो ।
आइउ अउज्झ महुँपिगु मुणी ।
थिउ सायरदत्तहो तणए धरे । ५
विप्पेण निएप्पिणु मुणिपवरु ।
कि कारणु ताए वि पुच्छ किया ।
सामुद्दियसत्थु असच्चु सइ ।
लक्खणइँ अणेयइँ सोहणए ।
कि होइ एहु निग्गथु जई । १०

घत्ता—ता ताए पउत्तउ विप्प निरुत्तउ सक्कु व सुहसपयपयरे ।
पुहईवइ होतउ रज्जु करतउ एहु आसि पोयणनयरे ॥७॥

८

मुलसाहि निमित्तु जणच्चियउ
नियमंति वुत्तु रजियमणउ
त सुणिवि विरत्तए परिहरिउ
अहिमाणे तेण विरत्तमणु
आयन्निवि नासियधम्मजसु
हुउ अमुरु देउ भावणभवणे
कमलासणरूउ^१ करेवि तहि
बोलाविउ पव्वय परमपम्
सुदरु सयभु गायति वरु

सयरेण एहु मुणि वचियउ ।
किउ तेण वि लक्खणु अप्पणउ ।
मुलसाए एहु वमुमुउ वारिउ ।
हुउ रज्जु मुएवि एहु मवणु ।
गउ मुउ कोहेण नियाणवमु । ५
पुव्विल्लु वइरु सभरिवि मणे ।
आगउ वणि पव्वउ वसउ जहि ।
हउँ भवणपियामहु तिजगगुरु ।
उक्किट्ठु जेट्ठु जगसिद्धिकरु ।

घत्ता—चउवेयपयासणु पावपणासणु कमलजोणि गुणि चउवयणु । १०
लोयहिँ अबमाणिउ तुहँ मइँ जाणिउ तेण एत्थ किउ आगमणु ॥८॥

९

तुह कारुन्नि आसाइयउ
जडुव्वु अएहिँ एउ वयणु
तुह ताएण वि न वियाणियउ
तिउराण धीहि न हवन्ति अया
उट्टेहि एहि लइ जाहँ जणु

हउँ बंभु बंभलोयाइयउ ।
हउँ बुज्झमि एक्कु नाणनयणु ।
विवरीउ लोए वक्खाणियउ ।
अय छाग हुणेवहो तेहिँ सया ।
पडु जावमि दावमि जन्नगुणु । ५

वयणेण एण परित्रोसियउ
पव्वउ तहो भत्तिभारनडिउ
पइँ दिट्ठे हिरन्नगम्भसवइ
सिद्धति तविक तुहँ वायरणे
तुहँ नाणि भाणि तवमतपए

रोमचु निरत्तक दरिसियउ ।
जय जय भणेवि पायहिँ वडिउ ।
दुक्कियमलु सुविकउ सभवइ ।
तुहँ वेयपुराणि पावहरणे ।
सव्वत्थ परिट्ठिउ तुहँ जि जए । १०

घत्ता—इय थुणिवि रवन्नउ सिरिसपन्नउ तेण समउ गउ सो नयह ।
आयन्निवि आयउ जयविकत्तायउ बभु सइ तोमिउ सयह ॥६॥

१०

तहिँ जन्नविहाणु समाठविउ
सिद्धिहुणियहँ नियवि मुरत्तणउ
सग्गाउ विमाणारूढु पृणु
हो असुरपवचु न भावियउ
सयरम्मि विणासिणु सयरपिया
चारणमुणिणा अडमुत्तएण
मेल्लाविय मारिउजति वणे
मारोप्पिणु सयरु सपरियणउ
गउ असुरकुमार पहिँट्ठु मणे

वहुवाहिहिँ सव्वु लोउ खविउ ।
सव्वेहिँ हुणाविउ अप्पणउ ।
आवतु निएप्पिणु हुणिउ जणु ।
मयणेण वि देहु हुणावियउ ।
अमुरेण दूरि अबहरिवि निया । ५
नियबधवेण गुणजुत्तएण ।
सठिय वेरगे तवयरणे ।
साहेवि वइरु घरु अप्पणउ ।
तइयहँ हुउ जन्नविहाणु जणे ।

घत्ता—सिरिचदु व सारउ लोयपियारउ नारउ सच्चं सग्गु गउ । १०
वमुपव्वय पावे अलियपहावे नरउ पइट्ठा सत्तमउ ॥१०॥

उक्त च—नभट्ठवर. सर्वजनप्रधानो वसुमंहात्मा वसुधातलेऽस्मिन् ।
एकेन मिथ्यावचनेन राजा रसातल सप्तममाससाद ॥१॥

माकेतपुर्या मुलसानिमित्त कृत निदान मधुपिगलेन ।
परोपराभ्यागमन च तस्याः को नाश्रृणोत् भारतजातमर्त्यः ॥२॥ १५

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले ॥
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे नुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसरिचदपउत्ते सुवित्तिं णंतपयदसजुत्ते ।
एमो जन्मपत्ती एयाहियतीसमो मधी ॥

संधि ३२

१

ध्रुवय—धणु व्राह्मिण पाण तेण हिण हिउ सिरकमनु ।
जणधणसोण मण्ड रुयड हा रवमुहनु ॥

निसुणिज्जउ जणवण पारयत्ति
गोदासु अत्थि नग्गइपहाण
धणकणममिद्धु पत्तावराहु
ज अत्थि कि पि त लइउ मव्वु
पुक्कारइ पुग्गि विलवइ वराउ
किउ सयणहिं तहो विविहोवयान्
केण वि पउत्त जइ नियड दव्वु
ता लोयहिं आणिवि अत्थु तास
त एवकु मुहुत्तु वि नाहिं मुयड
खणि गणइ निहालउ सबग्गि
कडवयदिणेहिं मजाउ गत्थ

पुग्गि चित्तकूडि सपयविचिन्ति ।
वणिवइ समुदत्ताहिहाणु ।
मो राणं दडिउ करिवि गाहु । ५
मजाउ अक्खिणु गलियगव्वु ।
निक्कट्टु खयहो खरदइ जाउ ।
पर तो वि न गउ उवसमु वियारु ।
ता एहु निरुत्तु होइ भव्वु ।
दाविउ निग्गि मजाउ तोमु । १०
आलिगइ हियइ धरेवि रुयड ।
खणि छांडइ खणि वधइ धरेवि ।
निउ लोयहिं अप्पणउ अत्थु ।

घना—जाणणिणु एउ दूग्गभह परधणहरणु ।

हा तम्मि कयम्मि किउ निरुत्तु मणुयहो मणु ॥१॥ १५

२

परदव्वहरणवुड्डी सिरिभूदी नयरमज्जयारम्मि ।

होदूण हदो पडदो पत्तो डीह च ससार ॥ [भ० आ० ८७३]

परदव्याहरणमात्रे श्रोभूतनांभा राजपुराहित प्राप्त । क ? दीर्घससारम् । कि कृत्वा ?
होदूण भूत्वा । कथंभूतो ? हदो पडदो । क्व ? नगरमध्ये हतश्चर्मयट्टिभिराहत प्रहतो मुष्टि-
भिराहत । अथ श्रोभूतेरगत्यात्मम् । ५

इह जवुदीवि तिहुयणपमिद्धि
विसयम्मि गधमालिणि मणोउज्ज
पुहईवइ नामें वइजयतु

पच्छिमविदेहि सपयसमिद्धि ।
पुग्गि वीयसोण सरवियसियज्जि ।
सच्चवइकतु अरिकुलकियतु ।

सजाउ पुत्तु तहो सजयतु
एवकहि दिणि मिवु सकरु मयभु
तत्थायउ महि विहरतु सतु
सहँ पुत्तहिँ दूरुञ्जियवियारु
आयन्नवि धम्महो फलु विचित्तु
हुउ काले केवलि वीयगउ

बीयउ जयतु रूवेण कतु ।
नित्थयरदेउ नामे सयभु । १०
तहो वदणाण गउ वडजयतु ।
नियमुयहो ममण्णिवि रज्जभाण ।
मजाउ दियवरु चारुचित्तु ।
तहो वदणत्थ धरणाणु आउ ।

घत्ता—तहो रुउ निएवि करिवि नियाणु अयाणमणु । १५
हुउ मरिवि जयतु चारुसरीरधारि धरणु ॥२॥

३

एत्तहिँ वि मणोहरपुरमसाणु
चिरवडरवमेण विमुक्कमकु
रुट्टेण दुट्टकम्ममारिनामु
इह खयरगिरिहँ दाहिणदिमाण
हरिकारिमुवन्नवडनामधेय
आयहु पच्चहु मथरगईहु
म च्चिगावह आवह हणह पाउ
इय भणिवि तेण जणवउ समग्गु
वाणहिँ दुक्कयणहिँ णिट्ठुरेहिँ
उवसग्गु सहेप्पिणु मुणिपहाणु

थिउ सजयतु मुणि मुक्कभाणु ।
तडिदाहे दिट्टउ मुणिमियकु ।
विज्जाहरेण गुणगणनिवामु ।
काणणि पयडरक्खमपिसाण ।
पुण्णवई अवर वि चडवेय । ५
आणेवि धित्तु मग्गि नईहु ।
एहु रक्खमु तुम्हई खाहु आउ ।
मेलानिउ किउ धोगेवसग्गु ।
अत्ताडिउ दडहिँ पत्थरेहिँ ।
अतयडु होवि गउ मोक्कठाणु । १०

घत्ता—तहिँ अवसरि तत्थ पुज्जहुँ परममुणिदनणु ।
चउदेवनिकाउ आयउ मगलथुइवयणु ॥३॥

४

अवहीण वियाणिवि तक्खणेण
रूसेवि फणिदे विज्जुदाहु
अप्फालइ किल सिलसिहरि जाम
भो मेल्लि मेल्लि दुअयमहाउ
मुइ नायराय वइराणुबधु
पहु हणइ एहु तवयरणि ठाइ

महु भाइहे किउ उवसग्गु एण ।
फणिपासहिँ बद्धु करेवि गाहु ।
वारिउ सूरप्पहमुरेण ताम ।
खज्जेसइ सई पावेण पाउ ।
चिरवइरु एहु आयहो मयधु । ५
आयन्नहिँ कारणु कहमि भाइ ।

३. १ पवचु ।

नयवंतु अत्यि जियवइरिसेणु
तहो पाणपियारी रामयत्त
सिरिभूइ पुरोहिउ सच्चवाइ
विस्सासथाणु सव्वहो जणासु

सीहुउरि नरेसरु सीहसेणु ।
महएवि महासइ कमलनेत्त ।
मुपसिद्धउ परधणहरणचाइ ।
सिरिदत्ता नामे कत तासु । १०

घत्ता—एत्तहे वणिउत्तु भट्टमित्तु पोमिणिपुरहो ।

निद्धणु धणहेउ गउ दीवहो रयणायरहो ॥४॥

५

तहिँ पच पयत्त पाविऊण
सिरिभूइपासि थविऊण तेत्थु
नियसयणहँ मिलिवि सहाय लेवि
सिरिभूइ भणइ भुल्लो सि वप्प
सुविणे वि ण अम्हारइ परामु
त निसुणिवि लोयहँ कहिय वत्त
पच्चेलित्त कलहि वि लइउ केम
जा जाहि हयाम पिसायघत्थ
जइ कहर्मावि मरु मुयइ ठाणु
इउ तो वि न करइ महाणुभाउ

रयणाइ अणग्घइँ आणिऊण ।
गउ मग्गभणण निवामु जेत्थु ।
आवेवि विपु मरिगउ तवेवि ।
अन्नत्त गवेमहि निव्वियण्ण ।
धिप्पइ इहरत्तपरत्तनासु । ५
तेहिँ मि तहो कि पि न किय परित्त ।
बहु रडुहि एक्कु वि सिद्धु जेम ।
तुहुँ तेण पयपहि अप्पसत्थ ।
जइ पच्छिमदिमि उग्गमइ भाणु ।
सिरिभूइ महामइ मुक्कपाउ । १०

घत्ता—राण वि तासु न किय समक्ख समाउलउ ।

हुउ अत्थगहेण भट्टमित्तु वणि वाउलउ ॥५॥

६

पुक्कारइ पुग्गि ववगयविहूइ
न वियाणइ कि पि न कहिँ मि रमइ
निसि पच्छिमदि वडु तदुक्ख
पुक्कारइ उक्खयवइरिक्क
रयणाइँ पच सिरिभूइ लेवि
गय एम भणतहो तहो छ मास
महएवि पयपइ रामयत्त
तुह रज्जि समुन्नइ तक्कराहँ

थिउ रयणइँ लेप्पिणु लच्छिभूइ ।
वेठिउ जणाइँभसएहिँ भमइ ।
निवभवणासन्न चडेवि रुक्खु ।
परितायहि परितायहि णरिद ।
थिउ नवर नराहिव निणहवेवि । ५
एक्कहिँ दिणि दूळ्ळिभयदुरास ।
एहु दुत्थहो कि पि न किय परित्त ।
खउ मुयणहँ सव्वमुहकराहँ ।

घत्ता—पियवयणु सुणेवि भणइ महीवइ कुलतिलउ ।

ज भावइ एहु बोल्लइ बल्लहे वाउलउ ॥६॥ १०

७

ता भणिउ देवीए जइ एहु वाउलउ
पर देव तुम्हारए अत्थि न वियारु
एत्तहि वि मज्झिहि मिरिभूइ सपत्तु
हार त्ति पडि ता महारायवयणेण
दाऊण त हत्थि एयति सिक्खविय
गतूण तहिं ताई रयणाईं धुत्तीए
एमेव पट्टविय तुहुं नत्थि रयणाईं
पुणु कहिवि सिरिभूइ भोगणहो चिण्हाइं
हारियउ दियचिण्हु मणिमउ पुणो तेण
मग्गियईं रयणाईं दियपत्ति तुहु कतु
जन्नोवईयउ तन्नो' ताए पेक्खेवि

तो कि न अन्न पयपेड वाउलउ ।
त मुणिवि मोणेण थियु वइरिविड्डारु ।
सहुं तेण तहिं जूउ राणीए आढत्त ।
मणिमुट्ठिया' सारिय गहणय तेण ।
सिरिभूइघरु धाइ देवीए पट्टविय । ५
मग्गियईं कहिऊण सविणाणु त तीए ।
गय धाइ निसुणेवि बभणिहे वयणाईं ।
पट्टविय पर तो वि पत्ताइ नउ ताईं ।
गय लेवि सुमईं महादेवि वयणेण ।
दे देहि महसन्ति अच्छेइ रुस्तु । १०
पट्टविय रुमेवि सा ताईं आपेवि ।

पत्ता—लेण्णिणु रयणाईं देविए भणिउ नराहिवड ।

अट्टिउजउ जूउ वट्टइ मज्झि दिणाहिवड ॥७॥

८

ता अक्खकील राएण मुक्क
अवरण्णकालि भुत्तुत्तरम्मि
जाणाविउ माणिककडं नवेवि
मेलिवि बहुरयणहं मज्झि ताईं
तेण वि निव्वाडिवि अप्पणाईं
हक्कारिवि राएं सच्चघोसु
पईं एण मिसेण ह्यास सब्बु
बभणु ते करमि न भवड् खड्

गय सयल वि नियानियानिलउ वृक्क ।
महएविए रायहो नियघरम्मि ।
मथुय तुट्ठेण निवेण देवि
हक्कारिवि वणिमुउ दावियाईं ।
नडयईं को न मुणइ नियघणाईं । ५
मो सेण भणिउ सर्जाणियदोसु ।
वीसासिवि जणु अवरहरिउ दव्व ।
लड पावयम्म तुहु एहु दइ ।

पत्ता—मुट्ठिक्कहें पचसयहें सहहि मल्लहो हणणु ।

खल गोमयथालु खाहि देहि अह सब्बघणु ॥८॥

१०

९

आहूय मल्ल जीवियहरेहिं
असहंते भासिउ खामि द्याणु
गोमउ वि न सक्किउ खाहुं तेण

हउ मुट्ठिपहारहिं निट्ठुरेहिं ।
लइ खाहि पयपिउ णरपहाणु ।
लहूसाविउ घरु पालियपएण ।

७. १ मुणिमुट्ठिया ।

२ जन्नोवइयत्तउ ।

मरिऊण ग्रदृभाणेण पाउ
नामेण अगधणु विसमविसु
ता तूसिवि राएँ चारुचित्तु
शम्मिलु नामेण मणोहिरामु
एक्कहिँ दिणि अमगवणम्मि तेण

हुउ एहु भडारणु गरुउ नाउ ।
कलिकालु कियतु व सप्पमिसु । ५
किउ रायमेट्ठि वणि भट्टमित्तु ।
किउ विण्णु पुरोहिउ धम्मधामु ।
कडारयगिरिवि वणिवरेण ।

घत्ता—वरधम्मु मुणिदु वरधम्मो व्र नियच्छियउ ।

मायारिउ धम्मु तहो वयणेण पडिच्छियउ ॥९॥ १०

१०

गउ मुणि तहिँ अच्छइ वणिउ जाम
भक्खियउ चक्खियणु नियणजुत्तु
एणयदु व नामे सोहचदु
विहिँ पुत्तहिँ सोहउ राउ केम
एक्कहिँ दिणे दब्बालोयराउ
चिरवइरे अनियत्तियगरेण
मुच्छेवि पडिउ विमवियलकाउ
हक्कारिउ नामे गरुउददु
काउयरमने तेण नाय
तहो वयणे जलणि पईमरवि

नियमायण वग्घिणु दिट्ठु ताम ।
हुउ रामदत्तदेवीहे पुत्तु ।
वोयउ उप्पन्नउ पुत्तयदु ।
दइउज्जमेहिँ सण्णुसु जेम ।
नियभडायारि पडिउ राउ । ५
ते डसिउ ह्यामे उरयरेण ।
परियणजणि हा हा मदु जाउ ।
गारुडिउ गरलगिरिवज्जददु ।
आह्यामेस वि भक्त आय ।
गय मयल वि मुद्धा नीमरेवि । १०

घत्ता—गय नियनियनिलउ फणि सो परेक्कु तहिँ थक्कउ ।

तेण पउत्तु खल खयकालु अज्ज तुह्हुक्कउ ॥१०॥

११

आयारिमहिँ विमु दुन्नयसहाव
निमुणेवि एउ चितइ फाणदु
महु तणउ अगधणु कुलु पवित्तु
चिरवइरहो किउ पडिवइणु अज्जु
इय चित्तिवि जाईसरु सरेवि
कालवणि चमरु तिरियचु जाउ
एत्तहिँ अट्टेण मरेवि राउ
धम्मिलु वि पुरोहिउ रत्तवयणु
वइमणइ बइट्टउ सोहचदु

अहवा लइ पडसहिँ जलणि पाव ।
लघिज्जइ किह कुलकमु अणिदु ।
मइ लिघइ गिलतह विमु निहित्तु ।
फुडु एवहिँ मरणु जि महु मणोज्जु ।
गउ जलणि जलतणु पइसरवि । ५
अवरहो वि सपावहो एहु नाउ ।
हुउ सीहसेणु वणि गरुउ नाउ ।
हुउ मक्कडु पिगलु लोलनयणु ।
जुवराउ परिट्टिउ पुत्तचदु ।

घत्ता—एत्तहे अत्थि वरं पोयणपुरे न मयरद्धउ ।
पुन्नपवित्तमड पडु पुन्नयंदु मुपसिद्धउ ॥११॥

१०

१२

निमुणेवि सुधम्महो गुणविसेसु
भज्जा वि हिरन्नवइ त्ति तामु
सहं दत्तवईए सुखतियाए
गय सा जहिं नियकुलकुमुयचदु
कर मउलि करेप्पिणु पणयगत
निमुणेवि एउ परमोहिनाणु
जामाउ तुहारउ सीहसेणु
पचत् पत्त सयवत्तवत्त

हुउ भद्दवाहुमुणिवरहो मीमु ।
हुय सजइ किउ दुक्कियविणामु ।
एक्कहिं दिणि वदणहत्तियाए ।
वणि वसइ महामुणि पुन्नचदु ।
पुच्छइ केमच्छइ गमयत्त । ५
नवधणज्जणि अक्खइ मुणिपहाणु ।
फणिणामिउ दृत्थियकामधेणु ।
हुय रइ महासइ रामयत्त ।

घत्ता—आयत्तिवि एउ गपिणु तत्थ म खतियए ।

मवोहिय ताए रामयत्त उवसतियए ॥१२॥

१०

१३

निमुणेवि धम्मु पुच्छेवि पुत्त
तहिं अबसरि आइउ भद्दवाहु
तहो पायमूलि उवसतएण
रज्जम्मि थवेप्पिणु पुन्नचदु
कालंतरेण गुणरयणखाणि
हुउ मिच्छादिट्ठिउ पुण्णचदु
काणणि कयाइ मुणि सीहचदु
पणवेवि पउत्तउ गुणगुरुक्क

हुय अज्जिय राणी रामयत्त ।
नामेण महानवत्तन् साहु ।
पट्टमेण सीहसेणहो मुएण ।
तवु लइउ समुक्खयमोहकदु ।
मजायउ चारणु दिव्वनाणि । ५
वउ धरइ ण पणवइ जिणवरिदु ।
जणणीए नियच्छिउ भुवणवदु ।
सुय कुक्खि सलक्खण महु परेक्क ।

घत्ता—सजायउ जाए तुहुं भवभमणविणासयर ।

कहि मज्झ भवाईं मोहतमोहर दिवसयर ॥१३॥

१०

१४

त सुणिवि महामुणि मायरीहे
कोसलविसयम्मि मणोहरामि
नामेण मिगायणु भट्टपुत्तु
सो मरिबि अउज्झहे सिरिमईहे

आहासइ सीलामयसरीहे ।
गामम्मि आसि वड्डइयनामि ।
होतउ कुलजाइमएण मत्तु ।
महएविहे अइवलनरवईहे ।

उपपन्न हिरन्नवद् इति कन्न
तहो वारुणि महुरा चारुगत्त
वारुणि वि मिगायणपुत्ति पुत्तु
हउं भट्टमित्तु रयणाईं जासु
काऊण नियाणु पसन्नवाप्र
भत्तारु तुहारउ सोहसेणु

पोयणपुरि पुन्नससीहे दिन्न । ५
हुय ताहि गग्भि तुहुं रामयत्त ।
हुउ पुन्नचदु तुह गुणहिं जुत्तु ।
देवावियाईं पईं जणिउ तोसु ।
हुउ सीहचदु तउ तणउ माप्र ।
हुउ अट्टे सल्लडवणे करेणु । १०

घत्ता—सो मईं तहिं दिट्ठु कुद्धचित्तु सवोहियउ ।

चिरजम्मु कहेवि देवि वयईं सावउ कियउ ॥१८॥

१५

मिरिभूड नाउ डसिऊण ताउ
सो करिवरु पालियपरमनिट्ठु
ते कुक्कुडसप्पे पउ पियतु
सहसारसग्गि मिरिपह्विमाणि
धम्मिल्लु पुरोहिउ तहिं मरेवि
ते मारिउ कुक्कुडसप्पु पाउ
एत्तहि सियालभिल्लेण तामु
ढोइय वणिमित्तहो वणिववामु

कालयवणि चमरु तिरिक्खु जाउ ।
केमरिसरितीरे कयाड दिट्ठु ।
मारिउ खाएप्पणु पकि खुत्तु ।
हुउ सिरिहरु देउ गग्गोवमाणि ।
हुउ वानरु चिरवडर सरेवि । ५
वालुयपहाप्र णारडउ जाउ ।
लेप्पिणु विमाणमोत्तिय गयासु ।
तेण वि छणयदनरेसरासु ।

घत्ता—तुह पुत्ते तेण मचउ दनुसलहिं किउ ।

मोत्तियहिं वि हारु कठि विहमणु अल्लविउ ॥१५॥ १०

१६

आयान्निवि एउ विसन्नचित्त
सवोहिउ वइयरु कहिवि पुत्तु
उवसतएण सावयवयाईं
कालेण करेप्पिणु कालु सग्गि
वेरुलियविमाणि मणोहिरामु
मुज्जप्पहु नामें तहिं जि देउ
कि भणमि पहकरघरणिवासि
उवरिमगेवज्जहे सीहचदु

गय पच्चाणणपुरु रामयत्त ।
सजाउ अईवविसायजुत्तु ।
अगीकयाईं हयभवभयाईं ।
सहसारि हुउ सोहासमग्गि ।
हुउ सुरवरु सुदरदत्तनामु । ५
हुउ रामयत्त नवतरणितेउ ।
रूवेण रूवसोहग्गरासि ।
सुदरसरीरु हूयउ ह्मिदु ।

घत्ता—इह जब्बुदीवि भरहखेत्ति वेयड्ढगिरे ।

दाहिणसेढीहें अत्थि घरणि तिलयानयरे ॥१६॥ १०

१७

अइबलु नामे विज्जाहरिदु
तहो देविप्र उवरि सुलक्खणाहे
सग्गाउ एवि न नायकन्न
सा अलयाउरपरमेसरासु
सुरु सुदरयत्तु चवेवि ताहे
वेयड्डहो उत्तरसेडिवासि
दिवसयरावत्तहो खेयरासु
सो मुरवरु सिरिधरणामधेउ

तत्थत्थि पसिद्धउ न मुरिदु ।
मुज्जप्पहु अमरु सलक्खणाहे ।
हुय सिरिधरतणय सुवन्नवन्न ।
दिन्नी खेयरहो मुदसणासु ।
हुय पुत्ति जसोहर निरुवमाहे । ५
सा दिन्न विवाहहुँ पुरि पहासि ।
तहें तणप्र गन्धि गुणगणनिवासु ।
हुउ नदणु नामे रस्सिबेउ ।

घत्ता—अण्णिवि तहो रज्जु मुज्जावत्तखगाहिवइ ।

मुहमइ सजाउ मुणि मुणिचदु नवेवि जइ ॥१७॥

१०

१८

गप्र कते तवोवणु सिरिहराप्र
एक्कहिँ दिणि वदणहन्तिहेउ
गउ सिद्धकूडु तहिँ दिट्ठु साहु
तहो पायमूलि उवसतएण
एत्तहे कयाइ अज्जाउ ताउ
जो गउ तइया वणि कुक्कुडाहि
हुउ तत्थ तेण भाणासियाई
काविट्टसग्गि साहियमणाई

तउ लइउ तहेव जसोहराप्र ।
विज्जाहरराणउ रस्सिबेउ ।
हरिचदु सोलसलिलंबुवाहु ।
पव्वज्ज लइय राएण तेण ।
त वदहुँ कचणगुह गयाउ । ५
गो अजयरु जीवहें मरणवाहि ।
तिन्नि वि पावेण विणासियाई ।
हुय देव ताई तिन्नि वि जणाई ।

घत्ता—अजयरु वि मरेवि हुउ पकप्पहें नारइउ ।

अहमिदु वि सीहचदु साहु मग्गहो अइउ ॥१८॥

१०

१९

चक्कउरि निवहो अवराइयासु
चक्काउहु नामें हुउ कुमार
तहो पाणपियारी गुणगणाल
जो सीहसेणु करि कयविबेउ
रविपहु पुणु अट्टमसग्गवासि
वज्जाउहु वज्जु व वइरिवग्गि

सुदरिमहएविविराइयासु ।
सुहलक्खणलक्खिउ न कुमार ।
महएवि महासइ चित्तमाल ।
सुरु सिरिहरु पुणु खगु रस्सिबेउ ।
सो हुउ सुउ तहिँ गुणरयणरासि । ५
जसु नत्थि मल्लु कड्डियप्र खग्गि ।

पुरि पुहडतिलए अइवेय राय
जा सिरिहर पुणु काविट्टि ह्य

पिय अत्थि पियंकर चारुछाय ।
सा रयणमाल हुय ताहे धूय ।

घन्ता—दिन्नी जणणेण वज्जाउहहो सलक्खणहो ।

न दोणघणेण पुत्ति विसल्ला लक्खणहो ॥१९॥

१०

२०

सग्गहो आवेवि जसोहरा वि
क्ककाउहु मिरि वज्जाउहामु
वज्जाउहो वि रयणाउहामु
एत्तहे रयणाउहरायगग्गो
थिउ निच्चलु अमइ न पियइ तोउ
गउ पुच्छहुँ जहिँ रिसि वज्जदतु
एत्थत्थि भरहि जणजणियभदु
पीडकरु मुउ सद्दरिहे तामु

हुउ तहे सुउ रयणाउहु पयावि ।
गउ देवि होवि मुणि मोक्खवामु ।
हुउ रज्जु देवि निम्मुकवामु ।
जाईसरु मुणि पेक्खेवि गग्गो ।
चित्ताविउ वज्जाउहहे पोउ । ५
मुणु राय कहइ समयकयतु ।
पहु चित्तियारपुग्गि पीडभदु ।
मद्दएविहे हुउ विसमारिनामु ।

घन्ता—मुणिवयणु मुणवि सो दूमियसमारगइ ।

महुँ मतिमएण चित्तमइए सजाउ जइ ॥२०॥

१०

२१

साकेयहो गय विहरत वे वि
चित्तमइ भग्गु भाणसिउ जाउ
तुट्टेण विट्ठु पमाउ तामु
कालेण मरेवि करेवि पाउ
ससारि भमेग्गिपणु एत्थ हत्थि
हुउ जाईसरु अम्हइँ निएवि
निमुणेप्पिणु विच्चासिउ असुद्धु
उवसतु रयणपहरणु नरेदु

नहिँ वुट्ठिमण गणिया निएवि ।
नं रजिउ मसरमेण गउ ।
वेसाई महिउ कचणमहामु ।
गउ तमतमनरए रउद्भाउ ।
सजाउ तुज्ज पवरवलपमत्थि । ५
थिउ सपड पावहो खणु करेवि ।
देवाविउ पिइ न तेण खदधु ।
हुउ सावउ नियकुलकुमुयचदु ।

घन्ता—जो अजयरु आसि गउ पकप्पहमहिहे खलु ।

अइदारुणनामु हुउ सो सवरु पयडवलु ॥२१॥

१०

२२

वणि पडिमाजोएँ परमनिट्ठु
आहउ सरेण कयभावसुद्धि

वज्जाउहु वाहे तेण विट्ठु ।
गउ मुणि मरेवि सव्वत्थसिद्धि ।

अइदारुणो वि दारुणदुहम्मि
रयणाउहु सावयवयहलेण
सुर अच्चुयकप्पविमाणि जाय
दीवम्मि दुडज्जद अत्थि पुब्बं
गधिलविसयम्मि मणोहरीहे
सुब्बयजिणदत्तउ विन्नि तामु

उप्पन्नउ नारउ तमतमम्मि ।
मणिमाल वि दूरुज्जिभयमलेण ।
आउक्खण पुणरवि एत्थ आय । ५
मदरगिरि अवरविदेहि भव्वे ।
पहु अरुहदामु उज्झाउरीहे ।
महएविउ परिपालियवयामु ।

घत्ता—वीयभउ पसिद्धु अवरु विहीमणु लोयथुय ।

ते ताहँ तणूय वलनारायण वे वि ह्युय ॥२२॥ १०

२३

चिरु रज्जु करेप्पिणु मावलेउ
तउ वीयभएण सुत्तिब्बु तत्तु
सो तेण विहीसणु णरए भाइ
आउक्खण एप्पिणु जवुदीवि
देमम्मि गधमालिणि समिद्धि
मिरिपुरि सारिहरहिँ खगाहिवामु
सिग्गिदामनामु सो हूउ पुण्
मदरि अवलोइउ भायरंण
सवोहिउ लाइउ जइणमग्गि

गउ रयणप्पहमहि वामुएउ ।
लतवि इदत्तणु तेण पत्तु ।
सो बोहिवि किउ सम्मतभाइ ।
पच्छिमविदेहि रविससिपईवि ।
वेयड्डमहीहरि सिग्गिसामिद्धि । ५
सिरिदत्तादेविहँ गुणनिवासु ।
विज्जउ साहतउ एकचित्तु ।
अलएवमुरेण कयायरेण ।
हुउ मुरु तवेण पचमए सग्गि ।

घत्ता—एत्तहे नीसरंवि तमतमयहे सहियकिलेसउ ।

हुउ सो सप्पु पुणु गउ पढमावणिहे दुरासउ ॥२३॥ १०

२४

पुणु पुणु त्तिरिक्खु पुणु नारडओ
भरहम्मि एत्थ भूयाडइहे
तावसहो खडमालिहँ तणुओ
नामे मियसणु अन्नाणभाउ
चदाहु निएप्पिणु गयणजाणु
मरिऊण भरहि खयरालयम्मि
विज्जुप्पहवल्लहु वज्जदाहु
कीलाए तेण सकलत्तएण

भवि एव भमेप्पिणु दुम्मइओ ।
तडि निम्मयाहे एगवइहे ।
उयरम्मि कणयकेसीहे हुओ ।
अच्छइ सहतु पचग्गिताउ ।
विभियमणेण किउ ते नियाणु । ५
नयरम्मि पयडि नहवल्लहम्मि ।
हुउ तहो सुउ नामे विज्जुदाहु ।
सविमाणे नहयलि जतएण ।

घत्ता—पविपहरणु आसि जो मुणि सब्बहुहो गयउ ।

तीयाहियतीस सायरते काले ह्यउ ॥२४॥ १०

२५

हुउ बीयसोए सो सजयतु
पेक्खेवि कुएवि णाणेवि एत्थु
तं सहिवि समुप्पाएवि नाणु
एहु सजयतु सीहउरराउ
चिरवइरे तेण विमुक्कदेहु
इय जाणिवि मुच्चइ वइरभाउ
सिरिदामु इहाउ जयतु जाउ
होतो सि आसि मुहि पुन्नयदु

मुणि पडिमाजोएँ तउ तवतु ।
निक्खित्तु एहु किउ बहु अणत्थु ।
गउ मुणि परमेसर मोक्खठाणु ।
सिरिभूइ एहु दुन्नयसहाउ ।
खम्भालिउ मारिउ एण एहु । ५
जम्मेवि न दीसइ जेण ताउ ।
पुणु तुहुँ सनियणु भुयगराउ ।
सा रामयत्त हउँ लतवेदु ।

घत्ता—आयन्नेवि एउ धरणिदे खमभाउ किउ ।

हक्कारेवि सब्बत्थेयरचक्कु परिट्टविउ ॥२५॥ १०

२६

हिरिमतधराधग्गि भत्तिनिरउ
साहेसइ विउजउ तामु सिद्धि
नर सयल वि आयहो कुलि अविज्ज
इय भणिवि मुएवि दुन्नयसहाउ
एत्तहिँ आउक्खए लतवेदु
महुरहे अणतवीरियनिवामु
कुलनदणु नदणु जाउ मेरु
अनियप्पहाहे मदरु कुमारु
ते विन्नि वि भायर विमलनाह
केवलि होएप्पिणु कम्मचत्त
सिरिभूइ व परधणहरणाचित्तु

जो सजयतपडिमाहे पुरउ ।
किय निच्छएण अन्नहो न सिद्धि ।
थीमतइ होसइ सिद्धविज्ज ।
गउ निययनिवासहो नायराउ ।
एत्थायउ नावइ पुन्निमिदु । ५
घणमालहे देविहे गुणनिवामु ।
थिरु कल्लाण गउ नाइ मेरु ।
धरणंदु होवि हुउ नाई मारु ।
गणहर पउ पावि वि मइसणाह ।
परमेसर सासयसोक्खु पत्त । १०
अणुहवइ दुक्खु अवरु वि विचित्तु ।

घत्ता—जाणेप्पिणु एउ सिरिचदुज्जलकित्तिहरु ।

वज्जह परदब्बु जेँ फिट्ठइ ससारडरु ॥२६॥

विबिहरसविमाले णेयकोऊल्लाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहमाले ॥
भुवणविदिदनामे मब्बदोसोवमामे । इह खलु कहकोमे सुदणे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचदपउत्ते मुविचित्ते णंतपयदमजुत्ते ।

परधणहरणनिसेहो एसो बत्तीसमो संघी ॥

संघि ३३

१

निच्च पि कुणदि कम्म कुलउत्तदुगुच्छिद विगदमाणो ।
वारत्तओ वि कम्म अकासि जह लखियाहेदु ॥ [भ० आ० ९०८]

नीचमपि करोति कर्म । कां यो ? विगदमाणो व्यपगताहकार । तत्कथभूत कर्म ?
कुलउत्तदुगुच्छिदं कुलीनैर्निन्दितम् । वारत्तओ वि वाग्त्रयनामा यथा द्विजमुनि अकासी अका
पीत् । किं निमित्तं ? लखियाहेदुं लखिका नटीः तस्या कारणेन । ५

धुवय—विसयपरव्वमचित्तु कामेणुप्पहे लग्गउ ।
अक्खमि लखियहेउ जिह वारत्तउ भग्गउ ॥

दुवई—पुरि अहिच्छन्ति छत्तसयसेविउ सुइसत्थत्यपारओ ।
अत्थि पसिद्धु विप्पु सिवभूइ विवक्खणु जणपियारओ ॥

वसुसम्मा नामे तामु पिया	सइवित्ति व थीरूवेण थिया ।	१०
नयविणय नाई लोएण थुया	सुय सोमसम्मसिवसम्म हुया ।	
अपढंतु निएप्पिणु कोउ कओ	ताएण वरत्तए लहुउ हओ ।	
तहो दिवसहो लग्गिवि तामु भउ	वारत्तयनामु पसिद्धि गउ ।	
काले सुइसोत्तिउ मुक्कमलु	हुउ वेयपुराणकलाकुसलु ।	
वारत्तयनामे जणु भणइ	तं सल्लु व तामु चित्तु वणइ ।	१५
नियनामुच्चारदुहेण हउ	सावित्तिहे एक्कहिं दियाहिं गउ ।	
तहिं दमवरु णामे दिट्ठु मुणी	तहो वयणु सुणेप्पिणु धम्मभुणी ।	
निव्विन्नउ हुउ निग्गथु जई	अहनिसु जइणागमु अब्भसई ।	
जलि निएवि नियंतु सरीरद्धाय	गुरुवयणहो ता नीसरिय वाय ।	

घत्ता—पई महिलहि लग्गेवि नासेवउ निसुणेप्पणु । २०
जत्थ न थीयणु अत्थि तहिं तउ करमि भणेप्पिणु ॥१॥

२

दुवई—गुरुपयपंकयाई पणवेप्पिणु सिवसम्मो विणिग्गओ ।
गपिणु कयपइज्जु निज्जणि वणि नियमब्भासि लग्गओ ॥

तत्थच्छइ दुद्धरु तउ तवइ
 तहो निट्टु निएप्पिणु सुह्रिसउ
 सव्वत्थ वि विणयपयासिरिउ
 पर त न पडिच्छइ पहयमलु
 अबहत्थियइत्थीरायकहु
 ता तम्मि पएसि पराइयउ
 आवासिउ सत्थु ससत्थवई
 नाणाविन्नाणगुणव्वभइउ
 कताहं गगदत्ताहि हुया
 सुहलक्खण जणमणनयणपिया

कतारं भिक्ख मुणि परिभसइ ।
 वणदेविउ होएवि अयरिसउ ।
 आहारु देति पियभासिरिउ । ५
 निट्टावरु आयमत्थकुसलु ।
 एमच्छइ जामुववाससहु ।
 बहुवक्खरवत्थुविगइयउ ।
 सहं तेण वियाणियनट्टुगई ।
 नडु नामे गगदेउ अइउ । १०
 तहो मयणवेय तरलच्छि मुया ।
 न का वि वरच्छर सयणपिया ।

घत्ता—मा नच्चति निएवि मुणि मयणेण कयत्थियउ ।

नियविन्नाणु कहेवि गगदेउ अब्भत्थियउ ॥२॥

३

दुवई—तेण वि गुणविमेसु पग्गियाणिवि निय मुय तामु दिन्निया ।

अह कि अलिय होइ मुणिवरगिर निच्छयसयरवन्निया ॥

नडवेसे माणइ विसयमुहु
 सहं पेटण फणिद्धत्तपुरु
 चिरु सीसहिं भासिउ ताय तुह
 परिहरह एह पच्छित्तु करि
 पभणइ वारत्तउ दियजणहो
 दुहयरु ससि चक्कहो सीयलु वि
 महु एउ जि सुदरु अन्न नउ
 बहुवरिसहिं नाणाभाववरु

अच्छइ तह तणउ नियतु मुहु ।
 सपत्तु कयाइ निएवि गुरु ।
 हा एउ अजोगउ कम्मु बुह । ५
 पुणरवि गुरु पुव्वावत्थ धरि ।
 त सुदरु ज भावइ मणहो ।
 सुहु जणइ निगरिउ खरु वि रवि ।
 इय भणोवि सपेडउ कहिमि गउ ।
 सपत्तउ रायगेहणयरु । १०

घत्ता—सिरिसेणियरायस्स अग्गए हरिसवसगउ ।

बहुसभावविसेस दरिसिवि वसे वलगगउ ॥३॥

४

दुवई—जाम सभज्जु तेत्थु असिपजरि नच्चइ करणजुत्तय ।

ताम नियइ मणोज्जविज्जाहरजुयल गयणे जतय ॥

त पेच्छिवि सुमरिउ पुव्वभउ
 दाहिणसेढीए सुहकरए

नडनाहु विसायहो नवर गउ ।
 नयरम्मि पसिद्धि पियंकरए ।

देवीहि पहावईहें वरहो
 होतउ हउं पावियविज्जवलु
 एक्कहिं दिणि कामविहाररउ
 तहिं एह आसि विज्जाहरिया
 दट्टूण पइट्टु फुल्लकमले
 वामोहिउ लग्गउ कामसरु
 तहु मुहे चडेवि नीसरिउ तहु
 त नियवि कयजलि चारुमई

खयारिदहो पुत्तु पियकरहो । ५
 पीयंकरनामे अतुलवलु ।
 कालबुय नामे वावि गउ ।
 लखिय नामेण मणोहरिया ।
 साहंति पयत्ते विज्ज जने ।
 थिउ पकयम्मि होएवि भमरु । १०
 किउ मणहरु अप्पाणउ पयडु ।
 विज्जाहरसुदरि विन्नवई ।

घत्ता—लड पडिवालहि ताम जाम मित्त सुरसामिणि ।

माटमि विज्ज मणोज्ज पुणु होसमि तुह भामिणि ॥४॥

५

दुवई—एम भणवि विज्ज साहेप्पिणु फणिपुत्ति वरवन्निया ।

सा सजाय मज्झ मणवल्लह नियताएण दिन्निया ॥

माणेविणु बह्हादिण ताहं रउ
 मोहम्मि समाहिए देउ हुउ
 वउ लेवि हयामे भजियउ
 विज्जाहरि जा महु सर्गि पिया
 जो खगमुग्गोवख्हिं तित्थ वउ
 डय चित्तिवि वमहो ओयरिउ
 एत्थतरि हरिसविराइयउ
 पच्चक्खउ विज्जउ नियवि पहु
 कहि काई एउ भो अच्छरिउ
 त निमुणेवि जणु जिणधम्मरउ
 आलोएवि निदिवि लेवि तउ
 वइरायरासु पच्छिमदिसए

घणनामु निएप्पिणु लडउ तउ ।
 पुणु एत्थ विणु सिवभूडमुउ ।
 नडवेमे जणमणु^१ रजियउ । ५
 सा एत्थु एह नडि पाणपिया ।
 सो सपइ गच्छमि तित्ति कउ ।
 ताए वि पुव्वभउ सभरिउ ।
 चिरविज्जानियरु पराइयउ ।
 परिपुच्छइ विभियसयलसहु । १०
 ता तेण सवइयरु वित्थरिउ
 हुउ सयलु वि सो गुरपासु गउ ।
 विहरेवि करेप्पिणु कम्मखउ ।
 वेन्नायडपुरि वराडविसए ।

घत्ता—सुरनरिदनाइदेवदिउ सिद्धसरूवउ ।

१५

सासयपुरु सपत्तु अमणु अणिदिउ हूयउ ॥५॥

६

दुवई—मयणरया वि तासु मणभामिणि माणमएण चत्तिया ।

सावयवयह्लेण दिडदसण अच्चुयकप्पु पत्तिया ॥

वारसवरिसाणि वि सबसित्तु कामादुरो न नासीय ।

पादगुट्टमसत गणियाए गोरसदीवो ॥ [भ आ ९१४]

द्वादशवर्षाणि वि सबमिन्न सममुषित्वा कामादुरो मदनव्याधिना व्याकुलीकृत सन् न ५
नामीय न ज्ञातवान् । को मो ? गोरसदीवो मुनि । किं न ज्ञातवान् ? पादागुट्टम् असत श्रवियमानम् ।
कस्या. गणिकाया । एत्थक्खाण ।

एत्थत्थि भरहि सपयपउरे

दीवायणु नामे पुहइवई

एक्कहिँ दिणि बालवसतभरे

मयणुच्छवि मयणसमाणतणु

जतेण नियच्छिउ चूयतरु

तहो मजरीणु जणनयणपिउ

लेतेण तन्नो परिणयणजेण

कीलेपिणु एते दिट्ठु नउ

जणवणु कुसालि सावित्थि पुरे ।

नावइ सग्गमि सुराहिँवई ।

कलकोइलमयमत्तानिसरे ।

गउ कीलहुँ पहु उज्जाणवणु ।

कुमुमच्चिउ भमिरभमरनियरु ।

कन्नावयमु राएण किउ ।

मूलाइ वि खणियई तक्खणेण ।

पुच्छिउ निवेण कहिँ अबु गउ । १५

धत्ता—होतउ एत्थ पएसं जो मउरियउ मणोहरु ।

ता केण वि पुरिसेण कहिउ नरिदहो वइयरु ॥६॥

७

दुवई—पई किण कन्नपूरि परमेसर परिवारे विहसिओ ।

आमूल तु खडखडाई करेपिणु सीमि लकिओ ॥

आयन्निवि पहु चितवइ मणे

जिह अबउ तिह सुइसयणजणु

इय चितवि परबलसाहणहो

अप्पेवि रज्जु निव्वेयपरु

सामंतसइ सहूँ जाउ जई

विहरेवि पढेवि सत्थनियरु

दीवायणु मुणि मुणिगिरिसिहरे

एक्कहिँ दिणि नायनिमित्तगई

खणभगुरु दीमट्ट सव्वु जणे ।

जाएसड जीविउ धन्नु धणु ।

पुत्तयहो दिभ्रवलवाहणहो ।

पणवेपिणु उत्तरु मुणिपवरु ।

परिपालइ सजमु सुद्धमई ।

गउ सगुरुसंघु उज्जेणिपुरु ।

एक्कगु वसइ तहिँ लयणधरे ।

सिक्खवइ सघु संघाहिँवई । १०

धत्ता—जो उज्जेणिहं अज्जु चरियामग्गु चरेसइ ।

पचमहव्वयभंगु तामु असंसउ होसइ ॥७॥

८

दुवई—एउ सुणेवि के वि उववासिय केइ वि भंतिवज्जिया ।

अन्नेत्तहे पइट्ट परमेसर भिक्खहे भुवणपुज्जिया ॥

दीवायणु अगणियगुरुबयणु
तत्थत्थि जियारि जियारिबलु
वाराणसिपुरि सिरिवम्ममुया
परिणिय सिरिकता तेण सई
आगय तणुसुदरि दिन्नदिही
पडिगाहिय हुय वल्लहिय पिया
असहंतिप्र परिहउ भेइयउ
तेण वि चप्पिवि नह्छेउ कउ

गउ चरियहे पुरु बहुभव्वयणु ।
पहु जसमइवल्लहु जसधवलु ।
सिरमइमहएविहे गढभहुया । ५
सहुँ ताई विलासिणि हसगई ।
पडिहासिय रायहो रूवनिही ।
सिरिकत वि दुम्मण होवि थिया ।
चडिलउ ताप्र संकेइयउ ।
पक्कउ अंगुट्टु विसप्पु गउ । १०

घत्ता—पडिय नाडि दुग्गधु त पेक्खेवि विरत्तउ ।

सा परिहरेवि नरिदु सिरिकंतहे आसत्तउ ॥८॥

९

दुवई—थिय तणुसुदरी वि नीसारिय गंपिणु दारिवाडए ।

करिवि सुवन्नखोल अंगुट्टुप्र विढवत्ती वराडए ॥

एत्तहि उदिन्नबलवाहणहो
हक्कारिवि मयलु वि देसजणु
पारभिय खाइय खणहुँ जहि
नरवइनरेहिँ सचियचरिउ
भासिउ भो मुणि पइसारु कउ
लइ जामि खणंसमि एतु खणी
गउ भिक्खनिमित्तु भमतु पुरु
तहे रूवालोयणि मोहियउ
तेण वि रुट्टेण देहु भणिवि
जलवाहिणिविज्जइँ धरणियलु

रायहो भएण बहुवाहणहो ।
जियसत्तुनरिदे देवि धणु ।
दीवायणु मुणि सपन्नु तहि । ५
चरियहि पइसंतु सतु धरिउ ।
रायाणप्र खणियउ जाम नउ ।
इय वयणहिँ मेल्लिउ तेहिँ मुणी ।
संप्राइउ तणुसुदरिहे घरु ।
निग्गतु तेहिँ पुणु रोहियउ । १०
कुद्दालपहारे आहिणिवि ।
दारिप्पिणु करिवि अथाहु जलु ।

घत्ता—गउ मुणि निययनिवासु मयणे मोहियचित्तउ ।

लिहिवि सिलायलि रूवु थिउ तहे तणउ नियतउ ॥९॥

१०

दुवई—एत्तहे पाणिणु पुरु पूरिउ वत्त मुणेवि राणओ ।

गउ तहिँ जहिँ मुणिदु तणुसुदरिरूव भायमाणओ ॥

मन्नाविउ विणएँ दय करहि
पयपवहेँ पट्टणु पूरियउ

परमेसर जलु उवसघरहि ।
जणवउ नीसेमु वि जूरियउ ।

वारसवरिगाणि वि सवसित्तु कामादुरो न नासीय ।
पादगुट्टमसत गणियाए गोरसदीवो ॥ [भ आ. ९१४]

द्वादशवर्षाणि वि सवसित्तु मममुपित्वा कामादुरो मदनव्याधिना व्याकुलीकृत मन् न ५
नासीय न ज्ञानवान् । को मो ? गौरमदीवो मुनि । कि न ज्ञानवान् ? पादागुठम् असत अविद्यमानम् ।
कस्या गणिकाया । एत्यक्त्वाण ।

एत्थात्थि भरहि सपयपउरे	जणवण कुसालि सावित्थि पुरे ।	
दीवायणु नामे पुहइवई	नावइ सग्गमि सुराहिवई ।	
एक्कहिं दिणि बालवसतभरे	कलकोइलमयमत्तालिसरे ।	१०
मयणुच्छवि मयणसमाणतणु	गउ कीलहुं पहु उज्जाणवणु ।	
जतेण नियच्छिउ चूयतरु	कुसुमचिउ भमिरभमरनियरु ।	
तहो मजरीण जणनयणपिउ	कन्नावयमु राएण किउ ।	
लेतेण तन्नो परियणजणेण	मूलाड वि खणियईं तक्खणेण ।	
कीलेप्पिणु एते दिट्ठु नउ	पुच्छिउ निवेण कहिं अबु गउ ।	१५

घत्ता—होतउ एत्थ पएसं जो मउरियउ मणोहरु ।

ता केण वि पुरिसेण कहिउ तरिदहो वइयरु ॥६॥

७

दुवई—पईं किण कन्नपूरि परमेसर परिवारे विहसिन्नो ।

आमूल तु खडखडाईं करेप्पिणु सीसि लकिन्नो ॥

आयन्निवि पहु चित्तवइ मणे	खणभगुरु दीसइ सब्बु जणे ।	
जिह अबउ तिह सुइसयणजणु	जाएसइ जीविउ धन्नु धणु ।	
इय चित्तवि परबलसाहणहो	पुत्तयहो दिन्नवलवाहणहो ।	५
अप्पेवि रज्जु निब्बेयपरु	पणवेप्पिणु उत्तरु मुणिपवरु ।	
सामतसइ सहुं जाउ जई	परिपालइ संजमु मुट्ठमई ।	
विहरेवि पढेवि सत्थनियरु	गउ सगुरुसधु उज्जेणिपुरु ।	
दीवायणु मुणि मुणिगिरिसिहरे	एक्कगु वसइ तहिं लयणधरे ।	
एक्कहिं दिणि नायनिमित्तगई	सिक्खवइ सघु सघाहिवई ।	१०

घत्ता—जो उज्जेणिहं अज्जु चरियामग्गु चरेसइ ।

पंचमहव्वयभंगु तामु असंसउ होसइ ॥७॥

८

दुवई—एउ मुणेवि के वि उववासिय केइ वि भंतिवज्जिया ।

अश्वेतहे पइट्ट परमेसर भिक्खहे भुवणपुज्जिया ॥

दीवायणु अगणियगुरुबयणु	गउ चरियहे पुरु बहुभव्वयणु ।	
तत्थत्थिय जियारि जियारिबलु	पहु जसमइवल्लहु जसघवलु ।	
वाराणसिपुरि सिरिवम्मसुया	सिरिमइमहएविहे गम्भहुया ।	५
परिणिय सिरिकंता तेण सई	सहुँ ताई विलासिणि हसगई ।	
आगय तणुसुदरि दिन्नदिही	पडिहासिय रायहो रूवनिही ।	
पडिगाहिय हुय वल्लहिय पिया	सिरिकंत वि दुम्मण होवि थिया ।	
असहत्तिप्र परिहउ भेइयउ	चडिलउ ताप्र संकेइयउ ।	
तेण वि चप्पिवि नहछेउ कउ	पक्कउ अंगुट्टु विसप्पु गउ ।	१०

घत्ता—पडिय नाडि दुग्गधु त पेक्खेवि विरत्तउ ।

सा परिहरेवि नरिदु सिरिकंतहे आसत्तउ ॥८॥

९

दुवई—थिय तणुसुदरो वि नीसारिय गंपिणु दारिवाडए ।

करिवि सुवन्नखोल अगुट्टु विढवत्ती वराडए ॥

एत्तहि उदिन्नबलवाहणहो	रायहो भएण बहुवाहणहो ।	
हक्कारिवि सयलु वि देसजणु	जियसत्तुनरिदे देवि धणु ।	
पारभिय खाइय खणहुँ जहि	दीवायणु मुणि सपन्नू तहि ।	५
नरवइनरेहिँ सचियचरिउ	चरियहि पइसतु सतु धरिउ ।	
भासिउ भो मुणि पइसारु कउ	रायाणप्र खणियउ जाम नउ ।	
लइ जामि खणसमि एंतु खणी	इय वयणहिँ मेल्लिउ तेहिँ मुणी ।	
गउ भिक्खनिमित्तु भमतु पुरु	संप्राइउ तणुसुदरिहे घर ।	
तहे रूवालोयणि मोहियउ	निग्गतु तेहिँ पुणु रोहियउ ।	१०
तेण वि रुट्टेण देहु भणिवि	कुहालपहारे आहिणिवि ।	
जलवाहिणिविज्जई धरणियलु	दारेप्पिणु करिवि अथाहु जलु ।	

घत्ता—गउ मुणि निययनिवासु मयणे मोहियचित्तउ ।

लिहिवि सिलायलि रूवु थिउ तहे तणउ नियतउ ॥९॥

१०

दुवई—एत्तहे पाणिएण पुरु पूरिउ वत्त सुणेवि राणओ ।

गउ तहिँ जहिँ मुणिदु तणुसुंदरिरूवं भायमाणओ ॥

मन्नाविउ विणएँ दय करहि

पयपबहें पट्टणु पूरियउ

परमेसर जलु उवसंघरहि ।

जणवउ नीसेसु वि जूरियउ ।

सव्वहं वि वयणु अरुवगन्नियउ तणुसुदरिवयणे मन्नियउ । ५
परियाणिवि मणु उल्लिगियहिं तहो तणउ नरदे इगियहिं ।
सा तहो जि समप्पिय धणु धणु दिन्नउ सम्माणिवि वरभवणु ।

गाहा—सवणवरगंधहत्थी गिहबंधणनेहनियलउम्मुक्को ।
महिलागणियारिरओ पेच्छह किह बधणं पत्तो ॥

पव्वयपुहइपओनिहिसमसारो सव्वरयणसारेसु । १०
पेच्छह तिणतुसतुल्लो जाम्मो सो जुवइसगेण ॥

तहिं ताए समाणु निवद्धरइ जामच्छइ विसयासत्तमइ ।
आवेप्पिणु नयणाणंदकर तहो तणए ताम निरुद्धु पुरु ।
जाणाविवि वइयरु अण्णणउ तेण वि किउ तामु नियत्तणउ ।

घत्ता—परिओसियचित्तेण जाणिवि वइरायवल्लहो । १५
नंदिज्जइ जयम्मि जं होत्ते सो न वि कामु वल्लहो ॥१०॥

११

ज भणइ असेसु वि त करइ जीवु वि जियसत्तु न तहो धरइ ।
तणुसुदरि भणिय निवेण तुहं एयस्स करेज्जसु परमसुह ।
जइ जाइ एहु ता निट्टवमी पई निच्छउ जमपुरु पट्टवमी ।
पहुवयणु पडिच्छविं गेहु गया गणिया तहो करइ पयत्तु सया ।
अच्छतहो सोक्खुप्पायणइ वोलीणइ वारह हायणइ । ५
एक्कहिं दिणि रयणविणिम्मियउ पाणहियउ देवाण वि पियउ ।
पुहईसहो पाहुडु आइयउ दीवायणमतिहे ढोइयउ ।
रहसेण सो वि घरु लेवि गउ कइठेप्पिणु कंतहे वामपउ ।
किर परिहइ जाम ताम कुहिउ अगुट्टउ नियइ खेलसहिउ ।

घत्ता—पेक्खवि हुउ निव्वेउ हा किह हउं कुणिमगे । १०
संताविउ पावेण सुदरियवयवभगे ॥११॥

१२

दुवई—खणभगुरहो पूइवीभच्छहो रसवसकिमिनिवासहो ।
खयकायहो कएण मई पावे कि किउ हा हयासहो ॥

इय चितिवि पच्छातावहधो
 आलोर्णव निदिवि पहयरउ
 करिणा इव सल्लइ पाणपिया
 पडिकमइ न वदइ देउ जिणु
 अंगुट्टयदोसें दुल्लहिया
 मणपज्जवनाणे मणु मुणिउ
 जो महिलहि उप्परि करइ रइ
 संसारहो कारणु खलु जुवई
 सो भवि भवि दुक्खहँ भायणउ
 इय अक्खइ तामु महासवणु

मुणि विमलचंदु जहिँ तत्थ गभ्रो ।
 तहो पय पणवेप्पिणु लइउ तउ ।
 पुणरवि संभरिया तेण पिया । ५
 भायइ तणुसुंदरि एककमणु ।
 परिहरिय काई मई वल्लहिया ।
 दीवायणु मुणि गुरुषा भणिउ ।
 तहो दूरि परिट्ठिय परमगइ ।
 सो जो न विवज्जइ जणियरई । १०
 उप्पज्जइ दीणु दयावणउ ।
 पर तो वि न ठायहो एइ मणु ।

घत्ता—एत्तहे तम्मि गयम्मि रायभएणाकंतए ।

कठे करेप्पिणु पासि पाण विसज्जिय कतए ॥१२॥

१३

दुवई—वत्त सुणेवि पाणु पुहईसे कोक्काप्पिणु भयाणए ।

सा कड्ढाविऊण धल्लाविय रोसवसे मसाणए ॥

अंगुट्टउ नट्टउ एक्कु जई
 उवमिज्जहिँ कामु वि मुक्कमला
 जघउ गोपुच्छायारियउ
 मसिणउ मडियउ सुसधियउ
 निरु सुदर ऊरुय सोक्खयरे
 रमणहो सनियवहो सोहणहो
 वभिज्जइ काई गुरुत्तणउ
 तिवलिउ तहो सुट्टु विराइयउ
 वररोमराइ जणमणु हरइ
 नाही वि अणोवमरूवडिया

तो कि विरूव हुय हसगई ।
 रत्तुप्पलकोमल कमकमला ।
 लडहउ जुवाणमणहारियउ । ५
 न वरकइकव्वहो सधियउ ।
 तोरणखभाई व कामघरे ।
 तइलोककचक्कमणमोहणहो ।
 जं किउ गरुयहँ वि लहुत्तणउ ।
 नावइ कामउरहो खाइयउ । १०
 तणु तणुसिसिरेहहे अणुहरइ ।
 नं सोहग्गामयकूवडिया ।

घत्ता—थोव्वड थोर घट्ट थणमडल सगय पीण पीवरा ।

नाई अणंगरुक्खफल रइरसपूरिय जणमणोहरा ॥१३॥

१४

कोमलसरलंगुलिसोहधरा
 मालइमालोवम कहो न पिया

कामधिवपल्लव नाई करा ।
 भुय कामएवपास व्व थिया ।

१३. १ मणिमोहणहो ।

कंठहो उवमाणउ नत्थि जणें
जं वियसइ दिणि सकुइ निसिहे
अहरहो पुणु नोखी भंगि कवी
बोल्लंतिहे ताहे सुणेवि सख
नासवंसेण परज्जियउ
निरु महरुइ मयणुक्कोयणइ
भउंहुउं सोहति तिभंगियउ
संगयपलंबसोहण सवणा

उवमिज्जइ कमलु केम वयणे ।
लछणु जडत्तु पुंभिमससिहे ।
जिय दतहिं मुत्ताहलहें छवी । ५
पडिहासइ वीणासद्दु खरु ।
तं गउ वणु सुयगणु लज्जियउ ।
कामहो कडा इव लोयणइं ।
न तामु जे धणुहिउवंगियउ ।
रइहिदोलाइं व मणदवणा । १०

घत्ता—नं अट्टमिहरिणकु भालु पहायरु सोहइ ।

अलिकज्जलानहु केसपासु न कसु मणु मोहइ ॥१४॥

१५

दुवई—रुवनिही पसिद्ध एवविह दुल्लह मइं मणोहरी ।

एवकांगुट्टदोसमेत्तेण जे कि मुक्का किमोयरी ॥

नवजोव्वणु लोयहो दुल्लहउ
लइ गच्छमि पेच्छमि पियवयणु
चित्तंतु एउ सो तत्थ थियउ
दुग्गंधेह पियराल हुया
तहिं वाउसे तं थविऊण मुणी
आणावसु सो वि तत्थ थियउ
जइ एक वार एत्थायरिउ
ता तक्खणे सूरि पराइयउ

कहिं लब्भइ माणुसु वल्लहउ ।
पच्छइं जे करेसमि तवयरणु ।
गुरुणा मुणेवि वहिभूमि निउ । ५
अच्छइ सा जत्थ पएसि मुया ।
भउ अप्पणु भमणिहें दूरे मुणी ।
चित्तइ दुग्गधकयत्थियउ ।
आगच्छइ तो नासमि तुरिउ ।
भासइ घाणिप्र वइराइयउ । १०

घत्ता—न मुणिज्जइ भयवंत काइं एउ एत्थच्छइ ।

मुयउ जामु घाणीप्र जीवु जणहो निग्गच्छइ ॥१५॥

१६

दुवई—तं निसुणेवि वयणु मुणिनाहें करि धरिऊण तेत्तहे ।

निउ सो विगयपाण तणुसुंदरि अच्छइ कुहिय जेत्तहे ॥

दक्खालिय सा तुह एह पिया
जा भायहि सिद्धि व रत्तिदिणु
तं निप्रवि विराउ महंतु हुउ
आलोइवि निदेवि अप्पणउ

जहे कारणे वज्जिय साहुक्रिया ।
लइ एह गियच्छहे सा सुयणु ।
गुरुगुणगुरुभक्तिभरेण तुउ । ५
दूरुज्जेवि अवरु वियप्पणउ ।

निञ्चलमणु मुणिचारित्तं थिउ	कालें दुक्कियमलु खयहो णिउ ।	
समसत्तुमित्तु हुउ अण्णवसी	तवतेएँ नावइ' पुन्नससी ।	
दीवायणु गुणनामेण गुणी	ते भणिउ गोरसंदीवु मुणी ।	
होएण्णिणु केवलि त्तिजगगुरु	तणुचत्तउ पत्तउ मोक्खपुरु ।	१०

घत्ता—महिलासगे दोसु एउ वियाणोवि छंडह ।

सिरिचदुज्जलकित्ति नियवउसीलु म खडह ॥१६॥

बिबिहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्यसंदोहसाले ।
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिव्वतोसे ॥

मुणिसिरिचंदपउत्ते मुविचित्ते एत्थ जणमणाणदे ।

वारत्तय - दीवायणकहाए तेत्तीसमो संधी ॥

॥ सधि ३३ ॥

संधि ३४

१

इह लोए वि महल्लं दोसं कामस्स वसगग्गो पत्तो ।

कालगदो वि य पच्छा कडारपिगो गदो निरय ॥ [भ० आ ९३४]

इह लोकेऽपि महान्तं दोषमपराधं कामवशं गतः संप्राप्तः कडारपिगो मन्त्रिपुत्रः पश्चात्तरकं गतः ।

अवरु वि कहमि कडारपिगु मंतिहे देहुब्भउ ।

सहेवि किलेसु बहुत्तु कामवसो नरय गउ ॥

५

इह कंप्पिल्लनयरि^१ नरसीहहो

होतउ सुमइनामु विक्खायउ

सो रायहो पिउ लीलइं अच्छइ

सा सा चप्पिवि भुजइ दुज्जणु

काले जंतएण वणिउत्तहो

एक्कहिं वासरि रूवरवन्नी

नवजोव्वण निएवि अणुराएँ

भणिय भणाविय तो वि न इच्छिउ

रायहो मंति वइरि करिसीहहो ।

तासु कडारपिगु सुउ जायउ ।

जा जा का वि नारि पुरि पेच्छइ ।

कि पि न पहुभएण जपइ जणु ।

भज्ज पियगुसिरी घणदत्तहो । १०

नं सुरकन्न का वि अवरइन्नी ।

तेण महासइ सा पियवाएँ ।

दिढमणाए दुव्वयणाह दोच्छिउ ।

घत्ता—सेट्ठिहे भज्ज भणेवि खलु चित्तम्मि व^२ वकइ ।

गेण्हुं रायभएण तं सहस त्ति न सक्कइ ॥१॥

१५

२

अलहंतेण मयणगहगहिणें

पेक्खहि एहावत्थ सरीरहो

जइ त नारीरयणु न पावमि

तेण वि धीरिवि पुत्तु पयत्ते

सेट्ठि सुवन्नदीवु पेसिज्जइ

तो पट्टु बाहिमरणदुब्बिक्खइं

वइरिविणासु तासु माहप्पें

आयन्नेवि एउ अणुराएँ

जाहि सुवन्नदीवु तुहें जाणहि

तायहो कहिउ तेण ह्यसुहिणें ।

दूसह सरधोरणि असरीरहो ।

तो निच्छउ जमपट्टणु पावमि ।

भणिउ महीवइ मत्तियमंते ।

जइ किजप्पु पक्खि आणिज्जइ । ५

लोयहो होति न दावियदुक्खइं ।

रज्जहो विट्ठि होइ अवियप्पें ।

हक्कारेवि भणिउ वणि राएँ ।

सद्ध किजप्पु पक्खि एत्थाणहि ।

१. १ कंमिल्लिनयर ।

२ चित्तमिव ।

घत्ता—जेण विलिज्जइ वाहि होइ संति पुरदेसहो । १०
 एम करेमि नवेवि गउ घणदत्तु निवासहो ॥२॥

३

मुहकमलोहामियसयवत्तहो गंपिणु कहिय वत्त नियकंतहो ।
 वल्लहं रायाएमु करेवउ मई मुवन्नदीवहो जाएवउ ।
 लोयहो रोयवियारु हणेवउ इह किजप्पु पक्खि आणेवउ ।
 पच्छइ पिणु सुविहाणु करेज्जसु घरु परियणु कुडुबु चितेज्जसु ।
 ता धुत्तीणु तीणु उवलक्खिउ कारणु नियभत्तारहो अक्खिउ । ५
 मज्झ सइत्तणिभंजणचित्तहो एउ पवंचु महंतयपुत्तहो ।
 जाणइ जइ भत्तारु पयट्टइ तो महु एककल्लिय कहिं छुट्टइ ।
 आयन्नेप्पिणु एउ वणीसरु सोहणदिणि पणवेवि णरेसरु ।
 सहं सत्थं धोवंतरु गंपिणु एप्पिणु थिउ पच्छन्नु हवेप्पिणु ।

घत्ता—एत्तहं संक मुएवि सहं सुहीहिं अणुराइयउ । १०
 णिसिसमयम्मि कडारपिणु तत्थ संप्राइयउ ॥३॥

४

बीसासेवि समित्तु बंधाविउ ताए गृहकूवम्मि छुहाविउ ।
 अच्छिउ तहिं नरयम्मि व नारउ कूरसरावं किउ साहारउ ।
 ता संबच्छरंति संप्राइय लेवि परोहणु सेट्टिसहाइय ।
 नाणा पक्खिपक्ख आणेप्पिणु पावयम्मु कूवहो कड्डेप्पिणु ।
 चंचु पक्ख पय पुच्छु करेप्पिणु दाविउ रायहे राउलु नेप्पिणु । ५
 भासिउ पुहईसेणुव्वेल्लहि लइ किच्चि वि किजप्पय बोल्लहि ।
 तेण वि सण्हसरेणालत्त कि जंपमि कि जंपमि वुत्तं ।
 सद्दु मुणेवि महीवइ घोसइ एहु कडारपिणु फुडु होसइ ।
 फेडिवि पक्खावरणु निरिक्खिउ पुच्छिउ वइयरु वणिणा अक्खिउ ।
 ता रुट्ठेण नरिदं ताडिउ विच्छारिवि नयरहो णिद्धाडिउ । १०

घत्ता—पायालहो पावेण गउ मरेवि हुउ नारउ ।
 अवरु वि पावइ एम दुहइ परदारारउ ॥४॥

५

असणि व माणगिरिदवियारी नारि अणत्थमूलु विरुयारी ।
 भारहरामायणइ अणंतइ जुज्झइ जुवइनिमित्तं वृत्तइ ।

असुइ सहावें चंचलचित्ती
भामिणि विणु असणेण विसूई
सामा सिहिसिहि व्व संतावइ
विसमसील रक्खसि व भयकरि
सिहिधूमोलि व मइलियगेही
दुट्टभुयगि व वाहि व विसमी
वग्घि व घुरुहरंति न वि थक्कइ

थी सुणहीव हीणकयमेत्ती ।
दुम्मइ निव्वरदुक्कियकूई ।
पुरिसहो दुगइदुक्खई दावइ । ५
साइणि व्व नरपाणखयंकरि ।
खलमेत्ति व खणदिट्टसणेही ।
वंकवलण नइ व्व नीयगमि ।
मयिरि व गाहु न मेल्लहुँ सक्कइ ।

घत्ता—जो वीसासहो जाइ महिलहो सो नरु नट्टउ । १०
पडियउ वणि चोरिणिहे वच्चइ कवणु अमुट्टउ ॥५॥

६

घरु अलीयअविणयआयासहो
अयसनिहेलणु ससयसयखणि
दुक्खुपत्ति सोक्खसत्तासणि
कंत किवाणहो धार व छिदड
मइर व मोहइ पामि व बंधइ
कियउवयार सया वि वियट्टइ
तियमइ तिक्खकुडारु व फाडइ
तामच्छउ ससग्गु व चित्तई
भामइ संसारई तें भामा
वहइ वहु ते भणिय विसट्टहिँ

कारणु वइरहो कलिहे विणासहो ।
दोसकसायसोयसस्सावणि ।
धम्महो विग्घु सुगइनिन्नासणि ।
पुरिसहो हियउ निम्लु व भिदइ ।
जतु व निसुभइ भल्लि व विभइ । ५
कुवलयच्छि करवत्तु व कट्टइ ।
मणुसु मयधु मुसठि व ताडइ ।
रामानामाई वि अपवित्तई ।
दुक्किण रमइ निच्च ते रामा ।
वणिा वयणहिँ वणइ अणिट्टहिँ । १०

घत्ता—नारि अवरु ते नारि रमणी रंजइ राइ ।
पमया वुच्चइ तेण वट्टइ जेण पमाइ ॥६॥

७

दइया दमइ जेण कयदोसा
दारइ मणु ते वुच्चइ दारी
अबला अबलाबुद्धिहे लहुडी
कामिणि थोडउ कामु न रुच्चइ
भज्जा जेण वियारहिँ भज्जइ
बाला बलियाहँ वि मणु बालइ

पुरिसहो जोसिज्जइ ते जोसा ।
कुच्छिय मरणई करइ कुमारी ।
मोक्खहो जंत बहोडइ बहूडी ।
चित्तु विलावइ विलया वुच्चइ ।
कमई कुलई तं कंत भणिज्जइ । ५
संयमु भाणज्भयणई चालइ ।

करइ वउक्खउ वल्लह तें तिय
आलु पउंजइ पियहो पियाली

पच्छायइ दोसहिं तेणेत्थिय ।
माणु महइ ने भणिय महेली ।

घत्ता—मायबप्पु पिउ पुत्तु विसयंघा अन्नइ ।

कुणइ अकज्जसयाई कुलपरिहास न मन्नइ ॥७॥ १०

८

मारइ मारावइ सई मरइ
आयन्नह रत्तई रत्तमई
एत्थत्थि विणीदादेसि वरु
तहिं करइ रज्जु पहु देवरई
सा चेय भणिज्जइ मित्तमई
दूरज्जिअयरज्जकज्जकरणु
सजायउ परचक्कागमणु
सव्वहिं मिलेवि नीसारियउ
सहुं मित्तमईए पइट्ठु वणु

त नत्थि ज न तियमइ करइ ।
जउणट्ठहि घल्लिउ देवरई ।
सुरपुरु व अउज्ज्जा नाम पुरु ।
तहो रत्ता देवि गइदगई ।
अच्छइ सहुं ताई नराहिवई । ५
न विहावरि जाणइ नेव दिणु ।
थिउ अन्नहत्थिवि मत्तियवयणु ।
तहो वणउ रज्जि वइसारियउ ।
तहिं ताहि पियासए तवियतणु ।

घत्ता—अलहंते जलु तेण कइहेप्पिणु नियसोणिउ । १०

उसहिवलेण करेवि पाइय पिययम पाणिउ ॥८॥

९

हुय सत्थुप्पाइय मित्तमई
तहिं मुणिवि जणेण महापुरिसु
किन्नररइ नामें गुणनिलउ
तहो गेयासन्नइ ताए पई
सहुं तेण करेप्पिणु मंतणउ
दुट्ठाए रुएवि पवंचु किउ
मालाए नहारुपगुत्थियए
मंगलु गायंतिए पेत्थियउ

संपत्तउ सिरिपुरु देवरई ।
दिन्नउ धणु भवणु जणियहरिसु ।
वावीघरि निवसइ पंगुलउ ।
वचिउ पावाए अण्णमई ।
तुज्ज्ज वरिसवद्धावणउ । ५
पहाणहुं पिउ जउणायडहो निउ ।
वेढेवि निरंतर इत्थियए ।
सहसत्ति महादहि घल्लियउ ।

घत्ता—अप्पणु पंगुलएण सहुं सुहेण थिय गंपिणु ।

एत्तहे ताम नरिदु गउ सोदेण वहेप्पिणु ॥९॥ १०

१०

तोडिउ मच्छेहिं नहारुगुणु
चित्तापवणु छायाबहले

पत्तउ मंगलउर भीणतणु ।
बीसमइ जाम तहिं तरुहें तले ।

तहो णयरहो राणउ लोययुउ
सुउ नत्थि मंतु' मंतीहिं कउ
तेण वि आवेप्पिणु देवरई
सब्बेहि मि जय जय कारियउ
अनियंतु संतु तहिं जुवइयणु
तामेत्तहे पहिएं वज्जरिउ

सिरिवद्धणु ताम परोक्खु हुउ ।
अहिवासिबि मेल्लिउ रायगउ ।
अहिसित्तु नारिनिव्विन्नमई । ५
निउ नयर रज्जु बइसारियउ ।
जो करइ रज्जु पालियमुयणु ।
मित्तमइहे केण वि तहो चरिउ ।

घत्ता—मंगलउरि मलचत्तु देवि पइव्वए राणउ ।

अत्थि नाम जयसेणु पीणियदुत्थियदीणउ ॥१०॥ १०

११

सुदरो उयारसत्तु
अधमूयपंगुलाण
तेण तेत्थ जाहि देवि
भंदुली पहिट्ठवत्त
खंघे पंगुलं वहंति
पुच्छए हले जणोहु
सा पयासए पसन्नु
एहु मज्झ पाणइट्ठु
तेण निस्स पायभत्ति
भूयले भमामि एव
तं सुणेवि थामे थामे
वंदए महासइ त्ति

सो पइव्वयाण भत्तु ।
देइ दाणु दुव्वलाण ।
एहि कंचण लएवि ।
चल्लिया सुणेवि वत्त ।
पेच्छऊण' पंथि जति । ५
तुज्झ काउ होइ एहु ।
देवबंभणेहिं दिन्नु ।
पगुलो गुणो गरिट्ठु ।
सव्वहा करति भत्ति ।
पेच्छमाण तित्थ देव । १०
सव्वु कोइ गामे गामे ।
पत्त तत्थ जति जति ।

घत्ता—मणेवि पइव्वय लोउ पय पणवेवि नियच्छइ ।

घरे घरे भत्तिभरेण घन्नु सुवन्नु पयच्छइ ॥११॥

१२

पहे रत्थहे घरि घरि रइयसहा
जणु जंपइ आयइं किन्नरइं
गायंतइं संदरिसियरसइं
अवरेरिस तिहुवणि णत्थि सई
आयहे नामेण जि गलइ भलु

सव्वत्थ वि पट्टणि ताहं कहा ।
गंधव्वइं कि विज्जाहरइं ।
अन्नइं न होंति फुडु एरिसइं ।
पइ पंगलु तो वि नाहि मुयई ।
संपज्जइ चित्तउ सुहु सयलु । ५

१०. १ संतु ।

११. १ पेक्षि जणु ।

आयहे नामेण महासइहे
इय घरि घरि वन्निज्जति सया
पेसिय पडिहारें सा सपई
निसुणइ अदिट्टवणियावयणु

वरिसइ जलु वविउ एइ सइहे ।
एक्कहिं दिणे रायदुवारु गया ।
थिउ ता कवडंतरि भूमिवई ।
उच्चरिउ ताए आसीवयणु ।

गाहा—दरियारिदप्पभंजण परमेसर जणियजणमणाणंद । १०

दुत्थियकप्पमहीरुह जसघवल चिरं तुम जीय ।

परियाणंवि पट्टणा तहे भुणिउ

फेडेप्पिणु अंतरवडु भणिउ ।

वाहूदो सोणिय पीदं ऊरुदो^१ खादिदं पलं ।

कालिदीए अहं छूढो साधु देवि पदिव्वदे^२ ॥

इय भणिवि देवि धणु ताहे बहू

परिहरिवि रज्जु पव्वइउ पहू । १५

घत्ता—सीहबलु वि सइरिणियए समउ सवत्तिए मारिउ ।

गोवईए रुट्टाए वइवसपुरु पइसारिउ ॥१२॥

१३

अत्थि एत्थ पुहईपुरि राणउ
तहो पाइक्कु परज्जियपरबलु
गोवइ नाम नाई जमदूई
गामि पलासकूडि पट्टइलहो
दिन्न विहाहहूँ सा सविहोएँ
कुलईसरियरूवगवियमइ
खलसहाव छंदेन पयट्टइ
एक्कहिं दिणि उदेइउ गामहो
तत्थ सुहदा नाम विसेणहो

गोविदु व गोविदपहाणउ ।
दससयभडु नामेण महाबलु ।
तासु पुत्ति सिरिकतहे हई ।
पट्टवयणेण तेण सीहबलहो ।
किउ परमुच्छउ बघवलोएँ । ५
रुच्चइ तासु ण केम वि गोवइ ।
दोहूँ वि कलहु कयावि न फिट्टइ ।
गउ सीहबलु समीहियकामहो ।
परिणिय धीय तेण हरिसेणहो ।

घत्ता—आयन्नेप्पिणु वत्त जोएवि रोसें रत्तिहे । १०

आगय गोवइ लेवि सीसु छलेण सवत्तिहे ॥१३॥

१४

अंतरि विग्घभएण चडेप्पिणु
तत्थ वि चोरविदु भेसाविउ
निसिनिग्गमि मंदिरि आवेप्पिणु
अवरहिं वासरम्मि विच्छोइउ

थिय बडपायवि निहुय हवेप्पिणु ।
होएवि रक्खसीए धणु पाविउ ।
थवियउ मत्थउ तेल्लि तलेप्पिणु ।
आइउ गहवइ कालें चोइउ ।

१२. जरूदो । २ पदिव्वदो ।

कयपडिवत्तिण भोयणकालण
माणससिर निएवि मुहु वंकिउ
लइ वल्लहिय खाहि कहिँ नासहि
एम भणिवि भल्लेण वियारिउ

आणिवि त तहो घल्लिउ थालण । ५
उट्टिउ आसणाउ आसंकिउ ।
अज्जु हयास जमाणणि पइसहि ।
पाविणीण नियपइ संघारिउ ।

घत्ता—लाणवि आलु खलाण वणिमुउ नामें दत्तउ ।

नियवरु वीरवईण मारावहूँ आढत्तउ ॥१४॥

१०

१५

रायगेहि वणियहो धणमित्तहो
नंदणु मायवप्पपयभत्तउ
नयरसन्नगामि भूमोहरि
तेण वि मित्तमइहे उप्पन्नी
पडइ न सहूँ पिएण सा सुरयहो
तत्थंगारयचोरहो रत्ती
एक्कहिँ दिणि पत्तउ चोरंतउ
एत्तहिँ समुरयघरु अणुराइउ
दुम्मियमाणस वत्त सुणेप्पिणु
जाणिवि मुत्तु कंतु एक्कल्लिय

हुउ धणवइहे गढ्भे धणइत्तहो ।
नामे सुयणु भणिज्जइ दत्तउ ।
निवसइ वणि आणंदु मणोहरि ।
वीरवई सुय दत्तहो दिन्नी ।
जाइ समत्थ वि ण वि सामुरयहो । ५
अच्छइ अहनिमु मयणुम्मत्ती ।
अंगारउ सुलियहे निहित्तउ ।
वीरमइहे भत्तारु पराइउ ।
थोव वेल सहूँ तेण सुएप्पिणु ।
सा तक्करहो पासु संचल्लिय । १०

घत्ता—दत्तहो मित्तु सुसेणु तहो अणुमगे गंपिणु ।

चोरसमीवि मसाणं थिउ पच्छन्न हवेप्पिणु ॥१५॥

१६

वीरमइण आसन्नण होइवि
चोरु गरुयपीडाण करालिउ
पुच्छिउ कि किज्जउ सो भासइ
सीयल हियण पओहर लायहि
ता तण उवलुत्तुरुडि करेप्पिणु
मुहु मुहेण तबोलु समप्पिउ
विहडिय पाहण पडिय खसेप्पिणु
आवेप्पिणु घरु किउ कूवारउ
विणु कज्जेण जि एण ह्यासैं

संभासेवि सदुक्खउ रोइवि ।
समलहेवि कुसुमहिँ ओमालिउ ।
तिह करि जिह पिणु डाहु पणासइ ।
मणहरु अहरपाणु परिपायहि ।
आलिगिउ दिहु उवरि चडेप्पिणु । ५
तेण वि उट्ठु मरंते चप्पिउ ।
थिउ तहि मुहि जि उट्ठु तुट्टेप्पिणु ।
पेक्खह खंडिउ अहरु महारउ ।
ता वेडिउ घरु लोयसहासैं ।

बंधेप्पिणु रायहो जाणाविउ
मारहि एहु भणिउ आरक्खिउ
वत्त कहेवि लोउ पडु जाविउ

तेण वि मणि न कि पि परिभाविउ । १०
तहिँ पत्थावि सुसेणे रक्खिउ ।
खडिउ अहरु चोरमुहि दाविउ ।

घत्ता—मारिउजंतु जणेहिँ मित्ते मित्तु मुयाविउ ।

सिरिचदुज्जलु लोए सव्वत्थ वि जसु पाविउ ॥ १६ ॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले ॥
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मृणिमिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसंजुत्ते ।

महिलादोसपयागो एमो चउनीममो मंधी ॥

॥ सधि ३४ ॥

संघि ३५

१

ओघेण न बूढाओ जलंतघोरग्गिणा न दड्डाओ ।

सप्पेहिं सावएहिं य परिहरिदाओ वि काओ वि ॥ [भा. भा. ९९८]

ओघेण जलप्रवाहेण न बूढाओ न नीता । जलंतघोरग्गिणा जाज्वल्यमानेन रीद्राग्निना न दग्धाः । सप्पेहिं वि सर्वेरपि सावएहिं य सहव्याघ्रादिभिरपि परिहरिदाओ विवर्जिता अपि काश्चित् स्थियः । अत्राख्यानम् । ५

धुवयं—इय कहियाउ विरूवउ संपइ चंगियउ ।

आहासमि महिलाउ पसंसहो जोग्गियउ ॥

सूरसेणजणवण सउरीउरि
तहो महएवि महासइ रोहिणि
पुत्तु पवित्तु ताण संजायउ
सो अहनिमु पासट्टिउ मायहे
अइआसग्गु निएप्पिणु नंदणु
हा पेच्छह परलोयविरोहिणि'
तेणायमि अइमेलु निवारिउ
लेप्पिणु गोरसु गोवयपत्तिण

पहु वसुएउ सक्कु नं सुरउरि ।
नं कामहो रइ चंदहो रोहिणि ।
नामं रोहिणेउ विक्खायउ । १०
भत्ति पयासइ पहयपमायहे ।
घरि घरि खलसहाउ जपइ जणु ।
अच्छइ सहुं बलहदे रोहिणि ।
आए दुज्जसु होइ अवारिउ ।
एक्कहिं वासरि राउलु एत्तिण । १५

घत्ता—पुरपवेसि पणिहारिउ सुणिउ भणत्तियउ ।

हले अम्हारण पट्टणि पाउ पवत्तियउ ॥१॥

२

पेच्छह अमुणियजुत्ताउत्ती
सुणिवि एउ दुहमउलियवत्ती
कि रोवहि हलि पुच्छिय देविण
रोवमि देवि दुक्खु बड्डारउ
अच्छहि तुहं पुत्तं सहुं जंपइ

अच्छइ रोहिणि पुत्तहो रत्ती ।
गय राउलु गोउलिणि रुयंती ।
गग्गरिगरिइं कहिज्जइ गोविण ।
फुट्टइं लग्गउ हियउ महारउ ।
लोउ हयासु न कि पि वियप्पइ । ५

१. १ परिलोय'

ता देवीप्र करेप्पिणु निच्छउ
 देहि सुद्धि दुज्जसमलु खालमि
 भासिउ वसुएवेण किमन्नं
 एयहे उहयतडडं रेल्लतिहं
 मज्झि परिट्ठिय पडिमाजोएँ
 नत्थि भंति ता होहि महासइ

भणिउ ताहु जणचोज्जु नियच्छउ ।
 सयणकुडुववयणु उज्जालमि ।
 दीवें देवि लोयसामन्नं ।
 नइहिं महापूरेणावतिहं ।
 जइ न वहाविज्जहि तुहं तोएँ । १०
 आयन्नेवि एउ निम्मलमइ ।

घत्ता—जइ वसुएउ मुएप्पिणु अन्न कयाइ मणे ।
 तो बोलेज्जसु निज्जसु निच्छउ मइँ जउणे ॥२॥

३

जणहो नियंतहो एम भणेविणु
 ता तहिं ताहे पहावे थभिउ
 उम्मग्गिउ जलु बोलिज्जते
 रक्खहिं अम्मह मरणु महावइ
 जो तुह देइ आलु अवियक्खणु
 ता भासिउ देवीप्र सइत्तणु
 ता कालदि म बोलहि पट्टणु
 तद्विसावहि किय उत्तरगइ

धिय तणुचाएँ भोणु करेविणु ।
 एंतु जलप्पवाहु जणु विभिउ ।
 पुक्कारिउ लोएण मरंतं ।
 तुहं परमेसरि सुद्ध महासइ ।
 सो निदिउ पाविट्ठु अलक्खणु । ५
 जइ महु अत्थि लद्धु गुणकित्तणु ।
 करि दक्खिणहि दिसाहि नियत्तणु ।
 अज्ज वि वहइ तत्थ जउणा नइ ।

घत्ता—अइसउ अइसउ पेक्खि विभिउ सव्व जण ।
 पुज्जिय रोहिणि देवहिं सइ सुविसुद्धमण ॥३॥

१०

४

कामो वि हु दीसंति गुणङ्गउ
 सीयाएविहि एत्थ कहाणउ
 सप्पेहिं वि खद्धाउ न पेच्छह
 सावएहिं कामो वि न खद्धउ
 अत्थि वणिउ जिणदासिप्र पत्तिप्र
 सो कयाइ कज्जेण सभज्जउ
 अंतरालि वणि कामु वि वयणं
 किं आयइँ कम्मइँ कुलउत्तिहं

न जलंतेण वि सिहिणा दङ्गउ ।
 अक्खेवउ सव्वत्थ पहाणउ ।
 सोमहे एत्थ कहहि मालाकह ।
 चंपाउरि जिणदासु पसिद्धउ ।
 सोहिउ ससि व समुज्जलदित्तिए । ५
 गउ सावित्थिहि सत्थसहेज्जउ ।
 भणिय तेण पिययम दुब्बयणं ।
 सा सइरिणि जा हिंडइ रत्तिहं ।

पियवयणेण सइत्तणु थप्पहँ
धिय पडिमाजोएँ परियच्चिवि

गय सा सीहहो देहु समप्पहँ ।
गउ हरि भणिवि महासइ बंचिवि । १०

घत्ता—तं कोऊहलु पेक्खेवि हुउ निच्छउ पइहे ।
पुज्जेविणु अवरेहँ वि किय पसंस सइहे ॥४॥

५

साहु पडिलाहेदु गदस्स सुरदस्स अगमहिसीए ।
नट्टु सदीए अग कोढेण मुहुत्तमेत्तेण ॥ [भ० आ० १०६१]

साधु मुनिं प्रतिग्रहीतुं गतस्य । कस्य ? सुरतनाम्नो नृपस्य । अग्रदेव्याः नष्टम् । किम् ? तदगं
क्षरीरम् । किमाख्यायाः देव्या ? सत्याख्यायाः । केन नष्टम् ? कुप्टेन । कियता कालेन ?
मुहूर्तमात्रेण । अत्राख्यानम् । ५

नामँ सुरउ सुरिदुसमाणउ
नं सइ सयलतेउरसारी
वज्जियरज्जकज्जु परमेसरु
एक्कहँ दिणि सुउ धम्मु महीसँ
मुणिआगमणु होइ सुह्यारउ
ता पर विन्नवेहि अच्छतहो
एम भणेप्पिणु पहु अतेउरि
साहुजुयलु चरियाइँ पइट्टउ
राउ वि पियसिगारासत्तउ

अत्थि अउज्झापट्टणि राणउ ।
कत तासु सइ पाणपियारी ।
अच्छइ ताए समेउ निरतरु ।
भणिउ तेण पडिहारु विसेसे ।
अहवा रज्जकज्जु गरुयारउ । १०
अतेउरि महँ कील करतहो ।
गउ पइसरिउ ताम तहिँ अवसरि ।
आवेप्पिणु पडिहारु सिट्टउ ।
सुणइ न बार बार विन्नत्तउ ।

घत्ता—बार बार बोल्लंतहो कि पि वि कुविउ पइ । १५
पुच्छइ रे पडिहारु किमाया एत्थ जइ ॥५॥

६

कहइ दुवारपालु पहु आया
रिसि सूयारँ भव्वाराहिय
धोविय पय वडिवत्ति समारिय
एउ पसाउ करेप्पिणु गम्मइ
पिय पडु जावेप्पिणु गउ तेत्तहे
पुज्जिवि साहु विहूसियरिद्धिए
पाविय पंचाइसय नरिदँ

दमवरधम्मरुई विक्खाया ।
चरियहे पइसरंत पडिगाहिय ।
अच्छहिँ भाणसम्मि वइसारिय ।
तं निसुणिवि सहसुट्टिउ भूवइ ।
मुणि अच्छति खडाइय जेत्तेहे । ५
दिन्नउ भोगणु तियरणसुद्धिए ।
साहुक्कारिउ सुरवरवूंदे ।

राउ विसज्जेवि रिसि जामावइ
मुणिनिदावाएण विसिट्ठउ

हुय महएविहे ताम महावइ ।
तवखणे कोडे अगु विणट्ठउ ।

घत्ता—तं दट्ठण विरत्तउ तवहो नरिदु गउ । १०
रिसिनिदापावे सइ भमिय अणंतु भउ ॥६॥

७

महुविदु व इंदियसुहसंगमु
कहिमि जंतु वणि वग्घे खेइउ
आउसु व्व पुअहिं सभाविउ
दिहु धरेवि थिउ कपियकायउ
ताम फारफुक्कारभयकर
पेच्छइ उदुरेहिं खज्जतउ
वग्घु वि ताम तत्थ सप्राइउ
भमइ चउदिसु हत्थु पसारइ
अलहंतेण पसारियसाहउ

एक्कु पुरिसु नामेण तिविक्कमु ।
निवडिउ जुअावडि भयभेइउ ।
तहिं सरठो दु पडते पाविउ ।
जाम निहालइ दिसउ वरायउ ।
कोणहिं फणिचउक्कु तवि अजयर । ५
विहिं सियअसियहिं सरु विद्धंतउ ।
कूवब्भतरि नरु निज्जाइउ ।
पावइ नाहि केम किर मारइ ।
तडतरु तेण तलप्पण आहउ ।

घत्ता—ता साहहि वियलियमहु उड्डिउ मक्खियउ । १०
तहिं महुविदु पडतउ तेण निरिक्खियउ ॥७॥

८

निवडिउ मुहि पडिहासिउ मिट्ठउ
महुलवलेहणु सुहु बहु मन्नइ
संसाराडईहिं हिउतउ
पडिउ सरीरकूवि अधारण
वाहिहिं महुयरीहिं खज्जंतउ
लगउ आउसथोडे पसंसिण
गरुयपावभारेण खसेसइ
तिलु तिलु नारइएहिं करेवउ

पेच्छह एम सव्वु जगु नट्ठउ ।
मेरुपमाणु दुक्खु अवगन्नइ ।
मरणमहावग्घेणादत्तउ ।
चउकसायसप्पासुहगारण ।
विसयसोक्खु महुविदु लिहत्तउ । ५
उहयपक्खमूसयहिं विणासिण ।
नरयाजयरहो मुहि निवडेसइ ।
एव दुक्खु जीवेण सहेवउ ।

घत्ता—संसारण महुविदु व सुहु दुहु मेरुसमु । १०
एउ वियाणिवि सासयसोक्खहो करहो गमु ॥८॥

९

जादो हु चारुदत्तो गोट्टीदोसेण तह विणीदो वि ।
गणियासत्तो मज्जे सत्तो कुलयनासओ य तथा ॥ [भ. श्रा. १०८२]

चारुदत्तो नाम्ना वरिणकुपुत्रो जाबो अभूत् द्व स्फुटम् । किं जात ? गणिकासक्तो वेश्याया
लग्नः मद्येनासक्तो भवेत् कुलनासभो गोत्रविनाशकश्च । तथा तेनैव क्रमेण । केन ? गोष्ठीदोषेण
दुष्टसंसर्गदोषेण । अत्र चारुदत्ताख्यानम् । ५

चंपापुरि वणिकुलगयणभाणु
करिरायगमण कलयठिसद्
जं चित्तइ त घरि सब्बु अत्थि
तं नत्थि जं न पीणत्थणीए
पर तो वि नाहिँ संजाउ पुत्तु
आयासगामि मुणि एक्कु दिट्ठु
किं अत्थि नत्थि तउ मज्झ साहु
सुणु साविए पाविवि परमपुत्तु
मुणिवयणाणंदियमाणसाहे
नवमासहिँ गयहिँ सदोहलेहिँ

नामेण पसिद्धउ अत्थि भाणु ।
सुहयारिणि गेहिणि तहो सुहद्द ।
पर एत्तिउ जं तहो पुत्तु नत्थि ।
किउ तत्थ ताए पुत्तत्थिणीए ।
एक्कहिँ दिणि जिणहरि माणजुत्तु । १०
पणवेप्पिणु पुच्छिउ परमनिट्ठु ।
आहासइ मयणमयंकराहु ।
बुद्धत्तणि लेसहि तउ निरुत्तु ।
हुउ कइवयदिवसहिँ गम्भु ताहे ।
उप्पन्न पुत्तु सहुँ सोहलेहिँ । १५

घत्ता—चारु भणेप्पिणु चारणमुणिणा एसियउ ।

चारुदत्तु सद्दिउ सुउ सुयणपससियउ ॥९॥

१०

हुउ काले सयलकलापवीणु
हरिकेउ ह्लाउहु चारुचित्तु
एक्कहिँ दिणि मणिमालिणिसरीहे
तहिँ उववणि केलीहरि कणंतु
विज्जाहरु दिट्ठु वियक्खणेण
तेण वि अब्भत्थिउ एहि मित्त
तिन्नि वि एयाउ महोसहीउ
तं वयणु तेण करुणाधरेण

सुदरमइ रूवे न रईणु ।
मरुभूइ चउत्थउ तस्स मित्तु ।
गउ कीलहुँ ससुहि मणोहरीहे ।
सहुँ रक्खे खीलियसयलगत्तु ।
बोल्लाविउ हा किउ एउ केण । ५
फेडहि अयखीलिय करि परित्त ।
वणे वट्ठिवि लायहि कयदिहीउ ।
किउ हुउ सुहि खेयरु तक्खणेण ।

घत्ता—करि करवालु करेप्पिणु गयणि पधाइयउ ।

मैलावेप्पिणु निय पिय तुरिउ पराइयउ ॥१०॥

१०

११

विज्जाहरु बोल्लइ चारुचित्तु
दाहिणसेठीहे मणोहरम्मि
तहो तणउ भणउ हउँ अभियवेउ

आयन्नहि वइयरु कहमि मित्त ।
एहु खेयरु कयसिउ सिवपुरम्मि ।
धूमसिहगोरमुंडहिँ समेउ ।

मित्तहिँ हिमवंतहो गउ कयाइ
तवसिहि हिरन्नरोमहो' तणूय
विरहम्मि भुलुक्कियदेहरुक्खु
जाणाविउ मतिहेँ सहयरेण
ताएण वि गरुउ करेवि गाहु
सा एह धूमसिहु अहिलसतु

सुकुमालिय नामेँ रंभ नाइ ।
पेक्खेप्पिणु मयणावत्थ ह्यय । ५
संजाउ मज्झु अइगरुउ दुक्खु ।
तेण वि तायहो रइयायरेण ।
पावेवि कन्न किउ महु विवाहु ।
अच्छइ खलु छिदु सयं नियतु ।

घत्ता—अज्जुज्जाणि लयाहरे एत्थ सुयंतु मई । १०
गउ खीलेप्पिणु लेप्पिणु पिय रक्खियउ पइं ॥११॥

१२

तुहुँ मायबप्पु महु परममित्तु
उवमिज्जइ जए को अवरु तुज्झु
त सुणिवि पयपइ चारुदत्तु
इय भणिवि विसज्जिउ गयणगमणु
तेत्थु जि सब्बत्थवर्वाणदधीय
परिणाविउ जणणे चारुदत्तु
सो' सज्जणु सुट्ठु सलज्जभाउ
अच्छउ रइ वयणु वि भामिणीए
एक्कहिँ दिणे चेडय सिक्खवेवि

जीवाविउ पईं दिन्नउ कलत्तु ।
कि किज्जउ दे आएसु मज्झु ।
दसणु जि तुज्झु पेसणु निरुत्तु ।
वणिउत्तु वि आइउ निययभवणु ।
नामेण सुमित्तमई विणीय । ५
नं कामएउ रइ चारुगत्तु ।
अमुणियजुवईयणसंगसाउ ।
न पयंपइ समउ सुहाविणीए ।
पट्टविय सुहए तं लएवि ।

घत्ता—तेहिँ वि वेसावाडउ निउ लाएवि मिसु । १०
किउ वसंतसेणाए पयत्ते मयणवसु ॥१२॥

१३

वामोहिउ वेसए कियउ तेम
पाइउ सुरा वि मणभामिणीए
आयन्निवि वत्त विरत्तयाइँ
तेण वि बारहवरिसेहिँ सब्बु
जा नत्थि कि पि ता भूसणाइँ
कुट्टणिए निएप्पिणु ताइँ वुत्तु

मेल्लए न मुहुत्तु वि एक्कु जेम ।
किउ धम्मनासु तहो पाविणीए ।
तउ लेवि घरहो पियरइँ गयाइँ ।
छत्तीस वि कोडिउ खदधु दव्वु ।
भज्जइँ पट्टवियइँ अप्पणाइँ । ५
हुउ निद्वणु निच्छउ चारुदत्तु ।

घल्लिज्जउ पुत्तिऽ कि अणेण
केम वि मेल्लइ न वसतसेण

आणेज्जइ सो संजुउ धणेण ।
ता पुत्तिहे कहइ कलिगसेण ।

तद् यथा—न वेत्ति गणिकाशास्त्रं बाला त्वमसि पुत्रिके ।

तावद् भवेत्प्रियोऽस्माकं यावद् दत्ते तु काचनम् ॥ १०

उच्छव्वरसु आलत्तउ वरंगु
एयइ दिट्ठंतइ^१ देय माय

मुच्चइ धणु लेप्पिणु तिह भुयंगु ।
पर धीय न मुयइ^१ कयाणुराय ।

घत्ता—एक्कहिं दिणे किउ चच्चरु सो मच्चवियउ ।

कुट्टणीऽ उक्कुरुडऽ सो घल्लावियउ ॥१३॥

१४

संभालिवि लज्जिउ हुऽ पहाऽ
सम्माणिउ ण्हाणिउ कहिय वत्त
आयन्निवि पच्छातावत्तु
जं अत्थि कि पि धणु तं लएवि
सहुं माउलेण धणकणयपयरु
कप्पासु लेवि तहिं तामलित्ति
तामतरि गहणि दवग्गि लग्गु
उद्देइउ ता मेल्लेवि मामु
तहिं तायहो मित्तं सुदरेण
पडिवत्तिऽ परिओसियमणाइं

गउ घरु विवत्थ पेक्खिवि पियाऽ ।
किउ पियरहिं तउ घरतत्ति चत्त ।
अन्नहिं दिणि निद्धणु चारुदत्तु ।
गउ वाणिज्जहे पिय सठवेवि ।
संपत्तउ उंसिरावत्तनयरु । ५
जा जाइ वियाणियवणियवित्ति ।
हुउ भूइ जलेप्पिणु सो समग्गु ।
गउ पत्तउ पुरु पियनयरु नामु ।
सम्माणिउ वणिणा सुदरेण ।
अच्छेवि तत्थ कइवयदिणाइं । १०

घत्ता—बोहित्थम्मि चडेप्पिणु धणलोहे हयउ ।

तेण निसेहिज्जंतु^१ वि जवणदीवु गयउ ॥१४॥

१५

नयरउ दीवु दीवाउ णयरु
बोहित्थु सत्त वाराउ फुट्टु
अट्टमवाराऽ पुणो वि भग्गु
कह कह व सिघुसायरु तरेवि
गउ रायउरहो अत्थहो कएण

वइद्वेप्पिणु एंतहो दव्वनियरु ।
अप्पणु पुणु पुन्नवसेण छट्टु ।
जलि जाणवत्तु फलिहम्मि लग्गु ।
सिघवदेसंतरु पइसरेवि ।
तत्थेक्के गोविदे कएण । ५

१३. १ दत्ते स्ति किचनं ।

२ दिव्वंतइ ।

३ मुयइ ।

१४. १ मिसेहिज्जंतु ।

भगवेण दिट्ठु निउ नियनिवासु
एक्कहिं दिणि तेण पउत्तु पुत्त
लइ एहु जाहुँ तुह लेवि देमि
तेण वि अहिणदिउ पय नवेवि

सम्माणिउ थिउ तहिँ साहिलासु ।
एत्थच्छइ वणि रसु भत्तिजुत्त ।
जम्महो दालिदुदु वि णासु नेमि ।
गउ भगउ गहणगिरितलु लएवि ।

घत्ता—तहिँ डोंगरहो कराडिहे सिद्धरसहो भरिउ । १०
दाविउ बिलु तहो वयणें वणिसुउ पइसरिउ ॥१५॥

१६

दुग्गधि दुसचरि दुप्पवेसि
वयणेण तासु भउ परिहरेवि
तडि सिक्कयत्थु दोषेण जाम
मा गेण्ह गेण्ह त सुणिवि तेण
को तुहुँ विणिवारहि कि निमित्तु
हुँ चारुदत्तु नामेण वणिउ
पुरिसेण भणिउ हा वच्चिओ सि
पाविट्ठु एहु सुहि भगउ धुत्तु

अंधारे नरए नं कियकिलेसि ।
जमवयणि व कूवे पईसरेवि ।
रसु लेइ समुट्ठिउ सद्दु ताम ।
पुच्छिज्जइ दूरुज्जिभएण ।
हुँ माणुसु तुहुँ को तेण वुत्तु । ५
रसु लेहुँ एत्थ भगवेण पणिउ ।
मारहुँ तुहुँ एत्थ पवेसिओ सि ।
सुणु हुँ उज्जेणिहे वाणिउत्तु ।

घत्ता—भरेवि भडु वाणिज्जहे कंचणदीवु गउ । १०
एतहो घरु विढवेप्पिणु हुउ बोहित्यखउ ॥१६॥

१७

अत्थक्खए दुम्मणु मलिणवेसु
एत्थाउ मित्त भगवेण दिट्ठु
बंधेवि रज्जु इह सिक्कएण
छुडु दिन्नउ रसु तुबउ भरेवि
तलि पडिउ रसेण सहडुडु चम्मु
जिह हुँ तिह अवरइँ नरसयाँ
हड्डेण निरतरु जाहुँ एहु
हो एवहिँ तुह परिवाडि आय
वणितणउ भणइ आइउ अणत्थु
जइ देमि न रसु तो उवरि थक्कु

आहिडिवि सुहि देसेण देसु ।
सम्माणिवि दव्वोवाउ सिट्ठु ।
पइसारिउ सिद्धरसहो कएण ।
ता गउ खलु सिक्कउ कत्तरेवि ।
खद्धउ को वारए पुव्वकम्मु । ५
इह घल्लियाँ पलयहो गयाँ ।
रसपूरिउ अच्छइ कोडिवेहु ।
लइ नासहि केम वि कहिमि भाय ।
कहिँ नासमि किह नीसरमि एत्थु ।
न वियाणहुँ काइँ वि करइ वक्कु । १०

घत्ता—देहि भरेप्पिणु तुबउ जइ सज्जण रसहो ।
जाइ एहु तो एत्थहो बंधवु वइवसहो ॥१७॥

१८

ता दोषउ दिन्नु भरेवि तेण
पावेप्पिणु रसु पाविट्टु तुट्टु
एत्तहे तहिं भाणुहे पुत्तएण
सव्वण्हुपायपकय नवेवि
सो भणिउ पुरिसु जिह पई सुमित्त
तिह हउं वि करमि तुह प्पहयताउ
सुणु सुयण जणे असरणि असारि
धम्मेण विवज्जिउ सोयरेण

तेण वि वरत्त चालिय करेण ।
छिदेवि रज्जु केत्तहे वि नट्टु ।
अवडाहडीहे अच्चत्तएण ।
धीरेण दुविहु सन्नासु लेवि ।
किय मज्झ कूवि पडियहो परित्त । ५
भवकूवहो निग्गमणहो उवाउ ।
ससारि भमंतु अलद्धपारि ।
पेल्लिउ पावेण महाभरेण ।

घत्ता—असुद्धगंधि चिलिसावणि नारयकुलविलए ।

निवडिउ किमिकुलसंकुले नरए दुहनिलए ॥१८॥

१०

१९

मुसुमूरणचूरणजूरणाई
अच्छोडणतोडणपाडणाई
ओहावणभावणनामणाई
आवीलणपीलणपउलणाई
आवट्टणवट्टणकुट्टणाई
पच्चारणदारणमारणाई
अन्नोन्नदुक्खदक्खावणाई
गिरिगरुयसिलायलवप्पणाई
किमिअद्धपूयपरिपायणाई
कदतु कणंतु रुयंतु संतु

उक्कत्तणदेहुल्लूरणाई ।
सिरच्छेयणभेयणताडणाई ।
नवनिसियसूलसकामणाई ।
कोतासिसेल्लभससूलणाई ।
सघट्टणलोट्टणपिट्टणाई । ५
दुव्वयणई धम्मवियारणाई ।
सतत्तलोहभक्खावणाई ।
तिलु तिलु करेवि तणुकप्पणाई ।
अवरई वि दुक्खउप्पायणाई ।
विलवतु सुइरु थिउ हा भणंतु । १०

घत्ता—कह व किलेसे नरयहो नीसरेवि तिरिउ ।

हुयउ अण्येउ वारउ जीउ सुहतरिउ ॥१९॥

२०

किमु कीडु पयगु भुयंगु भिगु
रु हरिणु नउलु जाहउ तरच्छु
विगु वग्घु सिघु वाणरु विरालु
खरु करहु मेसु महिसउ बलदु

ससु सूयरु संवरु करि तुरंगु ।
सेढा सरडुदुरु मयरु मच्छु ।
चित्तउ सिव साणु तहा सियालु ।
वगु वायसु गिद्धु महारउदु ।

होएप्पिणु वइरहो कारणाई	पत्तउ अन्नोन्नवियारणाई ।	५
सरविषणपासनिबधणाई	संकोडणतोडणमोडणाई ।	
लउडोवलढेक्कलताडणाई	उक्कत्तणकत्तणपउलणाई ।	
भामेवि महिहिँ अफ्फालणाई	आलुचणवचणखचणाई ।	
वणवडणई दहणई खोंचणाई	तणपाणनिरोहाकंदणाई ।	
अवराई वि छिदणभिदणाई ।	१०

घत्ता—दुक्खसयाई सहेप्पिणु मुण्वि तिरिक्खगइ ।

कह व किलेसँ पाणी पत्तउ मणुयगइ ॥२०॥

२१

तत्थ वि महत्तदालिदुक्खु	संपत्तु कयावि न कि पि सोक्खु ।	
घणहरणई इट्ठविअोउ सोउ	बंधणसेवणई अणिट्ठजोउ ।	
हा हा भुय इह परलोयभुक्कु	मग्गंतु भिक्ख सुहिसयणमुक्कु ।	
घणसंपयत्थु मलमलिणवेसु	परिसमिउ भमिउ देसेण देसु ।	
मुउ दुक्खे गिरिगहणतराई	पइसेवि जलहि दीवतराई ।	५
देवत्तणे वि रक्खसु पिसाउ	हुउ भूउ पेउ दुन्नयसहाउ ।	
वाहणु वेयालिउ छत्तधारु	तहो गायणु नच्चणु कयवियारु ।	
आउत्थिउ मंडु वितडवाइ	अवरु वि एवविहु नीयजाइ ।	
इदाइयदेवहँ निण्वि सोक्खु	ज पत्तु जीउ माणसिउ दुक्खु ।	
वरबुद्धि वियाणियसव्वसत्थु	सुरवइ वि न वन्नहँ त समत्थु ।	१०

घत्ता—एउ सुणेवि मणोहरु [सुहि] जिणधम्मु लई ।

पावहि सिरिचंदुज्जल सासय जेण गई ॥२१॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले ।
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णत्तपयदमजुत्ते ।

चउगइदुक्खपयासो एसो पणतीसमो सधी ॥

॥संधि ३५॥

संधि ३६

१

आयन्नेवि तेण भवससरणावत्थदुहँ ।
पुरिसेण पउत्तु मह्ण पुन्नेहिँ आओ सि तुहँ ॥

जो अत्थि को वि उवएसु सारु	सो देहि सामि ह्यदुक्खभाह ।	
ता तामु चारुदत्तेण कहिउ	सायारधम्मु सम्मत्तसहिउ ।	
स दु सन्नासेण सुहंकराई	दाऊण पच परमक्खराई ।	५
पुच्छिउ नरु मह्ण अउडहो इमाउ	कि अत्थि कोइ निग्गमउवाउ ।	
सो भणइ अत्थि विवरेण तेण	गोहावइ रसपिवणहो कएण ।	
तहँ लग्गि वि पुच्छि महाणुभाव	निग्गेज्जसु एत्थहो पहयपाव ।	
निसुणे वि एउ ससयविणासु	थिउ धम्मस्सवणु करतु तामु ।	
अन्नहिँ दिणि लग्गि वि पुद्धि ताहि	नीसरिउ तुरिउ सई कूवियाहि ।	१०
थोवतरि अग्गए गमणु भग्गु	सकडि विडविहँ मूलम्मि लग्गु ।	

घत्ता—ता तहिँ अयजूहू तहो पुन्नेहिँ परावरिउ ।
बिले पाउ पइट्ठु अयहँ चरतियाहे धरिउ ॥१॥

२

जाणे वि गहिय किर अजयरेण	अयवालु खणइ जामायरेण ।	
ता भणिउ तेण हउँ मण्य मित्त	एत्थच्छमि कड्ढहि करि परित्त ।	
ता खंडि वि मूलई खणि वि तेण	नीसरिउ विभिउ माणसेण ।	
तहो वत्त कहेप्पिण जाइ जाम	वणमहिंसु पधाइउ हणहुँ ताम ।	
सेरिहभएण उम्मग्गि लग्गु	नासे वि उच्चपाहणि बलग्गु ।	५
सिगेहिँ उवलु ढालतु वलिउ	पच्छाविऊण अजयरेण गिलिउ ।	
ते अवरोप्परु जुज्झति जाम	उत्तरि वि तुरिउ सो नट्ठु ताम ।	
कह कह व किलेसे दुग्गईहे	नीसरिउ नाई भीमाडईहे ।	

घत्ता—माउलमित्तेण दिट्ठु रुद्धत्तेण तहि ।
निउ अत्थनिमित्तु नामे टंकणविसउ जहिँ ॥२॥

१०

३

उत्तरिवि महानइ तेयवेय
 लंघेप्पिणु टकणगिरि महंतु
 तहिं विन्नि पोढ मेढय लएवि
 हरदत्ते वुच्चइ चारुदत्तु
 पाविट्टे वारंतहो वि तामु
 दिन्नउ वणिउत्ते कन्नजाउ
 विन्नि वि जण खल्लहँ पइसरेवि
 भेरुंड वियप्पिवि मसपिड
 मणिदीवहो अहिमुहि जति जाम

पइसेप्पिणु वेत्ताडइ अमेय ।
 गउ टकणविसयहो चारुदत्तु ।
 अजमग्गे अचलोवरि चडेवि ।
 हणु मिढउ हणइ न करुणचित्तु ।
 किउ तेण उरवभहे पाणनामु । ५
 पसु मरिवि अमरु सोहम्मि जाउ ।
 थिय निहुय होवि तणु संवरेवि ।
 गय गयणंगणि लेप्पिणु पयड ।
 अंतरि अवरेक्के एवि ताम ।

घत्ता—पक्खे पक्खि हउ जुज्झतहँ नहे निच्छुडियउ ।
 हददत्तु गिलिउ पावेण भवन्नवि पडियउ ॥३॥

१०

४

गउ णरयावासहो सत्तमासु
 एत्तहि उत्तारिवि' गिरिवरम्मि
 ता फाडेवि खल्ल विणिग्गएण
 बहि आयावणे थिउ गुणगरिट्ठु
 सामीवि गपि हरिसियमणेण
 तेणावि कुसलु आसीस देवि
 नियनामु सुणेप्पिणु विभिएण
 परमेसर पालियपरमनिट्ठु
 किय घम्माहम्मविचारणेण

पाविट्टहो अह उड्डुगह कामु ।
 किर खाइ पक्खि दीवतरम्मि ।
 भेसाविउ खगु नट्टउ भएण ।
 मुणि एक्कु चारुदत्तेण दिट्ठु ।
 रिसि नमिउ सुहदानदणेण । ५
 पुच्छिउ वच्छल्ले नामु लेवि ।
 मुणि भणिउ सुमित्तमईपिएण ।
 तुम्हई मई कत्थइ आसि दिट्ठु ।
 दिट्ठा बोलिज्जइ चारणेण ।

घत्ता—अरिणा रुक्खम्मि खील्लिउ खयरु निरिक्खिउ ।
 चपाउरि मित्त सो हउँ ता पई रक्खिउ ॥४॥

१०

५

मेल्लाविउ पई हउँ तक्खणेण
 ता एंतु निएप्पिणु हीणसत्तु
 हउँ तत्थायउ लेविणु कलत्तु

कुडि लगउ पियहि णहगणेण ।
 भयभीउ पणट्टउ कहि मि सत्तु ।
 पई पुच्छिवि गउ नियनयरु पत्तु ।

४. १ उत्तरिवि ।

कालंतरेण पिउणा मणोज्जु
तवचरणु हिरणसुवन्नकुभ
महएविउ मज्झ मणोहराउ
जयसेणहो ह्यु गधव्वसेण
वीणाविन्नाणें सावलेव
सीहजसु मणोहराए जणिउ

अहिसिचिवि अप्पिवि मज्झ रज्जु ।
मुणि लइउ नवेप्पिणु भवनिसुभ । ५
नामें जयसेणमणोहराउ ।
नंदणि रइ व्व रामामिसेण ।
किन्नर वि परज्जिय ताए देव ।
सुउ अवरु वराहगीवु भणिउ ।

धत्ता—पलिउ निएवि सिरें चित्तेप्पिणु सव्वु असासउ । १०
रज्जु सीहजसहो देप्पिणु मइँ पडिगाहिउ तउ ॥५॥

६

चारित्तपहावें चारुचित्त
सव्वत्थ समुदावरियदेहु
मेरु व थिउ मज्झ मणोहिरामु
सुर विज्जाहर चारण मुएवि
तुहें भद् एत्थ आओ सि केम
एत्थंतरि विज्जाहरवरेणु
मुणिपय पणवेप्पिणु तेण वुत्तु
महु जणणहो जीविउ दिन्नु जेण
निमुणेवि समुद्विय साणुराय

संपत्तउ रिद्धिउ सत्त मित्त ।
दीवंतरु कडयनामु एहु ।
गिरिगरुउ एहु कक्कडयनामु ।
मणसा वि न सक्कइ अवरु एवि ।
ता तेण पयासिउ आउ जेम । ५
मयवइजसु संप्राइउ ससेणु ।
तुहें भाय निरुत्तय चारुदत्तु ।
अत्थि त्ति पउत्तउ सजएण ।
अवरोप्परु खेमाखेमि जाय ।

धत्ता—छुडु बे वि बइट्ट दिव्वविहूइविराइयउ । १०
ता सुरवरु एककु सक्कु व सयमेवाइयउ ॥६॥

७

आवेप्पिणु दिन्नपयाहिणेण
मुणिनाहु नमसिउ सहरिसेण
सदेहविवज्जिउ पहयकम्मु
कहिँ तुम्ह अणुक्कमु एहु आउ
भो देव रायदोसेहिँ धत्थु
देवेण भणिउ जाणमि खगिद
पुणु इच्छायारि भव्वयाहँ
पर एहु मज्झु आराहणिज्जु
एहु एयहो तणउ पसाउ सव्वु

वणिउत्तहो करेवि पणामु तेण ।
तं नियवि पयपिउ हरिजसेण ।
देवेसु पवत्तइ विणयकम्मु ।
परिहरेवि महारिसि वीयराउ ।
जं पढममेव पणमिउ गिहत्थु । ५
सव्वण्हु देउ वंदेवि मुणिद ।
किज्जइ संभावण सावयाहँ ।
गुरु पढमु तेण नुउ पुज्जणिज्जु ।
जं लद्धु सुधम्मु सुरत्तु भव्वु ।

घत्ता—आयन्नेवि एउ विंभिएण खयरेण सुह । १०
पुच्छिउ कहि केम एहु तुज्भु संजाउ गुरु ॥७॥

८

नियवइयह आयन्नेवि एउ विज्जाहरासु वज्जरइ देउ ।
सुणु वाराणसिपुरु सोमसम्भु होंतउ बंभणु पालियछकम्मु ।
बभहो गाइत्ति व गुणनिहाण तहो बभणि सोमिल्लाहिहाण ।
भद्दासुलसानामालियाउ जणियाउ ताए वे बालियाउ ।
दिवसेहिँ सुबुद्धिउ बे वि ताउ चउवेय सडंगई सिक्खियाउ । ५
चउरासी विन्नाणइँ कलाउ सव्वउ बुज्भति समोक्कलाउ ।
नं सरसइ विहिँ रुवेहिँ एवि थिय' माणुसकन्नावेसु लेवि ।
वाएण पयड विवाइ सव्व किय' ताहिँ निरुत्तर विगयगव्व ।
मइगव्वे वंकालोयणाए किय एह पइज्ज सुलोयणाए ।

घत्ता—जो मई वाएण को वि जिणेसइ विप्पवरु । १०
सो विउसपहाणु होसइ वल्लहो मज्झ वरु ॥८॥

९

एक्का हि जन्नवक्केण जित्त हुय कंत तामु आसत्तचित्त ।
रिसिआसमि तहे उप्पभु पुत्तु निहयए' पिप्पलतलि निहित्तु ।
निसुणेवि सिणेहे भद् तेत्थु गय अच्छइ बालु निहित्तु जेत्थु ।
सुदरसव्वगविरायमाणु पेक्खेवि पिप्पलफलु खायमाणु ।
सिसु पिप्पलादु नामे भणेवि गय सा वाराणसिपुरहो लेवि । ५
सयलागमवेयसडंगजाणु वड्ढाविवि काले किउ जुवाणु ।
सव्वत्थ वि सुयणाणदहेउ हुउ पुज्जणिज्जु जणि जेम देउ ।
विणएण नमंसिवि सुट्ठु भद् एकहिँ दिणि सुच्छिय तेण भद् ।
महु तणउ जणेरि जणेरु कवणु आयन्निवि एरिसु ताए वयणु ।

घत्ता—उवएसिउ ताउ जन्नवक्कु पव्वइउ तुह । १०
सुलसा वि जणेरि स वि पव्वइय पसन्नमुह ॥९॥

१०

तीए पुत्त तुहुँ जायमेत्तओ पिप्पलस्स मूले निहित्तओ ।
मई सिणेहभावेण लालिओ बहिणिउत्तु भणिऊण पालिओ ।

८. १ थिउ । २ किउ ।

९. १ नेहए नि ।

तं सुणेवि रुद्रो दियंगग्रो
जभ्रवक्कु वाएण निज्जिओ
एवि संधि भद्दाए कारिया
तो वि दुद्रुभावं न मेल्लए
विरइऊण नियवयणवित्थरं
तेण बहूदिवसेहिं घाइया

जहिं जणेरु वायत्थि तहिं गओ ।
पिप्पलादु विप्पेहिं पुज्जिओ ।
जुज्भमाण विन्नि ऋवि निवारिया । ५
पुव्ववइरु हिययम्मि' सल्लए ।
करिवि पियरमेहो मिंसंतरं ।
मायबप्पु जमपहेण लाइया ।

घत्ता—मारैवि पियराइं पिप्पलादु सोक्खेण थिय ।

नियवइरनिमित्तु पियरमेहु महु तेण किउ ॥१०॥ १०

११

बद्दलि नामेण रिसिदसीसु
सव्वत्थ पसिद्धउ लोयपुज्जु
मइं आयन्नेप्पिणु तासु वयणु

हउं होंतउ तहो पयपणयसीसु ।
अवगाहियवेयसडंगविज्जु ।
पसुवहेण समीहियसग्गमणु ।

तद्यथा—अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकाम इति ।

इय वेयवयणु निम्मलु विसुद्धु
अविरामु अणेयकईकयाहं
मेल्लेवि एउ जए अन्न नत्थि
हालाहलु मन्नेवि अमिउ पत्थु
पुणु अग्निहोत्तु अमरत्तहेउ
नाणाविहजीवहं बहु चरेवि
तत्थ वि दूसहदुक्खइं सहेवि

अवितत्थु अरइउ अणाइसिद्धु' । ५
चूडामणी व सव्वायमाहं ।
कि मसएं अच्छइ जत्थ हत्थि ।
किउ खयरराय मइं आवसत्थु ।
पुणु जन्नविहाणु अणेयभेउ ।
उप्पन्नु घोरनरए मरेवि । १०
हुउ छेलउ पाववसेण एवि ।

घत्ता—संजाउ जुवाणु पोढकाउ कालेण किउ ।

मारहुं जन्नम्मि सोमसम्मविपेण निउ ॥११॥

१२

सगिराए समाउलचित्तएण

मइं भणिउ जवे वज्जभंतएण ।

नाहं स्वर्गफलोपभोगतृषितो नाम्यधितस्त्वं मया ।
संतुष्टस्तृणभक्षणेन च गुरुस्त्वं मे न चाहं सुतः ॥
स्वर्ग नेतुमभीप्ससे यदि भवेद् वेदे च तथ्या श्रुतिः ।
यज्ञं किं न करोषि मातृपितृभिः पुत्रैस्तथा बांधवैः ॥ ५

१०. हियहम्मि ।

११. १ अणेइसिद्धु ।

यूथादीनां तमेकं सरसकिसलयग्रासमात्रोपभोज्यं ।
 मुग्धं यूपे निबद्धं भयतरलट्टशे कंपमानं वराकम् ॥
 वे वे ति व्याहरन्तं पशुमिति विवश निघ्नतां याज्ञिकानां ।
 मन्ये वज्रातिरेकं न दलति हृदयं तत्क्षणादेव सद्यः ॥

हउँ एम भणंतु वि निहृएण पडिऊण इमाउ रियाउ तेण । १०

अनु त्वा माता मन्यतामनु पितानु भ्राता सगर्भ्योऽनु सखा सयूथः । [यजुर्वेद
 ६, ९] इति पशो स्वर्गं गमिष्यसीति ।

मनस्तऽप्राप्यायता वाक्तऽप्राप्यायता प्राणस्तऽप्राप्यायता चक्षुस्तऽप्राप्यायता
 श्रोत्रं तऽप्राप्यायताम् । यत्ते क्रूरं यदास्थित तत्तऽप्राप्यायता निष्ट्यायता तत्ते शुध्यतु
 शमहोभ्य इति । [यजु. ६, १५] १५

इय मारिउ छव्वारउ दिएण	पुणरवि हुउ छेलउ दुक्किएण ।
वणि रुहडेण कत्तिहि कएण	महुँ मारिज्जतहो निहृएण ।
निरु निम्मलु निरुवमु गुणनिहाणु	अमिओवमु जीवदयापहाणु ।
भुवणत्तयपुज्जु अणाइनिहणु	सम्मत्तु पुव्वकयकुगइनिहणु ।
जिणधम्मु चारुदत्तेण दिन्नु	दुक्कियमलु सयलु वि तेण छिन्नु । २०
दिन्नेहिँ पंचपरमक्खरेहिँ	देवत्तणु पत्तु सुहकरेहिँ ।

घत्ता—महु एण कमेण^१ घम्मायरिउ एहु ह्यउ ।

पढमं चिय तेण साहु मुएप्पिणु सथुयउ ॥१२॥

१३

आयन्निवि एउ खगेसरेण	सुरवरु पउत्तु संगयकरेण ।
मज्झु वि कुलजीविउ दिन्नु एण	जीवाविउ ताउ महागुणेण ।
देवेण भणिउ पहु पहयताउ	तुहु तणउ एहु सयलु वि पसाउ ।
जं भणहि असेसु वि तं करेमि	लइ रयणु सुवन्नउ घरहो नेमि ।
तामच्छउ वणिणा भणिउ एउ	आयन्निवि गउ पणवेवि देउ । ५
एत्थंतरि घरहो पियायेरेण	निउ चारुदत्तु विज्जाहरेण ।

१२. १ अप्यन्या मन्यते मातानु पितानु भ्राता सर्गव । सगर्भो नु शाखा सयूथः ।

२ मनस्त्वाप्यायता । वाक्त्वाप्यायता । चक्षुस्त्वाप्यायता । श्रोत्रं त्वाप्यायता । यत्ते क्रोढं
 यदास्थित तत्त्वयाप्यायतां न्वन्ते शुद्धानु सनहोभ्य इति । ३ कामेण ।

थिउ तहिँ सुहेण रजियजणम्मि
एक्कहिँ दिणि आणेप्पिणु खगेण
सव्वोवयारकरणेक्कचित्तु
भो ताय तुहारए मंदिरम्मि

बहु वासर खेयरपुरवरम्मि ।
गंधव्वसेण नियवहिणि तेण ।
विन्नविउ नवेप्पिणु चारुदत्तु ।
हंसी च वसंति सरोवरम्मि । १०

घत्ता—जो गंधव्वेण माणु मलेसइ निउणमइ ।
परिणेवी तेण एह निरुत्तउ हंसगइ ॥१३॥

१४

एयहे वरु हरिकुलवंसजाउ
एरिसु मुणिदभासिउ कहेवि
ससु चारुदत्तु पावियसमाणु
आयासहो पडिउ महाणुभाउ
जिय गंधव्वे गंधव्वसेण
दोणह वि अन्नोन्नु सिणेहु जाउ
कुलसीलु सुणेप्पिणु ताहे तणउ

होसइ तिखडभूवालनाउ ।
मणिमयहिँ विमाणहिँ गयणं एवि ।
..... ।
कालंतरेण वसुएउ आउ ।
परिणिय धुत्ते रजियजणेण । ५
थिउ सोक्खे अंधयविट्ठिजाउ ।
आणंदिउ हरिबलएवजणउ ।

घत्ता—संसग्गवसेण चारुदत्तु सिरिचदजसु ।
पेच्छह वणि नट्ठु पत्तु अणत्थु अणप्पवसु ॥१४॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले ।
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचंदपउत्ते मुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते ।
गोट्ठीदोसनिसेहो एतो छत्तीसमो सधी ॥

॥ सधि ३६ ॥

संघि ३७

१

ध्रुवय—जइणीसंसग्गेण सयडु चरित्तहो भट्टउ ।
कुच्चवारु मुणि तेम वेसहि लम्गेवि नट्टउ ॥

सुम्मउ सयडनामु विहरतउ
थेरु णवइवरिसिउ गयदतउ
पहसमसमियउ पालियनिट्टउ
बुद्धइ मुख्तिसाए करालिउ
उट्टेवि कयकरुणाए खडाविउ
रिसि भुत्ततरे लद्धसुहच्छिउ
भयव कि निमित्तु वइरायहो
एउ सुणेवि पयपइ सुव्वउ

मुणि कोसवीपुरु सपत्तउ ।
घरे घरे आहारत्थु भमतउ ।
जइणिहे केरइ भवणे पइट्टउ । ५
ताए असीवरिसियइ निहालिउ ।
रोडिए ज घरे त भुजाविउ ।
गोट्टि करतिए थेरिए पुच्छिउ ।
घोरवीरतवचरणहो आयहो ।
साविए महु तवकारणु सुव्वउ । १०

घत्ता—इत्थेव य नयरम्मि सोमसम्मु नामे दिउ ।
होतउ सोत्तिउ सुट्टु गुणे वीणावभणिपिउ ॥१॥

२

नंदणु सयडु नामु तहो जायउ
बभणकन्ना नामें रोहिणि
सा' सइ मह्वं पडिहासइ चित्तहो
तहें सोएण सुट्टु निव्विन्नउ
बहुकाले महियले विहरेप्पिणु
तुह्वं का को उवाउ निव्वाहहो
एत्थु जे पुरि पालियछक्कम्मउ
तहो सोमिल्ला पाणपियारी
जइणी नामें रूवरवन्नी
दिन्न विवाहह्वं संकरनामहो

हउं सो सव्वसत्थनिम्मायउ ।
परिणिय मइं च्चदेण व रोहिणि ।
एक्कहिं वासरे गय पंचत्तहो ।
दइगबरिय दिक्ख पडिवन्नउ । ५
आइउ जम्मभूमि सुमरेप्पिणु ।
पुच्छिय कहइ थेरि तवराहहो ।
होंतउ भट्टपुत्तु सिवसम्मउ ।
भज्ज मणोज्ज सइत्तणसारी ।
हउं तहे तणुय' उयरे उप्पन्नी ।
वप्पे विप्पसुयहो अहिरामहो । १०

२. १ सो । २ तहो । ३ तणुए ।

घत्ता—गउ मरेवि भत्तारु काले प्ररियपणएँ ।
सयणविहणिय एत्थु जीवमि मुणि कत्तणएँ ॥२॥

३

एउ सुणेप्पिणु मुणिणा वुत्ती
जणमणणयणाणंदजणेरी
सुमरहि बालभावे कीलंतइँ
सुमरहि विभि वि सुदरदेहइँ
जइणिणु भणिउ अत्थि सुमरमि मुणि
इय वयणेहिँ वे वि अणुरत्तइँ
जुन्नाइँ वि तरुणत्तणु पत्तइँ
त्तिहिँ होंताइँ गंभि कुसुमउरणु
निच्चाणियखडलक्कडभाडिम

हले सा तुहँ सिवसम्महो पुत्ती ।
तुहँ संबंधिणि अम्हहँ केरी ।
उज्जायहो घरे वे वि पढतइँ ।
अम्हइँ पुव्वपयासियनेहइँ ।
पुव्वनेहसबधु महामुणि । ५
संलग्गइँ लोहाइँ व तत्तइँ ।
थियइँ परोप्परु सुरयासत्तइँ ।
थक्कइँ चाउवन्नजणपउरणु ।
वेभि वि निव्वहँति कव्वाडिम ।

घत्ता—एउ सुणेवि कयावि थोससग्गु न किज्जइ । १०
तेण कएण निरुत्तु तवखंडणु पाविज्जइ ॥३॥

४

निमुणह कुच्चवारकह सुदरि
होंतउ मोरियवसविहूसणु
तासु असोयसिरिणु महएविहँ
सुदरु सूरु वीरु विक्कतउ
तासु भएण समत्थ वि संकहिँ
एमच्छंतहो पावियकित्तणि
एक्कहिँ दिणि वरघम्मु मुणीसरु
धम्माहम्महो फलु निमुणेप्पिणु
कुच्चवारु मेल्लेप्पिणु मंदिरु

राउ असोयानामु पाडलिउरि ।
सोहणमइ कयदुन्नयदूसणु ।
कुच्चवारु हुउ सुउ सियसेविहे ।
जगनिग्गयपयाउ बलवतउ ।
नासहिँ वइरि न सम्मुहु दुक्कहिँ । ५
तहो नियलीलणु जुवरायत्तणि ।
तत्थायउ ससघु परमेसरु ।
निव्विन्नउ तहो पय पणवेप्पिणु ।
हुउ मुणि जणमणनयणाणंदिरु ।

घत्ता—निणुवि सरीरहो छाया सलिले कयाइ नियत्तउ । १०
भजेवउ महिलाणु तुह तउ गुरुणा वुत्तउ ॥४॥

५

जइ एरिसु तो जत्थ न दीसइ
त्तिहिँ तउ करमि एम पभणोप्पिणु

महिला महु चारित्तु न नासइ ।
गउ गिरिसिहरहो गुरु पणवेप्पिणु ।

५. १ स्यसेविहे ।

एतहे तहो तवचरणु मुणेपिणु
निरवसेसु मडलु खाएपिणु
जणु आदन्नउ पहु चिताविउ
होइ एत्थ जइ पुत्तु महारउ
तो कि एहावत्थ परावइ
धीरिउ वेसए धीरमइए पहु

आगय अरि चिरखेरि सरेपिणु ।
धिय बलेण पट्टणु वेढेपिणु ।
महणावत्थ समुदु व पाविउ । ५
कुच्चवारु अरिनियरनिवारउ ।
एउ भणतु मुणेवि धरावइ ।
आणमि तुह सुउ वइरिगलग्गहु ।

घत्ता—एउ मुणेवि निवेण सा परिओसे पुज्जिय ।

आणहि केम वि पुत्तु एम भणेवि विसज्जिय ॥५॥ १०

६

बहुवेसाहि सहिय निवपुज्जिय
पव्वयत्तलि सकेउ करेपिणु
सेसहिं सहियए उवरि चडेपिणु
भयव एक थेरि अणुराइय
चडहुं असक्कती तलि अच्छइ
एह पसाउ करेवि पडिच्छह
एउ मुणेवि अयाणियमायउ
ताए वि रइयपवचहिं तिह किउ
आणिउ घरहो नरेसर रजिउ
नट्टासत्तु सव्वु जणु तुट्टउ

गय वियडु होएपिणु अज्जिय ।
पोढ विलासिणि एकक थवेपिणु ।
भणिउ ताए मुणिपय पणवेपिणु ।
वदणहत्तिए एत्थु पराइय ।
पेच्छहुं तुह पयपकय वछइ । ५
वदण तहे आसीस पयच्छह ।
मुणि तलु ताहे समीवि समायउ ।
जिह रइसगे वयभगहो निउ ।
वीरे वइरिमडफरु भजिउ ।
कुच्चवारु मुणि एम विणट्टउ । १०

घत्ता—तिह पारासरु रुदु सच्चइ सच्चहो चलयिउ ।

महिलहे लग्गेवि को न कामपिसाएँ छलयिउ ॥६॥

७

पयडमि पारासरहो कहाणउ
तेण जयंतीपुरि विससेणहो
विस्सरुवमहएविहे हई
तवई नामें मुम्मइ सत्थए
रिउवईहे पई एम करेवउ
तुरिउ गएण वि पडिआवेवउ
एम होउ भणिऊण विवाहिय
रिउसमयंतह पडिवालतउ

गयउरे सवरु नामे राणउ ।
रायहो वइरिविहंगमसेणहो ।
धीय सलक्खण सुट्ठु सुरई ।
परिणिय एयारिसए अवत्थए ।
कज्जे विणु न कहि मि जाएवउ । ५
निच्छउ एयहे वासउ देवउ ।
रामे जणयसुय व्व गुणाहिय ।
जामच्छइ पहु भोयासत्तउ ।

घत्ता—तामेतर्हे कज्जेण सक्कसहाए समग्ग वि ।

मिलिया देव मुरारि बंभमहेसर ससि रवि ॥७॥ १०

८

तेत्तीस कोडीउ जा ताम सुर सव्व
गह रक्खसा भूय विज्जाहरिदा वि
संवरु वि नरनाहु पुच्छेवि नियपत्ति
एत्तहिं वि पुप्फवइ सजाय महएवि
विण्णविय गतूण तेणेह लहु राय
पहुणा वि सो भणिउ जाएवि विन्नवसु
इदो अहल्लाहे पर्यारदोसेण
सो तेण सावेण सहसभउ सजाउ
कहिं सो गवेसणनिमित्तेण दूराउ

आहुट्ट कोडीउ गण जक्ख गधव्व ।
मिलिया दिया खत्तिया वइस सुदा वि ।
गउ देवकज्जेण सहस त्ति सुरथत्ति ।
सपेसिओ पुरिसु तहिं मग्गु जोएवि ।
तुह पहु पलोएइ महएवि रिउण्हाय । ५
मा कुप्प पिए एत्थ पत्थावि महु खमसु ।
गोत्तमंण दट्ठूण सविओ सरोसेण ।
लज्जिवि गओ कहिं मि मेल्लेवि नियठाउ ।
मिलिओ सुराण नराण च सघाउ ।

घत्ता—तेण न आवहुं जाइ एउ असेसु वि गपिणु । १०

अक्खिउ नृवरामाहे पुरिसे तेण नवेप्पिणु ॥८॥

९

आयन्नेप्पिणु पत्थिववणियए
बधिंवि सुउ भणेवि पट्टवियउ
जइ तुम्हहुं न जाइ आवहुं पहु
पइवयाहे पुत्तासालइयहे
एम होउ पहुणा पडिवन्नउ
लेवि एत्तु गयणंगणि गयउरु
पडिय पुडिय छुडेवि गंगादहे
गिलियए वम्मि गव्भु सजायउ
तत्थ तेण सा घल्लिय जाले

पत्तपुडिय गलि पुत्तत्थिणियए ।
तेण वि गंपि सामि विण्णवियउ ।
तो वीरिउ अप्पणउ समप्पहु ।
अप्पमि जेम नेवि तुह दइयहे ।
पुडियहे निययमुक्कु तहो दिन्नउ । ५
ओलावएण ऋडिपिउ नहयरु ।
निवडिउ नवर सुक्कु मच्छिहे मुहे ।
एक्कहिं दिणि मच्छधिउ आयउ ।
बद्ध मीणि भीणक्खयकाले ।

घत्ता—घरु आणेप्पिणु जाम उयरु वियारइ मच्छिहे । १०

ताम नियच्छइ बाल कड्डिय बाहिरु कुच्छिहे ॥९॥

१०

विभियमाणसेण कड्डेप्पिणु
जाय जुवाण जुवाणहं रुच्चइ

वड्ढाविय कंतहे अप्पेविणु ।
मच्छगंध नामेण पउच्चइ ।

पुत्ति पयत्तं एउ करेज्जसु
 कज्जवसिउ कयाउ इय जपेवि
 छत्तियकुंडियभिसियजडाधरु
 तेण भणिय सा मई उत्तारहि
 ता नावाए चडाविउ बालए
 तहि मुहु नयण जहण थणमंडलु
 खुहिउ तवस्सि थेरु विवरेरउ
 पभणइ मई मरंतु जीवावहि

जो आवइ सो उत्तरि देज्जसु ।
 गउ जणेरु तहे नाव समप्पेवि ।
 ता तहिं आइउ रिसि पारासरु । ५
 पुत्ति पइल्लउ पारु पणारहि ।
 निउ नइमज्झउ थोरथणालए ।
 पेक्खेवि हत्थहो पडिउ कमंडलु ।
 किउ कुसुमसरसरेहिं अधीरउ ।
 एककसि भदि मुरयसुहु दावहि । १०

घत्ता—एम भणतउ तीए विणएँ तवमि निसिद्धउ ।

तुम्हहँ अम्हहँ सगु मुणि नियमेण विरुद्धउ ॥१०॥

११

तुम्हहँ बंभरिसी जयपुज्जिय
 अम्हहँ मच्छधिय दुग्गधिय
 तेण साहु ससग्गु न जुज्जइ
 हउं तुह दसणेण ह्यथामे
 खणु वि न अच्छमि सक्कहँ धीरहि
 ताए भणिउ हउं मइल कुवेली
 तुम्हंगहो अगउ लायतिहे
 एउ मुणेप्पिणु चितियमेत्ते
 दिव्वरुव दिव्वंबरधारी
 चउकोसावहि कुवलयगधी

तवसामत्थिय विसयविवज्जिय ।
 जणनिदिय णिकिट्ठु दुयुद्धिय ।
 पुणरवि पारासरेण भणिज्जइ ।
 पीडिउ मुट्ठु किसोयरि कामें ।
 दे आलिगणु मा मई मारहि । ५
 दूहवदुग्गधिणि कुमहेली ।
 सकइ महु मणु सूग वट्ठतिहे ।
 तेण तवेण समीहियकत्ते ।
 दिव्वाहरण तिलोयापियारी ।
 सा किय न कयअमरपुरधो । १०

घत्ता—पेक्खेवि तवसामत्थु साबाणुग्गहकारउ ।

इच्छिउ ताए भएण जइ वि न मणहो पियारउ ॥११॥

१२

धूमरीए पच्छाइयगयणे
 मेल्लेप्पिणु तउ मयणुम्मत्तें
 तक्खणि जोयणगंधहे जायउ
 पंचकुंचु परिहियकोवीणउ
 दीहजडाजूडंकियमत्थउ

किउ नइमज्झि पुत्तिणु तहे वयणे ।
 माणिय इच्छए सा अणुरत्त ।
 नामें वासु पुत्तु विक्खायउ ।
 दिव्ववाणि चउवेयपवीणउ ।
 छत्तियभिसियविहूसियहत्थउ । ५

कुंडियजन्नोवइयविराइउ
जणणिजणेरहँ कियग्रहिवायणु
सा पारासरेण सविसेसँ
चलिउ बप्पु पुत्तु वि तहो पच्छण

बंभु व बंभंडाउ पराइउ ।
थिउ नंदणु समीवि गुणभायणु ।
अक्खयजोणि जणियपरिओसँ ।
रविहे पयाउ व लम्मु कडच्छण ।

घत्ता—निण्वि तणुभभउ जंतु जोयणगंधण बोल्लिउ । १०
मइँ मुएवि तुह ताउ तुहँ वि पुत्त संचल्लिउ ॥१२॥

१३

वासँ भणिउ ताम सुहयारिण
जइयहँ सुमरेसहि साहियमणु
एम भणेविणु नेहवसगउ
एत्तहि तहे रूवहो ढोइयमणु
परिणाविउ पुत्तेण विवत्थण
चित्त-विचित्तविरिय-चित्तगय
हणवि गएण दिसिहँ पच्चालिय
तिन्नि वि एयउ ताण मणोज्जउ
जोयणगंधण पुत्तनिमित्ते
ताणेक्केक्कउ पुत्तु जणेष्पिणु
धयरट्टहो कउरव दुज्जसजुय

जामि जणेरे समउ भडारिण ।
तइयहँ एसमि मुण्वि तवोवणु ।
सहँ नियताएँ रिसिआसमु गउ ।
पहु कामेण कयत्थिउ सतणु ।
जणिय पुत्त तण तिन्नि^१ पसत्थण । ५
एक्कहिँ दिणि वणु पारडिहे गय ।
अंबा अंबाइय अवालिय ।
विहवत्तणु सपत्तउ भज्जउ ।
सुमरिउ वासु महारिसि चित्ते ।
वासु वि तक्खणि गउ आवेप्पिणु । १०
पंडुहे पडव हुय जियसजुय ।

घत्ता—सिरिचंदुज्जलकित्ति विविउरु लहु बहुजाणउ ।
लोकपसिद्धउ एम पारासरहो कहाणउ ॥१३॥

विविहरसविसाले णेयकोऊलाले । ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले ॥
भुवणविदिदनामे सब्बदोसोवसामे । इह क्षलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते ।
वासुप्पत्ती एसो सत्ताहियतीसमो संधी ॥

॥ संधि ३७ ॥

संधि ३८

१

ध्रुवयं—सिद्धिवह्वरइत्तु सव्वण्हु नवेप्पिणु ।
सच्चइरुदकह कहमि आयमु जोएप्पिणु ॥

दोहउ—इय वेयड्हो दाहिणहे सेदिहे सुट्टु समिद्धु ।
अत्थि नयरु सुरनयरसमु किन्नरगीउ वसिद्धु ॥

सपयावपरज्जियअमुमालि
सुउ रुदमालि सुमणोहरीए
तेणेक्कहिं दिणे बलवत्तएण
साहंती विज्ज विवक्खमारि
तहे रूवे मोहिउ होवि भमरु
पुणु धणजहणाए पएसि लीणु
पच्छा पयडीकियनियसरीरु
पडिवालहि विग्घु म करहि ताम
सिद्धाए ताए तउ तणिय जाय
तो पुच्छिय तेण मणोज्जख्य

तहिं अत्थि खगाहिउ रयणमालि । ५
तहो देविए जणिउ मणोहरीए ।
सच्छेदे तहिं विहरंतएण ।
आलोइय विज्जाहरकुमारि ।
धिउ वयणकमलि छम्मास खयरु ।
धिउ सुहुमु हांवि विज्जापवीणु । १०
सो भणिउ ताए पारियलियधीरु ।
सिज्झइ सिहि दुल्लह विज्ज जाम ।
होसामि सुहय बढाणुराय ।
हलि भदे कहसु तुहं कासु धूय ।

घत्ता—ताए कहिउ गंधव्वपुरे एत्थेव महाबलु । १५
उत्तरसेदिहे अत्थि पहु महु ताउ महाबलु ॥१॥

२

दोहा—माय पहायरि नाम महु रूवसइत्तण धाम ।
हउं वि पसिद्धी भुवणयले अच्चामालिणि नाम ॥

बहुदिवसहिं साहियविज्ज बाल
परियाणवि मणु दोहं वि विवाहु
बहुकाले रइरसरंजियाहं
नदणवणि जिणपूयाहिसेउ ।
अच्छंतहं मणजयचित्तवेय
महजालिणिविज्जबलेण वे वि
निज्जिणिवि समरि ते सो वि आउ

गय गेहहो अट्टमियंदभाल ।
किउ मिलिवि कुडुबे रइयराहु ।
साहेवि पन्नतीविज्ज ताहं । ५
थुइनमण करेप्पिणु सतिहेउ ।
तहे मेहुणयागय पबलतेय ।
गय रुदमालि बधेवि लेवि ।
गउ घरहो समहिलउ साणुराउ ।

घत्ता—वइरायहो' कारणु हुयउ तहो त पि सभज्जउ । १०
चारणमुणिणा दिक्खियउ दूरुज्झियरज्जउ ॥२॥

३

दोहा—अवरोप्परु सनियणु तउ नेहवसाई करेवि ।
वेत्ति वि सोहम्महो गयई सन्नसेण मरेवि ॥

परिपालियमाहेसरपुरामु	रायहो गधारनरेसरामु ।	
सो मुरु सग्गायउ गुणहिं जुत्तु	सच्चमइहे सच्चइ जाउ पुत्तु ।	
एत्तहे अच्चामालिणि वि देवि	आउक्खयम्मि सग्गाउ एवि ।	५
पविसिद्धाजणवण्ण जणियचोज्जे	विक्खाण्ण विसालीपुरि मणोज्जे ।	
चेडयनरनाहो सुप्पहाहे	महएविहे हुय मुय सुप्पहाहे ।	
नामेण भणिय जेट्ठा सउन्न	सा पुव्वमेव सच्चइहिं दिन्न ।	
पर अज्ज वि नवि किज्जइ विवाहु	एत्थतरि होण्णवि सत्थवाहु ।	
कन्नत्थे सेणियरायपुत्तु	तत्थायउ अभयकुमारु धुत्तु ।	१०
भोलेवि लेवि नरवइमुयाउ	नीसरिउ सुरगई कियउवाउ ।	

घत्ता—वच्चिय जेट्ठा चेल्लणण पट्टविय निवासहो ।
अप्पणु आइय तेण सहूँ मदिरु मगहेसहो ॥३॥

४

दोहा—जामावइ जेट्ठा घरहो पडिम जिणिदहो लेवि ।
ताम न पेच्छइ ताई तहिं वे वि गयाइ छलेवि ॥

लज्जेवि जिणालउ गंपि कन्न	पव्वइय समुज्जलहेमवन्न ।	
मामहो पत्तीहे महामईहे	अज्जियहे पासि थिय जसमईहे ।	
एत्तहि सच्चइणा मुणिवि वत्त	वेरगे रज्जविहइ चत्त ।	५
पव्वइउ नवेवि समाहिगुत्तु	तउ तवइ तिकालु तिगुत्तिगुत्तु ।	
उत्तरगोकन्न मुएवि अद्दि	विहरंतु कयाइ अणगमद्दि ।	
आवेप्पिणु रायगिहहूँ समीवि	थिउ गिरिवरि नामेणुच्चमीवि ।	
एक्कहिं दिणि गुणअणुराइयाउ	त वदहूँ अज्जिउ आइयाउ ।	
वंदेप्पिणु गिरि ओयरहिं जाम	आइउ मेहागमि सलिलु ताम ।	१०

२. १ जइरायहो ।

घंता—तिम्मंतिउ विहडप्फडउ इदमुदउ पणट्टउ ।
जेट्ट पइट्ट गुहाहि तहिं जहिं साहु पइट्टउ ॥४॥

५

दोहा—निष्पीलंतिहे वत्थु तहे अन्नोन्नालोण ।
सुहें सच्चइणा संगु हुउ पुव्वक्किजोएण ॥

आलोएवि निदिवि खवियकम्मि
जाणिवि सगम्भ सा सतियाए
अच्छतिए^१ तत्थ पसूउ पुत्तु
सिक्खितरु लहिवि सयाणियाए
दंसणहो करिवि उड्डाहसामु
गतूण पुण वि पव्वइय जेट्ट
वड्डनु सिमुहु सजणियताउ
रुट्टाए सयंभू रुदुदु वुत्तु
खलु लज्जविवज्जउ जारजाउ
भिउडियवयणए दुव्वयणु दिन्नु

थिउ पुणरवि सच्चइ सवणधम्मि ।
चेल्लणहिं समप्पिय खतियाए ।
अभएण सयभुगुहाहे धित्तु । ५
आणाविउ चेल्लणराणियाए ।
दिन्नउ नंदणहो सयभु नाम ।
परिपालियसजमनियमनिट्ट ।
पेक्खिवि देवीए रउहभाउ ।
कालेण निएवि अबरु वि अजुत्तु । १०
कि मेल्लइ केम वि नियसहाउ ।
निसुणेवि तिसूले नाईं भिन्नु ।

घंता—पडु जाएप्पिणु काईं पुच्छंतहो अक्खिउ ।
वइयरु जिह तिह चेल्लणए तहो कि पि न रक्खिउ ॥५॥

६

दोहा—आयन्नेवि उप्पत्ति निय गं पि नवेप्पिणु ताउ ।
उत्तरगोकन्नम्मि नए रुदुदु दियबरु जाउ ॥

गुरु सिक्खए रक्खियअंतरंगु
विज्जउ सयपच महाइयाउ
अवरउ सय सत्त लहइयाउ
विज्जासामत्थिउ सोहु होवि
तं निसुणिवि गुरुणा कहिउ तासु
तं निसुणिवि जत्थ न जुवइवग्गु
तामेत्तहे विज्जाहरनिवासि
दाहिणसेढीहे पसिद्धनामि

सिक्खिउ सुउ सो एयारसंगु ।
सिद्धउ तहो रोहिणिआइयाउ ।
अंगुट्टपसेणपहूइयाउ । ५
भेसावइ जणु जो एइ को वि ।
तुह जुवइहे लग्गेविणु विणासु ।
तउ करहुं गं पि कइलासि लग्गु ।
वेयड्डमहीहरि जयपयासि ।
पुरि मेहनिबद्धि मणोहिरामि । १०

५. १ अछंति ।

घत्ता—अत्थि खगाहिबु कणयरहु महएवि मणोरम ।
देवदारु विज्जारसणु सुय जाय मणोरम ॥६॥

७

दोहा—राणउ देवदारु करेवि विज्जजिम्भु जुबराउ ।
पणवेप्पिणु गुणघरमुणिहे राउ दियवरु जाउ ॥

पन्नत्तिपहावे दुन्निवारु	किउ विज्जाजिम्भे देवदारु ।
नीसारिवि घल्लिउ लइउ रज्जु	कि किज्जइ दइवायत्तु कज्जु ।
कइलासि सो वि ससहाउ एवि	थिउ निम्भउ विज्जापुरु रएवि । ५
चत्तारि सुराहिवगयगईउ	महएविउ तासु महासईउ ।
जोयणगंधा कणयातरग	वेयातरग भामिणि सुहग ।
जोयणगंधहे गधेल्ल धीय	हुय अवर गंधमालिणि विणीय ।
कणयाहे कणयचित्ता गुणाल	उप्पन्नी कन्ना कणयमाल ।
तणया तरगवेयहे तरग—	सेणा तरगमइ मुट्ठु चग । १०
मुप्पहततरगभामिणिहे धूय	पहवत्त पहावड अवर हूय ।
अट्ट वि एयाउ कुमारियाउ	कचुइजणेहि परिवारियाउ ।

घत्ता—दिब्बाहरणविराइयउ दिव्वबरधारिउ ।
जलकीलाई समागयउ न अमरकुमारिउ ॥७॥

८

दोहा—पीणुन्नय थोरत्थणिउ ण्हंतिउ ताउ निएवि ।
खुहिउ रुदुदु वामोहियउ मयणे बाणु मुएवि ॥

कामेण निरारिउ जणिण ताउ	आसन्नएण चित्तिउ उवाउ ।
वत्थाहरणाई हरेवि ताहें	विज्जण आणियई अणोवमाहें ।
णहाएवि ताउ जोयति जाम	वत्थाहरणाई न तत्थ ताम । ५
अनियतियाहिँ आउलमणाहिँ	मुणि भणिउ गपि पणवेवि ताहि ।
न वियाणहें देवाण वि पियाई	वसणाहरणई केण वि नियाई ।
भयवंत वियाणहि तुहें निरुत्तु	उवएसहि ता रुहेण वुत्तु ।
जाणमि फुट्टु तुम्हहें दिहि जणेमि	जइ इच्छहो मई तो दक्खवेमि ।
निसुणेवि एउ विभियमणाउ	जंपति ताउ नवजोव्वणाउ । १०

विज्जाहररायकुमारियाउ
जाणइ अम्हारउ मायबप्पु

न वि अम्हई अप्पण वारियाउ ।
सच्छेवहँ कहिँ विज्जामहप्पु ।

घत्ता—अप्पेवि वत्थविहूसणई पुणु तेण पउत्तउ ।
पुच्छेवि पियरई अप्पणई महु कहहु निरुत्तउ ॥८॥

९

दोहा—ताहि तउ गुंतूण घर तायहो कहिउ नवेवि ।
तेण वि कंचुइ एक्कु तहिँ पेसिउ संदेसेवि ॥

तेण वि गपिणु मुणि भणिउ एव
जइ मेहनिबद्धए मेहनिचए
निद्धाडिवि दाइउ जणियहरिसि
तो तुम्ह समप्पमि सोहणाउ
पडिवन्नउ रुद्रे करमि एउ
कचुइणा एरिसु कहिउ एवि
गपिणु तहिँ सुहिसयणहिँ समेउ
सम्माणिवि समुरि कहिउ कज्जु

पई अम्ह सामि विन्नवइ देव ।
तह मेहनाए धणघन्ननिचए ।
पइसारहि तितरि तिलोयह रिसि । ५
नियधीयउ जणमणमोहणाउ ।
छुडु परिणहुँ नियदुहियाउ एउ ।
परिओसिउ खयराहिउ सुणेवि ।
आणिवि घरि रुदु रउदुतेउ ।
जिह दाइएण अबहरिउ रज्जु । १०

घत्ता—भणिउ सयंभुण जं भणहि तं सयलु वि सारमि ।
कि एक्के तितराहिवेण तिजगु वि संघारमि ॥९॥

१०

दोहा—लहेवि भरोसउ भयरहिउ विविहद्धत्तधयद्धन्नु ।
देवदारु त लेवि गउ मेलावेप्पिणु सेन्नु ॥

वेडिउ पुरु किउ कलयलु रउदु
..... सुयाउ
सुरदारुवयंसहिँ पुणु वि तामु
सय पच समुज्जलकंतियाउ
सोमालउ विसमरण ताउ
तहुँ मरणे तितराहिवनिसुभु
आयन्नह अबरु महाणुराउ

नीसरिउ वइरि तहो भिडिउ रुदु ।
असहंतितउ रइ अट्ट वि मुयाउ ।
अट्टहिँ चदेहिँ हयाहियासु । ५
दिन्नाउ पयत्ते पुत्तियाउ ।
दिणि दिणि मरेवि सब्बउ गयाउ ।
चित्ताविउ थिउ दुम्मणु सयंभु ।
सहुँ गोरिए जिह निब्बाहु जाउ ।

घत्ता—एक्का अज्जिय पुव्वभवे देसंतरु जंती । १०
उत्तारिय धीवरेण नइ पहसमसतत्ती ॥१०॥

११

दोहा—तासु सरीरहो सीयलहो अप्पाइयफसेण ।

विसयासाप्र नियाणु तप्र किउ दुक्कम्मवसेण ॥

अन्नहँ भवि पयडियपरमनेहु
इय करिवि नियाणु विमुक्ककाय
केवट्टु वि मिच्छातउ तवेवि
एत्तहि सावत्थिहे वासवेण
विज्जुमई नामे जणिय कन्न
सा देवि एवि तहे गम्भवासि
निव्विन्नप्र पीडावसप्र ताप्र
ता तहिँ चत्तारि दियगयाउ

भत्तारु महारउ होउ एहु ।
सोहम्मसुरिदहो देवि जाय ।
हुउ जेट्टुहे नंदणु भवि भमेवि । ५
महएविहे मित्तमईहे निवेण ।
तडिदाढहो विज्जाहरहो दिन्न ।
हुय कहव विणिगय नवममासि ।
घल्लाविय सावत्थिहे गुहाप्र ।
पुन्नेहिँ ताहिँ कीलहुँ गयाउ । १०

घत्ता—ताहि उमा उमि त्ति निप्रवि रोवंती बाली ।

भणेवि उमा करुणाप्र निय मदिरु सोमाली ॥११॥

१२

दोहा—गपिणु राउलु राणियहे दाविय मित्तमईहे ।

ताप्र वि पालहुँ पडियहे अप्पिय नियघाईहे ॥

मज्झमि अद्धचदह पहाणु
तहि गयणंगणे चोइयविमाणु
सम्माणेवि तहो कुलउत्तियाहे
सा मित्तमईप्र सनामियाहे
ताए वि पयत्तँ पालिऊण
सुदरि सुरकूडपुराहिवासु
मयमत्त सुट्ठु मुरयाणुराय
एक्कहिँ दिणि मग्गी देवदारु

खगनाहु इंदुसेणाहिहाणु' ।
एक्कहिँ दिणे आयउ विहरमाणु ।
नियबहिणिहे भणेवि अपुत्तियाहे । ५
अप्पिय गिरिकन्नियनामियाहे ।
किय जोग जुवाण निहालिऊण ।
तडिरयहो दिन्न विज्जाहरासु ।
मुप्र तम्मि उमा सच्छंद जाय ।
तेण वि मुणेवि तहे तणउ चारु । १०

घत्ता—दिन्नी रुद्धो रइगुणेण ताइ वि पडु जाविउ ।

विज्जाविहवहो अच्चूतह अद्धासणु पाविउ ॥१२॥

१३

दोहा—रुद्धु वि रुद्धुयसरिसु तहे मुहकमलु नियतु ।

अच्छइ अहनिमु सरिसरहिँ गिरिकंदरहिँ रमतु ॥

जडमउडविहूसिउ विसमगामि
 हउँ कत्ता हत्ता सिवु सयभु
 ईसरु हरु संकरु सिद्धु बुद्धु
 सब्वण्ह उमावइ भवपमत्थि
 मायाविउ रजेंवि जणमणाइँ
 विरएप्पिणु सइँ भरहम्मि एत्थु
 दिक्खिय वहु सइवायरिय हूय
 परियरिउ तेहिँ अखलियपयाउ
 बारहवरिसावहि विसयसोक्खु
 विज्जाहर सयल वि दसदिसामु
 एक्कहिँ दिणि ससुरहो अद्धु रज्जु
 ता जवुएण चित्तिउ मणम्मि

भूइए मुरु कुडिउ तिजगसामि ।
 चित्तिउ फलदाइउ दुहनिसुभु ।
 तित्तरारि तिलोयणु पयइसुद्धु । ५
 इय भासेवि दूसेवि अवरु नत्थि
 वेयइह्वे वसेप्पिणु वहुदिणाइँ ।
 आवेप्पिणु पयडिउ सइवसत्थु ।
 दावियगुण मिलिया गण पहूय ।
 अणवरउ उमापेम्माणुराउ । १०
 भुजंतु भमिउ महि हयविवक्खु ।
 आसंकिय नियवि पयाउ तामु ।
 मग्गिउ रुद्वेण जि देमि अज्जु ।
 मारमि उवाए एयं खणम्मि ।

घत्ता—एहु महाविज्जावलिउ अम्हइँ मारेसइ ।

१५

निच्छउ उत्तरदाहिणउ सेढीउ लएसइ ॥१३॥

१४

दोहा—केण उवाएं एहु खलु हम्मइ हणइ न जाम ।

इय चित्ताउलु नियवि जणु बहिणिय पुच्छिय ताम ॥

सुइ कइयहँ सुह जामाइयासु
 ता कहिउ ताए मई सहँ सुहालि
 लहिऊणवएसु दुरडनयरि
 सिरु सुरयारूढहो तेहिँ तामु
 हए तम्मि सब्बु विज्जाहि देसु
 उवसग्गु निएप्पिणु जणहो घोरु
 रिसि नदिसेणु ईहियसिवेण
 भयवं उवसग्गहो कि निमित्तु

विज्जउ अरसाउ महाइयासु ।
 विज्जाउ फुरति न सुरयकालि ।
 गधारदेसि धणधन्नपयरि । ५
 कप्परिउ मुकंतहो किउ विणासु ।
 उव्वासिउ उप्पाइउ किलेसु ।
 घरि घरि भूसतु कियतु चोरु ।
 पुच्छिउ विससेणनराहिवेण ।
 ता भासइ परियाणियनिमित्तु । १०

घत्ता—रुद्धु नाम विज्जाहिवइ अरखमावियविज्जउ ।

मारिउ तेणुवसग्गु इह वट्टइ अमणोज्जउ ॥१४॥

१५

दोहा—थवेवि उमाहि उवत्थे जइ छिदेप्पिणु तहो लिगु ।

पुज्जह विज्जउ उवसमाहिँ तो नासइ उवसग्गु ॥

रिसिवयणु सुणेप्पिणु एउ तेण
 जणवयजणु सयलु वि बाहरेवि
 छिदेप्पिणु सुरयसुहेक्कलाणि
 तहे मज्झि उड्डसिहु सिवहो लिगु
 धोइवि पक्खालिवि चंदणेण
 पुज्जिवि सव्वेहिं मि इंदियासु
 पडिवज्जिउ विज्जहिं खंतिभाउ
 तहो दिवसहो लग्गिवि पहयलज्जु

जाएप्पिणु तत्थ नराहिवेण ।
 इट्ठाहिं उच्च मच्चिय करेवि ।
 तहु उवरि थवेवि उमाहे जोणि । ५
 थविऊण पयत्ते दीहरंगु ।
 समलहिवि सुरहिपरिमलघणेण ।
 रायाणप्र किउ नवयारु तासु ।
 लोयहो उवसग्गविणासु जाउ ।
 संजायउ लोयहो लिगु पुज्जु । १०

घत्ता—सिरिचदप्पहु परिहरिवि जिणु जयवंदियपउ ।

सो जि देवु अन्नाणियहिं मच्चिउ परमप्पउ ॥१५॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणुमाने अत्थसदोहसाले ॥
 भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदमजुत्ते ।
 रुद्धुप्पत्ती एसो अट्ठाहियतीसमो सघी ॥

॥ संधि ३८ ॥

संधि ३६

१

ध्रुवय—निवरिसिहि कहंतरु कहमि निरंतरु देसु विदेहु भरहि बसइ ।
मिहिलापुरि धीरउ नामे मेरउ अत्थि राउ तहिं गुणवसइ ॥

घणसेणानामहे गुणहिं जुया	तहो देविहे नंदण विन्नि हुया ।	
पोमरहु महाबलु लोयधुओ	नमि वीयउ चारु पलबभुओ ।	
एककहिं दिणि पहु निव्वेइयउ	सच्चउ हुयलद्धिपचोइयउ ।	५
पोमरहुहु अप्पि वि रायसिरी	नमिणा समेउ गउ गहणगिरी ।	
दमियारि नवेप्पिणु परमरिसी	हुउ सजउ दरिसियधम्मदिसी ।	
एककहिं दिणि नियतणुछाय वणे	नमि नियवि नियतु मुणेवि मणे ।	
गुरुणा णाणंणाएसु कउ	होसइ तियाइं तव भगु तउ ।	
आयन्निवि एउ इत्थिरहिए	तउ तवमि पएसु अप्पहिए ।	१०
इय त्रितिवि साहणत्थु मणहो	एककल्लउ गउ निज्जणवणहो ।	
तहिं अहनिसु भाणउभयणरओ	जामच्छु दूरुद्धूयरओ ।	

घत्ता—तामायउ सत्थे सहुं परमत्थे नडु नामे गोविदु तहि ।
नियपेडयसारउ सत्थविसारउ आवासिउ मुणि बसइ जहि ॥१॥

२

सव्वंगसलक्खण गुणभरिया	तहो कंचणमाला दिक्करिया ।	
आलोप्रवि सो मयणे नडिउ	चारित्तगिरिहिसिहरहो बडिउ ।	
आपत्तु निएप्पिणु तेण मुणी	पडिगाहिउ परियाणेवि गुणी ।	
उवसामियदूसहविरहसिही	नियदुहिय समप्पिय दिन्नदिही ।	
सहुं ताए अवरवावारचुओ	जामच्छइ ता तहि गब्भु हुओ ।	५
एककहिं दिणि उज्जमवज्जियउ	गरहिउ पियाए नमि लज्जियउ ।	
अहिमाणे पुव्वसमुदतडु	गउ पुरु मुडीरसामि पयडु ।	
नाणाविणोयरंजियजणउ	पारंभिउ तहिं निसि पेक्खणउ ।	
तहिं बडुकुमारी रायसुया	मयणेण नवर विवरीय हुया ।	
बहुदव्वु लएप्पिणु दुल्ललिया	परपुरिसे सहुं रयणिहिं चलिया ।	१०
पच्छा जाएसहुं भणिउ विडु	लइ पेच्छहुं ताम नडतु नडु ।	

घत्ता—ता बहुविन्नाणहिँ लद्धसमाणहिँ नच्चंतेण अणयरसु ।
रंजियजिणचित्ते मुणियनिमित्तं पढिउ तेण पत्थाववसु ॥२॥

३

तद्यथा—दीर्घं चिन्तयितव्यमल्पसुखमात्मनो न कर्तव्यम् ।
उत्पथेन न गन्तव्यं न श्रोतव्यं क्षुद्रजनवाच्यम् ॥

एयस्स पढमपायहो तणउ	अवधारिवि अत्थु सुहावणउ ।
पडिबुद्धप्र गमणु विवज्जउ	अत्थेण ताप्र नडु पुज्जियउ ।
तत्थेव बंभचरियाहइया	नवजोव्वण एक्का पव्वइया ।
अवरेक्कं सहुँ रहसहो भरिया	मद्धदव्वु लएप्पिणु नीसरिया ।
कोऊहलेण जणु मिलिउ जहि	नडु निप्रवि निहालहुँ लग्ग तहि ।
न करेवउ अप्पहो अप्पसुहु	आयन्निवि वकिउ ताप्र महु ।
सजायविवेयप्र छड्डियउ	जाएवउ सीलु न खंडियउ ।
ज लेप्पिणु विसयासप्र चलिया	सा नडहो समप्पिय पोट्टलिया ।

घत्ता—भम्महँ णिवपुत्तहिँ दुम्मइजुत्तहिँ उवरिम वेन्नि पाय मुणिवि ।
उम्मग्गविवज्जणु खलवयणुज्जणु किउ दोहि मि हियत्थु मुणिवि ॥३॥

४

पुज्जिउ नडु दिन्नउ पवरधणु	तेण वि तेँ रंजिउ पियहे मणु ।
भासिउ हलि होसइ तुज्जु मुउ	वहुलक्खणु सुदरु सुयणथुउ ।
तं मुरजब्भंतरि छ्हिवि तहि	घल्लेज्जसु एत्थ मसाणु जहि ।
छड्डेप्पिणु एम भणेवि गुणी	गउ गुरुसमीवि हुउ परममुणी ।
एत्तहिँ तप्र जावमेत्तु तणउ	पक्खेवि मुयंगि सुहावणउ ।
घल्लिउ मसाणि ता तहो पुरहो	सामिउ विससेणु मणोहरहो ।
तेत्थु जे पत्थावि परोक्खु हुउ	भाइउ भत्तिज्जउ नत्थि सुउ ।
अहिवासिउ मंतिहिँ रायगउ	सव्वत्थ भमेवि मसाणि गउ ।

घत्ता—तहिँ नयणाणंदे तेण करिदें जणहो नियंतहो सोहणए ।
उच्चाप्रवि बालउ सो सोमालउ खधि चडाविउ अप्पणए ॥४॥ १०

५

पुरपरियणेण जय कारियउ	अहिसित्तु रज्जि बइसारियउ ।
परिवड्डिउ दुम्महु नामु किउ	अच्छइ सुहेण तहिँ कियसुकिउ ।

एतहि विहरंतउ सव्वहिउ
 तहिं गगदत्त नामे वसइ
 तहो गेहिणीहे विमलाहे ह्या
 एक्कहिं दिणि ताई कज्जवसई
 भंडाई थवेप्पिणु आमयइ
 तो तहिं अयालजलवुट्टि ह्या
 पेक्खिवि सुरूव पीणत्थणिया

नमि पत्तउ पट्टणु कालपिउ ।
 कुंभारु कुलालपयाहिवइ ।
 सुय विस्सदेवि रूवेण जुया । ५
 भवणगणि सुक्खहं सहरिसई ।
 वेत्ति वि जणाई कत्थ वि गयइ ।
 आउल किय ताए कुलालमुया ।
 भिक्खागएण मुणिणा भणिया ।

घत्ता—कि दिसउ नियच्छहि जइ मई इच्छहि तो भडाई सुयणु पणमि । १०
 सा भासइ मेरउ देइ जणेरउ जइ तो तुह रइसुहु जणमि ॥५॥

६

तओ अहिमतवि दडउ तेण
 छिवेहि इमाई असेसई भत्ति
 सुणंपिणु ताए कओ उवएसु
 तओ सहसत्ति मुएप्पिणु कज्जु
 सुणेवि विहाणु पट्टमणेण
 नमी वि सुहेण समेउ पियाए
 दुवालसमासहिं सा गुरुहार
 निरुज्जम लज्ज मणा वि न तुज्जु
 सुणंपिणु भामिणिभासिउ तेण
 लहेवउ ज पई कि पि इहज्जु

समप्पिउ ताए मयच्छि इमेण ।
 चलति गिहतरे जेण विसति ।
 पइट्ठु सय घरि भडु असेसु ।
 पराइउ तेत्थु कुलालु सभज्जु ।
 विइल्ल विवाहहं णंदणि तेण । ५
 थिओ तहिं पेम्मपरव्वसु ताए ।
 ह्यालस जेभण मथरचार ।
 विहत्तउ तायहो भुजहि मज्जु ।
 कवालिय एक्क किया निउणेण ।
 असेसु वि देवउ त महु अज्जु । १०

घत्ता—एरिसु भासेविणु अहिमतेविणु मयणविवक्खनिसुभणहो ।
 मगंतहो अप्पिय जणनयणप्पिय सा गोविदहो बंभणहो ॥६॥

७

गोविदु वि त मन्नेवि तयणु
 पइसतु सतु आलोइयउ
 देविए अदिट्ठु सिरिवउ विहिउ
 अब्भंतरि पइसिवि मणहरिया
 उप्परि पूरेप्पिणु पायसेण
 आवेवि कुलालहो दिन्न करे

भिक्खहे पइट्ठु पुरु तुट्टमणु ।
 निववहुपेसियपुरिसं नियउ ।
 तहो देविणु भोयणु रससहिउ ।
 कावालिय बहुरयणहि भरिया ।
 पणवेवि समप्पिय सहरिसेण । ५
 तेण वि पियाहे पइसरिवि घरे ।

उबइदट्टु कज्जु हलि तुज्जु सुओ
गंतूण उवेज्जसु पेयहरे
इय भासिवि गउ गुरुपासि नमी
एत्तहे वि पसूयउ ताए तहि

होसइ सुहलक्खणलक्खजुओ ।
पावेसए एत्थु जि रज्जु पुरे ।
आलोएवि पुणरवि जाउ जमी ।
लहु नेवि निहित्तु मसाणु जहि । १०

घत्ता—तहो नयरहो राणउ सक्कसमाणउ तहिं अवसरि महसेणु मुउ ।
सताणुद्वारउ वइरिवियारउ बंधउ एककु वि नत्थि सुउ ॥७॥

८

मंतियणें मंतियं मंतु तउ
तेण वि परिहरिवि असेसु जणु
अहिसिचिवि खधि चडावियउ
करकंडु नाम किउ वइरिवह
कि एककु जि सो जगि जायजसु
एत्तहि नमि संजउ सुयणगुरु
संपइ ज मूलथाणु भणिवि
तहिं सीहसेणनरवइहे सुया
नामें वसंतसेणा भणिया
भामरिहे पइठ्ठे दिठ्ठु ईई

सिगारिवि मेल्लिउ रायगउ ।
जाएप्पिणु भोसणु पेयवणु ।
पुरि परियणलोयहो भावियउ ।
हुउ तप्पहइ तो तत्थ पइ ।
अवरु वि सिरि लहइ सकम्मवमु । ५
मरुविसए पराइउ पुरिसपुर ।
जणु मणइ पडइ जहिं सलिलु नवि ।
देविहे वसतमालाहे हुया ।
कि वन्नमि रजियजणमणिया ।
नमिणा कुमारि सा हसगई । १०

घत्ता—अन्नोन्नालोयणि सुहसंजोयणि विहि मि चित्तु चित्तहो मिलिउ ।
जिह को वि न जाणइ तिह तं माणइ निसिहे गपि विज्जावलिउ ॥८॥

९

बहुदिवसहिं सा गुरुहार हुया
हा पुत्ति काई मज्जायचुया
ता ताए कहिउ जामिणिहिं जई
तेणेहु माए महु गम्भु किउ
इय धाइवयणु निसुपेवि पुणु
ता धाइए देवाणं पि पिया
जंतहो वसेवि पुट्ठिहे वरहो
निवनदणीए उवएसु कउ
दिणि किंकरेहि उवलक्खियउ

धाइए आउच्छिय चारुभुया ।
केमक्खहि उयरहो विद्धि हुया ।
एत्थावइ एककु अलक्खगई ।
परियाणहिं सो दिणि मुद्धि पिउ ।
नो लक्खमि भासइ सा सुयणु । ५
नरनाहतणुभव सिक्खविद्या ।
लाएज्जसु कुंकुमहत्थ तहो ।
कुंकुमकरेण सो जंतु हउ ।
आवेप्पिणु रायहो अक्खियउ ।

घत्ता—तेण वि जाएप्पिणु गुणि जाणेप्पिणु विणउ करेप्पिणु आणियउ । १०
जणमणनयणपिय पुत्ति समप्पिय देवि दव्वु सम्माणियउ ॥१॥

१०

जणु निरवसेसु विभयहो निउ
जामच्छइ भोयासत्तमणु
नामे नग्गइउ सलक्खणउ
सूराहु भणेविणु सूरसुओ
मेल्लेवि वसतसेण सवणु
मुडोरनयरि पढमुग्गमणु
पुणु मूलत्थाणु अत्थवणु
पुच्छेवि नियमायउ मुग्गवि सिरी
दुम्महकरकड्डनग्गइया
कालेण चयारि वि पहरया
पासुउ कुभागवाउ जहि
भाणत्थियाण ताणुवरि तिणा
उवसग्गु सहेवि तिलोयथुया

रविरूवें विज्जए तत्थ थिउ ।
गुरुहार ताम हुय सा सुयणु ।
सजायउ पुत्तु वियक्खणउ ।
नग्गइउ जणम्मि पसिद्धु हुउ ।
जायउ नमि पुणरवि सुद्धमणु । ५
कालप्पियम्मि मज्झन्नखणु ।
अज्ज वि आइच्चहो भणइ जणु ।
तिन्नि वि जण गणिणु गहणगिरी ।
नमि मुणि पणवेप्पिणु पव्वइया ।
विहरत पयावद्दगामु गया । १०
रत्तिहे थिय हत्थत्थमिय तहि ।
लाइउ अवाउ खलदुम्मइणा ।
गय मोक्खहो अक्खयसोक्ख हुया ।

घत्ता—वज्जेण समाहउ सत्तम महि गउ कुभयार मुणिवहकरणु ।

अज्ज वि तहिँ दीसइ जइ निसि निवसइ तो कुलालु पावउ मरणु ॥१०॥ १५

११

आहासमि लोयपसिद्ध जेम
बंधेण वसते बभलोए
जणु हरिहरइंदसहाइ सव्वु
महु पासं न कोइ वि एत्थुपेइ
इय भणेवि विवज्जेवि बभलोउ
हरिहरसूराइसुराणुभत्तु
गउ बभसाल बंधण पढत
नियपडिमहि किच्चि वि नत्थि भोउ
दट्ठूण विसेसे जाउ कोउ
वयणेण विप्प अलियव्भुएण
ऊरूहिँ वइस पाएण सुद्द

निमुणह कह बभहो तणिय तेम ।
चित्तिउ कयाइ कयदुहविओए ।
आवइ पडु जावइ विगयगव्वु ।
एक्कल्लहो मणु उट्टेउ देइ ।
इत्थायउ पेच्छहँ मच्चलोउ । ५
जणु जोएवि कमलासणु पलित्तु ।
आलोइय हरि हरि हरि भणंत ।
नउ धुउलजत्तसगीयजोउ ।
पेच्छह मई जायउ सयलु लोउ ।
उप्पाइय खत्तिय भुयजुएण । १०
तलवायहिँ अवर वि जे रउद्द ।

हउँ देउ सयंभु हिरन्नगम्भु
कत्तारु पयावइ परमजोइ

तेल्लोक्कपियामहु मुक्कडंभु ।
सव्वहिँ परिहविउ न भत्तु कोइ ।

घत्ता—बंभण वि नरा अवरु अणुरत्ता विण्हु महारउ नामु जहँ ।

तिह करमि पयत्ते एक्केँ चित्तें जिह तेलोक्कु वि नवइ महुँ ॥११॥ १५

१२

इय चित्तिऊण निच्छयमणेण
आहुट्ट दिव्ववरिसहँ सहास
इह वेयवाइ कालप्पमाणु
नरमाणु पियररिसिदेवमाणु
चउपहरहिँ वासरु चउहिँ रत्ति
नरमाणु तेहिँ बारहहिँ वरिसु
तिहिँ मासहिँ दिणु तिहिँ निसि गणति
धम्मसास रयणि धम्मामसु दिवसु
निसि वरिसु वरिसु वासरु निरुत्तु

पारंभिउ वउ वणे करहँ तेण ।
गय तहो तवेण दुक्कियविणास ।
पच्चविहु कहति पवड्डमाणु ।
पच्चमउ महंतु विरिचमाणु ।
तिहिँ दमहिँ मासु दिवसहिँ न भंति । ५
पक्खेण रत्ति तहिँ पियरदिवसु ।
रिसिमाणु एव जाणय भणंति ।
मुणि दिव्वमाणु संजणियहरिसु ।
बंभहो पमाणु कालहो पउत्तु ।

घत्ता—पावियसम्माणे दिव्वे नाणे सद्ध तिमि वरिसहँ सहस' । १०

तवचरणु चरतहो बोलीणे तहो एत्तहि मिलिय सयल तियस ॥१२॥

१३

सुरिदसहाप्र हरेण मुरारि
अहो हरि देव दिवायर चंदु
गहा गह भूय पिसाय रउद्
किमत्थु परेक्कु न दीसइ बंभु
तओ गिरिसेण गवेसहँ तामु
पलोइउ तेहिँ न कत्थइ दिट्टु
पुणो वि मुरारिगिराप्र सुरेहिँ
तओ तवसोसणल्लीणसरीरु
गणेतियकुंडियमंडियहत्थु
वणम्मि थिओ थिरु एक्ककमेण

पउत्तु निलिपविवक्खवियारि ।
रिसी वसु किन्नर जक्ख फणिणु ।
इहागय बंभण खत्तिय सुद् ।
न जाणहँ कि न चिहावइ' संभु ।
विसज्जिय किकर सव्वदिसासु । ५
नवेप्पिणु एप्पिणु सामिहि सिट्टु ।
विसज्जिउ वाउ पयत्तपरेहिँ ।
विवज्जियभोयणु भुत्तसमीरु ।
समोणु जडाधरु वक्कलवत्थु ।
सयंभु निहालिउ सव्वगमेण । १०

घत्ता—उव्वासिउ^३ इंदहो नयणाणंदहो एप्पिणु देवसहाभवणे ।

अच्छइ आणासिउ विहिपवणासिउ दुद्धर तउ तवंतु वियणे ॥१३॥

११. १ जहिम ।

१२. १ ससह ।

१३. १ चहावहि ।

२ उवरासिउ ।

१४

तवेण हवेवि जयत्तयपुज्जु
 वियंभइ जाम न किच्चि वि विग्घु
 मणेवि हरेण इणं हरि वुत्तु
 तिणा वि तिणेत्तहो अक्खिउ भेउ
 वियाणिउ सो मई गोरिविवाहे
 सुणेवि समुद्दसुयापियवाणि
 तिलोत्तिमनामिय बंभतवारि
 वसंतु सगायणवायणु देवि

न जाणहुँ कामु हरेसइ रज्जु ।
 हणिज्जइ ताम तवो तहो सिग्घु ।
 पवासहि को वि उवाउ निरुत्तु ।
 हवेइ तियाए तहो तवछेउ ।
 हुओ जहिँ काले पुरोहु सराहे । ५
 पउत्तु उमावइणा पविपाणि ।
 अणोवम तेण विणिम्मिय नारि ।
 विसज्जिय ढालहि बभु भणेवि ।

घत्ता—तहिँ गपि वसंते कयपहुमंते चउदिसु नववसतु विहिउ ।
 कलकलकठीसरु पप्फुल्लियतरु उप्पहे जणु मयणे निहिउ ॥१४॥ १०

१५

आउज्जिएहिँ आउज्जसद्दु
 तहो पुरउ पयासियविब्भमाए
 गीयसरु सुणेप्पिणु जणियभाउ
 वामोहियमणु मयणेण भग्गु
 मणु वालिवि पालियसजमामु
 सा गपि गयणे पेडयसमाण
 चितइ विहि चित्ते अपेच्छमाणु
 जइ वलिवि पलोयमि तो णियति
 अह न नियमि तो विरहग्गि खाइ
 इय चित्तेवि चित्तिउ पुणु वि तेण
 मुहु होउ नियच्छमि नारिरयणु
 एण जे कमेण पुणु मुहई तामु

गंधव्वहिँ किउ गधव्वु भद्दु ।
 नवरसहिँ नट्टु पारदधु ताए ।
 कमलासणु भक्ति सराउ जाउ ।
 सवियारदिट्ठि भोयणहँ लग्गु ।
 तहिँ निविडसणेहु जणेवि तामु । ५
 थिय दाहिणदिसिहे पणच्चमाण ।
 हो गउ अग्गाउ वि सुहनिहाणु ।
 आयासे परिट्ठिय सुर हसति ।
 अवरु वि लोयणफलु विहलु जाइ ।
 महु दिव्ववरिससहसहो तवेण । १०
 ता तक्खणेण संजाउ वयणु ।
 संजायए अवरुत्तरदिसामु ।

घत्ता—दूसहनिट्ठासय पंच वरिससय कयतवमाहप्पेण पुणु ।
 उप्पन्नु पसत्थए खरसिरु मत्थए एउ वियाणइ सयलजणु ॥१५॥

१६

तवनासे विलक्खीहूयएण
 मई मेल्लेवि जाव न जाइ एह
 १४. १ 'वइणे ।

आयासे पसारिय बाहु तेण ।
 लइ ताम निरुभमि चारुदेह ।

इय चित्तेवि धरइ न धरइ जाम
 गइयाए ताए पत्तावमाणु
 मुच्छेवि धरहि निवडिउ टस त्ति
 कमलासणासु तवचरणे भग्गं
 संजाया सयल वि सुहियचित्त
 कि करइ न मुणहूँ विलक्खिहूउ
 साहारहे जाइवि वभु भदे
 सा त न समिच्छइ लोयमहिय
 सहूँ ताए रमंतहो तामु पुत्तु

गय नासेवि सा सहसत्ति ताम ।
 हा देवि तिलोत्तिमि जंपमाणु ।
 गय ताम तिलोत्तिमि नियय थत्ति । ५
 किउ बद्धावणउ सुरेहिँ सग्गे ।
 इंदेण तिलोत्तिमि पुणु पउत्त ।
 कि जियइ मरइ विरहाहिहूउ ।
 तहो होहि कन्न कलयठिसदे ।
 ता सुरवरेहिँ उव्वसिय पहिय । १०
 उप्पन्न वसिट्ठु गुणेहिँ जुत्तु ।

उक्तं च—उर्वशी ब्रह्मणो भार्या वेश्या विख्यातमुन्दरी ।
 तस्या पुत्रो वसिष्ठाख्यो वेदे विप्रगणेशित ॥

इय जाणिऊण तिहणह अणगु

परिहरह असुदरु नारिसंगु ।

घत्ता—वभु वि जिहिँ भज्जइ लज्जहि वज्जइ सिरिचदुज्जलु गुणानिलउ । १५
 तहिँ मयणवसगहो कयतियसगहो अन्नहो कि न होइ पलउ ॥१६॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । तलियवयणमाले अत्थसदोहसाले ॥
 भुवणविदिदनामे सब्बदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिमिरिचदपउत्ते मुक्खित्ते णतपयदमजुत्ते ।
 एउणवात्तीसमअो वभकहाए इमो मधी ॥

॥ संधि ३९ ॥

संघि ४०

१

धुवय—अत्थु अणत्थहँ मूलु तेण विवज्जिउ सतहँ ।
भाइहँ रयणनिमित्तु लइय दिक्ख उवसंतहँ ॥

एरत्थि एहु वित्तंतु वित्तु
चोरा वि परोप्परु करिवि खेउ
कोसबिहँ धणमित्ताउ धणिय
रायगिहपुरहो अतरि ससत्थु
चोर वि अन्नोन्नु जि धणनिमित्तु
अवरु वि आयन्नह सावएण
मणिबयपुरि मणिबयनामदेसि
मणिबइ महएवि मणोहिरामु
एक्कहँ दिणि पलियकुरु निएवि
सजाउ दियवरु दमवरासु

पुव्व चिय एत्थु जि मइँ पउत्तु ।
मुय विमु खाएप्पिणु अत्थहेउ ।
वाणिज्जहो गय वत्तीस वणिय । ५
किय चोरहँ काणणि ल्हसिय अत्थु ।
मुय भक्खेवि विमु महमंसि धित्तु ।
खब्भालिउ मुणि अत्थहो काएण ।
मणिबइ नरिदु सुदरपएसि ।
नंदणु पसिद्धु मणिचट्टु नामु । १०
मणिबइ मणिचदहो रज्जु देवि ।
पणवेप्पिणु पय सजयधरासु ।

घत्ता—सो विहरंतु कयाइ भव्वयणहँ जयकारिउ ।
मुणि उज्जेणिहे आउ होएवि एयविहारिउ ॥१॥

२

जत्थत्थमीउ अत्थमिणु सूरि
तहँ निसिहे मडयसेज्जाए जाम
रक्खसु व रउद्धु किवाणहत्थु
मुणि मडउ वियप्पिवि मडयजुयलु
तहु मत्थए चुल्लए जलणजालि
डज्जते सीसँ चलिउ काउ
केणावि पहाए मुणिदु दिट्ठु
तेण वि तहँ एवि तुरतएण
पडियारनिमित्तु नरिदपुज्जु

सठिउ मसाणि नयरहो अट्ठरि ।
अच्छइ कावालिउ एक्कु ताम ।
संपत्तउ विज्जासाहणत्थु ।
तेणाणिउ अवरु निएवि सयलु ।
पारद्ध खीर रधहुँ कवालि । ५
कावालिउ नट्ठु भएण पाउ ।
जाएवि जिणयत्तहो वणिहे सिट्ठु ।
निउ महरिसि भवणहो भत्तएण
पुच्छिउ वणिणा सिरिदत्तु वेज्जु ।

घत्ता—तेण वि दिन्नुवएसु रोयाउरचित्ताहरे । १०
सव्वरुयाहरु तेल्लु अत्थि सोमसम्महो घरे ॥२॥

३

तं मग्गिंवि आणहिं पय्यवाहु	पन्नप्पइ जेण तुरतु साहु ।
गंतूण तत्थ वयणेण एण	मग्गिय चुकारिय तेल्लु तेण ।
सा भणइ सेट्ठि घरि पइसरेवि	लइ मक्खणु नियमडए करेवि ।
ता लेतहो हत्थहो निच्छडेवि	कुभिणिहे कुभु छुट्टुउ पडेवि ।
भीएण पयासिउ सुणिंवि ताए	लइ अवरु पयपिउ कयखमाए । ५
अवरु वि गेण्हतहो पढमु जेम	गउ भज्जिंवि वीयउ तइउ तेम ।
लइ लेहि चउत्थउ पुणु वि ताए	वणि भणिउ हसेप्पिणु कयखमाए ।
विभियमणु पुच्छइ काई एउ	कहिं केम वि नावइ तुज्झ खेउ ।

घत्ता—भासइ सा रोसेण मई महतु दुहु पत्तउ । १०
जावज्जीविउ तेण रुसेवउ परिचत्तउ ॥३॥

४

सुणु सेट्ठि कहमि विसयम्मि मोढि	आणदणयरि धणकणयपोढि ।
वभु व चउवेयसडगजाणु	सिवसम्मु अत्थि वभणु पहाणु ।
कमला कमला इव तामु भज्ज	सिवभूइयाइ जाया मणोज्ज ।
सुय अट्टु ताए णवमी कुमारि	भट्टा नामेण जुवाणमारि ।
हउं पाणपियारी पिउहे सुट्ठु	मई समउ को वि जपइ न दुट्ठु । ५
केण वि कयाइ आलिउ करति	विरुएण भणिय आगय रुयति ।
साहारिंवि सुहिं जपिय पिएण	ताएण वुत्तु सो विप्पिएण ।
रायहो कहिऊण मणोहरम्मि	देवाविउ ढंढोरउ पुरम्मि ।
चुकारइ' जो सिवसम्मपुत्ति	पुहईसु तामु चित्तइ अजुत्ति ।
तहो दिवसहो लग्गिंवि ह्यमएण	चुंकारइ को वि न निवभएण । १०

घत्ता—अच्चुकारिय एउ तामु मज्झु विक्खायउ ।
तइयहुं किउ लोएण अत्थवसेण समायउ ॥४॥

५

न कयावि भणेवी विप्पिएण	पडिबज्जिंवि परिणेप्पिणु पिएण ।
एत्थाणिय ससिसम्मणे सेट्ठि	अच्छमि सुहेण कयसुयणहिंढि ।

४. १ तुकारइ ।

एक्कहिँ दिणि मई पुच्छेवि रत्ति
हुय बड्डी वार दुवार देवि
जामच्छमि कोवें ताम कंतु
पुणु पुणु वि पर्यपिउ विणयसारु
सिक्खवमि ताम जिह पुणु न जाइ
चित्तंतु एउ पकुवियमणेण
हलि चुपि दि मोडि दि हय पचार

नडु पेक्खहुँ गउ वरु नाउ भक्ति ।
थिय उल्लरेवि दिहु मोणु लेवि ।
आगउ उग्घाडहि पिणु भणंतु । ५
उग्घाडिउ तो वि न मई दुवारु ।
मई भेल्लेप्पिणु रयणिहिँ कयाइ ।
हय हउँ दुव्वयणहिँ बभणेण ।
उग्घाडहि पाविणि कि न वारु ।

घत्ता—पुव्व चिय कोवग्गि उट्ठीविउ दुहदायउ । १०
पुणु वयणेण अणेण अप्पमाणु सजायउ ॥५॥

६

हा हउँ कि चुकारणहुँ जुत्त
लइ कज्जु न कि पि वि विप्पिएण
बलि किज्जउ परिहउ मरणु चारु
मुउ' सेज्जहे वंभणु पइसरेवि
भीसावणि जमवयणेवमाणि
भूसणइँ सपंगुरुणाइँ लेवि
परिओसेँ पहयजुव्वाणगव्व
नेच्छंति हयासे करिवि वप्प
वारिउ वणदेविणु सीलनासु
भीयेण मुयाविय नियनिवासु
तेण वि पारसउलि वणिपहाण
दससय कंचणहो कुडुविएण
निक्करुणचित्तु चित्तवियवित्तु

अवरु वि चुपि दि मोडि दि पउत्त ।
भवणेण एण अन्नु वि पिएण ।
इय चित्तिवि उग्घाडिउ दुवारु ।
गय हउँ पुरवाहिरि नीसरेवि ।
चोरेहिँ नियच्छिय तहिँ मसाणि । ५
अप्पिय नियपल्लीवइहे नेवि ।
तेण वि संगहिय भणेवि भव्व ।
पारभिय गजहुँ निसिहे वप्प ।
संकुइउ भिल्लु सजणियतासु ।
विक्किणिय दिन्न सत्थाहिवासु । १०
नेविणु विक्किणिय अणिच्छमाण ।
देप्पिणु हउँ लइय कुडुविएण ।
किमिरायरइयकबलु निरुत्तु ।

घत्ता—सो महुँ सव्वसरीरु छम्मासहिँ पच्छावइ ।
दुक्खकिलेसहिँ एम जाम कालु तहिँ गच्छइ ॥६॥ १५

७

घणदेउ ताम दूयत्तणेण
महु भाइउ आयउ मइमणोज्जु

उज्जेणिनराहिबपेसणेण ।
ते निवइ नियवि किउ रज्जकज्जु ।

हुउं नयरि भमंते तेण दिट्टु
 आयन्निवि वड्यरु मणि विराउ
 रुहिरक्खण्ण वियणइ वियलु अगु
 पुच्छिउ वरइत्ते वेज्जराउ
 मक्खणु किउ तेण मणोज्जकाउ
 मुणिधम्मनामु तहो पासि गहिउ
 अवरु वि रूसेवण किय निवित्ति

ओलक्खिय बोलाविय विसिट्टु ।
 मेल्लावि वि इह मई लेवि आउ ।
 महु तणउ निएप्पिणु रूवभंगु । ५
 तेण वि उवएसिउ लक्खपाउ ।
 एक्कहिं दिणि आभाउ वीयराउ ।
 मई सावयवउ सम्मतसहिउ ।
 तइयहुं पडइ महु परम खति ।

घत्ता—आयन्नेप्पिणु एउ चगउ किउ मन्नेप्पिणु । १०
 गउ वणि तेत्तु लएवि ताहे पसंस करेप्पिणु ॥७॥

८

मुणि वज्जभतरत्तसगु
 तेत्थु जि थिउ वयणे वणिवरासु
 सूरप्पयावपसमणसमत्थु
 दूसहसरधारासर मुयतु
 विज्जुलियविहूसणसणेहमाणु
 पयणतु पयहिमुच्छायभाउ
 सतावियभवणु भएण तट्ठु
 आणदिउ जणु कत्थइ न माइ
 सव्वो वि समीहइ जणियहरिसु
 सव्वत्थ वि महि अकुरिय भाइ
 गमु भग्गु निरतरु पडइ वारि

हुउ तेणवभगिउ निम्मलगु ।
 ता रुहिवि खधि घणगयवरासु ।
 इदाउहवरकोयडहत्थु ।
 गलगज्जितूरवहिरियदियतु ।
 वप्पीहवदिवन्नज्जमाणु । ५
 सपत्तउ वासारत्तराउ ।
 तं पेक्खिवि चरडु निडाहु नट्ठु ।
 सताविरु कि कामु वि सुहाइ ।
 सतावहारि पहु अमियवरिसु ।
 रोमचिय पियसगेण नाइ । १०
 पवसियपियाहूँ ह्यु विरहमारि ।

घत्ता—तेत्थु जि जिणदत्तेण नियजिणभवणे भडारउ ।
 ता लेवाविउ जोउ मयणबाणविणिवारउ ॥८॥

९

तेणेक्कहिं वासरि सावएण
 आणेवि घडु रयणमुवन्नभरिउ
 तेण वि बहि पच्छन्नं निएवि
 मुणिणा मुणेवि जिणयत्तपुत्तु
 जोयम्मि खमाविण्ण मुणिवारिउ
 अम्मणु अच्चेविणु आउ सो वि

समुयहो कुवेरदत्तहो भएण ।
 निक्खणिवि साहुसामीवि धरिउ ।
 अन्नत्थ कहि मि निक्खणिउ नेवि ।
 धणु नेतु वि कि चि वि सो न वुत्तु ।
 चल्लिउ पुच्छेप्पिणु वणिवारिउ । ५
 तं जोयण जा एयंति होवि ।

ता णत्थि तत्थ चित्तइ मणेण
तइयउ न वियाणइ अवरु भेउ
थोवतरि रिसि सज्झाउ लेतु
उवविट्ठु पुरउ वदणु करेवि

हा वचिउ हउँ सवणेण तेण ।
इय भासिवि अणुधाविउ सवेउ ।
अवलोइउ तरुतलि वीसमंतु ।
मुणिणा वि भणिउ आसीस देवि । १०

घत्ता— कि दूरं आओ सि सावय ता सो भासइ ।

पइँ विणु महु मुणिनाह चित्तु न कत्थइ विलसइ ॥९॥

१०

जणसकुलु नयरु वि रत्तु नाइ
तेणेह ममोवरि करि पसाउ
सुहगोट्टिण हयभवभयरिणाइँ
सावयहो वि निण्वि अईवगाहु
थिउ जिणहरि जियजलजायवेउ
पडिगाहिंवि भुजावि वि सवणु
अत्थमियसूरि वदेवि देउ
सजमधरो वि दूसियदुकम्मु
वणिणा पउत्तु परमत्थभावि
मुणि भणइ वणीसर बहुसुयड्हु

पइँ विणु न मज्झ किचि वि सुहाइ ।
जहिँ तुम्हइँ तहिँ जि अउव्वु ठाउ ।
अच्छह पुणो वि कइवयदिणाइँ ।
वाहुडिउ पुणागउ तहिँ जि साहु ।
जिणयत्तु सेट्टि गउ नियनिकेउ । ५
अवरणिह समागउ जइणभवणु ।
उवविट्ठु पुरउ पुत्ते समेउ ।
निव्वत्ति वि थिउ नियनियमकम्मु ।
भयवत कहाणी कहसु का वि ।
तुहँ दिट्टपरपरु गुणवियड्हु । १०

घत्ता—तेण पहिल्लउँ ताम तुहँ जे सुयण जिह जाणहि ।

अच्छउँ सुहगोट्टीण सक मुएप्पिणु भाणहि ॥१०॥

११

तो लद्धाणुग्गहु कहइ सेट्टि
पुरि पोमनामि पावियविसेसि
कोसलवईंहि मित्ततणेण
गच्छंतु सनु गहणतरालि
मुच्छेवि पडिउ निच्चेट्ठु जाउ
करुणाण तेण त तह निएवि
तहो उवरि महीरुहु आरुहेवि
उट्टिउ आसासिउ सो सरेण
संजायउ सुहि पाणिउ पिएवि

एत्थत्थि करावियवइरिविट्ठि ।
वसुपालु नरिदु वराडदेसि ।
एक्कहिँ दिणि पेसिउ दूउ तेण ।
तण्हाण खविउ सो उण्हयालि ।
ता तहिँ भमंतु कइ एक्कु आउ । ५
जाइवि जलि वोलि वि देहु एवि ।
भाडिउ सरीरु चेयण लहेवि ।
सन्निवि निउ जहिँ जलु वानरेण ।
मारेवि पवगमु खल्ल लेवि ।

बारिहें भरेवि गउ निव्विवेउ
जीवाविउ जेण मरंतु सतु

किं जुत्तु तामु भयवंत एउ । १०
धि द्वी किह किज्जइ तामु अंतु ।

घत्ता—आयत्तेप्पिणु एउ अणयारेण पउत्तउ ।

सावय तेण खलेण किउ दूएण अजुत्तउ ॥११॥

१२

ता मुणिणा मणु जाणेवि निरुत्तु
कोसंबीनयरि मणोहिरामु
तेणेक्कहिं दियहिं अपुत्तएण
सिसु नउलहो तणउ निएवि लेवि
ताए वि कविलनामालियाए
हुउ गरुयउ गरुडु व गिलियनाउ
एक्कहिं दिणि तहो रक्खणु धरेवि
नायारि वि रक्खइ जाम बालु
तें डसिउ डिभु पंचत्तु पत्तु
मारेविणु दारेविणु हयासु

पुणु कहमि हउं वि कह वणि पउत्तु ।
होंतउ बभणु सिवसम्मु नामु ।
उज्जाणवणम्मि भमतएण ।
गेहिणिहें समप्पिउ गेहु नेवि ।
पालिउ पुत्तो इव बालियाए । ५
कालेण जणेरिहें पुत्तु जाउ ।
पाणियहो कविल गय घडउ लेवि ।
नीसरिउ ताम अहि नाई कालु ।
नउलेण वि सो नासतु पत्तु ।
घल्लिउ तले दारयमंचयासु । १०

घत्ता—ता पाणियहो भरेवि जा माया घरु आवइ ।

पेयाहिवपुरु पत्तु नंदणु ताम विहावइ ॥१२॥

१३

निच्छउ वि विवाइउ एण पुत्तु
इय भासेवि रोसवसगयाए
पुणु जाणिउ मचयतले पयडु
हा एण हयासे असिउ लीवु
निदोसु वियाणिवि विसहरारि
अवरु वि अपरिक्खियसीलु मुक्खु
अहिणा कयम्मि दोसम्मि नउलु
जइ खाइ छावु वणिवर वराहु

ते दीसइ मुहु रुहिरावलित्तु ।
अपरिक्खिउ मारिउ नउलु ताए ।
विसहरु निएवि किउ खडु खडु ।
एहु वि अणेण किउ विगयजीवु ।
गय परमविसायहो विप्पनारि । ५
परिपावइ पच्छातावदुक्खु ।
मारिज्जइ किं वि णएण विउलु ।
ता कि हुउ हम्मइ निरवराहु ।

घत्ता—कियउ अजुत्तउ ताए वणिणा भणिउ मुणीसरु ।

अवरु वि जणियविवेउ निसुणह कहमि कहंतरु ॥१३॥ १०

१४

वाराणसीहे सजणियचोज्जु
सामियसम्माणिउ जगपसिद्धु
धणदत्ता नामप्र चारुगत
धणमित्तु पढमु धणभद्दु बीउ
कालें धणयत्तु महाणुभाउ
अपहत्थिय ते निग्गुण भणेंवि
उद्दालिप्र जीवणि दुक्खिएहिं
वेज्जयविहाणु परिहरिवि गब्बु
घरु एतहिं घणतरुवेल्लिजालि
पहि पडिउ अंधु पढभट्टचेट्ठु

जियसत्तुनरिदहो तणउ वेज्जु ।
होंतउ धणयत्तउ धणसमिद्धु ।
तहो भज्जप्र जाया वेत्थि पुत्त ।
विहिं एक्कु वि नउ विज्जाविणीउ ।
गउ सम्गहो जणजणियाणुराउ । ५
किउ अवरु वेज्जु पट्टणा मुणेंवि ।
जाएप्पिणु चदापुरिहि तेहिं ।
सिक्खिउ सिवभूइसमीवि सब्बु
अवलोइउ वग्घु वणतरालि ।
पेक्खेवि कणिट्ठे भणिउ जेट्ठु । १०

घत्ता—वेज्जयभासिउ सब्बु कि असच्चु विच्चासमि ।

ओसहिभरणें भाय' आयहो पडलु पणासमि ॥१४॥

१५

घणमित्ते वुत्तुवयारु सत्ति
पन्नत्तु एहु अग्गहं मयधु
धणभद्दु भणइ मा भणहि एउ
तेणायहो निच्छउ करमि तेम
जइ एउ करेवउ आसमास
इय भासिवि भाइ भएण दुग्गि
इयरेण वि तक्खणि जणिउ तामु
तेण वि विणिवाइउ वेज्जपुत्तु
वणें जेण मरतहो दिन्न चक्खु
मुणि भणइ न सावय होइ एउ

कीरइ न कयाइ वि कूरचित्ति ।
खाएसइ खलु दट्ठूण बधु ।
तिरिय वि सरति उवयारहेउ ।
सजायइ निम्मल दिट्ठि जेम ।
पडिवालहि तो दुन्नयनिवास । ५
थिउ आरुहिऊण महीरुहग्गि ।
ओसहिरसेण लोयणपयासु ।
कि एरिसु संजय होइ जुत्तु ।
सो कि अलियल्लिहें होइ भक्खु ।
मारिज्जइ जं उवयारहेउ । १०

घत्ता—लइ आयन्नहि हउं वि कहमि कहतरु सारउ ।

चपापुरि सिवसम्म अत्थि विप्पु सुइपारउ ॥१५॥

१६

तहो पिय सोमिल्ला सोमसम्म
तहो उवरि सोमसम्मा सवत्ति

सोमिल्ला पावियपुत्तजम्म ।
अच्छइ सया वि मच्छरु वहति ।

१५. १ भाग ।

पुरि पयडु भद्दु नामेण संडु
एक्कहिं दिणि दियमंदिरि पइट्ठु
मारिवि छलेण चड्डयम्मजुत्तु
सो सिंगासिउ सिमु पेच्छिऊण
तहो दिवसहो लग्गिवि खीणगत्तु
ता तहिं कामु वि सुद्धिहे निमित्तु
तं पेक्खिवि वसहहो हूय बुद्धि
इय चित्तिऊण सिहिसरिसु लोह
पावियपसंसु निद्दोसु होवि
निद्दोसहो दोसु विइधु तामु
जिणयत्ते वृत्तउ किउ असाहु

घरि घरि मग्गंतउ तारपिडु ।
पावाप्र सोमसम्माप्र दिट्ठु ।
पोइउ तहो सिगि सवत्तिपुत्तु । ५
परिहरिउ जणेण दुमुद्धिऊण ।
पावइ न कि पि कत्थइं भमतु ।
लोएण मिलेप्पिणु दिव्वु तत्तु ।
लइ हउं मि करमि दुज्जसहो सुद्धि ।
वयणेण लइउ रजिउ जणोहु । १०
थिउ पुव्वविहाणे पुरि पुणो वि ।
कि जुज्जइ एरिसु पुरयणामु ।
आयन्नहि अक्खमि हउं वि साहु ।

घत्ता—गगानइहे समीवे सुइसत्थत्थवियाणउ ।

विस्सभूइ नामेण होतउ तवसि, पहाणउ ॥१६॥ १५

१७

एक्कहिं दिणि गडुहिं पडिउ तेण
आणिवि वणाउ जूहेण चत्तु
सुहलक्खणु काले भद्दजाइ
नउ अत्थि अबरु तारिसु घराप्र
मग्गाविउ सेणियराणएण
बधणु असहंतु विमुक्कराउ
पुणरवि पट्ठाविउ कुविउ नाउ
जायउ मयंधु सच्छंदवासु
जीवाविउ जेण भरंतु सत्तु

करिकलहु दिट्ठु हिडतएण ।
पारिपालिउ आसमि जेम पुत्तु ।
हुउ गधहत्थि सुरहत्थि नाइ ।
आयन्निवि कन्नपरंपराप्र ।
पेसिउ तवसेण सयाणएण । ५
तोडेवि तिन्नि वाराउ आउ ।
विणिवाइउ तवसि महाणुभाउ ।
कि जुज्जइ संजय एउ तामु ।
किह किज्जइ सुयणहो तामु अंतु ।

घत्ता—आयन्नेप्पिणु एउ विहसिवि भणिउ मुणिदें ।

सावय तेण खलेण कियउ अजुत्तु करिदें ॥१७॥ १०

१८

सुणु वणिवर गयउरि विस्ससेणु
कोऊहलेण पुरपच्छिमेण
कालेण फलिउ तामेक्कु तम्मि
फणिवयणहो वियलिउ गरलविदु

पहु अत्थि अराइविहगसेणु ।
काराविउ चूयारामु तेण ।
अहि लेवि चिल्ह थिय अबयम्मि ।
निवडिउ फलम्मि एक्कम्मि विदु ।

गरुयप्र गरलुम्हप्र त वि पक्कु
त लेवि आउ उज्जाणवालु
तेण वि अविषाणतें विसालु
मुय सा रुट्टेण नराहिवेण
एक्कंवयदोसे वणविणामु

सहसत्ति गलिउ धरणिपालि थक्कु । ५
अप्पिउ परिओसिउ सामिसालु ।
दिन्नउ महएविहे नाई कालु ।
कट्टाविय सयल वि अंब तेण ।
कि जुज्जइ एरिसु करहुं तासु ।

घत्ता—वणिवरेण पउत्तु मुणि न एउ तहो जुज्जइ । १०
कि एक्कहो दोसेण निरवराहु वणु छिज्जइ ॥१८॥

१९

आयन्नहि विप्पु सकज्जकामु
गउ काणणु माहेसरपुगउ
गरुयार भयभावेण नडिउ
गउ सीहु कहि मि पहु परिहरेवि
थोवतरु निज्जणि जाइ जाम
सपेसिय पट्टणा न कियत
हक्कारिवि निय सो ताहूँ तेण
ज रक्खिउ सीहहो हरिउ तासु

एक्कहिं दिणम्मि वसुसम्भु नामु ।
आलोइवि सीहु विमुक्कराउ ।
सीवन्नरुक्खि नामेवि चडिउ ।
पुरिसु वि तरुसिहरहो उत्तरेवि ।
पेक्खइ पुहईसकहार ताम । ५
पट्टह निमित्तु ते तरु नियंत ।
दाविउ छिदाविउ निर्गघणेण ।
हा केम तासु किज्जइ विणामु ।

घत्ता—भणिउ मुणीसें सेट्टि सो पाविट्ठु अयाणउ ।
मुणु उज्जहूँ ससिभद्दु अत्थि नरेंदु पहाणउ ॥१९॥ १०

२०

पच्चसयहूँ मज्झि मणोहिराम
तहे जलकीलाकज्जेण तेण
सोवन्नघडियसोवाणरम्म
विच्छिन्नदिसासुच्छलियकित्ति
जहिं निच्चु जि वियसियपंकयाई
तहिं तेहिं समउ रायाणियाउ
कालेण ताहूँ जीवियविओउ
तं पेक्खवि थेरि कहिउ भेउ
लइ धाडह सयल मिलेवि ऋत्ति
तं सुणिवि सजोव्वण गहियगव्व

महएवि तासु चंदमइ नाम ।
उज्जाणहो मज्झि नराहिवेण ।
निम्मलजलकीलियचक्कजुम्म ।
काराविय वावि विचित्तभित्ति ।
जहिं सुहूँ वसंति दुंदुहसयाई । ५
कीलंति सया वि सयाणियाउ ।
आवेवि पइट्टउ सप्पपोउ ।
प्रहु अम्हहूँ दुट्टु विणासहेउ ।
न तो दरिसेसइ कालरत्ति ।
अवगणिवि थिय जलसप्प सव्व । १०

घत्ता—निमुणेपिणु उवहासु थिउ मोणेण सयाणउ ।

हियउवएसु वि दिनु विरुयउ मुणइ अयाणउ ॥२०॥

२१

तहिँ एक्कहिँ वासरि जणमणिट्ठु
महएविण्णु डिड्डुहु भणिवि सप्पु
खाइवि खणेण कत्थइँ पणट्ठु
कड्ढाविवि जाले डिड्डिहोहु
अपरिविखउ कज्जु नराहिवासु
अवरु वि मेदज्जजईसरेण
माणिककहो लमिगवि दुक्खु सहिउ
अम्हाण वि तेम परस्सु गहहँ

समहिलु पट्टु जलकीलईँ पइट्ठु ।
कीलईँ करेण लइयउ सदप्पु ।
मुय देवि निएप्पिणु राउ रुट्ठु ।
माराविउ' सयलु वि अकयदोहु ।
कि जुज्जइ एरिसु करहँ तासु । ५
कोसंबीपुरि समसुहिपरेण ।
पर तो वि न वीरे कोचु कहिउ ।
अन्नेण वि लइउ न जुत्तु कहहँ ।

घत्ता—सतावियइ न को वि एहु जि धम्मु अणुत्तरु ।

आयन्निवि वणि एउ थिउ होएवि निरुत्तरु ॥२१॥

१०

२२

एत्थंतरि वणिवइपुत्तएण
हा मज्झु जणेरे निरवराहु
जामज्ज वि अवरु न कि पि घोरु
लइ अप्पमि ताम न करमि खेउ
आणिवि वसु तायहो पुरउ थविउ
त पेच्छवि पच्छाताउ जाउ
बलि किज्जउ अत्थु अणत्थहेउ
तासु जि जिणयत्तु अणोवमामु

चित्तिउ मणम्मि हियवित्तएण ।
खब्भालिउ अत्थनिमित्तु साहु ।
उवसग्गु करइ मन्नेवि चोरु ।
गतूण गेहु मन्नेवि एउ ।
कि लग्गु मुणिहे मईँ लइउ लविउ । ५
पडु जाविउ वणिणा वीयरउ ।
निदिवि अप्पणु पुत्ते समेउ ।
पव्वइउ पासि मुणिपुगवामु ।

घत्ता—तिन्नि वि तियरणसुद्ध ते वरविहवसमग्गहो ।

सिरिचदुज्जलकित्ति तउ करेवि गय सग्गहो ॥२२॥

१०

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले ।
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुवरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते ।

चुकारियाकहाए चालीसमअओ इमो संघी ॥

॥ संधि ४० ॥

२१. १ माराविय ।

संघि ४१

१

धुवय—वित्तनिमित्तु मरेवि दुहु पावेवि लल्लक्कहो ।
वणि पिन्नागगंधु गयउ नरयहो लल्लक्कहो ॥

पंचालविसुप्र कंपल्लिपुरे
महएवि तासु वर विज्जुपहा
जिणयत्तु जिणिदधम्मो निरउ
अवरु वि तहिं वसइ घणाहिवइ
रक्खइ धणु न नियच्छइ नियइ
तहो विण्हदत्तु नामेण सुउ
आसन्नु जि कोऊहलमइणा
सयसहससंखकुद्दालकरा
मडियउ लोहेण कुसीण सउ
विक्किणिय एक्क वट्टिय खइया
जा जोयइ ता सा कंचणहो

रयणप्पहु पहु वणरमियसुरे ।
जणमणहर नावइ सुकइकहा ।
निवसेट्ठि पसिद्धु विहयरउ । ५
पिन्नागगंधु वणि दीणमइ ।
सो पिन्नयविक्कएण जियइ ।
मदिरिनामाहे पियाहे हुउ ।
पारद्धु तलाउ महीवइणा ।
कम्मति निरतरु तत्थ णरा । १०
पाविउ एक्केण सुवन्नमउ ।
अमुणतें जिणदत्तें लइया ।
काराविय पडिम चारु जिणहो ।

घत्ता—वट्टउ उड्डु लेवि अवरु कंचणु अमुणतउ ।

अन्नहिं दियहे पुणाइयउ लइ सेट्ठि भणतउ ॥१॥

१५

२

जाणिवि अभव्वु धणु वणिवइणा
पिन्नागगंधु जहिं तहिं खणउ
पुणु भणिउ उड्डु रे जेत्तियउ
देज्जसु देमि त्ति भणेवि घरु
अणुवासरु सो कयवंचणहो
एक्केक्किय दो दो देइ तहो
नवनवइ दिन्न एक्कए रहिया
एत्थंतरि विणयविहूसियउ
तुह भच्चियाहे परिणयणविही
सो पई विणु केम भाय हवई

परिहरिउ न लइउ चारुमइणा ।
गउ लइय तेण बुजिभवि कणउ ।
अच्छति कुसिउ महु तेत्तियउ ।
गउ लेवि मोल्लु कोद्दालकरु ।
आणेप्पिणु कुसि वरकंचणहो । ५
अह वा धणलुद्धहो तित्ति कहो ।
एक्कच्छइ तामु तेण कहिया ।
बहिणिण हक्कारउ पेसियउ ।
इह होइ लगु संजणियदिही ।
इय जाणिवि आवहि सिग्घगई । १०

निसुणेवि एउ चिंतावियउ
जइ जामि जाइ तो कुसिकणउ

हउं तंतलीप्र संतावियउ ।
अह जामि न तो जणजपणउ ।

घत्ता—इय चितेवि उवरोहवसु सामग्गि करेप्पिणु ।
गउ गामहो आमतियउ तणुरुहहो कहेप्पिणु ॥२॥

३

ता पहाप्र आणिय कुसि खणएँ
कुहियउ काई करेवउ लेप्पिणु
जा जोयइ हत्थेण लएप्पिणु
ता सनामु सोवन्नु नियच्छइ
नेवि तेण सहमत्ति नरिदहो
अक्खर नियवि निवेण पउत्तउ
ता उड्डेण नवेप्पिणु रायहो
अक्खिउ अवर एक जिययत्तहो
तेण वि सा जिणपडिम लएप्पिणु

लइय न सा केमवि वणितणएँ ।
थिउ सो जाणइ जणु भणेप्पिणु ।
..... ।
रायदव्वु कि कत्थई गच्छइ ।
दरिसिय वियसियमुहअरविदहो । ५
अवरउ कहि अर्च्छति निहित्तउ ।
अट्टाणवइ दिन्न पिन्नायहो ।
ता पट्टणा पेसिउ कोकउ तहो ।
गपि निवइ विन्नविउ नवेप्पिणु ।

घत्ता—मई अमुणंते एक पट्ट कुसि लोह मणेप्पिणु । १०
लइया कणउ मुणेवि अवर न लइय सकेप्पिणु ॥३॥

४

पडिमेह सामि भवभयहरहो
जं जाणहि त महु करहि पहू
पिन्नागगधवणियहो भवणु
अवरु वि कुसीहिँ सहुँ अवहरिउ
एत्तहि गामहो होँतेण तिणा
तेणक्खिउ कुसिदोसेण तुह
तं निसुणेवि चूरिवि वे वि पया
लल्लक्क नामे दुक्खुक्कुडए
नरयालप्र सो नारइउ खलु

काराविय ताई जिणेसरहो ।
ता खमिउ तामु कियवइरिवहू ।
बत्तीसकोडिपरिमाणधणु ।
सकुडुबु वि मुउ नियलहिँ भरिउ ।
पुच्छिउ घरवत्त को वि वणिणा । ५
धणु हित्तु कुडुबु वद्धु अरुह ।
मुउ एमई लेप्पिणु गामु गया ।
हुउ तमपहे तइयप्र पत्थडए ।
अवरु वि इय पावइ पावफलु ।

घत्ता—अत्थु अणत्थहँ मूलदलु इय बुज्जेवि वज्जह । १०
मा तहो खणभंगुरहो कप्र दुग्गइगमु सज्जह ॥४॥

५

तह य फडहत्थओ
 दव्वमुच्छाहओ
 हेममणिभासुरे
 अभयनामा णओ
 तस्स नयणपिया
 वणिउ धणलुद्धओ
 मदगइगामिया
 तस्स भज्जा हुया
 गरुडदत्तो महा
 सयलजीवहँ तिणा
 रयणकचणमय
 एक्कवसहहो कए
 दुद्धिणधारए

वणिउ बहुअत्थओ ।
 मरिक्खि नरय गओ ।
 आसि चपापुरे ।
 हंतओ राणओ ।
 पुडरीया पिया । ५
 अत्थि तहँ मुद्धओ ।
 नागवसुतामिया ।
 ताहि वे वर सुया ।
 नागदत्तो तहा ।
 जुय जुय सेट्ठिणा । १०
 निययहम्मि कय ।
 सुरसरीए पए ।
 आणए तूरए ।

घत्ता—धवलहरोवरि संठियए देविए पयरत्तउ ।

दिट्ठउ सो निक्खिट्ठवणि कट्ठइँ कड्हंतउ ॥५॥

१५

६

दक्खालिउ रायहो कवणु एहु
 जो एरिसम्मि पाणिणए पडंति
 निद्धक्कु तरेवि तरेवि देव
 सामिय सुहियम्मि कयम्मि अम्मि
 ता सो सजणियपयासिवेण
 बुत्तउ मुए एउ असिट्ठकम्मु
 जइ नत्थि वप्प तो देमि दविणु
 परमेसर एक्कु बइल्लु अत्थि
 जइ पावमि कहमवि तहो समाणु
 ता पट्टणा गोउलु पहिउ वणिउ

अम्हारए पुरि दारिदगेहु ।
 गरुयए गंगानइपूरि इति ।
 पेक्खह कड्डइ कट्ठाइँ केव ।
 दयधम्मु होइ कित्तणु जणम्मि ।
 कोक्काविउ परियाणिउ निवेण । ५
 तुहँ सुम्महि वणिउ विसिट्ठकम्मु ।
 लइ मग्गहि निसुर्णवि भणइ क्विणु ।
 बीयउ महु तारिमु अवरु णत्थि ।
 तो लेमि वसहु कुलकमलभाणु ।
 जो रुच्चइ सो लइ गपि भणिउ । १०

घत्ता—जाएवि जोएवि एवि पुणु पणवेवि तिणा पइ ।

भणिउ नत्थि तहँ महु विसहसमु एक्कु वि गोवइ ॥६॥

७

सुणेवि इणं कियदुट्टभएण
पयासहि जासु न एककु वि तुल्लु
पयपइ लुद्धु पसाउ करेवि
सविभउ मतिपुरोहसहाउ
घरतरि जक्ख भुयग विहग
पहूइ असेसहं जीवहं जुम्म
पईसिवि दाविय तेण नृवस्स
निएप्पिणु तत्थ सुवन्नवइल्लु
महारए एरिसु गोविसु नत्थि
निविट्ठु नराहिउ सीसु धुणेवि
तओ तहो नागवसूए विसालु
समप्पयमाणहो अगुलियाउ

पउत्तु पुणो वि हु सो अमएण ।
अउब्बउ केरिसु तुज्ज भइल्लु ।
निएह मईयउ मदिरु एवि ।
तओ गउ तामु निहेलणु राउ ।
मयारि मयग तुरग कुरग । ५
सुवन्नसुरन्नविणिम्मिय रम्म ।
समतिहं चोज्जुविहिन्नमणस्स ।
महामणिमडिउ चारु रुइल्लु ।
पयपिवि एउ खलघि व हत्थि ।
समप्पहि रायहो एम भणेवि । १०
भरेवि हिरन्नहो ढांइउ थालु ।
थियाउ हवेवि अपगुलियाउ ।

घत्ता—ता फडहत्थय नामु तहो लुद्धवणिहं देप्पिणु ।

गउ नियभवणहो भूमिवइ ढोयणउ मुएप्पिणु ॥७॥

८

इयरो वि गरुयलोहाहिहउ
पइसेप्पिणु तामलित्तिणयरु
सिघलदीवाइय दीवसया
चउ कोडिउ कणयहं पावियउ
मलमलिणवेसु जीवतसउ
जलजाणहो केम वि णामु हुउ
परिपालियनियनिहाणघउउ
जो दव्वसमीवइ सच्चरइ
एक्कहिं दिणि डसहं पघाइयउ

वाणिज्जहो वांहित्थेण गउ ।
सोवन्नभूमि पुणु कलसउरु ।
हिडतहो बारह बरिस गया ।
बहुदुक्खकिलेसहिं भावियउ' ।
पच्छायउ सो सिधुवविसउ । ५
तहिं सिधुसमुद्दहो मज्झि मुउ ।
संजायउ फणि दप्पुम्भुडउ ।
तहु सम्मुहु धावइ फुक्करइ ।
विणयासुयदत्ते घाइयउ ।

घत्ता—चोत्थियहिं खडहडपत्थडए पुहइहं दुक्खे जूरउ ।

जालवत्तनामए नए उप्पन्नउ नारउ ॥८॥

९

घरि जेण सप्पु
सो गरुडदत्तु

मारिउ सदप्पु ।
तहो तणउ पुत्तु

८. १ पावियउ ।

दुक्कित करेवि
निवडिउ तहि जि
दससागराउ
अहिदत्तु वीउ
पालियदएण
गउ सुहसमग्गु
पियमरणसोय
नायवमु जाय
चिउ तउ करेवि
चंपावणम्मि
महमुक्कि देउ
दस सायराई
सहिऊण पाउ
फडहत्थनाउ
उत्तुगकाउ

कालें मरेवि ।
बहुदुक्खपुजि ।
नेरइउ जाउ । ५
तहो मुउ विणीउ ।
मावयवण ।
पचमउ सग्गु ।
परिहृगियभोय ।
अज्जिय विराय । १०
जिणु सभरेवि ।
मुय पावणम्मि ।
हई मुतेउ ।
दुक्खई खराई ।
नरयाउ आउ । १५
गिरिगहणि नाउ ।
जूहवइ जाउ ।

घत्ता—वड्ढणतेयदत्तु वि तहिँ जि पव्वण नरयायउ ।

कंकजधु नामेण वणि वणयरु सजायउ ॥९॥

१०

सो तेण दत्तमुमलत्थु नाउ
पुणु तेण जि दवि लाइए पलित्तु
पुणु सिधलदीवसमीवयम्मि
सुपसिद्धि दविडदेसतरम्मि
सवरु वि सो तहिँ जि कुलारगामि
मोत्तियई लेत्तु चिरवइरिएण
पुणु भगलि देसि कुलसकुलम्मि
नामेण करहु किसलियपियासु
मच्छन्नो वि जीविउ मुएवि
करहुउ चिरवइरे त निएवि
अस्सो वि विरुज्झइ छलु लहेवि

विणिवाइउ कीयउ पक्खि जाउ ।
मिसु मुएवि णगउ पचत्तु पत्तु ।
वेण्णानइसायरसगमम्मि ।
कुरुच्चिल्लु हउ मुत्तायरम्मि ।
हुउ धीवरु मच्छधियपगामि । ५
मारिउ कुरुच्चिल्लु निएवि तेण ।
उप्पन्नउ गामि कसवलम्मि ।
नदणु उप्पलहो कुडुबियासु ।
हुउ तुरयकिसोरउ तहिँ जि एवि ।
आरूसइ पिट्टइ लट्ठि लेवि । १०
तं पायपहारहिँ हणइ एवि ।

घत्ता—जलयावत्तिं कयाइ तहिँ धरणीधरधीरा ।

आगय चारण चारुमइ चत्तारि भडारा ॥१०॥

१०. १ मुत्तारयम्मि ।

११

ताहें अणंतविजउ पहिलारउ
 धम्मु सुणेवि तेण सायारइँ
 एक्कहिँ वासरि हरि रक्खंतउ
 खलतुरएण तेण तहिँ एप्पिणु
 देउ पंचपत्ताउ सुहम्मए
 तत्तो चुउ चपहे वणिउत्तहो
 तेत्थु जि नंदघोसनामाणहो
 नागदत्तु जिणदत्तहो भज्जए
 सयलकलाविन्नाणसमिद्धउ
 दोहँ वि ताहें पुब्बनेहायउ

तासु पासि सासयसुहयारउ ।
 लइयइँ वयइँ कुगइविणिवारइँ ।
 दुट्ठिणम्मि सो तरुतलि मुत्तउ ।
 मारिउ दतहिँ गलए गहेप्पिणु ।
 सभूयउ सग्गे सोहम्मए । ५
 हुउ भवदेउ पुत्तु भवदत्तहो ।
 आयउ पचमसग्गविमाणहो ।
 जायउ पोमए सुउ निरवज्जए ।
 नामे सो जिणदेउ पसिद्धउ ।
 वणिउत्तहँ मित्तत्तणु जायउ । १०

घत्ता—कालं जे मेरुप्पहु मुणिनाहु नमसि वि ।

जिणदिकखए जिणदेउ थिउ अप्पाणउ तूसि वि ॥११॥

१२

सव्वसत्थनिम्माणउ जायउ संघवइ ।
 भवदेउ वि भवनोह हुउ तहु पासे जइ ॥
 सजमभेउ वियाणिवि दूरुज्झयविसउ ।
 पुच्छेवि गुरु विहरतउ गउ कालिगविसउ ॥

नदिगामसामीवए काणणि धीरमइ ।
 अइरावइनइतीरए निच्च' निवद्धरइ ॥

घडयहो' उवरि परिट्टिउ आदावणु करइ ।
 चिरभवभाविउ' लोहकसाउ न वीसरइ ॥
 एक्कहिँ वासरि पूरं निवडिउ' नइहि तडु ।
 दिट्ठु मुवन्नहो रयणहिँ भरियउ तेण घडु ॥ १०

आदावणथडयहो तलि आणेवि निक्खिणिउ ।
 अच्छइ निच्च नियच्छइ जिह कोइ वि घणिउ ॥

तासु परिट्टिउ उप्परि सिलहि निरिक्खियउ ।
 थेरीरुवु करेप्पिणु सो जिणदिकखियउ ॥

१२. १ निच्च वि ।

२ घडयहो तहो ।

३ चिरणियभवभाविउ ।

४ निवडिउ ता ।

वणदेवीं पउत्तउ किउ चिह उग्गतउ । १५
 एवाहि आवहि गामहो माणहूँ दुइ वि रउ ॥
 एउ सुणेप्पिणु रिसिणा रुसिवि सा भणिया ।
 कहिँ गय लज्जविवज्जिणु लज्ज तुज्ज तणिया ॥
 एहावत्थणु अज्ज वि अट्ट महं भणहि ।
 उट्टहि जाहि गहिल्लिणु कि चि वि न वि मुणहि ॥ २०

घत्ता—भयव तुहूँ निल्लज्जु निरु तो देविणु वुत्तउ ।
 एहावत्थणु गथु पुणु सगहहूँ ण जुत्तउ ॥१२॥

१३

लज्जिउ सुमराविउ पुव्वभउ वइरायभाउ तहो ताणु कउ ।
 निदिवि अप्पाणउ पुणु वि पुणु गउ अच्छइ जहिँ गुरु गरुयगुणु ।
 प्रालोणुवि सुज्जिभवि सोमगुरु संपत्तउ काले अचलउरु ।
 तहिँ राउ सुकेसु तासु वणिउ सुपसिद्धु सुभदु महाघणिउ । ५
 सिरिभट्टणु तहो भज्जणु जणिउ सुउ भट्टबाहु नामे भणिउ ।
 तहो पुज्ज निएप्पिणु सोहणहो अणुराउ महनु मज्जिभ जणहो ।
 पूयत्थु नियाणु करेवि मुउ सुरु सणकुमारु भवदेउ हुउ ।
 जवूणयभवणि अईववरु सत्तवुहिआउपमाणधरु ।
 मरिऊण समाहिणु समियरउ जिणदेउ वि अच्चुयसग्गु गउ ।
 सिरिसेणावल्लहु कुलधवलु उज्जेणिहे राणउ सीहबलु । १०
 वणिवइ सुबधु धण धणसिरिया पच्चक्खसिरी विव अबयरिया ।
 भवदेउ देउ सग्गहो त्ठसिउ एप्पिणु तहे तणु गन्धि वसिउ ।

घत्ता—अत्थु न जाणहूँ केत्थु गउ बंधुयणु वि णट्टउ ।
 तम्मि गन्धि थिणु ताउ मुउ खलयणु संतुट्टउ ॥१३॥

१४

एक्कहिँ वासरि धणसिरि सरियहे गय सिप्पानामहे सरभरियहे ।
 तीरे हयति ताह एकल्लिय सयणविहूण सोयसरसल्लिय ।
 विहिवसेण संचियसावज्जहूँ दिट्ट महत्तरेण मेदज्जहूँ ।
 पव्वयन्तामे निसुणिवि वइयरु पडिवज्जेवि बहिणि निय नियघरु ।
 उज्जिभयकक्कसवयणाणिट्टहो कासु वि मदिरे धरिय विसिट्टहो । ५

तहिं जे दियहे पसूय सुउ जायउ
हुउ मेदज्जुहें पल्लिहे जेण जि
वड्डिउ सुदरु दिणि दिणि बालउ
नायवसू जा फडहत्थयपिय
तेत्थु जि पुरि जिणधम्मविहीणहो
नारिण नायसिरिण तिलयाइय

सोहणलक्खणलक्खियकायउ ।
किउ मेदज्जु नामु तहो तेण जि ।
हुउ सपुञ्जउ नाई कलालउ ।
सा समगाइय जणनयणपिय ।
घणसिरिभायहो भवसिरिसेणहो । १०
सुदरि निरु सुदरि सुय जाइय ।

घत्ता—ता पल्लिहे सा पट्टणहो आणेवि सुवायए ।
पढहें समपिय पाढयहो मन्नावेवि मायए ॥१४॥

१५

एककत्थहिं ता तामु पढतहो लोयथुओ
पुव्विल्लह भवकयसवघेण वसतभरे
घणसिरीहे मुउ तिलयाइयमुदरीण सहिउ
रूसेवि सइ बणिणा ता विप्पिएण भणिवि
कि छिवहि सुया तुहें मेच्छहिं इहु विट्टालियउ
एमेवमाइयहिं गपिणु तेण कहिय वयणा
अच्छतु मणे ता तिलयासुदरि सभरइ
पुणु एककहिंदिणि सोएवि सेट्टिओ लग्गियउ
तेण वि भणिओ पुणु पुत्तिपमाणिय कच्चणिया
निसुणेवि एउ जाएवि जणणिहे वज्जरिउ

मामहो सुयए ताए समेउ सणेहु हुओ ।
एककहिं दियहि भवसिरिसेणहो तणए जि घरे ।
कामु व रइएण जि डोल्लहरम्मि समारुहिउ ।
मेदज्जु तओ उत्तारिउ पाएणाहणिवि ।
नीसरु घरहो पुणु देवि दोसु निक्कालियउ ।
निसुणेवि हुया मा ते दुक्खे ससुयनयणा ।
मेदज्जु तहि एककहिं वि पदेमि न रइ करइ ।
नियपुत्ति महु पुणु देहि विवाहहें मग्गियउ ।
जइ पडिम महु तुहें देहि देमि तो नदणिया ।
रोवतियए ताइ वि कहिउ तामु चरिउ । १०

घत्ता—छट्टि एह तत्ति तणय सो खलु मायारउ ।
कि कन्नए मारावियउ ते ताउ तुहारउ ॥१५॥

१६

कियउ अखत्तु हयामे घर ल्हूमावियउ
पई थिण उवरि पलाएवि पल्लिहे पइसरिया
पव्वएण निव्वाहिय नामे एण तुह
ता मेदज्जु पइज्ज करेप्पिणु नीसरिउ
तेत्थ चडेवि कराडिहे जामप्पईं विवइ
तेणाउच्छिउ रिसिणा होइवि कवणु दुहु
भासइ सो सुय मामहो लहिमि न कि करमि

रायपसाएँ एहु पट्टत्तणु पावियउ ।
एत्थु जि जायउ वड्डिउ तुहें हउं नित्थरिया ।
कहिं पावमि चामीयरपडिम पसन्नमुह ।
एकल्लउ मरणु मणेवि महावणु पइसरिउ ।
तामायउ तियसेसरु अच्चुयकप्पवइ । ५
जेण जुवाणु जि पुत्तय मग्गहि मरणु तुहु ।
तेणहिमाणे मुणिवर जीविउ परिहरमि ।

भणइ साहु कि कारणु लद्ध न कन्न पइ
नत्थि कत्थ पाविज्जइ सा हउँ निद्धणउ
देमि हेमपडिमा हउँ परिणहि मलहरणु

कहिउ तेण सो मग्गइ कंचणपडिम मइ ।
ता देवरिसि पयपइ चिरभवि तहो तणउ ।
बारह वरिसहिँ गेण्हहि जइ तुहुँ तवयरणु १०

घत्ता—मेदज्जेण भणिउ करमि पाइक्कु तुहारउ ।

एक्क वार परिपूरवहि अहिमाणु महारउ ॥१६॥

१७

ता भणिउ मुणिदे जाहि घर
तहो उवरि बत्थि वित्थरिणु सिए
आवेसइ पडिम नहगणहो
निसुणेवि एउ सो तुट्टमणु
पुव्वुत्त पयत्ते किरिय किया
घरु नेविणु तेण तासु कहिया
देमि त्ति भणेप्पिणु लेवि थिउ
भवणम्मि महारइ खीरुवहि
सोऊण इण दूमियमइणा

सम्मज्जिवि देवि चउक्कु वरु ।
जिणदेवहो जयजयकारि किए ।
आणु जणेसइ तुह मणहो ।
मुणि वदिवि सप्राइउ भवणु ।
एतूण पडिम वत्थुवरि थिया । ५
लइ एह देहि महु नियदुहिया ।
अवरुत्तरु पिसुणे तेण किउ ।
जइ आणहि तो तणया लहिहि ।
गतूण कहिउ धणसिरिहे तिणा ।

घत्ता— कि चि वि न नियच्छइ ।

१०

निच्छउ सो सुय सत्तु तुह कि कन्न पयच्छइ ॥१७॥

१८

भासइ सो न कज्जु महु अन्न
जीवमि लइ सा लहमि किसोयरि
एम भणेप्पिणु पिउवणु गंपिणु
धल्लइ भप जाम ता सुरवइ
विणिवारिउ दुग्गइहे म पइसहि
मेदज्जेण भणिउ मुणि जा पइँ
तो वि न दुज्जणु दुहिय समप्पइ
सो कहिँ लवभइ तेण निरुत्तउ
जइ परिणेवि कन्न पावज्जहि
तो चित्तामणि चित्तियदायउ

विज्जाहरिणु रइणु सुरकन्नणु ।
न तो जामि जमालउ मायरि ।
मरणत्थिउ तरु गरुउ चडेप्पिणु ।
पुणरवि आयउ सो होइवि जइ ।
कि अण्णु अन्नण विणासहि । ५
दिन्न पडिम डोइय सा तहो मइँ ।
आणहि खीरसमुद्दु पयपइ ।
मरमि भडारा ता तेणुत्तउ ।
विसयकसाय महाभड भजहि ।
दुल्लहु देमि तुज्ज विक्खायउ । १०

घत्ता—ता सो भासइ देहि पहु परिणेवि मुएसमि ।

ककणहत्थु जि पासे तुह पव्वज्ज लएसमि ॥१८॥

१९

तओ तहो तेण पहाइ पउत्तु
 लएप्पिणु तं घरु गपिणु मामु
 किमच्छहि चोज्जु नियच्छहि देहि
 पयपइ सेट्टि पयासहि ताम
 महत्तु महाघणघोसरउद्दु
 तओ गिरित्तुगु तरगु चलतु
 निएप्पिणु एत्तु पओहिपवाहु
 नवेप्पिणु एप्पिणु भीयमणेण
 अहो नरकेसरि दिट्ठु पहाउ

महामणि चितियदायउ दित्तु ।
 पउत्तु नवेप्पिणु दुप्परिणामु ।
 तणुवभव आणमि खीरपओहि ।
 पयच्छमि जेम सुया अहिराम ।
 ससकसमप्पहु खीरसमुद्दु । ५
 तिणाणउ तक्खणि चितियमेत्तु ।
 भयकरु वोलणसीलु अगाहु ।
 पससिंवि वोल्लिउ सव्वजणेण ।
 निवारहि अम्हँ बधु विहाउ ।

घत्ता—सामत्ये चितामणिहे तक्खणि हुकारिउ । १०
 असुहु सुहेण व तेण तहो आगमणु निवारिउ ॥१९॥

२०

विभिएण त निग्गवि राइणा
 कित्तियेण नामेण सुदरी
 दोन्नि तीस अन्नाउ कन्नओ
 करेवि सेट्टि सो दुहविवज्जिओ
 दिव्वभंय भुजतु तत्थ सो
 ताम तेण इत्तूण साहुणा
 सरहि कि न भो पुव्वजपिय
 कुणसु साहुचरिय अणदिय
 भणइ सेट्टि कयसोक्खसगह

तूसिऊण आणददाइणा ।
 निययपुत्ति तह तिलयसुदरी ।
 लेइऊण करयलि रवन्नओ ।
 सयललोयसुहिएण पुज्जिओ ।
 वसइ जाम सत्तुट्टमाणसो । ५
 भणिउ सेट्टि अच्चतसाहुणा ।
 मुयसु मोहजालं सुविप्पियं ।
 जिणसु चित्तपिसय सइदिय ।
 करह मज्ज भयव अणुग्गह ।

घत्ता—बारह वरिसइँ विसयसुहु अणुहुँजिवि इच्छइँ । १०
 मेल्लिवि तिलयासुदरिय तउ लेसमि पच्छइँ ॥२०॥

२१

एम होउ पडिवज्जिवि सुरमुणि
 पुणरवि बारहवरिसहिँ आयउ
 तेण वि भासिउ पयणियहरिसइँ
 देहि भडाग पुणु पव्वज्जहिँ

गउ नियठाणहो तं पुच्छिवि गुणि ।
 लइ तउ वुत्तउ धणसिरिजायउ ।
 अवराइँ वि महुँ बारह वरिसइँ ।
 लग्गमि निच्छएण निरवज्जहिँ ।

मन्निवि गउ नियवासहो सजउ
खणु वि न तिलयासुंदरि मेल्लइ
पुणु आयउ पुणु त जि पउत्तउ
लइ तउ पुणु वि भणंतउ एत्तउ
पभणइ को तुहुँ कि एत्थावहि
छडिवि सिरिविन्नामु आवग्गउ
भिक्ख भममि तो तुह पडिहासइ

माणइ विसयसोक्खु मेदज्जउ । ५
अह को कम्मु पुराइउ पेल्लइ ।
गउ सुरु सुहिसंबोहणचित्तउ ।
सुणिवि सेट्ठि कोवेण पलित्तउ ।
वार वार मई तउ लेवावहि ।
घरि घरि पई जिह होडवि नग्गउ । १०
को जानुतु वि अप्पउं नासइ ।

घत्ता—ता चितइ मणि देवमुणि पेच्छह कि बोल्लइ ।

बुज्झउ एहु नियाणवसु ते भोउ न मेल्लइ ॥२१॥

२२

दुल्लघ नवर जइ कम्मसत्ति
इय चित्तिवि गयउ विसन्नचित्तु
पावेप्पिणु अवसर मइविसालु
मेदज्जरूउ सुरवरु करेवि
तहिँ अवसरि सुहिसेवयसहाउ
वारिउ पडिहारे पइसरतु
मेदज्जु सेट्ठि तुहुँ धुत्तु कोइ
निमुणेवि एउ उद्देइएण
अन्नउ नराहिउ नायदिट्ठि
मायाविउ सपय सोकरेवि
ता राएँ जो जो कोइ तामु
सो सो पेक्खइ तेण जि समाणु

गरुय वि मोहिज्जहिँ नत्थि भंति ।
अन्नहिँ दिणि अवधारिवि निमित्तु ।
दारम्मि धरेप्पिणु दारवालु ।
थिउ गेह्भंतरि पइसरेवि ।
मेदज्जु वि आयउ राउलाउ । ५
अच्छइ अन्नभतरि रइ करतु ।
जा जाहि जाम विरुयउ न होइ ।
गतूण नरिदहो कहिउ तेण ।
परितायहि कोइ वि होवि सेट्ठि ।
थिउ भवणि महारए पइसरेवि । १०
पट्टविउ पलोयहुँ पुरिसु पासु ।
आवेवि कहइ पाविउ अमाणु ।

घत्ता—विभिउ पुहईवइ सुणेवि पेसिउ हक्कारउ ।

आयउ अहिणवसेट्ठि तहि लहु सालकारउ ॥२२॥

२३

पुणु पुणु दोहँ वि समुहुँ निरिक्खइ
मणु परियाणिवि जणियाणदे
तुम्हहँ अम्हहँ संतय बुज्झइ
सो सच्चमउ सेट्ठि सुहयारउ

कवणु सेट्ठि पहु तो वि न लक्खइ ।
भणिउ महीवइ देववणिदे ।
आइ मज्झि अवसाणि न मुज्झइ
जो न वियाणइ सो मायारउ ।

भल्लउ भाणिउ भणइ पयावइ
पुच्छिउ ण वियाणइ मेदज्जउ
इयरु भणइ णरणाह सुणिज्जउ
वीरंजउ जयतु पुणु उज्जउ
दुद्धरु दुम्मरिसणु सत्तुजउ
पुणु धणवाहणु ताउ तुहारउ

मज्झु वि चित्तहिं एहु जि भावइ । ५
ठिउ हेट्टामुहु होवि सलज्जउ ।
तुह कुनि पढमउ राउ अरिजउ ।
चक्काउहु चक्केसरु दुज्जउ ।
देवपालु जगपालु पुरजउ ।
पुणु हरिवाहणु तुहं सुहयारउ । १०

घत्ता—ए तुह कुलरुह नरवसह जिणदिक्ख लएप्पिणु ।
के वि सग्गहो के वि सिवपयहो गय रज्जु मुएप्पिणु ॥२३॥

२४

मज्झु वि कुलि माणवु पढमु
धणवइ धणउ धणेसरउ
सायरगुरुजिणवरुणधणा
जणणु मुबधु महु तणउ
एत्थु जि एत्तिव दोसचुया
आराहेवि जिणदपया
एयइं अबराइं वि मुणेवि
तूसिवि पट्टणा पुज्जियउ
बधह एहु पवंचपरु
नेवि मसाणइं निट्टवह
लद्धाएसहिं किकरहिं
पुरलोएण वि निदियउ

पुणु महिदु अक्खोहसमु ।
सुरवइदत्तु विमुक्करउ ।
दत्तता दीणुद्धरणा ।
पुणु हउं पत्थिव तहो तणउ ।
तुह सताणए मेट्टि हया । ५
सिद्धा के वि हु सग्गु गया ।
वयणइं सो सच्चउ मुणेवि ।
ता दोछिउ इयरु वि तज्जियउ ।
भणिउ सुयणसंतावकरु ।
पेयाहिवपुरु पट्टवह । १०
बधिवि तुरिउ भयकरहिं ।
मारहं सवसयणहो नियउ ।

घत्ता—पुणरवि सो मुरु होवि मुणि वेउव्वियकायउ ।
जामज्जवि नवि सूलियहं धिप्पइ तामायउ ॥२४॥

२५

अवराइं वि वारह हायणाइं
भासिउ मुहि तिलयासुदरिए
ता भणिउ तेण परिरक्खकरे
भो एहिं न किं चि वि कज्जु महु
नउ एवहिं कालखेउ करमि
ता संजएण साहारियउ

मेदज्जय सोक्खुप्पायणाइं ।
लइ अच्छहिं समहं सुहकरिए ।
परमेसर मारिज्जनु धरे ।
मेल्लावहिं सपइ सरणु तुहु ।
दे देहिं दिक्ख दुक्किय हरमि । ५
धिरु थाहिं तलारु निवारियउ ।

पुच्छिवि जामावमि जिणं सरणु
इय भणिवि गपि सुदरमइणा
सो सेट्टि तुज्ज तणयाहे पित
मई देवे एहु पवचु किउ
नरवरजणमणहु भति जणिया

रक्खेज्जसु तामायहो मरणु ।
कयपणइ भणिउ भूवइ जइणा ।
मा माराविज्जउ प्राणपिउ ।
वणिवेसु धरेप्पिणु भवणि थिउ । १०
वक्खाणिय सतइ तुह तणिया ।

घत्ता—एहुउ विभियमाणसेण निमुणेवि विसेसें ।

कहि केहुउ संबंधु हुउ पुच्छिउ पुहईसे ॥२५॥

२६

भासइ सुरमुणि सो धरणीवइ
कहमि जेम निहिलु वि नियवइयर
गपिणु तेण मसाणहो आणिउ
एत्थतरि पयडिवि अप्पाणउ
फडहत्थाइउ मेदज्जतउ
निमुणिवि सव्वु लोउ उवसंतउ
सेट्टि सुट्ठु विसएसु विरत्तउ
पुज्जिउ परमविहूइए पुत्तहो
पुच्छेप्पिणु पहु परियणसयणई
सजायउ जइ समए जिणिदहो
गुरुउवएसे चत्तपमायउ
पालइ सजउ तेरह किरियउ
वत्तीस वि मेदज्जयदइयउ

[आणाविज्जउ मेदज्जु वि लइ]
ता राएण विसज्जिउ किकरु ।
मेल्लाविउ पहुणा सम्माणिउ ।
कहिउ असेमु सुरेण कहाणउ ।
नियभवसबधेण निउत्तउ । ५
हुउ सहूँ राएँ विभियचित्तउ ।
देवे कचणकलसहिँ सित्तउ ।
अप्पिवि नियअहियारु सुदत्तहो ।
खमिवि खमाविवि बोल्लिवि वयणई ।
पणवेप्पिणु सिरिधम्मु अणिदहो । १०
भावइ पचमहव्वयकायउ ।
कित्तिसेणतिलियासुदरियउ ।
सुहमइयउ जायउ सजइयउ ।

घत्ता—पुहईसेण वि तं सुणेवि ढोइवि सिरि पुत्तहो ।

सहु सामंतहिँ लइउ तउ सामीवि सुगुत्तहो ॥२६॥

१५

२७

गउ सम्गहो गुरु संजायतुट्ठि
सुहमइ परियाणियसयलसत्थु
एकल्लविहारिउ चरमदेहु
विहरतु सनु सममित्तसत्तु
तहिँ राणउ वइरिविहगसेणु
णाणाविहनेउन्नयनिकेउ

एत्तहि वि सवणु मेदज्जसेट्टि ।
दूसहत्तवसंजमभरसमत्थु ।
ससरीरि वि हुउ निम्मवुकनेहु ।
कोसंबीनयर कयाइ पत्तु ।
नामेण अत्थि गंधव्वसेणु । ५
सूनारु तामु अगारावेउ ।

सो चरियहे तहो मंदिर पइट्ठु
उट्ठिवि ठाहु त्ति भणेवि भक्ति
वइसारिवि बाहिरि मुणिवरिदु
ता मंसखंडु चित्तेण कलिय

निवमउडु गाढु तें तेण दिट्ठु ।
पडिगाहिउ करिवि महंत भक्ति ।
अप्पणु अंबतरि जा पइट्ठु ।
कोचेण मउडमाणिबकु गिलिय । १०

घत्ता—पेच्छह कम्मवियंभियउ कहिं मुणि आवेसइ ।
मन्नंवि मसखडु रयणु कहिं कोचु गिलेसइ ॥२७॥

२८

सरइ ण महु लग्गहो मउडे
ता तुहुं पारिज्जु' जईसरहो
सच्चु करेज्जसु चारुभुया
ता सुन्नारु पराइयउ
जोइउ दिट्ठु न तेण मणी
के निउ रयणु इहच्छियउ
जाणतेण वि न वि कहिउ
थिय मोणेण दयानिरउ
पुणु वि भणियउ मुणिनामु जइ
सकुडुबहो महु निच्छउ हवइ
लइउ जेण त वज्जरहि
तो वि न कि पि साहु चवइ
ता रुट्टेण तेण हणियउ
बंधणु रुधणु डहणु कियउ
तो वि महामुणि मुक्कमलु
घाय धिवतहो एक्क तहो
कट्टुहाडि गलि उच्छलियउ
तं जोएप्पिणु दुम्मइणा

मणिजडियतडे ।
निज्जियसरहो ।
सिक्खिवि वि प्रिया ।
रुइराइयउ ।
नं नवदुमणी । ५
मुणि पुच्छियउ ।
रिसिणा रहियउ ।
हिसावियउ ।
महु मरणु तइ ।
दय करहि कइ । १०
सज्जसु हरहि ।
कियमोणमइ ।
विप्पियउ भणियउ ।
समभावि धियउ ।
मेरु व अचलु । १५
लग्गी बयहो ।
मणि उग्गलियउ ।
मुणि मुक्कु तिणा ।

घत्ता—गउ उवसग्गु सहेवि गिरि कयकम्मविओए ।

थिय सन्नासु लएवि तहिं थिरु पडिमाजोए ॥२८॥ २०

२९

दुसहपरीसहजयनिव्वूढउ
पढमि पुधत्तवियक्कविचारण
२८. १ ता तु परिज्जु ।

खवउ खवयसेदिहे प्रारूढउ ।
लग्गउ सुक्कभाणि सुहयारण ।

सुहुमसपराइयगुणथाणप्र
होप्रवि खीणकसाउ पहाणें
दसणणाणावरणइँ नासिवि
हुउ सजोइ जिणु केवलणाणिउ
तहो पुज्जाणिमित्तु अणुराइउ
नरविज्जाहरेहिँ अहिणदिउ
सहुँ पुहईसँ कोसंबीजणु
जो हरिवाहणु उज्जेणीवइ
समउँ तेण गुणसीलामयसरि
जे संबोहिउ अच्चुयसुरवइ

तुट्टप्र मोहकम्मसताणप्र ।
एक्कवियक्कविचारे भाणे ।
अतराउ दूरहो परिसेसिवि । ५
लोयालोउ असेसु वि जाणिउ ।
इहु चंडु घरणिदु वि आइउ ।
चउविहदेवनिकार्याहँ वदिउ ।
पत्तउ भत्तिभारभारियमणु ।
मेल्लिवि रज्जभोउ जायउ जइ । १०
आगय अज्जिय तिलयासुदरि ।
सो वि पराइउ गुणरजियमइ ।

घत्ता—सुहमु थूलु ज किचि जप्र चरु अचरु विलक्खिउ ।
त पुच्छतहो तिहुवणु वि केवलिणा अक्खिउ ॥२९॥

३०

एत्थतरि वज्जियजम्मरिणु
उवसम्महो कारणु वज्जरइ
फडहत्थउ नामे पउरवणी
तहो पणइणि नायवसू सुभुया
सो सायरि लोहवसेण मुउ
तणएण गरुडदत्तेण हउ
हउ जेण सो वि तेत्थु जि पडिउ
फणिनारउ उसहावत्तगिरि
इयरु वि नरयायउ पहयपरु
दसणत्थु सरैहिँ वियारियउ

पुच्छिउ कोसंबीमेण जिणु ।
लोयहो सदेहतिमिरु हरइ ।
होंतउ चपापुरि आसि वणी ।
गरुडाहिदत्त वे पुत्त हुया ।
नियदविणायारप्र नाउ हुउ । ५
पकयपहु नामे नरउ गउ ।
पावेण भुवणि को णउ णडिउ ।
वणि एप्पिणु जायउ मत्त करि ।
हुउ ककजघु नामें सवरु ।
सो हत्थि तेण तहिँ मारियउ । १०

घत्ता—पुणु तिकूडपव्वयहो तले खगु नामे कीयउ ।
हुउ तेण जि लाएवि दउ जमनयरहो नीयउ ॥३०॥

३१

दुत्तायरि सायरि सिरिपवेसि
वाहु वि हुउ धोवरु तहिँ जि एवि
चिरवइरे दूरज्जिभ्यदवेण
पुणु उत्तरदेसि कुडुवियासु

कुरुच्चिल्लु जाउ पुणु दविडदेसि ।
मुत्ताहलाइँ ते तउ निएवि ।
विणिवाइउ सो कक्कडउ तेण ।
जायउ सुउ करहउ रक्खियासु ।

चारणमुणिवयणे वयई लेवि
धीवरु वि तत्थ ह्यजूह्वाइ
सो गह्णिण सुयतउ तेण लद्धु
मुउ संभूयउ सोहम्मि देउ
होएवि दियवरु सोक्खसारि
उज्जेणिहिं भोयविलासदिट्ठि

हुउ सावउ मिच्छामउ मुएवि । ५
संजायउ जणु दतेहि खाइ ।
गलकंदलम्मि द्दुट्ठेण खद्धु ।
पुणु चंपहे वणिउ भवाइदेउ ।
उप्पन्नउ अमरु सणक्कुमारि ।
तत्तो चुउ हुउ मेदज्जसेट्ठि । १०

घत्ता—छड्डेवि संपय धरिणि घरु पव्वइउ महायउ ।

घाइचउक्कु खयम्मि कए केवलि सजायउ ॥३१॥

३२

फडहत्थउ जो सो हउं निरुत्तु
ससारि भमेप्पिणु सो इहाउ
पुक्खिल्लवइरसबधएण
जो णायदत्तु लहु सुउ अणिदु
विरजम्मसिणेहे णायरेण
जा णागवसू फडहत्थपत्ति
मेदज्जहो गेहिणि सयणपुज्ज
णीसल्लु होवि णिमुणेवि एउ
गउ मज्झिमगेवज्जहे तवेण
कोसबीमु वि निसुणेवि एउ
मेदज्जु वि केवलविहरणेण
खगवसि सेलि सियलेसि जाउ

जो गरुडवत्तु महु जेट्टपुत्तु ।
अगारदेउ सुधारु जाउ ।
उवसगु मज्झु किउ राय एण ।
सो जिणतवेण हुउ अच्चुवंदु ।
संबोहिउ हउं एणायरेण । ५
उज्जेणिहे पुणु ह्यु सेट्ठिपुत्तु ।
सा एवहिं हई एह अज्ज ।
अणगारु जि हुउ अगारदेउ ।
एत्थायउ मुच्चेसइ भवेण ।
हुउ रिसि वहुसामतहिं समेउ । १०
विहरेप्पिणु संबोहियजणेण ।
सपत्तउ अक्खयसोक्खठाउ ।

घत्ता—हुउ जम्मणजरमरणचुउ पयपणयसुरेसरु ।

सिरिचदुज्जलकित्ति महु पसियउ परमेसरु ॥३२॥

विविहरमविसाले णेयकोऊहलाले । लनियवयणमाले अत्थसदोहसाले ।
भुवणविदिदनामे सब्बदोसोवमामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदमजुत्ते ।

एक्कोत्तरु सम्मतो चालीसमओ इमो सधी ॥

संधि ४२

१

ध्रुवय—सासयपुरहो कवाडु दिहु कारणु मुयह नियाणु अणिट्टहो ।
 आयन्नह तप्फलु कहमि जिह वुत्तउ वित्तु वसिट्टहो ॥

सूरसेणजणवए ह्यविहुरहे	उग्गसेणु पुहईसरु महुरहे ।	
अत्थि तामु महएवि मणोहर	रेवइ नामे पीणपओहर ।	
सेट्ठि त्रिसिट्ठु मुट्ठु जिणयत्तउ	जिणमइवल्लहु जिणपयभत्तउ ।	५
तामु पियगुसिरी कम्मारिय	वहुगुण पच्चाणुव्वयधारिय ।	
तेत्थु जि कालदीतडि तावमु	वमइ वसिट्ठु नाम निट्ठावसु ।	
मोडिउ सो मिच्छामयवाए	उद्धवाहु थिउ एकके पाए ।	
निच्चमेव दूसहससग्गिउ	विसहइ गिभयालि पच्चग्गिउ ।	
असहतउ तत्तावे हल्लइ	वार वार जलि अण्णउं घल्लइ ।	१०
जडजालेण तामु पडिखलियउ	नीसरियउ मरति मच्छलियउ ।	
जलयर मुहम जीव को लेक्खइ	अवियाणियसजमु उप्पेक्खइ ।	

घत्ता—एमच्छन्नहो तत्थ तहो भत्तिहरिसवस एति थुण्णति ।
 देवि पयाहिण पयजुयलु पउर लोय अणुदियहु नमति ॥१॥

२

एक्काहि वासरि पाणियहारिहिं	भणिय पियगुसिरी मणहारिहिं ।	
सव्वु कोइ आयहो अण्णवसिहि	भत्तिए पाय नमसइ तवसिहि ।	
तुहँ न परेक्क एट्टु रिसि वदहि	मूट्ठिए कि अण्णाणउ छदहि ।	
भासइ सा तुम्हई अण्णवसउ	पुव्वक्कियभुक्कियकम्मवसउ ।	
हउं पुणु पाविणि पावे पेरिय	हुय परवस पयहरि कम्मारिय ।	५
जइ पाणिउ लहु लेवि न वच्चमि	तो साःभिणियए ।	
... वियक्खणु	जाणइ धम्माहम्मसलक्खणु ।	
सो पाएसु पडइ मुणपवरहो	हउं अबिवेय सरिस गोरहरहो ।	
निच्चु जि सा इउ उत्तर देप्पिणु	जाइ घरहो घडु जलहो भरेप्पिणु ।	
पुणरवि एक्काहि वासरि महिलहिं	एवि तामु पय पणविय सयलहिं ।	१०
नवर पियगुसिरी अनवंतिय	थिय दूरतरि चोज्जु नियंतिय ।	

घत्ता—सा अनवति निएवि तहिँ सव्वहिँ लेवि हसतह सतिहिँ ।
पेत्तेवि तहो सामीवि निय पडु पडु पडु पाएसु भणंतिहिँ ॥२॥

३

तो वि न केम वि सा तहो पणवइ
अज्ज अरवस पई मुणिहे नवेवउ
भासइ सा जइ एहु नमसमि
सुणिवि वसिट्ठु सुट्ठु आरुट्ठु
हउँ धीवरु जिणयत्ते वृत्तउ
पहुणा भणिउ वणिउ तुहुँ मुणिवरु
एउ सुणेवि वणिणा वृत्तउ
मुणि महुराय भणमि जइ मच्छिउ
भणइ वसिट्ठु न एण पउत्तउ
जिणयत्तेण भणिउ सवसित्तणु

सुणु हलि पुणु जुवईयणु पलवइ ।
इयरह कहमु केम जाएवउ ।
तो मच्छधउ कि न पससमि ।
जाइवि रायहो वइयरु सिट्ठुउ ।
ता कोक्काविउ सो वि पहुत्तउ । ५
भणहि एहु कि कारणु धीवरु ।
एहु जि मज्झु पमाणु निरुत्तउ ।
ता पुहईसे सच्चउ पुच्छिउ ।
एयहो लजियाए अहिखित्तउ । १०
दिट्ठुउ देवमुणिहे सच्चत्तणु ।

घत्ता—सजायउ निदोसु वणि ता धरणीसे सा कोक्काविय ।
पुच्छिय वइयरु वज्जरइ निच्छियमण जिणसासणभाविय ॥३॥

४

हउँ पुहईस पयउ जिणयत्तहो
जहिँ तउ तवइ एह तहिँ नीरहो
एयहो सयलु वि पुणु जुवईयणु
हउँ न परेक्क पडमि तुरियावमि
तुम्हई पुव्वजम्मकयपुत्रउ
पणवह रिसि वीसत्थउ भावे
एहउ महिलायणहो निरतरु
एक्कहिँ दियहे पुणु वि नेच्छंतिय
भणिय अज्ज पई जाव न जइवरु
केम वि मुयहिँ न चपिय कठए
जा णवयारु करावह एयहो

पेसणयर थिर जिणमयचित्तहो ।
जामि निच्च जमुणानइतीरहो ।
पायहँ पडइ भत्तिभावियमणु ।
नउ सामिणिभएण खणु लावमि ।
अप्पवसाउ कयत्थउ धनउ । ५
हउँ परवस उप्पन्नी पावे ।
देमि भणतहो देव पडुत्तरु ।
सव्वहिँ मिलेवि गलत्थेविणु निय ।
वंदिउ ताम जाहि कहिँ किर घर ।
ता मई ताउ पउत्तउ रुट्ठुए । १०
तो धीवरहो कि न अविवेयहो ।

घत्ता—एउ सुणेवि एहु कुविउ पच्छइ अक्कोसतु पधाइउ ।
मई समेउ भयभीयमणु धीयणु भवणि पलाएवि [आइउ] ॥४॥

५

..... ..
जयहो जेट्ठु जगसिट्ठिपवत्तणु
तासु वसिट्ठु पुत्तु हउं जेट्ठु
बंभयारि अन्नन्नसमाणउ
ता धुत्तीण तीण आउच्छिउ
सुणु चेडिण वसिट्ठु तहे सुच्चइ
जइ एव तो ताण पउत्तउ

कथइ बंभु जगत्तयमन्नित्तु ।
लोयपियामहु पावनियत्तणु ।
पडु पडिउ पसिद्धु तवनिट्ठु ।
भणहि काइँ मच्छघिसमाणउ ।
केरिसु होइ पयासहि मच्छिउ । ५
जो मारइ मच्छय सो वुच्चइ ।
तुहँ वि निसुभसि मीण निरुत्तउ ।

घत्ता—कहहि केम ता तण कहिउ तुहँ पंचगिण कयवेयल्लउ ।
जडजालें जलि मच्छुलिउ मारहि विरइयमच्छुल्लउ ॥५॥

६

जइ पत्तियहि न तो लइ छोडहि
एउ सुणेवि तेण सा दूसिवि
काउ वि रायसहाण विमुक्खउ
काउ वि खंडियाउ दरमलियउ
पेक्खिवि पट्टणा साहुक्कारिय
वार वार जिणधम्मु पसंसिवि
तं निएवि सनिवइ विभियमणु
ता वसिट्ठु लज्जइ अवचित्तउ
थिउ जाएवि तित्थि गधावइ

नियजडजूडभारु पक्खेडहि ।
भाडिउ जडमंडलु आरुसिवि ।
काउ वि अल्लियाउ दरसुक्खउ ।
निवडियाउ इयरउ मच्छलियउ ।
पुज्जिय तुट्टएण कम्मारिय । ५
अन्नाणित्तु तावसमउ दूसिवि ।
लग्गउ अरुहधम्मि सयलु वि जणु ।
वाणारसिसमीवि तहिँ होंतउ ।
गगासगमम्मि कुच्छियमइ

घत्ता—दिब्बनाणि एक्कहिँ दियहे वीरभद्दु नामे विक्खायउ । १०
पंचहि सीससमहिँ सहिउ मुणि विहरतु संतु तत्थायउ ॥६॥

७

विभिणण दूसहतवभवणें
संघवईण पउत्तु अयाणहो
एउ सुणेवि वसिट्ठि भासिउ
को मईँ कहसु निसुभिउ पाणिउ
जइ तुहँ नाणिउ मुणिणा वुत्तउ
कहिँ तुह गुरु मरेवि उप्पन्नउ

वन्नित्तु सो केण वि नवसवणें ।
विहलु सव्वु एयहो दयहीणहो ।
भो मुणि कि अम्हहँ तउ दूसिउ ।
केमम्हारउ तउ अन्नाणित्तु ।
तो महु कहहि वसिट्ठु निरुत्तउ । ५
भासइ तावसु तवसंपन्नउ ।

महु गुरु बंभलोउ संपत्तउ
मुणिणा भणिउ अहित्तणु पत्तउ
अच्छइ अतरि कि महु जोयहि
ता कोवेण तेण पजलंते
फाडिउ दिट्ठु भुयंगु जलंतउ

अच्छइ दिव्वभोय भुजतउ ।
तुह गुरु एत्थ कट्ठि डज्झतउ ।
जइ संसउ तो किं न पलोयहि ।
लेवि कुढारिय कट्ठु तुरते । १०
गउ वइरायहो विभियचित्तउ ।

घत्ता—घन्नउ जिणवरधम्मु पर जत्थेवंविहु अत्थि विणिच्छउ ।

अन्नाणिउ तावसहँ तउ डज्झउ सजमसारे तुच्छउ ॥७॥

८

एम भणेप्पिणु
धम्मु सुणेप्पिणु
पालियनिट्ठउ
दुक्कियसंबरु
नियतणु तावइ
वारियसम्मै
सहियालाहउ
पढउँ निरतरु
सिरिसिवगुत्तहो
सो गुणगुरुणा
तेण वि पोसेवि
छम्मासहिँ पुणु
तहो जि समप्पिउ
पुन्नविहीणउ
तेण वि तरिसहो
कहमवि पालिउ

मुणि पणवेप्पिणु ।
कुमउ मुएप्पिणु ।
तवसि वसिट्ठउ ।
हूउ दियंबरु ।
भिक्ख न पावइ । ५
चिरकयकम्मै ।
खतिसणाहउ ।
करिवि मिसतरु ।
मुणिहि तिगुत्तहो ।
अप्पिउ गुरुणा । १०
समउ पयासिन्नि ।
परियाणियगुणु ।
गुरुहि समप्पिउ ।
भुक्खण खीणउ ।
अद्धुसहरिसहो । १५
पुणु निक्कालिउ ।

घत्ता—मायबप्पु सुद्धि बंधुयणु गुरु देव वि अवर वि दुहरीणहो ।

होति परंमुह भंति ण वि गुणवंतहो वि पुन्नपरिहीणहो ॥८॥

९

तओ स हवेप्पिणु एयविहारि
पयासियआसिमहामड्डुराहँ
मुरारिभूयंगालचालियसेले

मही विहरतउ दुक्कियहारि ।
समागउ एक्कदिणे महुराहँ ।
थिओ तहिँ देववहूकयकीले ।

विणिज्जियदुज्जयपीइधवेण
नवेप्पिणु एप्पिणु जंपहु देहँ
पउत्तउ तेण वि अच्छहु ताव
विमज्जिउ देविउ एव भणेवि
दयावरु उग्गतवेण समिद्धु
मुएप्पिणु तावसधम्मु अयाणु
पसंसि वि एम महाविहवेण

पकपिउ देविउ तामु तवेण ।
भणति महामुणि काइँ करेहँ । ५
पओयणु कि चि वि जायइ जाव ।
गयाउ निवासहो साहु नवेवि ।
हुओ मुणि सव्वजणम्मि पसिद्धु ।
हुओ जइ एहु जिणागमजाणु ।
समच्चिउ भत्तिभरेण निवेण । १०

घत्ता—मासि मासि भोयणु करइ सो तहिँ परिवड्ढियअणुराएँ ।
भुजाविसमि साहु हउँ सयलु वि जणु वाराविउ राएँ ॥९॥

१०

एत्तहि मासोवासु करेप्पिणु
घरि घरि भमइ न को वि खडावइ
हिडि वि नयरु सव्वु गउ राउलु
हुउ अलाहु तह एम तिवारउ
नयरहो नीसरतु पेक्खेप्पिणु
हा हा राएँ रिसि सताविउ
त निमुणि वि कोवे कंपतउ
आयउ देविउ चित्तियमेत्तउ
ताहिँ भणिउ सो विणउ करेप्पिणु
चित्तेण वि न एउ चित्तिज्जइ

पुरि पइट्ठु मुणि जिणु पणवेप्पिणु ।
निवइनिवारिउ जणमणु तावइ ।
तत्थ वि दिट्ठु न पहु थिउ वाउलु ।
भुक्खतिसासमसमियसरीरउ ।
केण वि भासिउ करणु करेप्पिणु । ५
भिक्ख न देइ लोउ वाराविउ ।
गउ गिरि गोवद्धणु सपत्तउ ।
निहणह उग्गसेणु तेणुत्तउ ।
भुवणपुज्जु जिणालिगु धरेप्पिणु ।
कि पुणु किज्जइ काराविज्जइ । १०

घत्ता—तेण भणिउ तो महु विहुरे अन्नहँ भवि साहेज्जु करेज्जह ।
एत्तिउ मईँ अब्भस्थियउ अवसरु जाणेप्पिणु आवेज्जह ॥१०॥

११

ताउ गयाउ एउ मन्नेप्पिणु
मुउ हुउ उग्गसेणनिवकतहे
सा किस पेक्खेवि दूमियमइण।
कहि दोहलउ कवणु गयवरगइ
पुणु वि भणिय कि सकहि कहि पिणु
सामिय णयणाणदजणेउ
जाणमि रहिरवारि जइ पिज्जइ

मुणिवि अयाणु नियाणु करेप्पिणु ।
पोमावइहे गब्भि गुणवतहे ।
एक्कहिँ वासरि पुच्छिय पइणा ।
कहहँ न जाइ देव भासइ सइ ।
ता उवइट्ठु ताणु लज्जतिणु । ५
हियउ वियारिवि छुरियणु तेरउ ।
तो सतोसु मज्जु उप्पज्जइ ।

चित्तिउ मणि गढभहो विवरेरउ
करिवि पवंचु निवेण मणोज्जहे
नवमासहिं नंदणु उप्पन्नउ

ण्डु परिणामु न एयहे केरउ ।
परिपूरिउ दोहलउ सभज्जहे ।
चारु पुरिसु लक्खणसंपुन्नउ । १०

घत्ता—भिउडिभंगभीसणवयणु रोसुग्गामियमुट्ठिपहारउ ।
ताएँ पुत्तु पलोइयउ रासिहि थिउ नावइ अगारउ ॥११॥

१२

जायमेत्तु जो एम वियंभण
एम भणेवि कसमंजूसहे
नियनामकियअगुत्थलियण
भीएँ कालिदिहे पवहाविउ
जेण कंसमजूसहे लद्धउ
वड्डारिउ जाणिवि कलियारउ
गउ सउरीपुरु न जमदूयउ
सिक्खिउ सब्बु विणयसपन्नउ
एत्तहे समरभरोड्डियखधे
सयल वि सेव कराविय भूवइ

सो अगइ मइँ अवस निसुभण ।
घल्लिवि वारियवारिपवेसहे ।
सहुँ लेहेण रयणकंवलियण ।
कोसंविहे कल्लालिण पाविउ ।
कंसु तेण किउ नामु पसिद्धउ । ५
नीसारिउ मायण दुहयारउ ।
तत्थ सीसु वसुएवहो हूयउ ।
तूसिवि गुरुणा वरु पडिवन्नउ ।
साहिय महि तिखड जरसंधे ।
एक्कु न पर पइसइ पोयणवइ । १०

घत्ता—चक्कहरेण पयड भड जे जे केइ वि तामु विसज्जिय ।
अपवाएणुच्छग्गु जिह ते ते सयल वि तेण परज्जिय ॥१२॥

१३

सो परेक्कु महु सल्लु व सल्लइ
ओ तं घरइ रणगणे जूरइ
इच्छियदेसें समउ महाजस
देवाविय घोसण पुरि देवे
नियपुराउ सबलेण सकसें
खंधावारु दूरि परिसेसिवि
आणिवि मुत्तु पुरीसु मइदहँ
सीहरहेण समेउ महाहवु
अतरि पइसरेवि गुरुसीसें
सामिएण जइ सई जुजिअज्जइ

थिउ अत्थाणि महीवइ बोल्लइ ।
महु माणसहो मणोरहु पूरइ ।
नियसुय देमि तामु जीवंजस ।
आयन्नेवि वत्त वसुएवं ।
गंपि समुद्विजयआएसें । ५
सत्थवाह्वेसें तहिँ पइसिवि ।
सयल सहाविवि तुरयगयंदहँ ।
किउ दावियविविहाउहलाहवु ।
मग्गउ पेसणु पणमियसीसें ।
तो भणु किकरेहिँ कि किअज्जइ । १०

घत्ता—ता वसुएवें कंसु रणे मोक्कल्लिउ तेण वि उट्टुद्धउ ।
जुज्झिवि चिरु निप्फंदु किउ भंप्प देवि पडिबक्खु निबद्धउ ॥१३॥

१४

आणिवि रायगेहू सखेवें	अप्पिउ चक्कवइहे वसुएवें ।
तेण वि भणिउ जायसतोसे	लइ सुय समउ समीहियदेसे ।
भणइ अणगु देव तिहुयणथुय	जिउ रिउ एणायहो दोयहि सुय ।
ता पुहईसरेण सो पुच्छिउ	को तुहुँ कहो सुउ कहि कहिँअच्छिउ ।
कहइ कंसु कल्लालि किसोयरि	कोसबिहिँ नामे मजोयरि । ५
अच्छए ताए कंसु हउँ जायउ	सिरि वसुएवसीमु विक्खायउ ।
ता राएण पुरिस सपेसिय	आगय सा लएवि मंजूसिय ।
पुच्छिउ कहिउ ताए जीवाविउ	एहु एत्थ मई सामिय पाविउ ।
विप्पियगारएण सताविय	बहुवाराउ एण दडाविय ।
नीसारिउ निव्विन्नए गेहहो	अह को करइ तत्ति दुम्मेहहो । १०

घत्ता—ता मजूस महीसरेण जोइय दिट्ठु पत्तु लिहियक्खरु ।
नामकिउ अंगुत्थलउ अवरु वि कवलु रयणंच्चिउ वरु ॥१४॥

१५

जाणिवि उग्गसेणमुउ दिन्नउ	राएँ कन्नारयणु रवन्नउ ।
विहिउ त्रिवाहु विसेसविराइउ	मग्गाहि देसु भणिउ जामाइउ ।
मग्गिय महुर तेण नियवंसे	वेडिय महुर चउदिसु कंसे ।
उग्गसेणु सगामि धरेप्पिणु	सहुँ पोमावईए वधेप्पिणु ।
पवलिहे कारागारि निरुत्तउ	अप्पणु पुणु धिउ रज्जि सइत्तउ । ५
तायनिबधणि दूमियचित्तउ	कसहु लहुउ भाइ अइमुत्तउ ।
पव्वइयउ जिणसमए पहाणउ	हुउ अट्टमानिमित्तवियाणउ ।
ता सुहेण तहिँ रज्जु करते	कसे किउ उवयारु सरते ।

घत्ता—आणाविउ वसुएवगुरु पणवेप्पिणु सम्माणु करेप्पिणु ।
अब्भत्थिउ पडिबन्न सस देवय नामे परिणावेप्पिणु ॥१५॥ १०

१६

रज्जु विलासभोयसुहसारउ	सामिय एहु पसाउ तुहारउ ।
पई विणु समणेण वि किं किज्जइ	मज्झ मणहो उव्वेउ जि दिज्जइ ।

तेण पसाउ करेवि म गच्छह
 ता तत्थेव तामु उवरोहें
 देवइ नवमालइमालाभुय
 उच्छउ कसे जणमणरोहउ
 मिलियउ महिलायणु गाइज्जइ
 एत्थंतरि चरियहे पइसतउ
 सहें वणियायणेण कीलावस
 आवहि देवर रजियजणवउ
 एव भणातिअ बहु खब्भानिउ

किंकरकारुणेण इहच्छह ।
 धिउ वसुएउ पयासियमोहे ।
 एक्कहिं वासरि पुप्फवई हुय । ५
 विरइउ नामे पुप्फविरोहउ ।
 वज्जइ बद्धावणउ नडिज्जइ ।
 साहु निहालेविणु अइमुत्तउ ।
 पथु निरुभिवि थिय जीवजस ।
 पेच्छहि नियससाहे पुप्फुच्छउ । १०
 रिसि रोसाणलेण पज्जालिउ ।

पत्ता—जो एयहे रयसलहे सुउ होसइ जणमणनयणपियारउ ।
 कि नच्चहि हलि नेण रणे मारेवउ भत्तारु तुहारउ ॥१६॥

१७

मुणिवयणेण एण मणु सल्लिउ
 रुसिवि वयणु पर्यपिउ दारुणु
 पुणु रिसिणुत्तउ रज्जु लएवउ
 आयन्नेप्पिणु एउ नियत्तिय
 कसहो कहिउ सो वि चितावरु
 मुणिणा दिट्ठु णवर देवइयहे
 सो महु वइरि तेण मारेवउ
 ता वसुएवे पुव्वविडन्नउ
 गउ नियभवणु कमु परिओसिउ

पुहइहे पडलु ताअ न घल्लिउ ।
 पायहिं मलिउ बत्थु कुमुमारुणु ।
 तुज्जु जणेरु वि तेण हणेवउ ।
 गय जीवजस गेहु रयत्तिय ।
 गउ वसुएवपासि मग्गिउ वरु । ५
 जो होसइ सुउ मुरगयगइयहे ।
 एत्थु न तुम्हईं खेउ करेवउ ।
 वरु उवरोहवसे पडिबन्नउ ।
 देवईअ वल्लहु अक्कोसिउ ।

पत्ता—कवणु दुक्खु जह जइ न हुउ महु एक्कहे नंदणु गुणवतउ । १०
 बहुयउ नरखेयरसुयउ बहुयउ अत्थि जासु बहुपुत्तउ ॥१७॥

१८

मईं पुणु गब्भभरेण किलतिअ
 मेल्लि देव तवयरणहो गच्छमि
 जा तुह गइ सा मज्जु वि सुदरि
 एम भर्णाप्पणु पिय साहारिय
 सहें देवइअ देवि अन्नु जि दिणि

दुक्खु सहेवउ नवर वियतिअ ।
 जेण न पुत्तहें दुहु सपेच्छमि ।
 कि पि म करहि विसाउ किं सोयरि ।
 वसुएवेण रयति निवारिय ।
 पुच्छिउ तेण साहु तवदिणमणि । ५

परमेसर महुरेसहो मई वर
सो देवइजायाई हणसेइ
ता तहिँ देवईप्र फलसारहो
तुट्टिवि विहिवसेण ससिसयणहो
एक्कु अंबु धरणीयलु पाविय
भणिय तिमि जुयलई देवइयहे
जायमेत्त ते जणियाणत्थहो
इंदाएसे नइगमु नेसइ

दिनु केम किज्जइ अलियक्खरु ।
किह तुम्हारउ वयणु हवेसइ ।
साह धरेवि मुक्क साहारहो ।
अवयलुबि एक्क गय गयणहो ।
सो जि निमित्तु मुणिदे भाविय । १०
होसहिँ तणयहँ सुदरमइयहे ।
करिवि पवचु हरेसइ^१ हत्थहो ।
भद्विलपुरि जिणवइ पालेसइ ।

घत्ता—वरिसई अट्ट वसेवि धरे चरमदेहु तवयरणु लएसइ ।
उप्पाप्रवि केवलु विमलु अगगुरु जगसिहरहो जाएसइ ॥१८॥ १५

१९

जो सत्तमु सुउ उप्पज्जेसइ
पच्छन्नउ गोउलि बड्डेसइ
रयणनिहाणु रज्जु पावेसइ
आणदियमणु एउ सुणेप्पिणु
काले जते ह्य देवइयहे
मायामयई समप्पिवि कसहो
भद्विलपुरवरम्मि सुहद्विहे
भज्जहे जिणमइनामहे विमलहे
नेवि समप्पिय ताप्र निहालिय
पुणु सत्तमउ सत्तमासहिँ सुउ

नवमउ वासुएउ सो होसइ ।
महुराहिवु जरसिधु वहेसइ ।
तुह तणयहँ एक्कु वि न मरेसइ ।
गउ वसुएउ साहु पणवेप्पिणु ।
पुत्तहँ जुयल तिमि सुहमइयहे । ५
रक्खिय नइगमेण विद्धसहो ।
सेट्टिहे निज्झाइयपरमेट्टिहे ।
तिमि वार ह्यमुयसुयजुयलहे ।
निय सिमु मन्निवि नेहे पालिय ।
हुउ वसुएवहो बहुलक्खणजुउ । १०

घत्ता—वासुएउ बहुगुणनिलउ अतुलपरवकमु असुरपरायणु ।
भुवणत्तयविक्खायजसु लच्छिनाहु नामे नारायणु ॥१९॥

२०

भद्वयहो किण्हट्टमिरत्तिहे
भक्ति जणेरु लेवि नीसरियउ
विहडिय पवलि बानपयफसे
अगगप्र धवलवसहु होएप्पिणु

अणवरयंबुच्छन्नदिग्भत्तिहे^१ ।
बलएवेण छत्तु तहो धरियउ ।
देउ को वि हरिपुन्नविसेसे ।
गउ जमुणाजलि मग्गु करेप्पिणु ।

१८ १ हवेसइ ।

२० १^१ दिक्कित्तिहे ।

ते तेण जि पहेण जाएप्पिणु
ता तहिं धीय लएवि महाइउ
गरहिय देवि तेण मग्गिय मई
तुहें जि एह लइ एम भणेप्पिणु
ता वसुएवे भणित म गच्छहि
तेण वियाणित देवि पयपइ
किं रुट्ठो सि वीर सुहयारउ
एउ सुणेप्पिणु देवि नवेप्पिणु

धिय दुग्गायलम्मि पइसेप्पिणु । ५
नंदु नाम गोउलिउ पराइउ ।
नदणु कन्न काईं दिन्नी पईं ।
जाइ जाम किर बालं घिवेप्पिणु ।
नदणु नद लेहि आगच्छहि ।
पल्लट्टेवि आउ विभियमइ । १०
लइ मईं एहु दिन्नु सुह दारउ ।
गयउ नदु घरु नदणु लेप्पिणु ।

घत्ता—एतहि लेवि जसोयसुय गय वसुएवहलाउह भवणहो ।
विगयविहावरि किकरहिं कहिय वत्त जीवजसरमणहो ॥२०॥

२१

देवदेव वसुएवहो दइयहे
ता तहिं एप्पिणु पुरसरहसे
चूरिउ नासावसु हयासे
घल्लिय भूमीहरि रक्खाविय
उवसाभिय अज्जए गुणवइयए
सहें सघेण खवंती कलिमलु
तहिं दुग्गा विजभा भिल्ला इव
धिय भएण तणुचाउ करेप्पिणु
धिय पडिमाजोएण विराइय
जइ परमेसरि लाहु लहेसहें
एम्ब भणेप्पिणु गय पणवेप्पिणु

हुय सुय तुह वइरिणि देवइयहे ।
महिल भणेवि न मारिय कसे ।
चप्पिवि किय कुव्वडिय विसेसे ।
काले जते जोव्वणु पाविय ।
हुय तवसिणि सजुय सुहमइयए । ५
गय विहरंती सा विज्झायलु ।
धाडए एत निएप्पिणु निक्कव ।
सघु वि गउ अग्गए वोलेप्पिणु ।
देवि भणेवि तेहिं पोमाइय ।
तो अम्हईं तुह पुज्ज करेसहें । १०
जामावति सत्थु ल्हूसेप्पिणु ।

घत्ता—ता खद्धी वग्घेण वणे गय सम्महो करकमलंगुलियउ ।
उव्वरियउ तहे तेहिं तहिं दिट्ठउ रुद्धिरवारिक्खुलियउ ॥२१॥

२२

भत्तिभरेण पयाहिण देप्पिणु
गलिवि गयाउ जाम ता कट्ठें
दुग्गाविभल्लेहि पवत्तिय
तप्पहइ अज्जवि जणु जाणइ

नवियउ ताउ तेहिं पुज्जेप्पिणु ।
विरइवि पुज्जियाउ विणु सट्ठें ।
दुग्गा विभवासिणि ते वुत्तिय ।
देवि भणेवि मूढ सम्माणइ ।

एतह्ने कण्ठु पवङ्गुण गोउलि
संकिएण नेमिस्तिउ पुच्छिउ
कहिउ तुहारउ वइरि वियक्खणु
तेणुप्पाय हवति निरतर

दुन्निमित्त ह्य कंसहो राउलि । ५
तेण वि तहो भवियव्वु नियच्छिउ ।
वट्टइ नंदगोट्टि सुहलक्खणु ।
ज जाणहि तं करहि नरेसर ।

घत्ता—तो चिरभव देवीउ तहिं चितियमेत्तियाउ सपत्तउ ।

वुत्तउ मारह वइरि महु अच्छइ नदगोट्टि वड्ढंतउ ॥२२॥ १०

२३

महुसूयणु अमुणंत महाइय
सा बाले सोसिवि संताविय
धाविउ सुसुयतु नहि रिट्टउ
अन्नहिं वासरि पवलबलाले
पायपहारे चूरिउ सदणु
वसहु जुवाणे होतउ घोडउ
कालु व नत्थिवि कालिउ रम्मई
निण्वि वारिविट्ठिण पीडिउ जणु
करमुट्ठिण चाणूरु वियारिउ
उग्गसेणु तहिं रज्जि थवेप्पिणु
रयणनिहाणवतु परमेसरु

कंसाएसे पूयण धाइय ।
नट्ट भएण महावइ पाविय ।
तोडिउ पेहुणु कहव पणट्टउ ।
पुणु जमलज्जुण मोडिय बाले ।
सथुउ जणेहिं जसोयहे नदणु । ५
निन्नासिउ करेवि गलमोडउ ।
खुडियई कालिदीदहपोमई ।
उच्चाइउ भुएहिं गोवद्धणु ।
पुणु कंसामुरु सगरि मारिउ ।
पुणु दिणेहिं जरसिधु वहेप्पिणु । १०
हुउ हरि भरहि अद्धचक्केसरु ।

घत्ता—सिरिचंदुज्जलु तवु वि जणे करिवि नियाणु वसिट्ठु विणट्टउ ।

उग्गसेणुसुउ कंसु हुउ हुउ हरिणा गउ नरए पइट्टउ ॥२३॥

विबिहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले ।
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिव्रतोसे ॥

मुणिसिरिचंदपउत्ते मुविचित्ते णतपयदसंजुत्ते ।
कोहनियाणकहाए वायालीसो इमो सधी ॥

संघि ४३

१

मेल्लह माणु अणत्थु दूसहदुक्खनिसेणिउ ।
लच्छीमइ माणेण पत्ताणेयकुजोणिउ ॥

मगहाविसयम्मि मणोहिरामि
दिउ सोमदेउ नामे पसिद्धु
सिगाररूव विहवे मरट्ट
एक्कहिं दियहम्मि तिगुत्तिगुत्तु
पक्खोववासि गोउरि पइट्टु
उट्टेवि खडाविउ करिवि भत्ति
गउ कत्थइ कज्जवसेण नाहु
अप्पउ मडती अगणाउ
काहिं आयउ एम भणेवि पाव
गउ मुणि तक्खणि तहि तणउ देहु
नीसारिय को वि न करइ तत्ति

बहुलच्छिसमिद्धु लच्छिगामि ।
निवसइ वियइहु सपयसमिद्धु ।
तहो गेहिणि लच्छीमइ तरट्टु । ५
मज्झत्थु महत्थु समाहिगुत्तु ।
रिसि सोमदेवविप्पेण दिट्टु ।
मुणि भुजावेज्जसु भणिवि पत्ति ।
लच्छीमई वि पेच्छोवि साहु ।
उट्टिय न मणा वि नियासणाउ । १०
थिय महूरिसि अक्कोसिवि सगाव ।
कोट्टेण सडिउ जणजणियनेहु ।
गय पइसवि जलणि कयतथत्ति ।

घत्ता—सत्थावत्थहो सव्वु करइ लोउ परमायरु ।

आवइकालि न कोइ सुहि भत्तारु न भायरु ॥१॥ १५

२

परियट्टहो घरि तत्थेव गामि
विणु घन्ने विसहियभुक्खदुक्ख
पुणु सुणही वे वाराउ जाय
पुणु लाडविसण सा ललियभासि
अघलयगामि मच्छधियासु
दुग्गधिणि दुव्वन्नणि दुरूव
नइयडि गघहो निव्विन्नएहिं
तत्थच्छइ मुक्क कुडुवएण
एक्कहिं दिणे साहु समाहिगुत्तु

हुय खरि पियगेहासन्नघामि ।
मुय हई सूयरि असुइभवख ।
गय जमउरु वणदवदडुकाय ।
रेत्रात्तडि भरुयच्छहो सयासि ।
तिव्वमयहो मडूकीपियासु । ५
काणिय नामेणुप्पन्न भूव ।
कय कुट्टिय नेप्पिणु थविय तेहिं ।
उत्तारइ जणु कोट्टे वएण ।
विहरतु पराइउ नाणनेत्तु ।

सिसिरहो भरि निसि समयम्मि तीण
आणोप्पिणु तणु उण्हविय' दिन्न

अच्छंतहो तहो करुणामईण । १०
मुणिविज्जावच्चे पाउ भिन्नू ।

घत्ता—निसुणेवि धम्मु पहाण पणवेप्पिणु परमेसर ।

आसि कहिँ मि मईँ तुम्ह दिट्ठा भणिउ मुणीसर ॥२॥

३

ता लच्छिगामाइ विततु नीसेसु
सुमरेवि चिरकम्मु निदेवि अप्पाणु
हुय खुड्डिया खडचारित्तपरिणाम
विहरति सोपारपुरु समउँ अज्जाहि
तहिँ ताहिँ नाइल्लसावयसयासम्मि
एयंतरो नाम उववासविहि चारु
सनियाण परमेट्टि चरणाईँ सरिऊण
भुजेवि सोक्खाईँ सपयमहल्लाईँ
एत्थाय कुडिणपुरे भुवणविक्खाय
मारेवि सिसुपालु रणं सावलेवेण
उप्पन्न पज्जुन्न तेल्लोक्कपडिमल्लु

कहिँओ मुणिदेण निसुणेवि सविसेसु ।
पणवेवि अन्नानतमनामु मुणिभाणु ।
सिक्खति सत्थाईँ गुणयाईँ गुणधाम ।
सपत्त चित्तवियनिरवज्जवेज्जाहि ।
मुक्का जिणिदालए दुरियमासम्मि । ५
काऊण दोदह समा कजियाहारु ।
हुय अच्चुदिदस्स महएवि मरिऊण ।
निवसेवि तहिँ पंचपचास पल्लाईँ ।
रुप्परहरायस्स सुय रुप्पिणी जाय ।
परिणिय विहईँण गोविददेवेण । १०
काऊण तवचरणु निहणेवि मणसल्लु ।

घत्ता—मुय सन्नासु करेवि गय निम्मलमइ सग्गहो ।

आवेवि होइवि राउ जाएसइ अपवग्गहो ॥३॥

४

सभूदो वि निदाणेण देवसोक्खाईँ चक्किसोक्खाइँ ।

पत्तो तत्तो य चुदो उववन्नो नरयवासम्मि ॥ [भ० आ० १२८२]

संभूदो वि न केवल वनिष्ठादय. सभूतनामाणि कुटुंबिकपुत्र पत्तो प्राप्तः । कानि ?
देवसौख्यानि चक्रवतिसौख्यानि च । केन ? निदानेन । तत्तो य चुदो तस्मादवतीर्णं. सन् उववन्नो
उत्पन्नः । क्व ? नरयवासम्मि नरकस्थाने । ५

वाणारसिहि कुडुबियामु नामेण सुसेणहो
चित्तु पढमु सभूउ वीउ विन्नाणकलारइ
जाएप्पिणु परदेसि देसभासामु वियक्खण
जणु रजंति लहंति निच्चु धणु धन्नू सुवन्नउ
तहिँ सभूउ नडतु इत्थिवेसे गायतउ
२. १ उल्लविए ।

गंधारिहि सजाय पुत्त कंतहो धणहीणहो ।
रूववत नीसेससत्थनिम्मायमहामइ ।
ते बंभणवेसेण वे वि होएप्पिणु नच्चण ।
एक्कहिँ दिणि गय रायगेहु पुरु सिरिसंपुल्लउ ।
मणि वसुसम्मु पुरोहु नारि मन्निवि आसत्तउ ।

पणु जाणेपिणु पुरिसु एहु नउ नारि रवन्नी तेण जि नेहे बहिणि तेण सिरिमइ तहो दिन्नी ।
विप्प न होंति परंपराए पच्छा परियाणिय लज्जवि' लोयहो कुसुमनयरु गय ते अबमाणिय
सुणिवि धम्मु गुरुदत्तपाय पणवेवि दियंवर हुय वइरायवसेण वे वि बधव कयसवर ।
काले सयलागमपवीण होएवि महाइय महि विहरता रायगेहु पुरु पुणु संप्राइय ।
भिक्षहे कयमासोववासु संभूउ पइट्टउ पेक्खेपिणु वसुसम्मु नयरमज्जम्मि पणट्टउ ।
नासंतहो तहो बंभणहो अणुमग्गे लग्गउ पेच्छिवि रोसे रिसिहि तणुहे तेयग्गि विणिग्गउ
पट्टणु दुब्बारेण तेण चउदिसिहें पलित्तउ परियाणिवि वित्ततु चित्तु तहें क्षत्ति पट्टतउ ।

घत्ता—तेणुवसामिउ भाइ जलणु जलतुल्हाविउ ।

मुणिमाहप्पु निएवि नट्ठु विप्पु भयभाविउ ॥४॥

५

गयकालि का वि काणणि थियाहें वणदेवि ताहें तववहुपियाहें ।
सुविहूइपरयणिए निच्चमेव चक्केसरवेसे करइ सेव ।
तं पेक्खेवि कयकोऊहलेण सभूइए पत्थियतवफलेण ।
बद्धउ नियाणु सपन्नभोउ आगामे जम्मे महु एउ होउ ।
इय भासेवि सन्नासें मरेवि हुउ पढमसग्गे मुरु जिणु सरेवि । ५
तत्तो चुउ इह भरहताराले पच्चालविसए सपयविसाले ।
कपिल्लनयरं सपयहु राउ महएविहे तहो सो सूणु जाउ ।
नामेण पसिद्धउ बभदत्तु बहुलक्खणलविखउ चारुगत्तु ।
गुणनिहि वारहमउ चक्कवट्टि परमेसरु दुज्जणमइयवाट्टि ।
वसुसम्मु वि ससारए भमेवि सूयारु हूउ तहो तणउ एवि । १०
सो भोयणसबधेण तेण माराविउ रोसे निद्दएण ।
हुउ वेतरु दीवतरे रउद्दु परिभमिउ चउट्टिमु जहिं समुद्दु ।
चक्कवइ करेवि पवचु तेत्थु निउ निहउ तेण सुमरंवि अणत्थु ।

घत्ता—एउ मुणेवि नियाणु तिविहु वि दूरे विवज्जह ।

दुप्परिणामवसेण मा दुग्गइ आवज्जह ॥५॥

१५

६

मायासल्ले हयबोहिलाह दुग्गधवयण दुज्जणसणाह ।
नामेण कुसुमदसणज्जियासि हुय सायरदत्तहो तणिय दासि ।
आयन्नह अज्जियवत्तनामि इह भारहवसि मणोहिरामि ।
पूरि पुप्फयतचूलाहिहाणु निवसइ नरिदु गुणमणिनिहाणु ।
४. १ रज्जवि ।

दुग्गधवयण दुज्जणसणाह ।
हुय सायरदत्तहो तणिय दासि ।
इह भारहवसि मणोहिरामि ।
निवसइ नरिदु गुणमणिनिहाणु ।

मुहकमलपहाहयपुष्पयंत
एककहिँ दिणि तहिँ देवगुरुनामु
तहो पासि धम्मु निमुणेवि राउ
सजइय पुष्पयंता वि देवि
कालेण पुष्पयताइचूलु
कुलजाईसरियमएण मूढ
सा पुष्पयत मलवज्जियाहँ
अहवा जइ तो मायाइ नवइ

महएवि तामु सइ पुष्पयंत । ५
आयउ ससंधु रिसि रिद्धिधामु ।
पव्वइउ महामइ मुण्वि राउ ।
सहु धाइपहुय पावज्ज लेवि ।
गउ मोक्खहो मुणि हयमोहमूलु ।
पयइए पवचभावाहिरूढ । १०
न करइ पणामु अवरज्जियाहँ ।
तउ एव कुणंती कालु खवइ ।

घत्ता—आमायई अवरउ अप्पाणउ जे पसंसइ ।

वयणु सरीरपएस दव्वविसेसहिँ वासइ ॥६॥

७

सिक्खवइ महत्तरि पुत्ति रम्मि
जुज्जइ न देहसक्कारकम्मु'
सा' कहइ सहावे मज्ज देहु
इय मायाभावें तउ करेवि
तत्तो चुय चपापुरवरम्मि
दासिहँ घणयत्तहँ तणिय धूय
वरु पुत्तिहँ एककहिँ दियहँ तेण
उवइट्टउ तेणावणे थियम्मि
दुग्गधमुहीहँ सुयधु वत्तु
ता तहिँ भमंतु वसुएउ आउ
असुरहिमुही वि ह्य सुरहिमुहिय

तवसिणियहँ थियहँ जिणिदधम्मि ।
हले रायवासणासवइ कम्मु ।
भयवइ रूवड्ढु सुयधु एहु ।
हुय पढमकप्पे अच्छर मरेवि ।
वणिसायरदत्तहो मंदिरम्मि । ५
दुग्गधवयण हई सरूय ।
पुच्छिउ नेमित्तिउ वणिवरेण ।
विढवेसहँ दम्महँ' लवखु जम्मि ।
होसइ सो घणमित्ताहँ कंतु ।
वणियहो पुव्वुत्तउ लाहु जाउ । १०
सम्माणेवि वणिणा दिन्न दुहिय ।

घत्ता—एउ वियाणेवि निच्च मा अप्पाणु विडबह ।

मेल्लेवि मायाभाउ अज्जवत्तु अवलवह ॥७॥

८

मुणिवच्छलो वि निम्मुक्ककामु
मिच्छत्तमल्लदोसेण दमिउ
पंचसयधणुअयदेहिदेहे
पुक्खलवइ देसि महावणम्मि

भरहेसरपुत्तु मरीइनामु ।
पियधम्मु वि चिरु संसारि भमिउ ।
दीवम्मि पढमे पुव्वे विदेहे ।
सन्नए पसिद्धि महुरावणम्मि ।

७. १ सवप्पकम्मु । २ सो । ३ वम्मह ।

सरपहरपहयहरिहरिणहृत्थि
एक्कहिं दिणि तेण भमतएण
पहमुल्लउ कायकिलेसखामु
सवरेण पयासिउ नयरमग्गु

नामेण पुरुरउ भिल्लु अत्थि । ५
काणणि पारद्धि रमतएण ।
दिट्टउ मुणि सायरसेणनामु ।
मुणिणा वि तामु वयविहि समग्गु ।

घत्ता—मज्जमसमहुचाउ पचुवरपरिवज्जणु ।
देवि अणत्थामएण सह्वे सम्मत्तु सुहज्जणु ॥८॥ १०

९

गउ साहु सो वि निहयावयाई
मुउ हुउ सुरवरु वेसायराउ
भरहेसहो पुत्तु मरीचिनामु
नरवेसु णाई किउ वम्महेण
जिणवयणु सुणिवि अरमग्गि' लग्गु
गउ मिच्छत्तहो नाणाविहाई
हिड्ढिवि चउ गइउ अणेष वार
तित्थकरु तिहुयणसामिसालु

परिपालिवि कालेणणुवयाई ।
सोहम्ममु मुएप्पिणु एत्थु आउ ।
जायउ धारिणिहे मणोहिरामु ।
पव्वइयउ समउ पियामहेण ।
असहंतु परीसह वयहो भग्गु । ५
दुक्खाई सहेप्पिणु दूसहाई ।
पावेवि चउट्टय लद्धि सार ।
हुउ सम्मइ नामे गुणगणालु ।

घत्ता—सम्मद्दसणु एउ जाणिवि दिहु पडिवज्जह ।
सव्वदोसमूलेण मा मिच्छत्ते भज्जह ॥९॥ १०

१०

इच्छतहो जसु पुरिसोत्तमामु
न य दिक्खिएण इदियकसाय-
सुम्मउ एत्थत्थि कहापवधु
पहु सूरसेणु सूरारितामु
मुउ एक्कु चेय तहे सूरवीरु
तहो वाहिविणासनिमित्तु तेण
सम्माणु समीहिउ खाणु पाणु
कालतरेण सो रायउत्तु

कुलजायहो मरणु वि सुहनिवासु ।
वस जीवेण व मेल्लेवि छाय ।
उज्जेणिहे दुत्थियदीणवधु ।
सइ सूरसेण महएवि तामु । ५
हुउ सुदरु गुणि सोडीरवीरु ।
सगहिय भिस्य बहुविह निवेण ।
ते निच्च लहति पसायदाणु ।
अहिणासिउ पडिउ विसेण भुत्तु ।

घत्ता—ता ते सयल निवेण सयलविहाणवियाणा ।
हक्कारेवि पउत्त तेणक्केक्क पहाणा ॥१०॥ १०

११

तिह कुणह जेम जीवइ कुमारु
ता सोमसम्मनामेण तेत्थु
परमेसर गारुडसत्थे भणिउ
लग्गइ खागदु सयमेव जइ वि
तं सुणोवे पाणिपहणियसिरेण
मई जाणिउ तुम्हई महु सुयासु
ससिसम्मु भणइ आउक्खयम्मि
लइ तो वि करमि सामिय उवाउ

फेडह तहु गरुयउ दुक्खभारु ।
पुहईसु भणिउ सुयसोयघत्थु ।
तिहि वारु वेत्तु मई सयलु मुणिउ ।
जीवइ न कुमारु नरिद तइ वि ।
राएण भणिउ गगिरगिरेण । ५
आवइए हवेसह गुणजुयासु ।
किउ कि पि न लगइ इह जयम्मि ।
दक्खालमि तुह मतहो पहाउ ।

घत्ता—एम भणेप्पिणु तेण नायाइट्ठि पयासिय ।

आणिय तक्खणे तत्थ सयल सप्प पुरवासिय ॥११॥ १०

१२

किउ जेण कुमारजीवियहो अतु
निमुणेवि एउ आणाए तासु
नवरेक्कु तत्थ थिउ सप्पपोउ
गारुडिउ भणइ विससकुलाई
गघणकुलु उवसहरइ गरलु
मरणेण कुलक्कमु मुयइ णेव
तेणेहु अगघणगोत्ति जाउ
नायरिसइ खेडु न मतु गणइ

सो अच्छउ दुज्जणु इयर जंतु ।
गय निरवसेस नियनियनिवासु ।
त पेच्छिवि विभिउ सव्वु लोउ ।
निव वेत्ति होत्ति उरयहँ कुलाई । ५
न कयाइ अगघणु माणबहलु ।
त जाइवतु वड्ढिमउ देव ।
मुच्चउ नरिद खलु जाउ जाउ ।
अहिमाणि न कुलमज्जाय हणइ ।

घत्ता—कि बहुणा भणिएण रूसेवि राएँ भासिउ ।

ताम जाए कहिँ एहु जाम न विसु आगरिसिउ ॥१२॥ १०

१३

ता गारुडिएण धरेवि भाणु
आगरिसहि विसु अहवा महंते
अम्हाण एहु तिदियपराए
उग्गलिउ न केण वि गिलिउ गरलु
वर मरणु न दुज्जसकरणु जुत्तु
इय चित्तेवि हुयवहे पइसरेवि

फणि भणिउ तेण गरुयाहिमाणु ।
पइसरह जलणे घगघगघगते ।
कमु आयउ गोत्तपरंपराए ।
मइलिज्जइ हा कुलु केम विमलु । ५
कि मुच्चए मच्चए हीणसत्तु ।
गउ नायराउ जमपुरु मरेवि ।

जिह् तिरिण वि मज्जाय तेण
तिह साहुणा वि उत्तमकुलेण
गुरु देउ करेप्पिणु सक्खि चत्त
अरहंतुवएसिय सा पइज्ज

न मणे वि हु भग्गिय उरयरेण ।
अहिमाणघणेण जसुज्जलेण ।
इदिय कसाय संतवियसत्त ।
मरणे वि मणोज्ज न भंजणिज्ज । १०

घत्ता—करणकसायनिवित्ति जो सपइज्ज न भंजइ ।

अवसमेव सो साहु सिद्धिवहूमणु रंजइ ॥१३॥

१४

सरजूण अउज्झहे गंधमित्तु
अग्घाइवि विसकुमुमाइँ पत्तु
एत्थथि परज्जियसत्तुसेणु
तहो विन्नि रूवलक्खणनिउत्त
जयमित्तु दुइज्जउ गंधमित्तु
बधेप्पिणु जेट्टहो रायपट्टु
पणवेप्पिणु सायरसेणु दिक्ख
कालतरेण हा किउ अकज्जु
नीसारेवि धित्तु जयाइमित्तु

धाणिदियकयवसवत्तिवित्तु ।
पचत्तु नरए गउ धम्मचत्तु ।
कोसलपुरे राणउ विजयसेणु ।
विजयामहएविणु जाय पुत्त ।
एक्कहिँ दिणे राउ विरत्तचित्तु । ५
लहुयहो सुयासु जुवरायपट्टु ।
लेप्पिणु अब्भसिय परत्तसिक्ख ।
जुवराएँ चप्पेवि लइउ रज्जु ।
सइँ रज्जि परिट्टिउ गंधमित्तु ।

घत्ता—णियपरिवारसमेउ दुम्मणु नयरासन्नए ।

१०

थिउ जाएवि जयमित्तु दुप्पएसि गिरिरन्नए ॥१४॥

१५

तहिँ अन्छइ निच्चु विसन्नभाउ
तहो छिद्दालोयणे कयपयत्तु
एत्तहे तहिँ राणउ गंधमित्तु
पंचहिँ सएहिँ जुवइहिँ समेउ
एक्कहिँ दिणे सतेउर सहतु
तहिँ विविहपयारहिँ रमइ जाम
एप्पिणु पाएप्पिणु उवरि सरिहे
विसलित्तु विविहु परिभमिरभमर
मज्झंगावतु वहंतु दिट्टु
पुणु पुणु सुंघतहो विसु पइट्टु

कि करमि हणमि किह् दुट्टभाउ ।
सपेसइ चर कि करइ सत्तु ।
विसएसु सुट्टु आसन्नचित्तु ।
दिणु रयणि रमइ ण कामएउ ।
जलकीलहे गउ सरजूसरंतु । ५
इयरेण लहेप्पिणु सुद्धि ताम ।
वइरेण विणासणहेउ अरिहे ।
धित्तु सुयधसेलेंधनियर ।
कोड्डेण लइउ मन्निवि मणिट्टु ।
घारिउ संजायउ विगयचेट्टु । १०

घत्ता—गंधमित्तु पायालु गउ घाणहो आसत्तउ ।

सो सुहि इह परलोए जेण विसउ परिचत्तउ ॥१५॥

१६

पुरि पाडलिउत्तए चारुगत्त
पंचालगीयसरसत्तचित्त
पाडलिपुरि साहियसव्वसत्तु
तहो वेस वियक्खण चारुगत्त
सा सुदरि सयलकलापवीण
गंधव्वे जो मइँ जिणइ कोइ
कज्जेण एण अच्छइ कुमारि
तहिँ सुणिवि पसिद्धि समुल्लसति
पर को वि न गयगामिणिहे ताहे
निज्जिय गधव्वगुणेण सव्व

वेसा पसिद्ध गंधव्वदत्त ।
पासायहो चुय पचत्तु पत्त ।
नरनाहु अत्थि गंधव्वदत्तु ।
गुणिवणिणयगुण गधव्वदत्त ।
सद्देण नाइँ भसकेउवीण । ५
सो णाहु कयावि न अन्नु होइ ।
पयणियजुवाणजणविरहमारि ।
नाणापयार वर एत्ति जति ।
पुज्जइ वाएण अणोवमाहे ।
संजाय णिरुत्तर विगयगव्व । १०

घत्ता—एत्तहे गंधव्वाइविज्जाविहवसमिद्धउ ।

पोयणपुरि पंचालु अत्थि सूरि सुपसिद्धउ ॥१६॥

१७

तहो सोसहिँ जाएवि कहिय वत्त
आवेप्पिणु रंजियजणमणम्मि
जइ नियहे कोइ उप्परिउ एतु
सिक्खविवि एक्कु तहिँ सीसु पुत्तु
सो कज्जे केण वि वियलु जाउ
एत्थंत्तरि आयत्तेवि वत्त
तंबोलविलेवणनिवसणाइँ
तहो कज्जे पुज्जजणियाणुराय
उइँतुरु लालालव मुयंतु
सहसत्ति दिट्ठु मुल्लियभुयाए
पहु सो पचालु पसंसणिज्जु

तेण वि तहिँ तक्खणि विहिय जत्त ।
थिउ पुरबाहिरि नदणवणम्मि ।
तो जाणावेज्जसु महु तुरुत्तु ।
पहसमिउ असोयहो मूलं मुत्तु ।
गय अवर पलोयहुँ पुरपहाउ । ५
सहुँ नियसहीहिँ गधव्वदत्त ।
कुसुमाइँ विचित्तइँ भूसणाइँ ।
गय गेण्हवि कतिफुरतकाय ।
घोरंतु पसारियमुहु सुयत्तु ।
तामायउ पुच्छिउ चट्ठु ताए । १०
गधव्वसूरि जणजणियचोज्जु ।

घत्ता—अत्थि पयासिउ तेण आयन्निवि दूमियमण ।

गय बइरायहो बाल आलोइयभीमाणण ॥१७॥

१८

विष्पियदंसणि मणि जाउ दुक्खु
कुंकुमकप्पूरहिं समलहेवि
तंबोलु मूलं तहो तहिं धवेवि
एयम्मि जाम वियरालवयणि
तुह ताम कि न मुहि हे असोय
एत्थंतरि उट्टिवि सीमु तेण
केणेहु विओइणिजणियसोउ
ता कहइ चट्टु थी एक्क ताय
हउं किचि वि अन्नासत्तु जाउ
हा देवि सरासइ भीसणम्मि
ता एत्थ कि न भणिऊण एहु

परिहावि वि जमलि असोय रुक्खु ।
मणहरहिं कुसुमदामहिं महेवि ।
काऊण पयाहिण पय नवेवि ।
धिय सरसइ देवि असोमनयणि ।
गय एम भणेप्पिणु सा ससोय । ५
परिपुच्छिउ विभियमाणसेण ।
पुज्जिउ परिहाविउ सुय असोउ ।
सुरकन्न व सग्गहो एत्थु आय ।
पइं निग्रवि सुयतउ वियलकाउ ।
धिय जा एयम्मि दियाणणम्मि । १०
पुज्जेप्पिणु ससहिय गय सग्गहु ।

घत्ता—ता रुट्टउ गुरु तामु पइं पाविट्ट न जोइय ।

निच्छउ सा गंधव्वदत्त अम्हि विग्गोइय ॥१८॥

१९

इय भासेवि अहिमाणाहएण
गुणवंतें समउ सहायणेण
परिपत्तविहूसणकंचणेण
मग्गिउ देवाविउ पत्थिवेण
जामिणिहे वीण करयलि करेवि
गाइउ तिह ठाणु करेवि किपि
मुच्छि वि पासायहो पडिय महिहे
ससारु भमिय जाणेवि एउ

जाएप्पिणु राउलु तक्खणेण ।
रंजेप्पिणु राणउ नियगुणेण ।
तहिं भवणि निसल्लु निवामु तेण ।
तेण वि तहिं थाएवि निक्किवेण ।
मज्जेवि तंति अबगुण हरेवि । ५
रयंभभल जिह न चलिय पय' पि ।
सा वयणि पइट्टु कयतअहिहे ।
चित्तज्जइ विसउ सया वि हेउ ।

घत्ता—माणुसमसपइट्टु भीमु राउ कपिल्लए ।

मारिउ वसुएवेण निवडिउ नरए महल्लए ॥१९॥ १०

२०

इह जव्वदीवए भरहवेत्ति
मंसासिउ रयणीयर व भीमु
परवंचणु पाविउ अलियवाउ
नदीसरं नदीसरं वरम्मि
१६. १ पियं ।

कपिल्लनयरं मदिरविचित्ति ।
नरनाहु अत्थि नामेण भीमु ।
कायंवरि जंगलु जीवघाउ ।
नायरइ को वि जणु तहिं पुरम्मि ।

इय धम्मपवत्तणु जगपयामु
 नंदीसरं पयणियपावबंध
 सूयारे तं अलहतएण
 जोयंते माणुसमामु लद्धु
 तं वट्टिउ भायणे लहेवि साउ
 पुच्छिउ सो इउ कहि कवणु मसु

संताणकमेण वि आउ तामु । ५
 द्वुय निवहो कयाइ अमक्खसद्ध ।
 गंपिणु मसाणे भयभतएण ।
 आणेवि सभाररसेण रद्धु ।
 परिओसिउ वगरक्खमु वराउ ।
 जसु एरिसु रसु पावियपससु । १०

धत्ता—केम वि कहइ न जाम ता सो सक मुयाविउ ।

देप्पिणु अभयपदानु भोयणकारु कहाविउ ॥२०॥

२१

जामनु न पाविउ भूयणसेव
 ता पट्टणा जीहिदियवमेण
 अहो [अट्टणा] लग्गेवि मुग्गवि एउ
 पडिबज्जिउ इउ पाविवि पसाउ
 अप्पाणहु नामु धरेवि ताउ
 मेलावइ लड्डुय देइ खाहुं
 पइसारउ राउलु छलु करेवि
 तहो पिसिएं पीणइ पुहइपालु
 जाणिवि सब्बेहिं मिलेवि पाउ
 सूयारु असेप्पिणु गहणि तित्थु

माणवपलु आणिउ एउ देव ।
 भाणसिउ भणिउ चक्खियरसेण ।
 मा चरु रंधिज्जसु मसभेउ ।
 सूयारे ता विरइउ उवाउ ।
 वीसासिउ पुरडिभयनिहाउ । ५
 हक्कारु खेत्तहुं एहुं जाहुं ।
 एक्केक्कु निसुभग्गु तहिं धरेवि ।
 वियलइ जामेण [कमेण] कालु ।
 नीसारिउ किउ जुवराउ राउ ।
 पुणु भग्गउ पुरपयडियअणत्थु । १०

धत्ता—साहारवि जणु भीउ वसुएवेण भिडतउ ।

मारिउ पावें पाउ सत्तम महि सपत्तउ ॥२१॥

२२

फुडु एउ वियाणिवि जिणह जीह
 अवर वि आयन्नह पावहिट्ठि
 तक्करु सुदेउ सरविद्धनेत्तु
 भट्टिलपुरि धणवइ अत्थि सेट्ठि
 तहिं भट्टमित्तु सजाउ पुत्तु
 किं वन्नमि रूवे चारुनेत्त
 तहो सहयरु वणिउ वसतसेणु

जइ अत्थि निरामयसुहसमीह ।
 णिरु रमणीरूवासत्तदिट्ठि ।
 वियणम्मि मुयउ गउ णरयत्थेत्तु ।
 तहो अणसिरि धरिणी चउरदिट्ठि ।
 विभ्रानकलागुणगणनिउत्तु । ५
 पिय तेण विवाहिय देवदत्त ।
 गुणसुद्धरु परमणहरणथेणु ।

२२. १ *वित्तु ।

तहो मेहिणि पवर वसंतमाल
एक्कहिं दिणि नियभज्जाहिं जुत्त

सुहलक्खण अट्टमियंदभाल ।
गय उववणु कीलहुं वाणिउत्त ।

घत्ता—तत्थ लयाहरे पुप्फसेज्जहो ते सुहुं सुहयर । १०
कीलिवि समउं पियाहि वे वि निसन्ना सहयर ॥२२॥

२३

ता तहिं वसतमालाए चूय—
भत्तारु वुत्तु पावियपससु
पाडेवि एह जणजणियचोज्ज
तेणुत्तु कंति कि एवमेव
भा भणइ निसन्नु जि करहि तेम
ता लेवि चाउ किउ कणमोक्खु
पाडिय मजरि णिउणेण तेण
त निप्रवि भट्टमित्तो वि ताए
ता त विन्नाणु अयाणमाणु
अलि उत्तरु किचि वि देवि ताहे

मजरि निएवि नवचारुह्य ।
हउं करमि कंत कन्नावयसु ।
महुं देहि अबमंजरि मणोज्ज ।
कि उट्टिवि पाडमि भमरसेव ।
महु हत्थहो आवइ एह जेम । ५
पाडेवि फलाइं लगतपुखु ।
परिओसिय पणइणि बहुगुणेण ।
मग्गिउ सहारमजरि पियाए ।
लज्जिउ मणम्मि कुलकमलभाणु ।
थिउ वार वार मग्गितियाहे । १०

घत्ता—कड्ढिवि वाहु कलाए वत्थुवहाणउ देप्पिणु ।
गउ सिक्खहुं धणुवेउ सा रोवति मुएप्पिणु ॥२३॥

२४

मेहउरु पराइउ मेहसेणु
महएविहे मेहवईहे ह्य
सीलेण गुणेण वि सा अउव्व
धणुवेयनामु धणुवेयजाणु
तहो पासि देवदत्ताहे क्तु
आणेप्पिणु कुसुमइं काणणाउ
अवरु वि ज किचि वि भणइ ताउ
तुट्टउ गुरु विणउ निएवि तासु

तहिं नरवइ मग्गणकामधेणु ।
तहो मेहमाल नामेण धूय ।
रूवेण समागय सइं रइ व्व ।
अज्झावउ तहिं निवसइ पहाणु ।
सठिउ धणु सिक्खइ विणयवतु । ५
कारावइ गुरु देवच्चणाउ ।
तं सयलु वि करइ महाणुभाउ ।
किबबहिणिहे कंतु व अज्जुणामु ।

घत्ता—चंदयवेहपहूइ धणुविन्नाणु पयासिउ ।
तेण वि सिक्खिवि सब्बु दोमइवरु वि विसेसिउ ॥२४॥ १०

२५

तहिँ ताहि तेण पत्थिववरेण
 पारद्धु समोद्धु चदवेहु
 जे मिलिय असेस वि साणुराय
 तं विसमु न विघहुँ तरइ को वि
 एत्थंतरि गुरुणा भद्मिन्तु
 ता तेण करेप्पिणु त गुणाल
 भुजंतु भोय थिउ ताए सहिउ
 पर ससुरु तामु आबहुँ न देइ

दुहियाहि विवाहु सयवरेण ।
 सो परिणइ सुय जो हणइ एहु ।
 संजाया ते भग्गाणुराय ।
 थिय लज्जावस निव निहुय होवि ।
 वुत्त लइ दावहि चाववित्तु । ५
 परिणिय नरवइसुय मेहमाल ।
 बहुदिवसहिँ सयणहिँ लेहु पहिउ ।
 मन्नावइ परमायक करेइ ।

घत्ता—सजोएँ सुहु देइ विहडंतउ संतावइ ।

अइवल्लहु गुणवंतु जणु जंतउ कहो भावइ ॥२५॥ १०

२६

एक्कहिँ दिणि एक्करहेण वीरु
 तहो पंथु निरुभिवि वणि सुवेउ
 कंपाविय ताविय भीरुकाय
 ते पउर पाव सो सुहडु एक्कु
 जुज्झंतहो तहो सयलाउहाई
 पुणु लइउ करेण सबाणु चाउ
 वयणेण घणावलि वल्लहासु
 आसत्तु ताहे एयग्गदिट्ठि
 ता छिद्दु लहेवि सरेहिँ तेण
 मुउ पावयम्मु निरु रउरवम्मि

निग्गउ अकहंतु सकतु धीरु ।
 थिउ भिल्लाहिवइ कलत्तहेउ ।
 अवरोप्पर हक्काहक्कि जाय ।
 वावरइ तो वि निम्मुक्कसकु ।
 निट्ठियई पयासियवणरुहाई । ५
 तहो सदेँ सत्तु कपु जाउ ।
 उयरेवि रहहो गय समुहु तामु ।
 जा जोयइ मुहु संजायतुट्ठि ।
 अच्छीसु वियारिउ तवखणेण ।
 सजायउ नारउ रउरवम्मि । १०

घत्ता—इयरु वि समउँ पियाए घर कुसलेण पहुत्तउ ।

सिरिचदुज्जलकित्ति थिउ सुहाई भुजंतउ ॥२६॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । सलियवयणमाले अत्थसंदोहसाले ॥

भुवणविदिदनामे सब्बदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे नुंदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसरिचदपउत्ते सुविचित्ते एत्थ जणमणाणंदे ।

तेयालीसमु सधी विसयनिसेहो इमो भणिअो ॥

॥ सधि ४३ ॥

संघ ४४

१

कुमइए फासिदियवसए लग्गिवि गोवालहो ।
नियनदणु गहबइणियए मुहि छुद्धउ कालहो ॥

गाहा—दाहिणदेसम्मि वरे नयरे नासेक्कनामधेयम्मि ।
गहवइ सायरदत्तो होंतो इह आसिकालम्मि ॥

पिय नायदत्त तहि उयरि ह्वओ	तहो सिरिकुमारु नामेण सुओ ।	५
सुहि सयणाविदपयणियपणया	सिरिसेणा बालरड तणया ।	
खलु नदिमित्तु नामे भणिउ	गोवालउ पालइ नदिणिउ ।	
घरविणि दुच्चारिणि दुट्टमई	अच्छइ सहुँ तेण निबद्धरई ।	
लोयण दुक्खति पवचु किउ	एक्कहिँ दिणि सो णियहम्मि थिउ ।	
अमुणियपवंचु आसन्नखउ	गोसामिउ गाविउ लेवि गउ ।	१०
चारेवि ताउ सोवतु वणे	गोबेणावेप्पिणु तम्मि खणे ।	
रयणिहे भल्लेण वियारियउ	पच्छन्ने होइवि मारियउ ।	
विणिवाइए पिए सम्भावचुया	गहवइणि निरकुस नवर हुया ।	
जाणंतु वि मायहे कि करइ	सुउ जूरइ अणुदिणु घुरुहरइ ।	

घत्ता—अन्नहिँ दिणि उट्टेइयए सो ताए पउत्तउ । १५
मारहि एह्व वि दुट्टमइ अच्छइ जूरतउ ॥१॥

२

गाहा—त निमुणेप्पिणु गोवो मंडिवि मिसतर ठिओ गेहि ।
इयरो वि गओ रन्नं चारेदु लेवि गाईओ ॥

गच्छतु वणतु किसोयरिए	भायरु सिक्खविउ सहोयरिए ।	
ब्रधव मा होज्जमु वियलु मणे	रक्खेज्जमु अप्पणँ अज्जु वणे ।	
पावेण एण हउ तुह जणणु	संपइ पई दीसइ हणणमणु ।	५
ता गउ तहिँ लद्धुवएसु वरु	सुरहियउ चरावेप्पिणु पसरु ।	
वइसारेवि एक्कपवेसि पुणु	उट्टाविवि खोटु सपावरणु ।	

अप्पणु बह्णिणहे उवएसु किउ
एत्थंतरि तहिं गोवालु गउ
ता पच्छावेवि करेवि छलु
घरु आइउ पुच्छउ मायरिए
मई तुज्ज गवेसउं पेसियउ
तेणुत्तु न जाणमि माइ सइ

पच्छभु होवि आसभु थिउ ।
सिरिकुमरु वियप्पिवि खुटु हउ ।
विणिवाइउ सल्ले तेण खलु । १०
विसभरियए नं कामोयरिए ।
कहिं गोवउ सो गुणभूसियउ ।
एहु सेल्लु वियाणइ तासु गइ ।

घत्ता—लोहियलित्तउ त निएवि रुट्टाए बइट्टउ ।

मुसलपहारेणाहणिवि किउ सो निच्चेट्टउ ॥२॥ १५

३

गाहा—तेण जि मुसलेण हया सा सिरिसेणाए भाइदुक्खेण ।

पहरभरवियणवियला विमुक्कपाणा गदा निरय ॥

निट्ठुर कोहाइकसाय सढा
चउगइभवकाणणि पहयपरा
सिवपट्टणपंथे जतु जणू
जइ छिदह जाइजरामरणू
दरिसावियदुग्गइदुक्खदरी
हा के ण कसायवसेण हया
दीवायणु नामे आसि जई
काऊण पाउ सजमहो खउ

सासयपुरपवलिकवाड दिढा ।
न कसाय मुएवि चोर अवररा ।
लूसति अणोवमु धम्मधणू । ५
तो करइ कसायहं परिहरणू ।
जीवहो कसाय नउ अन्न अरी ।
जिणधम्मु वि पाविवि कुगइ गया ।
कोहेण डहेप्पिणु वारमई ।
मुउ दुम्मईए दुग्गइहं गउ । १०

घत्ता—इह सोरट्टविसए विसम धणधन्नसमिद्धी ।

मज्झि समुद्धो वारमइ पुरि अत्थि पसिद्धी ॥३॥

४

गाहा—वारहजोयणदीहा नवजोयणवित्थरेण सोहिल्ला ।

सोलहगोउरदारा चउवीसखडविकयासहिया ॥

मणिकुट्टिमभूमियला मणिमयपासाय रयणपायारा ।

निरुवमसोहाए सया सग्गं पि हु जा विसेसेइ ।

जहिं दस दसार पडव पयडा
तहिं वासुएउ वसुएवसुओ
मयणहो जणेरु रुप्पिणहे वरु

निवसहिं अणेय अवर वि सुहडा । ५
नवमउ नारायणु पीणभुओ ।
चक्केसरु ईसरु पहयपरु ।

गयसंखसत्तिसारंगधणू
रयणाईं सत्त एयाईं जसु
खयरामरा वि लद्धाडसया
साहिय तिखड सनिहाण मही
तहो रज्जु करंतहो सुहसयइं
एक्कहिं दिणि तहिं हयदुरियरिणु
खेयरणरमुरवरेहिं सहिउ

अरि आयवत्तु असि फुरियतणू ।
सिद्धाईं जयत्तण भमिउ जसु ।
जं मुक्कमाण सेवंति सया । १०
उप्पाइय सयणहं जेण दिही ।
माणंतहो पुव्वपुअकयइ ।
विहरंतु पराइउ नेमि जिणु ।
उज्जति परिट्ठिउ सव्वहिउ ।

घत्ता—त निसुणेप्पिणु सयलु जणु कुलकुबलयचंदे ।
वंदणहत्तिणु गउ तुरिउ सहुं विण्हुनारदे ॥४॥

१५

५

गाहा—सव्वे वि समवसरणे काऊण पयाहिण दुलइयगा ।
वदिवि घुणिवि जिणं उवविट्ठा निययकोठम्मि ॥

सायारु अणायारु वि सयलु
तिहुयणरवि ससयतिमिरहरु
परमेसर परममिरीधरहो
केत्तडउ कालु सुहदाडणिया
परमेट्ठि भणइ छणभायणहि
हरिरज्जु सजायव जणियरइ
पुणु रोहिणिपुत्ते गुणनिलउ
जिणु भणइ हिरण्णनाहतणउ
दीवायणु एहु पससियउ
मुउ होइवि अग्गिकुमारु सुरु

निसुणेप्पिणु धम्मु विमुक्कमलु ।
बलएव पुच्छिउ तित्थयरु ।
एवविह सपय केसवहो । ५
आहासहि होसइ थाइणिया ।
बोलीणहि बारहहायणहि ।
नासेसइ निच्छउ वारमइ ।
पुच्छिउ पहु होसइ किह पलउ ।
रोहिणिहे भाउ पयणियपणउ । १०
मुणि सबुकुमारे रोसियउ ।
जालेसइ बल वारमइ पुरु ।

घत्ता—जरकुमारहत्थेण हउ पईं परिहियछुरियण ।

पावेसइ पचत्तु हरि आयण विप्फुरियण ॥५॥

६

गाहा—अन्नोअपहारकयं भरण वियाणए वियलगत्ताण ।
मज्जेण जायवाणं सव्वाणं हिंसयंताणं ।

निसुणेवि एउ सजाउ दुहु
एप्पिणु पणवेप्पिणु जिणु सयलु
६ १ हिंसणंण ।

ओहुल्लिउ वधवजणहो मुहु ।
णीसारिउ मज्जभंडु सयलु ।

घल्लाविउ रेल्लाविउ वियणे
 गउ जरकुमारु छड्डेवि पुरी
 छुरिय वि घसेवि घल्लिय विउले
 सो धरिउ सफरु गलघत्तकमु
 तं तेण कुमारे पावियउ
 तहिं होतउ दीवायणु सबणु
 बारहवरिसेहिं संघसहिउ
 गिरिणयरिसमीवि भमियहरिहे
 सासयसिरिगहणुवकंठियउ

सखोहु जाउ जायवहें मणे । ५
 थिउ वणि यासांघवि विज्झगिरी ।
 मीणेण गिलिय मयरहरजले ।
 तहो उयरि खडु तहो भल्लिसमु ।
 किउ कडु सरगगु लावियउ ।
 गउ पुव्वएसु तवतत्तणु । १०
 आयउ अमुणतु मामु अहिउ ।
 एप्पिणु थिउ उटगीवगिरिहे ।
 आयवि सो जोगु परिट्टियउ ।

घत्ता—एत्थतरि जायव सयल सदरिसियलीलुगु ।

अणिवारियपयावपमर गय तहिं वणकीलुगु ॥६॥ १५

७

गाहा—कीलावसेहिं सुइर खब्भालिउ तहिं निएवि सो साहु ।

उवलेहिं पूरिदो पुणु सबुकुमारेणु सब्वंगो ॥

निसुणेप्पिणु मुणि संतावियउ
 पर तो वि न केम वि उवसमिउ
 एत्तहे ते तिसिय भमेवि वणु
 मत्ता पिवेवि अणिवद्धरया
 दीवायणो वि कोवेणु मुओ
 परियाणिवि वइयरु एवि तिणा
 सुहिसयणविओयसोयभरिया
 गय दुम्मण दणुअरिकुभिहरी
 गउ सलिलु पलोयहें सीरघरु
 तहिं जरकुमारु विहिणाणियउ
 कयमणिमयकंबलपावरणु
 मुउ कालहो कोवि नत्थि सयणु

हरिणा गतूण खमावियउ ।
 अच्चतकोवभावे दुमिउ ।
 सा जुत्त मुरा मन्नेवि यणु । ५
 अन्नोशु वि जुज्झवि खयहो गया ।
 भावणसुरु अग्गिकुमारु हुओ ।
 वारमइ पजालिय दुम्मइणा ।
 बलवासुएव पर उव्वरिया ।
 परिसमिउ मुत्तु तरुमूलि हरी । १०
 एत्तहे जहिं अच्चइ चक्कहरु ।
 ते जीउ अउव्वु वियाणियउ ।
 विद्धउ तगु भल्लिगु ललियतणु ।
 कि होइ असच्चउ जिणवयणु ।

घत्ता—बलु सोएँ केसवहो सवु छम्मास वहतउ ।

१५

संबोहिउ देवेण जइ जायउ उवसतउ ॥७॥

८

गाहा—दक्खिणदेसे तुगीपव्वयसिहरम्मि रइयसन्नासो ।

काऊण तथं तिव्वं उववओ बंभलोयम्मि ॥

माणु वि फुडु सव्वाणत्थघर
बलवत वि सयरनरिदसुया
आयन्नह निज्जियसक्कपुरे
नामेण सयरु बलङ्गु निवई
रयणाई चउद्दह णव मुनिही
पुरुदिव्वसोक्खसंजोयणइ
आहरणई पत्तपसंसणइ
जमु दिव्वु दसंगु भोउ सहइ

माणेण महावइ लहइ णरु ।
माणेण पणट्ठा पीणभुया ।
इह भरहखेत्ति [विणियानयरे । ५
होतउ] परमेसरु चक्कवई ।
सुर अंगरक्ख चमु दिन्नदिही ।
दिव्वाई वि भायणभोयणइ ।
णाडउ दिव्वाई नियंसणइ ।
गुणनिलयहो इदु वि गुण गहइ । १०

घत्ता—भाभासुर बलवंत गुणि पडिवक्खभयंकर ।

सट्टिसहास तामु सुयहूँ संजाय सुहकर ॥८॥

९

गाहा—दूरुज्झियमयपसरा पसरंतमहंतकित्तिसोहिल्ला ।

सोहतगोत्ततिलया तिह्वयणजणमणहरायारा ॥

ते सुदर रजियसयणसया
न गणति महत वि अवर नरा
एच्छता पेसणु रत्तिदिणु
कइलासि भरहराएँ कयइ
भुवणत्तयनाहनमसियइं
लइ जाह ताहँ रक्खणु कुणह
जिह दुस्समकालि अमाणवहं
ता तायाएसे सव्व जणा
तहिँ वारिय देवे मज्झ घर
किर चवइ काई को एहु कहो
ता भीमभईरहं मुण्णवि तिणा
चिरजम्मे सघनिदणहो फलु

गुरुगव्वगिरिदारुद सया ।
जगि अप्पाणउँ पेक्खति परा ।
जणणेण भणिय कवडेण विणु । ५
जिणभवणई मणिकंचणमयइ ।
हयदुरियई साहुपससियइं ।
चउदिसउ खोल्ल खाइय खणह ।
भज्जइ गइ अग्गाइ माणवह ।
अट्ठावउ गय ते तुट्टमणा । १०
मा खणहो विणासहो जाइ वरु ।
जा खणहिँ वयणु अगणेवि तहो ।
किय भप्परासि रोसियमइणा ।
पाविउ इउ आयत्तिउ सयलु ।

घत्ता—सो सुयसोण्ण रज्जु मुण्णवि निग्गथु ह्वेप्पिणु ।

१५

थिउ जिणवरतवि चक्कहरु सुव्वउ पणवेप्पिणु ॥९॥

१०

गाहा—संपत्तो निव्वाणं समं सपुत्तेहिँ रायउत्तेहि ।

सयरौ सक्कसयच्चियपयारविदो सुह देउ ॥

माया वि सब्बदोसहँ निलया
 मायाई जीवु दुक्खई सहइ
 तिरियचु नउंसउ थी हवइ
 इह भरहि भरहगामहो तणउ
 जूरिउ मायादोसेण जणु
 चपाहं समीवइ नाइ पुरु
 अहिमाणु न मुयइ मुएवि छलु
 सो भरैवि वसहु घरु नत्थि वओ

अविसासयरी पयणियपलया ।
 न कयाइ वि उच्चगोत्तु लहइ ।
 भवि भवि वचिज्जइ दुट्टमइ । ५
 अयणाई चउद्दह घणघणउ ।
 निड्डहिउ कुलालें सयलु कणु ।
 वडगामु अत्थि धणकणपउरु ।
 तहिँ वसइ पयावइ सीहवलु ।
 विक्कहँ भडाई कयाइ गओ । १०

घत्ता—चलइ न वीसत्थउ वसहु वासरु अइकतउ ।

रविअत्थवणसमए भरहगामे सपत्तउ ॥१०॥

११

गाहा—भडाणि तत्थ थविऊण देउले वधिऊण गोण च ।

जामच्छइ खणमेक ता महिलाओ समायाओ ॥

दे देहि विहाणए देहँ घणु
 पाविट्टउ परवचणरयउ
 चोराउलु गामु नव्वससिहे
 ता गामजुवाणा कइ वि जणे
 दुक्करिउ कहता लोयपिया
 अवरहिँ आवेप्पिणु कोणथिउ
 कि किज्जइ उज्जमु विहि वलिउ
 मग्गियउ विहाणे मोल्लु नियउ

अन्नोसु कहैवि तासु भवणु ।
 भडाई लएवि ताउ गयउ ।
 जग्गतु सइत्तउ थिउ निसिहे । ५
 सपत्त धूत्त वचणपवणे ।
 सह तेण गत नच्चत थिया ।
 फोडेप्पिणु भित्ति बइल्लु निउ ।
 चित्तहो लाहु भूलु गलिउ ।
 मिच्छुत्तरु देवि ताउ थियउ । १०

घत्ता—को तुहँ मूढा कवणु घरु के लइयई भडई ।

भुल्लउ काई चवहि अलिउ तुहँ वाहिउ भडई ॥११॥

१२

गाहा—वरिसाई सत्त घन्नतिणनिमित्तेण तेण कुद्धेण ।

कुभारेण सगामं दद्धं सिद्ध खल पत्त ।

गुण सयल वि लोहें जति खउ
 उच्चो वि निच्चकम्मई करइ
 लोहेण न जाणइ अप्पपरु

जिउ अग्गि व हम्मइ लोहगउ ।
 लोहेण सुधम्मु वि परिहरइ ।
 लोहेण अभक्खु वि खाइ नरु । ५

नियपुत्तु मियद्धउ लोहवसु
मारउं आढत्तु समित्तु तउ
एत्थत्थि कहाणउ कहमि वरु
तहो अत्थि तणउ रंजियजणउ
देवीहे अजियसेणाहे ह्ठउ
सिद्धत्थु महतउ चारुमई

आसाइयमहिसु यमासरसु ।
उव्वरिउ लेवि निम्महियभउ ।
उज्झहिं सीमंधरु धरणिधरु ।
नामेण मियद्धउ बहुगुणउ ।
चरमंगु अणगु व रूवजुउ । १०
उसहाइसेणु वणि लोयपई ।

घत्ता—सकडक्खउ सुपओहरउ गोवालायत्तउ ।

महिसीओ महिसिउ वरउ तहो अत्थि बहुत्तउ ॥१२॥

१३

गाहा—करिणि व्व सगेवज्जा घटारवराइया मणोहरिया ।

ताण मज्जे पहाणा अत्थि सुहद्दा महामहिसी ॥

गय वणहो मणोहरम्मि सरया
चिरवइरवसेण न रक्खियउ
वाराउ सत्त सो चेव ह्ठउ
पुणरवि आवत्तउ गहियगया
परियाणेवि तहे पसमणसमउ
सजायपसूय सुहद्द वणे
जाइभरु सो तहो भीयमणु
तेण वि दट्ठूण दयावणउ
मा वीहहि वच्छ न हणमि पइ
फसेण करहो सम्माणियउ

पसविय सा पड्डउ पउरपया ।
गोविदगोविदें भक्खियउ ।
तहे उयरे विहाणे एण मुउ । ५
नासेवि सुहद्दा दूरु गया ।
गोविदु वि अणुमगेण गउ ।
पड्डउ चट्टति दिट्ठ वयणे ।
पाएसु पड्डिउ कपंततणु ।
मभीसिउ सुउ महिसिहे तणउ । १०
तुह् दिन्नउ अभयपयाणु मई ।
सहुं जणणिण्ण जूहहो आणियउ ।

घत्ता—नउलु नामु किउ सयलहिं वि पणिवाउ करतउ ।

गयउ पमाणहो चाडुवहिं रजियजणचित्तउ ॥१३॥

१४

गाहा—तत्थागयस्स एकम्मि वासरे उसहसेणसेट्टिस्स ।

वयणेण तस्स सहसा पड्डिदो पाएसु सो सन्नी ॥

रंजिउ वणि निउ सेरिहु घरहो
तेण वि तहो हट्टे हट्टे कवलु
सुहुं चरइ पियइ ह्ठउ पोठतणु

दाविउ नमंतु सीमंधरहो ।
देवाविउ पाविउ पुरि अछलु ।
निषमन्निउ मन्नइ सब्वजणु । ५

नामेण नउलु तहिँ वणितणउ
 धारक्खिएण दुन्नयभरिउ
 संजायउ जणि पवाउ गरुउ
 तहो सुद्धिहेउ परिभावियउ
 सो महिसु एवि सकाए तउ
 पट्टणा दट्ठण पसंसियउ
 हिउंतु सतु लीलागमणु

जूयारिउ चोरियपरघणउ ।
 जाणेवि बंधेवि नेवि धरिउ ।
 जिह नउलु ह्यासु चोरु विरुउ ।
 पचउले लोहू तवावियउ ।
 तं दियहिँ लेवि राउलहो गउ । १०
 जणे भद्दयनामु पयासियउ ।
 गउ एककहिँ दियहं असोयवणु ।

घत्ता—तहिँ पुक्खरिणिहिँ विउलजले इच्छइँ कीलतउ ।
 जामच्छइ ता रायसुउ मियघउ सपत्तउ ॥१४॥

१५

गाहा—नियसहयरोहिँ सहिएण तेण दट्ठण मसलुद्धेण ।
 सहसा पच्छिमपाम्मो छिदेपिणु भक्खिदो तस्स ॥

तिहिँ पायहिँ कहव कहव वियलु
 पुहईसपासे पीडए नडिउ
 तेण वि तहो सन्नासेण वरा
 सहसत्ति समाहि लहेवि मुउ
 रूसेवि नरिदे ता सुतउ
 उवइट्ठु कज्जु कि कय कुमइ
 इय कहेवि तेण रायहो तणउ
 तक्खणे निक्खवियकम्मरयहो'
 गउ राउलु मंति नियच्छियउ
 तेणुत्तु सुमारियविसयरई
 हुउ केवलि तुह सुउ सक्कथुउ

लगतु विणिग्गयरुहिरजलु ।
 जाएप्पिणु आरडेवि पडिउ ।
 नवयार दिन्न तहो पावहरा । ५
 सोहम्मि महड्डिउ देउ हुउ ।
 मारहुँ सपेसिउ मति गउ ।
 एवाहिँ को धरइ कुविउ निवइ ।
 लेवाविउ तउ सुउ अप्पणउ ।
 केवलु उप्पन्नु मियद्धयहो । १०
 मारिय ते पट्टणा पुच्छियउ ।
 छट्ठाविय ते मई जाय जई ।
 महु सुउ मणपज्जवनाणजुउ ।

घत्ता—आयन्नेवि नरिदु तहिँ गउ गंजोल्लियमणु ।
 पुरउ निविट्ठु नवेवि पय जगगुरुहे सपरियणु ॥१५॥ १५

१६

गाहा—एत्थंतरे हिरामो फुरंतकेऊरकुण्डालाहरणो ।
 दिव्वविमाणारूढो महिसयदेवो वि तत्थाओ ॥

पणवेप्पिणु केवलि कलुसहर
जाणाविउ अप्पउ फुहइवई
तुह वयणु मरते भावियउ
पणवेप्पिणु कुगइविवज्जियउ
पच्चक्खु एहु पेच्छेवि जणु
निसुणेवि धम्मु वारियकुगइ
परमेसर तुम्हई काई एउ
ता हरिगलसेणावइपहइ
नियभवसबंधु सव्वु कहिउ

संयुउ सीमघरु रायवरु ।
हउं भद्दयमहिसु विसुद्धमई ।
पहु तेण सुरत्तणु पावियउ । ५
इय भणेवि तेण गुरु पुज्जियउ ।
हुउ सयलु वि जिणमयलीणमणु ।
पुच्छिउ पुहईसे परमजइ ।
सहुं भद्दयमहिसे जाउ खेउ ।
अवररोप्परु दावियदुहविहइ । १०
निसुणेवि निवेण मोहु महिउ ।

घत्ता—रायलच्छि नियनदणहो ढोइवि सिरिदत्तहो ।
किउ सामीवणु निक्खवणु तामु जे भयवतहो ॥१६॥

१७

गाहा—केहिं मि सजमनियम सम्मत्त त निएवि निक्कप ।
अणुगुणवयाई केहिं मि केहिं मि सामाइय गहिय ॥

अवरु वि आयन्नह लोहफलु
सगामि परसुरामेण हुउ
कोसलपुरि सहसबाहु निवई
नदणु पारोहपलंबभुउ
ते विन्नि वि जणपयणियपणया
सपरियण दीणजणदिन्नधना
नामे जमयग्गि पसिद्धु जणे
सियराममहिदराम सुमई
तहि कामधेणु तिह्वयणमहिया
तुट्टेण अरिजएण मुणिणा
दिन्नउ दालिदहो तेहि जलु

सुरधेणुहे लग्गि वि पहयखलु ।
सहसकरु वि समुउ विणासु गउ ।
महएवि महासइ चित्तमई । ५
तहे कत्तविज्जु नामेण हुउ ।
एक्काहिं दियहम्मि तायतणया ।
गय वारिबधु करिधरणमणा ।
निवसइ तहिं तावसु विभवणे ।
तहो नदण रेणुय कत सई । १०
सिद्धाण परसुविज्जण सहिया ।
दिन्नी नियभायरेण मुणिणा ।
चित्तिउ सुरसुरहि देइ सयलु ।

घत्ता—एत्तहिं हत्थि धरेवि रिसि आसमि जमयग्गिउ ।
दिट्टउ तेहिं नमसियउ विसहियपंचग्गिउ ॥१७॥ १५

१८

गाहा—अन्भागयपडिवत्ती तेण वि काऊण ते वराहारं ।
भुजाविया ससेणा सयणा सुरनंदिणीदिन्न ॥

लोहेण न किं पि मणुउ मुणइ
सा गाइ तेहिं पावेहिं हिया
विलवंत वणाउ समागएहिं
कहो केण ह्यासे हउ जणणु
ता कहिय असेस वि ताए विही
जणणीए समप्पिय पहयखला
सियरामु समाइरोसभरिउ
सकुडुव सपरियण वे वि हया

सुहि सुयणु सामि तवसि वि हणइ ।
जमयग्गि अदेतु वि हणिवि निया ।
परिपुच्छिय मायरि अगएहिं । ५
को अज्जु निरुत्तउ मरणमणु ।
आयन्निवि दुज्जणगहणसिही ।
सा पग्गुविज्ज अपमेयवला ।
अणुमग्गे ताहें लग्गु तुरिउ ।
ते बप्पपुत्त पायालि गया । १०

घत्ता—एउ वियाणिवि लोहतरु वड्डिउ वित्थारे ।

छिन्नह दुग्गइदुक्खफलु सतोसकुडारे ॥१८॥

१९

गाहा—कत्तविरियस्स भज्जा गुरुगम्भभरालसा भयक्कंता ।

पोमावइ नामेण नासिवि वण गया सुयणु ॥

सड्डिलासम गयाए
तं निएवि सब्वगुत्तु
सब्वभूमु एस बालु
ता सुभूमु मायरीए
भाविच्चक्कवट्टि तेण
पालिओ कोओ समत्थु
एत्तहे वि एक्कवीस
मारिऊण कुद्धएण
जामयग्गिणा असेस
पुच्छिओ निर्मित्ति सच्चु
तेण वुत्तु चारु दत्त
जेण दिट्ठु होंति भत्तु
अतयारि रायराउ
त सुणेवि दाणसाल
तत्थ वजणेहिं चारु
दाविऊण दंतपत्तु

जाउ पुत्तु तत्थ ताए ।
भासए मुणी तिगुत्तु ।
होसए विवक्खकालु । ५
कोक्किओ किसोयरीए ।
जाणिऊण तावसेण ।
सिक्खिओ ससत्थु सत्थु ।
वार संगरे महीस ।
माणिणा कुलद्धएण । १०
दिन्न बभणाण देस ।
कामु पासि मज्जु मच्चु ।
धित्त भायणे फुरत ।
सो महीसु तुज्ज सत्तु ।
होसए महापहाउ । १५
राइणा कया विसाल ।
तप्परिक्खहेउ फारु ।
दिज्जए दियाण भत्तु ।

घत्ता—एण विहाणे जाम तहिं रेणुयसुउ अच्छइ ।

एत्तहे ताम सुभूमु वणे नियमायरि पुच्छइ ॥१९॥

२०

गाहा—तं मादा माउलओ संडिल्लो एस लोयविक्खाओ ।

कहसु महासइ ताओ कवणो कहिँ अच्छए मज्झ ॥

ता सा रुयति रिउमद्दणहो
हा पुत्त पुत्त जमयग्गियहो
सियरामु नाम भुयबलवलिओ
तुह ताउ सताउ तेण निहओ
निक्खत्तवि खत्तिय सयल मही
सो चेव परसुविज्जागुणेण
गलगज्जवि एउ सुणेवि वली
दियवेसहिँ सत्तूगारु जाह
भोयणु वट्टियउ बइट्टु दिया
तक्खणं ते दिट्ठा भत्तु हुया
परिवेढिउ चउदिसु ताहिँ किह
कयपुन्नहो भिउडीभंगहया
तहो दत सराउ जि जाउ अरी

वित्तनु पयासइ नदणहो ।
तावसियससिहपचग्गियहो ।
सगामि न केण वि पडिखलिओ । ५
सुरषेणुहि लग्गिवि जाउ खओ ।
पडिगाहिय दियहँ दिन्न सनिही ।
हुउ परसुरामु पुज्जिउ जणेण ।
गउ कोसलपुरु अहिलसियकली ।
बंभणहिँ समउ पइट्ठु तहि । १०
दाविय निवपुरिसहिँ वइरि दिया ।
घाविय भड हणहणकारजुया ।
नीसकु सियालहिँ सीहु जिह ।
नासेवि समत्थहो समरि गया ।
तेणाहुउ निवडिउ नरइँ अरी । १५

घत्ता—सिरिचदु व उज्जोयकरु अरतित्थे पसिद्धउ ।

चक्काहिवइ सुभूमु हुउ गुणरयणसमिद्धउ ॥२०॥

विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले ॥
भुवणविदिदनाभे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिमिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदमजुत्ते ।
चउआहियवालीसमु सधी एणो परिसमत्तो ॥

॥ सधि ४४ ॥

एवमणुसट्ठी समत्तो ।

संघि ४५

१

ध्रुवयं—मुगहियसिक्खु वि निक्कवउ रणि अरिनारायहिँ भिज्जतउ ।
मुहडु व खवउ काइँ करइ दुसहपरीसहोँहँ अक्कतउ ॥

तेण सया गणिणा गुणवते
धीरेवउ अप्पउँ साहारहि
सिज्झइ इह परलोउ वि धीरहो
चिरकयकम्मवसेण पराइय
मुणि दीणत्तु करतु न लज्जहि
निहणगमणु वर अविचलवाणिहे
सुणु सूराजणम्मि सभाविद्य
सत्तुहँ समुहँ सरत न सकहिँ
आहासमि एत्थत्थि कहाणउ
वरु कप्पउरु अत्थि तहिँ राणउ

लेवावेवउ कवउ पयत्ते ।
नियगुरुकुलु नियनामु महारहि ।
वज्जइ अयसपडहु पर इयरहो । ५
विसहहे वेयणछुहत्तण्हाइय ।
लइ कम्मारिमडाप्फरु भजहि ।
नउ सवणहो दीणत्तणु माणिहे ।
अविगाढप्पहारसताविद्य ।
समरे मरंत वि वयणु न वंक्हिँ । १०
पट्टणु दक्खिणदेसि पहाणउ ।
सीलसेदु अमारिदसमाणउ ।

घत्ता—सीलमईमहएविवरु सावउ अभिगयसम्मादिट्ठिउ ।
सियअचमिउववासियउ जाम्मच्छइ नियभवणि परिट्ठिउ ॥१॥

२

ताम वेरि बहुसेणविराइय
सो वि सबलु सम्मुहउ विणिग्गउ
चूरिय संदण पाडिय हयगय
रिउणा कंडे कप्पपुराहिउ
जाय गरुय वेयण अगणेप्पिणु
जुज्झउ ताम जाम वइरिहि बलु
उच्छवेण पुरु विजइ पइट्टउ
मुच्छिउ कड्ढिउ कंडि सवेयणु
वुत्तउ देव देहु तुम्हारउ
पिज्जउ पेज्जु बेज्जु अं दावइ

सन्नहेवि तहो उप्परि आइय ।
दोहँ वि सेन्नहँ सगरु लग्गउ ।
मारिय सूर भीरु भज्जिवि गय ।
विद्धु भालि जयलच्छिपसाहिउ ।
भउडि करेवि उट्ठु पइसेप्पिणु । ५
निहउ पणट्ठु सेसु छड्ढिवि दलु ।
दिन्नासीसहिँ सव्वहिँ दिट्ठउ ।
किउ परिवारे पुणु वि सचेवणु ।
हुयउ समेण वियलु सुहयारउ ।
इयरहँ अगि समीरणु आवइ । १०

पट्टणा भणित पइज्ज न भंजमि
अवरु वि हीणसत्तु कि किज्जइ

अं भावइ तं होउ न भुंजमि ।
किं पुण जो निवपुत्तु भणिज्जइ ।

घत्ता—एम भणेवि भुक्ख जिणेवि तद्दिणि थिउ सलिलु वि परिवज्जिवि ।
अन्नहिं दिणि सुहियउ निवइ जिमिउ सपरियणु जिणपय पुज्जिवि ॥२॥

३

सावएहिं खज्जंत वि धीरा
निसुणसु भल्लुक्किप्र खज्जंतउ
मुणि नामें अवंतिसोमालउ
होंतउ णायमग्गरक्खियछलु
सोमसम्मु तहो तणउ पुरोहिउ
नियछक्कम्मनिरउ सुदरमइ
अग्गि व अग्गिभूइ पहिलारउ
अगहियसिक्ख मुक्ख होएप्पिणु
गोत्तिएहिं गोवइ पडु जाविउ
उट्ठालियसंपय ह्य दुम्मण

दिहिहे चलति न चत्तसरीरा ।
घोरप्र वेयणाप्र अक्कतउ ।
मरिवि समाहिउ गउ सग्गालउ ।
राणउ कोसवीपुरि अइवलु ।
कासविनामप्र भामइ सोहिउ । ५
नंदण दोन्नि तासु ह्य दुम्मइ ।
वाउ व वाउभूइ लहुयारउ ।
थिय घरम्मि गउ ताउ मरेप्पिणु ।
ते अजोग ते तप्पउ पाविउ ।
रायगेहु पुरु गय विन्नि वि जण । १०

घत्ता—सुज्जमित्तु नामेण तहिं मायहो भायरेण परियाणिय ।
आयन्नेवि वइयरु सयलु निट्ठण मलिणवेस सम्माणिय ॥३॥

४

गोवंतें संबंधु हियतें
चारु चउट्टह विज्जाथाणइ
आगय घरु पडु जाविउ राणउ
थिय सुहि होवि रायसम्माणहिं
एत्तहे सुज्जमित्तु उवसंतउ
भाणहुयासट्ठणियरइकंतउ
वंदिवि सिद्धखेत्तु कयनिट्ठउ
तहो आहार दिन्नु सिहिभूइं

अहनिसु लग्गिवि तेण पयतें ।
जाणाविय पावियसम्माणइं ।
लद्धु गृणहिं अहियारु चिराणउ ।
वेन्नि वि सीससयहें वक्खाणहिं ।
पासि सुधम्ममुणिहे निक्खंतउ । ५
कालें तत्थायउ विहरंतउ ।
भिक्खहे भिक्खासमप्र पइट्टउ ।
पावियनवविहपुअविहइ ।

घत्ता—मारुयभूइ एककु मुप्रवि तहिं वडयारणि मिलियहिं भट्टहिं ।
पेक्खेवि सिहिभूइहे नवणु वंदिउ साहु विमुक्कमरट्टहिं ॥४॥ १०

५

जेठें लहूउ वुत्तु कि मूठउ
पणमहि कि न पावखयगारउ
एयहो पायपसाएँ भाइय
तेण पउत्तु वुत्तु पई चगउ
जं असुइहें खवणयहे नविज्जइ
एउ सुणेपिणु त गरहेपिणु
अहि दयावउ नामे गंपिणु
विहियकसायपरीसहरिउजउ

अच्छहि गव्वगइदारूठउ ।
भयवं सामिसालु अम्हारउ ।
एह विहूइ अम्ह सजाइय ।
पर दियजाइहे एउ अजोग्गउ ।
अक्कमेण कुलकमु मइलिज्जइ । ५
वइराइ घराउ निम्पेपिणु ।
सुज्जमित्तमुणिपय पणवेपिणु ।
अग्गिभूइ सजायउ सजउ ।

घत्ता—निमुणेपिणु तववत्तु दुहससिमउलावियमुहसयवत्तु ।

रुसिवि पवणभूइ भणिउ ह्यवहभूइपियु ससियत्तु ॥५॥ १०

६

तुहें निक्किट्ठु दुट्ठु गरुयारउ
सुज्जमित्तु जगपुज्जु भडारउ
पडु पडिउ जणम्मि विक्खायउ
जइ एवाहिँ ह्यास नउ वदहि
तुज्जु अणिट्ठे तउ भतारें
एउ सुणेवि तेण सकसाएँ
नीसारिय' घराउ नगउ धिउ
वुत्तु ताउ मई पाउ तुहारउ
कडयड त्ति दतहिँ चावेवउ

अवरु विसेसे ताउ तुहारउ ।
निग्गुणु दुज्जणु दुक्कियगारउ ।
अस्स पसाएँ तुहें सजायउ ।
तो पच्चेल्लिउ निट्ठुरु' निदहि ।
नइउ विमुक्कमोयवित्थारे' । ५
ताडिय भाइभज्ज मिरि पाएँ ।
भणिय जाहि जहिँ अच्छइ तुह पिउ ।
अन्नभवतरि विपियगारउ ।
चूरिवि अट्ठिआइँ लावेवउ ।

घत्ता—धिय ससारि भमंति चिरु सा मुय एम नियाणु करेपिणु । १०

मरुभूइ' वि मुणिनिदणेण मुउ मूठउ कोठेण कुहेपिणु ॥६॥

७

वच्छाजणवपु कोसंबीपुरि
जायउ खरि पुणु गड्ढासूयारि
पुणु तासु वि सुय ह्यु जाइंभरि
पिप्पलाइँ भक्खती भुक्खिय
भासिउ भव भमंतु पेच्छह जिउ

मुणिनिदाफलेण इलयघरि ।
पुणु चपहे पाणहो घरि कुक्कुरि ।
अंषलिया कुरूव लवोयरि ।
सिहिभूई पेक्खेपिणु दुक्खिय ।
एहावत्थए वि जीवियपिउ । ५

१ निदर । २ लइ विमुक्क' । ३ नीसारिउ । ४ मरुभूए ।

मणपज्जयनाणेण मुणेप्पिणु
एहु सो तुज्ज सहायरु भायरु
हुउ खरि सूयरि कुक्कुरि भीसण
ता सा अग्गिभूइभयवतें

भणिउ सुज्जमित्तेण सुणेप्पिणु ।
वाउभूइ जिणमुणिनिदायरु ।
पुणु मायंगि एह दुहंसण ।
संबोहिय करुणावरचित्तें ।

घत्ता—सुणिवि पुव्वभउ उवसमिय पालिवि सावय [—वय] कालें मुय । १०
तेत्थु जि रायपुरोहियहो नायसम्मनामहो हूई मुय ॥७॥

८

गम्भे तिवेइयाहे उप्पन्नी
एक्कहिं वासरि नियसहियहिं सहुं
तहिं नायालए सुळुडु भाएँ
पेच्छिवि सहस समागयपणए
तेण वि कहिउ भाइ तुह केरउ
सो रासहि सूयरि साणप्पिय
एत्थु जि नयरि आसि संबोहिय
सा सावयवण संथाइय
ता सा सूरमित्तमुणिभासिउ
जाइंभरि दूरज्जिभयदुक्किय

नायसिरी नामेण रवन्नी ।
गय नायवणहो नाय नमंसहुं ।
दिट्ठु स गुरुणा चिरभवभाएँ ।
पुच्छिउ सुज्जमित्तु गुए विणएँ ।
जो चिरु वाउभूइ विवरेरउ । ५
होएवि ह्य चंडालि सुदुक्किय ।
जा पई पाउ करंति निरोहिय ।
एह पुरोहियमुय सजाइय ।
सुणिवि एउ चिरभवदुक्किलसिउ ।
हुय साविय सम्मतालंकिय । १०

घत्ता—सूरमित्तमुणिणा मुणिवि सिक्खविया सुए एउ करेज्जसु ।
जइ छट्ठाविज्जहिं वयई तो आणेप्पिणु महूँ अप्पेज्जसु ॥८॥

९

एउ करेमि भणेप्पिणु भवणहो
आयन्नेवि वत्त अहिसम्मं
अम्हई लोगुत्तम मलवज्जिय
अम्हई परकरणिउ वेउत्तउ
एउ सुणेप्पिणु कन्नए भासिउ
तो तामु जि अप्पहुं जें विन्नउ
वत्तिउ धीय लेवि आरामहो
वेच्छिवि पंथि पडहु वज्जंतउ
नायसिरीए जणेर पउत्तउ

गय सा पय पणवेप्पिणु सवणहो ।
भणिय पुत्ति पालियल्लक्कम्मं ।
बंभणवन्न जेट्ठु जगपुज्जिय ।
छट्ठुहि खवणयधम्मु अजुत्तउ ।
जइ खवणयवउ अम्हई दूसिउ । ५
एहि ताय ता तें पडिबन्नउ ।
पासु मुणिदहो निज्जियकामहो ।
बद्धउ पुरिसु एक्कु निज्जंतउ ।
शुद्धु रूवजोव्वणगुणजुत्तउ ।

वेडिउ जणसएहिं निदिज्जइ
ता विपेणाउच्छिउ तलवर

बदधु धरिउ किं कारणु निज्जइ । १०
तेण वि कहिउ असेसु वि बइयर ।

घत्ता—नायसम्म जूयारिण एण दुअट्टकोडिदव्वेसरु ।

जित्तउ सहसकहावणहें निवमतिउ वरसेणु वणीसरु ॥१॥

१०

मग्गिउ देइ न जा ता मारिउ
तेण एहु अम्हहें पुहईसे
आयभेवि कुमारिण पुट्टउ
मज्झु वि मुणिणा दुक्कियनिग्गहु
चत्ते तम्मि कियजीवविराहणि
ता तेणुत्तु पमाणहो गच्छउ
सुण्ण वासेण वि भारहि भासिउ
एम भणेवि जाम किर गच्छइ
बद्धउ पुव्वकमे निज्जतउ
पुच्छिउ कवणु दोसु किउ आए

रुसिवि छुरियपहारहें दारिउ ।
मारहें अप्पिउ पिसुणु सरोसें ।
ताय एउ मारिहे फलु विट्टउ ।
जीववहे वण्ण दिशु अवरग्गहु ।
एहावत्थ हउं मि पावमि जणि । ५
छहुहि अवर एउ वउ अच्छउ ।
जीवदयाहलु सुद्धु पससिउ ।
ता अग्गण्ण अवरु वि नरु पेच्छइ ।
वारिवि विरसतूरु वज्जतउ ।
ता तहिं कहिउ निरिक्कनिवाएं । १०

घत्ता—पासगामि वेसायडिय नामें वणिबई य पुव्वइया ।

अज्जु समाया एत्थ पुरे विक्कहें घन्नु घन्नविक्कइया ॥१०॥

११

मग्गिउ मिलिय सट्ठि पडिवअउ
तम्मि मविज्जमाणि आवेप्पिणु
अक्खिउ वंचत्तणयु वणिउत्ते
सप्पखद्धु वणि एहु पहाणउ
भणिउ एण जाणिवि अवरत्तउ
जग्गहें एहु एत्थु निसि धीरहें
एयहें मज्झु एण जाणेप्पिणु
आणिउ एहु एण इंधणभरु
एहु वि एउ मडउ रक्खंतउ
एहु चयारि वि ए मारिवि अवि

तेहिं धन्नु रट्टउडहो दिअउ ।
गाहक्कहो तहो एण मिलेप्पिणु ।
चित्तालिहिउ कहाणउ धुत्ते ।
एहु एत्थु हक्कारिउ जाणउ ।
उट्टावेसमि पसरि निरुत्तउ । ५
एयहें चउहें समप्पिउ वीरहें ।
आणिउ मिदउ एहु हरेप्पिणु ।
एण वि एहु एत्थ वइसाणरु ।
यिउ एककल्लउ निअभयचित्तउ ।
थिय भक्खंता' तामुग्गउ रवि । १०

१ भिक्खंता ।

घत्ता—एत्थु एहु एणुट्टुविउ गारुडिएण समतपहावें ।
बचिवि दिट्ठि जणहो लइउ धम्भु एण बहुकुडिलसहावें ॥११॥

१२

भेउ वियाणिवि दुभयहरणहो
तेण वि दोसहो दंडु वियप्पिउ
मई वि सामिआएमु करेवउ
एउ सुणेप्पिणु दुम्मियचित्तउ
ता विप्पेण भणिउ गुणगणजुए
एम भणेप्पिणु पुरउ पयट्टे
निज्जंतउ निएवि आरक्खिउ
अत्थि एत्थु सपयसपन्नउ
तहिँ रट्टउडवच्छु तहो दइयए
मोहिलेण मोदालियनामे
तेण वि भणिउ माम लज्जिज्जइ
बारह वरिसई वट्टु निएज्जसु

अक्खिउ तेहिँ गंपि निवकरणहो ।
रूसिवि राएँ मज्झ समप्पिउ ।
आयहो पदकरकमलु लुएवउ' ।
नायसिरीए वुत्तु पुव्वुत्तउ ।
अच्छउ एउ अवर थडुहि सुए । ५
अवरु वि गाढु बद्धु नरु भट्टे ।
पुच्छिउ तेण वि वइयरु अक्खिउ ।
जइ जाणहि सेल्लउरु रवन्नउ ।
जाया नदवोद सुय जइयए ।
नंदहो नियसुय दिन्नी मामे । १०
विणु अत्थेण केम परिणिज्जइ ।
जइ नावमि तो अन्नहो देज्जसु ।

घत्ता—सकुसले लगे मुहत्ते दिणे अहिमाणिउ पियरई पुच्छेप्पिणु ।
मिलिय मित्तु सत्थेण सहँ गउ बाणिज्जहो एम भणेप्पिणु ॥१२॥

१३

किचि वि कालाइक्कमु जायउ
हय पोढ तारुन्नरवन्नी
बहु विट्ठेवि दव्वु अणुराइउ
भासिउ ससुरेँ खमहो वियक्खण
परिणि पुत्ति लइ ता तेणुत्तउ
जं परिणिउ कलत्तु परिणिज्जइ
ता सा दोहिँ वि भाइहिँ वालिय
छड्डिवि सोहणाउ चउ कंतउ
उट्ठालेवि लेवि एत्थायउ
करणेँ भणिउ दडु दुहदावणु'
तन्निमित्तु असहियअन्नाएँ
आयन्नेवि एउ मणु सल्लिउ

पूरई बारह वरिसई नायउ ।
ताएँ बाली वोदहो' दिन्नी ।
छड्डु परिणिउँ ता नंदु पराइउ ।
अज्ज वि कि पि न जाइ सलक्खण ।
अच्छउ मामय एउ अजुत्तउ । ५
दुज्जसु अवरु पाउ पाविज्जइ ।
यिय नियतायहो मंदिरि बालिय ।
वणिसुउ एहु ताहे आसत्तउ ।
सुणिवि परंपराए विन्नायउ ।
तत्तलोहपडिमालिगावणु । १०
रूसिवि मज्झ समप्पिउ राएँ ।
फणिसिरीए पुव्वुत्तउ बोल्लिउ ।

१२. १ आयहो चरणकरकमलु लएवउ ।

१३. १ वेवहो । २ दंडु दुहहावणु ।

घत्ता—पडिवज्जिवि तहे वयणु पुणु नायसम्मु जामग्गए गच्छइ ।
पच्छा वहेहिँ बद्धु नरु अवरु ताम निज्जंतु नियच्छइ ॥१३॥

१४

पुच्छिउ कहइ निवाणावालउ
एयहो नियगोउलि कयहरिसँ
सव्वाण वि सा आइ करेप्पिणु
पुणु अणणे महएविहिँ केरी
ताए अणिट्ठु करेप्पिणु रायहो
ता अवरैहिँ वि सब्बहिँ कहियउ
पहुणा उत्तउ चत्तविवेयहो
आयन्नेवि एउ मणु कपिउ
मई वि जणेर जीववहु सच्चउ
मन्निउ परनरु जणणसमाणउ
सुहगइकारणाई जइ एयई
तो पावमि फलु जं पुव्वुत्तउ

एहु पुरोहिय निवगोवालउ ।
इच्छिय गाइ दिन्न पुहईसँ ।
गोठ्ठे गोठ्ठे एक्केक्क लएप्पिणु ।
लइय घेणु निव्वाडेवि सारी ।
जाणाविउ पच्चक्खु वि आयहो । ५
एणम्हाण वि गाविउ गहियउ ।
सूलारोहु करेवउ एयहो ।
पुणु सहुँ ताएँ [ताए] पयपिउ ।
वज्जिउ परहणु वयणु असच्चउ ।
अवरु वि चत्तु गंधु अपमाणउ । १०
वयई विवज्जमि विहियविवेयई ।
मुणिवि एउ विप्पेण पउत्तउ ।

घत्ता—मुक्कय एयहिँ वयहिँ तुहुँ होहि पुत्ति को पई विणिवारइ ।
वेयपुराणेसु वि भणिउ धम्मसीलु अप्पउ पर तारइ ॥१४॥

१५

कि पुणु एहि तत्थ जाएप्पिणु
जेण न अवराइँ वि खलु खवणउ
ता तुरिएण तत्थ जाएप्पिणु
भो रिसि कि पई सुय अम्हारिय
मुणिणा भणिउ न होइ तुहारी
एम भणेप्पिणु पुणु हक्कारिय
भणिउ अग्गिभूई रे बंभण
जाहि जाम अम्हेहिँ सनायहो
आयन्नेवि एउ तहिँ होंतउ
गउ जहिँ अच्छइ राउ बइट्टउ

आवहुँ सो नग्गउ जूरेप्पिणु ।
वेयारइ वेयत्थविहूणउ ।
भासिउ तेण दूरि थाएप्पिणु ।
देप्पिणु नियवयाई वेयारिय ।
बंभण एह धीय महु केरी । ५
आगय नायसिरी वइसारिय ।
दुज्जण दुम्मइ नायनिसुभण ।
खलियारियहिँ कहेवि न रायहो ।
अब्बंभणु अणाउ भणंतउ ।
अक्खिउ खवणएहिँ हउँ मुट्टउ । १०

१ अणभंतु ।

घत्ता—पुत्ति महारी नायसिरि पढु पालिय विसिट्टु ह्यवचय ।
परितायहि ताएहि लहु लेप्पिणु जावच्चंति न वचय ॥१५॥

१६

ता राएँ समेउ सयलु वि जणु
पुच्छिय पत्थिवेण तिहुयणथुय
मुणिणा भणिउ एह सुहयारी
जेण पयत्तपरेण पढाविय
ता सा निववयणेण सुहाविय
संगोवंगइँ सव्वइँ सत्थइँ
विभिण्ण नरनाहँ जइवरु
सुज्जमित्तमुणिणा पुव्वत्तउ
आयन्नेवि पुन्नपावहो फलु
कयविवेउ वइराएँ लइयउ

गउ जत्थच्छइ मुणि विभियमणु ।
कि अत्थणिय भणिय दियवरसुय ।
निच्छउ पत्थिव पुत्ति महारी ।
वेयच्चउक्कु संगु जाणाविय ।
सुदरि चारिवि वेय भणाविय । ५
अवराइँ वि निसुणेवि पसत्थइँ ।
पुच्छिउ वेयब्भसणहो वइयरु ।
ता वित्तंतु असेसु वि वुत्तउ ।
मुइवि रज्जु अवणीवइ अइवलु ।
रायसहासे सहँ पव्वइयउ । १०

घत्ता—फणिसम्मु वि फणिसिरिभवइँ दुक्खनिरतराइँ निसुणेप्पिणु ।
निव्विन्नउ निग्गंथु ह्हुउ सुज्जमित्तु महरिसि पणवेप्पिणु ॥१६॥

१७

नायसिरीए समेउ तिवेइय
अवरेहिँ वि निम्मलसम्मत्तइँ
अग्गिभूइ दियमुणि गुणगुरुणा
भाणवलेण सुक्ककम्म गउ
नायसम्मु परिचत्तपमायउ
सुदरु जणमणनयणाणंदणु
करिवि नियाणु सकम्मं चोइय
कालेँ नायसम्मु ततो चुउ
उज्जेणिहे जणनयणहँ रुच्चइ
वावीसंबुहि सग्गि वसेप्पिणु
सव्वजसहि उयरम्मि रवन्नी'
सुंदरि मालइमालावाहिय

जाय जइण तवसिणि निव्वेइय ।
लइयइँ सावयवयइँ पवित्तइँ ।
सहिउ सुज्जमित्तेण सगुरुणा ।
सेलि अग्गमदिरि मोक्ख गउ ।
अच्चुयम्मि सुरवरु संजायउ । ५
नायसिरी महु होज्जउ नंदणु ।
गय अच्चुयहो सपुत्ति तिवेइय ।
इददत्तइब्भहो तणुरुहु ह्हुउ ।
सुमइ सुरिददत्तु सो वुच्चइ ।
तहिँ जि सुहइहो सेट्ठिहे एप्पिणु । १०
घीय सुहइ नाम उपन्नी ।
सा सुरिददत्तेण विवाहिय ।

घत्ता—दरिसेप्पिणु सिविणय सुहय पुव्वपुन्नसंपयसंपन्नउ ।
नायसिरी चिरु सुरु चवेवि सुहदिणि ताहि तणउ उप्पन्नउ ॥१७॥

१७. १ सुव्व' ।

१८

सद्दित्त सो प्रवृत्तिसोमालउ
परिणाविउ बत्तीस सुवन्नउ
ताहँ निमित्तु तुग नं सुरहर
सुयह् समप्पिवि सिरि निव्विन्नउ
मायरीण नेमित्तित्त पुच्छिउ
जइयहँ एहु साहु पेक्खेसइ
नेमित्तियहो वयणु निसुणेप्पिणु
निग्गमु तणयहो तिह्वयणवदहँ
भवणज्जाणवणम्मि मणोहरि
सुदरु नियकुलकमलदिणेसरु

हुउ कालेण जुवाणु कलालउ ।
वणिउत्तीउ लडहलायन्नउ ।
काराविय पासाय मणोहर ।
जणणु जइण पव्वज्ज पइन्नउ ।
तेण वि तहो भवियव्वु नियच्छिउ । ५
तइयहँ फुहु पावज्ज लएसइ ।
चित्तित्त सुहदुदु दुक्खु करेप्पिणु ।
वारिउ धरि पइसारु मुणिदहँ ।
कीलणु कीलणवावि सरोवरि ।
गमइ अणेयविणोयहँ वासरु । १०

घत्ता—निसि कमलोयरम्मि निहियकलमसालितदुलपवरोयणु ।

भुजइ निरुवमु विविहरसु अट्टारहभवक्खिहँ किउ भोयणु ॥१८॥

१९

रयणुज्जोएँ सत्तमभूयलि
सुयइ समेउ पियाहँ वियवक्खणु
कहो उवमिज्जइ णयणाणंदणु
वाणिय अट्ट रयणकंबल हर
सुरवइदव्वु व' बहुमोल्लकिय
चलिय भमंत य पुरु दूसेप्पिणु
तेण वि पाणहियाउ रवन्नउ
वत्त सुणेवि राउ परिओसिउ
धन्नउ हउँ जसु नयरि महाजसु
तेण वि किउ उवयारु महतउ

वित्तवित्तित्ते चारुसेज्जायलि ।
जाणइ सयल कलाउ सलक्खणु ।
[अह दक्खिणपहाउ आगय पुणु ।
सव्वजणाण चक्खुमणसुहयर ।]
ते राएण वि लेहुँ ण सक्किय । ५
लइय सुहदुदु कचणु देप्पिणु ।
सुयवह्वयहँ कारावि वि दिन्नउ ।
गपि भवणु वणिउत्तु पससिउ ।
अत्थि धणड्डुपुरिसु पईँ जेरिसु ।
पहु पाहुणउ धरिउ नयवतउ । १०

घत्ता—सहुँ सोमाले वाविजले कीलतहो पुहईसहो पडियउ :

हारु मणोहरु अंगुलिउ कचणमउ माणिक्कहिँ जडियउ ॥१९॥

२०

रायाएँसें तहिँ जोयंतहिँ
कुंडल हार कडय कडिसुत्तई

पत्तईं अवराइँ वि सामंतहिँ ।
विभिउ पहु पेक्खेवि बहुत्तईं ।

१६. १ न ।

सहँ राएण वइदठु विसालप्र
 किप्र' उज्जोवइ दीवउ देप्पिणु
 पुच्छिय तज्जणेरि पहुणा सह
 ताप्र पउत्तु देव दीवयसिह
 तेणंसुयइँ सवति स विहोएँ
 कमलोयरवासिय तंदुल वर
 एहु अवर चाउल मीसेप्पिणु
 तेणाघाप्रवि' आसाएप्पिणु

वट्टिउ भोयणु भोयणसालप्र ।
 चक्खुगलणु निट्ठवणु निएप्पिणु ।
 मेल्लइ अंसु एहु कि थुक्कइ । ५
 सहइ ण पुत्तहो पविपहरणनिह ।
 अच्छइ एहु रयणउज्जोएँ ।
 जेमइ अवर कयावि न नरवर ।
 रंघउ भत्तुवजुत्तु करेप्पिणु ।
 निट्ठीवप्र सुउ विरसु भणेप्पिणु । १०

घत्ता—जयमाला'महएविवरु एहु सन्वु वइयरु' निसुणेप्पिणु ।
 बिभियमणु नियभवणु गउ त सुकुमालसामि सहेप्पिणु ॥२०॥

२१

ता तहिँ गणहराइमुणि एप्पिणु
 गंपि सुहइप्र संजमधारिय
 मज्झवरोहँ एउ करेवउ
 त पडिवन्नु तेहिँ थिय मोणें
 जोयखमावणकिरिय करंतहिँ
 आयन्निवि चिरभउ सुमरेप्पिणु
 मग्गिउ मुणिवउ तेहिँ न दिअउ
 पुच्छिय आउपमाणु नवेप्पिणु
 ता तवु सइँ सइँबुदुधु लएप्पिणु
 तहिँ अच्छंतु संतु सवसेज्जइ
 अइभुक्खियप्र भमंतिप्र लद्धउ
 तारिसु दूसहू दुक्खु सहेप्पिणु

थियउ जिणालप्र जोउ लएप्पिणु ।
 ते पणवेवि पढेवउँ वारिय ।
 जोग्गावहि मोणेणच्छेवउ ।
 गय चउमास वि विणु अज्झयणे ।
 पडिउ गरुयसइँ भयवतहिँ । ५
 तत्थ छलेण तेण जाएप्पिणु ।
 अत्थि सुहइए सहँ पडिवन्नउ ।
 गय ते तित्थि दिणाइँ कहेप्पिणु ।
 थिउ आहारु सरीरु मुएप्पिणु ।
 भल्लुकिए चिरभवभाउज्जइ । ०१
 चिरवइरेण सपुत्तिए खद्धउ ।
 परदेहु व नियदेहु गणेप्पिणु ।

घत्ता—मरिवि समाहिप्र धीरमणु उक्किट्ठाउ सुनिरुवमकायउ ।
 नलिणगुम्मे सुरहरि पवरे अच्चुयम्मि सुरवरु संजायउ ॥२१॥

२२

धन्नो परेक्को जए साहु सुकुमालु
 इय देवघोसं सुणेऊण तहि माय

को करइ किर एव अवरु महाकालु ।
 सहँ पुत्तपत्तीहिँ रोवति तत्थाय ।

२०. १ किउ । २ तेण साएवि ।

३ जए मासा । ४ एहु पउ एउ ।

बटूण दुक्खेण विलवेवि सिहि देवि
 भट्टहिं सगब्भाहिं विणु सेस भज्जाउ
 किउ कालु जहिं तेण लोयाण सो ठाउ
 सक्कारिओ तम्मि उत्तमगई लहइ
 पुज्जेवि भत्तीए लोएहिं सुहहेउ
 तहिं कलकलो जत्थ भज्जाण संजाउ
 गयणाउ गंघावय निवडिय जत्थ

मेत्लेवि घरवामु कोंतल वि लुचेवि ।
 जणणीए सहियाउ जायाउ अज्जाउ ।
 रक्खंति कावालिया तित्थु सजाउ । ५
 अज्जवि जणो देवि घणु तत्थ सवु डहइ ।
 तहो निसिहियालिगु महकालु ठिउ देउ ।
 हुउ कलयलेसरु सुरो तत्थ विक्खाउ ।
 गघवयनामं मसाण हुय तत्थ ।

धत्ता—सिरिचंदुज्जल एह [कह] जो सुकुमालमुणिहे आयन्नइ । १०
 सो उवसग्गपरीसहहें मरणयाले दुहु कि पि न मन्नइ ॥२२॥

विधिहरसविसाले जेयकोऊहलाले । ललियवयरणमाले अत्थसदोहसाले ॥
 भुवणविदिदनामे सब्बदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिषदपउत्ते सुबिच्चित्ते णतपयदसपुत्ते ।
 सोमालमामिच्चरियं पणयाजीसो इमो संधी ॥

संघ ४६

१

धुवयं—वग्धिप्र खज्जंतेण वि दूरुज्झियमलिण ।

पत्तउ मरणु समाहिप्र साहु सुकोसलिण ॥

तहो तणउ कहतरु वित्तु जेम
एत्थत्थि भरहे साकेयनामु
सुंदरु दरियारिगिरिदवज्जु
सुप्पह महएवि मणोज्ज तासु
बत्तीसकोडिषणवतु संतु
बत्तीसहें मज्झे पहाण पत्ति
जिह् सा तिह अवरराउ वि तियाउ
निप्पुत्तु न सोहइ वंसु केम
एक्कहिं दिवसम्मि महाइयाप्र
विउरंतिप्र कंतहो केसभारु

आयन्नह सुंदरु कहमि तेम ।
पुरु भुवणपसिद्धु मणोहिरामु ।
पयपालु राउ तहिं करइ रज्जु । ५
सिद्धत्थु सेट्ठि गुणगणनिवासु ।
बत्तीसपवरकंताण कतु ।
तहो जयवइ नामे चारुगत्ति ।
छणससिमुहीउ निप्पुत्तियाउ ।
विणु नासावसे वयणु जेम । १०
जयवइप्र सुवन्नसलाइयाप्र ।
सिरे पलिउ दिट्ठु न दुक्खभारु ।

घत्ता—तं मुट्ठीप्र लएप्पिणु कीलासत्तमणु ।

तुम्हहें दूउ समागउ ताप्र भणिउ रमणु ॥१॥

२

आयन्नएवि एउ वणीसरेण
कहि कते कत्थ सो दूउ किं न
पिययम न होइ पुहईसदूउ
तं नियवि अवरु नहे खयरजुम्मु'
तउ लेहें चलिउ ता सहयरेण
सामिय बहुलोयहो तुम्ह वसु
तुम्हहें तवेण नासइ निरुत्तु
निसुणेवि एउ वणिणा पउत्तु
सुयमुहु निएवि निच्छउ न ठामि
भासिउ मंतीसं एम होउ

पुच्छिय पिय दिसउ निएवि तेण ।
दीसइ ता चवइ सुवन्नवन्न ।
पेच्छसु पलियंकुरु धम्मदूउ ।
निव्विन्नउ सुमरेवि पुव्वजम्मु ।
विणिवारिउ वणिवइ मइवरेण । ५
आधारभूउ पावियपसंसु ।
तेणच्छह ता जा' होइ पुत्तु ।
तुह वयणु करमि जइवि हु अजुत्तु ।
तवयरणहो सइं सहयर हु' जामि ।
पच्छा को धीरइ सुयह भोउ । १०

२. १ खयर' । २ जो । ३ सयरहर ।

घत्ता—थिप्र पिययमे पुत्तत्थिणि जयवइ एक्कदिणे ।
अहि अच्चन्ती एक्के मुणिणा दिट्ठ वणे ॥२॥

३

जाणेवि भणिय किं अहु हरति
जिणघम्मु मुएवि न अन्नु देइ
तेणुज्झहि' लोइयधम्मु देउ
किं बहुणायन्नहि कहमि गुज्झु
अवतार लएसइ सत्तमम्मि
होसइ सुउ साविण गुणनिकेउ
हरिसिय निसुणेप्पिणु पुत्तजम्मु
रयणिहिं सिविणतरु दिट्ठु चारु
समएण सलक्खणु गुणनिहाणु
पर को वि न कामु वि कहइ वत्त

चित्तियफलु मिच्छादेव देति ।
अहिलसिउ वत्थु उअइहिं नेइ ।
अराराहहि भत्तिप्र अरुहदेउ ।
सग्गायउ सुरवरु गग्गि तुज्झु ।
दिवसम्मि भहि पुत्तोययम्मि । ५
रूवेण परज्जियमयरकेउ ।
गय वणिवहु मुणि पणवेवि हम्मु ।
सत्तमे दिणे हुउ गम्भावयारु ।
सुउ जाउ तीप्र तेएण भाणु ।
वाराविउ उच्छउ लोयजुत्त । १०

घत्ता—लजियाप्र सवयसिहे गुज्झु न रक्खियउ ।
तामेक्कहिं दिणि पवलिहे बाहिरि अक्खियउ ॥३॥

४

आयन्नहि हले सुहयारियाप्र
सुउ जाउ न तारिसु अवरु कोइ
निसुणेवि एउ आणदिएण
गपिणु बद्धाविउ वणिवरिदु
तेण वि निसुणेप्पिणु बंभणासु
जयवइमहएविहे भवणु एवि
घणदेउ नामु जणणेण दिनु
हुउ सव्वहे मणि आणंदु जेण
तुहुं अम्महे कुलि संजणियतुट्ठि
इय भासिवि पुत्तहो पट्टबंधु

गोसामिणीप्र अम्महारियाप्र ।
पर अज्जवि जणु जाणइ न कोइ ।
निस्सेण सोमसम्मं दिएण ।
हुउ तुज्झ तणउ कुलकुमुयचदु ।
तूसिवि सउ गामहे दिण्णु तामु । ५
वयणारविदु तणयहो निएवि ।
मग्गणजणाण दालिदुदु छिन्नु ।
बाहिरिउ सुकोसलु सो ज्जि तेण ।
अज्जप्पहइ पुहईससेट्ठि ।
काऊण खमाविउ सयणवधु । १०

घत्ता—पणवेप्पिणु विणयंघरु साहु विहूयरउ ।
बहुसामंतहिं सहियउ हुउ वणिवइ विरउ ॥४॥

३. १ तैणुज्जेवि ।

५

पव्वइए नाहे गयवरगईउ
भरुजाउ असेसउ अज्जियाउ
जयवइ भत्तारहो उवरि रोसु
घाईउ पंच पुत्तहो निमित्तु
सुव्वय विसुद्ध पय थन्नु देइ
सुमई भुजावइ ण्हवइ लच्छि
एयाहिँ निच्चु पालिज्जमाणु
बत्तीस नराहिवपुत्तियाउ
किउ जाणएण आएसु एहु
निमुणेवि एउ दूमियमईए

जयवइ मुएवि सुंदरमईउ ।
जायाउ जयत्तयपुज्जियाउ ।
च्चिय लेवि निरंतरु देइ दोसु ।
घरियाउ ताए दाऊण वित्तु ।
नंदा खेलावइ संथवेइ । ५
मंडइ घणमाला पंकयच्छि ।
कालेण पढिउ जायउ जुवाणु ।
परिणाविउ कुलगुणजुत्तियाउ ।
मुणि निएवि लएसइ तउ सुमेहु ।
वारिउ घरि साहुपवेसु तीए । १०

घत्ता—घणदेउ वि मायाणए गुणनिहि सचरइ ।

अच्छइ विविहविणोयहिँ घरहो न नीसरइ ॥५॥

६

सुपइट्टसव्वभट्टाइयाहँ
चउसट्टिहिँ मज्जे मणोहिरामे
सहुँ धाइहिँ जणणिए परियणेण
मज्जन्नसमए अच्छतएण
कयमासोवासु विसुद्धलेसु
चरियहिँ नियघरि पइसतु संतु
को एहु कलागुणकोसलेण
ता त निएवि गव्वियमईए
निक्कप्पडभोयणु खीणदेहु
सुहिसयणविवज्जिउ पुन्नहीणु

पासायहँ कम्मविराइयाहँ ।
एक्कहिँ दिणि पुहुईसारनामे ।
सहुँ जुवइहिँ रंजियजणमणेण ।
पुरु रयणगवक्खि नियतएण ।
तवसिरिवरु अट्टितयावसेसु । ५
आलोइवि मुणि दुक्कियकयंतु ।
पुच्छिय नियमाय सुकोसलेण ।
नंदणहो पयासिउ जयमईए ।
कुलमंडण को वि अणाहु एहु ।
भिक्खत्थिउ घरि घरि भमइ दीणु । १०

घत्ता—आयन्नेवि सुकोसलु सुंदरमइ चवइ ।

निच्छउ एउ कयाइ न मायारि संभवइ ॥६॥

७

सत्थियनदावत्ताइयाहँ
जारिसइ अस्स दीसंति काए
१ तारिसइ अणाहु न होइ काए ।

विविहइ लक्खणइ विराइयाहँ ।
तारिसइ न होइ अणाहकाए ।

नउ भमइ भिक्ख सुहिसयणहीणु
जयवइए भणिउ जइ एहु भदंडु
मगंतु भिक्ख घरि घरि ससंकु
ता सुब्बयाए धाईए वुत्तु
तुम्हारए पुरिसपरंपराए
ता जयवईए सा करिवि सघ्न

तुच्छइ लच्छीइ न होइ दीणु ।
ता दुक्खिउ कि जायउ दरिदु ।
परिभमइ तणुभव एहु रंकु । ५
तुह देवि साहु निदहुँ न जुत्तु ।
सुम्मइ तउ लइउ परंपराए ।
अच्छीहिँ निवारिय थिय विसन्न ।

घत्ता—ता सुप्पहए पउत्तउ कि करलक्खणाहिँ ।

सुहसंपय परपुत्तहिँ लब्भइँ नउ गुणाहिँ ॥७॥ १०

८

सुणि नाणासत्थवियक्खणा वि
सुम्मति रामलक्खणपहइ
अवरे वि इब्भसुय रायउत्त
अलहत दीण देही भणत
विणु पुत्तहिँ पुत्तय तेण तेहिँ
अवरु वि आयन्नह अत्थि एत्थु
सो आहारत्थु कयाइ नगु^१
पासंडियवेसु कयाइ भमइ

बलविककमवंत सलक्खणा वि ।
पडुसुय पयंड वि निव्विहइ ।
बहुलक्खणवंजणगुणाहिँ जुत्त ।
दीसंत जेण भिक्खं भमत ।
कि किज्जइ सोहणलक्खणेहिँ । ५
नरु एक्कु अकिचणु वाहिघत्थु ।
परिहिउ कयाइ उद्धूलियंगु ।
चिरकियदुक्कियवसु दिवस गमइ ।

घत्ता—अवरु वि भीमु भणिज्जइ सयणविवज्जियउ ।

अत्थि इत्थु भिक्खारिउ दुक्खपरज्जियउ ॥८॥ १०

९

सागडिउ अवरु संजायदोसु
भोयणमेत्तहँ वि अभावे जाए
पुरे भिक्ख भमतु जणोहु नियइ
अवर वि एवविह पुत्तहीण
विणु पुत्तहिँ सब्बत्थ वि अणत्थु
फुडु अलजालु महु मोहहेउ
चितंतु सुकोसलसेट्ठि जाम
विसवित्त एहि मायगगामि

दडिउ करणेण करेवि रोसु ।
भूक्खासुहसोसिए सुक्खे काए ।
निल्लज्जु समणवेसेण जिणइ ।
मगंत लोए दीसति दीण ।
पुच्छह कुमार भणु काई एत्थु । ५
एयाहिँ पयासिउ सब्बु एउ ।
अच्छइ सूयारें एवि ताम ।
वट्टइ तुह भोयणसमउ सामि ।

१ कया न ज्जगु ।

घत्ता—ठाइज्जउ मज्जणहरे रायरोसरहिउ ।

ण्हाएप्पिणु पुज्जेज्जउ देउ देवमहिउ ॥९॥

१०

१०

तहो वयणाणंतरे जयमईए
भासिउ भज्जाए सयपहाए
सोमसिरिए नंदए सिरिमईए
पियमइए पियगुसिरिए पियाए
सिरिकंतए अवरु ससिप्पहाए
सरसइए अणंतमइए सईए
बधुसिरिए धन्नए धणमईए
उट्टह लहु वट्टइ वहु वार
ण्हाएप्पिणु पुज्जह देवदेउ
को एहु एउ जाणिउ न जाम

तह सुव्वयाए सुंदरमईए ।
सिरिदत्तए मित्तए सुप्पहाए ।
बंधुमइए सुमइए सुहमईए ।
विमलमइए विमलए तडिलयाए ।
अवराइयाए विजयए जयाए । ५
गुणमइयए गुणमालए रईए ।
तरलच्छिए लच्छिए जयसिरीए ।
सिद्धी रसोइ नाणापयार ।
वज्जह वासंगु म करह खेउ ।
तेणुत्तु न भोयणु करमि ताम । १०

घत्ता—ता तहो गाहु निएप्पिणु गुज्भु न रक्खियउ ।

एहु जणेरु तुहारउ धाइए अक्खियउ ॥१०॥

११

नामं सिद्धत्थु सिमुत्तकाले
निव्विन्नचित्तु निग्गथु जाउ
मासोववाससोसियसरीरु
इह पुत्त वीरु भिक्खए पइट्ठु
आयन्नेवि एउ सुकोसलेण
फुहु मई वि समुज्झियरइरसेण
इय भणेवि धरिज्जतु वि घराउ
पुच्छंतु सतु उज्जाणभवणु

बंधेवि पट्ठु तुह तणय भाले ।
रिसि तउ करतु अज्जेत्थु आउ ।
सायरणंभीरु गिरिदधीरु ।
भामरे भमेवि पई जतु दिट्ठु ।
जंपिउ सुहिसज्जणवच्छलेण । ५
भुजेवउ होएवि तारिसेण ।
निग्गउ सहसत्ति मणोहराउ ।
गउ दिट्ठु साहु कंदप्पदवणु ।

घत्ता—तं जोइवि जाईसरु जायउ सेट्ठिसुउ ।

सुमारिउ पुव्वभवंतरु जो जहिं जेम हुउ ॥११॥

१०

१२

मलयायलि नामं सुंदरासु
होतउ आलोयह कम्मभंगि

हउं पोमावइ पिय गयवरासु ।
वीया मलया मयणालसंगि ।

सहूँ दोहिँ वि करिणिहिँ करिपहाणु
तामेवकहिँ दिणे मज्झुवरि हट्ट
आवेप्पिणु सुत्थिय जणवयम्मि
सिरिदत्तहो वणिहे सुरूवियाहे
पोमावई वि आउक्खयम्मि
भज्जाहि पियगुसिरिहे वरगु
सोसियविरहियणवसतमासे
जिणभवणे गधमायणनिवेण
पुच्छिय ता केण वि कहिय एह
निसुणेवि वियभियमयरकेउ

जामच्छइ अहनिमु कीलमाणु ।
मलया पव्वयहो पडेवि नट्टु ।
चपापुरे अगाजणवयम्मि । ५
संजाय सुकेसी सुय पियाहं ।
जियरगवणिहे तेत्थु जं पुरम्मि ।
सजाउ पुत्तु नामं वरगु ।
एवकहिँ दियहम्मि वसतमासे ।
सा दिट्टु बाल चपाहिवेण । १०
सिरिदत्तसेट्टिसुय चारुदेह ।
गउ तुण्हक्कउ पहु नियनिकेउ ।

घत्ता—एत्तहे पुज्जेप्पिणु जिणु गपिणु निययघरे ।

अपिय सेस सुकेसिणु तायहो तणणु करे ॥१२॥

१३

तेण वि नवजोव्वण निणवि धूव'
पुच्छिय कहो दिज्जणु कति कन्न
घणबधु बधु महु तामु पुत्तु
पडिवसु वयणु तं वणिवरेण
तेणेवि भणिउ वणिवइ विणीय
राउ वि ता तहिँ सयमेव आउ
सहूँ ताणु करंतहो रडविलासु
एक्कहिँ दिणम्मि परबलपमत्थि
केमवि आवइ न निरंतराले
खब्भालिउ तेण वि सयलु सेणु

हक्कारेवि नियगेहिणि सुरूव ।
रूवेण रइ व्व सुवन्नवन्न ।
घणमित्तु देहि त ताणु वुत्तु ।
एत्तहे पेसिउ णरु नरवरेण ।
दिज्जउ पुहईसहो नियय धीय । ५
दिन्नी सुय पाणिगगहणु जाउ ।
वरिसाई चयारि गयाई तामु ।
आणिउ गहणाउ घरेवि हत्थि ।
थिउ नयरासन्नवणतराले ।
ओसरेवि परिट्टिउ मणि विससु । १०

घत्ता—आयन्नेप्पिणु वइयरु णहु जयलद्धजउ ।

तहो धरणत्थु वणंतरु ताणु समेउ गउ ॥१३॥

१४

गंतूण तत्थ विरइउ उवाउ
बारिहे गणियारिहे गिरिसमाणु

नरनाहिँ दूरहो दिट्टु नाउ ।
पेक्खेप्पिणु पइसारिज्जमाणु ।

१३. १ नियवधूव ।

३०

महएवि सुकेसी मलय रम्मु
 कि मुच्छिय पुच्छिय पिण्ण गंपि
 भायाए लिहावेवि पुव्वजम्मु
 एत्तहे निवेण वसि किउ करिउ
 जो पेसिउ सिरिसुहनिहि निवेण
 दुद्दमदमु दंति दमिउ सुणेवि
 ता कहिउ तेण तुट्ठा ण देव
 कि सुंदर मलयगिरिदनाउ
 किर साहसु पड्डयदमणे कवणु
 पुच्छेप्पिणु पिययम पालिएलु

मुच्छिय सुमरेप्पिणु पुव्वजम्मु ।
 तहो मिच्छुत्तरु दाऊण कि पि ।
 थिय पेच्छंती गयचित्तयम्मु । १
 परिओसिउ परियणु सयणविउ ।
 पुच्छिउ बद्धावउ सो निवेण ।
 कि मज्झ सुकेसी तुट्ठ देवि ।
 सा एउ पयंपइ सावलेव ।
 साहिउ परिओसिउ जेण राउ । १०
 निसुणेवि एउ अहिमाणभवणु ।
 गउ पड्डु सहुँ सेअँ मलयसेलु ।

धत्ता—सो सुरकरि व पयंडवलु लक्खणहि पसाहिउ ।

तत्थाणय उवाय किय पर तो वि न साहिउ ॥१४॥

१५

ता रुसेप्पिणु कयविप्पिएण
 मोत्तियइँ दंतमुसलाइँ लेवि
 ता ताइँ गाढमालिगिऊण
 किमिणं भणंतु भग्गाणुराउ
 तहे मरणे वेरग्गागएहिँ
 जसहरमुणिपय पणवेवि दिक्ख
 बहुकालेँ पुणरवि सो ज्जे साहु
 गउ बंदणहत्तिए तासु राउ
 अक्खइ सुहदुक्खनिरंतराई
 कंचीपुरे गंधारहो निवासु
 सुपसिद्धु सेट्ठि वीरसिरिकंतु

माराविउ करि पुहईपिएण ।
 अप्पियइँ पियहे नियनयरु एवि ।
 मय सा हा पिय इय जंपिऊण ।
 थिउ विभियमणु खणु एक्कु राउ ।
 जणणीए जणेरेँ सुहिंसएहिँ । ५
 पडिगाहिय जिणवरसमयसिक्ख ।
 आयउ हुउ केवलि तिजगनाहु
 पुच्छिउ पणवेप्पिणु वीयरउ ।
 सिरिदत्तमुयाहे भवंतराई ।
 नामेण सुदंसणु गुणनिवासु । १०
 पियदंसणु तहो सुउ रुववंतु ।

धत्ता—तहिँ जे नंदिसेट्ठिहे सुय कलकोइलरवहे ।

कित्ति नाम उप्पन्नी भज्जहि अइहरहे' ॥१५॥

१६

गुणवंतहो रंजियजणमणासु
 एक्कहिँ दिणे वणमयगलु धरेवि
 तहो रुउ निएप्पिणु वणविलासु
 १५. १ अइहवहे ।

दिन्ना सा सइ पियदंसणासु ।
 आणिउ निवपुरिसहिँ वसि करेवि ।
 आयन्नेवि संजणियाहिलासु ।

सह्यै पिययमाप्र मोहियमणेण	बद्धउ नियाणु पियदंसणेण ।	
अहिणासिउ मलप्र मरेवि जाउ'	सुदरु नामेण मणोज्जु नाउ ।	५
भमरिंदनीलगवलजणाहु	गिरिगरुउ पयडु पलंबबाहु ।	
कित्ती वि सोयसंजणियपलय	हुय करिणि तासु नामेण मलय ।	
करिवइणा तेण अणोवमाहे	चिरजम्मसणेहवसेण ताहे ।	
सब्बावत्थासु वि साहिलासु	दाहिणउ समप्पिउ देहपासु ।	
रत्तुप्पलदलवन्ना विणीय	पोमावइ वीया हत्थिणीय ।	१०
रयकारिणि सुयणु गयाहिवासु	वामासप्र सा संचरइ तासु ।	

घत्ता—ताहँ विहँ वि सो संठिउ सोहइ मज्जे किह ।

तारतंबडोगरियहँ अंजणसेलु जिह ॥१६॥

१७

सम्माणु दाणु मलयावईहे	काऊण करइ पोमावईहे ।	
इय सेज्जहे तेण वसतएण	तहिँ ताहिँ समउ रमंतएण ।	
एक्कहिँ दियहम्मि मणोहरम्मि	ण्हाएवि पहंकरसरवरम्मि ।	
मयरसकणरुटियमहुयराई	तोडेवि बेन्नि इदीवराई ।	
धुत्तेण सणेहपरिक्खहेउ	मलयावईहि संजणिउ खेउ ।	५
वामासप्र सा वलिऊण घित्त	पोमावई वि दाहिणि निहिस्त ।	
दाऊण ताहे कुवलउ करेण	मलयाहि दिन्नु मयणिब्भरेण ।	
मलय वि अहिमाणेँ तं निएवि	मुय पव्वयाउ अप्पउँ घिवेवि ।	
सजाय सुकेसी एत्थु एवि	सिरिदत्तपुत्ति तुह तणिय देवि ।	

घत्ता—हत्थिधरणु' पेक्खेप्पिणु रत्ते भवंतरिउ ।

१०

हुय जाइंभरि सयलु वि वइयरु संभरिउ ॥१७॥

१८

हा पेच्छह केरिसु कम्मभाउ	वीसरिउ महारउ पेम्मराउ ।	
महु भरणेँ कइवि दिणाई दुक्खु	काऊण करीसरु सुंदरक्खु ।	
पोमावईप्र सह्यै कीलमाणु	अच्छइ सुहेण वणे विहरमाणु ।	
सह्यै ताप्र सब्वलक्खणपसत्थु	तिह करमि जेम सो एइ एत्थु ।	
चित्तंति एउ विच्छायवयण	जामच्छइ सा सारंगनयण ।	५
ता ताहे पासु पई पहिउ पुरिसु	आयउ परिपुच्छिउ जणियहरिसु ।	
१६. १ नाउ ।	१७. १ हत्थे धरणु ।	

दमियम्मि मयंगवरे मणोज्ज
ता कहिउ तेण सामिय न तुट्टु
सहूँ पोमावइयए कीलमाणु
साहेवि इहाणिउ कि निवेण
पहुउ वराउ साहिउ अणत्थु

कि तुट्टु सुकेसी मज्झ भज्ज ।
पच्चेलिउ जपइ एउ रुट्टु ।
मलयायले सुंदरु करिपहाणु ।
आणंदु पणच्चमि अज्जु जेण । १०
किउ राएँ साहसु कवणु एत्थु ।

घत्ता—एउ सुणेप्पिणु पुच्छिय सा पइँ गंपि सई ।
केरिसु एत्थच्छंतिए कहिँ सो दिट्ठु पइँ ॥१८॥

१९

ता अप्पउँ ताए रहंतियाए
बिज्जाहरीए मइँ आसिकाले
पोमावईए सहूँ कीलमाणु
निसुणेवि एउ रिउसाहणेण
सो ताए सहिउ दिट्टुउ रमंतु
सक्किउ केम वि साहहूँ न जाम
ता तहो तइँ मुत्ताहल फुरत
आणेप्पिणु दक्खालिय निएवि
हा वणे अच्छंतु सुहेण नाउ
मइँ पावइँ माराविउ मणोज्जु

भासिउ धुत्तीए हसंतियाए ।
दिट्टुउ गयाए सो तम्मि सेले ।
करिणीए कुलिसकरकरिसमाणु ।
गउ तहिँ तुहूँ समउ ससाहणेण ।
करिवेसे न वीयउ कयतु । ५
माराविउ सो पइँ हत्थि ताम' ।
मायगवरहो मुहरुह सहत ।
गय परमविसायहो तुज्झ देवि ।
चिरभवभत्तारु महाणुभाउ ।
कलि किय हउँ महु सिरि पडउ वज्जु । १०

घत्ता—दतजुयलु आलिगेवि इय चिततियहे ।
फुट्टुउ हियउ मयच्छिहे जीविउ गयउ तहे ॥१९॥

२०

निसुणेवि एउ पुहईसरेण
एवहिँ कहिँ तहे संजाउ जम्मु
सोरट्टुविसए अवणीसरासु
अइबलहो मणोहरि नाम धूय
तेत्थु जि सुदरु वि पुरोहियासु
नंदणु नामेण कुबेरकतु
तत्थेव घणामर वणिवरासु
पोमावइ जो जायउ वरंगु

पुणु पुच्छिउ जिणु सविणयसरेण ।
ता कहइ नरिदहो निहयजम्मु ।
गिरिनयरि नयरि तुह किकरासु ।
महएविहे सा गोरियहे हूय । ५
विजयहो कुबेरदइयापियासु ।
संजायउ चंपाहिवइकंतु ।
घणवंतहो घणदेवीवरासु
सो सिरिधरु तहो सुउ हुउ वरंगु ।

१९. १ वहाँ इतना अधिक पाठ है—'मूय निययनिवासहो निय जाम ण' ।

तहो जम्मसणेहिं एक्कचित्तु
वेन्न वि दिणदिवसयर व सहति

संजायउ मित्तु कुबेरकंतु ।
एकत्थ रमति भमंति यति ।

१०

घत्ता—एक्कहिं दिणे सुहिणे सुहि विच्छायाणणउ ।
पेच्छेवि पुच्छिउ' कि तुह्वं दीसहि दुम्मणउ ॥२०॥

२१

ता सिरिहरेण तहो कहिय वत्त
तुह पिय मणिकंबलु वीसरेवि
ईसावस महु पिय त निएवि ।
हा ह्यउ विरूवउ इय चवतु
पेच्छेवि भेत्ताणी मुय मयच्छ
जायउ जाईसर हियपहाणु
भासिउ वयंस इसाइ नडिय
मुय मलया नामे महु मणोज्ज
इय मित्तहो कहेवि सिणेहवतु'
होएवि गहिल्लउ बुद्धिवतु

आयन्नहि मित्त कुबेरकत ।
... .. ।
मुय पासायहो अप्पउं धिवेवि ।
गउ तहिं तं नियह्वं कुबेरकंतु ।
पासायहो पडिय कुबेरलच्छि । ५
सभरेवि तेण चिरभवविहाणु ।
जिह आसि मलय सिहराउ पडिय ।
तिह एवहिं इह तुह एह भज्ज ।
कहिं पेक्खमि सा इय चित्तवंतु ।
उज्जेतहो गयउ कुबेरकतु । १०

घत्ता—तत्थ खगिदे केण वि कइवि विमोहणिय ।
दिन्न विज्ज तूसेप्पिणु तामु विउत्त्वणिय ॥२१॥

२२

ता एवि निवगणे गायमाणु
दियपुत्तु निएवि मणोहरीण
पेसिय सहि हक्कारह्वं न एइ
अप्पिउ पडु जहिं चिरजम्मु लिहिउ
तं पेच्छेवि मुच्छिय पडिय कन्न
एत्तहे परिहरिवि गहिल्लवेसु
पुच्छिउ ताएँ तुह्वं कि निमित्तु
ता कहिउ तेण जो जेम वित्तु
ता तहिं कुमारि विरहेण तत्त
पुहईसरेण पुच्छेवि मति

मलयानामेण पणच्चमाणु ।
चिरभउ संभरिउ मणोहरीण ।
वाउलउ अलियउत्तरइँ देइ ।
सो नेवि ताण तहे पुरउ निहिउ ।
कह कह वि समुट्ठिय थिय विसन्न । ५
गउ सो नियभवणहो विरहसेसु ।
जाओ सि पुत्त उम्मत्तचित्तु ।
वइयर परिओसिउ तायचित्तु ।
आयन्नेवि तारिस ताहि वत्त ।
अविरोहु सयंवर रइउ भक्ति । १०

२०. १ कुञ्चिउ ।

२१. १ सिणेहभंतु ।

तहिं ताप्र असेस वि परिहरेवि
मंषिणु कुबेरकंतहो विसाल

चिरभवसणेहु मणे संभरेवि ।
सहसति मयच्छिप्र घित्त माल ।

घत्ता—विज्जाबलेण असेस वि समरे नराहिवइ ।
तेण जिणेप्पिणु सा सह परिणिय जणियरइ ॥२२॥

२३

विज्जाबलेण सोपारनामं
सो एक्कहिं वासरे वल्लह्य
खयरायले पोढपयंगत्ते
तहो विज्जुमालिं मं पियाहे
तत्थेव तत्ततवर्णां छाय
मणहरि वि मेहमालिं खगासु
तरुणाण जणियमणवयणवेय
एक्कहिं दिणे खेयरु चंडवेउ
वंदहं जिणिणु हरिवंसकेउ
तं पव्वयसिहरु निएवि चारु
सुमरेवि मणोहरि पुव्वपत्ति

पुरे रज्जु करंतुं मणोहेप्पामे ।
मारिउ असणीप्र समेउ तं प्र ।
अलयाउरे राणउ चंडवेउ
संजायउ सुउ विज्जुल्लयाहो ।
तरलच्छि महुरमाहवियवाय । ५
हुय तणुरुह रयबंधूपियासु ।
नामेण भणिय सा विरलवेय ।
उज्जंतसिहरु वड्डियविवेउ ।
गए विज्जुमालिपुत्तं समेउ ।
जायटं शईसरु खगकुमारु । १०
मुच्छिउ छड्डेप्पिणु सव्व तत्ति ।

घत्ता—तेण तत्थ पन्नत्ती विज्जादेवि वर ।
मासोवासु करेप्पिणु साहिय पहयपर ॥२३॥

२४

ता तेण भणेप्पिणु पव्वणवेय
गंतूण ताप्र सा पुव्वजम्मु
तुहं आसि मणोहरि रायधीय
जो विज्जुमालि विक्कममहंतु
निसुणेवि एहु चित्तंतियाहे
अप्पउ पइ गोत्तु सठाउ देसु
सयणेहिं मुणेवि अणोवमाहं
अन्नोअसणेहें गयप्र काले
विहरंतइ नं रइरइवराइ
चिरवइरें ताइं वियारियाइं

पट्टविय विज्ज जहिं विरलवेय ।
सुमराविय भोयविलासरम्मु ।
एवहिं हुय खेयरकुलि विणीय ।
सो तुह वरु आसि कुबेरकंतु ।
संजायउ जाईभरणु ताहे । ५
बुज्जिउ निबवइयरु निरवसेसु ।
किउ होहिं वि पाणिग्गहणु ताहं ।
एक्कहिं दियहम्मि नहंतराले ।
हिमवंतहो उवरि वहुवराइ ।
जुज्जेवि पडिसूरें मारियाइं । १०

घत्ता—कोसलविसण्ण अउज्झहे सायरसेणु वणि ।
वणसिरि तासु नियंबिणि गुणलायन्नखणि ॥२४॥

२५

तहे गुणगणालि	सुउ विज्जुमालि ।	
सिद्धत्थनामु	जायउ हिरामु ।	
नहल्लग्गेहे	पुरि रायगेहे ।	
सेट्ठी समुद्द-	विज्जो सुहद्द ।	
तहो धरिणि ताहे	छणससिमुहाहे ।	५
सुय विरलवेय	हुय निरुवमेय ।	
जणजणियकाम	सिरिकंत नाम ।	
सा दिन्न तासु	चिरभवपियासु ।	
एक्कहिं दिणम्मि	पासायहो सयलुवरिक्खणम्मि ।	
अच्छंतु सतु	नियदइयहे देवकहा कहंतु ।	१०
जुइविफुरंतु	नहयले विज्जाहरजुयलु जंतु ।	
जणजणियहिट्ठि	आलोइऊण सिद्धत्थु सेट्ठि ।	
जिणसमयभत्तु	जायउ जाईसरु भवविरत्तु ।	
बंधेवि पट्टु	महु बालभावे उज्झियमरट्टु	
विणयंधरासु	पव्वइउ पासे संयमधरासु ।	१५
मुणि मोक्खपंधु	विहरंतु पुणागउ एहु एत्थु ।	
कयपरमनिट्ठु	गिरिधीरचित्तु चरियहे पइट्ठु ।	
निद्धूयराउ	केणावि न धरिउ अलाहु जाउ ।	
हयकम्मबंधु	महु एहु भडारउ पुव्वबंधु ।	
पोमावइ पुणु हुउ हउं वरंगु	पुणु वणिसुउ सिरिहरु सोहणंगु ।	२०
पुणु विज्जुमालि सुहि चंडवेउ	जायउ विज्जाहरु तरणितेउ ।	
सिद्धत्थु पुत्तु जयवइण जाउ	पुणु एत्थ सुकोसलु पहयपाउ ।	
अच्छइ तहिं एम भणंतु जाम	सहुं मायण परियणु पुत्त ताम ।	
बत्तीसहें मज्जे मणोहिराम	पिय सुप्पह नामें जणियकाम ।	
तहे गन्भत्थियहो जे सच्चसंधु	काऊण तणूयहो पट्टबंधु ।	२५
सिद्धत्थहो पयपंकय नमेवि	हुउ सवणु सुकोसलु घरु मुएवि ।	

घत्ता—तेण जे अट्टज्झाणे रोसवसेण मुय ।

मोगिल्लायले जयवइ भीसण वणि हुय ॥२५॥

२६

विहरंत ताउ ते तत्थ एवि
 पारणयदिवसे गय वरिसयाले
 नीसरिय गुहाहे पलंबबाहु
 यिय अणसणे काउस्सग्गु देवि
 पढमं सिद्धत्थु महाणुभाउ
 गिरिघीर समाहिण्ण मुक्ककाय
 वग्घी वि सुकोसलहत्थु खति
 निदेवि भवट्टिदि जिणु सरेवि
 सिद्धत्थसुकोसलपत्तियाउ
 निसुणेवि एउ जसहरु मुणिदु
 पण पुत्तु धाडिवाहणु थवेवि
 सुहमइ सामंतसएण सहिउ

थिय रुक्खमूले मुणि जोउ लेवि ।
 निम्मले संजाण्ण दियंतराले ।
 अग्गण उवसग्गु निएवि साहु ।
 वग्घीण्ण निसुभिय ताण्ण एवि ।
 पुणु खद्दु सुकोसलु सुद्धभाउ । ५
 सव्वट्ठे वे वि अहमिद जाय ।
 जाइभरि हुय लच्छणु नियंति ।
 गय सग्गहो सन्नासं मरेवि ।
 सुतवेण सुरत्तणु पत्तियाउ ।
 पणवेवि गंधमायणु नरेदु । १०
 सजायउ जइ जिणदिकख लेवि ।
 उप्पाण्वि केवलु लोयमहिउ ।

घत्ता—सिहरे पडुगसेलहो^१ कम्महं करेवि खउ ।

सिरिचंदुज्जलसासणु सासयपयहो गउ ॥२६॥

विविहरमविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले ।
 भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खनु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदग्गुत्ते ।

[साहुसुकोसलचरिधो] इमो छयानीसमो संधी ॥

॥ सधि ४६ ॥

संधि ४७

१

ध्रुवय—समउ धराप्र धराधरधीरउ खीलियखीलियसव्वसरीरउ ।
तो वि न गयकुमार नियमग्गहो चलिउ समाहि लहेवि गउ सग्गहो ॥

इह भरह्वेत्तं संपयपउरे
गंधव्वदत्तदेवीहे ह्रुउ
तें पोयणपुरवइ दुद्धरिसु
तेण वि तहो मग्गिउ दिन्नु वरु
तर्हिं भमइ कुमारु निरग्गलउ
दट्ठूणासत्तु मणोहरिहे
अणुदियहु सइ अणुहरइ रइ
रोसेणभतरे सिमिसिमइ
गए काले पराइउ नेमि जिणु
सजायउ गयकुमारु सवणु
उज्जतगिरिदे समाहिपिउ
एत्थाउ' वियाणिवि तत्थ वणी
सव्वंगु पमारेवि जिह अजिणु

सोरट्टविसए वारमइपुरे ।
गुणि गयकुमारु वसुएवसुउ ।
वसु करेवि मुरारिहे किउ हरिसु । ५
सच्छंदे विहरणु सोक्खकरु ।
पुरु नाइ निरकुसु मयगलउ ।
पगुलवणिघणहे मणोहरिहे ।
पगुलु जाणतु वि कि करइ ।
असमत्थु मुणेवि कालु गमइ । १०
निसुणेवि घम्मु निव्विन्नमणु ।
धोरुग्गमहातवतावतणु ।
सन्नासे मडयसेज्जाए थिउ ।
गउ दिट्ठु थक्कु समभावे मुणी ।
सह्वे भूमिए पगुलु पावमणु । १५

घत्ता—गउ अयखीलएहिं खीलेप्पिणु साहु वि तारिस वियण सहेप्पिणु ।
निच्चलमइ समाहि पावेप्पिणु गउ सुरलोयहो कालु करेप्पिणु ॥१॥

२

रिसि सणकुमारु वइरायजुउ
बहुवाहिहिं वाहिउ वरिससउ
तहो रज्जु करंतहो एकदिणे
जत्थच्छइ तत्थ महाइयउ
तहो तेएँ सयल वि पहयपहा
ता विभिएहिं सदेहहरु
किं कारणु सामिय संगमहो
१. १ पत्थाउ ।

होंतउ चक्कवइ तिलोयथुउ ।
पर तो वि न दुप्परिणामु गउ ।
सोहम्मसुरिदसहाभवणे ।
सुरु संगमनामु पराइयउ ।
संजाया तक्खणे देवसहा । ५
परिपुच्छिउ देवहिं कुलिसकरु ।
स सुतेउ दुदहरविसंगमहो ।

चिरभवे अणेण सक्कें कहिउ
तेणेरिसरूवतेयसहिउ
पुणु पुच्छिउ अवरु वि एरिसउ
इदेंण भणिउ अच्छइ सुमई
नामेण सणक्कुमारु सुहउ

घत्ता—ता तं वेभि असहहमाणा
चरिपुरवरु वहे जोइयजाणा

तउ अंबिलु वड्डुमाणु विहिउ ।
ईसाणे एहु हुउ सुरमहिउ ।
किं अत्थि कोइ दीवियदिसउ । १०
नरलोप्र चउत्थउ चक्कवई ।
निरुवमगुणरूयतेयविहउ ।

देवा जयजयंतनामाणा ।
आया बंभण होवि सयाणा ॥२॥

३

पेसिय पडिहारें रायहरु
अब्भंगियंगु मुक्काहरणु
आलोप्रवि माणमरट्टुचुया
अहिणंदिउ तेहिं धराहिवइ
वन्नितु तुहें सक्कें जारिसउ
रूवें तेएण वि पहयतमु
इय भणिवि सवइयरु कहिवि घरु
निमुणेवि एउ गब्बियमइणा
धिर थाह जाम ष्हाएवि तणु

घत्ता—ता ष्हाएवि नेवत्थई लेप्पिणु
सिहासणि थिएण आणंदे

दिट्टुउ परमेसरु चक्कहरु ।
पर तइवि हु तिहुयणमणहरणु ।
विभियमण नायनिवास हुया ।
भो साहु साहुजणजणियरइ ।
अहिययरु निरुत्तउ तारिसउ । ५
दीसइ न अन्नु जगि तुज्ज समु ।
चल्लिय सुर पुच्छिवि चक्कहरु ।
किं दिट्टुउ तुम्हहिं भणिउ तिणा ।
भूसेप्पिणु दरिसमि रूवगुणु ।

रायसहामंडवि बइसेप्पिणु । १०
कोक्काविय ते देवनरिदे ॥३॥

४

ताहिं वि आवेवि तिलोयपिउ
दट्टूण पर्यपिउ धुणिवि सिरु
तुह पुण्विल्लावत्थहे ललिउ
ता तेण पसारिवि भुयजुयलु
संजाउ निमित्तु तं पि तवहो
पणवि विणयंभरु मुणिपयहं
कयच्छट्टुववासु रायतणउ
तहो दिवसहो लग्गिवि छड्ढि जरु
सीसच्छिक्कुच्छिवेयण गरुया
तउ तामु करंतहो पहयरउ

रायाहिराउ अत्थाणि थिउ ।
संसारि न किंचि वि अत्थि थिरु ।
पुहईस तेउ रूउ वि डलिउ ।
दिट्टुउ विच्छायउ वच्छयलु ।
डोएप्पिणु रज्जु तणुअभवहो । ५
पडिगाहिउ भारु महव्वयहं ।
भुत्तउ हयदप्पुक्कोयणउ ।
खसु खासु सासु असु सत्तिहरु ।
अवर वि कुट्टाइय जाय रुया ।
बोलीणउ धीरहो वरिससउ । १०

सवमाहप्येण तिलोयथुया
तइ वि ह्रु मज्झत्यभाउ घरइ

घत्ता—पुणरवि सुरसहाप्र अन्धत्ते
निप्पिहत्तु रोयाहयगततो

सव्वोसहिआइय रिद्धि हुया ।
पडियारु न पीडिओ वि करइ ।

इदं मुणिगुणगहणु करंते ।
वन्निउ सणकुमारभयवंतहो ॥४॥

५

निसुणेवि एउ पुणरवि अमरा
भासिउ तुह वाहिउ अवरहहुं
बहुवयणहिं मुणिणा भणिउ वरा
तो महु अणाइकालेण हुया
कि कीरइ इयररोयहरणु
हइ तम्मि ताहं सयमेव हई
इय भणेवि पयासिउ निययगुणु
भो साहु अम्हे असमत्य परा
तुहं परमवेज्जु जगसतियरु
कालेण करेप्पिणु कम्मखउ

घत्ता—बुडु नाव गंगादहु दुत्तरु
तो वि न धीरचित्तु प्रादन्नउ

आया ते होइवि भिसयवरा ।
भयवंत सरीरु चारु करहुं ।
जइ सच्चउ तुम्हई वाहिहरा ।
अवरहहु गरुय संसाररुया ।
संसारु जे सव्ववाहिसरणु । ५
विणु कारेणण कहिं कज्जगई ।
खेलोसहेण किय दिव्व तणु ।
भववाहिमहणे तुह सत्ति परा ।
भणिऊण एउ गय तियसघरु ।
मुणि सणकुमारु निव्वाणु गउ । १०

पाणियपरिपूरियसोत्ततरु ।
एणियपुत्तु समाहि पवन्नउ ॥५॥

६

आणंदनयरे आणंदु वणी
तहे पोमावइ सिरिमइ सुमइ
सत्तमिय एणलंछणवयणा
सा सायरदत्ते दिन्नरई
सुहलक्खणु ताप्र तणउ जणिउ
सिक्खिउ सत्थत्थई चारुमई
एक्कहिं दिणे तोडियजम्मरिणु
आउच्छिउ आउपमाणु तिणा
आयिन्नऊण निव्विन्नमई
आयमधरु एयविहारि ह्रुउ
निम्मुक्ककसाउ समप्पपरु

तहो नंदा गेहिणि तुंगथणी ।
सुय जसमइ गुणवइ बुद्धिमइ ।
हुय एणिय नाम एणनयणा ।
परिणिय गम्भेसरि हंसगई ।
सो एणियसुउ सुहीहिं भणिउ । ५
जायउ जुवाणु जणजणियरई ।
विहरंतु पराइउ वीरजिणु ।
तं थोवउ भासिउ सम्मइणा ।
तासु जे समीवे संजाउ जई ।
कालं विहरंतु विवेयजुउ । १०
गमणत्थिउ सुरसरिपारु परु ।

घत्ता—बुडु नाव दहे जत्थारूढउ मुणिपरमेसरु तो वि न मूढउ ।
अविचलमणु समाहि पावेप्पिणु गउ मोक्खहो अंतयडु हवेप्पिणु ॥६॥

७

तह भद्वाहु गुणगणकलिउ
दूसहु सहेवि तिसभुक्खदुहं
एत्थत्थि पुडवद्धणु विसउ
तहिं बंभणु सोमसम्मु वसइ
सोमसिरी ताए पुत्तु जणिउ
एक्कहिं दिणं रजियजणमणउ
पुरवाहिरि रत्थइं चारुमई
जा ताम जयत्तयविहुरहरे
चउदहपुव्वीण चउत्थु मुणी
उज्जंतहो चलिउ संघसहिउ

घत्ता—ता कोड्ढेण तेण खेलंतं
चउदहवट्टुत्तुरुडि समारिय

मुणिवसहु मणोवलेण वलिउ ।
सपत्तु समाहिए सग्गसुह ।
तहिं देविकोड्ढु पुरु साइसउ ।
तहो धरिणि सइत्तणगुणवसइ ।
सो भद्वाहु नामे भणिउ । ५
गुरुविरइयमुजनिबंधणउ ।
सहु डिभहिं वट्टएहिं रमइ ।
निव्वुइ सिरिसम्मइ तित्थयरे ।
गोवद्धणु नामे दिव्वभुणी ।
तत्थायउ भव्वलोयमहिउ । १०

८

आइट्टु चउदहपुव्वधरु
सुयकेवलि' सव्वहं पच्छिमउ
नाणेण वियाणेवि एउ तहि
मग्गेवि पढणत्थु पयत्तु किउ
काऊण सव्वसत्थपडु
मेरुलावेवि मायवप्पु करहो
आवेप्पिणु ससयतिमिरहुरु
कमणीउ कुमारु जे चारुमई

घत्ता—येवेण जे समइं सव्वाइं वि
हुउ समग्गसुयसायरपारउ

होसइ फुडु एहु सुवुद्धिधरु ।
परमेसरु सुरतरनमियपउ ।
जाएवि जणेरि जणेरु जहि ।
कयसवहे अप्पणु पासु निउ ।
गुरुणा पुणु पेसिउ भवणु' वडु । ५
अप्पाणउ कह व कह व धरहो ।
पणवेप्पिणु सिरिगुरुदिवसयर ।
हुउ भद्वाहु निग्गंथु जइ ।

पट्ठियइं तेणगइं पुव्वाइं वि ।
पुज्जिउ मणुयामरहिं भडारउ ॥८॥ १०

९

गुरुगोवद्धणे चरमुत्तरए
सव्वहं पच्छिमु दुरियहरु

८. १ सुउकेवलि । २ भुवगु ।

सुरलोउ गए ।
पुव्वंगवरु ।

भद्वाहूरि रिसि एत्य ह्रुओ
 ओहिणाणि तिहुवणमहिओ
 गउ विहरंतु कयाइ गुरु
 सिप्पासरिसाम्नीवे थिओ
 चंदगुत्तराएँ नमिओ
 सहँ रिसीहिँ चरियावसरे
 तत्य भमंतएण वियणे
 अंगणम्मि छायावहले
 बालें बालसहावपिएँ
 भयवं जहि जाहि जाहि भणिओ
 कहिँ भवत्तु सिमु मूढमई
 बारह वरिस अवरिसणउ
 दूसहदुब्धिभवखेण हया
 तेण एहु एहु भणइ
 एउ मुणेवि' निरुत्तु मणे
 हवकारेवि अवरणहे तिणा
 ज होसइ त नउ रहिओ

बहूरिद्विजुओ ।
 सघे सहिओ ।
 उज्जेणिपुरु । ५
 वणे भवपिओ ।
 जणु उवसमिओ ।
 पइसरिउ पुरे ।
 एक्कहिँ भवणे ।
 मंडवहो तले । १०
 पालणहिँ थिएँ ।
 गणिणा मुणिओ ।
 कहिँ वयणगई ।
 होसइ घणउ ।
 होसइ नु' पया । १५
 विभउ जणइ ।
 गतूण वणे ।
 मुणि गणवइणा ।
 सघहो कहिओ ।

घत्ता—न दुवालसवरिसइ वरिसेसइ
 माणुसु माणुसेण खज्जेसइ

निरु करालु दुक्कालु हवेसइ । २०
 मज्झदेसु सयलु वि नासेसइ ॥६॥

१०

पुन्नाउसु जाण्वि कि करमि
 तुम्हे वि जाह सव्वे वि तहि
 निमुणेवि एउ निव्वन्नमई
 तहिँ समण सीसु गुणमणिखणिहे
 नामेण विसाहसूरि सगणु
 रामिल्लथूलधेराइरिया
 पणवेप्पिणु सुयकेवलिहे पया
 तहँ मज्झे एक्कु जरजिन्नतणु
 निज्जणवणे आसन्नाउखउ
 मन्नावेवि कहमवि सपरहिउ

एत्यु जे सकज्जु हउँ अणुसरमि ।
 जलहिहे सामीवण देसु जहि ।
 नूवु चदगुत्तु संजाउ जई ।
 दसपुव्विउ भद्वाहूमणिहे ।
 गउ दविडविसउ संपन्नजणु । ५
 नियनियसमुदाएँ परियरिया ।
 तिसि वि जण सिघविसउ गया ।
 नामेण समतभदुदु सवणु ।
 थक्कउ' गणि सक्कइ जाहँ नउ ।
 निच्छतु वि संघु तेण पहिउ । १०

६. १ न । २ सुणेवि । १०. १ थक्कइउ ।

घत्ता—भद्वाहु नामेण नवल्लउ सव्वलहुउ तद्द्विक्खउ चेत्तलउ ।
सो परेक्कु गुरुपयसेवारइ अच्चिउ केमवि न गउ महामइ ॥१०॥

११

गुरुवयणं वंदेवि देवु तहो वणे भामरि देतहो संजयहो ।
तवमाहप्पे छट्टुण दिवहे संखोहु जाउ वणदेवयहे ।
वरमोयएहिं सहुं चोज्जकरु नीसरिउ धरहे साहरणु करु ।
पेक्खेप्पिणु एप्पिणु नीरयहं विन्नविउ तेण त गुरुपयह ।
गुरुणा वि तम्मि उवभोगु कउ परियाणिउ जं होसइ पुरउ । ५
अन्नहिं दिणे थोरूवेण रिसी देवीण खडाविउ अप्पवसी ।
आगउ वलेवि केमवि न थिउ मन्नेवि अजुत्तु अलाहु किउ ।
निट्ठावणु भत्तिभारभरिउ निव्वत्तियगोचारियकिरिउ ।
जं दिट्ठु वियणे तं नउ रहइ पुच्छंतहो गुरुदेवहो कहइ ।
भयवंत अज्जु एक्कण तियए वरवत्थाहरणफुरंतियए । १०
हउं वार वार पडु जावियउ कयसामग्गीण खडावियउ ।

घत्ता—न वियाणमि सा कवण किसोयरि कि देवय कि माणवि खेयरि ।
अवरेक्कल्लिय लोयविरुद्धउ तेण न थिउ समए वि निसिद्धउ ॥११॥

१२

निमुणेवि एउ गुरु हरिसियउ चंगउ किउ सीसु पसंसियउ ।
अन्नहिं दिणे गुरुवयणेण पुणु चरियहे पइट्ठु गिरिधीरमणु ।
वणदेविण तक्खणे तत्थ वरु तहो कट्ठु निएवि रइउ नयरु ।
तहे उच्छवेण भव्वहिं नविउ मन्नाविउ एक्कहिं भवणे थिउ ।
भुंजेवि निरंतरु आउ तहिं अच्चइ गुरु गहियाणसणु जहिं । ५
पणवेप्पिणु वइयरु अक्खियउ मई एत्तियदियहं न लक्खियउ ।
एत्थेव भडारा चारु पुरु अच्चइ वणम्मि संपयपउरु ।
तहिं भत्तिण भव्वहिं भाविय उ हउं दाणविहिण भुंजावियउ ।
ता भल्लउ भयउ भणेवि गुरु थिउ अन्नहिं दिणे नियदेहपुरु ।
चइऊण समाहिण चत्तरउ बंभूत्तर नामे सग्गु गउ । १०

घत्ता—इयरु वि भत्तिभारसंजुत्तउ अहनिसु गुरुनिसिहिय सेवंतउ ।
सुद्धबुद्धि भावियरणत्तउ अच्चइ तत्थ तमोमलचत्तउ ॥१२॥

१३

वणदेवि वि निच्च नयर करइ
पर तं न बियाणइ निच्चिसउ
अच्छंतहैं ताहैं तत्थ गरुया
सव्वत्थ वि ह्य भुक्खाप्र पय
सावयहिं मिलेप्पिणु भणिय जई
रंघहैं न वि जेमहैं पावियइ
तं तुम्हई जाम एहु विसमु
तामाणेवि गेहहो रयणियहे
गुणु केवलु कालुच्चित्तं कए
किं किज्जइ किज्जउ अप्पहिउ

घत्ता—एउ जइहिं सावयजणवुत्तउ
जो कालुच्चित्तेण न चल्लप्र

भुंजेवि आए उवसंघरइ ।
एत्तहें गय साहु सिधुविसउ ।
हुय दियहे दियहे दुग्भिक्खरुया ।
दीसति निरंतर रंकसय ।
हा भग्ग लोयववहारगई । ५
दिणे रंकहिं जणु संतावियइ ।
बोलइ दुक्कालु कयंतसमु ।
वसहीहें भत्तु भुंजह दियहे ।
फलु किं पि नत्थि अट्टेण मए ।
कुसलहो तउ आगमे वि कहिउ । १०

पडिवन्नउ परियाणेवि जुत्तउ ।
तहो हुं पासु कयावि न मेल्लप्र ॥१३॥

१४

तहो दिवसहो लग्गेवि सव्व रिसि
गंपिणु सावयभवणाईं घणे
आणेवि चरिय जिणवरभवणे
अन्नोसु जे सईं भाणउ घरहिं
एक्कहिं दिणे ताम एककु सवणु
तत्थेक्कप्र बहुभयभावियहे
सहसत्ति गम्भु तं निप्रवि चुउ
तं पेक्खेवि गंपिणु सवणगणु
निग्गंधु रूवु तुम्हहैं तणउ
तं तुम्हईं धवलविसालियए
वामंसि निहित्तप्र सोहणइं
दाहिणप्र करेप्पिणु दंडु करे

घत्ता—पुणु सुकाले पच्छित्तु करेज्जह नियवयसंजमम्मि धाएज्जह ।
तं पि तेहिं किउ समउ बियाणेवि गउ दुकालु लोयहो खउ आणेवि ॥१४॥

लेप्पिणु भिक्खाभायणइं निसि ।
सव्वत्थ वि सुत्तप्र रंकजणे ।
देप्पिणु कवाढ भुंजति दिणे ।
तहिं एम जाम ते नित्थरहिं ।
भिक्खहिं पइट्ठु निसि भीमतणु । ५
गग्भिणहिं नवल्लहें सावियहे ।
मिलियउ जणु हाहाकारु हुउ ।
सावयहिं भणिउ विणएण पुणु ।
दीसप्र निसिसमप्र भयावणउ ।
एक्केक्कप्र अट्ठप्फालियए । १०
पच्छाइवि भिक्खाभायणइं ।
चरियहे पइसेज्जह निसिहिं भरे ।

१५

गउ दुसमु तेहिं निच्छउ मुणिउ
सइ अट्ठप्फालिय परिहरह

हक्कारेवि गणु गणीहिं भणिउ ।
पुणरवि निग्गंधरूवु धरह ।

गुरुभासिउ जेहिँ न त गणिउ
मूठहिँ नियतित्थु पसिदधु निउ
पडिबज्जिउ जेहिँ तेहिँ विहिउ
सहुँ तेहिँ तओ ह्यदुच्चरिया
बिहरंत संत संपत्त तहि
तेण वि ते एंत निएवि तउ
बंदिय परिवाडिण धम्मघणा
पुच्छंतहँ अक्खिउ जेम गुरु
हुउँ पुण एकल्लउ कि करमि

घत्ता—तप्पहइ पहु तुम्ह नियंतउ
एत्थु जे वसइ नयरु दूरतरे

इय कहेवि सब्बु जाणेवि समउ
पच्छण हुउ ताहँ कहेवि पहु
गय दूर तो वि न नियंति पुरु
कहिँ त तउ पुरवरु' पउरजणु
तो तक्खणे जणमणनयणपिउ
तहिँ घरे घरे दावियधम्मदिसी
भुजेप्पिणु ठायहो सब्ब गया
चउरगुलरिद्धिपहावधरा
मुणिचट्टु एक्कु घरे जिमिउ जहि
गुरुवयणेँ जाम जाइ तुरिउ
पर दिट्ठु कमडलु आलइउ
आवेप्पिणु वइवरु वज्जरिउ

घत्ता—निच्छउ एहु रिद्धिसंपन्नउ
पेच्छहे तेण सोक्खु संपज्जइ

अवरु वि मुहि णवि अत्थि चरिया
जेणम्हइँ तेण जे आइयउ
१६. १ कहि त तेउ पुररु ।

लइ एउ जे चारु तेहिँ भणिउ ।
जिणकप्पु जे विहिँ भेएहिँ किउ ।
विरइयपच्छित्तहिँ अप्पहिउ । ५
रामिल्लथूलथेरायरिया ।
लहुभद्दबाहु रिसि वसइ जहि ।
उट्ठेविणु अब्भुत्थाणु कउ ।
उवविट्ठु सिलायलेसु सवणा ।
संपत्तु समाहिणु सग्गपुरु । १०
अमुणंतु मग्गु कहिँ सभरमि ।

अच्छामि गुरु निसिहिय सेवतउ ।
भुजमि तहिँ भव्वयणनिरतरे ॥१५॥

१६

भामरिहे साहु सो लेवि गउ ।
केमग्गण गच्छइ सब्बलहु ।
पण पुरउ होहि पभणति गुरु ।
ताणाणण धिउ अग्गण सवणु ।
वणदेविण पट्टणु निम्मविउ । ५
पडिगाहिय भव्वयणेहिँ रिसी ।
अतरे चिक्खिल्ले लित्तपया ।
न वि तासु परेक्कहो पावहरा ।
वीसरंवि कमंडलु आउ तहि ।
ता तत्थ ण पुरु सपयभरिउ । १०
महुडालहे विभिएण लइउ ।
सव्वेहिँ वि जाणिउ सच्चरिउ ।

महरिसि दूरोसारियदुन्नउ ।
निज्जणु वणु वि नयरु संपज्जइ ॥१६॥

१७

फुडु तेण न पय पंकहो भरिया ।
मग्गेण एहु गुणाराइयउ ।

इय भासेवि दिन्नपयाहियहिं
लहुओ वि हु सव्वहँ गरुउ हुउ
एत्तहे उज्जेणिहे दिन्नदुहे
विणिवाहिवि संघु संघतिलउ
जाणेवि मायाविय चोज्जकरी
लहुभद्दबाहु साहू वि तम्मो

घत्ता—एककहिँ मिलिय सव्व आणादिय
तेत्थु जे थिय सुहेण बहु वासर

१८

एत्तहे ते सम्मइम्मग्गुचुया
संपत्त कयाइ भमत तहि
तहिँ बप्परायरायहो तणिया
सा साविय सुयणु ताहँ तणिया
एककहिँ दिणम्मि मज्झमारे
ते पइसरंत विभियमइणा
हले नउ परिहिउ नउ नग्गतणु
अन्नहिँ दिणे हक्कारेवि भणिया
लइ अद्धप्फालिय परिहरह
नग्गतणु तेहिँ न ईहियउ
उप्परे किउ कवलपगरणु
सामलिसुएण तत्तो विहिउ

घत्ता—अवरु वि कोसंबिहे हयधीरें
तो वि न सलिलघडा आदन्ना

१९

बत्तीस वणीस पसन्नमुहा
सावय जियसंसय भावभडा
एककहिँ दिणे तेहिँ नियाउगई
भासिउ भयवंतें सत्त दिणा
जमुणाणइतडे सज्झाणरया

१७. १ जोकारिउ ।
३१

जयकारिउ' सो सव्वहिँ जणहिँ ।
पावइ न कि नु जो गुणहिँ जुउ ।
पुणरवि संजाए सुहिक्खे सुहे ।
आगउ विसाहगणि गुणनिलउ ।
थिर करेवि पइज्जा सा नयरी ।
विहरंतु तेहिँ सहुँ तत्थ गम्भो ।

भद्दबाहुनिसिहिय अहिणंदिय ।
पुणु अन्नेत्तहिँ गय परमेसर ॥१७॥ १०

कालें पासंडिय पउर हुया ।
सोरट्टरट्टे पुरु वलहि जहि ।
महएवि महासइ सामिणिया ।
चाएणाणंदिय जणभणिया ।
भिक्षहिँ महएविहे तणए घरे । ५
पिय भणिय पलोइवि भूवइणा ।
सुदरु न तुहारउ तवसियणु ।
फुडु एह न वित्ति सुहावणिया ।
नग्गतणु अह परिहणु करह ।
सयन्नेहिँ वि पंजलु परिहियउ । १०
तइयहुँ हुउ सेयभिक्षुचरणु ।
जप्पुलियसघु मूढहिँ महिउ ।

बूढा वड्डिएण नइपूरें ।
धीरा आराहण पावन्ना ॥१८॥

गम्भेसर इंददत्तपमुहा ।
होंता कोसबीपुरे पयडा ।
आउच्छिउ केवलिणाणि जई ।
हुय जइ मुणेवि निव्विन्नमणा ।
पाउग्गमरणे थिय पहयरया । ५

१८. १ ललियघडा ।

संजाय चिट्टि अपमाणजला
 बहे पडिय महत्ते महासमणा
 मुय गय जलभरियसोत्तविवरा

पूरेण वहाबिय ते सयला ।
 पर तो वि न भ्राउसिहूय मणा ।
 हुय झारणे भच्छुप्र सुर पवरा ।

षत्ता—एउ वियाणेवि होएवि धीरउ
 अविचलु रयणत्तउ मणि भाबहि

सहहि खवय मा होहि अधीरउ ।
 जें सिरिचंदुज्जलसिरि पावहि ॥१९॥ १०

बिबिहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसंदोहसाले ॥
 भुवणविदिदनामे सब्बदोसोवसामे । इह ललु कहकोसे सुंदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचंदपउत्ते मुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते ।
 चालीसमभ्रो एसो संधी सत्तुत्तरो वुत्तो ॥

संघि ४८

१

ध्रुवयं—अवरु वि आसि एत्यु भरहे चंपापुरे परमत्थवियारउ ।

होंतउ तवसंजमनिलउ धम्मघोसु नामेण भडारउ ॥

सो एकहिं वासरे बीयराउ
गिरिगुह मुएवि गोयरे पइट्ठु
उण्हालप्र तण्हप्र तवियकाउ
गंगायडे चडतरुतले निविट्ठु
तहो तण्हपरोसहु नियवि ताप्र
सीयलु सुयंधु जलु पियह एउ
केम वि पडिवन्नु न तेण जाम
तहिं समवसरणे तित्थयरदेउ
परमेस पियासप्र खविउ सुट्ठु
तहो ढोइउ पियउ न कि न वारि

क्यमासोवासु महाणुभाउ ।
भुल्लउ हुउ काणणे मग्गभट्ठु ।
उप्पहे किम च्ल्लइ हरियकाउ । ५
सुरतीरिणीप्र देवीप्र दिट्ठु ।
आणंवि सुवन्नतवालुयाप्र ।
मुणि भणिउ कुणह तण्हाहे छेउ ।
गय देवय पुव्वविदेहु ताम ।
पुच्छिउ भवकाणणजायवेउ । १०
निज्जणे वणे मई मुणि एककु दिट्ठु ।
ता कहइ सव्वसदेहहारि ।

घत्ता—देवि देवविज्जाहरहें रिसि आहारु न लेंति निरुत्तउ ।

देवच्चण सम्मत्तु मुणिपाडिहेरु पर ताहें पउत्तउ ॥१॥

२

आयन्नवि एउ तुरतियाप्र
सीयलु सुयधु निम्मविउ वाउ
साहू वि सुक्कभाणे पइट्ठु
उप्पन्नउ केवलु विमलु नाणु
तहो बंदणाप्र इंदाइदेव
अंचेप्पिणु पुज्जेप्पिणु धुणेवि
साहू वि सेसु कम्मई हणेवि
अवरु वि चिरवइरवसेण वाउ
जलु सीउ सहेवि पमायच्चत्तु

सव्वण्हु णवेप्पिणु एवि ताप्र ।
वरिसाविउ पाणिउ पहयताउ ।
बलवंतु वि घाइचउक्कु नट्ठु ।
जायउ तिहुयणगुरु गुणनिहाणु ।
सहसागय सव्व गयावलेव । ५
गय नियपउ धम्मसवणु सुणेवि ।
गउ मोक्खहो धम्मु जणहो भणेवि ।
वेउव्विउ देवें पहयकाउ ।
सिरिदत्तु भडारउ सिद्धि पत्तु ।

घत्ता—आसि इलाबद्धणनयरं नरवइ णयविककमसंपन्नउ ।

१०

निज्जियारि नामें पयहु होंतउ दूरोसारियदुन्नउ ॥२॥

३

आराहियजिणपयपंकयासु
 घाई वि विणयमइ वियडदंत
 फग्गुणअट्टाहियदियहो तेण
 जंतेण भणिय एत्थेव माए
 तुह रूवु जणहो जत्तागयासु
 निसुणेवि एउ जायउ अणिट्ठु
 इय निदेप्पिणु अप्पउँ वियड्डु
 एत्तहे अट्टमदियहम्मि राउ
 पुच्छिय निरु दुब्बल काई जाय
 एत्थेव पुत्त अट्टोववासु
 जायउ तेणगहो दुब्बलत्तु

महएवि इला ललियंगि तासु ।
 वेयालि व सा वियरालगत्त ।
 जिणपूज होम लाविय जणेण ।
 अच्छसु जिणिंदमहिमाणुराए ।
 लज्जणिउ अमंगलु जणइ तासु । ५
 हा मई जिणमहिमुच्छउ न दिट्ठु ।
 थिय अट्टोवासु लएवि वुड्डु ।
 जिणजत्त करेप्पिणु घरहो आउ ।
 सा कहइ नरिंदहो महुरवाय ।
 किउ मई जिणिंदपुज्जापवासु । १०
 ता त्सेप्पिणु पट्टणा पउत्तु ।

घत्ता—मग्गि माइ जिणसमयरुइ ज किचि वि पडिहासइ चित्तहो ।
 भणिउ ताए अवरट्ट दिण किज्जउ परम पुज्ज अरहतहो ॥३॥

४

ता राएँ ताहे निमित्तु तेण
 दक्षसु वि दिसामु उच्छलिय वत्त
 जायरणु ण्हवणु अणवरउ पुज्ज
 महु तणिय जिणेसर जुत्त एह
 अवराइँ वि अट्ट दिणाईँ ताए
 तं ताहे तणउ पावियसमाणु
 हिमवंतपोमदह्वासिणीए
 पारणयदिवहे तत्थाविऊण
 पुज्जेवि पससिय जणियचोज्ज
 विंभिउ जणु सयलु वि त निएवि
 चुय पत्ताउक्खए मुक्कपाण

जिणमहिमाढत्त महुच्छवेण ।
 आयउ जणु पुणु ह्य गहिर जत्त ।
 पेक्खणउ पहावण किय मणोज्ज ।
 किह भुजमि जइ वि असक्कदेह ।
 केम वि न वि जिमिउ दिढव्वयाए । ५
 नाणेण वियाणेवि तवविहाणु ।
 सिरियादेवीए सुहासिणीए ।
 सुविहूइए सा सईँ ण्हाणिऊण ।
 पुणु पयडिय पट्टणे पंच चोज्ज ।
 गय तक्खणे निययनिवासु देवि । १०
 संजाय घाइ तहिँ कयनियाण ।

घत्ता—सा परियाणेवि पुव्वभउ सिविणइ एइ निच्च पुरलोयहो ।
 अप्पाणउ पायडइ हउँ सिरियादेवि पुज्ज तइलोयहो ॥४॥

५

आगय उज्जाणे मणोहरम्मि
 जइ अहनिनु निच्चलु मणु धरेवि

एत्थच्छमि तुम्हहँ पुरवरम्मि ।
 महु तणिय पडिम पुज्जह करेवि ।

तो जं मग्गह तं सब्बु देमि
 निसुणेवि एउ हरिसियमणेण
 पयडियपरमुच्छव जणमणिट्ट
 अणवरउ जत्त जणु आइं जाइ
 परमेसरि सयल वि देइ सिद्धि
 परमेसरि दिज्जउ मज्झु पुत्तु
 इय भणेवि इला वि नरिंदपत्ति

दुरियाइँ समग्गइँ खयहो नेमि ।
 काःराविउ सिरियाहरु जणेण ।
 विरइय तप्पडिमहे तहिँ पइट्ट । ५
 तहो भोउ निःप्रवि सककु वि सिहाइ ।
 इय ह्युय तहँ सब्बत्थ वि पसिद्धि ।
 सयलुत्तमु सयलकलानिउत्तु ।
 अणुदियहु पयासइ परम भत्ति ।

घत्ता—ता पडु जाव ण बहु दिवस ताहे तणिय निएवि गरुयारी । १०
 पुव्वविदेहु सयंपहहो गय तित्थयरहो पासु भडारी ॥५॥

६

पुच्छिउ पणवेप्पिणु भुवणसेव
 कहि अत्थि नत्थि किं पुत्तलभु
 सग्गभुउ पुत्तु मणोहिरामु
 परिओसे एउ मुणेवि एवि
 सिरियादेवी गय नियनिवासु'
 कइवयदिणेहिँ सोहग्गरासि
 सुरु वड्डमाणु नामेण आउ
 सिरियादेवीए विइणु जेण

महु नयरे इलादेवीहे देव ।
 अत्थि त्ति पवोल्लिउ पहयडभु ।
 होसइ गुणभवणु पसिद्धनामु ।
 सुमिणतरे देविहे पुत्तु देवि ।
 आणदिय मणे वल्लह निवासु । ५
 सुदरु सोहम्मविमाणवासि ।
 नदणु महएविहे गव्भे जाउ ।
 सिरिदत्तु नामु किउ तामु तेण ।

घत्ता—अवरु इलावद्धणनयरे महएविए इलाए संजणियउ ।
 सयलइलहे आणंदयरु तेण इलावद्धणु सो भणियउ ॥६॥ १०

७

कालेँ जंतेँ पत्तउ पमाणु
 किं वन्नमि सयलकलानिहाणु
 साकेयवइहे अंसुवइ नाम
 संपत्ते सयंवरसमए तेण
 पडु पंडिउ एककु समेउ ताए
 सो सक्खि करेवि रंजियमणाहँ
 एककहिँ दियहम्मि दुरोयरेहिँ

रूवेण परज्जियपचवाणु ।
 कंतीए चंदु तेएण भाणु ।
 नवजोव्वण पुत्ति मणोहिराम ।
 परिणिय आणदिय जणमणेण ।
 आयउ कणइल्लु अणोवमाए । ५
 बहुवरहँ ताहँ दोहँ वि जणाहँ ।
 कीलंतहँ कोऊहलकरेहिँ ।

५. १ पइ । ६ १ सुमिणंतरे देवि गय नियनिवासु ।

वे कीर खडिय चंचूए लेवि
अह राउ एक्क तो लिहइ नाडु

रेहाउ देइ जइ जिणइ देवि ।
ता कुविउ सत्तुजणदप्पसाडु ।

घत्ता—रहु परेज भणेवि हउ थप्पइ पडिउ महिहि कंपंतउ । १०
रायहं उवरि कोवु करेवि मुउ सुउ वणदेवत्तणु पत्तउ ॥७॥

८

एत्तहं अहियायलदलणवज्जु
एक्कहिं दिणे चारु विचित्तदेहु
जीविउ जोव्वणु धणु सयणु इट्ठ
इय चिंतैवि पुत्तहो रज्जु देवि
वरधम्ममुणिंदसमीवे सव्वु
सव्वंसहु एयविहारि जाउ
परमेसरु नयरहो बाहरम्मि
निसि पडिमाजोएँ [तहिं थिरेण
किउ पवणु पयंडु जलेण सित्तु

नरवइ सिरिदत्तु करंतु रज्जु ।
गयणयले विलीणु निएवि मेहु ।
वारिहरु व सयलु वि दिट्टनट्ठु ।
संजाउ दियंवरु दिवस्स लेवि ।
पडिऊण जिणागमु विगयगव्वु । ५
विहरेप्पिणु पुणरवि तहिं जे आउ ।
अभावयासे सिसिरहो भरम्मि ।
थिउ नियवि मुणीसरु] वेंतरेण ।
पर तो वि न घोरहो चलिउ चित्तु ।

घत्ता—आएवि अप्पसहाउ हुउ केवलि कम्मकलंकविवज्जिउ । १०
विहरेवि महिमंडले सुइरु गउ अजरामरपुरु जगपुज्जिउ ॥८॥

९

तह उसहसेणु निक्कपभाउ
अइउण्हु सिलायलु सहैवि साहु
नामे पज्जोउ मणोहिरामे
सो जियरिउ एक्कहिं दिणे ससेसु
मयमत्तु सो वि सच्छदु जाउ
परियणहो नियंतहो पुहइपालु
उव्वरिउ रुक्खे लग्गेवि नरिदु
एत्तहं मुएवि वणु भयविमुक्कु
तत्थावडतडे बीसमइ जाम
नवजोव्वण कन्न कुमारि बाल

अइउण्हायउ अइउण्हावाउ ।
गउ भोक्खहो हुउ तेलोक्कनाहु ।
होंतउ पुरम्मि उज्जेणिनामे ।
गय धरहुं गयउ गए चडेवि रञ्जु ।
पडिखलिउ न केण वि कुविउ नाउ । ५
लेप्पिणु पइसरिउ वणंतरालु ।
गउ कहमि निरंकुसु तहिं करिंठु ।
संपत्तु महीवइ गामु एक्कु ।
एक्काइय पाणीहारि ताम ।
सुहलक्खण भोरकलावबाल । १०

घत्ता—सा जिणामगामवइजिणमइसुय सइं जिणदत्ता नामे ।
निएवि मणोहर पत्थिवेण मग्गिय पाणिउ पियहुं सकामे ॥९॥

१०

ता किं चि वि वक्करु करेवि धुत्ति
 भक्खिउ नित्तायहो तरणितेउ
 भक्खइ एत्थायउ जणियहरिसु
 कोइडेण तभ्रो तहिँ गउ जिणामु
 निक्खउ सामभु न एहु होइ
 इय चितेवि आणिउ नियनिवासु
 भुजेप्पिणु खणु वीसमइ जाम
 भ्राइउ भ्रालोइउ सामिसालु

पाण्वि जलु गय गामउडपुत्ति ।
 रूवेण नाई सई मयरकेउ ।
 मई कूवि पलोइउ एककु पुरिसु ।
 विट्टउ नररयणु मणोहिरामु ।
 परमेसरु पुहईपालु कोइ । ५
 सम्माणिउ तेण विवक्खतासु ।
 भणुमग्गं खंघावारु ताम ।
 परिओसिउ पामरलोयवालु ।

घत्ता—मग्गिय कन्न नराहिवेण तेण वि दिन्न विवाहेवि आणिय ।

बहुगुण पडिहासिय मणहो किय महएवि सुद्धु सम्माणिय ॥१०॥ १०

११

परिपालियइलु चिंतियतिवग्गु
 सहँ ताण विलासहिँ पहयसत्तु
 एक्कहिँ दिणे खडुहिँ पडिउ नाउ
 तहिँ काले रुट्टु जिणयत्त देवि
 सव्वाउ ताउ परिओसियाउ
 हले कम्मणवंडिण रइयराठ
 न मुहुत्तु वि मेल्लइ तेण कंतु
 जइयहँ पहइ तुहँ आय एत्थु
 वत्त वि कयावि पुच्छइ न नाहु
 खले मायाविणि दुक्कियनिवासे

परिहरेवि समग्गु वि इत्थिवग्गु ।
 भक्खइ ग्रहनिमु अणुरत्तचित्तु ।
 आयन्नेवि बहि नीसरिउ राउ ।
 किं बाहिरे निग्गउ मई मुएवि ।
 जंपंति पुहइपालहो पियाउ । ५
 तुहँ कुट्टणि गरुई मगरदाठ ।
 भक्खइ वामोहिउ मुहु नियंतु ।
 तइयहँ पहइ जायउ अणत्थु ।
 पई भग्गउ भम्हहँ जणियडाहु ।
 जाएवउ नरयहो पई हयासे । १०

घत्ता—जं पई भम्ह कएण किउ लइ तं तुज्झु वि संपइ सिद्धउ ।

अहवा जं किज्जइ परहो एइ घरहो तं एउ पसिद्धउ ॥११॥

१२

फुडु एवहिँ तुहँ छड्डिय पिएण
 निमुणेवि एउ अच्चंत कुद्ध
 एत्तहे करिंदु कड्ढाविऊण
 कहिँ गय पिय पुच्छिय भ्रायरेण
 बारंतिहे तुहँ गउ देव जाम

गउ महु घरंतिहे तुज्झु तेण ।
 पिय अन्नहि मंदिरे गंवि मुद्ध ।
 कुंभिणिवइणा सहसाविऊण ।
 ता केण वि कहिउ समच्छरेण ।
 जिणयत्त कुविय तुज्झुवरि ताम । ५

अन्नहिं घरे लेप्पिणु बंभचेरु
जंपइ पुहईवइ जायसेउ
इय भणेवि निसिहें भुवकंतसाणे
गुरुहारप्र नवमासहिं तणूउ

धिय सुणिवि एउ निम्महियवेरु ।
जुज्जइ अन्हहें घरे बउ ण एउ ।
घल्लाविय एक्कल्लिय मसाणे ।
तहिं ताप्र तम्मि समए पसूउ ।

घत्ता—एतहें देवकरंतु सुहउ सिविणंतरे सियवसहु निरिक्खउ । १०
सुप्पहाप्र पुहईसरेण मइमयरहरहो मंतिहें अक्खउ । १२॥

१३

तेण वि आयन्नोवि भणिउ नाहु
जइ सिविणयसत्थु पमाणु अत्थि
सन्वाउ तन्नो पट्टणा पियाउ
दूहवियहें अन्हहें ताहिं वुत्तु
जा पिय मेल्लहि एककु वि न ताल
ता ताहि गवेसहें पहिउ पुरिसु
बद्धाविन्नो सि लक्खणहिं जुत्तु
निसुणेवि एउ परिन्नोसिएण
काराविउ परमुच्छउ पुरम्मि
सिविणप्र आलोइउ वसहसेणु
पुणरवि पत्थिवहो अणोवमाप्र
संजाउ अट्टवरिसिउ कुमारु

तुज्जज्ज देव हुउ पुत्तलाहु ।
तो होइ ण मइं भासिउ अणत्थि ।
कहे जाउ पुत्तु पुच्छावियाउ ।
पोट्टेण विणा कहिं हुउ पुत्तु ।
तहे तणउ गवेसहिं सामिसाल । ५
तेण वि आवेप्पिणु जणिउ हारिसु ।
जायउ जिणयत्तप्र देव पुत्तु ।
आणाविय सा पुहईपिएण ।
तिहि वारि भुद्धत्ति मणोहरम्मि ।
किउ नाउ सुयहो ते वसहसेणु । १०
माणंतहो रइसुहु समउ ताप्र ।
पच्चक्खु नाइं सयमेव मारु ।

घत्ता—एक्कहिं दिणे उक्कावडणु' अवलोइवि वइरायहो आएँ ।
रायपट्टु तुह भालयले बंधमि भणिउ तणूरुहु राएँ ॥१३॥

१४

तणएण भणिउ कहि कवणु ताय
कि नरहें सुरहें सुहसयनिवासु
पट्टणा पउत्तु नररायपट्टु
जो सग्गहो मोक्खहो पट्टु पुज्जु
वयणेण एण परिहरेंवि रज्जु
रिसि होइवि एयविहारि जाउ
आयावणजोएँ सुदरम्मि

महु बंधहि पट्टु कयाणुराय ।
अहवक्खहि मोक्खपहुत्तणासु ।
बंधमि तुह पहयाहियमरट्टु ।
सो पर तवेण बंधइ' मणोज्जु ।
किउ तेण सताएँ अप्पकज्जु । ५
विहरंतु संतु कोसवि आउ ।
थिउ तत्थ दयावदगिरिवरम्मि ।

तहो तउ निएवि उज्झिउ कुजोउ
तेण जे कोहेण महंतएण
चरियहे गउ मुणेवि उवासएण
एत्तहे संजउ भुजेवि आउ
ता दीविय पाय हुयासणेण

सजायउ सावउ सब्बु लोउ ।
मणि बुद्धदासवणिउत्तएण ।
सिल तावेवि मुक्क दुरासएण । १०
जा सिलहे बलगइ खवियपाउ ।
किउ अप्पकज्जु सन्नासणेण ।

घत्ता—उण्हयाले सिंहसरिस सिल अहियासेवि उप्पाएवि केवु ।
सहुँ पज्जोएँ सिद्धि गउ बसहसेणु जायउ जगमंगलु ॥१४॥

१५

अवरु वि आयन्नह अग्गिपुत्तु
सत्तीए पहउ कोवेण उरे
कत्तियपुरि रिउवणदहणअग्गि
तहे देविहे वीरमइहे हुयाउ
बधुमई सिवसेणा पसिद्ध
ससिपह व सयपह अवर लच्छि
छ वि एयउ देवाण वि पियाउ
पुज्जेवि तिहुयणगुरु नीरयाउ

दुद्धरवयसयमनियमजुत्तु ।
पत्तउ समाहि रोहेडपुरे ।
होंतउ नरिदु नामेण अग्गि ।
छह धीयउ नवकिसलयभुयाउ ।
सिरिसेणा सिरिमइ गुणसमिद्ध । ५
पुणु कित्तिय इंदीवरदलच्छि ।
नंदीसरम्मि उववासियाउ ।
आसीसहेउ तायहो गयाउ ।

घत्ता—पेच्छह कम्मवियंभियउ तिहुयणजणमणजणियच्छेरउ ।
पुहईवइ वामोहियउ रूवु निएप्पिणु कित्तियकेरउ ॥१५॥ १०

१६

किं किज्जइ किं किं वि न वि सुहाइ
विरहग्गितावतावियमणेण
जं किं पि मज्ज मंदिरं पसत्थु
जो कच्छिउ कच्छउ करइ तामु
ता चवइ मंतिसामंतवग्गु
जो पालइ तरुफलु तहो जे होइ
निसुणेवि एउ सयवत्तवत्त
अषडं पि घडावइ दइउ बलिउ
गुरुहारहे तहे दोहलउ जाउ
कीलेप्पिणु तत्थ पसूय सुयणु
कित्तियइँ जणिउ सुहिसोक्खहेउ

असरीरेण वि जिउ जियअराइ ।
पहुणा परिवारु पउत्तु तेण ।
तं किं महु किं अन्नहो पयत्थु ।
फलु होइ किं च अन्नहो वि कामु ।
सुदरु पह तुम्हारउ समग्गु । ५
एत्थत्थि न दीसइ दोसु कोइ ।
धीय वि धरणीसे किय कलत्त ।
सो नत्थि तेण जगे जो न छलिउ ।
सरवणवावीकीलाणुगउ ।
हुउ नंदणु गुणवीसामु सुयणु । १०
हक्कारिउ सो तें कत्तिगेउ ।

घत्ता—पच्छा नामें वीरसिरि घीय सलक्षण भवरूपिणी ।
सा सइ कौंचनराहिवहो रोहीडयपुरे परिणहूँ दिन्नी ॥१६॥

१७

अणुदियहु कुमार कलाउ लेंतु
हुय चउदह वरिस वसंतमासे
निवकुमारहँ सुहसंपायणाई
सव्वाण कएण पसंसियाई
आलोइऊण संजायखेउ
किं महू मायामहु नत्थि माए
ता कहिउ ताए जो ताउ तुह
निसुणेवि एउ लज्जिउ कुमार
माणावमाणतणमणिसमाणु
तहिँ पडिमाजोएँ ठियहो तासु
पक्खालेवि तणुमलु जलपवाहु
तहिँ तप्पहइ अज्ज वि नवति

वड्डिउ नवयदु व दिहि जणंतु ।
जणमणहरे विविहुच्छवपयासे ।
तत्थाहरणाइउवायणाई ।
मायामहेहिँ सपेसियाई ।
पुच्छइ नियमायरि कत्तिगेउ । ५
तें णाउ पसाउ पसन्नवाए ।
मायामहु सो ज्जि पसन्नमुह ।
सजायउ जइ वज्जियवियारु ।
किक्किंचगिरि गउ विहरमाणु ।
हुय वारिविट्ठि जल्लोसहासु । १०
घिउ खोल्लठाए हुउ दहु अथाहु ।
जो ण्हाइ तासु वाहीउ जति ।

घत्ता—एतहें सोयविसंठुलिय हा हा पुत्त भणति विवन्नी ।
कित्तिय काणणे सिरिगिरिहें बेंतरकुले देवय उप्पन्नी ॥१७॥

१८

सो पुव्वसिणेहें देवयाए
संजमधरु पुरु रोहीडु आउ
कियमासखमणु भिक्खहें पइट्ठु
परियाणेवि भायरु सायराए
समियहो भुंजंतहो भमलियाहें
अच्चमणु करेप्पिणु जाइ जाम
परमेसर पाविट्ठेण एण
पत्तियह न जइ तो कि न एहु
ता राएँ रोसवसेण भत्ति
उरें पहुउ ताए निम्महियमारु

तहिँ होंतउ रविसज्जंतु ताए ।
जहिँ सो बहिणीवइ कुंचराउ ।
अंते उरें नियबहिणीए दिट्ठु ।
सइँ ताइँ खडाविउ नयसिराए
निवडंतु घरिउ भइणीए ताए । ५
केण वि नरनाहहो कहिउ ताम ।
माणिउ कलत्तु तुह खवणएण ।
अवल्लोयहि कुंकुमलित्तदेहु ।
पासायत्थेण वि मुक्क सत्ति ।
निवडिउ संपत्तु भमंधयारु । १०

घत्ता—एत्थंतरे कत्थइ गइय आय माय सुमरेवि तणुभउ ।
जाम नियच्छइ ताम हुउ सत्तिए पडिउ महिहें छिन्नंगउ ॥१८॥

१८ १ संपत्तु मंधयारु । २. छंगउ ।

१९

तहो तहिँ भ्रवत्थ तारिस निएवि
हा पडिउ ह्यासहं मज्झ बज्जु
जइ तुह न समीवु मुएवि जंति
जेणाहंभो सि मुणि सुयणसेव
सा एम भणंति रुयंति तेण
जइ हउं तुह सुउ तुहं महु जणेरि
परु केवलु माए निमित्तमेत्तु
इय भणेवि नरेंदहो उवरि जंति

निदइ अप्पाणु रुयंति देवि ।
जा गय तणूय तईं मुएवि अज्जु ।
हा तो किं एहावत्थ हौंति ।
तं मारमि जइ वि धरंति देव ।
पल्लइय समागयचेयणेण । ५
ता कासु' वि उवरि म करहिं खेरि ।
फलु देइ सुहामुहतरु निरुत्तु ।
विणिवारिय देवय खउ करंति ।

घत्ता—जहिँ निज्भर सीयर सयईं नीबईं जहिँ सरीर समुवज्जमि ।

पुणु वि भणिय मईं नेहि तहिँ जेम समाहिण पाण विसज्जमि ॥१९॥ १०

२०

ता मोरिय होइवि देवयाए
बहलुच्छलंत सीयल तुसार
आसासिउ तहिँ सुविसुद्धबुद्धि
हुउ अन्नहो कहो एवड्डु धीरु
तइयहुँ पहूइ तहिँ सामि देउ
एत्तहे वि सहोयरि सुणेवि वत्त
उम्मुच्छिय केम वि रायभज्ज
हा गुणनिहिं कहिँ एत्थागंभो सि
बलि किज्जउ नरवइ निव्वियारु
हा भायर भायर पुक्करति

निउ उवरि चडावेवि तुरिउ ताए ।
जहिँ निवडइ सामल कविल धार ।
गउ मरेवि साहु सव्वत्थसिद्धि ।
परिपुज्जिउ देवहिँ तहो सरीरु ।
किउ लोयहिँ मन्नेवि पुत्तहेउ । ५
हा माय भणंती मुच्छ पत्त ।
सोयइ हा एककोयर मणोज्ज ।
हा पावे किह सत्तिण हंभो सि ।
किह हम्मइ महारिस निव्वियारु ।
खणु एककु वि थक्कइ न वि रुयंति । १०

घत्ता—ण्हाइ न धुवइ समालहइ न वि भुजइ न विणोउ निहालइ ।

बंधुसोयवस विमणमण देवि न अप्पाणउ संभालइ ॥२०॥

२१

तावहिँ तप्पीडण कायरेण
मन्नाविय पिय अमुणंतएण
मईं दुन्नयवंतें किउ अजुत्तु
तुह सोएँ मज्झ महंतु सोउ

राएँ कौंचेण कयायरेण ।
हा दुज्जणवयणुभंतएण ।
लइ एककसि करहिं पसंभु चित्तु ।
महु सोएँ सोयइ सव्वु लोउ ।

१६. १ ते कोसु ।

इय जाणैवि सुयणु अणत्थजोउ
पडु जाविय पहुणा इण भणैवि
पुणु किउ अण्येपरणविणोउ
पहईसरेण तारिसु असेसु
ता किं चि वि सरुहियघायरंधु
अभोभु सिणैहालाव हूय
सो भाउआइ नामेण दिवसु

परिहरहि किसोयरि बंधुसोउ । ५
पर तो वि न मेल्लइ सोउ देवि ।
तेण वि न ताहि किउ दुहविओउ ।
काराविउ पुणु बेसकरु वेसु ।
परिओसिय सा मन्नेवि बंधु ।
संजाय सुत्तिणि रायहो वहूय । १०
हुउ तप्पहूइ छणु जणियहरिसु ।

घत्ता—एवविह कह कहिय मईं सामिकत्तियेयहो जिणभासिय ।
अन्नारिस अन्नाणियहिं विरएप्पिणु लोयहो उवएसिय ॥२१॥

२२

तह अभयघोसु
छिन्नघिपाणि
उपपन्नानु
एत्यत्थि चारु
तहिं अभयघोसु
एक्केहिं तेण
तल्लम्मि लद्धु
कच्छउ लएवि
आमुक्कु चक्कु
सो मरेवि पुत्तु
हुउ चंडवेउ
कालेण राउ
विहरेवि आउ
वीरासणेण
चक्केण पाणि-

मुणि मदरधीरु विमुक्कदोसु ।
वेयण सहेवि गुणरयणखाणि ।
कम्मईं हणेवि गउ परमठाणु ।
काकदिनामु पुरु चउडुवारु ।
पहु नायवंतु जणजणियतोसु । ५
कीलप वणभूमिहि निग्गएण ।
चउसु वि पएसु लंवतु बद्धु ।
सम्महुउ एंतु धीवरु निएवि ।
कत्तरियउ कुम्महो कमचउक्कु ।
तासु जे चिरसंचियवेरजुत्तु । १०
नामे अभयमइहे उगगतेउ ।
ससिगहणु निएप्पिणु सवणु जाउ ।
पुणरवि तहिं उववणे वीयरउ ।
पेच्छेवि थिउ चिरवइरेण तेण ।
पायहै वि विहिय पिसुणेण हाणि । १५

घत्ता—निचचलमणु वेयण सहेवि उप्पाएप्पिणु केवलु नाणउ ।

उज्जलु सिरिचंदु सुरिदथुउ गउ परमेसरु सासयठाणउ ॥२२॥

विविहरसविसाले णेयकोळ्हलाले । सलियवयणमाले अत्थसंदोहसाले ।
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोबसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिभतोसे ॥

मुखिसिरिचंद्रपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते ।

अट्टाहिउ सम्मत्तो वालीसमओ इमो संधी ॥

॥ संधि ४८ ॥

संघि ४६

१

धुवयं—पणवेप्पिणु तिहुयणगुरु रंजियविउससह ।

आहासमि गिरिधीरहो विज्जुच्चरहो कह ॥

पोमरहहो वंसे सुमणोहरे
होंतउ आसि एत्थ विक्खायउ
निरुवमरूव तासु पाडलगइ
जमदंडु व जमदंडपहाणउ
विज्जुच्चवलु विज्जुच्चरसन्नउ
चोरेवि चोरिण परघणसंचउ
सो निसि निच्चमेव नयरंतरे
भिणिहणतमक्खियसयवेडिउ

वामरहाहिहाणु मिहिलापुरे ।
नं सयमेव सक्कु सग्गायउ ।
बंधुमई महएवि महासइ । ५
तलवरु तलवरविज्जवियाणउ ।
मंततंतविज्जासंपुन्नउ ।
होंतउ तेत्थ वि पउरपवचउ ।
भमइ रमइ दिणं सुन्नहरंतरे ।
अच्छइ धुत्तु हवेप्पिणु कोडिउ । १०

घत्ता—एक्कहिं दियहे विहावरिहे राउलु पइसेप्पिणु ।

देवदिनु मोहेण गउ सो हार हरेप्पिणु ॥१॥

२

निवहो महंत चित पेक्खेप्पिणु
गंपि तेण सव्वत्थ गविट्टउ
सत्तमदिणं मईए संभाविउ
तेण वि तत्थ तलारहो केरउ
पुणु वि विराणउ पयडिउ तक्खणे
अवरु वि इंदजालु पयडेप्पिणु

गउ आरक्खिउ पय पणवेप्पिणु ।
[तो वि न हारचोरु कहिं दिट्टउ] ।
पुब्बुत्तउ नरु नेप्पिणु दाविउ ।
किउ विज्जाणु रूउ विवरेरउ ।
देवविमाणागमणु नहंगणे । ५
भणिउ नराहिउ कर जोडेप्पिणु ।

घत्ता—कोडिउ हउं भिक्खारिउ पहु देसंतरिउ ।

निच्छउ होमि न तक्करु निरवराहु घरिउ ॥२॥

३

गुलियंजणविज्जासामत्थउ
करेवि पबंचु मुणेवि अपक्खिउ
अणु जंपइ अणाहु संताविउ

विरयइ एहु अणेयावत्थउ ।
चाहइ मई मारहुं आरक्खिउ ।
पहिउ तलारें हा माराविउ ।

जमदंडेण भणितु मई कलियउ
 एम भणेप्पिणु नेप्पिणु नियघरु
 विविहपयारहिँ दडणु सहियउ
 हा हउँ देसिउ वाहिवसगउ
 एम भणंतु तेण अत्थाणु
 एहु नराहिव चोरु निरुत्तउ

निच्छउ एहु चोरु नउ अलियउ ।
 सेहिउ रत्तिहे पक्खसमरहरु । ५
 तो वि न तेणप्पाणउ कहियउ ।
 निरवराहु मारिज्जमि लग्गउ ।
 कहिउ नरिदहो नेवि विहाणु ।
 होमि न कुसुमालेण वि वुत्तउ ।

घत्ता—ता पुच्छंतहो देप्पिणु अभयपदाणु तहो । १०
 हउँ लपेक्कु निरुत्तउ तेणक्खिउ निवहो ॥३॥

४

एउ सुणेप्पिणु विभियमइणा
 दूसहाउ तक्कर कहि अहियउ
 कहिउ तेण मुणिणा वावन्नित्त
 तं सुमरेवि एउ अणुमेत्तउ
 ता तूसेप्पिणु पड्डणा वुत्तउ
 भणितु तेण निव एत्तिउ किज्जउ
 आयन्नेवि एउ अणुराएँ
 कहहि किमेउ दूहणनिवारउ

किह पई पुणरवि पुच्छिउ पइणा ।
 जायणाउ बत्तीस वि सहियउ ।
 मई नारइउ दुक्खु आयन्नित्त ।
 मन्नेवि सहिउ कयत्थियगत्तउ ।
 [मग्गि एककु वरु देमि निरुत्तउ] । ५
 महु मित्तहो तलवरहो खमिज्जउ ।
 पुणु पुच्छिउ विज्जुच्चरु राएँ ।
 जायउ मित्तु तलारु तुहारउ ।

घत्ता—भणितु तेण आयन्नहि पुहईसरु पयडु । १०
अत्थि अहीरविसु पुरु वरु वेन्नायतडु ॥४॥

५

पालइ तं जियसत्तु पड्डु
 विज्जुच्चरु नामें तणउ
 जमपासहो निव तलवरहो
 सो जमदडु एहु पयडु
 हउँ एउ वि एयग्गमणा
 पड्डुँ समप्पिय सुदरहो
 पड्डमि गंधु हउँ कत्तरहो
 एककहिँ वामरे एहु मइ
 होएवउ आरक्खिएण
 चोज्जु करेवउ निच्छइण

जयमइ नामे तामु बड्डु ।
 हुउ हउँ तहे पयणियपणउ ।
 नदणु नयक्कमपरहो ।
 मित्तु महारउ कोडिभडु ।
 बालभावे तहिँ वे वि जणा । ५
 पियपियरहिँ पाड्यवरहो ।
 एहु वि सिक्खइ तलवरहो ।
 भणितु नराहिव जत्थ पई ।
 तहिँ मई मित्तु सुसिक्खिएण ।
 एण वि भणितु अतुच्छइण । १०

होसहि तुहें कुसुमालु जहि
इय अन्नोन्न पदज्ज किया

रक्ख करेवी मई वि तहि ।
विहिं मि पढंतहिं दिवस निया ।

घत्ता—एक्कहिं दिणे निब्बेइउ देप्पिणु रज्जु महं ।

गउ जणेरु त्वे संठिउ बहुनिवसुयहिं सहं ॥५॥

६

नियअहियारु समप्पेवि आयहो
अच्छमि हउं तहिं रज्जु करंतउ
सामिउ नवर निरिक्कु महारउ
तेण न सोहणु एउ विचिंतेवि ।
छड्डेवि नियअहियारु इहायउ
हउं वि एहु जोयतु भमतउ
एयहो बुद्धिविसेसु परिक्खिउ
आणिउ जहिं थिउ हाराइउ घणु
बुज्जेवि नियसससुउ अणुराएँ
नियनदिणि नामे महलच्छिय

गउ जमपासु वि पयें रायहो ।
एहु वि कोट्टवालु गुणवतउ ।
हउं मि एत्थ परिपंथिनिवारउ ।
गउ' महंतु महु केरउ मंतेवि ।
निव तुहु कोट्टवालु संजायउ । ५
बहुकालेण एत्थु संपत्तउ ।
इय सयलु वि नियवइयरु अक्खिउ ।
अप्पप्पणउ लेवि गउ त जणु ।
सम्माणिउ विज्जुच्चरु राएँ ।
भणिउ विवाहहि तेण कि नेच्छिय १०

घत्ता—ता तहिं सुद्धि लहेप्पिणु मंतीसरेण नरु ।

पेसिउ तेण वि एप्पिणु दिट्ठउ पहयपर ॥६॥

७

कहिउ सब्बु सामिय म चिरावहि
पई विणु कोइ वि एत्थ गुणालउ
जो तुहासि होंतउ अणुकूलउ
मंतिहिं अप्पाइउ निसुणेप्पिणु
कोट्टवालु जमदंडु लएप्पिणु
सयल विवक्ख सपक्ख करेप्पिणु
रायसहासैं सहं वणु गपिणु
विज्जुच्चरु दो दोस मुएप्पिणु

तुरिउ पयत्तु करेप्पिणु आवहि ।
नत्थि समत्थु रज्जपरिपालउ ।
सो संजाउ सब्बु पडिकूलउ ।
पहु वामरहु मामु पुच्छेप्पिणु ।
जगमणहरु नियपट्टणु एप्पिणु । ५
नियनंदणहो रज्जु ढोएप्पिणु ।
गुणनिहि गुणधरसूरि नवेप्पिणु ।
हुउ संजउ जिणदिक्ख लएप्पिणु ।

घत्ता—सब्बसत्थनिम्मायउ जायउ संघघर ।

महि विहरंतु पराइउ तामलित्ति नयरु ॥७॥

१०

८

पंचहिं रिसिसएहिं परियरियउ
दुग्गादेविष्ठ पुरे पइसंतउ

गुणमंदिरु दूरीकयदुरियउ ।
बारिउ सबणसंघु पइसंतउ ।

६. १ अउ ।

जणमणनयणाणंदजणेरउ
तामुज्जाणे थाहि परमेसर
एत्थावेसहिं विविह सतामस
पेक्खेप्पिणु रउद् रुसेसहिं
ता देवयहे वयणु अबहारिउ
पच्छिमदिसग्ग एएसे मणोहरे
वीसमति किर जाम खणंतरु
जोइणिभूयसत्थु सपत्तउ
घोरुवसग्गु तेण आढत्तउ
मुणिगणु निसिहे समाउलचित्तउ
विज्जुच्चरु परेक्कु थिरचित्तउ

बोलइ जाम महुच्छउ मेरउ ।
मा पट्टणे पइसरहि मुणीसर ।
भूय पिसाय नाय गह रक्खस । ५
ते तुम्हहें उवसग्गु करेसहिं ।
चप्पेवि उम्मोडहिं पइसारिउ ।
थिय सालहो समीवे अब्भंतरे ।
ताम निसायरणियरु भयंकरु ।
मुणि निएवि कोवग्गिपलित्तउ । १०
कायमेत्तमसयहिं खज्जंतउ ।
नट्ठु दिसोदिसु त असहंतउ ।
तं सहिऊण मोक्खु संपत्तउ ।

घत्ता—सवलि थालि व सिहिणा सव्वंगु वि जलिउ ।

तो वि न मणु गिरिधीरहो गुरुदत्तहो चलिउ ॥८॥ १५

९

इह भरह्खेत्ते पावियपससे
पुहईवइ उवरिचराहिहेउ
सइ सक्कहो रइ व मणोभवामु
नंदणु अणंतवीराहिहाणु
एक्कहिं दिणे निवइ वसतमासे
अतेउरपुरपरियणसमेउ
पोमावईग्ग अमियप्पहाग्ग
वणकील करेप्पिणु सुइरु राउ
जलकील करहुं सुहदसणाहे

सावत्थीपुरे इक्खाउवंसे ।
होंतउ विवक्खवणजायवेउ ।
पोमावइ त्ति महएवि तामु ।
वरपच्चसयहं पुत्तहें पहाणु ।
जणमणहरे सयणुच्छवपयासे । ५
उज्जाणवण गउ रमणहेउ ।
सुप्पहग्ग महाविग्ग पहाग्ग ।
एयाहिं समउं बढाणुराउ ।
वाविहे पइट्ठु सुहदसणाहे ।

घत्ता—मीणइरंभुव्वसिसइसहिउ फुरंतपहु ।

विविहविणोयहिं सक्कु व कीलइ जाम पहु ॥९॥ १०

१०

ताम तत्थ महियले महाइओ
मयणवेयनामाग्ग मन्निओ
मच्चलोग्ग अओ न एहओ
सुणेवि एउ ईसाइओ पई

विज्जुदाढु खेयरु पराइओ ।
तहो पियाग्ग निवु नियवि वन्निओ ।
नाई कामु कमणीयवेहओ ।
गंपि गेह्व थविऊण तहिं सई ।

पडिनियत्तु सहस्रसत्ति नं इला
 देवि वावि नीरंष भंपिया
 गउ खगामि नियनिलउ निक्कवो
 तहिं जे सप्पु सम्मुच्छिमो षणे
 राणियाउ सुहसयनिहाणए
 अणसणेण जिणु सरैवि मुइयउ

उद्धरेवि रोसेण गुरु सिन्ना । ५
 उवरि लालरत्ति ष्व थपिया ।
 मरेवि अट्टज्जाणेण पत्थिवो ।
 हुयउ मिच्छभावेण उववणे ।
 पढमसग्गि सत्थयविमाणए ।
 जलहिजीविया देव हुइयउ । १०

घत्ता—एक्कहिं दिणे सारस्सदनामु पसिद्धु जणे ।

साहु समागउ देववणोवमि' तम्मि वणे ॥१०॥

११

निसुणेवि अणंतवीरु निवइ
 पणवेप्पिणु अरुहीणाणघरु
 अक्खहि कहि ताउ महं तणउ
 मुणिणा पउत्तु अट्टेण मुउ
 आयन्नेवि इउ दूमियमणउ
 कि भयवं चिरमवु संभरइ
 भासिउ भयवते इत्थु विले
 भो भो उवरिचर नराहिवई
 अज्ज वि जीवेवइ करहि मई
 तो एत्थावेप्पिणु पुव्वभवु

गउ वंदणहत्तिए चारुमइ ।
 पुच्छिउ परमेसरु मुणिपवरु ।
 उप्पन्नु भडारा बहुगुणउ ।
 वणे एत्थु जे अच्छइ सप्पु हुउ ।
 गग्गरिगरु चवइ रायतणउ । ५
 संपइ सो अरुहधम्मु करइ ।
 जइ भणहि एउ गपिणु विउले ।
 हा हा तुह केहावत्थ हुई ।
 डज्झउ संसारु विचित्तगई ।
 सुमरेप्पिणु निच्छउ लेइ तवु । १०

घत्ता—ता तें तं किउ तक्खणे तत्थायउ उरउ ।

जाईसरु मुणिवयणे हुउ दुक्कियविरउ ॥११॥

१२

थोवाउ वियाणेवि नायवई
 पलिअोवमजीविउ लोयथुउ
 तक्खणे तत्थावेवि नवेवि गुरु
 रज्जाहिसेउ नियसुयहो किउ
 अजरामरु वाहासयरहिउ
 एत्तहे जत्तहे नंदीसरहो
 नायामरु निरुवमरुवसिरी

सन्नासु करेप्पिणु धीरमई ।
 भवणामरु नायकुमारु हुउ ।
 जाणावि वि अप्पयें गयउ सुअ ।
 ताणंतवीरु तवु लेवि थिउ ।
 हुउ सिद्धु बुद्धु तिसुयणमहिउ । ५
 निव्वत्तिवि पुज्ज जिणेसरहो ।
 गउ वंदणहत्तिए मेरुगिरी ।

तहिं विज्जुदाढु सकलत्तु तेण
कहिं जाहि पाव पच्चारियउ
नाणाविहदुक्खनिरंतरए
देसूणउ पल्लाउसहो खाए

जोयवि चिरवइरविरहएण ।
बडवाणले घल्लेवि मारियउ ।
उप्पभू पढमे नारउ नरए । १०
हुउ बग्घु तोणिमंतम्मि नए ।

घत्ता—फणिदेउ वि ततो चुउ कुरुवंसुग्भवहो ।

संजायउ सुउ गयवइ विजयदत्तनिवहो ॥१२॥

१३

गुणमणिनिहि विजयादेविजाउ
बालहो जे रज्जु तहो देवि राउ
एत्तहे वि ललियभासाविसेसे
सक्कु व सुरसयसेविउ महंतु
पुब्बत्तरदिसिहि मणोहिराम
जायववंसुग्भउ चंदकित्ति
तहो गेहिणि बद्धारियसिणेह
जिणमइआइयउ अणोवमाए
अभयमइ ताहें सब्बहें लहुय
मगिय सा गुरुदत्तेण कम्म

गुरुहत्तु भणिउ कमणीयकाउ ।
संजायउ जइ निज्जियकसाउ ।
घणकणयसमिद्धए लाडदेसे ।
गिरि अत्थि पसिद्धउ तोणिमंतु ।
तहो अत्थि नयरि चंदउरि नाम । ५
तहिं करइ रज्जु पहु चंदकित्ति ।
छणयंदसमाणण चंदलेह ।
संजायउ सत्त सुयाउ ताए ।
तियरूवें रइ व समक्ख हूय ।
केम वि न दिन्न पिउणा पसम्म । १०

घत्ता—ता ससेन्नु सन्नज्जेवि गंपिणु पुरिसहरि ।

अमरिसवसु करिपुरवइ थियउ रुंभेवि नयरि ॥१३॥

१४

एत्तहि ससिकित्ति वि अमरिसेण
संजाउ महाहउ पडिय जोह
चूरिय रहचामरछत्तदंड
पच्छाइउ गयणंगणु सरेहि
रहसुग्भउथड नच्चिय पहूय
पवहाविय घय जंपाण जाण
तहिं तेहए भीसणे भडवमाले
माणिककडयभूसियपसत्तु
सो नहबले नैतहो नहयरासु
निच्छट्टेवि राउले पडिउ तेत्तु

निग्गउ सहुं सेधें सरहसेण ।
लोहाविय हयवरगयवरोह ।
दोखंडिय सुहडहें बाहुदंड ।
महि मंडिय सिरहिं निरंतरेहि ।
घव पाविय रक्ख पिसाय भूय । ५
उट्ठिय सोणियनइ अप्पमाण ।
चक्केण छिन्न संगामकाले ।
कासु वि सामंतहो तणउ हत्तु ।
पासायहो उवरि मणोहरासु ।
अच्छइ सहुं सहियाहिं कम्म जेत्तु । १०

घत्ता—तं पेक्खेप्पिणु कारणु पुच्छिय धाइ तए ।

ताए वि कहिउ महाहवु वट्टए तुज्झ कए ॥१४॥

१५

तहिँ पडिउ निवहो कासु वि ससोह
ता पेसेवि पुरिसु निवंगयाए
महु लम्गेवि निक्कारणु वराउ
गइ कवण लहेवी सुद्धि कत्तु
ता राएँ आयन्नेवि एउ
परिणिय गुरुदत्तेँ सायरेण
परिणेप्पिणु निवसइ तत्थ जाम
एत्थच्छइ काणणे वग्घु देव
उब्वासिउ जणवउ तेण सव्वु

एत्थाणिउ गिद्धेँ हत्थु एहु ।
जाणाविउ तायहो भयगयाए ।
मारावेवि एत्तिउ भडनिहाउ ।
मुए गाहु पबोहहि निययचित्तु ।
दिन्नी अभयमइ मुएवि खेउ । ५
नं रुप्पिणि हलहरभायरेण ।
केण वि आवेप्पिणु कहिउ ताम ।
पवियंभइ कुद्धकियंतु जेव ।
किउ भडसमूहु परिगलियगव्वु ।

घत्ता—तोणिमंतु गिरि गंपिणु गुरुदत्तेण तउ ।

१०

सयले खंधावारेँ वग्घहो वेहु कउ ॥१५॥

१६

जणु नियवि निरंतरु ओसरेवि
ता तहिँ तणकट्टनिवहु छहेवि
तत्थेव विस्सदेवहो दियासु
नामेण सहिसो कविलकेसु
अच्छेवि तत्थ गुरुदत्तराउ
अभयमइए सुउ सव्वंगभद्दु
एक्कहिँ दिणे रंजियजणमणम्मि
अमियासवु नामेँ हयमएहिँ
आयरिउ [समाउ] जगप्पयासु
पणवेप्पिणु विणएँ मुणि वरिट्ठु
पुच्छंतहो तहो गणिणा वि धम्मु

थिउ सो वि गुहंतरे पइसरेवि ।
माराविउ खलु जलणे डहेवि ।
हुउ पुत्तु विस्सदेवीपियासु ।
जमदूउ नाइ थिउ विप्पवेसु ।
गउ मियपुरु पत्तु जणाणुराउ । ५
जायउ नामेण सुवन्नभद्दु ।
धरणीधरे धरणीभूसणम्मि ।
परियरियउ सत्तहिँ रिसिसएहिँ ।
गउ वंदणहत्तिए निवइ तासु ।
करिनयरनाहु अग्गए निविट्ठु । १०
कहिऊण पयासिउ पुव्वजम्मु ।

घत्ता—तुहँ उवरिच्चरु नराहिवु पुणु फणि फणिअमरु ।

हुउ गुरुदत्तु महीवइ एक्कहिँ एत्थु वरु ॥१६॥

१७

पहुपुच्छावसाणे अभयमइए
कहहि भडारा कहिँ हउँ होंती

पुच्छिउ साहु समंजसु सुमइए ।
कि किउ जेणेरिसु पइ पत्ती ।

कहइ महामुणि नवजलहरगिर
तुहँ पिय पारद्विग्रहो पहाणहो
पइसमीवे परिपालियचरियहो
जीवघायमहुमंसावग्गहु
एकहिं दिणे धरेवि खलचित्तं
ते तइं मोक्कलेवि उव्वारिय
अन्नाणेण करेवि नियणउ
थिय उयरंतरम्मि ससिदित्तिहे

गोमइ नामें चंदउरिहिं चिर ।
होती गरुडवेय नामाणहो ।
तहिं समाहिगुत्तहो भ्राइरियहो । ५
लइउ नवेप्पिणु दुग्गइनिग्गहु ।
आणिय तित्तिर तुह वरइत्तें ।
तेण वि तुहँ पिट्टेवि नीसारिय ।
मुय वाविहे घल्लेवि अण्पाणउ ।
ससिलेहहे पुहईवइपत्तिहे । १०

घत्ता—गळभावत्थए मायरि जीवदएक्कमइ ।

हुय तें तुह सुए ताए कोक्किय अमयमइ ॥१७॥

१८

आयत्तेवि एउ महएविए सुमरेवि पुव्ववइयरो ।
लइय जिणंददिक्ख पृच्छिंवि पइ पणवेप्पिणु रिसीसरो ॥

गुरुदत्तो वि रज्जु सिरिदत्तहो पुत्तहो देवि संजओ ।
अमियासवहो पासे संजायउ विसयकसायभंजओ ॥

भासोवासपक्खचंदायणएयंतरतवासिओ ।

५

महि विहरंतु संतु भयवंतु महामइ महुरभासिओ ॥

आवेप्पिणु समीवे चंदउरिहे पुव्वुत्तरदियंतरे ।
रविपडिमाए कविलदियछेत्तासन्नु ठिओ वणंत्तरे ॥

कविलु वि ताम तत्थ संपाइउ पेक्खेवि नत्थि वाहणी ।
गउ पच्छिमहो नवरि नियछेत्तहो अण्पाहेवि महुामुणी ॥ १०

एत्थाइयहे एउ अक्खेज्जमु पुच्छंतिरहे कंतहो ।
भोयणु लेवि सिग्घु आवेज्जमु गउ तुह वइउ उत्तहे ॥

एम भणेवि गयहो खेतंतर पइपयभत्तिराइया ।
तहो पिय कविल नाम मज्झमए भत्तु लएवि आइया ॥

पुच्छिउ आउ एत्थु हलवाहउ कहिं गउ वर महारओ । १५
गय घर जाम कि पि न वि जंपइ थिय मोणें भडारओ ॥

कविलु वि वडु बार पहु जोइवि भुक्खातिसकरालिओ ।
आयउ हलु मुएवि अवरण्हए दइयहे देंतु गालिओ ॥

किं कारणु ह्यासे महँ संबलु गेण्हेवि णाय सइरिणी ।

पहँ भुक्खाण्ण भज्ज हउं मारिउ तुहँ पच्चक्ख वइरिणी ॥ २०

घत्ता—खम करे ताण्ण पउत्तउ मा रुसहि दइया ।

पहँ जोएप्पिणु हउं तहिँ जाएप्पिणु भइया ॥१८॥

१६

एउ सुणेवि किञ्चि उवसंतं
किं पहँ खवणउ तत्थ न विट्ठउ
गउ भणेवि हउं एउ करेज्जसु
भणिउ ताण्ण सो महँ बहु वारउ
तो वि न किञ्चि वि चवइ भडारउ
ता बंभणिहे उवरि उवसंतउ
गंपि तत्थ जाणियपरमत्थउ
वंठिण्ण सव्वंगु वि वेड्ढेप्पिणु
लाइउ सिहि वेयण विसहेप्पिणु
आइउ सहँ सुरेहिँ सुरसारउ

भणिय भयाउल कंता कंतं ।
किं तुह तं महँ वयणु न सिट्ठउ ।
मुणि एत्तहिँ पिय पट्ठावेज्जसु ।
पुच्छिउ कहिँ गउ कंतु महारउ ।
थिउ तुण्हिक्कउ मयणवियारउ । ५
बंभणु सवणहो उवरि पलित्तउ ।
पाविट्ठेण तेण भाणत्थउ ।
रिसिसिरे करिसाहारउ देप्पिणु ।
हुउ केवलि कम्माइँ हणेप्पिणु ।
थुउ भरेण गुरुदत्तु भडारउ । १०

घत्ता—मुणिमाहप्पु निएप्पिणु तारिसु उवसमिओ ।

सुणेवि पुब्बभववइयरु कविलु तवम्मि थिओ ॥१९॥

२०

गीयत्थु हवेप्पिणु विहरमाणु
गउ कौकणविसयहो विसयमुक्कु
मुउ डज्जेवि साहु न चलिउ तो वि
ता तहिँ विहाणे तुंगभडु घाउ
निसि एत्थच्छंतु वि महँ न नाउ
निदेवि अप्पाणउ तहिँ जे जलणि
तत्तो चुउ विभे वलक्खकाउ
मारंतु पंथजणु नियवि तेण

कालंतरेण रिउसुहिसमाणु ।
वणे वल्लरु लाएप्पिणु नियत्तु ।
थिउ अच्चुयसग्गे सुरेंवु होवि ।
मुणि दद्धु निएवि महाणुभाउ ।
हा किउ पाविट्ठं साहुघाउ । ५
मुउ पइसेवि हुउ सुरु सरिहे वलणि ।
संजायउ कम्मवसेण नाउ ।
सबोहिउ अच्चुयसुरनिवेण ।

घत्ता—सुमरेवि पुब्बभवंतरु [तक्खणि] विरउ हुउ ।

वणे डज्जेवि दवग्गिण्ण जूहाहिवइ मुउ ॥२०॥ १०

२१

पेच्छह जिणिदधम्महो पहाउ
 भट्टारहजलनिहिजीवियंति
 षणसिरियहे सेणियनिवधणाहे
 सिविणंतरे देविण्ण दिट्ठु नाउ
 पुरि परियणेण सहूँ रइयसोहे
 वरिसंतो विमलं जले दुद्दिणम्मि
 कीलेवण्ण अत्थि पियाणुराउ
 सो अभयकुमारें चारुचित्तु
 सोहणविणे जणमणजणियहरिसु
 सिविणण्ण गउ देविण्ण दिट्ठु जेण

तिरियंचु वि सुह सहसारे जाउ ।
 पुरे रायगेहे मगहाजणते ।
 भवइधु उयरे नवजोव्वणाहे ।
 पंचमण्ण मासे दोहलउ जाउ ।
 आरुहेवि दुरण्ण चलमहुयरोहे । ५
 महउच्छवेण गंपिणु षणम्मि ।
 चिताविउ तं णिसुणेवि राउ ।
 पूरविउ सरेप्पिणु खयरु मित्तु ।
 उप्पन्नउ घन्नउ पुन्नपुरिसु ।
 किउ गयकुमारु तहो नामु तेण । १०

घत्ता—वड्डिउ जाउ जुवाणउ सयलकलाकुसलु ।

मयणु व रूवे जिणेसरपायपोमभसलु ॥२१॥

२२

एक्कहिं वासरि वीरु जिणेसरु
 आयन्नेवि धम्मु वित्थारें
 संचरंतु अणण्ण तित्थयरहो
 पच्छिमदिसिहे दियंबरसारउ
 थिय आयवावणे जोयनिरोहें
 तन्नयराहिवेण णरसीहें
 तिक्वायउ विसहतु नियच्छिउ
 संघहिं काई एउ एमच्छइ

आगउ गउ त नवहुँ नरेसरु ।
 लइय दिक्ख तहिं तेण कुमारें ।
 गउ कलिगविसयहो दतितरहो ।
 गयकुमारु गिरिसिहरे भडारउ ।
 पणविउ गंपिणु भव्वनरोहें । ५
 विसमवइरिदाणवनरसीहे ।
 बुद्धदामु नियमति पपुच्छिउ ।
 ता पच्चुत्तरु पिसुणु पयच्छइ ।

घत्ता—एहु अणाहु समीरे सुट्ठु कयत्थियउ ।

तेणत्थच्छइ सामिय तिक्वायवे थियउ ॥२२॥

१०

२३

पुच्छिउ पुणु वि णरिदें आयहो
 भणितु अमच्चें एत्तिउ किज्जइ
 ता पुहईसैं सो जे पउत्तउ
 तेण वि पावियरायाएसैं
 एत्तहे चरिय करेवि नियत्तउ

फिट्ठइ केम पहंजणु कायहो ।
 एयहो सिल तावेप्पिणु दिज्जइ ।
 कारावहि पडियासु निरुत्तउ ।
 सिल तावावेवि मुक्क विसेसैं ।
 तत्यारूढउ चारुचरित्तउ । ५

सो उवसग्गु सहेप्पिणु धीरउ
 देवागमणु निग्गवि उवसंतउ
 नरसीहु वि नरपालहो पुत्तहो
 रायसहासें सहुं पव्वइयउ

गउ भोक्खहो जायउ भसरीरउ ।
 जायउ बुद्धदासु जिणभत्तउ ।
 रज्जु समर्पेवि गुणगणजुत्तहो ।
 हुयउ पसिद्धु तवसि भइसइयउ ।

घत्ता—सिरिचंदुज्जलकायउ देवनिकायधुउ ।

१०

जायउ मेवज्जामरु काले कलुसचुउ ॥२३॥

विविहरसविसाले णेयकोरुहलाले । सलियवयणमाले भत्त्वसंदोहसाले ।
 भुवणविदिदनामे सब्बदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिप्ततोसे ॥

मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते ।
 पन्नासमभो संघी एसो एग्गुणभो भणिभो ॥

॥ संघि ४९ ॥

संधि ५०

१

सञ्चंगु वि मिलियहिँ उज्जंगुलियहिँ चालणि व्व किउ धीरमणु ।
तइवि हु निरवज्जहो न वि निवकज्जहो चलिउ चिलायपुत्तु समणु ॥

मगहाविह्वल्ल भ्रासि गुणवंतउ
तेण सियाल्लण पंथे समत्थे
मुणि गामंतरे तवघरनामउ
सिद्धउ भ्रमु नत्थि समभाविउ
तेण फलेण दीवे पढमिल्लण
कालु करेप्पिणु कोसपमाणउ
पुणु नंदणवर्णे सुरु तत्तो चुउ
पस्सेणियहो नरिदहो नंदणु
जणिउ चिलायण देविण जेण जे

गुणहिलु सत्थवाहि कप्पि होंतउ ।
गच्छंतेण समेउ ससत्थे ।
भिकखागउ निएवि जियकामउ । ५
गुलु तिलवट्टि देवि भुंजाविउ ।
हइमवयम्मि खेत्ते सोहिल्लण ।
हुउ पलिघोवमजीविउ माणउ
मगहामंइले रायगिहे हुउ ।
रूवे जणमणयणाणंदणु । १०
नामु चिलायपुत्तु किउ तेण जे ।

घत्ता—एकहिँ दिणे राएँ बद्धकसाएँ भ्रउदायणु उज्जेणिपुरि ।
संगरि संदाणहि बंधेवि भ्राणहि पेसिउ पज्जोयहो उवरि ॥ १ ॥

२

ता तहिँ गउरउरगपुरसामिउ
बंधेवि धरिउ सुणेप्पिणु धुत्ते
तत्थ सत्थवाहिणउ ह्वेप्पिणु
रोसें तेण देसु नासंतउ
भ्रायन्नेप्पिणु पडु चिताविउ
जो महु वइरि धरेप्पिणु दावइ
ता चिलायपुत्ते हेराविउ
बंधेवि उज्जेणीवइ भ्राणिउ
दिअउ भग्गिउ मगहाराएँ

पज्जोएण वि रणे भ्रायामिउ ।
विजयकखेण नराहिवपुत्ते ।
भ्राणिउ गंपि छलेण हरेप्पिणु ।
सबलु होवि पज्जोउ पडुत्तउ ।
पट्टणम्मि पडहउ देवाविउ । ५
सो जं मग्गइ तं फुडु पावइ ।
सरे जलकील करंतउ पाविउ ।
तूसेप्पिणु नंदणु सम्माणिउ ।
पुरे सच्छंदविहार पसाएँ ।

घत्ता—बहुकाले राणउ सुट्ठु सयाणउ धरु पुरु परियणु परिहुरेवि । १०
भवसयमलहरणहो गउ तवयरणहो रज्जे चिलायपुत्तु धरेवि ॥ २ ॥

३

रज्जु करतें भावइ पाविय
तहो अनाउ नियवि नयबंतहें
रइउ मंतु सव्वहें मणें भाविउ
मिलिउ परिग्गहू सयसु वि एविणु
मायामहहो पासे जाएविणु
रज्जुभट्टु होप्रवि अन्नित्तिप्र
भट्टमित्तु तहो मित्तु पियारउ
रहमित्तमाउलयहो केरी
सो परिणणहें न पावइ अबरहो

पय चिलायपुत्तें संताविय ।
जाउ अचित्तु मंतिसामंतहें ।
सेणिउ कांचिपुरहो अणाविउ ।
नीसारिउ वाइउ चप्पेविणु ।
काणणे विसमु कोट्टु विरएविणु । ५
चिउ जीवइ भावइयहो वित्तिप्र ।
नं रामहो लक्खणु दिहिगारउ ।
धीय सुहइ सुहाई जणेरी ।
दिज्जइ लग्गी साविय पवरहो ।

धत्ता—इय वत्त सुणेप्पिणु तत्यावेप्पिणु भेलावेप्पिणु सुहइ सय । १०
ते मड्डे हरेप्पिणु कम्म लएप्पिणु जणहो नियतहो वे वि गउ ॥ ३ ॥

४

वत्त सुणेप्पिणु सेवियराणउ
राउ संहिं जाब णय वाहिय
सुट्टु वि सूरा पउर भयंकर
तट्टा के वि निरुद्धा बद्धा
चप्पवि नियवि निरारिउ सेघ्नहो
एम भणेवि कुमारि वियारिय
हूई वंतरि संहिं जि वणंतरे
चडिउ पलाइऊण गरुयारप्र

अणुलग्गउ सेणाप्र समाणउ ।
गंणिणु वणपवेसि पडिगाहिय ।
रायहें कि करति किर तक्कर ।
के वि कियंतहो जंपणे छुद्धा ।
जिहू अम्महें तिहू होइ न अन्नहो ५
सा चिलायपुत्तें संघारिय ।
अप्पणु पाणभएण दुसंचरे ।
पव्वयम्मि पावणे बइभारप्र ।

धत्ता—अणिवत्तु भडारउ भवमयहारउ सहुं सघेण नियच्छियउ ।
मयवेदिरमत्तें पावविरत्तें तेण नवेप्पिणु पुच्छियउ ॥ ४ ॥ १०

५

कहि कहि साहु कि पि संखेवें
ता उवएसु तासु सुहयारउ

साखवएसु कहिउ जो देवें ।
कहिउ रिसीसैं सव्वहें सारउ ।

तं जहा—जं इच्छसि तं नेच्छसु' जं पुण नेच्छसि तुमं पुरिससीह ।
तं इच्छसु' जइ इच्छसि संसारमहम्मवं तरिदुं ॥

५. १ तेरकसु ।

२ इच्छसि ।

विसयाइय परभाव विसज्जहि
 सुणेवि एउ निम्बेएँ लइयउ
 धायभेवि थोबाउ विसेसँ
 ता सेणिउ ससेभु तत्थायउ
 चंगउ कियउ पसं करेप्पिणु
 एत्थंतरे वंतरिणु निहालिउ
 भाणत्थहो सउलियणु हवेप्पिणु
 बहुमुंडकीडियहिँ निरंतरु

निम्बिसयाइय निय पडिवज्जहि । ५
 संखेवेण जे सो पब्बइयउ ।
 थिउ पाउग्गमरणे संतोसँ ।
 भाइ निएवि साहु संजायउ ।
 गउ भंभेवि पुज्जेवि पणवेप्पिणु ।
 वइरवसाणु ताणु खन्भालिउ । १०
 कडिइय लोयण सिरि वइसेप्पिणु ।
 भक्खु व किउ विधेवि देहंतरु ।

घत्ता—पयणियपाणंतउ दुक्खु महंतउ तं सहिऊण समाहिजुउ ।

सो सोक्खनिरंतरे पचाणुत्तरे सिद्धिविमाणहर्हिमुदु हउ ॥ ५ ॥

६

धन्ने जमुणावंके वाणहिँ
 तो वि धीरु धीरेण न चत्तउ
 बुब्बविदेहे दीवे पहिलारणु
 भ्रत्थि भ्रसोयनामु धरणीवइ
 मुहइँ बइल्लहँ दुक्खु न भावइ
 राउलरंघणाइविहिलग्गहो
 जिह पिज्जति न कड्ढेवि बालहिँ
 इय काले जतेणुप्पन्नउ
 तहो उक्कएसिउ उसहो वेज्जे
 ता तहिँ गोउरे साहु पइट्टउ

पूरिउ रिसि राएँ भ्रपमाणहिँ ।
 दुल्लहु सिद्धत्तणु संपत्तउ ।
 पट्टणि वीयसोणु सुहयारणु ।
 सो सया वि किसिकम्मु करावइ ।
 धन्ने मलिज्जमाणे बंधावइ । ५
 यण बंधावइ नारीवग्गहो ।
 किज्जइ कम्महाणि मरिसालहिँ ।
 वयणरोउ तहो तेणात्तउ ।
 भरेण कराविउ तेण मणोज्जे ।
 वीयसोयपुरवइणा दिट्टउ । १०

घत्ता—गुणमणिरयणायरु नामे सायरु दुत्तरभवसमुत्तरणु ।

सयमेव खडाविउ भावें भाविउ दिन्नउ भोयणु सुहयरणु ॥ ६ ॥

७

दाणपहावें बारहवरिसिउ
 कालु करेवि एत्थ विक्खायउ
 तणउ भ्रिट्ठसेणनरनाहहो
 धन्नकुमारु भणेप्पिणु धन्नउ
 वणगउ दमिउ तेण दमदत्तउ
 बहुवीरिउ बहुबलेण विराइउ

रोउ नरिदहो तेण विणासिउ ।
 भ्रामलकठे नयरि संजायउ ।
 नंदिमइए महएविसणाहसो ।
 कोविकउ राएँ रूवरवन्नउ ।
 जियरिउ तं जियसत्तु पउत्तउ । ५
 भवरहिँ न जिउ तेण भवराइउ ।

एयहिं गुणनामहिं सहिज्जइ
तासु सुबुद्धि नामु बहुजाणउ
सो पर घन्नकुमार भणेप्पिणु
एक्कहिं बासरे तेण सरोसें
किं महु भन्नई अत्थि न नामई

सव्वत्थ वि जणेण सलहिज्जइ ।
जणणीभायर मत्तिपहाणउ ।
कोक्कइ नावर नामु लएप्पिणु ।
भणिउ मामु दूरज्झियदोसें । १०
जेण तेहिं बोलावहि नउ मई ।

घत्ता—ता पहयकुबुद्धे भणिउ सुबुद्धे किं कुमार मन्नहि असुहुं ।
उत्तमकुले जायउ जइ विक्खायउ भन्नहि घन्नउ तेण तुहु ॥ ७ ॥

८

भन्नई तुह न घडंति अण्णिदहें
दुद्दमइदियदप्पनिवार
दुसहपरीसहेहिं न पराइय
उच्चाइयचारित्तमहाभर
निज्जियरायदोसमोहाहिय
न पुणु गयाइदमणे दमदत्तउ
न रिउपराजएण अवराइउ
सूरउ जो इंदियरिउ मंजइ
सच्चवाइ वत्तारु भणिज्जइ
एउ सुणेवि विमुक्ककसाएँ
लइ तिह करमि जेम अहिरामई
भल्लउं बोल्लिउ बच्छ सुबुद्धि

एयई गुणनामाई मुणिदहें ।
तेण भणिय दमदत्त भडारा ।
तेण भणिज्जहिं ते अवराइय ।
तेणाणंतविरिय फुहु जइवर ।
निज्जियसत्तु तेण ते साहिय । ५
न सिलासंचालणि बहुसत्तउ ।
मणुयपहुत्तणेण न महाइउ ।
पंडिउ जो मणु धम्मो निउंजइ ।
सदयभावु दायारु भणिज्जइ ।
वुत्तु हसेवि मंति जुवराएँ । १०
एयई नाम होंति महु नामई ।
एम होउ पडिक्खु सुबुद्धि ।

घत्ता—एत्थंतरे अमरहिं चालियच्चमरहिं सेविउ संसयतिमिरहरु ।
आयउ नेमीसर देउ जिणेसर भव्वसरुहरुदिवसयर ॥ ८ ॥

९

तं आयन्नेवि मणि आणंदिउ
सुणेवि धम्मु नियजम्मु विराणउ
तिणमणिसत्तुमित्तसमचित्तउ
पेच्छह पुव्वकम्मु गरुयारउ
अह जइ लहइ कह व तो भूत्तउ
वेयणाप्र पुरिसहो किसकायहो
पुच्छेवि वेज्जु वरोसहु दिन्नउ
हुउ सुहि सासयसिरिअणुराइउ
८. १ सह ।

गंपिणु समवसरणु जिणु बंदिउ ।
हुउ तित्थयरसीसु जुवराणउ ।
विहरइ संजमभारु वहुंतउ ।
लहइ कहिमि नाहारु भडारउ ।
छद्दि होवि नीसरइ निरुत्तउ । ५
सावत्तियमायप्र तत्थायहो ।
तेणोवद्दु छद्दिहि छिन्नउ ।
सउरीपुरु विहरंतु पराइउ ।

तहिं जमुणायबे जमुणावंकें
 थिरु थिउ पडिमाओएँ जोइउ
 रुसिवि भ्रसउणु भणवि निरतरु
 तं सहेवि उप्पाप्रवि केवलु
 भ्रज्ज वि सिद्धैत्तु तहो भ्रच्छइ

राएँ दुम्मइकुमुवभियकें ।
 पारद्विहे जंतेण पलोइउ । १०
 वाणहिं पूरिउ तेण दियंबर ।
 सिद्धु बुद्धु हुउ सासउ केवलु ।
 गंवि तत्थ जणु नबेवि नियच्छइ ।

घत्ता—पचसय पहाणा जिणमयजाणा पुरे कुलालकडे धीरमइ ।
 पोलिय रायाणप्र घल्लेवि घाणप्र पत्ता तो वि समाहि जइ ॥ ९ ॥ १५

१०

दक्खिणदेसि अत्थि अहिरामउ
 तत्थ महीवइ वइरिवियारउ
 तहो महएवि महासइ सुव्वय
 मंति उवासउ नामें पालउ
 अहिनंदणपहइ विक्खाया
 ताहें मज्जे सो एककें मुणिणा
 तेण निमित्तें तेण मयंघे
 रइयदियंबररुवपवचें
 तेण वि तं बइयरु भ्रमुणते

पट्टणु कुंभयारकडनामउ ।
 दंडउ नामें दंडहिं सारउ ।
 साविय पालियपंभाणुव्वय ।
 दुज्जणु जिणमयछिद्दिनिहालउ ।
 साहुह्वे पंचसया तत्थाया । ५
 वाएँ मंति परज्जिउ मुणिणा ।
 सुव्वयमहएवीसंबंधें ।
 रोसाविउ नरनाहु दइच्छें ।
 पीलाविय सयल वि रिसि जंतें ।

घत्ता—मरिऊण समाहिप्र हयभववाहिप्र गय सव्वत्थसिद्धि समण । १०
 सत्तममहि पाविय पावें [भाविय] मंति महीवइ वे वि जण ॥ १० ॥

११

तह य पलीविप्र गोव्वरे गोट्टुप्र'
 पंचहिं रिसिसएहिं संजुत्तउ
 कुसुमउरम्मि महीयलपालउ
 सुव्वय नामें सुव्वयघारी
 भग्गिमु कावि सुबंधु दुइज्जउ
 कविलहो सुउ तेत्थु जि चाणक्कउ
 पयणियजणमणनयणाणंदहो
 लुहिय राय पच्चंतनिवासिय
 दुग्गत्यह बलेण कि किज्जइ

मुणि चाणक्कु थियउ परमट्टुप्र ।
 डज्जंतु वि समाहि संपत्तउ ।
 होंतउ भ्रासि नंदनामालउ ।
 पिययम सयलंतेउरसारी ।
 मंति तासु सयडालु तइज्जउ । ५
 निवसइ बंधणु मुणिचाणक्कउ ।
 कावें एककहिं बासरे नंबहो ।
 एह वत्त एयंत्ते पयासिय ।
 देप्पिणु तो वरि संधि रइज्जइ ।

१०. १ मुणिणा ।

११. १ मोट्टुए ।

तं पडिवन्न वयणु पुहईसैं
वरिसे वरिसे एककेककउ दिज्जइ

संधिय ते घणण मतीसैं । १०
लक्खु सुवन्नहो एम गमिज्जइ ।

घत्ता—इय जंतें कालें पुहईपालें भडारिउ एककहिं दियहे ।
पुच्छिउ भम्महारउ भंडायारउ केत्तिउ अत्थि हिरन्नु कहे ॥ ११ ॥

१२

कहिउ तेण सामिय उन्नइयहें
किं चि वि अच्चइ एउ सुणेप्पिणु
पट्टावेवि किंकर ल्हसाविउ
दिणे दिणे एककेवकउ पेसिज्जइ
तं पेक्खेप्पिणु परिहवु पत्तई
तुम्हहें मज्जे नियाणहो दुक्कइ
भत्तसराउ एहु सो भक्खउ
भुजहि तुहें जि तेहिं सो वुत्तउ
एम होउ भणिऊण खमेप्पिणु
तं आहारमेत्तु भुजंतउ

कावें दिन्न दब्बु मावइयहें ।
नंदनरेदें सो रुसेप्पिणु ।
अंधकूवे सकुडुंबु छुहाविउ ।
कूरसराउ सपाणिउ दिज्जइ ।
कावें नियमाणुसई पउत्तई । ५
वइरहो वइर करहें जो सक्कइ ।
अप्पाणहो आउक्खउ रक्खउ ।
अन्नु न बुद्धिवतु छलइत्तउ ।
छिद्दु कराडिहे थिउ पइसेप्पिणु ।
जीविउ सो परेक्कु गयगत्तउ । १०

घत्ता—विहिं वरिसहिं चम्मट्टियसेसतणुट्टिय हुउ चंडियवेयालु जणु ।
सुणेवि नत्थि बहुजाणउ मतिपहाणउ चलिउ चोरु मावइयजणु ॥ १२ ॥

१३

आयन्नेवि जणवउ संताविउ
गुणु सुमरेप्पिणु भल्लउ भाविउ
किउ आरोयसरीरु पसत्थहिं
ता पुहईसरेण मंतीसरु
तेण वि भग्गिउ मई परमत्थें
लद्धवरेण वियाणियमंतें
अहनिउ नंदनामु चित्तंतें
दियडिअहिं सुइसत्थ भणंतउ
सुत्तकंठु आणक्कु नियच्छिउ

किं किज्जइ नरिदु चित्ताविउ ।
मन्नावेवि कावि कड्ढाविउ ।
वेज्जहिं दिन्नवरोसहिं पत्थहिं ।
भणिउ खमाविऊण भग्गहि वरु ।
तुह घणु नउ देवउं सई हत्थें । ५
पुत्तकलत्तसोयत्तिहित्तें ।
एककहिं वासरे पुरबहि जंतें ।
दब्भसूइमूलाइ खणंतउ ।
किं खणहु त्ति सविणएँ पुच्छिउ ।

घत्ता—बहुबुद्धिवियप्यें [भणिउ सदप्यें] एह वियारियपायतल । १०
मइवर दुहदुइय दब्भहो सूइय अच्छमि तेण खणंतु खल ॥ १३ ॥

१४

एउ सुणेपिणु कावें भणियउ
पभणइ बभणु त ण खणिज्जइ
सो नउ निच्छएण मारिज्जइ
तेण खणंतु मुयमि तावन्नउ
अन्न न एवविहु मई जाणिउ
एँ होंतेण कज्जु पाविज्जइ
इय चित्तेपिणु गंषि विसालहो

हो पुज्जइ छंडह बहु खणियउ ।
जं नउ मूलहो उप्पाडिज्जइ ।
जासु न सिरसबवत्तु लुइज्जइ ।
निम्मूलुक्खय कय जावन्नउ ।
अत्थि जयम्मि गोहू अहिमाणिउ । ५
निच्छउ नंदकुलवखउ किज्जइ ।
लिहिउ सिलोउ तेण दियसालहो ।

शक्यमेकसहस्रेण नीतिशास्त्रविशारद ।

व्यवसायद्वितीयेन जेतुमेना वसुधराम् ॥

चाणक्केण कयाइ निएप्पिणु

लिहियउ अन्नारिसउ करेप्पिणु । १०

शक्यमेकशरीरेण नीतिशास्त्रविशारदे त्येवमादि ।

निग्रवि एउ आणंदिउ मइवरु
नायउ जा ता निसिहे धिवाविउ
लइया ते आणंदियमइयउ
कयउ कुडुवहो एत्तिउ किज्जउ

सई सभज्जु आमंतिउ दियवरु ।
दम्मसहसु पंगणे पुंजाविउ ।
भणिउ भट्टु भज्जइँ जसमइयउ ।
नाह नरिदपतिग्गहु लिज्जउ । १५

घत्ता—केमवि पटु जाविउ पुणु जाणाविउ बंभणीउ मंतीसरहो ।

तेण वि निसुणेपिणु चारु भणेपिणु दिन्नवएसु नरेसरहो ॥ १४ ॥

१५

सामिय सुरहिलक्खु जइ दिज्जइ
अवणीवइणा मंति पउत्तउ
ता लहु तेणक्केक्क पहाणा
सहुँ चाणक्कु तेहिँ पइसारिउ
सो वि सब्ब अगणेपिणु सोत्तिय
उवयरणहिँ अहिमाणेँ जट्टउ
कावें मणे उवाउ परिभाविउ
पभणइ नंदु विप्प विक्खाया
एक्कहिँ वइसरंतु तुहुँ भव्वई
एम भणतएण रोसाविउ

तो अमराहिंवपउ पाविज्जइ ।
मेलावहि दिय देमि निरुत्तउ ।
भेलाविय बंभण बहुजाणा ।
सब्बपहाणासणे वइसारिउ ।
कुंडिय भिसिय मणेत्तिय छत्तिय । ५
रुंधेवि सब्बासणई वइट्टउ ।
सन्नउ कासु वि पासु भणाविउ ।
बंभण कि न नियच्छहि आया ।
धिउ आसणई निरंभवि सब्बई ।
आसणु तें एक्केक्कु मुयाविउ । १०

घत्ता—अवरेणावेप्पिणु भिउडि करेप्पिणु उट्ठि भणिउ जसमइहे वर ।

अग्गासणे राणउ भणइ पहाणउ बइसेसइ बंभणु अवर ॥ १५ ॥

१६

तुहुं केणाणिओ सि लहु नीसरु
एम भणंतहो तहो आरुहियउ
नीसारिउ कोवें कंपंतउ
जसु रज्जेण कज्जु सो आवउ
ता रज्जत्थियउ नंदहो केरउ
पुट्ठिहे लग्गउ तं लेप्पिणु घणु
तहिं कइवयदिवसाइं वसेप्पिणु
अहनिसु तत्थ वि माणिउ मत्तउ
ताम कहिउ केण वि आवेप्पिणु
बुद्धिमंतु जलदुग्गे पइट्टउ
तं निसुणेवि तेण आणाविउ
नंदकंदउप्पाडणचित्तहो

[गं पि दुवारि चिट्ठ निरु नीसरु ।]

तेण वि रूसेप्पिणु गले गहियउ ।

गउ पुरबाहिरु एम भणंतउ ।

नंदवसवुच्छेउ विहावउ ।

चंदगुत्तु नामें दासेरउ ।

५

गउ चाणक्कु णंदमारणमणु ।

पुणु थियउ जलहिमज्जे पइसेप्पिणु ।

जामच्छइ उवाउ चित्तंतउ ।

वणरायहो सीहहो पणवेप्पिणु ।

अच्छइ पुरिसु एवकु मइं दिट्टउ । १०

आयझेवि वइयरु मणं भाविउ ।

किउ कज्जत्थियएण आयरु तहो ।

घत्ता—ता तत्थच्छंतें विरइयमंतें मेलावेप्पिणु मावइया ।

चाणक्कं ठक्कुरनंदहो किकर सयल वि उवयारहिं लइया ॥ १६ ॥

१७

भेउ करेवि नंदु नीसारिउ
रज्जसोक्खु ससिगुत्तहो दिक्षउ
अप्पणु पडिगाहिउ मंतित्तणु
भुजेवि सोक्खु सुइरु निव्विन्नउ
गुहम्मः मइवरणामि दिक्खिउ
सीसहिं पंचसयहिं परियरियउ
महिं विहरंतउ दक्खिणदेसहो
तहिं कौंअउरहो पच्छिमभायउ

अणुमईउ मतीसहो मारिउ ।

पालिउ दियवरेण पडिवन्नउ ।

चित्तिउ देसु कोसु सुहि परियणु ।

सुणेवि घम्मु जिणतउ पडिवन्नउ ।

हुउ संघाहिउ सब्बु वि सिक्खिउ । ५

नं सयमेव घम्मु अवयरियउ ।

गउ चाणक्कु मुणी वणवासहो ।

आवासिउ गयगोउलवायउ ।

घत्ता—कौंअउरहो राणउ सक्कसमाणउ वसुमित्तउ वसुमइरमणु ।

गउ तत्थ मुणिदहें तिहुयणवंदहें वदणहत्तिउ सुइयमणु ॥ १७ ॥ १०

१८

एत्तहे नंदमरणे भयभरियउ
तत्त्वावेप्पिणु थियउ दूमियमणु

मंति सुबंधु नामु नीसरियउ ।

पत्तउ गुणहिं रायमंतित्तणु ।

पहुणा समउ सो वि तत्थायउ
 चितप्र एहु सो दुन्नयगारउ
 लइउ रज्जु पुरु देसु रवन्नउ
 एवहिं दुज्जणु रज्जु मुएप्पिणु
 जं भावइ तं होउ निरुत्तउ
 इय चित्तेवि थिउ मोणु करेप्पिणु
 पंच वि सय सवणहं पुज्जेप्पिणु
 गप्र नरिदे ह्रुप्र सूरत्थमणप्र
 समल वि रिसि करिसें पूराबेवि
 तारिसु तं उवसगु सहेप्पिणु
 धीरधीरु गुरुगुणहिं गुरुक्कउ

मुणि निएवि संजायकसमयउ ।
 मारिउ जेण तामि भम्महारउ ।
 देसचाउ एणम्हहं दिन्नउ । ५
 पेच्छह थिउ खवणउ ह्योएप्पिणु ।
 कहिं महु भज्जु जाइ जीबंतउ ।
 ता पुहईवइ धम्ममु सुणेप्पिणु ।
 गउ निलयहो नवयारु करेप्पिणु ।
 संज्जासमप्र रयणिअममणप्र । १०
 गउ हयासु सो सिहि सावाबेवि ।
 सहुं सीसहिं समाहि पावेप्पिणु ।
 गउ सव्वदुहो मुणि चाणक्कउ ।

घत्ता—पावक्खयगारी भव्वपियारी अच्छइ पच्छिम तहो पुरहो ।
 अज्जवि रिसिसंघे सुयणसलग्गे वंदिज्जइ निसिहीय तहो ॥१८॥ १५

१९

तह उसहसेणु संघे समेउ
 डज्जंणु वि निच्चलु न गिरिदु
 एत्थत्थि दक्खिणावहे गुणालु
 तहिं पुहईवइ वइसवणनामु
 एककहिं विणे दूरुज्जिअयपमाउ
 गउ वंदणहत्तिप्र तासु राउ
 संघाहिवेण जिउ दुट्ठभाउ
 एप्पिणु पज्जालिय वसहि रत्ति

वसहीप्र पलीविप्र पइयसेउ ।
 मुणि मरेवि समाहिप्र हुउ सुरिदु ।
 अंधाण देसि पट्टणु कुणालु ।
 तहो मंति रिद्धिमिच्छत्तु नामु ।
 रिसि उसहसेणु नामेण आउ । ५
 किउ मंतिहिं असहंतेण वाउ ।
 अच्चंत विलक्खउ तेण जाउ ।
 मुउ मुणि मुएवि रुद्धत्तत्ति ।

घत्ता—सहुं सीसहिं धीरउ दडुसरीरउ सिरिचंदुज्जलदेहपहु ।
 समगम्मि सयारप्र सुहसयसारप्र उसहसेणु हुउ देवपहु ॥१९॥ १०

विविहरसविसाले णेयकोउहलाले । लसियवयणमाने अत्थसंदोहसाले ॥
 भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खमु क्खकोसे सुंदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते ।
 पन्नासमो समत्तो संघी कवचाहियारी यं ॥

॥ संधि ५० ॥

संधि ५१

१

ध्रुवयं—लेपिणु पञ्चवक्त्राणु जो मरणे वि न भंजइ ।

सो सप्पुरिसु अरस्स सोवखपरंपर भुजइ ॥

सम्बण्डु सिद्ध केवल महग्घु
किबपञ्चवक्त्राणहो भजणाउ
जे भग्गु न पञ्चवक्त्राणु लेवि
विण्णाडविसण्ण पुरु अरिथि चारु
तहिं सिरिमइमहएवीवरासु
सुदरमइ सल्लवईयनामु
तहो सिरियादेवि पसिद्धनाम
नाणालंकारफुरंतकाय
आसाडहो सियपक्खतरम्मि
सहं परियणेण भोवणु करेवि
गुरुपासु लेहं पचमिबिहणु

सहसक्खि करेपिणु सम्बु सघु ।
वर मरणु मणूसहो जीवणाउ ।
कह निसुणि तासु आलसु मुएवि । ५
नामेण तलाडवि बिह्वससर ।
सिवपडिववक्खहो पुहईसरासु ।
मंतीसरु सावयसीलघामु ।
गेहिणि गुणवसइ मणोद्धिराम ।
सा सइ सिरिपालकुमारमाय । १०
अवरणिह चउत्थीवासरम्मि ।
सिघांसिचइं परिहेवि षंणुरेवि ।
गय जरथ जिम्मालउ पुत्तठाणु ।

घत्ता—भामरि देवि तिवार पुज्जेवि देउ धुणेपिणु ।

गुरुभत्तिण वसुपालु सूरि ससंघु नवेपिणु ॥ १ ॥ १५

२

पंचमिउववासहो सविणयाण
गुरुणा वि सक्खि जिणु मुणि करेवि
पडिगाहियपंचमिबयपइज्ज
जो पंचमीहं पई भव्वमहिउ
आयन्निवि एउ हसंतियाण
एवं होउ त्ति पउत्तु पुत्त
इय भासिवि दुत्थियदुक्खहरहो
मज्झसमण्ण पंचमिहं पुत्तु
तेणुत्तउ कल्लण भोवक्खहेउ
ता केम माण्ण भोयणु करेमि
जणणीण वुत्तु जणजणियपणय

ता मग्गिउ पञ्चवक्त्राणु ताण ।
दिन्नउ चउविह्व वि समुच्चरेवि ।
सिरिपालकुमारे भणिय इज्ज ।
सो मई वि माण्ण उववासु गहिउ ।
तहो ताण्ण नियमु अमुणंतियाण । ५
किउ चारु सलक्खण विणयजुत्त ।
गय मुणि पणवेपिणु सुयणु धरहो ।
लइ आवहि जेमहि ताण्ण वुत्तु ।
उववासु लइउ मई पई समेउ ।
गुरुसक्खि लइउ वउ परिहुरेमि । १०
तं वक्करेण मई भणिउ तणय ।

घत्ता—तेण भणि

सिरिचंडि

गउ सभ्वण्हु सिद्ध साहु देवय पुरु ।

अउं सक्खि करेवि निच्छउ लइउ न वक्कर ॥ २ ॥

३

सं पञ्चक्खाण

पसन्नवाप्र

निसुणेविज्ज

एउ चितापवस

अउं मिप्र

सूरे तण्हादुहाहिं

संजाउ डाहु सोसिउ सरीर

दाहोवयार कीरइ समग्गु

दाविउ रवि बाहिरि करेवि भेउ

जणणीप्र जणेरें भणिउ वप्प

उट्ठुट्ठि वच्छ पूरिय पइज्ज

पभणइ कुमार पयईं प्र सूरु

वेधारहि कि मईं जाणमाणु

अम्हईं जणेर खत्तियकुमार

मरणे वि न भंजमि सच्चु माप्र ।

पिय मायरि होएप्पिणु विसन्न ।

पीडिउ कुमार दावियदुहाहिं ।

मज्जायहो तो वि न चलइ धीर ।

पर तो वि निरारिउ तवइ अंगु ।

पइसारिउ जालिगवक्खि तेउ ।

रवि उइउ नियच्छहि दिठवियप्प ।

लइ देउ नमसहि पियहि पेज्ज ।

अज्जवि न ताय उग्गमइ सूरु ।

कहिं अद्धरत्तसमयम्मि भाणु । १०

अहिमाणिय कुलगुणकित्तिसार ।

घत्ता—नासिज्जइ संगामे जं लेप्पिणु वउ भज्जइ ।

आयहिं विहि मि कमेहिं सुट्ठु लोप्र लज्जिज्जइ ॥ ३ ॥

४

जइ जियमि विहाणप्र ता पवित्ति

इय भणेवि पवित्ति परमदेउ

अगणंतु महंतु सरीरडाहु

जणणेण निएप्पिणु तासु गाहु

गणिणा पउत्तु उग्गमिउ भाणु

मज्झसमउ वट्टइ पवित्तु

पूरिय पइज्ज निट्ठाहजुत्त

वा तेण पणामिबमत्यएण

मईं जाणिउ तुम्हहिं होंतएहिं

साहेसमि पञ्चेत्थिलउ रउट्टे

इय भणेवि होवि संघारसाहु

मुउ गउ कुमार पंचमउ सग्गु

इयरहें आहारहो महु निवित्ति ।

आयंतु चित्तं वड्डियविवेउ ।

जलमज्जे नाईं थिउ दिहिसणाहु ।

इक्कारिवि निय रयणिहिं जें साहु ।

सिरिपाल पलोयहिं हुउ विहाणु । ५

अम्हे वि आय भिक्खानिमित्तु ।

लइ उट्ठहिं करि पारणउ पुत्त ।

गुरु भणिउ कयंजलिहत्थएण ।

परलोउ कुबुद्धिकयंतएहिं ।

पाडह मईं तोलेवि भवसमुदे । १०

दूसहु सहिऊण सरीरडाहु ।

पर तो वि न पञ्चक्खाणु भग्गु ।

४. १ सिक्खानिमित्तु ।

घत्ता—तुहँ वि तेम धिर धाहि पच्चक्खाणु म भंजहि ।
रयणत्तउ भावेवि तुहँ अणंतु अणुहँजहि ॥ ४ ॥

५

पुरिसा आहारनिमित्तु एत्थ
कुलजाय वि दुक्कम्मई कुणति
देसम्मि पसिद्धप्र दक्खिणम्मि
पहु विजयाइच्चु जियारिविदु
सावउ विसुद्धसम्मत्तवंतु
तहो तहिँ कयाइ दुब्बिक्खि जाप्र
मज्झसमप्र वदेवि देउ
नरु एककु जुवाणउ गायउत्तु
खहु एवि छुहावससमियगत्तु
वारंतहो सेट्ठिहे कवलु तेण

अहिमाणि पसिद्ध वि गुणि समत्थ ।
लज्जति ण उच्छिट्ठाई खंति ।
पुरि किसु डणे सुत्थियजणम्मि ।
तहो नम्मवाइ तामें वणिंदु ।
गुणवंतु वसधरिधरिणिवंतु । ५
भुक्खाप्र कयत्थिप्र जणणिक्काप्र ।
जेमतहो मुहिसयणहिँ समेउ ।
लक्खणगुणजोव्वणरूवजुत्तु ।
लगउ भायणप्र मुएवि सत्तु ।
उच्छिट्ठहो भरिउ मरतएण । १०

घत्ता—भणिउ वणिंदे भद् धिरु हो' करक्कम धोप्रवि ।
जेमहि सहुँ अम्हेहिँ अह एककल्लउ होप्रवि ॥ ५ ॥

६

अच्चये वि सुणेवि वणिंदवाय
सहसत्ति भिन्नभायणे वडट्ठु
सहुँ सेट्ठें सभासणु करेवि
हा हा विरुयउ किउ मई भणेवि
सावएण सुणेप्पिणु गपि वुत्तु
बलि किउ हउँ तेण भणिउ वणिदु
कि दुज्जसवंतें जीविएण
इय भणेवि समाहिप्र करेवि कालु
सोहम्मसग्गे वडिहयविवेउ

ता पक्खालेप्पिणु हत्थपाय ।
भुजेवि जहिच्छइ लद्धचेट्ठु ।
तत्रोलु लेवि बहि नीसरेवि ।
सो पडिउ उयरु छुरियप्र हणेवि । ५
भो पुरिस काई किउ इउ अजुत्तु ।
भक्खिउ उच्छिट्ठउ जेण निदु ।
निक्किट्ठु वियारिउ उयरु तेण ।
वणिदयणे मेल्लेवि मोहजालु ।
सजायउ सुरवरु तरणितेउ ।

घत्ता—न गणइ छेप्पाछेप्पु भक्खाभक्खु न भुक्खिउ ।
विणु आहारे जीवु सव्वपयारहिँ दुक्खिउ ॥ ६ ॥

७

आहारगिद्धि दुग्गइहो नेइ
आहारहेउ दुक्किउ करेवि
५. १ उक्किट्ठाई ।

जीवहो दूसहदुक्खाई देइ ।
गउ सालिसिथु नरयहो मरेवि ।
२ होहि ।

इह सव्वदीवसाय रयहल्ले
 नामेण सयंभूरमणे पीणु
 होंतउ दीहत्ते दससयाई
 अड्डाइय जोयणसय क्किसालु
 सो छम्मासावहि जाम चरइ
 अहनिमु अाहारनिमित्तु वासु
 आवेप्पिणु कच्छव मच्छ वेय
 एक्कदुतिकोस चउक्केसमेत्त
 पइसरिय वि खंतहो उव्वरंति
 ते जंत निएप्पिणु सालिसित्थु
 चितइ असंतु निब्बुद्धि एह

रयणायरम्मि सव्वहो महल्ले ।
 तिमियाइ तिमिगिलु नाम मीणु ।
 जोयणहो पंच तुंगिमई ताई । ५
 वारह जोयण भउहंसरालु ।
 छम्मासावहि अह निद्दु करइ ।
 अच्छंतहो निब्बाइयमुहासु ।
 पइसंति वयणे अवर वि अणेव ।
 जे जलयर जलयर पुट्टमत्त । १०
 दंतंतरोहिं नीसरंवि जति ।
 नामेण मच्छु तहो मल्लु सुद्धु ।
 निल्लक्खणु भसु एवडडवेहु ।

घत्ता—जइ महु एत्तियमेत्तु मुहवउ विहि विरयंतउ ।

ता एककु वि परमत्तु जीवु जियंतु न जंतउ ॥ ७ ॥ १५

८

इय चित्तवंतु अहनिमु मरेवि
 इयर वि जीवहो वेरेण पाउ
 दोन्नि वि तेत्तीस समुद्द जाम
 फलरसगिद्धीए अलद्धसरणु
 भोयणपत्त्वावए पायसेण
 हुउ रयणीयर रयणायरत्ते
 एप्पिणु खळेण तम्महमिसेण
 पेसेवि समुद्दे सहो परिपणेण

गउ तमतमपहे दुक्कउ करेवि ।
 आवज्जेवि नारउ तहिं जे जाउ ।
 थिय दूसह दुक्ख सहंत ताम ।
 पत्तउ चक्की वि सुभोमु एत्तु ।
 मारिउ सूयारु डहेवि तेण । ५
 सुमरेप्पिणु चिरचित्तंतु चित्ते ।
 रंजेप्पिणु राणउ फलरसेण ।
 मारिउ मिच्छत्तहो नेवि तेण ।

घत्ता—एउ वियाणेवि सव्व' दिढ दिहिभावण भावहि ।

भोयणु चित्तंतु दुक्खपरंपर पावहि ॥ ८ ॥ १०

९

इय गहियकवउ समभावसहिउ
 धो धी संसारु अणत्थकारि

भावह अणुपेहउ दोसरहिउ ।
 जहिं जणणि वि अहिणि वि होइ चारि ।

७. १. अम्मास माहिनु निद्दु ।

८. १ सव्वय ।

२ ॥ एक्क कवयाहियारो समत्तो ॥

घणदेवहो तर्हि जे भक्त्वि लक्ष्म
उज्जेणिहे गुणसोहृगन्मिन्न
होती अस्सदविणेसरामु
कालंतरेण पुष्पहार जाय
परिहरिय बर्षिदं डुउ विराउ
समएण ताप्र सिमुजुयलु जाउ

पेच्छह संजायउ पिययमाउ ।
बेसा नामेण वसंततिल्लय ।
सत्ताप्र सुदत्तवणीसरामु । ५
बहुवाहिवसेण विरूवकाम् ।
अहवा विरूवे कहो ह्योइ भाउ ।
दट्ठण भणित इउ सन्नह्ये जाउ ।

घत्ता—पोट्टि ठिएण जे एण भोयविग्घु पाविट्टें ।

किउ महु वाहि सुएण गहियविवज्जियइट्टें ॥ ९ ॥ १०

१०

इय भणेवि तणय बन्निखणदिसाप्र
तर्हि कालि पयागपुराउ सत्थु
नामेण सुकेऊ जणमणिट्ट
आणेवि पयत्तं पिययमाहे
ताए वि ताहे कमल त्ति नामु
रूसेवि तस्स तणभो वि ताप्र
ता तर्हि साकेयहो सत्थवाहु
आवासिउ सहुँ सत्थेण तेण
फालियप्र रयणकंवलहो नाउ
तुह तणउ एहु पालहि भणेवि

घल्लाविय निव्विक्काप्र ताप्र ।
आवासिउ एप्पिणु पउरु तिल्लु ।
सा बाली सत्थहिवेण दिट्टु ।
अप्पिय नामेण मणोरमाहे ।
किउ बढ्ढारेवि मणोहिरामु । ५
घल्लाविउ णयरुत्तरदिसाप्र ।
आयउ सुभद्दु सुव्वयहे नाहु ।
सो दिट्ठु बालु वाहिरे गएण ।
निच्छउ न एहु अविस्सिट्टुजाउ ।
नियपियहि सम्पिउ भवणु नेवि । १०

घत्ता—ताप्र वि पियवयणेण पुत्तत्थिणिप्र निहालिउ ।

लइउ निययपुत्तो व्व सव्वपयारहिँ पालिउ ॥ १० ॥

११

घणदेवदिसिहे संपत्तु जेण
गय नियनियनिलयहो वे वि सत्थ
अन्नोन्नु ताहिँ सत्थवाहिवेहिँ
कमला लएवि घणदेउ घरहो
तर्हि भोयसत्तु समेउ तीप्र
वाणिज्जनिमित्तु कयाणुरसउ
तर्हि बेसा बेसायणपहाण
आसत्तउ रंजियजणमणाप्र

घणदेउ नामु किउ तामु तेण ।
कालेण समाया पुणु वि तत्थ ।
किउ विहिँ मि विचाहविहाणु तेहिँ ।
गउ सहुँ सुहीहिँ साकेयपुरहो ।
अच्छेवि सुइह सिधुरगईप्र । ५
उज्जेणि ससत्थु कयाइ आउ ।
पेच्छेवि वसंततिल्लयहिहाण ।
थिउ तर्हि जे विलासाहिँ सन्नउ ताप्र ।

घत्ता—एतहे पुरे साकेष्ट विरहवसें ऋज्जंती ।

अच्छइ कमला निच्छु रमणमग्गु जोयंती ॥ ११ ॥ १०

१२

एक्कहिं दिणम्मि दुक्कियकयंतु
इंतुण मुणिंदु मणोहिरामे
निसुणेवि वत्त दुन्नयविओउ
कमलाष्ट वि जाष्टवि सुणेवि घम्मु
भयवंत चिरावइ काई नाहु
निसुणेवि एउ गंभीरवाणि
उज्जेणिनयरे अमुणंतु भेउ
भुंजंतु भोय कुलिसोयरीष्ट

मुणिगुत्तु नामु विहरंतु संतु ।
थिउ उववणम्मि कमणीयनामे ।
गउ वंदणहत्तिष्ट भव्वलोउ ।
पुच्छेवि पियवत्त विमुक्कछम्मु ।
कि नावइ नाणागुणसणाहु । ५
सुणु सुयणु पयासइ परमनाणि ।
तुह वरु वसंततिलयष्ट समेउ ।
अच्छइ सुहेण सगमायरीष्ट ।

घत्ता —आयअंवि कमलाष्ट पुणु मुणि भणिउ भडारा ।

कि इह परभवे माय सा सदेहनिवारा ॥ १२ ॥ १०

१३

ता मुणिमुहाउ नीसरिय वाय
तं कह आयअह सोमसम्मु
कासवियहे पिउ पयमुहयरीहे
एक्काहे वेयपठणुज्जएहिं
सहिएण तेण पुरवहिगएण
ताणज्जियाउ वे भत्तियाउ
उवहासु विहिउ विवरीउ घम्मु
थेरहो अथेरि तरुणहो वि थेरि

परजम्मे बप्पु इह जम्मे माय ।
नामेण विप्पु पालियच्छकम्मु ।
होंतउ गुणि उज्जेणीपुरीहे ।
सिहिभूइसोमभूइहिं सुएहिं । ५
जइजुयलु दिट्ठु दुन्नयरएण ।
पुज्जेवि' पाएसु पडतियाउ ।
सट्टारहो केरउ सिद्धिकम्मु ।
पेच्छह संजोइय जेण नारि ।

घत्ता—जइ विहि बुद्धहो बुद्धु बुज्जेवि संजोयतउ ।

तरुणहो तरुणि निरुत्तु तो भल्लारउ होतउ ॥ १३ ॥ १०

१४

अवरु वि एवविहु बहुपयारु
गय गेहहो तिन्नि वि जण करेवि
तेत्थु जे बसंतसेणाहि तणय
नामें बसंततिलया पांसद्ध
सिहिभूइ सोमभूई वि वेवि
१३. १ पुच्छेवि ।

उवहासु निमिणगोत्ताबयाह ।
कालंतरेण बंभणु मरेवि ।
पणियंगणाहि हुउ जणियपणय ।
सोहग्गरुव संपयसमिद्ध ।
सह मुय ह्य तहे उयरम्मि एवि । ५

दुस्त्रेण पस्यप्र जुयलु जाउ
तं पालिउ विहिं सत्याहिबेहिं
भत्तार तुहारउ अग्गिभूइ
जो सोमसम्मु दोहँ वि जणेरु
महरिसिनिदाप्र निबद्धपाउ
चिरनेहवसेण समेउ ताप्र
घणदेउ तुहारउ पुत्ति कंतु

घल्लाविउ पुरबहि जणियताउ ।
परिणाविउ पउरघणाहिबेहिं ।
तुहँ पुत्ति निरुत्तउ सोमभूइ ।
चउवेयवियक्खणु नाइ थेरु ।
उज्जेणिहि-वेस मरेवि जाउ । १०
इहभवजणणीप्र अणोवमाप्र ।
अच्छइ वम्महसुहु अणुहवंतु ।

घत्ता—संपइ जायउ पुत्तु ताहे तेण तत्थच्छइ ।

तं न विरूवउ जं न साहुदुगुल्ल पयच्छइ ॥ १४ ॥

१५

निसुणेवि एउ सुमरेवि जम्म
पुणरवि पणवेप्पिणु गुणनिहाणु
किं भयवं महु भासिउ सुणेवि
मुणिवइणा बोल्लिउ नत्थि भंति
ता सा परिओसिय घर मुएवि
मंदिरे वसंततिलयहे पइठ
सो बालु वियक्खण गुणसमग्ग
भत्तारभाइ भायरसुओ सि
हो हल्लरु हल्लरु महु वि भाय

निदेवि ताप्र चिरकिउ कुकम्मु ।
पुच्छिउ परमत्थे मुणिपहाणु ।
गेण्हंति ताई जिणघम्मु वे वि ।
वयणेण ताई तुह घम्मु लेंति ।
गय तहिं तुरंति खुदिय हबेवि । ५
पणमिय तप्र दिआसणे बइट्टु ।
भणिऊण एउ सथवहँ लग्ग ।
तुहँ महु सावत्तउ पुत्तु होसि ।
लइ तुज्झु वि मज्झु वि एकक माय ।

घत्ता—खेलावती बालु एउ भणंति सुणेप्पिणु ।

१०

सा वसततिलयाप्र पुच्छिय कर जोडेप्पिणु ॥ १५ ॥

१६

कहि केरिसु भयवइ एत्थु एहु
ता सा कमलाप्र हसेवि बुत्त
आयससहि जइ थिर करेवि चित्तु
निसुणेवि एहु उवसंतियाहे
तिह कहिउ सम्बु कमलाप्र ताहे
पडिबुद्ध विरइवयणई सुणेवि
चित्तइ हा मई पावाप्र आसि
गुणि बंभणो वि उज्झउ मलेण

कि महु महंतु तुज्झुवरि नेहु ।
साविप्र अम्हारी कह विचित्त ।
ता कहमि सव्वु जं जेम वित्तु ।
घणदेवें समउ सुणंतियाहे ।
जिहु हुउ विराउ अणुसयवसाहे । ५
हुय जाईसरि सा सिरु घुणेवि ।
उवहसिय साहु गुणरयणारासि ।
हुय वेस एत्थ हउं तप्फलेण ।

जे मनु सुय सिद्धिमरुद बे वि
जा पुव्वजम्मे वेहिणि विरुत्तु
पुत्तु वि भसस हवेइ जेत्तु
इय भणेवि असत्तित्तय तवम्मि

ते एहु एह हुउ जुवत्तु एवि ।
सा एवहिं हई एहु कुत्तु ।
किह कीरइ रइ संसरं तेत्तु ।
धिय सहं षण्णवेवं हवम्मवम्मि ।

१०

घत्ता—अवरु वि एउ सुणेवि मिच्छामग्गहो भग्गउ ।

जिणमग्ग सयलु वि लोउ सिरिचंदुज्जले भग्गउ ॥ १६ ॥

विविहरसविससले जेयकोऊहससले ।
ललियवयणमाले अत्थसंदोहससले ।
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे ।
इह खलु कहकोसे सुदरे दिव्रतोसे ॥

भुणिसिरिचंदपउत्ते सुव्विचित्ते णंतपयदसंजुत्ते ।

षण्णदेवकहाए इमो एक्कावन्नासमो संघी ॥

॥ संघि ५१ ॥

संघि ५२

१

धुक्क—राउ वि किकरु किकरु वि होइ राउ कलु कम्मत्तउ ।
अंते वरावत्तहे सखलभवसंसारम्मि निरुत्तउ ॥ (१)

दुवई—कुलबलरूपतेयजुत्तो वि सुभोउ सुभोउ भूवई ।
हुउ पच्छाहरम्मि किमि पेच्छह दुक्कियकम्मपरिणई ॥

देसम्मि विदेहदेसि पवरे	पुडभेयणे मिहिलानामधरे ।	५
होतउ सुभोउ चिरु भूमिक्कई	सो सबलकान्नि निद्धम्ममई ।	
महएवि मणोरम तासु सई	सुउ सुदरु नामे देवरई ।	
एक्कहिं दिणे तत्थ गुणोहगुरु	विहरंतु महामुणि देवगुरु ।	
परमावहिनाणविराइयउ	संघेण समेउ पराइयउ ।	
अलोइवि सरहसु मइयमणु	तहो वंदणहत्तिण्णं जंतु जणु ।	१०
कोऊहलेण तुरयाहहिउ	गउ उववणु पहु परिणयसहिउ ।	
पणवेवि सूरि संसयसमणु	निसुणेवि धम्मु दुग्गइदमणु ।	
पुच्छिउ कहि महु आगामि भउ	आहासहि होसइ केम सउ ।	
तं निसुणेवि गुज्झु न रक्खियउ	मुणिणा मिहिलेसहो अक्खियउ ।	

वत्ता—अज्जहो लम्भेवि सत्तमण्णं दिणे निघायघाएण मरेवउ । १५
पई निव नियपच्छाहरण्णं किमिणा असियसिरेण हवेवउ ॥१॥

२

दुवई—पच्चउ आयवत्तु भज्जेसइ अज्जु जे पुरि पवेसए ।
तुह मुहंपकयम्मि पुहईस पुरीसपवेसु होसए ॥

अवरु वि पहे पेक्खेसईह भुल्लउ	अह गलमवलवणु सुणहल्लउ ।	
विज्जुलियहे बोल्लाहु पियारउ	होसइ तुह वडवाहि किसोरउ ।	
निसुणेवि एउ असइहमाणउ	उट्ठिउ हासु करेप्पिणु राणउ ।	५
भगु छत्तु पबलिहे पइसत्तहो	मुहहु अमेहु पइट्ठु नियंतहो ।	
सयलु वि सवणवयणु संजायउ	निवमणु नीसंदेहहो आयउ ।	
हक्कारेवि देवरइ पउत्तउ	न च्चलइ रिसिआएणु निरुत्तउ ।	

मई सत्तमए दियहे मरिएवउ
गरयउ किणहसीसु जाणेज्जसु
भीयउ भूवइ एम भणेपिणु
पडिउ वज्जु सिरि सत्तमे वासरे

कीडएण वच्चहरे हवेवउ ।
पुत्त पयत्तई मई मारेज्जसु । १०
घिउ जलगम्भे मेहि पइसेपिणु ।
मुउ हुउ किमि निव्वच्चम्भंतरे ।

घत्ता—जोयतेण तणुम्भवेण किमिकुलसकुलि कहमवि दिट्टउ ।
जा मारइ किर ता तहिं जि' कारे विहुरे भएण पइट्टउ ॥२॥

३

दुवई—वच्चइ जहिं जे तहिं जे रइ बंधइ जीवु सकम्मपेरिओ ।
एम भणेवि तेण कयकरुणं परिहरिओ न मारिओ ॥

उक्तं च—यत्र यत्रोपपद्यन्ते जीवाः कर्मवशानुगाः ।
तत्र तत्र रति यान्ति कर्मणा तेन रञ्जिताः ॥

तायहो अयत्थ तारिस निएवि
निदिवि संसारु अणत्थकारि
बलि किज्जउ खलु संसारवासु
इह परभवे वि विपिउ कुणति
इह परभवे वि माया वि मांसु
एत्थत्थि सुकोसलसामिचरिउ
भवे परिभमेवि संबंधु लेइ
भइणी वि भज्ज जणियाणुराय

देवरइ राउ संपय मुएवि । ५
हुउ अवरु वि जणु जिणमग्गचारि ।
देउ वि जहिं सेवइ गम्भवासु ।
बंधू वि वइरि पुरिसहो हवंति ।
भक्खइ नियडिभहो जणइ नासु ।
पयडिज्जइ लोयहो पहयदुरिउ । १०
सत्तु वि पुणु मित्तत्तणु मुएइ ।
भज्जा वि होइ संसारे माय ।

घत्ता—विमलाहेउ विसन्नमणु' वंके वंसहावे मारिउ ।
पेच्छह हुउ नियपणइणिहे गम्भे सुदिट्ठि सुकम्मं पेरिउ ॥३॥

४

दुवई—उज्जेणिहि सुदिट्ठि पयपालहो पुहईवइहे होतओ ।
कचणयारु चारुविघ्नाणं रजियलोयचित्तओ ॥

विमला पिय तहो सीसेण सहिय
जाणंतु वि कंतु न कि पि भणइ
पभणइ पइ कि पि न जेम जेम

अच्छइ खल कुलमज्जायरहिय ।
मणि कज्जु वियापेवि मोणु करइ ।
हुय धिट्ठि निरारिउ तेम तेम । ५

एककहिं दिणम्मि गरहिय वरेण
तह वयणें मेह्णसमग्र तेण
मुउ भोहवसें पइसोहियाहे
आलोयहो केरिसु कम्मभाउ
सुमरेप्पिणु चिरिभउ आलसेण
आलसिउ मुणेप्पिणु दुम्मईग्र

धिय रोसु धरेप्पिणु सा भरेण ।
हउ वुड्ढु बंकनामंकएण ।
संकमिउ गब्भे तक्खणेण ताहे ।
भत्तारु वि होंतउ पुत्तु जाउ ।
अच्छइ सया वि चितावसेण । १०
कोक्किउ सो अलसकुमारु तीग्र ।

घत्ता—सुप्पहमहएविहि तणउ कीलावत्तु नामु विक्खायओ ।
हार वणहो कीलहूँ गयहे तुट्टेप्पिणु विसंचु सजायओ ॥४॥

५

दुवई—पहुवयणेण सब्बसुआरहिं वरचित्तु व वियक्किओ ।
मंदमइहिं सुवन्नरयणुज्जलु नउ मेल्लवहूँ सक्किओ ॥

ता राउलु गपिणु मइसारे
कहिं पई तूसेवि विह्णुणा भाणिउ
कहिउ तेण सो हउँ अवयरियउ
तं निसुणेवि निंदियसंसारे
पिहियासवु नामे मुणि महियउ
सुहमइ भवनिब्बेएँ लइयउ
गउ सउरीपुरवरु विहरतउ
षणयदिसिहि देवासुरपुज्जिउ
उप्पाएवि नाणु अजरामरु

हार समारिउ अलसकुमारे ।
सुय सुदिट्ठिविन्नाणु वियाणिउ ।
निरवसेसु वइयरु वित्थरियउ । ५
लइय दिक्ख राएँ परिवारे ।
केहिं वि सावयवउ संगहियउ ।
अलसकुमारु वि तहिं पव्वइयउ ।
तहिं तणमणिरिउसुहिसमचित्तउ ।
कालिदीतडे कम्मविवज्जिउ । १०
हुउ परमेसरु परमप्पउपरु ।

घत्ता—विसम सुट्ठु ससारगइ विप्पु वि पाणु ह्वावि उप्पज्जइ ।
अग्गिभूईमरुभूइकह एत्थ अत्थि लोयहो पयडिज्जइ ॥५॥

६

दुवई—लहेवि महंतु कि पि कारणु मुणि वयभंगाइ नीरया ।
मरणहिं गिद्धपुट्टपमुहेहिं वि के वि मरंति घोरया ॥

कोल्लइरि आसि
ववगयदुरीहु
सुविसुद्धबुद्धि
मरणेण गिद्ध

पुरि पुत्तरासि
मुणि वम्मसीहु ।
सई करेवि सुद्धि । ५
पुट्टेण सिद्ध ।

सम्बन्धु सरैवि	हुउ धम्मव करेवि ।	
ज्जमणहरम्भि	कोसलपुरम्भि ।	
अरिदुरिवस्सीहु	पहु धम्मसीहु ।	
नयणाहिराम	चंदसिरि नम ।	१०
अलियपयामु	महएवि तासु ।	
नयविजबहुत्तु	पियसेणु पुत्तु ।	
एत्तहे महंते	दक्खिणजणंते ।	
पहयारिराउ	कोल्लइरिराउ ।	
पुरि वीरसेणु	सुविसुद्धघेणु ।	१५
तहो तणिय भाम	वीरमइ नाम ।	
नंबणु पयंडु	नामेण चंडु ।	
अवरु वि सुख्य	चंदसिरि धूय ।	
केयवह्वरीह	सिरिधम्मसीह ।	
रायहो निवेण	सा दिन्न तेण ।	२०
परिणेवि सो वि	नीसल्लु होवि ।	
कइवयदिणेहिं	वसिकयमणेहिं ।	
ईहियसिवेहिं	सहुं बहुनिवेहिं ।	
वारियकुक्कम्मु	निसुणेवि धम्ममु ।	
हयमोहपासे	दमवरहो पासे ।	२५
उवसंतभाउ	निगंगंणु जाउ ।	

घत्ता—क्त्सहे विक्ख लएवि गए मुक्कसन्वकावार ख्यंती ।
 भिज्जइ अहनिमु चंदसिरि दूसहु तव्विमोउ असहती ॥६॥

७

दुवई—पवि हुयवहसिहा वि शिरखेउ^१ वि सव्वु सहिज्जए जणे ।

दुसहु परेक्कु नवर नवरंगए दइयविमोउ जोव्वणे ॥

तारिस ताहे अवस्थ निरप्पिणु

आप्पिउ त्तएं सो जोएप्पिणु ।

खंडाविउ तवु केण धरिज्जइ

जगे बलवंतु कम्मु किं किज्जइ ।

७. १ यहा = चिह्न केकर ऊपर हांसिये मे यह पद्य लिखा है—

सव्वस उप्परि दंडु कउ निगगहु सिरिखेअस्तु ।

ईअहं विहुं वि समयत्तउ जं वि विओहु पिअस्तु ॥

कइ वि दियह अछ्छेपिणु पुणु गउ
 भावि वि पुणु वि चरित्तहो चासिउ
 चरियहँ पुरि कोल्लइरि पइट्टउ
 तं पेक्खि वि भएण मुणि भग्गउ
 महु पावेण एण बहुवारउ
 संपइ पुणु मई पिसुणु घरेसइ
 इय चित्ते वि सन्नासु लएप्पिणु
 मरणकामु सहसा पुरवाहिरे
 कोल्लइरेसरु बिभियच्चित्तउ
 साहु वि सुमरंतउ रयणत्तउ

धम्मसीहु मुणिमग्गहो लग्गउ । ५
 बहु वाराउ एम खम्भालिउ ।
 पुणरवि चंडं चंडं दिट्टउ ।
 इयरु वि तहो अणुमग्गं लग्गउ ।
 किउ वयभंगु सिद्धिवहुवारउ ।
 नेवि एहु वयविग्घु करेसइ । १०
 सई संखेवं भावोचेपिणु ।
 धिउ पइसि वि मयहत्थिकलेवरे ।
 तं जेएवि अनियंतु नियत्तउ ।
 मुउ सोहम्मं सुरत्तणु पत्तउ ।

घत्ता—उसहसेणनामेण तह वइखाणसमरणेण मरेपिणु । १५
 साहिउ सासवसोक्खयरु उत्तमद्धु उवसग्गु निएप्पिणु ॥७॥

८

दुबई—पुरे कुसुमउरे कुसुमसररिउपयपकयभत्तिवंतओ ।
 अत्थि वणिउ उसहसिरिबल्लहु नामे उसहदत्तओ ॥

पुन्नससिमुहो
 गुणअदीणओ
 अवरु सुहयरे
 वणिउ घणवई
 लच्छिकंतहे
 धूय घणसिरी
 सा सुहंकारी
 परिणिया तिणा
 सुरयसुहयरा
 जणमणोहरे
 विसयवारण
 सव्वसंतिए
 पहयदुम्मई
 तववहूरए
 चत्ततणुसिरी

तासु तणुरुहो ।
 उसहसेणओ ।
 तहिँ जि पुरवरे । ५
 वसइ घणवई ।
 तासु कंतहे ।
 हूय नं सिरी ।
 मयणरससरी ।
 उसहदत्तिणा । १०
 कइ वि वासरा ।
 अच्छिओ घरे ।
 लहेवि कारण ।
 [मुणिवरंतिए] ।
 जायओ जई । १५
 पिययमे गए ।
 रुयइ घणसिरी ।

नियवि अंगया	दुहवसं गया ।	
सो कुदिट्टिणा	तेण सेट्टिणा ।	
जोइउं इला	आणिओ बला ।	२०
कयरयव्वयं	भग्गयं वयं ।	

घत्ता—जेणेक्केण जि सव्वु बलु बलिणा पाराउट्टउ किज्जइ ।
मुत्तिहे तं जावं न निउ ताव कि कम्मु पुराइउ खिज्जइ ॥८॥

९

दुवई—अच्छिवि दियह कइवि पुणरवि गउ लग्गउ सवणधम्महो ।
पेक्खेवि दुहिय [दुहिय] समुरेण पुणाणिउ गंपि हम्महो ॥

पुणु वि उवाउ करेवि सयाणउ	अच्छिवि कइवि दिणाहँ पलाणउ ।	
पुणु वि पलोएवि दुप्परिणामे	आणिवि सुयहे समप्पिउ मामे ।	
अच्छिवि पुणु वि छलेण पणट्टउ	पुणु वि तेण जोयंते दिट्टउ ।	५
आणिवि भवणन्तरे छुद्धउ	चित्तइ विसयसुहेमु अलुद्धउ ।	
हउं पावेण एण सताविउ	बहु वाराउ रिसित्तु मुयाविउ ।	
सपइ पुणु वि भंगु तवचरणहो	एहु करेसइ दुक्कियहरणहो ।	
तो बरि आराहण आराहमि	पालमि तउ अप्पाणउ साहमि ।	
इय चित्तिवि समभावि हवेप्पिणु	आलोयण सयमेव करेप्पिणु ।	१०
भुवणत्तयपहुपय सुमरंतउ	सासनरोहें साहु समत्तउ ।	

घत्ता—कडयमउडकेऊरधरु निरुवमरूवपरज्जियवम्महु ।
सजायउ सोहम्मे सुरु अट्टगुणीसरु सूरसमप्पहु ॥९॥

१०

दुवई—रिसिरूवेण राए अहिमारे मारिए समयभत्तओ ।
सुहमइ सत्थगहणमरणेण वि सूरि समाहि पत्तओ ॥

महंतं महंताहिवास समिद्ध	पुर अत्थि सावत्थिनाम पसिद्धं ।	
महाविककमक्कंतभीमारिसेणो	जयाई पयाणं पहु तत्थ सेणो ।	
पिया वीरसेणा सुओ वीरसेणो	बउद्धो गुरू राइणो बुद्धसेणो ।	५
गुणी तस्स तत्थेव सपत्तमाणो	सुहेणच्छए भिक्खुसंघं समाणो ।	
कयाइ भमंतो ससंघो समाओ	जईसो जईसाहिहाणो समाओ ।	
निवो तस्स पासम्मि सोऊण सम्मं	हुओ सावओ छट्ठियं बुद्धधम्मं ।	

सदेसो ससामंतवग्गो समग्गो
सभत्तीण्ण सव्वत्थ सीयम्भसोहा
तम्भो सव्वहा बुद्धधम्मम्मि चत्ते
स कोवग्गिणा वदम्भो पज्जलंतो

तिणा बोहिम्भो जइणधम्मम्मि लग्गो ।
विसेसेण काराविद्या चेइगेहा । १०
हुए पत्थिवे वीयरायस्स भत्ते ।
सया भच्छए तव्वहोवायचित्तो ।

धत्ता—एक्कहिँ दिणे जयसेणु पट्टु जिणधम्मामयरंगे राविउ ।
सुमईपुहइपुराहिवेण बुद्धसेणवयणेण भणाविउ ॥१०॥

११

दुवई—सोहणु बुद्धधम्मु परिहरेवि न तुह जिणधम्मु जुज्जए ।
काउं मित्त खीरु महुरुज्जेवि कि सउवीरु पिज्जए ॥

जइ सुदर अम्हइँ पडिवज्जहि
केमवि तं नउ तेण समीहिउ
तेण वि रूसेवि भडसहसाहिउ
बहुसामग्गिण्ण लद्धविसेसें
तम्भारेवण्ण छिहु नियंतउ
एक्कहिँ दियहे तेण नियपरियणु
अत्थि कोइ जो एत्तिउ सारण्ण
एउ सुणेप्पिणु विक्कमसारें
मारमि हउं थिरु थाहि अंसंसउ
गउ तहिँ जहिँ अच्छइ परमेसरु

तो खवणाणउ धम्मु विवज्जहि ।
गपिणु पुरिसे सुमइहे साहिउ ।
पेसिउ अचलनामु तत्थाइउ । ५
आवासिउ बहि भम्मह वेसें ।
अच्छइ पुरे ववहारु करंतउ ।
भणिउ कज्जकरणाणंदियमणु ।
एहु दुट्ठु पुहवईवइ मारण्ण ।
भणिउ भडेण नाम अहिमारें । १०
एम भणेप्पिणु परमोवासउ ।
जइवइ भव्वंभोरुहनेसरु ।

धत्ता—धम्मु सुणेप्पिणु तेण मणि धुत्ते विणयपरेण पउत्तउ ।
दूसहु मज्झु कुडुबदुहु दिज्जउ पट्टु तवयरणु निरुत्तउ ॥११॥

१२

दुवई—अइआयरु निएवि अविद्याणियतप्परिणामवित्तिणा ।
जइवसहेण तासु तउ दिन्नउ भुवणुच्छलियकित्तिणा ॥

तहिँ कइवयवासर जंति जाम
भावेँ अचेवि थुणेवि देउ
नियगुज्झु कि पि पुच्छइँ मुणिदु
नीसारिउ बाहिरे सव्वु को वि
बंधेप्पिणु कमु सीहु व मयासु

अवरणहे महीवइ पत्तु ताम ।
वंदेवि सूरि संघेँ समेउ ।
एयते पइट्टउ मडे नरिदु । ५
अहिमारु परेक्कु अलक्खु होवि ।
थिउ अंभतरे त्थिक्कवि हयासु ।

घरु बरलउ राउ मंतेवि बंलु
 असिधेणुयाप्र अन्नसह भुणेवि
 एककेण जे घाएँ मूउ महीसु
 कि किज्जइ वयणिससुणनेहु
 उवसमइ नेव विहिणावरेण

महिलगजफुकरसिह नबंनु ।
 नट्टउ अहिमारउ यले हणेवि ।
 चिताविउ तं पेच्छेवि बरिसु । १०
 हा हुउ मरुनु उडाहु एहु ।
 इय वित्तिऊण संजमधरेण ।

घत्ता—एउ कम्मु अम्हहिँ न किउ किउ अहिमारसुण पाविट्टेँ ।
 हा होसइ उडाहु जणे हउ अप्पाणउ एण अणिट्टेँ ॥१२॥

१३

दुवई—गाण वि परिहरेवि रक्खेवी समयहो छाय समइणा ।
 इय रहिरेण लिहिवि भित्तीयले अक्खरपंति समइणा ॥

भावियविहपरमवइराएँ
 जिणपडिमग्गप्र पणमियपाएँ
 भवियकमलबोहणआइच्चें
 परिवज्जियआहारसरीरे
 कालु करेप्पिणु जिणु सुमरंतें
 एतहे हुउ उडाहु महीवइ
 ता तहिँ वीरसेणु संपत्तउ
 कुट्टएण मूणिमारणचित्तें
 विहिवसेण कुट्टयले निएप्पिणु
 उवसंतेण तेण अहिणंदिउ

दूरोसारियविसयकसाएँ ।
 सईं आलोप्रवि चत्तपमाएँ ।
 कयसंवेएँ पालियसच्चें । ५
 छुरिबप्र उयरु वियारिवि धीरे ।
 पत्तउ अमरवरत्तणु संतें ।
 मारिउ खवणएहिँ हा सुहमइ ।
 नियवि वप्पु पाणहिँ परिचत्तउ ।
 कुमरें विप्पियाईं जपंते । १०
 लिहियक्खरईं ताईं वाएप्पिणु ।
 सूरिचरिउ अप्पाणउ निदिउ ।

घत्ता—बुज्जेवि अक्खरत्थु समणसंघु नियाणंवि दोसविवज्जिउ ।
 सिरिचंदुज्जलु गुणनिलउ सव्वेहिँ मि पडु जाविउ पुज्जिउ ॥१३॥

विहिरसविसाले णेयकोऊहलाले । सलियबयणमाले अत्थसंदोहलाले ॥
 भुबणविदिद्वनामे सम्बदोसोवसामे । इह खलु कइकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचंदपउत्ते सुवित्ति एत्थ जणमयाणंदे ।
 सत्थग्गहमरणविही एसो वावन्नमो संघी ॥

॥ संघि ५२ ॥

संघि ५३

१

ध्रुवयं—तह सयडालु वि सत्थरगहणविहीप्र मुग्गो ।
आराहेवि आराहण सुरवर सम्गो ह्वो ॥

निवसंतनिरतरनयरगामु
निरवग्गहु गहचारेण भुवकु
सव्वत्थ वि पवरुज्जाणसीहु
सयवत्तहंससोहियसरंतु
एत्थत्थि पसिद्धउ वच्छदेसु
तहिं दुग्गमपहयविवक्खमाण
मणिकिरणुज्जोइयहट्टमग्ग
पुरि अत्थि पयड कोसन्नि नाम
धणवइनिवपालिय बहुविहूइ
तहो तणिय पइव्वय पिअ मणोज्ज

दुग्गिभक्खदुक्खदुक्कियविरामु ।
निरुवट्टवु पयसपयगुरुवकु ।
नाणाफलपीणियपंथओहु । ५
चंतु व गोघवलियमहिदियतु ।
ज पेक्खवि सम्गु वि करइ वेसु ।
परिहापायारविरायमाण ।
पासायसिहरचुबियनहग्ग ।
अलया इव पुन्नजणाहिराम । १०
तहिं वसइ विउसु वभणु सुभूइ ।
कविला कविला इव विप्पपुज्ज ।

घत्ता—अप्परु अवरु उवप्परु वडपारोहभय ।

ताहे गग्गं पकयमुह नंदण विन्नि ह्य ॥१॥

२

निरक्खरु जाणइ किं पि न जेट्ठु
पहिल्लहो भल्लिय भज्ज सुमित्त
कयाइ इमा वरमदिरलच्छि
तहुज्जमणे अइमुक्खु मणेवि
अमावसवासरे वन्नि समत्थ
तणुच्छउ कालउ वक्खरजुत्तु
किवाणु किवाणसुयाउ व वीउ
स जेट्ठु जे बंभणु ताप्र णवेवि
गिहं गउ पाविउ लाहु हसंतु
हयास अणायहियाहियकज्ज
अयाणहो दोसु वि तोसहो हेउ

वियाणइ वेय सडंग कणिट्ठु ।
दुइज्जहो सुप्पह चारुचरित्त ।
उवत्थिय' मुक्खवयं धवलच्छि ।
वियक्खण वल्लह वाय भणेवि । ५
असेय' बइल्ल विहूसण वत्थ ।
तुरंगमु कालउ कालउ छत्तु ।
तिलाइउ कालउवन्नु सबीउ ।
खमाविउ सब्बु वि कालउ देवि ।
निएवि दुग्गुच्छउ कंतप्र कंतु ।
निरक्खर तुज्जक कांहि गय लज्ज । १०
सुणेविणु भामिणभासिउ एउ ।

२. १ चउत्थिय । २ असोय ।

विसन्नमणो भ्रहिमाणवसेण
बणंतरे देवय का वि निएवि
पसन्नप्र ताप्र वरेण भ्रदीणु

विणिग्गउ गेहहो तित्थमिसेण ।
धिओ तहि भ्रग्गप्र पाप्र पडेवि ।
किओ सुइसत्थपुराणपवीण् ।

घत्ता—पणवेप्पिणु पयपंकय देविहे लद्धवरु ।

१५

आणदियमणु मंदिरु आयउ विप्पवरु ॥२॥

३

भ्रज्जावउ मईप्र निज्जियपरु
तं नउ सत्थु जं न सो जाणइ
हुय पसिद्धि तेत्थु जे आसन्नउ
बंभणु सुज्जसम्मु तहिँ निवसइ
ताप्र महामइ जयविक्खायउ
नमुइविहप्पइसयमहदत्ताहिँ
तत्थायउ वररुइ जत्थ तिथउ
तेण वि पडिगाहिय रंजियमण
वररुइ गुरुदिन्नाप्र पसत्थप्र
सो सविसेसं नमुइहे भासइ
भेसइवयणवसेण चउत्थउ
सयलसत्थवेयत्थवियक्खण

अप्परो वि हुउ सम्बहं उप्परु ।
अहनिमु सीससयहेँ वक्खाणइ ।
अत्थि पयडु वरगामु रवन्नउ ।
बंभणि तहो वसुमित्त महासइ ।
वररुइ नामु पुत्तु संजायउ । ५
एक्कहिँ वासरे समउ समित्तहिँ ।
पणवेप्पिणु अप्परु अम्भत्थिउ ।
अत्तारि वि पडंति दियनंदण ।
एक्कप्र चेव वियाणए संथप्र ।
नमुइ वि पुणु भेसइहे पयासइ । १०
बुज्झइ इंददत्तु चउसंथउ
हुया ते कालेण सलक्खण ।

घत्ता—गोसहासु गुरुदक्खिण मग्गह्वं कुसुमपुरु ।

गय ते नंदनरिदहो पासु नवेवि गुरु ॥३॥

४

नंदो वि पंचत्तु
ता नमुइनामेण
दावियविसेसेण
परिहरेवि नियकाउ
हुउ जणमणाणंदु
गुरुक्कज्जचित्तेहिँ
पाविउ ससोवभ्नु'
अन्नहो समप्पेवि
सोवन्नसयसहिय

तहिँ समप्र संपत्तु ।
विन्नाणघामेण ।
परपुरपवेसेण ।
उट्टविउ खणे राउ ।
थिउ रज्जे पुणु नंदु । ५
सोहणे तहिँ तेहिँ ।
गोसहसु समवभ्नु ।
तं विणउ जंपेवि ।
गुरुदक्खिणा पहिय ।

तं नियवि रुट्टेण
ते मुक्कमज्जाय
इय भणेवि सावेण
नमुइयहो कुलटालु
तुडि होसए भसुहु
भेसइहे तणुसोसु
इय लडगुरुसाव

दियवरवरिट्टेण । १०
सहँ लेवि किं नाय^१ ।
चउरो वि ह्य तेण ।
मज्जेण विट्टालु ।
वररुइहे बहु भसुहु ।
इयरहो तिगहदोसु । १५
ते तत्थ गयगाव ।

घत्ता—धम्माहम्मवियारणे अहियारम्मि धिया ।
जोगाणंदे तित्ति^१वि ओलग्गंति दिया ॥४॥

५

जंतें कालें
रइयपवंचें
पाइउ मज्जं
वारियदुट्टें
पुत्तकलत्तहिं
कूवि छुहाविउ
तेत्थु जे वणियहो
जगवइवित्तहो
अत्थि सुहदा
रंजियजणमण
एक्कहिं वासरे
तडतरुवासें
भूइं दिट्ठी
अकयविसेसैं
बुज्भेवि अबसरु
पडिगाहिय सइ
ता संपत्तो

ता सयडाले ।
सामि अमच्चें ।
कयं अकज्जं ।
तेण वि रुट्टें ।
सो सहुं मित्तहिं । ५
आवइ पाविउ ।
बहु बहुघणियहो ।
सायरदत्तहो ।
नाम सुहदा ।
अहिणवजोव्वण । १०
ण्हंती सा सरे ।
विहियविलासैं ।
हियइ पइट्ठी ।
वणिवरवेसैं ।
आगउ सो घर । १५
सेंधुरवरगइ ।
सायरदत्तो ।

घत्ता—विहिं वि विवाउ परोप्परु जायउ जणु मित्तउ ।
को वि न बुज्भहुं सक्कइ सच्चउ को अलिउ ॥५॥

घत्ता—सुणेवि एउ नंदेण न किं पि वियप्पियउ ।
आरक्खियहो निसुंभहू वररुइ अप्पियउ ॥७॥

८

तेण वि पुरवहि दूरए नेप्पिणु
पहउ न घल्लिउ नीसारेप्पिणु
गामु पलासकूडु जाएप्पिणु
एत्तहै तुगएँ मंड करेप्पिणु
तं काणणे कुमारु मेल्लेप्पिणु
ता तहिँ वग्घभएणावेप्पिणु
अच्छहल्लु साहहै वइसेप्पिणु
तहो वयणे वीसासहो गपिणु

बंभणु गुणि विसिट्ठु मन्नेप्पिणु ।
पहउ पयासिउ रायहो एप्पिणु ।
थक्कउ सो वि अलक्खु ह्वेप्पिणु ।
निउ निवपुत्तु सुनंदु हरेप्पिणु ।
थिउ निसि नग्गोहम्मि चडेप्पिणु । ५
मा वीहहि थिरु थाहि भणेप्पिणु ।
थिउ तहो नियडए निहुउ ह्वेप्पिणु ।
सुत्तउ निवसुउ संक मुएप्पिणु ।

घत्ता—एत्थतरे थिउ पहरए अच्छइ रिछु जहिँ ।

आगउ अणुमग्गेण जि अलियल्ली वि तहिँ ॥८॥ १०

९

भणिउ रिछु हुअं मित्त भमंतउ
अज्जु न कहिँ मि किं पि मइँ पत्तउ
भक्खेवि तुह आसीसउ देतउ
तेणुत्तउ चउरासमपालहो
महूँ सरणागउ अच्छइ सुत्तउ
बोल्लिउ पुल्लि मित्त म रक्खहि
वरि उवयारु रइउ दोजीहहो
सुज्झइ सरणागउ अप्पतहो
एम भणवि रिछु उवसतउ

आहारत्थु एत्थु सपत्तउ ।
घल्लहि माणुसु एहु सुयंतउ ।
जामि जेम होएवि सइत्तउ ।
नंदणु एहु नंदमहिपालहो ।
घल्लमि भणु किह करमि अजुत्तउ । ५
अज्ज वि मणुयसहाउ न लक्खहि ।
नउ मणुयहो निदुयहो दुरीहहो ।
भो इहरत्तु परत्तु ण संतहो ।
पहरए धरेवि कुमारु पसुत्तउ ।

घत्ता—सुत्ति तम्मि पुंडरिएँ बोल्लाविउ कुमरु ।

थिव एयं महू केरउ हणसु छुहापसरु ॥९॥ १०

१०

आयन्नेवि कुमारि वत्तउ
रक्खिउ एण एत्थु हुअं काणणे
भणिउ चमूरें तुहूँ उज्जुयमइ

पुल्लि पयंपहि काइँ अजुत्तउ ।
घल्लमि केम कियंत तबाणणे ।
न बियाणहि अडइयरहूँ परिणइ ।

पिसुणु पहाप्र एहु खाएसइ
भुक्खिउ लइ हउं घल्लहि पासमि
तुहुं निब्भउ होएप्पिणु भवणहो
एउ सुणेवि अरुज्झियसारे
निवडमाणु वडसाहहे लग्गउ
सविउ रायसुउ उन्ने वा ते
अवरु न कि पि चवंतहो एसइ

निच्छउ पइँ कुमार मारेसइ ।
उज्जुय उज्जि जमाणणे पेसमि । ५
जाहि मित्त हुप्र उग्गमे तवणहो ।
पंल्लिउ रिछु करेहिँ कुमारेँ ।
दिव्वु पवंचिउ को वि बलग्गउ ।
हं कि चि दु से मि त्ति मुप्रवि ते ।
रे ह्यास मइनासु हव्वेसइ । १०

घत्ता—होमहि सुहि तहो दंसणे जणविभियकरहं ।
जो जाणेसइ एयहँ अत्थु दसक्खरहं ॥१०॥

११

एम भणेवि पयासियमायउ
कुमरु वि भवणु विहाणइ आयउ
उन्नवाइ एउ पर बोल्लइ
कयखूणहो कयाइ परदूसहु
दिन्नउ पेम्भणु ज न महीयले
न तो सश्वु गामु विब्भाड'म
गउ नरु रायाएसु भणेप्पिणु
वररुइणा विउसे धीरेप्पिण
विभिण राएण नियच्छिय
देसतरिउ एवकु इह अच्छइ

रिछु सवग्घ अदंसणु जायउ ।
चवइ न किंचि बियंभियवायउ ।
सव्वहँ कहिउ न कोइ वि मेल्लइ ।
कुविउ पलासकूडगामहो पहु ।
त आणह जलु जतउ नहयले । ५
कारागारे छूहेप्पिणु साडमि ।
चिंताविय गामीण सुणेप्पिणु ।
पंसिय ऊसहकुभ भरेप्पिणु ।
कहिउ उवाउ केण ते पुच्छिय' ।
सो अम्हहँ उवएसु पयच्छइ । १०

घत्ता—इय पुरिसेहिँ पयासिउ आयन्नेवि निउ ।

धुत्तु को वि सो निच्छउ अवघारेवि थिउ ॥११॥

१२

पेसइ इह निवकूवु पउत्तउ
अवरु वि ज ज भणिउ महीँ
दिय'हँ न रत्तिहिँ नउ गयणग्गं
भासिउ नदे सा एत्थावउ
ता वररुइणा किउ जिह वुत्तउ
सुउ निवसुउ चवतु पुव्वुत्तउ
११ १ पुत्तिय

दित्तउ तहो पच्चुत्तरु जुत्तउ ।
तं तं किउ विप्पेण विसेसँ ।
चडिउ न कत्थइ नउ पयमग्गं ।
देसिउ महु अप्पाणउ दावउ ।
आगउ सभहे रहे लंबतउ । ५
अत्थु बियाणेवि तेण पउत्तउ ।

तथा च—उत्तिष्ठोत्तिष्ठ दुर्बुद्धे न त्वं किमपि बुद्धयमे ।
स्मरं गिक्ष तथा व्याघ्रं न्यग्रोधे यत्त्वया कृतम् ॥१॥

नेतासौ सर्वहत्यानां यो मित्रं हन्ति दुर्मतिः ।
मित्रधुक् नरकं याति न जातु सुखमेवते ॥२॥ १०

बालहत्याबलाहत्या वृद्धहत्या वरं कृता ।
न पापा मित्रहत्या मावनतासुखदायिनी ॥३॥

तेन त्वं पापं पापेन दुस्सहेन नराधम ।
दह्यमे हृदयस्थेन शुष्कवृक्षो यथाग्निना ॥४॥

हन्ति जातौ विजातौ च ह्युभौ पक्षो नराधमः । १५
यो मित्रं सुखमासीनं छद्मनैव प्रवच्छति ॥५॥

किं त्वदीयं कृतं तेन मित्रेणाभयदायिना ।
येन निद्रावशीभूतं तं त्वं हतुं समुद्यतः ॥६॥

चित्ताह्लादकं मित्रं विश्वस्तं च हिनस्ति यः ।
पापादापं स पापीयान्यथा त्वमसि दुर्मते ॥७॥ २०

दुःटात्मानं न जानासि यथा शास्त्रेषु पठयते ।
मित्रद्रोहात्परं पापं न भूतं न भविष्यति ॥८॥

सेतुं यातुं समुद्रं वा गगाद्याः सर्गिताऽथवा ।
ब्रह्महा मुच्यते तत्र मित्रधुग् नैव मुच्यते ॥९॥

मित्रवधुरित्यक्तः सुहृद्भृत्यविवर्जितः । २५
लोकानलभमानस्तु नरके निपतिष्यति ॥१०॥

आयन्नेवि एउ अणुगाए भासए भणुज विद्याणवि राएँ ।

ग्रामवासी मनुष्यस्त्वमटव्यां त्वत्प्रयोजनम् ।
पशूनां नरशार्दूलं कथं जानासि भाषितम् ॥

ता विउसँ तेणेहउ भासिउ अणुउँ एहु वयणेण पयासिउ । ३०

हृदये मम सावित्री जिह्वाये च सरस्वती ।
तेनाहं नृपं जानामि भास्का तिलकं यथा ॥

हुज सुउ सुहि नरवइ परिभोसिउ

वरमइ वररुइ विप्पु पसंसिउ ।

घत्ता—सम्माणेवि विसेसें अप्पिउ पुणु वि पउ ।

रक्खिउ जेण तलारे सो वि कबत्थु कउ ॥१२॥ ३५

१३

सहुं हरिदत्तें गय गहवइणा

ता तहिं पडिउ एउ भेसइणा ।

पडंगं यस्य जिह्वाप्रे क्रमो येन च पालितः । चतुर्वेदनिधिः सोऽहं दैवेनाक्रम्य वंचितः ॥

संजायए गुरुसावविभ्रोयए

धिय तिमि वि नियनियए निभ्रोयए ।

काले जंते तत्थायउ गुणि

विहरमाणु महपोमु महामुणि ।

तहो समीवे जिणघम्मु सुणेप्पिणु

मुएवि गंधु बइरायहो गंपिणु । ५

नंदमंति कियदुक्कियसंवह

सजायउ सयडालु दियंबइ ।

गउ गुरुणा समेउ देसंतह

संघहो भत्ति करंतु निरंतह ।

चरणकरणसिद्धंत पढेप्पिणु

पुणरवि तत्थायउ विहरेप्पिणु ।

चरियामग्गे पइट्ठु निएप्पिणु

पुव्ववइरसंबंधु सर्रेप्पिणु ।

पाविट्ठेण पवंचु करेप्पिणु

एत्तहे भामरि देहि भणेप्पिणु । १०

घत्ता—वररुइणा अतेउरि पेसिउ तत्थ थिउ ।

भुंजेप्पिणु जिणभवणहो गउ तवलच्छिपिउ ॥१३॥

१४

गंपिणु पच्चक्खाणु लएप्पिणु

गोयारियपडिकमण करेप्पिणु ।

जामच्छइ सम्भायहो लगगउ

[वररुइ ताम कहुइ रायहो गउ] ।

अज्जु सामि सयडालु तुहारए

अतेउरे आणंदजणेए ।

खलु भिक्खामिसेण पइसेप्पिणु

गउ खवणउ विद्धंसु करेप्पिणु ।

एउ सुणेवि तासु सकसाएँ

पेसिय किकर मारहुँ राएँ । ५

सुणेवि सो वि सिग्घं आलोइवि

पव्वज्जाए विसुद्धउ होइवि ।

आहाराइनिवित्ति करेप्पिणु

पच्चमहागुरुपय सुमरेप्पिणु ।

छूरियए उयह वियारेवि धोरउ

साहु समाहिए चत्तसरीरउ ।

हुउ ईसाणसग्गे सुरसारउ

निरुबमवेउव्वियतणुधारउ ।

निसुणेवि वत्त परिकख करेप्पिणु

निच्छउ मुणि निहोसु मुणेप्पिणु । १०

नरवइणा वररुइ पच्चारिउ

वित्थारेवि नयरहो नीसारिउ ।

धम्मस्सवणु मूणेवि अहिरामहो

संवाहियहो पासि महपोमहो ।

घत्ता—वरहेण्विणु हुब्बिलसिउ सिरिचंदुण्वमउ ।

ल इउ धम्मु जइणेसरु ससमसुहण्विसउ ॥१४॥

विबिहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणुमाले अत्थसंदोहसाले ॥
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोषसामे । इह ललु कहकोसे सुंदरे दिन्नतोसे ॥

मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते ।
एसो पन्नासमओ तिहिं अहिल सवमणिओ संधी ॥

॥ सीध ५३ ॥

ग्रंथकर्तुः प्रशस्तिः

सर्वज्ञशासने रम्ये घोराघोषविनाशने ।
 धर्मनिकण्डुणाघारे सूरस्त्रे सुरसंस्तुते ॥१॥
 अणहिल्लपुरे रम्ये सज्जनः सज्जनोऽभवत् ।
 प्राग्वाटवंशनिल्पन्नमुक्त्वारत्नशताग्रणीः ॥२॥
 भूषराजनुपेन्द्रस्य धर्मस्थानस्य गौष्ठिकः ।
 धर्मसारधराधारः कूर्मराजसमः पुरा ॥३॥
 कृष्णनामा सुतस्तस्य गुणरत्नमहोदधिः ।
 बभूव धर्मकर्मण्ये जनानां मौलिमण्डनम् ॥४॥
 निन्द्यान्वयं महामुक्तामालायां नायकोपमः ।
 अतुविषस्य संघस्य दानवीयूषवारिवः ॥५॥
 स्वसंका जयती तस्य कृष्णस्येव सुमन्त्रिका ।
 राणूनामा प्रिया साध्वी हिमांशोरिव चन्द्रिका ॥६॥
 तस्यां पुत्रत्रयं जातं विश्वसर्वस्वभूषणम् ।
 बीजासाहणपालारव्यौ साढवेवस्तृतीयकः ॥७॥
 अतल्लभ्य सुतास्तस्या धर्मकर्मकविदाः ।
 सिरौ (श्री ?) भृंगारवेवी च सुन्दूः सोऽरिति क्रमात् ॥८॥
 कलिकालमहाव्यालविषव्यालुप्तचेतसः ।
 जंनधर्मस्य सम्पन्ना जीवातुस्तत्र सुन्दका ॥९॥
 महाधावककृष्णस्य सन्तानेन शुभात्मना ।
 व्याख्यापितः कथाकोशः स्वकर्मक्षयहेतवे ॥१०॥
 कुन्देन्दुनिर्मले कुन्दकुन्दाचार्यान्वयेऽभवत् ।
 धर्मो मूर्त्तः स्वयं वा श्रीकीर्तिनामा भुमीश्वरः ॥११॥
 तस्मात्समोपहृः श्रीमान्सप्रभावोऽतिनिर्मलः ।
 श्रुतकीर्तिः समुत्पन्नो रत्नं रत्नाकरादिव ॥१२॥

विद्वान् समस्त शास्त्रार्थविचारचतुराननः ।
 शिरश्चन्द्रकराकारकीर्तिव्याप्तजगत्त्रयः ॥१३॥
 व्याख्यातृत्वकवित्वाविगुणहंसैकमानसः ।
 सर्वज्ञशासनाकाशशरत्पार्वणचन्द्रमाः ॥१४॥
 गार्गेयभोजवेवाविसमस्तनृपपुङ्गवैः ।
 पूजितोत्कृष्टपादारविन्दो विध्वस्तकल्मषः ॥१५॥
 भव्यपद्माकरानन्दी सहस्रांशुरिवापरः ।
 ततो गुणाकरः कीर्तिसहस्रोपपदो ऽ जनि ॥१६॥
 कर्पूरपूरोज्वलचारुकीर्तिः
 सर्वोपकारोद्यतचित्तवृत्तेः ।
 शिष्यः समाराधितवीरचन्द्रः
 तस्य प्रसिद्धो भूवि वीरचन्द्रः ॥१७॥
 सूरिभ्रारित्रसूर्यस्य तस्य तत्त्वार्थवेदिनः ।
 विवेकवसतिविद्वान् शिष्यः श्रीचन्द्रो ऽभवत् ॥१८॥
 भव्यप्रार्थनया ज्ञात्वा पूर्वाचार्यकृतां कृतिम् ।
 तेनायं रचितः सम्यक् कथाकोशोऽतिसुन्दरः ॥१९॥
 यदत्र स्खलितं किञ्चित्प्रमादवशतो मम ।
 तत् क्षमन्तु क्षमाशीलाः सुधियः शोधयन्तु च ॥२०॥
 यावन्महीमरुन्मर्त्या मरुतो मन्वरोरगाः ।
 परमेष्ठीपावनो धर्मः परमार्थपरमागमः ॥२१॥
 यावत्सुराः सुराधीशः स्वर्गचन्द्रार्कतारकाः ।
 तावत्काव्यमिदं स्थेयात् श्रीचन्द्रोज्वलकीर्तिमत् ॥२२॥

॥ इति श्री कथाकोशः संपूर्णः ॥

